

जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश

प्रथम स्वरूप

लेखक

श्री जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'
संस्थापक 'वीर-संवा-मन्दिर'
सरसावा, जिला सहारनपुर

['पत्त-परीक्षा' आदि के लेखक; स्वयम्भूष्टोत्र युक्त्यनुग्रामन, समीचीन-
घर्मंशास्त्रादि ग्रन्थोंके विचार, अनुवादक, टीकाकार एवं भाष्यकार;
अनेकान्तादि-पत्रों और समाधिनन्द्रादि ग्रन्थोंके सम्पादक]



प्रकाशक

श्रीवीर-शासन-संघ, कलकत्ता

आषाढ़, बीर-निवारण स०२५८८, विक्रम सं०२०१३

प्रथम संस्करण]

जुलाई १९५६

[एक हजार प्रति

प्रकाशक
बोटेलाल जैन
मंत्री 'श्रीवीर-शासन-संघ'
२६, इन्द्र विश्वास रोड, कलकत्ता ३७

प्राप्ति स्थान
(१) वीर-सेवा-मन्दिर
२१, दिल्लीगढ़, दिल्ली
(२) वीर-शासन-संघ
२६, इन्द्रविश्वास राड, कलकत्ता ३७

मुद्रक
सम्मति प्रेस
८३०, गली कुड़ास, दरीबा कर्ला
दिल्ली

प्रकाशकीय

‘जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश’ नामक प्रथमका यह प्रथम खण्ड पाठकोंके समझ उपस्थित किया जा रहा है। इसमें प्राच्य-विद्या-महाराणीव आचार्यश्री जुगलकिशोरजी मुख्तारके उन लेखोंका संग्रह है, जो समय समय पर अनेकान्तादि पत्रोंमें और अनेक स्व-पर-सम्पादित ग्रंथोंकी प्रस्तावनाओंमें प्रगट होते रहे हैं। लेखोंकी संख्या इतनी प्रचिक है, कि यह संग्रह कई खण्डोंमें प्रकाशित करना होगा। इस प्रथम खण्डमें ही ७५० के लगभग पृष्ठ हो गये हैं। दूसरे खण्डोंमें भी प्रायः इतने ही पृष्ठोंकी संभावना है।

इतिहास-अनुसधानाओं और साहित्यिकोंके लिए नई नई लोडों एवं गवेषणाओंको लिए हुए ये लेख बहुत ही उपयोगी हैं, और नित्य के उपयोगमें आनेकी चीज है अर्थात् एक अच्छी Reference book के रूपमें स्थित है अतएव इन सब लेखोंको एकत्रित कर पुस्तकके रूपमें निकालनेकी अतीव आवश्यकता थी। पं० नाधूरामजी प्रेमीके जैन साहित्य और इतिहास विषयक लेखोंका एक संग्रह कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। वह कितना उपयोगी सिद्ध हुआ, इसे उपयोगमें लाने वाले विद्वान् जानते हैं। इस संग्रहमें उस संग्रह के कुछ लेखों पर भी कितना ही नया तथा विशद प्रकाश ढाला गया है। जैनोंके प्रामाणिक इतिहासके निर्माणमें इस प्रकारकी पुगतत्त्व सामग्रीकी मतीव आवश्यकता है। जैनसमाजमें इस प्रकारके युग-प्रवर्त्तक विद्वानोंमें पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार और पं० नाधूरामजी प्रेमीके नाम ही अग्रगण्य हैं। अतः इन दोनों प्राकनविमर्श-विचक्षण विद्वानोंका भारतीय समाज सामान्यतः और जैन समाज विशेषतः जहरी हैं।

इन लेखोंको पढ़ते हुए पाठकोंको जात होगा, कि इनके लिमार्गी में लेखक को कितने अधिक अम, सम्मीर चिन्तन, अनुभव, मनन, एवं शोष-खोज से काम लेना पड़ा है। यद्यपि श्री मुहस्तार साठ की लेखनशैली कुछ अमीर होती है पर वह बहुत जैवी-नुली, पुनरावृत्तियों से रहित और विषयको स्पष्ट करने वाली होनेसे अनुसंधान-विज्ञानियोंके लिए अतीव उपयोगी पड़ती है और सदा आर्य-दर्शकके रूपमें बनी रहती है। इन लेखोंसे अब हमारे इतिहासकी कितनी ही उल्लंघन सुलझ गई है। साथ ही अनेक नये विषयोंके अनुसंधान का क्षेत्र भी प्रवास्त हो गया है। कितने ही ऐसे ग्रंथोंके नाम भी उपलब्ध हुए हैं, जिनके कुछ उद्दरण तो प्राप्त हैं, पर उन ग्रंथोंके अस्तित्वका अभी तक पता नहीं चला। नाम-साम्य को लेकर जो कितनी ही आनंदियां उपस्थित की जा रही थीं या प्रचलित हो रही थीं, उन सबका निरसन भी इन सब लेखोंसे हो जाता है।

यद्यपि हमारा विज्ञाल प्राचीन साहित्य कई कारणोंसे बहुत कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो चुका है, किर भी जो कुछ अवशिष्ट और उपलब्ध है, उसमें भी साहित्य इतिहास और तत्त्वज्ञानकी अनुसन्धान-योग्य बहुत कुछ सामग्री संश्लिष्ट है, अतः उस परसे हमें प्राचीन साहित्यादिके अनुसंधान करनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह कार्य नभी संभव हो सकता है, जबकि हम सर्व प्रथम अपने आचार्योंका समय निर्धारित कर लेवें। तत्पश्चात् हम उनके साहित्यसे आने इतिहास, संस्कृत और भाषा-विज्ञानके मम्बन्धमें अनेक अमूल्य विषयोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अतः हमें उन विकृत ग्रंथोंकी खोजका भी पूरा यत्न करना होगा, नभी सफलता मिल सकेगी।

भारतके प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलालजी नेहरूने अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि 'भगर कोई जाति अपने माहित्य-उत्प्रयत्नकी उपेक्षा करती है तो वही से बड़ी घन-राशि भी उस जाति (Nation) के उत्कर्षमें सहायक नहीं हो सकती है। साहित्य मनुष्यकी उप्रतिका सबसे बड़ा साधन है।

कोई राष्ट्र, कोई धर्म अथवा कोई समाज साहित्य के बिना जीवित नहीं रह सकता, या यों कहिये कि साहित्यके बिना राष्ट्र धर्म एवं समाजकी कल्पना ही असंभव है। सुप्रसिद्ध विद्वान् कालाहिलने कहा है, कि 'ईशां

धर्मके जीवनका कारण बाईबिल है यदि बाईबिल न होती तो इसाई धर्म कभी भी जीवित न रह पाता'।

भाषा किसी देशके निवासियोंके मनोविचारोंको प्रगट करने का साधन मात्र ही नहीं हीनी किन्तु उन देशनासियोंकी संस्कृति का सरकरण करने वाली भी होनी है। साहित्यके अन्दर प्रादूर्भाव हो कर कोई भी भाषा ज्ञान-का संचित कोष एव संस्कृतिका निर्भल दण्ड बन जानी है। राष्ट्रको महाभूमि बनानके लिये हमें नघणनी और वरमय भूतीत संस्कृतिका ज्ञान होना आवश्यक है।

साहित्यकी तरह इतिहास भी कम महत्वकी वस्तु नहीं है। हम लोगोंमें इतिहास-मूलक ज्ञानका एक प्रकारसे अभाव भा हो गया है। हमारी कितनी ही महत्वकी साहित्यिक रचनाओंमें समय और कर्ताका नाम तक भी उपलब्ध नहीं है। सामाजिक संस्कृतिकी रक्षाके लिये ऐतिहासिक ज्ञान और भी आवश्यक है। पुरानत्वके अध्ययनके लिये मानव विकासका ज्ञान अनिवार्य है और यह तभी भव्य है जब कि हम अपने साहित्यका समयानुक्रम हासिले अध्ययन करनम प्रवृत्त हो।

‘निहासमे ही हम अपने पूढ़जा उथान और पतनक साथ साथ उनके कारणोंको भी ज्ञात कर उनसे यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं।

हम अपने पूढ़ महापुरुषोंका स्मृतिको प्रभुष्णे बनाये रखना होगा जिससे हमारा सनानके समक्ष अनुभरण करनके लिये समुचित आदश रहे। माथ ही अपने पूढ़ ज्ञान श्रद्धा बढ़ानके लिये यह भी आवश्यक है कि हम उनके साहित्य एव अन्य कलियों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर।

किसी भी देशका धर्मका और जातिका भूतकालीन इतिहास उसके वत्तमान और भवित्यको सुगठित करनके लिये एक समर्थ साधन है। इतिहास ज्ञानकी अन्य शास्त्राओंकी भाँति, सत्यका और तद्यपूर्ण घटनायाको प्रकाशित करता है जो साधारणत आँखोंसे आँखन होती है।

इम सग्रहका प्रगट करनके लिये मैं कई वर्षोंमें चेष्टा कर रहा था, और श्रीमुस्तार साठ से कई बार निवेदन भी किया गया कि वे अपने लेखोंकी पुनरावृत्तिक निय एक बार उन्ह सरसरा नवेरसे दक्ष जाय, और जहा कहीं संस्थोधनादिकी जरूरत हो उस कर देवें। पर उन्हें अननवकाशकी बराबर

शिकायत बनी रहनेके कारण यह काम इससे पहिले सम्पन्न नहीं हो सका, प्रस्तु ।

आज इस चित्रप्रतीक्षित लेखसंग्रहके प्रथम लेखकोंके पाठकोंके समझ रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । प्राशा है पाठक इस महत्वपूर्ण लेखसंग्रहसे यथोचित लाभ उठाने में समर्थ होंगे ।

अन्तमें मैं इतना और भी प्रगट कर देता चाहता हूं, कि इस संप्रहर्में ३२ लेखों—निबन्धोंका संयह है जैसा कि लेख-सूचीमें प्रगट है । अन्तका 'समन्त-भद्रका समयनिरांय' नामका ३२वाँ लेख मुख्तारसा०की हालकी नई रचना है, वह उस समयसे पहिले नहीं लिखा जा सका जो उसपर दिया हुआ है, और इसीमें उसे समन्तभद्र-सम्बन्धी लेखोंके सिलसिलेमें नहीं दिया जा सका । उसके पूर्ववर्ती लेखपर भी जो नम्बर ३२ पढ़ा है वह छपनेकी गलतीका परिणाम है, 'छपने में २६के बाद लेखों पर न८ आदि नम्बर पढ़ गये हैं, जबकि वे २७ प्रादि होने चाहिये और तदनुसार मुधार किये जानेके योग्य हैं ।

कलकत्ता

ज्येष्ठ सुदी ५ (अनुपञ्चमी)
बीर निः० सम्बत् २४८८

छोटेलाल जैन

मंत्री—श्रीचीरशासनसंघ
कलकत्ता



॥ इस सूचीमें यह भी सूचित कर दिया गया है कि कौन लेख प्रथमतः कब-कहां प्रकाशित हुआ है और जिन लेखोंका निर्माण-काल मालूम हो सका है उनका वह समय भी लेखके अनन्तर दे दिया गया है ।

लेख-सूची

१ भगवान् महाबीर और उनका समय (अनेकान्त वर्ष १ मंगसिर बीर सं० २४५६)	१
२ बीर-निर्वाण-सम्बतकी समाजोचना पर विचार (अनेकान्त वर्ष ४ नवम्बर १६५७)	४५
३ बीर-शासनकी उत्पत्तिका समय और स्थान (अने० १६५३)	५७
४ जैन ताथकराका शासन-भेद (जैनहितीषी वर्ष १२ अगस्त १६१६)	६७
५ श्रुतावतार-कथा (बीर अक्टूबर १६३६)	८०
६ श्रीकृन्दकुन्दाचाय और उनके मन्थ, दिसम्बर १६५८ (पुरातन जैनवाक्य-सूची-प्रस्तावना सं० १६५०)	८६
७ तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ता कुलदकुन्द (अने० वर्ष १ बीरसम्बत २४५६)	१०२
८ उमास्वाति या उमास्वामी (अने० वर्ष १ बीरसं० २४५६)	१०६
९ तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति (अने० वर्ष १ बीर भूम्बत २४५६)	१०८
१० तत्त्वार्थाधिगम सूत्रकी एक साठप्पण प्राप्त, ११ नवम्बर १६३६ ११२ (अने० वर्ष ३ बीर सं० २४६६)	११२
११ वर्ष ८ तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यकी जांच, १८ जुलाई १६४२ (अने० वर्ष ५ सं० १६४२)	१२५
१२ स्वामी समन्तभद्र, वैशाली शुक्ल २ सम्बत १६८२ (रत्नक० प्रस्तावना-स्वामी समन्तभद्र)	१४६
१३ समन्तभद्रका मुनि-जीवन और आपत्काल	२०७
१४ समन्तभद्रका एक और परिचय पर्च, २ दिसम्बर १६४४ (अने० वर्ष ७ सं० १६४४)	२४१
१५ स्वामी समन्तभद्र धर्मेशास्त्री, ताकिंक और योगी तीनों थे २७ दिसम्बर १६४४ (अने० वर्ष ७ सं० १६४४)	२४५
१६ समन्तभद्रके प्रेयोंका संक्षिप्त परिचय (रत्नक० प्रस्ताव०)	२५८
१७ गच्छहस्ति महाभाष्यकी स्तोत्र, वैशाली शुक्ल २ सं० १६८२ (जैनहितीषी १६२० रत्न० प्रस्तावना सं० १६२५)	२७१
१८ समन्तभद्रका समय और डाक्टर के० बी० पाठक (जैनजगत वर्ष ६ जुलाई सं० १६३४)	२८७

१६ सर्वार्थमिद्धिपर ममन्तभद्रका प्रभाव (प्रन० दिसम्बर १९४२) २२३
२० समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या (स्तुतिविद्या-प्रस्तावना जुलाई १९५०) २५०
२१ समन्तभद्रका स्वयम्भूतोत्त्र (स्वयंभूतोत्त्र-प्रस्तावना जुलाई ५१) २५८
२२ समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन (युक्त्यनु० प्र० जुलाई १९५१) ४२१
२३ रत्नकरण्डक कर्तृत्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय ४३१
२४ प्रप्रैल १९४८ (अनें० वर्ष ६ सन् १९४८)
२४ भगवती आराधना, दिसम्बर १९४८ ४८४ (पुरा० जैन वाक्यसूची-प्रस्तावना)
२५ भगवती आराधनाकी दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ ४८७ १० अगस्त १९३८ (अनें० वर्ष २ वीर स० २४६५)
२६ कार्तिकेयानुप्रेत्ता और स्वामिकुमार, दिसम्बर १९४८ ४८८ (पुरा० जैन वाक्यसूची-प्रस्तावना)
२७ सन्मतिसूत्र और सिद्धसंसन, ३१ दिसम्बर १९४८ ५०१ (अनें० वर्ष ६, दिसम्बर १९४८)
२८ तिलायपरण्णती और यतिवृषभ, दिसम्बर १९४८ ५८६ (पुरा० जैनवाक्यसूची प्रस्तावना)
२९ स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द, १६ दिसम्बर १९२६ ६३७ (अनें० वर्ष १ वीर स० २४५६)
" द्वितीय लेख, १७ जुलाई १९३६ (अनें० वर्ष २) ६५८
३० कठम्बवंशीय राजाओंक तीन तात्रपत्र (जैनहि० जून १९२०) ६६८
३१ आर्य और म्तेच्छा, १७ दिसम्बर १९३८ (अनें० वर्ष २) ६७८
३२ समन्तभद्रका समय-निर्णय, मगसिर सुवि४ सं० २०१२ ६८८

परिशिष्ट

१ काव्य-वित्तोंका सोदाहरण परिचय ६६८	३ प्रहृत्सम्बोधन-पदावली ७०६
२ स्वयम्भू-स्तवन-छन्द-सूची ७८७	४ नामाज्ञकमणी ७१३

८

भगवान् महावीर और उनका समय

शुद्धिरक्षणः परा काषा योऽवाप्य शान्तिमुत्तमाम् ।
देशयामास सद्दर्मं महावार नमामि तम् ॥

महावीर-परिचय

जैनियोंके अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर विदेह (विहार) देशस्थ कुण्ड-पुर के राजा 'मिदार्थ'के पुत्र थे और माता 'प्रियकारिणी' के गमसे उत्पन्न हुए थे, जिसका दूसरा नाम 'त्रिशला' भी था और जो वैशालीके राजा 'बेटक' की सुपुत्री थी । आपके शुभ जन्मसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशीकी तिथि पवित्र हुई और उसे महान् उत्सवोंके लिये पवका-सा गीरव प्राप्त हुआ । इस तिथिको जन्म-समय उत्तराकाल्युनी नक्षत्र था, जिसे कही कही 'हस्तोत्तरा' (हस्त नक्षत्र है)

कुण्ड एवं बाल्यकालीन वर्षोंमें 'क्षत्रियकुण्ड' एसा नामोल्लेख भी मिलता है जो सम्राट् कुण्डपुरका एक मुहूर्लाला जान पड़ता है । अन्यथा, उसी सम्प्रदायके दूसरे वर्षोंमें कुण्डप्रामादि-रूपसे कुण्डपुरका माफ उल्लेख पाया जाता है । यथा—

“हत्युतराहि जाग्नो कु डग्मामे महावीरो । आ० नि० भा०

यह कुण्डपुर ही प्राचकल कुण्डलपुर कहा जाता है, जो कि बास्तवमें वैशालीका उपनगर था ।

† कुण्ड एवं बाल्यकालीन वर्षोंमें 'बहून' लिखा है ।

चतुरमें—अनन्तर—जिसके) इस नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और सौम्य अहं अपने उच्चस्थान पर स्थित थे; जैसा कि श्रीपूज्यपादाचार्यके निम्न बाक्यसे प्रकट है :—

चैत्र-सितपक्ष-फाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम् ।

जहो स्वोश्वस्थेषु प्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने ॥ ५ ॥

—निर्वाणभक्ति

तेजःपुजा भगवान्के गर्भमें आते ही सिद्धार्थ राजा तथा अन्य कुटुम्बीजनोंकी श्रीवृद्धि हुई—उनका यश, तेज, पराक्रम और वैभव बढ़ा—माताकी प्रतिभा चमक उठी, वह सहज ही में अनेक शूद्र प्रणालोंका उत्तरङ्गेवे लगी; और प्रजाजन भी उत्तरोत्तर सुख-शान्तिका अधिक अनुभव करने लगे । इससे जन्मकालमें आपका सार्थक नाम 'बद्धमान' रखा गया । साथ ही, बीर महावीर और सन्मति जैसे नामोंकी भी क्रमशः सृष्टि हुई, जो सब आपके उस समय प्रस्फुटित तथा उच्छ्व-नित होनेवाले गुणों पर ही एक आधार रखते हैं ॥ ५ ॥

महावीरके पिता 'णात' वंशके क्षत्रिय थे । 'णात' यह प्राकृत भाषाका शब्द है और 'नात' ऐसा दल्त्य नकारसे भी लिखा जाता है । सर्वकृतमें इसका पर्यायरूप होता है 'ज्ञात' । इसीसे 'चारित्रभक्ति' में श्री पूज्यपादाचार्यने "श्री-मञ्जातकुलेन्दुना" पदके द्वारा महावीर भगवान्को 'ज्ञात' वंशका चन्द्रमा लिखा है, और इसीसे महावीर 'णातपुत्र' अथवा 'ज्ञातपुत्र' भी कहलाते थे, जिसका बौद्धादि ग्रन्थोंमें भी उल्लेख पाया जाता है । इस प्रकार वंशके ऊपर नामोंका उस समय चलन था—बुद्धदेव भी अपने वंश परमे 'शाकपुत्र' कहे जाते थे । अस्तु; इस 'नात' का ही बिगड़ कर अथवा लेखकों या पाठकोंकी 'नासमझीकी वजहसे बादको 'नाथ' रूप हुआ जान पड़ता है । और इसीसे कुछ ग्रन्थोंमें महावीरको नाथवंशी लिखा हुआ मिलता है, जो ठीक नहीं है ।

महावीरके बाल्यकालकी घटनाओंमें से दो घटनाएँ खास तौरसे उल्लेखयोग्य हैं—एक यह कि, संजय और विजय नामके दो चरण-मुनियोंको तत्त्वार्थ-विभक्त कोई भारी संदेह उत्पन्न हो गया था, जन्मके कुछ दिन बाद ही जब उन्होंने इपको देखा तो आपके दर्शनमात्रसे उनका वह सब संदेह तत्काल दूर हो गया और इस-

● देखो, मुण्डभद्राचार्यकृत महापुराणका ७४वाँ पर्व ।

विष्णुहोने वही भक्ति से आपका नाम 'सन्मति' रखा है। दूसरी यह कि, एक दिन आप बहुतसे राजकुमारोंके साथ बन्धों बृक्षकीड़ा कर रहे थे, इतनेमें वही पर एक महाशब्दकर और विशालकाय सर्व आ निकला और उस बृक्षको ही मूलसे लेकर स्वयं पर्यन्त बैठकर स्थित हो जब जिस पर आप चढ़े हुए थे। उसके बिकराल-स्फ़को देखकर दूसरे राजकुमार मध्यविहृत हो गये और उसी दशामें बृक्षों परसे गिरकर अथवा कूद कर अपने अपने घरको भाग गये। परन्तु आपके हृदयमें जरा भी भयका संचार नहीं हुआ—आप बिसकुल निर्भयचित्त होकर उस काले नामसे ही कीड़ा करने लगे और अपने उस पर सवार होकर अपने बल तथा पराक्रमसे उसे कूद ही छुमाया, फिराया तथा निर्मद कर दिया। उसी बत्तसे आप लोकमें 'महावीर' नामसे प्रसिद्ध हुए। इन दोनों घटनाओंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि महावीरमें बाल्यकालसे ही तुदि और शक्तिका असाधारण विकास हो रहा था और इस प्रकारकी घटनाएँ उनके भावी असाधारण व्यक्तित्वको सूचित करती थीं। सो ठीक ही है—

"होनहार विरवानके होत चीकने पात ।"

प्रायः तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर महावीर संसार-देहभोगोंसे पूर्णतया विरक्त हो गये, उन्हें अपने आत्मोत्कर्जको साधने और अपना अन्तिम धाय प्राप्त करनेकी ही नहीं किन्तु संसारके जीवोंको सन्मार्गमें लगाने अथवा उनकी सभी सेवा बजानेकी एक विशेष लगत लगी—दीन दुखियोंकी पुकार उनके हृदयमें धर कर गई—और इसलिये उन्होंने, भव और अधिक समय तक गृहवासको उचित न समर्कहर, जंगल का रास्ता लिया, संपूर्ण राज्यवैभवको छुकरा दिया और इन्द्रिय-

६ संजयस्यार्थसंदेहे संजाते विजयस्य च ।

जन्मानन्तरमेवैनम्येत्यालोकमात्रतः ॥

तत्संदेहगते ताम्यां चारणाम्यां स्वभक्तिः ।

अस्त्वेष सन्मतिदेवो भावीति समुदाहृतः ॥

—महापुराण, पर्व ७४वा

† इसमेंसे पहली घटनाका उल्लेख प्रायः दिग्म्बर गन्धोंमें और दूसरी ता दिग्म्बर तथा द्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके गन्धोंमें बहुततासे पाया जाता है।

मुख्योंसे मुख मोड़कर मंगसिरवदि १० मीटों 'आत्मांड' नामक बनमें जिनीका धारण करती। दीक्षाके समय आपने संपूर्ण परिग्रहका त्याग करके आकिचन्य (अपरिग्रह) भ्रत प्रहरणकिया, अपने शरीर परसे वस्त्राभूषणोंको उतार कर फेंक दिया । और केशोंको क्लेशसमान समझते हुए उनका भी लोंच कर डाला। अब आप देहसे भी निर्ममत्व होकर नम्न रहते थे, सिंहकी तरह निर्बन्ध होकर जंगल-पहाड़ोंमें विचरते थे और दिन रात तपश्चरण ही तपश्चरण किया करते थे।

विशेष सिद्धि और विशेष लोकसेवाके लिये विशेष ही तपश्चरणकी चर्हरत होती है—तपश्चरण ही रोम-रोमधेर में हुए आन्तरिक मलको छाँट कर आत्मा-को शुद्ध, साफ़, समर्थ और कार्यक्षम बनाता है। इसीलिये महावीरको बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण करना पड़ा—खूब कड़ा योग साधना पड़ा—तब कहीं जाकर आपकी शक्तियोंका पूर्ण विकास हुआ। इस दुर्द्वंद्व तपश्चरणकी कुछ घटनाओंको मालूम करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परन्तु साथ ही आपके असाधारण धैर्य, अटल निश्चय, सुदृढ़ आत्मविविदास, अनुपम साहस और लोकोत्तर क्षमाशीलताको देखकर हृदय भक्तिसे भर आता है और शुद्ध-बशुद्ध (स्वयमेव) स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो जाता है। अस्तु; मनःपर्यञ्जनकी प्राप्ति तो आपको दीक्षा लेनेके बाद ही होगई थी परन्तु केवल ज्ञान-ज्योतिका उदय बारह वर्षके उड़ तपश्चरणके बाद वैशाख सुदि १० मी को तीसरे पहरके समय उस वर्ष हुआ जब कि आप जूमभक्त ग्रामके निकट कृजुकूला नदीके किनारे, शाल बूझके नीचे एक शिला पर, षष्ठोपवाससे युक्त हुए, क्षणकश्चेणि पर आरूढ़ थे—आपने शुभन्ध्यान लगा रखा था—और चन्द्रमा हस्तोत्तर नक्षत्रके मध्यमें स्थित था ॥

† कुछ इवेताम्बरीय ग्रन्थोंमें इतना विशेष कथन पाया जाता है और वह संभवतः साम्प्रदायिक जान पड़ता है कि, वस्त्राभूषणोंको उतार डालनेके बाद इन्द्रने 'देवदूष्य' नामका एक बहुमूल्य वस्त्र भगवान्‌के कन्धे पर डाल दिया था, जो १३ महीने तक पड़ा रहा। बादको महावीरने उसे भी त्याग दिया और वे पूरणरूपसे नग्न-दिग्मवर अथवा जिनकली हो रहे।

* केवलज्ञानोत्पत्ति के समय और क्षेत्रादिका प्रायः यह सब वर्णन 'धर्म' और 'जयधर्म' नामके दोनों सिद्धान्तग्रन्थोंमें उद्भूत तीन प्राचीन ग्रामाभ्योंमें भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है :—

जैसा कि श्रीपूर्वपादाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :—

आम-पुर-स्टेट-कर्बट-मटन्ड-घोषाकरान् प्रविज्ञहर ।

उद्वैतपोविधानैदूर्दशवर्षास्यमरपूज्यः ॥१०॥

अजकूलायात्तीरे शालदुमस्तिते शिलापट्टे ।

अपराह्ने षष्ठेनास्थितस्य खलु जन्मकाग्रामे ॥११॥

वैशाससितदशस्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।

क्षपकश्रेण्यारुदस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

—निवारणभक्ति

इह तरह और तपश्चरण तथा ध्यानाभिन्न-द्वारा, ज्ञानाकरणीय वर्णनावस्थाएँ भी अन्तराय नामके चातिकर्म-मलको दग्ध करके, महावीर भगवान्ने जब अपने आत्मामें ज्ञान, द्वर्जन, सुख और वीर्य नामके स्वाभाविक मुण्डोंका पूरा विकास अथवा उनका पूर्ण रूपसे आविभाव कर लिया और आप अनुपम शुद्धि, शक्ति तथा ज्ञानितकी पराकार्षकों पहुँच ये, अथवा यों कहिये कि आपको स्वात्मोगतबिधरूप ‘सिद्धि’ की प्राप्ति हो गई, तब आपने सब प्रकारसे समर्थ होकर बहुप्रकार के नेतृत्व-प्रहरण किया और संसारी जीवोंको सम्मांगका उपदेश देनेके लिये—उन्हें उनकी भूल सुझाने, बन्धनमुक्त करने, ऊपर उठाने और उनके दुःख घिटानेके लिये—अपना विहार प्रारम्भ किया। दूसरे शब्दोंमें कहना चाहिये कि लोकहित-प्राधनाकर जो असाधारण विचार आपका वर्णोंसे चल रहा था और जिसका गहरा संस्कार जन्मजन्मान्तरोंसे आपके आत्मामें पड़ा हुआ था वह अब संपूर्ण स्कावटोंके दूर हो जाने पर स्वतः कार्यमें परिणत हो गया।

विहार करते हुए आप जिस स्थान पर पहुँचते थे और वहाँ आपके उपदेशके निए जो महती सभा जुड़ती थी और जिसे जैनसाहित्यमें ‘समवसरण’ नामसे

अमृत छदुमत्तरं वारतवासाणि पञ्चमासे य ।

पणारत्तास्य दिष्टास्य य तिरयणसुदो महावीरो ॥१॥

उच्चकूलखटीतीरे जंगियत्वे वर्हि चिलावट्टे ।

छहेणादावेंतो अवरहे पायद्यायाए ॥२॥

बइसाहबोधपस्ते दसमीए छवत्वसेडिमाल्द्वदो ।

हंसुण चाइकम्म केवलणाण्यं समावश्यो ॥३॥

उल्लेखित किया गया है उसकी एक खास विशेषता यह होती थी कि उसका हीर सबके लिये मुक्त रहता था, कोई किसीके प्रवेशमें बाधक नहीं होता था—पशुपक्षी तक भी आङ्कुष होकर वहाँ पहुँच जाते थे, जाति-पाँति सूतासूत और ठैबनीचका उसमें कोई भेद नहीं था, सब मनुष्य एक ही मनुष्यजातिमें परिवर्णित होते थे, और उक्त प्रकारके भेदभावको भुलाकर आपसमें प्रेमके साथ रल-मिलकर बैठते और धर्मश्वरण करते थे—मानों सब एक ही पिताकी संतान हों। इस आदर्शसे समवसरणमें भगवान् महावीरकी समता और उदारता शूलिमती नजर आती थी और वे लोग तो उसमें प्रवेश पाकर बेहद संतुष्ट होते थे जो समाजके अत्याचारोंसे पीड़ित थे, जिन्हे कभी धर्मश्वरणका, शास्त्रोंके अध्ययनका, अपने विकासका और उच्चसंस्कृतिको प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं मिलता था अथवा जो उसके अधिकारी ही नहीं समझे जाते थे। इसके सिवाय, समवसरणकी भूमिमें प्रवेश करते ही भगवान् महावीरके सामीप्यसे जीवोंका बैरभाव दूर हो जाता था, कूर जन्तु भी सौम्य बन जाते थे और उनका जाति-विरोध तक भिट जाता था। इसीसे सर्पको नकुल या मयूरके पास बैठनेमें कोई भय नहीं होता था, चूहा बिना किसी संकोचके बिल्लीका आलिगन करता था, गौ और सिंही मिलकर एक ही नौदमें जल पीती थी और मृग-शावक खुशीसे सिह-शावकके साथ खेलता था। यह सब महावीरके योगबलका भाहात्म्य था। उनके आत्मामें अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसलिये उनके संनिकट अथवा उनकी उपस्थितिमें किसीका बैर स्थिर नहीं रह सकता था। पतंजलि ऋषिने भी, अपने योगदर्शनमें, योगके इस माहात्म्यको स्वीकार किया है; जैसा कि उसके निम्न शुल्कसे लिखा है:—

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५॥

जैनशास्त्रोंमें महावीरके विहारसमयादिककी कितनी ही विभूतियोंका—धर्म-शयोंका—वर्णन किया गया है। पस्तु उन्हें वहाँ पर छोड़ा जाता है। क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने लिखा है:—

देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः ।

मायाविष्वपि दृश्यम्ने नातस्वभस्ति नो महान् ॥१॥

—ग्रामपीपांसा

अर्थात्—देवोंका आवश्यन, प्राकाशमें ममन और चामरादिक (दिव्य चमर, छत्र, विहासन, भामंडलादिक) विभूतियोंका अस्तित्व तो मायाविद्योंमें—इन्द्र-जालियोंमें—भी पाया जाता है, इनके कारण हम आपको महान् नहीं मानते और न इनकी बजासे आपको कोई खास महत्ता या बड़ाई ही है ।

भगवान् महावीरकी महत्ता और बड़ाई तो उनके मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय नामक कर्मोंका नाश करके परमशान्तिको लिये हुए कुशुद्धि तथा शक्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचने और ब्रह्मपथका—अहिंसात्मक मोक्ष-मार्गका—नेतृत्व प्रहरण करनेमें है—अथवा यों कहिये कि आत्मोद्धारके साथ-साथ लोककी सच्ची सेवा बजानेमें है । जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्य-से भी प्रकट है :—

त्वं शुद्धिशक्त्योरुद्यस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम् ।

अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयत् प्रतिवक्तुमीश्वाः ॥ ४ ॥

—युक्त्यनुशासन

महावीर भगवान् ने प्रायः तीस वर्ष तक लगातार अनेक देश-देशान्तरोंमें विहार करके सन्मार्गका उपदेश दिया, असंख्य प्राणियोंके अज्ञानान्धकारको दूर करके उन्हें यथार्थ वस्तु-स्थितिका बोध कराया, तत्त्वार्थको समझाया, भूले दूर की, भ्रम मिटाए, कमज़ोरियाँ हटाई, भय भगाया, आत्मविश्वास बढ़ाया, कदाचह दूर किया, पास्त्रण्डबल घटाया, मिथ्यात्व चुड़ाया, पतितोंको उठाया, अन्याय-अत्याचारको रोका, हिंसाका विरोध किया, साम्यवादको फैलाया और लोगोंको स्वावलम्बन तथा समझकी शिक्षा दे कर उन्हें आत्मोत्कर्षके मार्ग पर लगाया । इस तरह आपने लोकका अनन्त उपकार किया है और आपका यह विहार बड़ा ही उदार, प्रतापी एवं यशस्वी हुआ है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रके स्वयंभू-स्तोत्रमें ‘गिरिभित्यवदानवतः’ इत्यादि पद्मके द्वारा इस विहारका यत्किञ्चित् उल्लेख करते हुए, उसे “ऊर्जितं गतं” लिखा है ।

कुशानावरण-दर्शनावरणके अभावसे निम्नल ज्ञान-दर्शनकी आविभूतिका नाम ‘शुद्धि’ और अन्तराय कर्मके नाशसे वीर्यलब्धिका होना ‘शक्ति’ है और माहनीय कर्मके अभावसे अतुलित सुखकी प्राप्तिका होना ‘परमशान्ति’ है ।

भगवानुका यह विहार-काल ही प्रायः उनका तीर्थ-प्रवत्तनकाल है, और इस तीर्थ-प्रवत्तनकी बजहसे ही वे 'तीर्थकर' कहलाते हैं * । आपके विहारका पहला स्टेशन राजगृहीके निकट विपुलाचल तथा वैभार पर्वतादि पञ्च पहाड़ियों-का प्रदेश जान पड़ता है † जिसे बबल और जयधबल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें क्षेत्ररूपसे महावीरका अर्थकर्तृत्व प्ररूपण करते हुए, 'पञ्चशैलपुर' नामसे उल्लेखित किया है ॥ । यहाँ पर आपका प्रथम उपदेश हुआ है—केवल-ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् आपकी दिव्य वाणी खिरी है—और उस उपदेशके समयसे ही आपके तीर्थकी उत्पत्ति हुई है ॥ । राजगृहीमें उस बत्त राजा

* 'जयधबल' में, महावीरके इस तीर्थप्रवत्तन और उनके आगमकी प्रमाणता-का उल्लेख करते हुए, एक प्राचीन गाथाके आधार पर उन्हें 'निःसंशयकर' (जगतके जीवोंके सन्वेदको दूर करने वाले), 'वीर' (ज्ञान-वचनादिकी सातिशय क्षक्तिसे सम्पन्न), 'जिनोत्तम' (जिसेन्द्रियों तथा कर्मजेताओंमें श्रेष्ठ), 'राग-द्वेष-भयसे रहित' और 'धर्मतीर्थ-प्रवत्तक' लिखा है । यथा—

णिसंसायकरो वीरो महावीरो जिणुत्तमो ।

राग-द्वौस-भयादीदो धर्मातित्यस्स कारभो !

† आप जूमभका ग्रामके ऋजुकूला-तटसे चलकर पहले इसी प्रदेशमें आए हैं । इसीसे श्रीपूज्यपादाचार्यने आपकी केवलज्ञानोत्पत्तिके उस कथनके भनन्तर जो ऊपर दिया गया है आपके वैभार पर्वत पर आनेकी बात कही है और तभीसे आपके तीस वर्षके विहारकी गणना की है । यथा—

“अथ भगवान्नम्प्रापहिर्व्यं वैभारपर्वतं रम्यं ।

चानुर्वर्ण्य-मुसंघस्त्राम्भूद गौतमप्रभृति ॥१३॥

“दशविघ्ननगाराणामेकादशबोत्तरं तथा चर्म ।

देशयमानो व्यहरत् विशद्वष्ण्यथ जिनेन्द्रः ॥१५॥ —निवाणमक्ति ।

* पञ्चसेलपुरे रम्मे विउले पञ्चदुत्तमे ।

णाणादुमसमाइष्णे देवदाणवंविदे ॥

महावीरेण (अ) त्वो कहिए भवियलोप्रस्स ।

॥ यह तीर्थोत्पत्ति आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाणि (सूर्योदय) के समय

श्रेणिक राज्य करता था, जिसे बिम्बसार भी कहते हैं। उसने भगवान्‌की परिषदोंमें—समवसरण समाजोंमें—प्रधान भाग लिया है और उसके प्रश्नों पर बहुतसे रहस्योंका उद्घाटन हुआ है। श्रेणिकी रानी चेलना भी राजा चेटकी पुत्री थी और इसलिये वह रिश्तेमें महावीरकी मातृस्वसा (मावरी) होती थी। इस तरह महावीरका अनेक राज्योंके साथमें शारीरिक सम्बन्ध भी था। उनमें आपके बर्मका बहुत प्रचार हुआ और उसे अच्छा राजाश्रम मिला है।

विहारके समय महावीरके साथ कितने ही मुनि-धार्यिकाओं तथा आवक-आविकाप्रोंका संघ रहता था। आपने चतुर्विध संघकी अच्छी योजना और बड़ी ही मुन्द्र व्यवस्था की थी। इस संघके गणघरोंकी संख्या ग्यारह तक पहुँच गई थी और उनमें सबसे प्रधान गौतम स्वामी थे, जो 'इन्द्रभूति' नामसे भी प्रसिद्ध है और समवसरणमें मुख्य गणघरका कार्य करते थे। ये गौतम-गोत्री और सकल वेद-वैदांगके पारगामी एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान् थे, जो महावीरको केवलज्ञानकी सप्राप्ति होनेके पश्चात् उनके पास आपने जीवाज्जीव-विषयक सन्देहके निवारणार्थ गये थे, सन्देहकी निवृत्तिपर उनके शिष्य बन गये थे और जिन्होंने आपने बहुतसे विषयोंके साथ भगवान्‌से जिनदीका लेली थी। अस्तु।

तीस का वर्षके लम्बे विहारको समाप्त करते और कृतकृत्य होते हुए, भगवान्

अभिजित नक्षत्रमें हुई है; जैसा कि घबल सिद्धान्तके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

वासस्स पढममासे पढमे पक्षलम्ब्य सावणे बहुते।

पाढिवदपुञ्जविदसे तित्पुष्पती दु अभिजिम्ह ॥२॥

† कुछ इतेताम्बरीय प्रन्थानुसार 'मातुलजा'—मामूजाद बहन।

कृ घबल सिद्धान्तमें—और जयधबलमें भी—कुछ आचार्योंके मतानुसार एक प्राचीन गाथाके आधार पर विहारकालकी संख्या २६ वर्ष ५ महीने २० दिन भी दी है, जो केवलोत्पत्ति और निर्वाणकी तिथियोंको देखते हुए ठीक जान पड़ती है। और इसलिये ३० वर्षकी यह संख्या स्थूलरूपसे समझनी चाहिये। वह गाथा इस प्रकार है:—

वासाशूलस्तीसं पञ्च य भासे य वीसदिवसे य ।

चउविहमणगारेहि बारहहि गणेहि विहरंतो ॥१॥

महाबीर जब पावापुरके एक सुन्दर उद्घानमें पहुँचे, जो अनेक पथ-सरोवरों तथा नाना प्रकारके बृक्षसमूहोंसे मंडित था, तब आप वहाँ काव्योत्सर्गसे स्थित हो गये और आपने परम शुक्रध्यानके द्वारा योगनिरोष करके दग्धरम्भु-समान अवशिष्ट रहे कर्म-रज्जको—अचातिचतुष्टयको—भी आपने आत्मासे पूर्ण कर डाला, और इस तरह कार्तिक बदि अमावस्याके दिनजू, स्वाति नक्षत्रके समय, निर्वाण-पदको

॥ घबल सिद्धान्तमें, “पञ्चामा पावारायरे कत्तियमासे य किञ्छबोद्दिसिए । सादीए रत्तीए सेसररयं छेत् गणव्वाओ ॥” इस प्राचीन गाथाको प्रमाणामें उद्धृत करते हुए, कार्तिक बदि चतुर्दशीकी रात्रिको (पञ्चमभाए=पिंडले पहरमे) निर्वाणका होना लिखा है । साथ ही, केवलोत्पत्तिसे निर्वाण तकके समय २६ वर्ष ५ महीने २० दिनकी सगति ठीक बिठलाते हुए, यह भी प्रतिपादन किया है कि अमावस्याके दिन देवद्वारेके द्वारा परिनिर्वाणपूजा की गई है वह दिन भी इस कालमें शामिल करने पर कार्तिकके १५ दिन होते हैं । यथा:—

“अमावसीए परिरिणव्वाणपूजा सयलदेविदेहि कथा ति तंपि दिवसमेत्येव पक्षित्ते पण्णारस दिवसा होंति ।”

इससे यह मालूम होता है कि निर्वाण अमावस्याको दिनके समय तथा दिनके बाद रात्रिको नहीं हुआ, बल्कि चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमे हुआ है जब कि अमावस्या आ गई थी और उसका सारा कृत्य—निर्वाणपूजा और देहसंस्कारादि—अमावस्याको ही प्रातःकाल आदिके समय भुगता है । इससे कार्तिककी अमावस्या आम तौर पर निर्वाणकी तिथि कहलाती है । और चूँकि वह रात्रि चतुर्दशीकी थी इससे चतुर्दशीको निर्वाण कहना भी कुछ असंगत मालूम नहीं होता । महापुराणमें गुणभद्राचार्यने भी “कार्तिककृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये” इस वाक्यके द्वारा कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिको उस समय निर्वाणका होना बतलाया है जबकि रात्रि समाप्तिके करीब थी । उसी रात्रिके अंधेरेमें, जिसे जिनसेनने हरिवंशपुराणमें “कृष्णमृतसुप्रभातसन्ध्यासमये” पदके द्वारा उल्लेखित किया है, देवन्द्रों-द्वारा दीपावली प्रज्वलित करके निर्वाणपूजा किये जानेका उल्लेख है और वह पूजा घबलके उक्त वाक्यानुसार अमावस्याको की गई है । इससे चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमें अमावस्या आ गई थी वह स्पष्ट जाना

प्राप्त करके आप सदाके लिये अवार, अमर तथा अक्षय सौख्यको प्राप्त हो गये । इसीका नाम विदेहसुरि, आत्मनिक-स्वात्मस्थिति, परिपूर्णसिद्धावस्था अथवा निष्कल-परमात्मपदकी प्राप्ति है । भगवान् महावीर प्राप्तः ७२ वर्षकी अवस्था । मैं अपने इस अन्तिम घ्येयको प्राप्त करके लोकाभवासी हूए । और आज उन्हींका तीर्थ प्रवर्त रहा है ।

इस प्रकार भगवान् महावीरका यह संक्षेपमें सामान्य परिचय है, जिसमें प्राप्तः किसीको भी कोई खास विवाद नहीं है । भगवज्जीवनीकी उभय सम्प्रदाय-सम्बन्धी कुछ विवादप्रस्त अथवा मतभेदवाली बातोंको मैंने पहलेसे ही छोड़ दिया है । उनके लिये इस छोटेमें निबन्धमें स्थान भी कहाँ हो सकता है ? वे तो गहरे जाता है । और इसलिये अमावस्याको निर्वाण बतलाना बहुत युक्तियुक्त है, उसीका श्रीपूज्यपादाचार्यने “कार्तिककृष्णास्यान्ते” पदके द्वारा उल्लेख किया है ।

६ जैसा कि श्रीपूज्यपादके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है:—

“पश्चवननीधिकाकुलविष्वद्वमस्त्वद्विष्टिते रम्ये ।

पावानगरोद्याने ब्रुत्सर्गेण स्थितः स मुनिः ॥१६॥

कार्तिककृष्णास्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः ।

अवशेषं संप्रापद व्यजरामरमक्षयं सौख्यम् ॥१७॥” —निर्वाणभक्ति ।

† ध्वल और जयध्वल नामके सिद्धान्त इन्होंमें महावीरकी आयु, कुछ आचारोंके मतानुसार, ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिनकी भी बतलाई है और उसका लेखा इस प्रकार दिया है—

गर्भकाल = ६ मास ८ दिन; कुमारकाल = २८ वर्ष ७ मास १२ दिन;
छपस्थ (तपश्चरण)काल = १२ वर्ष ५ मास १५ दिन; केवल(विहार)काल =
२६ वर्ष ५ मास २० दिन ।

इस लेखेके कुमारकालमें एक वर्षकी कमी जान पड़ती है; क्योंकि वह आम तौर पर ज्ञायः ३० वर्षका माना जाता है । हूसरे, इस आयुमेंसे यदि गर्भकालको निकाल दिया जाय, जिसका लोक-व्यवहारमें बहुण नहीं होता तो वह ७० वर्ष कुछ महीनेकी ही रह जाती है और इतनी आयुके लिये ७२ वर्षका व्यवहार नहीं बनता ।

अनुसंधानको लिये हुए एक विस्तृत आलोचनामक निबन्धमें अन्धे झहापो
अथवा विवेचनके साथ ही दिखलाई जानेके योग्य हैं।

देशकालकी परिस्थिति

देशकालकी जिस परिस्थितिने महावीर भगवान्को उत्पन्न किया उसके सम्बन्धमें भी दो स्फट कह देना यहाँ पर उचित जान पड़ता है। महावीर भगवान्के अवतारसे पहले देशका बातावरण बहुत ही कुछ, पीछित तथा संत्रस्त हो रहा था; दीन-दुर्बल सूख सताए जाते थे; ऊँचनीचकी भावनाएं जोरों पर थीं; शूद्रोंसे पशुओं-जैसा व्यवहार होता था, उन्हें कोई सम्मान या अधिकार प्राप्त नहीं था, वे शिक्षा-दीक्षा और उच्चांसकृतिके अधिकारी ही नहीं माने जाते थे और उनके विषयमें बहुत ही निर्दय तथा धातक नियम प्रचलित थे; स्त्रीयाँ भी काफी तौर पर सताई जाती थीं, उच्छिकासे बचित रक्षी जाती थीं, उनके विषयमें “न स्त्री स्वतन्त्रमर्हति” (स्त्री स्वतन्त्रताकी अधिकारिसी नहीं) जैसी कठोर आज्ञाएं जारी थीं और उन्हें वयेष्ट मानवी अधिकार प्राप्त नहीं थे—बहुतोंकी हृष्टियें तो दे केवल भोगकी वस्तु, विलासकी चीज़, पुरुषकी सम्पत्ति अथवा बड़ा जननेकी मशीनमात्र रह गई थीं; बाह्यणोंने घर्मानुष्ठान आदिके सब ऊँचे ऊँचे अधिकार अपने लिए रिक्वर रख छोड़े थे—दूसरे लोगोंको वे उनका पात्र ही नहीं समझते थे—सर्वत्र उन्हींकी तृती बोलती थी, शासनविभागमें भी उन्होंने अपने लिए खास रिक्वायतें प्राप्त कर रक्खी थीं—बोरसे पोर पाप और बड़ेसे बड़ा अपराध कर लेने पर भी उन्हें प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था, जब कि दूसरोंको एक साधारणसे अपराधपर भी सूली-फौसीपर चढ़ा दिया जाता था; बाह्यणोंके बिंगड़े तथा सड़े हुए जाति-मेंदकी दुरुन्धरसे देशका प्राण छुट रहा था और उसका विकास रुक रहा था, कुद उनके अभिमान तथा जाति-मदने उन्हें पातित कर दिया था और उनमें लोभ-सालच, दंभ, अज्ञानता, अकर्मन्यता, कूरता तथा धूर्ततादि दुर्युग्मोंका निवास हो गया था; वे रिक्वरें अथवा दक्षिणाएं लेकर परलोकके लिए सटिप्पिकेट और पवनि तक देने लगे थे; घर्मकी असली भावनाएं प्रायः लुप्त हो गई थीं और उनका स्थान अर्ध-हीन क्रियाकाण्डों तथा थोड़े विधि-विधानोंने ले लिया था; बहुतसे देवी-देवताश्चोंकी कल्पना प्रबल हो उठी

वी, उनके सन्तुष्ट करनेमें ही सारा समय बला जाता था और उन्हें पशुओंकी बलियाँ तक चढ़ाई जाती थीं; वर्षके नाम पर सर्वत्र यज्ञ-पाण्डादिक कर्म होते थे, और उनमें असंख्य पशुओंको होमा जाता था—जीवित प्राणी घधकती हुई आगमें ढाल दिये जाते थे—और उनका स्वर्ग जाना बतलाकर अबवा 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' कहकर लोगोंको भ्रुलावेमें ढाला जाता था और उन्हें ऐसे कूर कर्मोंके लिये उत्सेजित किया जाता था। साथ ही, बलि तथा यज्ञके बहाने लोग मांस खाते थे। इस तरह देशमें चहूं और अन्याय-अत्याचारका साम्राज्य था—इडा ही बीभत्स तथा कहण हृष्ण उपस्थित था—सत्य कुचला जाता था, वर्ष अपमानित हो रहा था, पीड़ितोंकी आहोके घुएसे आकाश व्याप्त था और सर्वत्र असन्तोष ही असन्तोष फैला हुआ था।

यह सब देखकर सज्जनोंका हृदय तल्पला उठा था, धार्मिकोंको रात दिन बैन नहीं पड़ता था और पीड़ित व्यक्ति अत्याचारों से ऊबकर त्राहि त्राहि कर रहे थे। सबोंकी हृदय-नन्दियोंमें 'हो कोई भवतार नया' की एक ही ज्वनि निकल रही थी और सबोंकी हृष्टि एक ऐसे असाधारण महात्माकी ओर जगी हुई थी जो उन्हें हस्तावलम्बन देकर इस घोर विपत्तिसे निकाले। ठीक इसी समय—आजसे कोई ढाई हजार वर्षमें भी पहले—प्राची दिशामें भगवान् महावीर भास्करका उदय हुआ, दिशाएं प्रसन्न हो उठीं, स्वास्थ्यकर मन्द-मुग्धन्ध पवन वहने लगा, सबन घर्मात्माओं तथा पीड़ितोंके मुख्यमंडल पर आशाकी रेखाएँ दीख पड़ीं, उनके हृदयकमल खिल गये और उनकी नस-नाड़ियोंमें ऋतुराज (वस्त) के आगमनकाल-जैसा नवरसका संचार होने लगा।

महावीरका उद्धारकार्य

महावीरने लोक-स्थितिका घनुभव किया, लोगोंकी असानता, स्वार्वपरता, उनके बहम, उनका अन्वयित्वास और उनके कुत्सित विचार एवं दुर्बिंचहारको देखकर उन्हें भारी दुःख तथा खेद हुआ। साथ ही, पीड़ितोंकी कहण पुकारको मुनकर उनके हृदयसे दयाका असंद लोत बह निकला। उन्होंने लोकोद्धारका संकल्प किया, सौकौदारका सम्पूर्ण भार उठानेके लिये अपनी सामर्थ्योंको तोता

और उसमें जो चुटि भी उसे बारह बच्चे के उस ओर तपश्चरण के द्वारा पूरा किया जिसका अभी उल्लेख किया जा चुका है।

इसके बाद सब प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होकर महाबीरने लोकोद्धारका सिंहनाद किया—लोकमें प्रचलित सभी ग्रन्थाद्य-ग्रन्थाचारों, कुविचारों तथा दुराचारोंके विरुद्ध आवाज उठाई—और अपना प्रभाव सबसे पहले ब्राह्मण विद्वानों पर डाला, जो उस बत्त देशके ‘सर्वे सर्वाः’ बने हुए थे और जिनके मुष्ठरने पर देशका मुष्ठरना बहुत कुछ सुखसाध्य हो सकता था। आपके इस पदु सिंहनादको सुनकर, जो एकान्तका निरसन करने वाले स्वाधादकी विचार-पद्धतिको लिए हुये था, लोगोंका तत्त्वज्ञानविषयक भ्रम दूर हुआ, उन्हें अपनी भूलें मालूम पड़ी, धर्म-धर्माधर्मके यथार्थ स्वरूपका परिचय मिला, आत्मा-अनात्माका भेद स्पष्ट हुआ और बन्ध-मोक्षका सारा रहस्य जान पड़ा। साथ ही, भूठे देवी-देवताओं तथा हिंसक यज्ञादिको परसे उनकी श्रद्धा हटी और उन्हें यह बात साप्रे जैव गई कि हमारा उत्थान और पतन हमारे ही हाथमें है, उसके लिये किसी गुप्त शक्तिकी कल्पना करके उसीके भरोसे बैठ रहना अधिका उसको दोष देना अनुचित और भिन्ना है। इसके रिवाय, जातिमेदकी कट्टरता मिटी, उदारता प्रकटी, लोगोंके हृदयमें साम्यवादकी भावनाएँ हट हुईं और उन्हें अपने आत्मोत्कर्षका मार्ग सूझ पड़ा। साथ ही, ब्राह्मण गुरुओंका आसन डोल गया, उनमेंसे इन्द्रमूर्ति-गौतम जैसे कितने ही दिग्माज विद्वानोंने भगवान्के प्रभावसे प्रभावित होकर उनकी सभीचीन धर्मदेशनाको स्वीकार किया और वे सब प्रकारसे उनके पूरे अनुशायी बन गये। भगवान् ने उन्हें ‘गणधर’ के पद पर नियुक्त किया और अपने संघका भार सौंपा। उनके साथ उनका बहुत बड़ा शिष्यसमुदाय तथा दूसरे ब्राह्मण और अन्य धर्मानुयायी भी जैनधर्ममें दीक्षित होगये। इस भारी विजयसे क्षत्रिय गुरुओं और जैनधर्मकी प्रभाव-बृद्धिके साथ साथ तत्कालीन (क्रियाकाण्डी) ब्राह्मणधर्मकी प्रभा कीरा हुई, ब्राह्मणोंका शक्ति घटी, उनके अत्याचारोंमें रोक हुई, यज्ञ-यागादिक कर्म मन्द पड़ गये—उनमें पशुओंके प्रतिनिधियोंकी भी कल्पना होने लगी—और ब्राह्मणोंके लौकिक स्वार्थ तथा जाति-पातिके भेदको बहुत बड़ा धरका पहुँचा। परन्तु निरंकुशताके कारण उनका पतन जिस तेजीसे हो रहा था वह रुक गया और उन्हें सोचने-विचारनेका अधिका अपने धर्म तथा

परिणतिमें फेरफार करनेका अवसर मिला ।

महावीरकी इस धर्मदेशना और विजयके सम्बन्धमें कविसम्मान् डा० रवीन्द्रनाथ टागोरने जो दो शब्द कहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

Mahavira proclaimed in India the message of salvation that religion is a reality and not a mere social convention, that salvation comes from taking refuge in that true religion, and not from observing the external ceremonies of the community, that religion can not regard any barrier between man and man as an eternal verity. Wondrous to relate, this teaching rapidly overtopped the barriers of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power.

अर्थात्—महावीरने डंकेकी चोट भारतमें मुक्तिका ऐपा सन्देश घोषित किया कि, धर्म कोई महज सामाजिक रूढ़ि नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है—वस्तुस्वभाव है,—और मुक्ति उस धर्ममें आश्रय लेनेसे ही मिल सकती है, न कि समाजके बाह्य आचारोंका—विधिविधानों अथवा क्रियाकाण्डोंका—पालन करनेसे, और यह कि धर्मकी हृष्टिमें मनुष्य मनुष्यके बीच कोई भेद स्थायी नहीं रह सकता । कहते आश्रय होता है कि इस शिक्षणने बद्धमूल हृद्द जातिकी हृद-बन्धियोंको शीघ्र ही तोड़ डाला और सम्पूर्ण देश पर विजय प्राप्त किया । इस वर्त क्षत्रिय गुरुओंके प्रभावने बहुत समयके लिये आह्यायोंकी सत्ताको पूरी तीरसे दबा दिया था ।

इसी तरह लोकमान्य तिलक आदि देशके दूसरे भी कितनेही प्रसिद्ध हिन्दू विद्वानोंने, भ्राह्मादिकके विषयमें, महावीर भगवान् अथवा उनके धर्मकी आह्याय-धर्म पर गहरी छापका होना स्वीकार किया है, जिनके वाक्योंको वहाँ पर उद्धृत करनेकी ज़रूरत नहीं है—प्रनेक पत्रों तथा पुस्तकोंमें वे ख्य पूके हैं । महत्वा गांधी तो जीवन भर भगवान् महावीरके मुक्तकण्ठसे प्रशंसक बने रहे । विदेशी विद्वानोंके भी बहुतसे वाक्य महावीरकी योग्यता, उनके प्रभाव और उनके

शासनकी महिमा-सम्बन्धमें उद्दृत किये जा सकते हैं; परन्तु उन्हें भी महीं छोड़ा जाता है।

बीर-शासनकी विशेषता

भगवान् महाबीरने संसारमें सुख-शान्ति स्थिर रखने और जनताका विकास सिद्ध करनेके लिये चार महासिद्धान्तोंकी—१ अहिंसावाद, २ साम्यवाद, ३ अनेकान्तवाद (स्पष्टाद) और ४ कर्मवाद नामक महासत्योंकी—धोषणा की है और इनके द्वारा जनताको निम्न बातोंकी शिक्षा दी है :—

१ निर्भय-निर्विर रह कर शान्तिके साथ जीना तथा दूसरोंको जीने देना ।

२ राग-द्वेष-अहंकार तथा अन्याय पर विजय प्राप्त करना और अनुचित अद्य-शावको त्यागना ।

३ सर्वतोमुखी विशालहृषि प्राप्त करके अथवा नव-प्रमाणका संहारा लेकर वस्त्यका निरांय तथा विरोधका परिहार करना ।

४ 'अपना उत्थान और पतन अपने हाथमें है' ऐसा समझते हुए, स्वावलम्बी बनकर अपना हित और उत्कर्ष साधना तथा दूसरोंके हित-साधनमें मदद करना ।

साथ ही, सम्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको—तीनोंके समुच्चय-को—मोक्षकी प्राप्तिका एक उपाय अथवा मार्ग बतलाया है । ये सब सिद्धान्त इतने गहन, विशाल तथा महान् हैं और इनकी विस्तृत व्याख्याओं तथा गम्भीर विवेचनाओंसे इतने जैन ग्रन्थ भरे हुए हैं कि इनके स्वरूपादि-विषयमें यहाँ कोई चलतीसी बात कहना इनके गीरवको घटाने अथवा इनके प्रति कुछ अन्याय करने-जैसा होगा । और इसलिये इस छोटेसे निबन्ध में इनके स्वरूपादिका न लिखा जाना कामा किये जानेके योग्य है । इन पर तो भलग ही विस्तृत निबन्धोंके लिखे जानेकी जरूरत है । हाँ, स्वामी समन्तभद्रके निम्न बाक्यानुसार इतना जरूर बतलाना होगा कि महाबीर भगवान्का शासन नव-प्रमाणके द्वारा वस्तु-तस्वको विलकुल स्पष्ट करने वाला और सम्भूर्ण प्रवादियोंके द्वारा अबाध्य होनेके साथ साथ दया (अहिंसा), दम (संयम), त्याग (परिशहत्यज्ञ) और समाधि (प्रशस्त व्यान) इन चारोंकी तत्परताको लिये हुए हैं, और यही सब उसकी विशेषता है अथवा इसी लिये वह अद्वितीय है ।

दया-इम-त्याग-समाधिनिष्ठं नय-प्रमाण-प्रकृतांजसार्थम् ।
अधृद्यमन्यैरस्मैः प्रवादैर्जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥६॥

—युक्त्यनुशासन

इस वाक्यमें 'दया' को सबसे पहला स्थान दिया गया है और वह ठीक ही है । जब तक दया अथवा अहिंसाकी भावना नहीं तब तक संयममें प्रवृत्ति नहीं होती, जब तक संयममें प्रवृत्ति नहीं तब तक त्याग नहीं बनता और जब तक त्याग नहीं तब तक समाधि नहीं बनती । पूर्व पूर्व धर्म उत्तरोत्तर धर्मका निमित्त कारण है । इसलिये धर्ममें दयाको पहला स्थान प्राप्त है । और इसीसे 'धर्मस्थ मूलं दया' आदि वाक्योंके ढारा दयाको धर्मका मूल कहा गया है । अहिंसाको 'परम धर्म' कहनेकी भी यही वजह है । और उसे परम धर्म ही नहीं किन्तु 'परम ब्रह्म' भी कहा गया है; जैसा कि स्वामी समन्वयभद्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं ।”

—स्वयम्भूत्सोत्र

और इसलिये जो परमब्रह्मकी आराधना करना चाहता है उसे अहिंसाकी उपासना करनी चाहिये—राग-द्वेषकी निवृत्ति, दया, परोपकार अथवा लोक-सेवाके कामोंमें लगना चाहिये । मनुष्योंमें जब तक हिंसकवृत्ति बनी रहती है तब तक आत्मसुणोंका घात होनेके साथ साथ “पापाः सर्वत्र शंकिताः” की नीतिके अनुसार उसमें भयका या प्रतिर्हिंसाकी आशंकाका सद्ग्राव बना रहता है । जहाँ भयका सद्ग्राव वहाँ बीरत्व नहीं—सम्प्रकृत्व नहीं * और जहाँ बीरत्व नहीं—सम्प्रकृत्व नहीं वहाँ सात्मोद्धारका नाम नहीं । अथवा यों कहिये कि भयमें संकोच होता है और संकोच विकासको रोकनेवाला है । इसलिये आत्मोद्धार

* इसीसे सम्बन्धित्को सस प्रकारके भयोंसे रहित बतलाया है और भयको मिथ्यात्वका चिह्न तथा स्वानुभवकी क्षतिका परिणाम सूचित किया है । यथा—

“नापि सृष्टो सुरुहिंश्चः स सत्तभिर्भयंक्षमः ॥”

“ततो भीत्याज्जुभेऽप्स्ति मिथ्याभावो जिनागच्छत ।

सा च भीतिरवर्य स्थानेतोः स्वानुभवते: ॥” —पंचाम्यायी

अथवा आत्मविकासके लिये अहिंसाकी बहुत बड़ी जरूरत है और वह वीरताका चिह्न है—कायरताका नहीं। कायरताका आधार प्रायः भय होता है, इसलिये कायर मनुष्य अहिंसा धर्मका पात्र नहीं—उसमें अहिंसा ठहर नहीं सकती। वह वीरोंके ही योग्य है और इसीलिये महावीरके धर्ममें उसको प्रबान्न स्थान प्राप्त है। जो लोग अहिंसा पर कायरताका कलंक लगाते हैं उन्होंने वास्तवमें अहिंसाके रहस्यको समझा ही नहीं। वे अपनी निर्बलता और आत्म-विस्मृतिके कारण कथाओंसे अभिभूत हुए कायरताको वीरता और आत्माके क्रोधादिक-रूप पतनको ही उसका उत्थान समझ बैठे हैं! ऐसे लोगोंकी स्थिति, निःसन्देह बड़ी ही कंशणाजनक है।

सर्वोदय तीर्थ

स्वामी समन्तभद्रने भगवान् महावीर और उनके शासनके सम्बन्धमें और भी कितने ही बहुमूल्य वाक्य कहे हैं जिनमेंसे एक सुन्दर वाक्य मैं यहाँ पर और इद्वृत्त कर देना चाहता हूँ और वह इस प्रकार है:—

सर्वान्तवत्तदगुणमुख्यकल्पं, सर्वान्तशूल्यं च मिथोऽनपेच्चम् ।
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥६१॥

—युवत्यनुशासन

इसमें भगवान् महावीरके शासन अथवा उनके परमागमलक्षण-रूप वाक्यका स्वरूप बतलाते हुए जो उसे ही समूर्ण आपदाओंका अन्त करने वाला और मरोंके अभ्युदयका कारण तथा पूर्ण अभ्युदयका—विकासका—ज्ञेतु ऐसा ‘सर्वोदय तीर्थ’ बतलाया है वह बिल्कुल ठीक है। महावीर भगवान्का शासन अनेकान्तरके प्रभावसे सकल दुर्दयों तथा मिथ्यादर्शोंका अन्त (निरसन) करनेवाला है और ये दुनैय तथा मिथ्यादर्शन ही सासारमें अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःखरूप आपदाओंके कारण होते हैं। इसलिये जो लोग भगवान् महावीरके शासनका—उनके धर्मका—आश्रय लेते हैं—वसे पूर्णतया अपनाते हैं—उनके मिथ्यादर्शनादिक दूर होकर समस्त दुःख मिट जाते हैं। और वे इस धर्मके प्रसादसे अपना पूर्ण अग्रयुदय सिद्ध कर सकते हैं। महावीरकी ओरों इस धर्मका द्वार सबके लिये सुला हुआ है। जैसा कि जैनसन्ध्योंके निम्न-वाक्योंसे इनित है:—

- (१) “दीक्षायोग्यास्त्रयो वणिकतुर्यश्च विधोचितः ।
मनोवाक्यायथर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥”
“उक्तवचजनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनां ।
तैक्षस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालयः ॥” —यशस्तिलके, सोमदेवः
- (२) आचाराऽनवद्यत्वं शुचिरूपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रानपि
देवद्विजातिवपस्थिपरिकर्मसु योग्यान् ।” —नीतिवाक्यामृते, सोमदेवः
- (३) “शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुः शुद्ध्याऽस्तु तादृशः ।
आत्या हीनोऽपि कालादिलब्धी आत्मास्ति धर्मभाक् ॥” २-२२॥
- सागारधर्ममृते, आशाधरः ।

इन सब वाक्योंका आशय कमशः इस प्रकार है—

(१) ब्राह्मण, ऋत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण (आम तौर पर) मुनिदीक्षाके
योग्य हैं और चौथा शूद्र वर्ण विविके द्वारा दीक्षाके योग्य है। (वास्तवमें)
मन-बचन-कायसे किये जाने वाले धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव
अधिकारी हैं।

‘विनेन्द्रका यह धर्म प्रायः ऊंच और नीच दोनों ही प्रकारके मनुष्योंने
आकृति है; एक स्तम्भके आधार पर जैसे मकान नहीं ठहरता उसी प्रकार
ऊंच-नीचमेंसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्यसमूहके आधार पर धर्म ठहरा हूमाँ
नहीं है।’ —यशस्तिलक

(२) यज्ञ-मांसादिकके द्वागरुण आचारकी निर्देशता, शृह-मात्रादिककी
पवित्रता और नित्य-स्नानादिके द्वारा शरीरशुद्धि ये तीनों प्रवृत्तियां (विविधों)
शूद्रोंको भी देव, द्विजाति और तरस्तियोंके परिकर्मोंके योग्य बना देती हैं।

(३) आसन और बत्तन आदि उपकरण जिसके शुद्ध हों, यज्ञ-मांसादिके
त्यागसे जिसका आचरण पवित्र हो और नित्य स्नानादिके द्वारा जिसका शरीर
शुद्ध रहता हो, ऐसा शूद्र भी ब्राह्मणादिक वर्णोंके सहश धर्मका पालन करनेके
योग्य है; वर्णोंकी जातिसे हीने आत्मा भी कालादिक-लभिको पाकर जैनधर्मका
अधिकारी होता है। —ज्ञागारधर्ममृत

नीचसे नीच कहा जानेवाला मनुष्य भी इस धर्मको छोरण करके इसी

लोकमें जाति उच्च बन सकता है ॥ ४ । इसकी हृषिमें कोई जाति गहित नहीं—तिरस्कार किये जानेके योग्य नहीं—सर्वत्र गुणोंकी पूज्यता है, वे ही कल्याणकारी हैं, और इसीसे इस धर्ममें एक चाण्डालको भी व्रतसे युक्त होने पर 'ब्राह्मण' तथा सम्यग्दर्शनसे युक्त होने पर 'देव' माना गया है ॥ ५ । यह धर्म इन ब्राह्मणादिक जाति-भेदोंको तथा दूसरे चाण्डालादि विशेषोंको वास्तविक ही नहीं मानता किन्तु वृत्ति अथवा आचारभेदके आधारपर कल्पित एव परिवर्तनशील जानता है और यह स्वीकार करता है कि अपने योग्य गुणोंकी उत्तरति पर जाति उत्तरति होनी है और उनके नाम पर नष्ट हो जाती है ॥ ६ । इन जातियोंका आकृति आदिके भेदको लिए हुए कोई शाश्वत लक्षण भी गो-अश्वादि जातियोंकी तरह मनुष्य घारीरमें नहीं पाया जाता, प्रत्युत इसके शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आदिकमें गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जानी है, जो वास्तविक जातिभेदके विरुद्ध है ॥

४ यो लोके त्वा नतः सोऽतिहीनोऽयतिगुरुर्यतः ।

बालोऽपि त्वा अतिं नौति को नो नीतिपुरुः कुतः ॥८२॥

—जिनशतके, समन्तभद्रः ।

† “न जातिर्गहिता काचिद् गुणाः कल्याणकारणं ।

व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ११-२०३ ॥”

—पद्मचरिते, रविषेणः ।

“सम्यग्दर्शनसम्प्रभमपि मातंगदेहजं ।

देवा देवं विदुर्भस्मयूढांगारान्तरौजसम्” ॥२८॥—रत्नकरण्डे, समन्तभद्रः ।

× “चातुर्बन्ध यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणं ।

सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धं मुक्ते मतं” ॥ ११-२०५॥—पद्मचरिते, रविषेणः ।

“आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पतं ।

न जातिब्रह्मणीयास्ति नियता कापि तात्त्विकी” ॥ १७-२४॥

“शुणैः सम्पद्यते जातिगुणाद्यासैविपद्यते ।” ॥३२॥

—षमपरीक्षायां, अमितशतिः ।

‡ “बण्डित्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात् ।

ब्राह्मण्यादिष्य शूद्राद्यं गर्भाधानप्रवर्तनात् ॥

इसी तरह जारजका भी कोई चिन्ह शरीरमें विलाई नहीं देता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति कल्पित की जाय, और न महज व्यभिचारजात होनेकी बजहसे ही कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है—नीचताका कारण इस घर्ममें ‘अनार्य आचरण’ अथवा ‘म्लेञ्छाचार’ माना गया है * । बस्तुतः सब मनुष्योंकी एक ही मनुष्य जाति इस घर्मको अभीष्ट है, जो ‘मनुष्यजाति’ नामक नाम कर्मके उदयसे होती है, और इस हष्टिसे सब मनुष्य समान हैं—आपसमें भाई भाई हैं—और उन्हें इस घर्मके द्वारा अपने विकासका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है + । इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई दोष लग गया हो उसकी शुद्धिकी, और म्लेञ्छों तककी कुलशुद्धि करके उन्हें अपनेमें मिला लेने तथा मुनि-दीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट आज्ञाएँ भी इस शासनमें पाई जाती हैं X । और

नास्तिजातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाऽश्ववत् ।

आकृतिप्रहणात्समादन्यथा परिकल्पते ॥ —महापुराणे, गुणभद्रः ।

* चिह्नानि विटजातस्य सन्ति नाऽङ्गे षु कानिचित् ।

अनार्यमाचरन् किञ्चिजायते नीचगोचर ॥ —पद्मचरिते, रविवेणः ।

+ “मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोऽद्वा ।

वृत्तभेदाहितादभेदाचानुविष्वमिहास्तुते ॥ ३८-४५ ॥

—प्रादिपुराणे, जिनसेनः ।

“विप्रक्षत्रियविट्शूद्राः प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः ।

जैनघर्में परा वाक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥ —घर्मरसिके, सोमसेनोदधृतः ।

X जैसा कि निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

१. कुतश्चित्कारणादस्य कुलं सम्प्राप्तद्वयण ।

सोपि राजादिसम्मत्या शोषयेत्त्वं यदा कुलम् ॥ ४०-१६८ ॥

तदाऽस्योपनयार्हत्वं पुत्रपीत्रादिसन्तती ।

न निषिद्धं हि दीक्षाहें कुले जेदस्य पूर्वजाः ॥ —१६६ ॥

२. स्वदेशेन्द्रशरम्लेच्छान् प्रजावाधाविधायिनः ।

कुलशुद्धिप्रवानार्थः स्वसास्कुर्यादुपक्रमैः ॥ ४२-१७६ ॥

—प्रादिपुराणे, जिनसेनः ।

इसलिये यह शासन सचमुच ही 'सर्वोदय-तीर्थ' के पदको प्राप्त है—इस पदके योग्य इसमें सारी ही योग्यताएं मौजूद हैं—हर कोई भव्य जीव इसका सम्मक्ष आश्रय लेकर संसार-समुद्रसे पार उत्तर सकता है।

परन्तु यह समाजका और देशका दुभायि है जो प्राज्ञ हमने—जिनके हाथों देवयोगसे यह तीर्थ पड़ा है—इस महान् तीर्थकी भृहिमा तथा उपयोगिताको मुला दिया है; इसे अपना चरेत्त, सुदृढ़ या असर्वोदय तीर्थका-सा रूप देकर इसके चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवारें बढ़ी कर दी हैं और इसके काटकमें ताता ढाल दिया है। हम लोग न तो खुद ही इससे ठीक लाभ उठाते हैं और न दूसरों को लाभ उठाने देते हैं—महज अपने थोड़ेसे विनोद अपवा झीड़ाके स्थल रूपमें ही हमने इसे रख छोड़ा है और उसीका यह परिणाम है कि जिस 'सर्वोदय-तीर्थ' पर दिन रात उपासकोंकी भीड़ और यात्रियोंका भेलासा लगा

3. “म्लेच्छभूमिजमनुप्याणां सकलसंयमप्रहरणं कर्त्त भवतीति नाशकितव्य । दिग्बिजयकाले चक्रवर्तिना सह आर्यसंष्ठभावानानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातवैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधात् । अथवा तत्कल्यानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्प्रस्त्र्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छाव्यपदेशभावः संयमसंभवात् तथाजातीयकानां दीक्षाहृत्वे प्रतिवेषाभावात् ॥”—लघ्विसारटीका (गाथा १६ इबी)

नोट—म्लेच्छोंकी दीक्षा-योग्यता, सकलसंयम-प्रहरणकी पात्रता और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्धादिका यह सब विधान जयधवल सिद्धान्तमें भी इसी क्रममें प्राकृत और संस्कृत भाषामें दिया है। वहीसे भाषादिकृप थोड़ासा शब्द-प्रतिवर्तन करके लघ्विसारटीकामें लिया गया मालूम होता है। जैसा कि जयधवलके निम्न शब्दोंसे प्रकट है:—

‘बद एवं कुदो तत्त्वं संज्यग्नहणासंभवो ति खासंकरिण्यं । दिसाविजयपयट्ट-चक्रवट्टिक्षंधावारेण सह मजिममखंडमाययाणं म्लेच्छराजाणं तत्त्वं चक्रवट्ट-आदीहि सह जातवैवाहिकसंबंधाणं संज्यप्रदिवतीए विरोहाभावादो । अहवा तत्कल्यानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्पक्षा मातृपक्षापेक्षया स्ववस्कर्म-भूमिका इतीह विविताः ततो न किञ्चिद्विषयितिं । तथाजातीयकानां दीक्षाहृत्वे प्रतिवेषाभावादिति ।’ —जयधवल, अरा-प्रति, पत्र ८२७-८२८

रहना चाहिये था वही भाज सत्राटासा आया हुआ है, जैनियोंकी संख्या भी अधिकारियों पर गिनने लायक रह गई है और जो जैनी कहे जाते हैं उनमें भी जैनत्वका प्रायः कोई स्पष्ट लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता—कहीं भी दया, दम, त्याग और समाधिकी तत्परता नज़र नहीं आती—लोगोंको महावीरके संदेशकी ही सबर नहीं, और इसीसे संसारमें सबंत्र दुःख ही दुःख फैला हुआ है।

ऐसी हालतमें अब साम उठूरत है कि इस तीर्थका उद्धार किया जाय, इसकी सब रुकावटोंको दूर कर दिया जाय, इस पर खुले प्रकाश तथा खुली हवाकी अवस्था की जाय, इसका फाटक सबोंके लिये हरवक्त खुला रहे, सबोंके लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम किया जाय, इसके तटों तथा घाटोंकी मरम्मत कराई जाय, बन्द रहने तथा असर तक यथेष्ट अवहारमें न आनेके कारण तीर्थ-जल पर जो कुछ काई जम गई है अथवा उसमें कहीं कहीं झींबाल उत्पन्न हो गया है उसे निकाल कर दूर किया जाय और सर्वसाधारणको इस तीर्थके महात्म्यका पूरा पूरा परिचय कराया जाय। ऐसा होने पर अथवा इस रूपमें इस तीर्थका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे कि देश-देशान्तरके किंतने बेशुमार यात्रियोंकी इस पर भीड़ रहती है, किंतने विद्रान इस पर मुग्ध होते हैं, किंतने असत्य प्राणी इसका आश्रय पाकर और इसमें अवगाहन करके अपने दुःख-संतापोंसे मुक्तकारा पाते हैं और सासारमें कैसी मुख-क्षान्तिकी लहर व्याप्त होती है। स्वामी समन्तमद्वाने अपने समयमें, जिसे आज १७०० वर्षों भी ऊपर हो गये हैं, ऐसा ही किया है; और इसीसे कन्डी भावाके एक प्राचीन शिलालेखमें यह उल्लेख मिलता है कि ‘स्वामी समन्तमद्व भगवान् महावीरके तीर्थकी हजारयुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए’—अर्थात्, उन्होंने उसके प्रभावको सारे देश-देशान्तरोंमें व्याप्त कर दिया था। आज भी वैसा ही होना चाहिये। यही भगवान् महावीरकी सभी उपासना, सभी भक्ति और उनकी सभी जपनी मनानी होगा।

* यह शिलालेख बेद्दूर ताल्लुकेका शिलालेख नम्बर १७ है, जो रामा-नुजावर्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनाथकी-मन्दिरकी छतके एक पत्तर पर उत्कीर्ण है और यक संवत् १०५६ का लिखा हुआ है। देखो, एपिग्रेफिका कण्ठाटिकाकी जिल्द पांचवीं, अथवा ‘स्वामी समन्तमद्व’ (इतिहास) पृष्ठ ४६ वाँ।

महावीरके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीर्थमें यह सूत्री खुद मीजूद है कि इससे भरपेट अथवा यथेष्ट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी यदि समहाइ (मध्यस्थबृत्ति) हुआ उपपत्ति-चक्षुसे (मात्सर्यके त्यागपूर्वक युक्तिसंगत समाधानकी हाइसे) इसका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मान-भृङ्ग खण्डित हो जाता है—सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका आग्रह सूक्ष्म जाता है—और वह अभद्र अथवा मिथ्याहाइ होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्हाइ बन जाता है। अथवा यों कहिये कि भगवान् महावीरके शासन-तीर्थका उपासक और अनुयायी हो जाता है। इसी बात को स्वामी समन्तभद्रने अपने निम्न वाक्य-द्वारा व्यक्त किया है—

कामं द्विषम्प्युपपतिचक्षुः समीक्षतां ते समद्विरिष्टम् ।

त्वयि ध्रुवं खण्डितमानभृङ्गो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥

—युक्त्यनुशासन

अतः इस तीर्थके प्रचार-विषयमें जरा भी संकोचकी जरूरत नहीं है, पूर्ण उदारताके साथ इसका उपर्युक्त रीतिसे योग्य प्रचारकोंके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और सबोंको इस तीर्थकी परीक्षाका तथा इसके गुणोंको मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ उठानका पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। योग्य प्रचारकोंका यह काम है कि वे जैने तैसे जनतामें मध्यस्थभावको जायन करे, ईर्षा-द्वेषादि-रूप मत्सर भावको हटाएँ, हृदयोंको युक्तियोंमें संस्कारित कर उदार बनाएँ, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करें और उस सत्यकी दर्शनप्राप्तिके लिये लोगोंकी समाधान हाइको खोलें।

महावीर-सन्देश

हमारा इस बत्त यह खास कर्तव्य है कि हम भगवान् महावीरके सदेशको—उनके शिक्षासमूहको—मालूम करें, उसपर खुद अमल करें और दूसरोंसे अमल करानेके लिये उसका घर घरमें प्रचार करें। बहुतसे जैनशास्त्रोंका आध्ययन, मनन और मन्त्रन करने पर मुझे भगवान् महावीरका जो सन्देश मालूम हुआ है उसे मैने एक छोटीसी कवितामें निबद्ध कर दिया है। यहाँ पर उसका दे दिया जाना भी कुछ अनुचित न होगा। उससे खोड़ें ही—सूत्ररूपसे—महावीर

भगवान्‌की बहुतसी लिखाओंका पनुभव हो सकेगा और उन पर चलकर—उन्हें अपने जीवनमें उतारकर—हम अपना तबा दूसरोंका बहुत कुछ हित साधन कर सकेंगे । वह संदेश इस प्रकार हैः—

यही है महावीर-संदेश ।

विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख धर्म-उपदेश ॥ यही० ॥

“सब जीवोंको तुम अपनाओ, हर उनके दुख-क्लेश ।

असद्ग्राव रक्खो न किसीसे, हो अरि क्यों न विशेष ॥ १ ॥

वैरीका उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष ।

वैर छुटे, उपजे मति जिससे, वही यत्न यत्नेश ॥ २ ॥

धृणा पापसे हो, पापीसे नहीं कभी लब-लेश ।

भूल सुका कर प्रेम मार्गसे, करो उसे पुण्येश ॥ ३ ॥

तज एकान्त-कदाघट-दुर्गुण, बनो उद्धार विशेष ।

रह प्रसन्नचित सदा, करो तुम मनन तस्व-उपदेश ॥ ४ ॥

जीतो राग-द्वेष-भय-इन्द्रिय-मोह-कथाय आशेष ।

धरो धैर्य, समचित्त रहो, औ' सुख-दुखमें सविशेष ॥ ५ ॥

अहंकार-ममकार तजो, जो अवनतिकार विशेष ।

तप-संयममें रत हो, त्यागो तुष्णा-भाव आशेष ॥ ६ ॥

‘वीर’ उपासक बनो सत्यके, तज मिथ्याऽभिनिवेश ।

विपदाओंसे मत घबराओ, धरो न कोपावेश ॥ ७ ॥

संझानी-संहष्टि बनो, औ' तजो भाव संक्लेश ।

सदाचार पालो दृढ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥ ८ ॥

सादा रहन-सहन-भोजन हो, सादा भूषा-वेष ।

विश्व-प्रेम जाग्रत कर उर में, करो कर्म निःशेष ॥ ९ ॥

हो सबका कल्याण, भावना ऐसी रहे हमेश ।

द्या-लोक-सेवा-रत चित हो, और न कुछ आदेश ॥ १० ॥

इस पर चलनेसे ही होगा, विकसित स्वात्म-प्रदेश ।

आत्म-ज्योति जगेगी ऐसे, जैसे उदित दिनेश ॥ ११ ॥”

यही है महावीर-संदेश, विपुला० ।

महावीरका समय

अब देखना यह है कि भगवान् महावीरको अवतार लिये ठीक कितने वर्ष हुए हैं। महावीरकी आयु कुछ कम ७२ वर्षकी—७१ वर्ष, ६ मास, १८ दिनकी-थी। यदि महावीरका निवाणि-समय ठीक मासूम हो तो उनके अवतार-समयको अथवा जयन्तीके अवसरों पर उनकी वर्षगठि-संख्याको सूचित करनेमें कुछ भी देर न लगे। परन्तु निवाणि-समय असेसे विवादप्रस्त चल रहा है—प्रचलित वीरनिवाणि-संवत् पर आपत्ति की जाती है—कितने ही देशी विदेशी विद्वानों-का उसके विषयमें मतभेद है; और उसका कारण साहित्यकी कुछ पुरानी गड़बड़, अर्थ समझनेकी गलती अथवा कालगणनाकी भूलजान पड़ती है। यदि इस गड़बड़, गलती अथवा भूलका ठीक पता चल जाय तो समयका निर्णय सहजमें ही हो सकता है और उससे बहुत काम निकल सकता है; क्योंकि महावीरके समयका प्रश्न जैन इतिहासके लिये ही नहीं किन्तु भारतके इतिहासके लिये भी एक बड़े ही महत्वका प्रश्न है। इसीसे अनेक विद्वानोंने उसको हन करनेके लिये बहुत परिश्रम किया है और उससे कितनी ही नई नई बातें प्रकाशमें आई हैं। परन्तु फिर भी, इस विषयमें, उन्हें जैसी चाहिये वैसी सफलता नहीं मिली—बल्कि कुछ नई उलझनें भी पैदा हो गई हैं—और इस लिये यह प्रश्न अभी तक बराबर विचारके लिये चला ही जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस विषयमें कुछ गहरा उत्तर कर पूरी तपासीलके साथ एक विस्तृत लेख लिखूँ परन्तु समयकी कमी आदिके कारण बैसा न करके, संक्षेपमें ही, अपनी लोकका एक सार भाग पाठकोंके सामने रखता हूँ। आशा है कि सहृदय पाठक इस परसे ही, उस गड़बड़, गलती अथवा भूलको मासूम करके, समयका ठीक निर्णय करनेमें समर्थ हो सकें।

आजकल जो वीर-निवाणि-संवत् प्रचलित है और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामें प्रारम्भ होता है वह २४६० है। इस संवत्का एक प्राथार 'त्रिलोकसार' की निम्न गाथा है, जो श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है:—

पण्डितस्यवस्सं पण्मासञ्जुर्द गमिय वीरणिष्वुइदो ।

सगराचो तो कली चदुश्वतियमहियसगमासं ॥ ८५०

इसमें बतलाया गया है कि 'महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजा हुआ, और शक राजासे ३१४ वर्ष ७ महीने बाद कल्की राजा हुआ।' शक राजाके इस समयका समर्थन 'हरिवंशपुराण' नामके एक दूसरे प्राचीन ग्रन्थसे भी होता है जो त्रिलोकसारसे प्रायः दो सौ वर्ष पहलेका बना हुआ है और जिसे श्रीजिनसेनाचार्यने शक सं० ७०५ में बनाकर समाप्त किया है। यथा :—

वर्षाणां पट्टशती त्यक्त्वा पञ्चाश्रां मासपञ्चकम् ।

मुक्ति गते महावीरे शकराजस्तोऽभवत् ॥ ६०-५४६ ॥

इतना ही नहीं, बल्कि और भी प्राचीन ग्रन्थोंमें इस समयका उल्लेख पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण 'तिलोयपञ्चात्ती' (त्रिलोकप्रशस्ति) का निम्न वाक्य है—

णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पञ्चवरिसेसु ।

पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ अहवाङ् ॥

शकका यह समय ही शक-संवत्की प्रवृत्तिका काल है, और इसका समर्थन एक पुरातन इलोकसे भी होता है, जिसे इवेताम्बराचार्य श्रीमेन्तुं गने अपनी 'विचारश्रेणि'में निम्न प्रकारसे उद्धृत किया है:—

श्रीबीरनिर्वृत्तेवर्षैः षट्भिः पञ्चोत्तरैः शतैः ।

शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत् ॥

इसमें, स्थूलरूपसे वर्षोंकी ही गणना करते हुए, साफ़ लिखा है कि 'महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष बाद इस भारतवर्षमें शकसंवत्सरकी प्रवृत्ति हुई।'

श्रीबीरसेनाचार्य-प्रणीत 'धबल' नामके सिद्धान्त-भाष्यसे—जिसे इस निर्बंध में 'धबल सिद्धान्त' नामसे भी उल्लेखित किया गया है—इस विषयका और भी ज्यादा समर्थन होता है; क्योंकि इस ग्रन्थमें महावीरके निर्वाणके बाद केवलियों तथा श्रुतधर-प्राचार्योंकी परम्पराका उल्लेख करते हुए और उसका

क्षेत्र त्रिलोकप्रशस्तिमें शककालका कुछ और भी उल्लेख पाया जाता है और इसीसे यहाँ 'अहवा' (अवयव) सम्बद्धका प्रयोग किया गया है।

काल-प्रिमाण ६८३ वर्ष बतलाते हुए यह स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट किया है कि इस ६८३ वर्षके कालमें से ७७ वर्ष ७ महीने घटा देने पर जो ६०५ वर्ष ५ महीनेका काल अवशिष्ट रहता है वही महावीरके निर्वाणदिवससे शककालकी आदि—शक संवत्की प्रवृत्ति—ततका मध्यवर्ती काल है; अर्थात् महावीरके निर्वाणदिवससे ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद शकसंवत्का प्रारम्भ हुआ है। साथ ही इस मान्यताके लिये कारणका निर्देश करते हुए, एक प्राचीन गाथाके आधार पर यह भी प्रतिपादन किया है कि इस ६०५ वर्ष ५ महीनेके कालमे शककालको—शक संवत्की वर्षादि-संख्याको—जोड़ देनेसे महावीरका निर्वाणकाल—निर्वाण-संवत्का ठीक परिमाण—ग्रा जाता है। और इस तरह वीरनिर्वाण-संवत् मालूम करनेकी स्थग्न विधि भी सूचित की है। घबलके बे वाक्य इस प्रकार हैः—

“सञ्चयकालसमासो तेयासीदिश्चहियछस्त्रदमेतो (६८३)। पुणो पथ सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु (७७-७) अवलीदेसु पंचमासाहिय-पंचुत्तर-छस्त्रदवासाणि (६०५-५) हवंति, एसो वीरजिणिदणिवाणगददिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि तावदिय कालो। कुदो ? एदम्मि काले सगणरिदकालस्स पकित्वते वढुमाणजिणिणिवुदकालागभणादो। वुन्तच-

॥ पंच य मासा पंच य वासा छब्बे व होंति वाससया ।

सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी ॥”

—देखो, आरा जैनसिद्धान्तभवनकी प्रति, पत्र ५३३

॥ इस प्राचीन गाथाका जो पूर्वार्थ है वही इवेताम्बरोंके ‘तित्योगाली पदन्नय’ नामक प्राचीन प्रकरणकी निम्न गाथाका पूर्वार्थ है—

पंच य मासा पंच य वासा छब्बे व होंति वाससया ।

परिणिव्युश्सरिहतो तो उप्पन्नो सगो राया ॥ ६२३ ॥

और इससे यह साफ़ जाना जाता है कि ‘तित्योगाली’ की इस गाथामे जो ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद शकराजाका उत्पन्न होता लिखा है वह शककालके उत्पन्न होने अर्थात् शकसंवत्के प्रवृत्त होनेके आशयको लिये हुए है। और इस तरह महावीरके इस निर्वाणसमय-सम्बन्धमें दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है।

इन सब प्रमाणोंसे इस विषयमें कोई संवेद नहीं रहता कि शक-सम्बत्के प्रारम्भ होनेसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहले महावीरका निर्बाण हुआ है।

शक-सम्बत्के इस पूर्ववर्ती समयको बतामान शक-सम्बत् १८५५ में जो है देनेसे २४६० की उपलब्धि होती है, और यही इस वर्त प्रचलित वीर निर्बाण-सम्बत्की वर्षसंख्या है। शक-सम्बत् और विक्रम-सम्बत्में १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर है। यह १३५ वर्षका अन्तर यदि उक्त ६०५ वर्षमेंसे घटा दिया जाय तो अवधिष्ठ ४७० वर्षका काल रहता है, और यही स्थूल रूपसे वीरनिर्बाणके बाद विक्रम-सम्बत्की प्रवृत्तिका काल है, जिसका शुद्ध अयवा पूर्णाङ्गप ४७० वर्ष ५ महीने हैं और जो ईस्वी सनसे प्रायः ५२८ दर्ज पहले वीरनिर्बाणका होना बतलाता है। और जिसे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय मानते हैं।

अब मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथामें शकराजाके समयका—वीरनिर्बाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहलेका—जो उल्लेख है उसमें उसका राज्यकाल भी शामिल है; क्योंकि एक तो यहाँ ‘सगराजो’ पदके बाद ‘तो’ शब्दका प्रयोग किया गया है जो ‘ततः’ (तत्प्राप्त) का बाचक है और उसमें यह स्पष्ट धर्म निकलती है कि शकराजाकी सत्ता न रहने पर अयवा उसकी पृथ्युसे ३६४ वर्ष ७ महीने बाद कल्की राजा हुआ। दूसरे, इस गाथामें कल्कीका जो समय वीरनिर्बाणसे एक हजार वर्ष तक (६०५ वर्ष ५ मास + ३६४ वर्ष ७ मास) बतलाया गया है उसमें नियमानुसार कल्कीका राज्य काल भी या जाता है, जो एक हजार वर्षके भीतर सीमित रहता है। और तभी हर हजार वर्ष पीछे एक कल्कीके होनेका वह नियम बन सकता है जो त्रिलोकसारादि प्रन्थोंके निम्न वाक्योंमें पाया जाता है:—

इदि पद्मिसहस्रवस्त्रं वीसे कक्षीणदिक्षमे चरिमो ।

जलमंथणो भद्रिस्सदि कक्षी सम्मामत्थण्डो ॥ ८५७ ॥

—त्रिलोकसार

मुक्ति गते महावीरे प्रतिष्ठर्षसहस्रकम् ।

एकीको जायते कल्की जिनथर्म-विरोधकः ॥ —हरिवंशपुराण

एवं वस्ससहस्रसे पुढ़ कक्षी हवेइ इक्कोको । —त्रिलोकप्रवृत्ति

इसके सिवाय, हरिवंशपुराण तथा त्रिलोकप्रजातिमें महाबीरके पञ्चात् एक हजार वर्षके भीतर होनेवाले राज्योंके समयकी जो गणना की गई है उसमें साफ़ तौर पर कल्किराज्यके ४२ वर्ष शामिल किये गये हैं । ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि त्रिलोकसारकी उक्त गायामें शक और कल्कीका जो समय दिया है वह अलग अलग उनके राज्य-कालकी समाप्तिका सूचक है । और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि शक राजाका राज्यकाल बीर-निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रारम्भ हुआ और उसकी—उसके कठिपय वर्षात्मक स्थितिकालकी—समाप्तिके बाद ३१४ वर्ष ७ महीने और बीतने पर कल्किका राज्यारम्भ हुआ । ऐसा कहने पर कल्किका अस्तित्वसमय बीर-निर्वाणसे एक हजार वर्षके भीतर न रहकर ११०० वर्षके करीब हो जाता है और उससे एक हजारकी नियत संख्यामें तथा दूसरे प्राचीन ग्रन्थोंके कथनमें भी बाधा आती है और एक प्रकारमें सारी ही कालगणना बिंदू जाती है । इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि

५ श्रीयुत के० पी० जायसवाल बैरिष्टर पटनाने, जुलाई सन् १९१७ की ‘इण्डियन एक्टिविटी’ में प्रकाशित अपने एक लेखमें, हरिवंशपुराणके ‘द्वित्वार्दिशदेवातः कल्किराजस्य राजतां’ वाक्यके सामने भीजूद होते हुए भी, जो यह लिख दिया है कि इस पुराणमें कल्किराज्यके वर्ष नहीं दिये, यह बड़े ही आश्वर्यकी बात है । आपका इस पुराणके आधार पर गुप्तराज्य और कल्किराज्यके बीच ४२ वर्षका अन्तर बतलाना और कल्किके अस्तकालको उसका उदयकाल (Rise of Kalki) सूचित कर देना बहुत बड़ी गलती तथा भूल है ।

६ हाँ, शक-सम्बत् यदि वास्तवमें शकराजाके राज्यारम्भसे ही प्रारम्भ हुआ हो तो यह कहा जा सकता है कि त्रिलोकसारकी उक्त गायामें शकके ३१४ वर्ष ७ महीने बाद जो कल्कीका होना लिखा है उसमें शक और कल्की दोनों राजाओंका राज्यकाल शामिल है । परन्तु इस कथनमें यह विषमता बनी ही रहेगी कि अमुक अमुक वर्षसंख्याके बाद ‘कल्किराजा हुआ’ तथा ‘कल्किराजा हुआ’ इन दो सहश वाक्योंमेंसे एकमें तो राज्यकालको शामिल नहीं किया और दूसरेमें वह शामिल कर लिया गया है, जो कथन-प्रदर्शिको लिकहा है । . . . ॥

हरिवंशपुराण और त्रिलोकप्रकाशिते उक्त शक-काल-सूचक पदोंमें जो कथाः ‘अभवत्’ और ‘संजादो’ (संजातः) पदोंका प्रयोग किया गया है उनका ‘हुआ’—शकराजा हुआ—अर्थं शकराजाके अस्तित्वकालकी समाप्तिका सूचक है, आरम्भसूचक अथवा शकराजाकी शरीरोत्पत्ति या उसके जन्मका सूचक नहीं। और त्रिलोकसारकी गाथामें इन्हीं जैसा कोई क्रियापद अध्याहृत (understood) है।

यहाँ पर एक उदाहरण-द्वारा मैं इस विषयको और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कहा जाता है और आम तौर पर लिखनेमें भी आता है कि भगवान् पाश्वनाथसे भगवान् महावीर ढाई सौ (२५०) वर्षके बाद हुए। परन्तु इस ढाई सौ वर्ष बाद होनेका क्या अर्थ ? क्या पाश्वनाथके जन्मसे महावीरका जन्म ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? या पाश्वनाथके निर्वाणसे महावीरको केवलज्ञान ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? अथवा पाश्वनाथके निर्वाणसे महावीरको उत्पन्न हुआ ? तीनोंमेंसे एक भी बात सत्य नहीं है। तब सत्य क्या है ? इसका उत्तर श्रीगुणभद्राचार्यके निम्न वाक्यमें मिलता है:—

पाश्वेश-तीर्थ-सन्ताने पंचाशदूषिशताब्दके ।
तदभ्यन्तरवर्त्यायुर्भवावीरोऽत्र जातवान् ॥२७६॥

—महापुराण, ७४१ पर्व

इदमें बतलाया गया है कि ‘श्रीपाश्वनाथ तीर्थकरसे ढाई सौ वर्षके बाद, इसी समय के भीतर अपनी आयुको लिये हुए, महावीर भगवान् हुए’ अर्थात् पाश्वनाथके निर्वाणसे ‘महावीरको निर्वाण ढाई सौ वर्षके बाद हुआ। इस वाक्यमें ‘तदभ्यन्तरवर्त्यायुः’ (इसी समयके भीतर अपनी आयुको लिये हुए) यह पद महावीरका विशेषण है। इस विशेषण-पदके निकाल देनेसे इस वाक्यकी जैसी स्थिति रहती है और जिस स्थितिमें आम तौर पर महावीरके समयका उल्लेख किया जाता है ठीक वही स्थिति त्रिलोकसारकी उक्त गाथा तथा हरिवंशपुराणादिके उन शककालसूचक पदों की है। उनमें शक राजाके विशेषण रूपसे ‘तदभ्यन्तरवर्त्यायुः’ इस आशयक पद अध्याहृत है, जिसे अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए अपरसे लवाना चाहिये। बहुत सी कालमण्णाका यह विशेषण-पद-अध्याहृतनहीं है। आणु जान पड़ता है। और इसलिये वही कोई बात-

स्पष्टतया अथवा प्रकरणसे इसके विरुद्ध न हो वहाँ ऐसे अवसरों पर इस पदका आशय ज़रूर लिया जाना चाहिये । अस्तु ।

जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरनिवारणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पर शक-राजाके राज्यकालकी समाप्ति हुई और यह काल ही शकसम्बतकी प्रवृत्तिका काल है—जैसा कि ऊपर जाहिर किया जा चुका है—तब यह स्वतः मानना पड़ता है कि विक्रमराजाका राज्यकाल भी वीरनिवारणसे ४७० वर्ष ५ महीनेके अन्तर समाप्त हो गया था और यही विक्रमसम्बतकी प्रवृत्तिका काल है—तभी दोनों सम्बतोंमें १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर बनता है । और इस लिये विक्रमसम्बतको भी विक्रमके जन्म या राज्यारोहणका संबंध न कहकर, वीरनिवारण या बुद्धनिवारण-संवतादिकी तरह, उसकी स्मृति या यादगारमें कायम किया हुआ मृत्यु-संबंध कहना चाहिये । विक्रमसंबंध विक्रमकी मृत्युका सबल है, यह बात कुछ दूसरे प्राचीन प्रमाणोंसे भी जानी जाती है, जिसका एक नमूना श्रीअमितगति आचार्यका यह वाक्य है:—

समारूढे पूतत्रिदशावसर्ति विक्रमनृपे
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके ।
समाप्तं पंचम्यामवति धरिणी मुखनृपतौ
सिते पञ्चे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनधम् ॥

इसमें, 'मुभावितरत्नसदोह' नामक शब्दको समाप्त करते हुए, स्पष्ट लिखा है कि विक्रमराजाके स्वर्गारोहणके बाद जब १०५०वाँ वर्ष (संबंध) बीत रहा था और राजा मुंज पृथ्वीका पालन कर रहा था उस समय पौष शुक्ला पंचमीके दिन यह पवित्र तथा हितकारी शास्त्र समाप्त किया गया है ।' इन्ही अमितगति आचार्यने अपने दूसरे 'मृत्यु 'घर्मपरीक्षा'की समाप्तिका समय इस प्रकार दिया है:—

संबंधसराणां विगते सहस्रे सप्तसौ विक्रमपार्थिवस्य ।
इदं निषिद्धयान्यमर्तं समाप्तं जेनेन्द्रधर्मामृतनयुक्तिशास्त्रम् ॥

इस पदमें, यद्यपि, विक्रमसंबंध १०७० के विगत होने पर शब्दकी समाप्ति का उल्लेख है और उसे स्वर्गारोहण अथवा मृत्युका संबंध ऐसा कुछ नाम नहीं दिया; फिर भी इस पदको पहले पदकी रोकनीमें पड़नेसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रमसंबतका ही अपने

ग्रन्थोंमें प्रयोग किया है और वह उस बक्त विक्रमकी मृत्युका संबंध माना जाता था। संबंधके साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख किया जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी—उससे कोई भेद नहीं पड़ता था—इसीलिये इस पद्धतें उसका उल्लेख नहीं किया गया। पहले पद्धतें मुझके राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचलित वि० संबंध १०५० में मुझका राज्यासीन होना पाया जाता है। और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अभितगतिने प्रचलित विक्रमसंबंधमें भिन्न किसी दूसरे ही विक्रमसंबंधका उल्लेख अपने उक्त पद्धतें किया है। ऐसा कहने पर मृत्युसंबंध १०५० के समय जन्मसंबंध ११३० अथवा राज्यसंबंध १११२ का प्रचलित होना ठहरता है और उस बक्त तक मुझके जीवित रहनेका कोई प्रमाण इतिहासमें नहीं मिलता। मुझके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० १११२ से पूर्व ही देहावसान होना पाया जाता है।

अभितगति आचार्यके समयमें, जिसे आज साढ़े नौ सौ वर्षके करीब हो गये हैं, विक्रमसंबंध विक्रमकी मृत्युका संबंध माना जाता था यह बात उनसे कुछ समय पहलेके बने हुए देवसेनाचार्यके ग्रन्थोंसे भी प्रमाणित होती है। देवसेना-चार्यने अपना 'दर्शनसार' ग्रन्थ विक्रमसंबंध ६६० में बनाकर समाप्त किया है। इसमें कितने ही स्थानों पर विक्रमसंबंधका उल्लेख करते हुए उसे विक्रमकी मृत्युका संबंध सूचित किया है; जैसा कि इसकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है:—

छृत्तीसे वरिससये विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरटु वलहीए उप्पणणो सेवडो संघो ॥ ११ ॥

पंचसए छब्बीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्षिणमहुराजादो दाविडसंघो महामाहो ॥२८॥

सत्तसए तेवरणे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

गण्डियडे वरगामे कठो संघो मुण्येयव्वो ॥ ३८ ॥

विक्रमसंबंधके उल्लेखको लिये हुए जितने ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध हुए हैं उनमें, जहाँ तक मुझे मालूम है, सबसे प्राचीन ग्रन्थ यही है। इससे पहले घनपाल-की 'पाइयलच्छी नाममाला' (वि० सं० १०१६) और उससे भी पहले अभित-गतिका 'मुभावितरसंदोह' ग्रन्थ पुरातत्त्वज्ञों-द्वारा प्राचीन माना जाता था।

ही, शिलालेखोंमें एक शिलालेख इससे भी पहिले विक्रमसंवत्के उल्लेखको लिये हुए है और वह चाहमान चण्ड महासेनका शिलालेख है, जो धीलपुरसे मिला है और जिसमें उसके लिखे जानेका संबत ८६६ दिया है; जैसा कि उसके निम्न अंशसे प्रकट है:—

“वसु नव आष्टौ वर्षी गतस्य कालस्य विक्रमास्यस्य ।”

यह अंश विक्रमसंवत्को विक्रमकी मृत्युका संबत बतलानेमें कोई बाधक नहीं है और न ‘पादप्रलच्छी नाममाला’ का ‘विक्रम कालस्स गण अउण्ठात्ती [एण्ठावी] सुत्तरे सहस्रस्मि’ अंश ही इसमें कोई बाधक प्रतीत होता है, बल्कि ये दोनों ही अंश एक प्रकारसे साधक जान पड़ते हैं; क्योंकि इनमें जिस विक्रमकाल-के बीतनेकी बात कही गई है और उसके बादके बीते हुए वर्षोंकी गणना की गई है वह विक्रमका अस्तित्वकाल—उसकी मृत्युपर्यन्तका समय—ही जान पड़ता है। उसीका मृत्युके बाद बीतना प्रारम्भ हुआ है। इसके सिवाय, दर्शनसारमें एक यह भी उल्लेख मिलता है कि उसकी गायाएँ पूर्वाचायौंकी रची हुई हैं और उन्हें एकत्र संबय करके ही यह ग्रन्थ बनाया गया है। यथा:—

पुञ्चायरिक्याइं गाहाइं संचित्तण एयत्य ।

सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥४६॥

इश्चो दंसणसारो हारो भव्याण एवसए णवए ।

सिरिपामणाहगेदे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए ॥५०॥

इससे उक्त गायाओंके और भी अधिक प्राचीन होनेकी संभावना है और उनकी प्राचीनतासे विक्रमसंवत्को विक्रमकी मृत्युका संबत माननेकी बात और भी ज्यादा प्राचीन हो जाती है। विक्रमसंवत्की यह मान्यता अमितगतिके बाद भी असें तक चली गई मालूप होती है। इसीते १५ वीं-१६ वीं शताब्दी तथा उसके करीबके बने हुए ग्रन्थोंमें भी उसका उल्लेख पाया जाता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं:—

सृते विक्रमभूपाले सप्तविंशतिसंयुते ।

दशपंचशतेऽब्दानामतीते शृणुतापरम् ॥१५७॥

लुङ्कामतमभूदूर्कं ॥१५८॥

—उल्लनन्दिन्द्वादशवाहृचरित्र

सवटींशे शतेऽब्दानां सृते विक्रमराजनि ।

सौराष्ट्रे वज्रभीपुर्यामभूत्तलध्यते मया ॥१८॥

—वामदेवकृत, भावसंग्रह

इस संपूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि प्रचलित विक्रमसंवत् विक्रमकी मृत्युका संवत् है, जो वीरनिवारणसे ४७० वर्ष ५ महीने के बाद प्रारम्भ होता है। और इस लिये वीरनिवारणसे ४७० वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है और उसके आधार पर प्रचलित वीरनिवारणसंवत् पर आपत्ति की जाती है वह ठीक नहीं है। और न यह बात ही ठीक बैठती है कि इस विक्रमने १८ वर्षकी अवस्थामें राज्य प्राप्त करके उसी वक्तसे अपना संवत् प्रचलित किया है। ऐसा माननेके लिये इतिहासमें कोई भी समर्थ कारण नहीं है। ही सकता है कि यह एक विक्रमकी बातको दूसरे विक्रमके साथ जोड़ देनेका ही नतीजा हो।

इसके सिवाय, नन्दिसवकी एक पट्टावलीमें—विक्रम प्रबन्धमें भी—जो यह वाक्य दिया है कि—

“सत्तरिचदुसद्जुतो जिणकाला विक्रमो हवइ जस्मो ।”

अर्थात्—‘जिनकालसे (महावीरके निवारणसे) * विक्रमजन्म ४७० वर्षके अन्तरको लिये हुए हैं’। और दूसरी पट्टावलीमें जो आचार्योंके समयकी गणना विक्रमके राज्यारोहण-कालसे—उक्त जन्मकालमें १८ की वृद्धि करके—की गई है वह सब उक्त शाकाकालको और उसके आधार पर बने हुए विक्रमकालको ठीक न समझनेका परिणाम है, अथवा यों कहिये कि पाश्वनाथके निवारणसे ढाईसौ वर्ष बाद महावीरका जन्म या केवलज्ञानको प्राप्त होना मान लेने जैसी गलती है।

ऐसी हालतमें कुछ जैन, अजैन तथा पश्चिमीय और पूर्वीय विद्वानोंने पट्टावलीयोंको लेकर जो प्रचलित वीर-निवारण सम्बत् पर यह आपत्ति की है कि ‘उसकी वर्षसंख्यामें १८ वर्षकी कमी है जिसे पूरा किया जाना चाहिये’

* विक्रमजन्मका आशय यदि विक्रमकाल अथवा विक्रमसम्बत्की उत्पत्तिसे लिया जाय तो यह कथन ठीक हो सकता है। क्योंकि विक्रमसम्बत्की उत्पत्ति विक्रमकी मृत्युके बाद हुई पाई जाती है।

वह समीचीन मालूम नहीं होती, और इसलिये मान्य किये जानेके योग्य नहीं। उसके अनुसार वीरनिवाणिसे ४८८ वर्ष बाद विक्रमसम्बत्का प्रचलित होना माननेसे विक्रम और शक सम्बतोंके बीच जो १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर है वह भी बिगड़ जाता है—सदोष ठहरता है—अथवा शकाल पर भी आपत्ति लाजिमी आती है जो हमारा इस कालगणनाका मूलाधार है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई और न यह सिद्ध किया गया कि शकराजाने भी वीरनिवाणिसे ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद जन्म लेकर १८ वर्षकी अवस्थामें राज्याभिषेकके समय अपना सम्बत् प्रचलित किया है। प्रत्युत इसके, यह बात ऊपरके प्रमाणोंसे भले प्रकार सिद्ध है कि यह समय शकसम्बत्की प्रवृत्तिका समय है—चाहे वह सम्बत् शकराजाके राज्यकालकी समाप्ति पर प्रवृत्त हुआ हो या राज्यारम्भके समय—शकके शारीरजन्मका समय नहीं है। साथ ही, श्वेताम्बर भाइयोंने जो वीरनिवाणिसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना है† और जिसकी वजहसे प्रचलित वीरनिवाणिसम्बत्में १८ वर्षके बढ़ानेकी भी कोई चारूरत नहीं रहती उसे क्यों ठीक न मान लिया जाय, इसका कीर्ति समाधान नहीं होता। इसके सिवाय, जार्लंचार्पेटियरकी यह आपत्ति बराबर बनी ही रहती है कि वीरनिवाणिसे ४७० वर्षके बाद जिस विक्रमराजाका होना बतलाया जाता है उसका इतिहासमें कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है॥ परन्तु विक्रम मवत् को विक्रमकी मृत्युका सम्बत् मान लेने पर यह आपत्ति कायम नहीं रहती; क्योंकि जार्लंचार्पेटियरने वीरनिवाणिसे ४१० वर्षके बाद विक्रमराजाका

† यथा—विक्रमराजारम्भा प(पु?)रओ सिरिवीरनिवृद्ध भणिया ।

सुभ-मुणि-बेय-जुत्तो विक्रमकालाड जिणकालो । —विचारश्रेणि

॥ इस पर बैरिष्टर के पी. जायसदालने जो यह कल्पना की है कि सातकणि द्वितीयका पुत्र 'पुलमायि' ही जैनियोंका विक्रम है—जैनियोंने उसके दूसरे नाम 'विलवय' को लेकर और यह समझकर कि इसमें 'क' को 'ल' हो गया है उसे 'विक्रम' बना डाला है—वह कोरी कल्पना ही कल्पना जान पड़ती है। कहींसे भी इसका समर्थन नहीं होता। (बैरिष्टर सा० की इस कल्पनाके लिये देखो, जैनसाहित्यसंशोधकके प्रथम संदर्भका चौथा छंक) ।

राज्यारंभ होना इतिहास से सिद्ध माना है ६० । और यही समय उसके राज्यारंभ का मूल्यसम्बद्ध माननेसे प्राप्ता है; क्योंकि उसका राज्यकाल ६० वर्ष तक रहा है । मालूम होता है जार्लचार्पैटियरके सामने विक्रमसम्बद्धके विषयमें विक्रमकी मृत्युका सम्बद्ध होनेकी कल्पना ही उपस्थित नहीं हुई और इसीलिये आपने वीरनिर्बाणसे ४१० वर्षके बाद ही विक्रम सम्बद्धका प्रचलित होना मान लिया है और इस भूल तथा गलतीके आधार पर ही प्रचलित वीरनिर्बाण सम्बद्ध पर यह आपत्ति कर डाली है कि उसमें ६० वर्ष बढ़े हुए हैं । इसलिये उसे ६० वर्ष पीछे हटाना चाहिये—प्रथम् इस समय जो २४६० सम्बद्ध प्रचलित है उसमें ६० वर्ष घटाकर उसे २४०० बनाना चाहिये । प्रतः आपकी यह आपत्ति भी निःसार है और वह किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं ।

अब मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि जार्ल चार्पैटियरने, विक्रमसम्बद्धको विक्रमकी मृत्युका सम्बद्ध न समझते हुए और यह जानते हुए भी कि श्वेताम्बर भाइयोंने वीरनिर्बाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्यारंभ माना है, वीरनिर्बाणसे ४१० वर्ष बाद जो विक्रमका राज्यारंभ होना बतलाया है वह केवल उनकी निजी कल्पना अथवा स्वोज है या कोई शास्त्राधार भी उन्हें इसके किये प्राप्त हुआ है । शास्त्राधार जरूर मिला है और उससे उन श्वेताम्बर विद्वानोंकी गलतीका भी पता चल जाता है जिन्होंने जिनकाल और विक्रमकालके ४७० वर्षके अन्तरकी गणना विक्रमके राज्याभिषेकसे की है और इस तरह विक्रमसम्बद्धको विक्रमके राज्यारोहणका ही सम्बद्ध बतला दिया है । इस विषयका खुलासा इस प्रकार है—

श्वेताम्बराचार्य श्रीमेहतुंगने, अपनी ‘विचारश्रेणि’ में—जिसे ‘स्थविरावली’ भी कहते हैं, ‘जै रयणि कालगाओ’ आदि कुछ प्राकृत गाथाओंके आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि—‘जिस रात्रिको भगवान् महावीर पावापुरम्

॥ देखो, जार्लचार्पैटियरका वह प्रसिद्ध लेख जो इण्डियन एज्ञिके री (जिस्ट ४३ वीं, सन् १६१४) की जून, जुलाई और अगस्तकी संख्याओंमें प्रकाशित हुआ है और जिसका मुजराती अनुवाद ‘जैनसाहित्यसंशोधकके द्वारे खंडके द्वितीय अंकमें निकला है ।

निर्वाणिको प्राप्त हुए उसी रात्रिको उज्जिनीमें चंडप्रद्योतका पुत्र 'पालक' राजा राज्याभिषिक्त हुआ, इसका राज्य ६० वर्ष तक रहा, इसके बाद क्रमशः नन्दोंका राज्य १५५ वर्ष, मौयोंका १०८, पुष्यमित्रका ३०, बलमित्र-भानुमित्रका ६०, नभोवाहन (नरवाहन) का ४०, गर्वभिल्लका १३ और शकका ४ वर्ष राज्य रहा। इस तरह यह काल ४७० वर्षका हुआ। इसके बाद गर्वभिल्लके पुत्र विक्रमादित्यका राज्य ६० वर्ष, घर्मादित्यका ४०, भाइज्ञका ११, नाइज्ञका १४ और नाहड़का १० वर्ष मिलकर १३५ वर्षका दूसरा काल हुआ। और दोनों मिलकर ६०५ वर्ष का समय महावीरके निर्वाण बाद हुआ। इसके बाद शकोंका राज्य और शकसम्बत्की प्रवृत्ति हुई। ऐसा बतलाया है। यही वह परम्परा और कालगणना है जो श्वेताम्बरोंमें प्राप्तः करके मानी जाती है।

परन्तु श्वेताम्बर-सम्प्रदायके बहुमान्य प्रसिद्ध विद्वान् श्रीहेमचन्द्राचार्यके 'परिशिष्टपर्व' से यह मातृम होता है कि उज्जिनीके राजा पालकका जो समय (६० वर्ष) ऊपर दिया है उसी समय मगधके सिहासन पर श्रेणिकके पुत्र कूर्णिक (अजातशत्रु) और कूर्णिकके पुत्र उदायीका क्रमशः राज्य रहा है। उदायीके निःसन्तान मारे जाने पर उसका राज्य नन्दको मिला। इसीसे परिशिष्टपर्वमें श्रीबद्धमान महावीरके निर्वाणसे ६० वर्षके बाद प्रथम नन्दराजाका राज्याभिषिक्त होना लिखा है। यथा:—

अनन्तरं बद्धेमानस्यामिनिर्वाणवासरात् ।

गतायां पष्ठिवत्सर्यामेष नन्दोऽभवन्नृपः ॥६-२४३॥

इसके बाद नन्दोंका वर्णन देकर, मौर्यवंशके प्रथम राजा सम्राट् चन्द्रगुप्तके राज्यरम्भका समय बतलाते हुए, श्रीहेमचन्द्राचार्यने जो महत्वका इलोक दिया है वह इस प्रकार है:—

एवं च श्रीमहावीरमुक्तेर्वर्षशते गते ।

पञ्च पूँचाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्नृपः ॥८-३६६॥

इस इलोक पर जालं चायेटियरने अपने निर्णयका खास आधार रखता है और डा० हर्मन जेकोबीके कथानुसार इसे महावीर-निर्वाणके सम्बन्धमें अधिक संगत परम्पराका सूचक बतलाया है। साथ ही, इसकी रचना परसे यह अनुमान किया है कि या तो यह इलोक किसी अधिक प्राचीन ग्रन्थ परसे ज्योंका त्यों

उद्भूत किया गया है औबवा किसी प्राचीन गाथा परसे अनुवादित किया गया है। अस्तु; इस श्लोकमें बतलाया है कि 'महावीरके निर्वाणसे १५५ वर्ष बाद चन्द्रगुरु-राज्यारूप हुआ'। और यह समय इतिहासके बहुत ही अनुकूल जान पड़ता है। विचारश्चेणिकी उक्त कालगणनामें १५५ वर्षका समय सिफ़्र नन्दोंका और उस से पहले ६० वर्षका समय पालकका दिया है। उसके अनुसार चन्द्रगुरुका राज्यारोहण-काल वीरनिर्वाणसे २१५ वर्ष बाद होना था परन्तु यहाँ १५५ वर्ष बाद बतलाया है, जिससे ६० वर्ष ती कमी पड़ती है। मेरुतुंगाचार्यने भी इस कमीको महसूस किया है। परन्तु वे हेमचन्द्राचार्यके इस कथनको गलत साबित नहीं कर सकते ये और दूसरे ग्रन्थोंके साथ उन्हें साफ़ विरोध नज़र आता था, इसलिये उन्होंने 'तच्चित्यम्' कहकर ही इस विषयको छोड़ दिया है। परन्तु मामला बहुत कुछ स्पष्ट जान पड़ता है। हेमचन्द्रने ६० वर्षकी यह कमी नन्दोंके राज्यकालमें की है—उनका राज्यकाल ६५ वर्षका बतलाया है—वर्णोंके नन्दोंसे पहिले उनके और वीरनिर्वाणके बीचमें ६० वर्षका समय कूणिक आदि राजाओं-का उन्होंने माना ही है। ऐसा मालूम होता है कि पहलेसे वीरनिर्वाणके बाद १५५ वर्षके भीतर नन्दोंका होना माना जाना था परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि वीरनिर्वाणके ठीक बाद नन्दोंका राज्य प्रारम्भ हुआ, वल्कि उनसे पहिले उदायी तथा कूणिकका राज्य भी उसमें शामिल था। परन्तु इन राज्यों-की अलग अलग वर्ष-गणना साथमें न रहने आदिके कारण बादको गलतीसे १५५ वर्षकी संख्या अकेले नन्दराज्यके लिये रुढ़ हो गई। और उधर पालक राजाके उसी निर्वाण-रात्रिको अभिवित होनेकी जो महज एक दूसरे राज्यकी विशिष्ट घटना थी उसके साथमें राज्यकालके ६० वर्ष जुड़कर वह गलती इधर मगधकी काल गणनामें शामिल हो गई। इस तरह दो भूलोंके कारण काल-गणनामें ६० वर्षकी वृद्धि हुई और उसके फलस्वरूप वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना जाने लगा। हेमचन्द्राचार्यने इन भूलोंको मालूम किया और उनका उक्त प्रकारसे दो श्लोकोंमें ही सुधार कर दिया है। वैरिष्ठ काशीप्रसाद (के. पी.) जी जावसवालने, जार्ल चार्पेटियरके लेखका विरोध करते हुए, हेमचन्द्राचार्य पर जो यह आपत्ति की है कि उन्होंने महावीरके निर्वाणके बाद तुरन्त ही नन्दवंशका राज्य बतला दिया है, और इस कल्पित

आधार पर उनके कथनको 'भूलभरा तथा अप्रामाणिक' तक कह डाला है कि उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। हमें तो बैरिहर साहबकी ही साफ़ भूल नज़र आती है। मालूम होता है उन्होंने न तो हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वको ही देखा है, और न उसके छठे पर्वके उक्त श्लोक नं० २४३ के अर्थ पर ही ध्यान दिया है, जिसमें साफ़ तौर पर वीरनिर्बाणसे ६० वर्षके बाद नन्द राजाका होना लिखा है। अस्तु; चन्द्रगुप्तके राज्यारोहण समयकी १५५ वर्षसंख्यामें आगेके २५५ वर्ष जोड़नेसे ४१० हो जाते हैं, और यही वीरनिर्बाणसे विक्रमका राज्यारोहणकाल है। परन्तु महाबीरकाल और विक्रमकालमें ४७० वर्षका प्रसिद्ध अन्तर माना है और वह तभी बन सकता है जब कि इस राज्यारोहणकाल ४१० में राज्यकालके ६० वर्ष भी शामिल किये जावें। ऐसा किया जाने पर विक्रमसम्बत् विक्रमकी मृत्युका सम्बत् हो जाता है और किर सारा ही झगड़ा मिट जाता है। वास्तवमें, विक्रमसम्बत्को विक्रमके राज्याभिषेकका सम्बत् मान लेनेकी गलतीसे यह सारी गड़बड़ फैटी है। यदि वह मृत्युका सम्बत् माना जाता तो पालकके ६० वर्षोंको भी इधर शामिल होनेका अवसर न मिलता और यदि कोई शामिल भी कर लेता तो उसकी भून शीघ्र ही पकड़ ली जाती। परन्तु राज्याभिषेकके सम्बत्की मान्यताने उस भूनको चिरकाल तक बना रहने दिया। उसीका यह नतीजा है जो बहुतसे पन्थोंमें राज्याभिषेक-संबत्के रूपमें ही विक्रम-संबत्का उल्लेख पाया जाता है और कालगणामें कितनी ही गड़बड़ उपस्थित हो गई है, जिसे अब अच्छे परिश्रम तथा प्रयत्नके साथ दूर करनेकी जरूरत है।

इसी गलती तथा गड़बड़को लेकर और शक्कालविषयक त्रिलोकसारादिके वाक्योंका परिचय न पाकर श्रीयुत एस बी. बैंकेश्वरने, अपने महाबीर-समय-सम्बन्धी—The date of Vardhamana नामक—नेस† में यह कल्पना

कि देखो, विहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके जनरलका सितम्बर सन् १६१५ का अंक तथा जैनसाहित्यसंशोधकके प्रथम लंडका ४ था अंक।

† यह लेख सन् १६१७ के 'जनरल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी' में १२२-३० पर, प्रकाशित हुआ है और इसका गुजराती अनुवाद जैनसाहित्य-संशोधकके हितीय लंडके द्वारे अनुमें निकला है।

की है कि महावीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद जिस विक्रमकालका उल्लेख जैन-ग्रन्थोंमें पाया जाता है वह प्रचलित सनन्द-विक्रमसंवत् न होकर अनन्द-विक्रम-संवत् होना चाहिये, जिसका उपयोग १२ वीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि चन्द्रवरदाई ने अपने काव्यमें किया है और जिसका प्रारम्भ ईसवी सन् ३३ के लगभग अथवा यों कहिये कि पहले (प्रचलित) विक्रम संवत्के ६० या ६१ वर्ष बाद हुआ है । और इस तरह पर यह सुझाया है कि प्रचलित वीरनिर्वाणसंवत्मेसे ६० वर्ष कम होने चाहिये—अर्थात् महावीरका निर्वाण ईसवी सन्में ५२७ वर्ष पहले न मानकर ४३७ वर्ष पहले मानना चाहिये, जो किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं । आपने यह तो स्वीकार किया है कि प्रचलित विक्रमसंवत्की गणना-तुमार वीरनिर्वाण ६० सन्में ५२७ वर्ष पहले ही बैठता है परन्तु इसे महज इस बुनियाद पर असंभवित करार दे दिया है कि इससे महावीरका निर्वाण बुद्ध-निर्वाणसे पहले छहरता है, जो आपको इष्ट नहीं । परन्तु इस तरह पर उसे असं-भवित करार नहीं दिया जा सकता; क्योंकि बुद्धनिर्वाण ६० सन्में ५४४ वर्ष पहले भी माना जाता है, जिसका आपने कोई निराकरण नहीं किया । और इसलिये बुद्धका निर्वाण महावीरके निर्वाणसे पहले होने पर भी आपके इस कथनका मुख्य आधार आपकी यह मान्यता ही रह जाती है कि बुद्ध-निर्वाण ६० सन्में पूर्व ४८५ और ४५३के मध्यवर्ती किसी समयमें हुआ है, जिसके समर्थनमें आपने कोई भी सबल प्रमाण उपस्थित नहीं किया और इसलिये वह मान्य किये जानेके योग्य नहीं । इसके सिवाय, अनन्द-विक्रम-संवत्की जिस कल्पनाको आपने अपनाया है वह कल्पना ही निरूप है—अनन्दविक्रम नामका कोई संवत् कभी प्रचलित नहीं हुआ और न चन्द्रवरदाईके नामसे प्रसिद्ध होने वाले ‘पृथ्वीराजरासे’ में ही उसका उल्लेख है—और इस बातको जाननेके लिये रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द्रजी ओझाका ‘अनन्द-विक्रम संवत्की कल्पना’ नामका वह लेख पर्याप्त है जो नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके प्रथम भागमें, पृ० ३७७ से ४५४ तक मुद्रित हुआ है ।

अब मैं एक बात यहाँ पर और भी बतला देना चाहता हूँ और वह यह कि कुद्ददेव भगवान् महावीरके समकालीन थे । कुछ विद्वानोंने बौद्धग्रन्थ मणिभृमनिकाय

के उपालिसुत और सामग्रामसुतकी* संयुक्त घटनाको लेकर, जो बहुत कुछ अप्राकृतिक द्वेषभूलक एवं कल्पित जान पड़ती है और महावीर भगवान्‌के साथ जिसका संबन्ध ठीक नहीं बैठता, यह प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण बुद्धके निर्वाणसे पहले हुआ है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी मालूम नहीं होती। बुद्ध बौद्धप्रन्थमें बुद्धका निर्वाण अजातशत्रु (कूणिक) के राज्याभिषेकके आठवें वर्षमें बतलाया है; और दीषनिकायमें, तत्कालीन तीर्थंकरोंकी मुलाकातके अवसर पर, अजातशत्रुके मत्रीके मुखसे निगठ नातपुत (महावीर) का जो परिचय दिलाया है उसमें महावीरका एक विशेषण “अद्वगतो वयो” (अवर्गतवयाः) भी दिया है, जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि अजातशत्रुको दिये जाने वाले इस परिचयके समय महावीर अधेड उम्रके थे अर्थात् उनकी अवस्था ५० वर्षके लगभग थी। यह परिचय यदि अजातशत्रुके राज्यके प्रथम वर्षमें ही दिया गया हो, जिसकी अधिक संभावना है, तो कहना होगा कि महावीर अजातशत्रुके राज्यके २२ वें वर्ष तक जीवित रहे हैं; क्योंकि उनकी आयु प्रायः ७२ वर्ष की थी। और इसलिये महावीरका निर्वाण बुद्धनिर्वाणसे लगभग १४ वर्षके बाद हुआ है। “भगवतीसूत्र” आदि इवेताम्बर ग्रन्थोंसे भी ऐसा मालूम होता है कि महावीर-निर्वाणसे १६ वर्ष पहले गोशालक (मंखलिपुत्त गोशाल) का स्वर्गवास हुआ, गोशालकके स्वर्गवाससे कुछ वर्ष पूर्व (प्रायः ७ वर्ष पहले) अजातशत्रुका राज्यरोहण हुआ, उसके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्ध का निर्वाण हुआ और बुद्धके निर्वाणसे कोई १४-१५ वर्ष बाद अथवा अजातशत्रुके राज्यके २२ वें वर्षमें महावीरका निर्वाण हुआ। इस तरह बुद्धका निर्वाण पहले और महावीरका निर्वाण उसके बाद पाया जाता है †। इसके सिवाय, हेमचन्द्राचार्यने चंद्रगुप्तका राज्यारोहण-समय वीरनिर्वाणसे १५५ वर्ष बाद बतलाया है और ‘दीपबंश’ ‘महाबंश’ नामके

* इन सूत्रोंके हिन्दी अनुवादके लिये देखो, राहुल सांकृत्यायन-कृत ‘बुद्धचर्या पृष्ठ ४४५, ४८१।

† देखो, जार्ल चार्पेटियरका वह प्रसिद्ध लेख जिसका अनुवाद जैनसाहित्य-संक्षेपके छहतीय खंडके दूसरे भागमें प्रकाशित हुआ है और जिसमें बौद्धप्रथकी उस घटना पर खासी आपत्ति की गई है।

बौद्ध ग्रन्थोंमें वही समय कुद्दनिर्वाणसे १६२ वर्ष बाद बतलाया गया है। इससे भी प्रकृत विषयका कितना ही समर्थन होता है और यह स्पष्ट जाना जाता है कि बीरनिर्वाणसे कुद्दनिर्वाण अधिक नहीं तो ७-८ वर्षोंके क़रीब पहले जरूर हुआ है।

बहुत संभव है कि बौद्धोंके सामग्रामसुत्तमें वर्णित निर्गंठ नातपुत्त (महावीर) की मृत्यु तथा संघभेद-समाचार वाली घटना मक्खलिपुत्त गौशालकी मृत्युसे संबंध रखती हो और पिटक ग्रन्थोंको लिपिबद्ध करते समय किसी भूल आदिके बश इस सूत्रमें मक्खलिपुत्तकी जगह नातपुत्तका नाम प्रविष्ट हो गया हो; क्योंकि मक्खलिपुत्तकी मृत्यु—जो कि बूढ़के छह प्रतिस्पर्धी तीर्थकरोंमेंसे एक था—कुद्दनिर्वाणसे प्रायः एक वर्ष पहले ही हुई है और बूढ़का निर्वाण भी उक्त मृत्युसमाचारसे प्रायः एक वर्ष बाद माना जाता है। दूसरे, जिस पादामें इस मृत्युका होना लिखा है वह पादा भी महावीरके निर्वाणक्षेत्र-वाली पादा नहीं है, बल्कि दूसरी ही पादा है जो बौद्ध पिटकानुसार गोरखपुरके जिलेमें स्थित कुशीनाराके पासका कोई ग्राम है। और तीसरे, कोई संघभेद भी महावीरके निर्वाणके अनन्तर नहीं हुआ, बल्कि गौशालकी मृत्यु जिस दशामें हुई है उससे उसके संघका विभाजित होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। इससे भी उक्त मृत्यु-समाचार-वाली घटनाका महावीरके साथ कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता, जिसके आधार पर महावीर-निर्वाणको कुद्दनिर्वाणसे पहले बतलाया जाता है।

बूढ़निर्वाणके समय-सम्बन्धमें भी विद्वानोंका मतभेद है और वह महावीर-निर्वाणके समयसे भी अधिक विवादप्रस्त चल रहा है; [परन्तु लंकामें जो कुद्दनिर्वाणसम्बन्ध प्रचलित है वह सबसे अधिक मान्य किया जाता है—इहां, द्याम और आसाममें भी वह माना जाता है। उसके अनुसार बूढ़निर्वाण ई० सन्में ५४४ वर्ष पहले हुआ है। इससे भी महावीरनिर्वाण बूढ़निर्वाणके बाद बैठता है; क्योंकि बीरनिर्वाणका समय शकसंवत्से ६०५ वर्ष (विक्रमसम्बत्से ४७० वर्ष) ५ महीने पहले होनेके कारण ईसवी सन्में प्रायः ५२८ वर्ष पूर्व पाया जाता है। इस ५२८ वर्ष पूर्वके समयमें यदि १८ वर्षकी बूढ़ि करदी जाय तो वह ५४६ वर्ष पूर्व होजाता है—अर्थात् बूढ़निर्वाणके उक्त लंकामान्य समयसे दो वर्ष पहले। अतः जिन विद्वानोंने महावीरके निर्वाणको कुद्दनिर्वाणसे पहले मान लेने की

बजहसे प्रचलित वीरनिर्बाणिसम्बतमें १८ वर्षकी बृद्धिका विधान किया है वह भी इस हिसाबसे ठीक नहीं है।

उपसंहार

यहाँ तकके इस सम्पूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि आज कल जो वीरनिर्बाणिसम्बत २५६० प्रचलित है वही ठीक है—उसमें न तो बैरिष्टर के० पी० जायसवाल जैसे विद्वानोंके कथनानुसार १८ वर्षकी बृद्धि की जानी चाहिए और न जालं चापेटियर जैसे विद्वानोंकी घारणानुसार ६० वर्ष की अथवा एस० वी० बैंकटेक्वरकी सूचनानुसार ६० वर्षकी कमी ही की जानी उचित है। वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है। हाँ, उसे गत सम्बत समझना चाहिये—जैनकाल-गणामें वीरनिर्बाणिके गतवर्ष ही लिये जाते रहे हैं—इसबी सन् आदिकी तरह वह वर्तमान सम्बतका ओतक नहीं है। क्योंकि गत कार्तिकी अमावस्याको शकसम्बतके १८५४ वर्ष ७ महीने व्यतीत हुए थे और शकसम्बत महावीरके निर्बाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवतित हुआ है, यह ऊपर बतलाया जा चुका है; इन दोनों संस्थाओंके जोड़नेसे पूरे २४६० वर्ष होते हैं। इतने वर्ष महावीरनिर्बाणिको हुए गत कार्तिकी अमावस्याको पूरे हो चुके हैं और गत कार्तिकयुक्ता प्रतिपदासे उसका २४६१ वाँ वर्ष चल रहा है। यही आधुनिक सम्बत-लेखन पद्धतिके अनुसार वर्तमान वीरनिर्बाणि सम्बत है। और इसलिये इसके अनुसार महावीरको जन्म लिये हुए २५३१ वर्ष बीत चुके हैं और इस समय गत चैत्रमुखला त्रयोदशी (वि० सं० १६६० शक सं० १८५५) से, आपकी इस वर्षगांठका २५३२ वाँ वर्ष चल रहा है और जो समाप्तिके क्रीब है।

इत्यलम् ।



बीरनिर्वाणसंवत्की समालोचनापर विचार

श्रीयुत पंडित ए० शास्त्रिराजजी शास्त्री आस्थान विद्वान् मैसूर राज्यने 'भगवान् महाबीरके निर्वाण-सम्बत्की समालोचना' शीर्षक एक लेख संस्कृत भाषा में लिखा है, जो हिन्दी जैनगजटके गत दीपमालिकाङ्क्ष (वर्ष ४७ अंक १)-में प्रकाशित हुआ है और जिसका हिन्दी अनुवाद 'अनेकान्त' वर्ष ४ की किरण १० में प्रकाशित किया जा रहा है। जैनगजटके सहसम्पादक पं० सुमेरचन्दजी 'दिवाकर' और 'जैनसिद्धान्तभास्कर' के सम्पादक पं० के० मुजबली शास्त्री आदि कुछ विद्वान् भित्रोंका अनुरोध हुआ कि मुझे उक्त लेखपर अपना विचार जरूर प्रकट करना चाहिये। तदनुसार ही मैं यहाँ अपना विचार प्रकट करता हूँ।

इस लेखमें मूल विषयको छोड़कर दो बातें खास तौरपर आपत्तिके योग्य हैं—एकतो शास्त्रीजीने 'अनेकान्त' आदि दिगम्बर समाजके पत्रोंमें उल्लिखित की जाने वाली बीरनिर्वाण-सम्बत्की संस्थाको मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका अनुसरण बताया है; दूसरे इन पंक्तियोंके लेखक तथा दूसरे दो संशोधक विद्वानों (प्रो० ए० एन० उपाध्याय और पं० नाथुरामजी 'प्रेमी') के ऊपर यह मिथ्या प्रारोप लगाया है कि इन्होंने बिना विचारे ही (गतानुगतिक रूपसे) श्वेताम्बर-सम्प्रदायी मार्गका अनुसरण किया है। इस विषयमें सबसे पहले मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 'भगवान् महाबीरके निर्वाणको माज कितने वर्ष व्यतीत हुए ?' यह एक शुद्ध ऐतिहासिक प्रश्न है—किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताके साथ इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसे साम्प्रदायिक मान्यताका रूप देना और इस तरह दिगम्बर समाजके हृदयमें अपने लेखका कुछ महत्व स्थापित करनेकी

चेष्टा करना ऐतिहासिक क्षेत्रमें कदम बढ़ानेवालोंके लिये अनुचित है। इवेताम्बर समाजके भी कितने ही विद्वानोंने ऐतिहासिक इष्टिसे ही इस प्रश्नपर चिचार किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है। इन्होंसे 'बीर-निवारण-सम्बद्ध और जैन कालगणना' नामका एक गवेषणात्मक विस्तृत निबन्ध १८५ पृष्ठ का लिखा है, और उसमें कालगणनाकी कितनी ही भूलें प्रकट की गई हैं। यह निबन्ध 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के १०वें तथा ११वें भागमें प्रकाशित हुआ है। यदि यह प्रश्न केवल मान्त्रिकायिक मान्यताका ही होता तो मुनिजीको इसके लिये इतना अधिक ऊहापोह तथा परिश्रम करनेकी ज़रूरत न पड़ती। अस्तु ।

मुनि कल्याणविजयजीके उक्त निबन्धसे कोई एक वर्ष पहले मैंने भी इस विषयपर 'भगवान् महावीर और उनका समय' शीर्षक एक निबन्ध लिखा था, जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत् १६८६ को होनेवाले महावीर-जयन्तीके उत्सवपर देहलीमें पढ़ा गया था और बादको प्रथमवर्षके 'अनेकान्त' की प्रथम किरणमें अग्रस्थान पर प्रकाशित किया गया था *। इस निबन्धमें प्रकृत विषयका कितना अधिक ऊहापोहके साथ विचार किया गया है, प्रचलित बीरनिवारण-संवत् पर होनेवाली दूसरे विद्वानोंकी आपत्तियोंका कहाँ तक निरसन कर गुत्थियोंको सुलगाया गया है, और साहित्यकी कुछ पुरानी गड़बड़ अर्थ समझेकी गलती अथवा कालगणनाकी कुछ भूलोंको कितना स्पष्ट करके बतलाया गया है, ये सब बातें उन पाठकोंसे छिपी नहीं हैं जिन्होंने इस निबन्धको गौरके साथ पढ़ा है। इसीसे 'अनेकान्त' में प्रकाशित होते ही अच्छे-अच्छे जैन-अजैन विद्वानोंने 'अनेकान्त' पर दी जाने वाली अपनी सम्मतियोंमें† इस निबन्धका अभिनन्दन किया था और इसे महत्वपूर्ण, खोजपूर्ण, गवेषणापूर्ण, वि. तापूर्ण, बड़े मार्कोंका, अत्युत्तम, उपयोगी, आवश्यक और मननीय लेख प्रकट किया था। कितने ही

* सन् १६३४ में यह निबन्ध संशोधित तथा परिवर्धित होकर और घबल जयघबलके प्रमाणोंकी भी साथमें लेकर अलग पुस्तकाकार रूपसे छप चुका है।

† ये सम्मतियाँ 'अनेकान्तपर लोकमत' शीर्षकके नीचे 'अनेकान्त' के प्रथम-वर्षकी किरणोंमें प्रकाशित हुई हैं।

विद्वानोंने इसपरसे अपनी भूलको सुधार भी लिया था। मुनि कल्याणविजयजीने सूचित किया था—“आपके इस लेखकी विचार-सरणी भी ठीक है।” और प० नाथुरामजी प्रेमीने लिखा था—“आपका वीरनिर्वाण-संबत बाला लेख बहुत ही महत्वका है और उससे अनेक उलझने सुलझ गई है।” इस निबन्धके निर्णयनुसार ही ‘अनेकान्त’ में ‘वीर-निर्वाण-संबत’ का देना प्रारम्भ किया था, जो अब तक चालू है। इतने पर भी शास्त्रीजीका भेरे ऊपर यह आरोप लगाना कि मैंने ‘विना विचार किये ही’ (गतानुगतिक रूपसे) दूसरोंके मार्गका अनुसरण किया है कितना अधिक अविचारित, अनभिज्ञतापूर्ण तथा आपत्तिके योग्य है और उसे उनका ‘अतिसाहस’ के सिवाय और क्या कहा जा सकता है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। आशा है शास्त्रीजीको अपनी भूल मालूम पड़ेगी और वे भविष्यमें इस प्रकारके निमूँल आक्षेपोंमें बाज आएंगे।

अब मैं लेखके भूल विषयको लेता हूँ और उस पर इस समय सरसरी तौर पर अपना कुछ विचार व्यक्त करता हूँ। आवश्यकता होनेपर विशेष विचार किर किसी समय किया जायगा।

शास्त्रीजीने त्रिलोकसारकी ‘पण-छस्सद-वस्सं पणमामञ्जुद’ नामकी प्रसिद्ध गाथाको उद्धृत करके प्रथम तो यह बतलाया है कि इस गाथामें उल्लिखित ‘शकराज’ शब्दका अर्थ कुछ विद्वान तो शालिवाहन राजा मानते हैं और दूसरे कुछ विद्वान विक्रमराजा। जो लोग विक्रमराजा अर्थ मानते हैं उनके हिसाबसे इस समय (गत दीपमालिकासे पहलेक्ष) वीर निर्वाण संबत २६०४ आता है, और जो लोग शालिवाहन राजा अर्थ मानते हैं उनके अर्थानुसार वह २४६६ वैठता है, परन्तु वे लिखते हैं २४६७; इस तरह उनकी गणनामें दो वर्षका अन्तर (व्यत्यास) तो किर भी रह जाता है। साथ ही अपने लेखके समय प्रचलित विक्रम संबतको १६६६ और शालिवाहनशकको १८६८ बतलाया है तथा दोनों

के शास्त्रीजीका लेख गत दीपमालिका (२० अक्टूबर १९४१) से पहलेका लिखा हुआ है, अतः उनके लेखमें प्रयुक्त हुए ‘सम्प्रति’ (इस समय) शब्दका बाच्च गत दीपमालिकासे पूर्वका निर्वाणसंबत है, वही यहांपर तथा आगे भी ‘इस समय’ शब्दका बाच्च समझना चाहिये—न कि इस लेखके लिखनेका समय।

के अन्तरको १३६ वर्षका घोषित किया है। परन्तु शास्त्रीजीका यह लिखना ठीक नहीं है—न तो प्रचलित विक्रम तथा शक संवतकी वह संख्या ही ठीक है जो आपने उल्लेखित की है और न दोनों संवतोंमें १३६ वर्षका अन्तर ही पाया जाता है, बल्कि अन्तर १३५ वर्षका प्रसिद्ध है और वह आपके हारा उल्लिखित विक्रम तथा शक संवतोंकी संख्याओं ($1666 - 1864 = 135$) से भी ठीक जान पड़ता है। बाकी विक्रम संवत् १६६६ तथा शक संवत् १८६४ उस समय तो क्या अभी तक प्रचलित नहीं हुए हैं—काशी आदिके प्रसिद्ध पंचांगोंमें वे क्रमशः १६६८ तथा १८६३ ही निर्दिष्ट किये गये हैं। इस तरह एक वर्षका अन्तर तो यह सहज हीमें निकल आता है। और यदि इधर सुदूर दक्षिणा देशमें इस समय विक्रम संवत् १६६६ तथा शक संवत् १८६४ ही प्रचलित हो, जिसका अपनेको ठीक हाल मालूम नहीं, तो उसे लेकर शास्त्रीजीको उत्तर भारतके विद्वानोंके निर्णयपर आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी—उन्हें विचारके अवसरपर विक्रम तथा शक संवतकी वही संख्या ग्रहण करनी चाहिये थी जो उन विद्वानोंके निर्णयका आधार रही है और उस देशमें प्रचलित है जहा वे निवास करते हैं। ऐसा करने पर भी एक वर्षका अन्तर स्वतः निकल जाता। इसके विपरीत प्रवृत्ति करना विचार-नीतिके विषद्द है।

अब रही दूसरे वर्षके अन्तरकी बात, मैंने और कल्याणविजयजीने अपने अपने उक्त निबन्धोंमें प्रचलित निर्वाण संवतके अंकसमूहको गत वर्षोंका वाचक बतलाया है—इसी सन् आदिकी तरह वर्तमान वर्ष का द्योतक नहीं बतलाया— और वह हिंसाबसे महीनों की भी गणना साथमें करते हुए ठीक ही है। शास्त्री-जीने इस पर कोई व्यान नहीं दिया और ६०५ के साथमें शक संवतकी विवादा-पत्र संख्या १८६४ को जोड़कर वीरनिर्वाण-संवतको २४६६ बना डाला है। जबकि उन्हें चाहिये था यह कि वे ६०५ वर्ष ५ महीनेमें शालिवाहन शकके १८६२ वर्षोंको जोड़ते जो काशी आदिके प्रसिद्ध पंचाङ्गानुसार शक सम्बत् १८६३ के प्रारम्भ होनेके पूर्व व्यतीत हुए थे, और इस तरह चैत्रशुक्ल प्रतिपदा के दिन वीरनिर्वाणिको हुए २४६७ वर्ष ५ महीने बतलाते। इसमें उन्हें एक भी वर्षका अन्तर कहनेके लिये अवकाश न रहता; क्योंकि उपरके पांच महीने चालू वर्षके हैं, जब तक बारह महीने पूरे नहीं होते तब तक उनकी गणना वर्षमें नहीं

की जाती। और इस तरह उन्हें यह बात भी जैसे जाती कि जैन कालगणनामें वीरनिर्वाणके गत वर्ष ही लिये जाते रहे हैं। इसी बातको दूसरी तरहसे यों भी समझाया जा सकता है कि गत कार्तिकी अमावस्याको शक सम्वत्के १८६२ वर्ष ७ महीने अष्टीत हुए थे, और शक सम्वत् महाबीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवतित हुआ है। इन दोनों संस्थाओंको जोड़ देनेसे पूरे २४६८ वर्ष होते हैं। इतने वर्ष महाबीरनिर्वाणको हुए गत कार्तिकी अमावस्याको पूरे हो जुके हैं और गत कार्तिक शुक्रग्र प्रतिपदासे उसका २४६६ वाँ वर्ष चल रहा है; परन्तु इसको चले अभी डेढ़ महीना ही हुआ है और डेढ़ महीनेकी गणना एक वर्षमें नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वर्तमानमें वीरनिर्वाणको हुए २४६६ वर्ष अष्टीत हुए हैं बल्कि यही कहा जायगा कि २४६८ वर्ष हुए हैं। अतः 'शकराज' का शालिवाहन राजा अर्थ करनेवालोंके निरांयानुसार वर्तमानमें प्रबन्धित वीरनिर्वाण सम्बत् २४६८ गतावृद्ध के रूपमें है और उसमें गणनानुसार दो वर्षका कोई अन्तर नहीं है—वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है। अस्तु।

त्रिलोकसारकी उक्त गाथाको उद्धृत करके और 'शकराज' शब्दके सम्बन्धमें विद्वानोंके दो भत्तेदोंको बतलाकर, शास्त्रीजीने लिखा है कि "इन दोनों पक्षोंमें कौनसा ठीक है, यही समालोचनाका विषय है (उभयोरनयोः पक्षयोः कतरो यायातच्युपगच्छतीति समालोचनीयः)," और इसतरह दोनों पक्षोंके सत्यासत्यके निरांयकी प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा तथा नेत्रके शीर्षकमें पढ़े हुए 'समालोचना' शब्दको और दूसरे विद्वानोंपर किये गये तीक्ष्ण आक्षेपको देख कर यह आशा होती थी कि शास्त्रीजी प्रकृत विषयके संबन्धमें गंभीरताके साथ कुछ गहरा विचार करेंगे, किसने कहाँ भूल की है उसे बतलाएँगे और विरकालसे उलझी हुई समस्याका कोई समुचित हल करके रखेंगे। परन्तु प्रतिज्ञाके अनन्तरके बाब्य और उसकी पुष्टिमें दिये हुए आपके पांच प्रमाणोंको देखकर वह सब आशा छूलमें मिल गई, और यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि आप प्रतिज्ञाके दूसरे धरण ही निरांयकके आसनमें उतरकर एक पक्षके साथ जा मिले हैं अथवा तराजूके एक पलटेमें जा बैठे हैं और वहाँ खड़े होकर यह कहने लगे हैं कि हमारे पक्षके अमुक व्यक्तियोंने जो बात कही है वही ठीक है; परन्तु वह क्यों ठीक है? कैसे ठीक है? और दूसरोंकी बात ठीक क्यों नहीं है? इन

सब बालोंके निरांयको भापने एकदम भुला दिया है !! यह निरांयकी कोई पद्धति नहीं और न उलझी हुई समस्याओंको हल करनेका कोई तरीका ही है । आपके बे पंच प्रमाण इस प्रकार हैं :—

(१) विगम्बर जैनसंहिताशास्त्रके संकल्प-प्रकरणमें विक्रमराजाका ही उल्लेख पाया जाता है, शालिवाहनका नहीं ।

(२) त्रिलोकसार चन्द्रकी माघवचन्द्र-त्रैविष्णुदेवकृत संस्कृत-टीकामें शकराज शब्दका अर्थ विक्रमराजा ही उल्लिखित है ।

(३) पं० टोडरमलजी कृत हिन्दी टीकामें इस शब्दका अर्थ इस प्रकार है—

“श्री चौराणी चौबीसवाँ तीर्थकरको मोक्ष प्राप्त होनेते पीछे छातीपाँच वर्ष पांच मास सहित गए विक्रमनाम शकराज हो है । बहुरि ताते उपरि च्यारि नव तीन इन अंकनि करि तीनसे चौराणीवै वर्ष और सात मास अधिक गए कल्की हो है” ॥५०॥

इस उल्लेखसे भी शकराजाका अर्थ विक्रमराजा ही सिद्ध होता है ।

(४) मिस्टर राइस-सम्पादित अवधानेलगोलकी शिलाशासन पुस्तकमें १४१ नं० का एक दानपत्र है, जिससे कृष्णराज तृतीय (मुम्मडि, कृष्णराज ओडेयर) ने आजसे १११ वर्ष पहले क्रिस्ताब्द १८३० में लिखाया है । उसमें निम्न श्लोक पाए जाते हैं—

“नानादेशनृपालमौलिविलसन्माणिक्यरत्नप्रभा- ।

भास्त्रवत्पादसरोजयुम्मरुचिरः श्रीकृष्णराजप्रभुः ॥

श्रीकर्णाटकदेशभासुरमहीशूरस्थिंहितः ।

श्रीचामक्षितिपालसूनुरवनौ जीवात्सहस्रं समाः ॥

स्वस्ति श्रीवर्द्धमानाख्ये, जिने मुक्ति गते सति ।

वहिरंप्राञ्छिनेत्रैच (२४६३) वत्सरेषु मिलेषु वै ॥

विक्रमाङ्कसमास्त्विंदुगजसामजहस्तिभिः (१८८८) ।

सतीषु गणनीयासु गणितहै दुर्धैसदा ॥

शालिवाहनवर्षेषु नेत्रवाणगेदुभिः (१७५२) ।

प्रमितेषु विकृत्यब्दे आवये मासि मंगले ॥” इत्यादि—

इन इलोकोंमें उल्लिखित हुए महाबीर-निर्वाणाब्द, विक्रमशकाब्द और शालिवाहनशकाब्द इस बातको हड़ करते हैं कि शकराज शब्दका अर्थ विक्रम-राजा ही है। महाबीर-निर्वाणाब्द २४६३ की संख्यामें दानपत्रकी उत्पत्तिकालके १११ वर्षोंको मिला देनेपर इस समय बीरनिर्वाणसम्बत् २६०४ हो जाता है। और विक्रम शकाब्दकी संख्या १८८८ को दानपत्रोत्पत्तिकाल १११ वर्षके साथ जोड़ देने से इस समय विक्रमशकाब्द १६६६ आ जाता है।

(५) चामराजनगरके निवासी पं० ज्ञानेश्वर द्वारा प्रकाशित जैन पंचांगमें भी यही २६०४ बीरनिर्वाणाब्द उल्लिखित है।

इन पाँच प्रमाणोंमें नं० २ और ३ में तो दो टीकाकारोंके अर्थका उल्लेख है जो गलत भी हो सकता है, और इसलिये वे टीकाकार अर्थ करनेवालोंकी एक कोटिमें ही आजाते हैं। दूसरे दो प्रमाण नं० ४, ५ टीकाकारोंमें से किसी एकके अर्थ का अनुसरण करनेवालोंकी कोटिमें रखने जा सकते हैं। इस तरह ये चारों प्रमाणण ‘शकराज’ का गलत अर्थ करनेवालों तथा गलत अर्थका अनुसरण करनेवालोंके भी हो सकनेसे इन्हें अर्थ करनेवालोंकी एक कोटिमें रखनके सिवाय निराण्यके क्षेत्रमें दूसरा कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता और न निराण्यपर्यन्त इनका दूसरा कोई उपयोग ही किया जा सकता है। मुकाबलेमें ऐसे अनेक प्रमाणण रखने जा सकते हैं जिनमें ‘शकराज’ शब्दका अर्थ शालिवाहन राजा मान कर ही प्रवृत्ति की गई है। उदाहरणके तौर पर पाँचवें प्रमाणके मुकाबलेमें ज्योतिष-रत्न पं० जियालालजी दि० जैनके सुप्रसिद्ध ‘असली पंचाङ्ग’ को रखना जा सकता है, जिसमें बीरनिर्वाण मं० २४६७ का स्पष्ट उल्लेख है—२६०४ की वहाँ कोई गंध भी नहीं है।

रहा शास्त्रीजीका पहला प्रमाण, उसकी शब्दरचना परसे यह स्पष्ट मात्राम नहीं होता कि शास्त्रीजी उसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। उल्लिखित संहिताशास्त्रका आपने कोई नाम भी नहीं दिया, न यह बतलाया कि वह किसका बनागा हुआ है और उसमें किस रूपसे विक्रम राजाका उल्लेख आया है वह उल्लेख उदाहरणपरक है या विधिपरक, और क्या उसमें ऐसा कोई आदेश है कि संकल्पमें विक्रम राजाका ही नाम लिया जाना चाहिये—शालिवाहनका नहीं, अथवा जैनियोंको संकल्पादि सभी अवसरों पर—जिसमें ग्रन्थरचना भी

शामिल है—विक्रम संवत्का ही उल्लेख करना चाहिये, शक-शालिवाहन का नहीं ? कुछ तो बतलाना चाहिये था, जिससे इस प्रमाणकी प्रकृतविषयके साथ कोई संगति ठीक बैठती । मात्र किसी दिगम्बर ग्रन्थमें विक्रम राजाका उल्लेख आजाने और शालिवाहन राजाका उल्लेख न होनेसे यह नतीजा तो नहीं निकाला जा सकता कि शालिवाहन नामका कोई शक राजा हुआ ही नहीं अथवा दिगम्बर साहित्यमें उसके शक संवत्का उल्लेख ही नहीं किया जाता । ऐसे कितने ही दिगम्बर ग्रन्थ प्रमाणमें उपस्थित किये जासकते हैं जिनमें स्पष्टरूपसे शालिवाहनके शकसंवत्का उल्लेख है । ऐसी हालतमें यदि किसी संहिताके संकल्पप्रकरणमें उदाहरणादिरूपसे विक्रमराजाका अथवा उसके संवत्का उल्लेख आ भी गया है तो वह प्रकृत विषयके निर्णयमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, यह उनके इस प्रमाणसे कुछ भी मालूम नहीं होता, और इसलिये इस प्रमाणका कुछ भी मूल्य नहीं है । इस तरह आपके पाँचों ही प्रमाण विवादापन्न, विषयकी गुणीयको सुलभानेका कोई काम न करनेसे निर्णयक्षेत्रमें कुछ भी महत्व नहीं रखते; और इसलिये उन्हे प्रमाण न कहकर प्रमाणाभास कहना चाहिये ।

कुछ पुरातन विद्वानोंने 'शकराजा' का अर्थ यदि विक्रम राजा कर दिया है तो क्या इतनेसे ही वह अर्थ ठीक तथा प्राप्य होगया ? क्या पुरातनोंसे कोई भूल तथा गलती नहीं होती और नहीं हुई है ? यदि नहीं होती और नहीं हुई है तो फिर पुरातनों-पुरातनों में ही कालगणनादिके सम्बन्धमें मतभेद क्यों पाया जाता है ? क्या वह मतभेद किसी एककी गलतीका सूचक नहीं है ? यदि मूलक है तो फिर किसी एक पुरातनने यदि गलतीमें 'शकराजा' का अर्थ 'विक्रमराजा' कर दिया है तो मात्र पुरातन होनेकी वजहसे उसके कथनको प्रमाण-कोटिमें क्यों रखा जाता है और दूसरे पुरातन कथनकी उपेक्षा क्यों की जाती है ? शक राजा अथवा शककालके ही विषयमें दिगम्बर साहित्यमें पाँच पुरातन मतों-का उल्लेख मिलता है, जिनमेंसे चार मत तो विलोकप्रज्ञतिमें पाये जाते हैं और उनमें सबमें पहला मत वीरनिवारणसे ४६१ वर्ष बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाता है * । तीन मत 'ध्वल' ग्रन्थमें उपलब्ध होते हैं, जिनमेंसे दो तो

* वीरनिवारण सिद्धिगदे चउसद-इग्सहि-बासपरिमाणे ।

कालम्भिनिवारणसे उपर्युक्ते एत्य सगराभो ॥

प्रिलोकप्रज्ञति वाले ही है और एक उनसे भिन्न है। श्रीबीरसेनाचार्यने 'घबल' में इन तीनोंमतोंको उद्धृत करनेके बाद लिखा है—

“एदेसु तिसु एककेण होदब्दं, ए तिषणमुवदेसाणसब्दं अण्णोरण-
विरोहादो । तदो जाणिय वत्तब्दं ।”

अर्थात्—इन तीनोंमेंसे एक ही कथन ठीक होना चाहिये, तीनों कथन सच्चे नहीं हो सकते; क्योंकि तीनोंमें परस्पर विरोध है। अतः जान करके—मनुसंधान करके—वर्तना चाहिये।

इस आचार्यवाक्यसे भी स्पष्ट है कि पुरातन होनेसे ही कोई कथन सच्चा तथा मान्य नहीं हो जाता। उसमें भूल तथा गलतीका होना संभव है, और इसीसे मनुसंधान-पूर्वक जौच-पड़ताल करके उसके ग्रहण-त्यागका विधान किया गया है। ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका पुरातनोंकी बातें करते हुए एक पक्षका हो रहना और उसे बिना किसी हेतुके ही यथार्थ कह डालना विचार तथा समालोचनाकी कोरी विडम्बना है।

यहौपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि इधर प्रचलित बीर-निर्वाण संवत्की मान्यताके विषयमें दिगम्बरों और श्वेताम्बरोंमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही बीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकशालि-वाहनके संवत्की उत्पत्ति मानते हैं। घबल-सिद्धान्तमें श्रीबीरसेनाचार्यने श्रीबीर-निर्वाण संवत्को मालूम करनेकी विधि बतलाते हुए प्रमाणरूपसे जो एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है वह इस प्रकार है—

पञ्च य मासा पञ्च य वासा छुच्चेव होति वाससया ।
सगकालेण सहिया थावेयब्दो तदो रासी ।

इसमें बतलाया है कि—‘शककालकी संख्याके साथ यदि ३०५ वर्ष ५ महीने जोड़ दिये जावें तो बीरजिनेन्द्रके निर्वाणकालकी संख्या आ जाती है।’ इस गाथाका पूर्वार्थ, जो बीरनिर्वाणसे शककाल (संवत) की उत्पत्तिके समयको सुचित करता है, श्वेताम्बरोंके ‘तित्वोगाली पद्धत्य’ नामक निम्न गाथाका भी पूर्वार्थ है, जो बीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाती है—

पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया ।
परिणिवुअस्सरिहतो तो उपपरणे सगो राया ॥ ६२३ ॥

यहाँ शकराजका जो उत्पन्न होना कहा है उसका अभिप्राय शककालके उत्पन्न होने अर्थात् शकसवतके प्रवृत्त (प्रारम्भ) होनेका है, जिसका समर्थन 'विचार-श्रेणी' में श्वेताम्बराचार्य श्री मेरुनग-द्वारा उद्दृष्ट निम्न वाक्यसे भी होता है—

श्रीवीरनिवृत्तेवर्षेः षड्भिः पञ्चोत्तरैः शतैः ।

शाकसंधत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत् ॥

इस तरह महाबीरके इस निवरण-समय-सम्बन्ध में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है। और इसलिये शास्त्रीजीका दिगम्बर समाजके संशोधक विद्वानों तथा सभी पत्र-सम्पादकोंपर यह आरोप सगाना कि उन्होंने इस विषयमें मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका ही अनुसरण किया है—उसीकी मान्यतानुसार वीरनिवरणसवतका उल्लेख किया है—विल्कुल ही निराधार तथा अविचारित है।

ऊपरके उद्धृत वाक्योंमें 'शककाल' और 'शाकसवत्सर' जैसे शब्दोंका प्रयोग इस बातको भी स्पष्ट बतला रहा है कि उनका अभिप्राय 'विक्रमकाल' अथवा 'विक्रमसवत्सर' से नहीं है, और इसलिये 'शकराजा' का अर्थ विक्रमराजा नहीं लिया जा सकता। विक्रमराजा वीरनिवरणसे ४७० वर्ष बाद हुआ है जैसा कि दिगम्बर नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सत्तरचदुसद्युक्तो जिणकाला विक्कमो हवह जम्मो ॥ ।

इसमें भी विक्रमजन्मका अभिप्राय विक्रमकाल अथवा विक्रमसंवत्सरकी उत्पत्तिका है। श्वेताम्बरोंके 'विचारश्रेणी' ग्रन्थमें भी इसी प्राशयका वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

विक्रमजारंभा पुरओ सिरवीरनिवृई भणिया ।

कि यह वाक्य 'विक्रमप्रबन्ध' में भी पाया गया है। इसमें स्थूल रूपसे— महीनोंकी संस्थाको साथमें न लेते हुए—वर्षोंकी संस्थाका ही उल्लेख किया है; जैसाकि 'विचारश्रेणी' में उक्त 'श्रीवीरनिवृत्तेवर्षेः' वाक्यमें शककालके वर्षोंका ही उल्लेख है।

सुभ्र-मुणि-वेय-जुत्तो विक्रमकालात् जिणेकालो ॥

यहाँ पर एक प्राचीन दिग्म्बर वाक्य और भी उद्घृत किया जाता है जो वीरनिर्वाणसे विक्रमकालकी उत्पत्तिको स्पृहरूपसे ४७० वर्ष बाद बतलाता है और कविवर वीरके, संवत् १०७६ में बनकर समाप्त हुए, जम्बूस्वामिचरितमें पाया जाता है—

वरिसाणुसयचउक्तं सत्तरिजुतं जिणेद्वीरस्स ।

णिव्याणु उववण्णे विक्रमकालस्स उपत्ती ॥

जब वीरनिर्वाणकाल और विक्रमकालके वर्षोंका अन्तर ४७० है तब निर्वाणकालमें ६०५ वर्ष बाद होने वाले शक राजा अथवा शककालको विक्रमराजा या विक्रमकाल कैसे कहा जा सकता है ? इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ सकते हैं । वैसे भी ‘शक’ शब्द आम तौर पर शालिवाहन राजा तथा उसके संवत्के लिये व्यवहृत होता है, डस बातको शास्त्रीजीने भी स्वयं स्वीकार किया है, और चामन शिवराम आन्दे (V. S. APTE) के प्रसिद्ध कोषमें भी इसे Specia-
lly applied to Salivahan जैसे शब्दोंके द्वारा शालिवाहनराजा तथा उसके संवत् (era) का वाचक बतलाया है । विक्रमराजा ‘शक’ नहीं था, किन्तु ‘शकारि’ = ‘शकशत्रु’ था, यह बात भी उक्त कोषसे जानी जाती है । इसलिये जिन जिन विद्वानोंने ‘शकराज’ शब्दका अर्थ ‘शकराज’ न करके ‘विक्रमराजा’ किया है उन्होंने जरूर गलती खाई है । और यह भी संभव है कि त्रिलोकसारके [संस्कृत-टीकाकार माधवचन्द्रने ‘शकराजो’ पदका अर्थ शकराजा ही किया हो, बादको ‘शकराजः’ से पूर्व ‘विक्रमांक’ शब्द किसी लेखककी गलती-से छुड़ गया हो और इस तरह वह गलती उत्तरवर्ती हिन्दी टीकामें भी पहुँच गई हो, जो प्रायः संस्कृत टीकाका ही भ्रन्तसरण है । कुछ भी हो, त्रिलोकसार की उक्त गाथा नं० ८५० में प्रयुक्त हुए ‘शकराज’ शब्दका अर्थ शकशालिवाहनके सिवाय और कुछ भी नहीं है, इस बातको मैंने अपने उक्त ‘भगवान् महावीर और उनका समय’ शीर्षक निबन्धमें भले प्रकार स्पष्ट करके बतलाया है, और भी दूसरे विद्वानोंकी कितनी ही आपत्तियोंका निरसन करके सत्यका स्वापन किया है ।

अब रहो जास्तीजीकी यह बात, कि दक्षिण देशमें महावीरधाक, विक्रम-शक और क्रिस्तधाकके रूपमें भी 'शक' शब्दका प्रयोग किया जाता है, इससे भी उनके प्रतिपाद्य विषयका कोई समर्थन नहीं होता। वे प्रयोग तो इस बातको सूचित करते हैं कि शालिवाहन शककी सबसे अधिक प्रसिद्धि हुई है और इस लिये बादको दूसरे सन्-संवतोंके साथ भी 'शक' का प्रयोग किया जाने लगा और वह मात्र 'वत्सर' या 'संवत्' अर्थका वाचक हो गया। उसके साथ लगा हुआ महावीर, विक्रम या क्रिस्त विशेषण ही उसे दूसरे अर्थमें ले जाता है, खाली 'शक' या 'शकराज' शब्दका अर्थ महावीर, विक्रम अथवा क्रिस्त (क्राइस्ट =ईसा) का या उनके सन्-संवतोंका नहीं होता। विलोकसारकी गायत्रमें प्रयुक्त हुए शकराज शब्दके पूर्व चूंकि 'विक्रम' विशेषण लगा हुआ नहीं है, इस लिये दक्षिण देशकी उक्त रूढिके अनुसार भी उसका अर्थ 'विक्रमराजा' नहीं किया जा सकता।

उपरके इस संपूर्ण विवेचनपरसे स्पष्ट है कि जास्तीजीने प्रकृत विषयके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी सार तथा दम नहीं है। आशा है जास्तीजीको अपनी भूल मालूम पड़ेगी, और जिन लोगोंने आपके लेखपरसे कुछ गलत धारणा की होगी वे भी इस विचारलेखपरसे उसे सुधारनेमें समर्थ हो सकेंगे।



बीर-शासनकी उत्पत्तिका समय और स्थान

जैनियोंके अन्तिम तीर्थकर श्रीबीरभगवान्‌के शासनतीर्थको उत्पन्न हुए आज कितना समय होगया, किस शुभवेलामें अथवा पुष्टि-तिथिको उसका जन्म हुआ और किस स्थान पर वह सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, ये सब बातें ही आजके मेरे इस लेखका विषय हैं, जिन्हे भावी बीरशासन-जयन्ता-महोत्सवके लिये जान लेना सभीके लिये आवश्यक है। इस सम्बन्धमें अब तक जो गवेषणाएँ (Researches) हुई हैं उनका सार इस प्रकार है:—

किसी भी जैनतीर्थकरका शासनतीर्थ केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले प्रवर्तित नहीं होता—तीर्थप्रवृत्तिके पूर्वमें केवलज्ञानकी उत्पत्तिका होना आवश्यक है। बीरभगवान्को उस केवलज्ञानज्योतिकी संप्राप्ति बैसाख सुदि दशमीको अपराह्नके समय उस वक्त हुई थी जबकि आप जृम्भिका ग्रामके बाहिर, उजुकुलानदीके किनारे, शालबृक्षके नीचे, एक शिलापर घटोपवाससे युक्त हुए क्षपक-श्रेणीपर आरूढ़ थे—आपने शुक्लध्यान लगा रखा था। जैसा कि नीचे लिखे वाक्योंसे प्रकट है—

उजुकुलणदीतीरे जंभियगामे वहि सिलावहुे ।

बहुणादावेंतो अवरणे पायद्वायाए ॥

वहसाहजोण-पक्खे दसमीए खवगसेदिमारुदो ।

इंतूण घाइकम्म केवलणार्ण समावरणो ॥

—अबल-जयष्ठवलमें उद्दृत प्राचीनग्रामादे ।

ऋजुकूलायास्तीरे शालदुमसंभ्रिते शिलापट्टे ।
अपराह्ने वष्टेणास्थितस्य खलु जन्मकाग्रामे ॥ ११ ॥
बैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाभ्रिते चन्द्रे ।
चृपकश्रेष्ठारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

—श्रीपूज्यपाद-सिद्धिभक्ति:

वैसाहसुद्धदसमी-माधा-रिक्खमिंह वीरणाहस्स ।
रिजुकूलणदीतीरे अवरण्हे केवलं णाणं ॥

—तिलोयपण्णाती ४-७० १

जंभिय-वहि उजुवालिय तीर वियावत्त सामसालआहे ।
बड्हेणुककुङ्कुहुयस्स उ उप्परणं केवलं णाणं ॥

—आवश्यकनियुंति ५२६ पृ० २२७

जहाँ केवलज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ उसकी उत्पत्तिके अनन्तर, देवतागण आते हैं, भूत-भविष्यत् वर्तमानरूप सकल चराऽचरके जाता केवलज्ञानी जिनेन्द्रकी पूजा करते हैं—महिमा करते हैं—और उनके उपदेशके लिये शक्ताज्ञासे समव-सरण-सभाकी रचना करते हैं †, ऐसी साधारण जैन मान्यता है। इस मान्यता-के अनुसार जन्मकाके पास ऋजुकूला नदीके किनारे बैसाख सुदि दशमीको देवतागणने आकर वीरभगवानकी पूजाकी—महिमा की* और उनके उपदेशके लिये—तीर्थकी प्रवृत्तिके निमित्त—समवसरण-सभाकी सृष्टि भी की, यह स्वतः फलित हो जाता है। परन्तु इस प्रथम समवसरणमे वीरभगवानका शासन-तीर्थ प्रवर्तित नहीं हुआ, यह बात इवेताम्बर सम्प्रदायको भी मान्य है, जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

तिथ्यं चाउव्वरणो संघो सो पठमए समोसरणे ।

उप्परणो उ जिणाणं, वीरजिणिंदस्स बीयम्भि ॥

—आवश्यकनियुंति, २६५ पृ० १४०

† ताहे सक्काणाए जिणाण सयलाण समवसरणाणि ।

विकिरियाए घनदो विरएदि विचितरूपेहि ॥ —तिलोयप० ४-७१०

* केवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासना: ।

आगत्य महिमां चक्रुस्तस्य सर्वे सुराज्ञुराः ॥ —जिनसेन-हरिवंशप० २-६०

आद्ये समवसरणे सर्वेषामहृताभिह ।

उत्पन्नं तीर्थमन्त्यस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयके ॥ १७-३२

—लोकप्रकाश, खं० ३

इनमें श्री बीर-जिनेन्द्रके तीर्थको द्वितीय समवसरणमें उत्पन्न हुआ बतलाया है, जबकि शेष सभीजैन तीर्थकरोंका तीर्थ प्रथम समवसरणमें उत्पन्न हुआ है। इवेताम्बरीय आगमोंमें इस प्रथम समवसरणमें तीर्थोत्पत्तिके न होनेकी घटना-को आधर्यजनक घटना बतलाया है और उसे आमतौर पर 'अछेरा' (असाधारण घटना) कहा जाता है।

अब देखना यह है कि, दूसरा समवसरण कब और कहाँपर हुआ? और प्रथम समवसरणमें भगवानका शासनतीर्थ प्रवर्तित न होनेका क्या कारण था? इस विषयमें अभी तक जितना इवेताम्बर-साहृदय देखनेको मिला है उससे इतना ही मालूम होता है कि प्रथम समवसरणमें देवता ही देवता उपस्थित थे—कोई मनुष्य नहीं था, इससे धर्मतीर्थका प्रवर्तन नहीं हो सका। महाबीरको केवल-शानकी प्राप्ति दिनके चौथे पहरमें हुई थी, उन्होंने जबयह देखा कि उस समय मध्यमा नगरी (वर्तमान पावापुरी) में सोमिलार्य ब्राह्मणके यहाँ यज्ञ-विषयक एक बड़ा भारी धार्मिक प्रकरण चल रहा है, जिसमें देश-देशान्तरोंके बड़े-बड़े विद्वान् आमन्त्रित होकर आए हुए हैं तो उन्हें यह प्रसंग अपूर्वलाभका कारण जान पड़ा और उन्होंने यह सोचकर कि यज्ञमें आए हुए विद्वान् ब्राह्मण प्रतिबोध-को प्राप्त होंगे और मेरे धर्मतीर्थ केआधारस्तम्भ बनेंगे, संघ्या-समय ही विहार कर दिया और वे रातोंरात १२ योजन (४८ कोस) चल कर मध्यमाके महासेन-नामक उद्धानमें पहुँचे, जहाँ प्रातःकालसे ही समवसरणकी रचना होगई। इस तरह वैसाक्ष सुदि एकादशीकी जो दूसरा समवसरण रचा गया उसमें बीरभगवानने एक पहर तक विना किसी गणधरकी उपस्थितिके ही धर्मोपदेश दिया। इस धर्मोपदेश और महाबीरकी सर्वज्ञताकी खबर पाकर इन्द्रमूर्ति आदि ११ प्रधान ब्राह्मण विद्वान् अपने अपने शिष्यसमूहोंके साथ कुछ आगे चीजें समवसरणमें पहुँचे और वहाँ बीरभगवानसे साक्षात् वार्तालाप करके अपनी अपनी शंकाओंकी निवृत्ति होनेपर उनके शिष्य बन गये, उन्हें ही फिर बीरप्रभु-द्वारा

गणधर-पदपर नियुक्त किया गया^१। साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि मध्यभारते के इस द्वितीय समवसरणके बाद, जिसमें धर्मचक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ बतलाया गया है, भ० महावीरने राजगृहकी और जो राजा श्रेणिककी राजधानी थी प्रस्थान किया, जहाँ पहुँचते ही उनका तुतीय समवसरण रखा गया और उन्होंने सर्व वर्षा काल वही बिताया, जिससे आवणादि वर्षके चातुर्वास्त्यमें वहाँ बराबर धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति होती रही है ।

परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि प्रथम समवसरणमें मनुष्योंका अभाव क्यों रहा—वे क्यों नहीं पहुँच सके ? समवसरणकी इतनी विश्लेषण योजना होने, हजारों देवी-देवताओंके वहाँ आकर जय जयकार करने, देवदुर्दुभि बाजोंके बजने और अनेक दूसरे आश्चर्योंके होनेपर भी, जिनसे दूर दूरकी जनता ही नहीं किन्तु पश्च-पक्षी तक भी खिचकर चले आते हैं, जृम्भकादि आस-पासके ग्रामोंके मनुष्यों तक को भी समवसरणमें जानेकी प्रेरणा न मिली हो, यह बात कुछ समझमें नहीं आती । दूसरे, केवलज्ञान जब दिनके चौथे पहरमें उत्पन्न हुआ था तब उस केवलोत्पत्तिकी खबर को पाकर अनेक समूहोंमें देवताओंके ऋचु-कूला नदीके तट पर वीरभगवानके पास आने, आकर उनकी बन्दना तथा स्तुति करने—महिमा गाने, समवसरणमें नियत समय तक उपदेशके होने तथा उसे सुनने आदिके सब नेग-नियोग इतने थोड़े समयमें कैसे पूरे हो गये कि भ० महावीरको संघ्याके समय ही विहारका अवसर मिल गया ? × तीसरे, यह भी मालूम नहीं हो सका कि केवलज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले जब भ० महावीर

^१ देखो, मुनिकल्पाणविजयकृत 'श्रमण भगवान महावीर' पृ० ४८ से ७३ ।

† अमर-गाररायमहिमो पत्तो धर्मवरचक्कवट्टित् ।

वीयम्भि समवसरणे पावाए मजिम्भमाए उ ॥

—ग्राव० नि० ४५० पृ० २२६

‡ देखो, उक्त 'श्रमण भगवान महावीर' पृ० ७४ से ७८ ।

× स्थानकवासी श्वेताम्बरोंमें केवलज्ञानका होना १० भीकी रात्रिको माना गया है (भ० महावीरका आदर्श जीवन पृ० ३३२) अतः उनके कथनानुसार भी उस दिन संघ्या-समय विहारका कोई अवसर नहीं था ।

मोहनीय और अन्तराय कर्मका बिल्कुल नाश कर चुके थे—फलतः उनके कोई प्रकारकी इच्छा नहीं थी—तब वे शासनफलकी एवणासे इतने आत्मर कैसे हो उठे कि उस यज्ञ-प्रसंगसे अपूर्व लाभ उठानेकी बात सोचकर संघ्यासमय ही अजुकूला-तटसे चल दिये और रातोंरात ४८ कोस चलकर मध्यमा नगरीके उद्धानमें आ पहुंचे ? और इसलिये प्रथम समवसरणमें केवल देवताओंके ही उपस्थित होने, संघ्या समयके पूर्व तक सब नेग-नियोगोंके पूरा हो जाने और फिर अपूर्वलाभकी इच्छासे भ० महादीरके संघ्या समय ही प्रस्थान करके रातों-रात मध्यमा नगरीके उद्धानमें पहुंचने आदिकी बात कुछ जीको लगती हुई मालूम नहीं होती ।

प्रत्युत इसके, दिग्म्बर साहित्य परसे वह स्पष्ट जाना जाता है कि अजुकूला तटबाले प्रथम समवसरणमें बीर भगवानकी बारणी ही नहीं खिरी—उनका उप-देश ही नहीं हो सका—और उसका कारण मनुष्योंकी उपस्थितिका अभाव नहीं था किन्तु उस गणीन्द्रका अभाव था जो भगवानके मुखसे निकले हुए बीजपदोंकी अपने अद्वितीयसे ठीक व्याख्या कर सके अथवा उनके आशयको लेकर बीर-प्रणपित अर्थको ठीक रूपमें जनताको समझा सके और या यों कहिये कि जनताके लिये उपयोगी ऐसे द्वादशाङ्ग अतरूपमें बीरवाणीको गूँथ सकें । ऐसे गणीन्द्रका उस समय तक योग नहीं भिड़ा था, और इसलिये बीरजिनेन्द्रने फिरसे मौन-पूर्वक विहार किया, जो ६६ दिन तक जारी रहा और जिसकी समाप्तिके साथ साथ वे राजगृह पहुंच गये, जहाँ विपुलाचल पर्वत पर उनका वह समवसरण रचा गया जिसमें इन्द्रभूति (गोतम) आदि विद्वानोंकी दीक्षाके अनन्तर आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाह्नके समय अभिजित नक्षत्रमें बीर भगवानकी सर्वप्रथम दिव्यवाणी खिरी और उनके शासन-तीर्थकी उत्पत्ति हुई । जैसाकि श्री जिन-सेनाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

षट्पष्ठिदिवसान् भूयो मौनेन विहरन् विमुः ।

आजगाम जगतरूपाते जिनो राजगृहं पुरं ॥ ६१ ॥

“बीजपदसिंहीणत्वपरम्परां दुवालसंगारां कारभो गणहरभडारभो यं-
कत्तारभो ति अच्छुपगमादो । बीजपदामाणं वक्षाणग्नभो ति दुतं होदि ।”
—चबल, वेयणालंड

आस्तोह गिरि तत्र विपुलं विपुलमियं ।
 प्रबोधार्थं स लोकानां भानुमानुदयं यथा ॥ ६२ ॥

ततः प्रबुद्धवृत्तान्तैरापत्तिरितस्ततः ।
 जगत्सुरासुरैर्व्याप्तं जिनेन्द्रस्य गुणैरिव ॥ ६३ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

इन्द्राऽग्निवायुभूत्याख्या कौण्डन्याख्याश्च पणिङ्गताः ।
 इन्दनोदयनाऽयाताः समवस्थानमहृतः ॥ ६५ ॥

प्रत्येकं संहिताः सर्वे शिष्याणां पञ्चमिः शतैः ।
 त्यक्ताम्बरादिसम्बन्धा संयमं प्रतिपेदिरे ॥ ६६ ॥

प्रत्यक्षीकृतविश्वार्थं कृतदोषत्रयक्षयं ।
 जिनेन्द्रं गोतमोपच्छत्तीर्थार्थं पापनाशनम् ॥ ६८ ॥

स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः ।
 दुंदुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥ ६० ॥

श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभुः ।
 प्रतिपद्यहि पूर्वाङ्के शासनार्थमुदाहरत् ॥ ६१ ॥

—हरिवंशपुराण, द्वि० सर्गं

इस विषयमें घबल और जयघबल नामके मिद्दान्तप्रार्थ्योंमें, श्रीवद्भूमान महावीरके अर्थकर्तृत्वकी—तीर्थोत्पादनकी—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूपसे प्ररूपण करते हुए, प्राचीन गाथाओंके आधारपर जो विशद कथन किया गया है वह अपना खास महत्व रखता है। द्रव्यप्ररूपणमें तीर्थोत्पत्तिके समय महावीरके शारीरका ‘केरिसं महावीरसरीर’ इत्यादिरूपसे बर्णन करते हुए उसे समचतुर्संस्थानादि-गुणोंसे विशिष्ट सकल दोषोंसे रहित और राग-द्वेष-मोहके अभावका सूचक बतलाया है। क्षेत्रप्ररूपणमें ‘तित्युपत्ती कम्भि खेते’ इत्यादिरूपसे तीर्थोत्पत्तिके क्षेत्रका निरूपण और उसमें समवसरण तथा उसके स्थानादिका निरूपण करते हुए जो विस्तृत वर्णन दिया है उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“.....गयणहियक्षक्ततयेण वड्हमाण-तिद्वयणाहिवह्निर्चिधण
 मुसोहियए पञ्चसेलउर-गोरइदिसा-विसय-आइविउल-विउलगिरिमत्थय-
 त्थए गंगोहोव्य चउहि सुरविरह्यचारे हियविसमाणदेवविज्ञाहरमणु-

वजणाण मोहए समवसरणमंडले × × × × होदु शामदिहु जिरु-
दब्बमहिमाण देविदसरुवावगच्छ्रृत जीवाणमिदं जिणसब्बप्पुत्तलिंगं
चामरछण्डाद्विदि-साविसयन्मि दिभ्वामोयगंधसुरसाराणेयमणिणिवह-
फुडियन्मि गंधउडिप्पासायन्मि द्वियसिंहासणारुढेण बड्ढमाणमडारण्ड
तित्युप्पाइदं । खेत्तपरुवणा ॥”

इसमें अनेक विशेषणोंके साथ यह स्पष्ट बतलाया है कि, ‘पंचशीलपुर (‘राज-
गृह’ नगर) की नैऋति दिशामें जो विपुलाचल पर्वत है उसके मस्तकपर होने-
वाले तत्कालीन समवसरण-मंडलकी गंधकुटीमें गगन-स्थित छत्रत्रयसे युक्त एवं
सिंहासनारुढ हुए बर्द्धमान भट्टारक (भ० महावीर) ने तीर्थकी उत्पत्ति की—
अपना शासनचक्र प्रवर्तित किया ।’

जयघबल ग्रन्थमें इतना विशेष और भी पाया जाता है कि पंचशीलपुरको,
जो कि गुणानाम था, ‘राजगृह’ नगरके नाममें भी उल्लेखित किया है, उसे
मगधमंडलका तिलक बतलाया है और तीर्थोत्पत्तिके समय चेलना-सहित महामंड-
लीकराजा श्रेणिकसे उपस्थृत—उनके द्वारा शासित—प्रकट किया है । यथा:—

“कथ कहियं ? सेणियराये सचेलणे महामंडलीए सयलवसुहामंडल
भुंजते मगह-मंडलतिलअ-रायगिहण्यर-गोरयि—दीसमहिद्विय-विउलगि-
रिपव्यए सिद्धचाररणसेविए वारहगणवेद्विएण कहियं ।”

इसके बाद ‘उर्क्तच’ रूपसे जो गाथाएँ दी हैं और जो घबल ग्रन्थमें भी
अन्यत्र पाई जाती हैं उनमेंसे शुरूकी डेढ गाथा, जिसके अनन्तरकी दो गाथाएँ
पंचपर्वतोंके नाम, आकार और दिशादिके निर्देशको लिए हुए हैं, इस प्रकार हैं—

‘पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्यदुत्तमे ।

णाणादुम-समाइण्णे देव-दाण्व-चंदिदे ॥१॥

महावीरेणत्थो कहिओ भविय-लोचस्स ।”

सेत्रप्ररूपणा-सम्बन्धी इस कथनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महा-
वीरके शासन-तीर्थकी उत्पत्ति राजगृहकी नैऋति दिशामें स्थित विपुलाचल
पर्वतपर हुई है, जो उस समय राजा श्रेणिकके राज्यमें था ।

अब काल-प्ररूपणाको लीजिये, इस प्ररूपणामें निम्न तीन गाथाओंको एक
साथ देकर घबल-सिद्धान्तमें बतलाया है कि—‘इस भरतसेत्रके अवस्थिती-

कल्प-सम्बन्धी अतुर्थ कालके पिछले भागमें जब कुछ कठ चौतीस वर्ष अवधिहृ रहे थे तब वर्षके प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिनमें आवणकृष्णप्रति-पदाको पूर्वाह्नके समय अभिजित् नक्षत्रमें भगवान महाबीरके तीर्थकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही, यह भी बतलाया है कि आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको रुद्र-मुहूर्तमें सूर्योदयके समय अभिजित् नक्षत्रका प्रथम योग होनेपर जहाँ युगको आदि कही गई है उसी समय इस तीर्थोत्पत्तिको जानना चाहिये :—

‘इमित्सेऽवसप्पणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए ।

चोत्तीसवाससेसे किंचिवि सेसूणए संते ॥१॥

वासस्स पढममासे पढमे पक्ष्वन्मि सावणे बहुले ।

पाढिवदपुव्वदिवसे तित्युपपत्ती दु अभिजिम्मि ॥२॥

सावणचहुलपडिवदे रुद्रमुहूर्ते सुहोदए रविणो ।

अभिजिस्स पढमजोए जथ जुगादी मुरोयव्वा ॥३॥’

आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको तीर्थोत्पत्ति होनेका यह स्पष्ट अर्थ है कि वैशाख सुदि १० मीको केवलज्ञान हो जानेपर भी आषाढ़ी पूर्णिमा तक अर्थात् ६६ दिन तक भगवान महाबीरकी दिव्यच्छनि-वारणी नहीं लिरी और इसीसे उनके प्रवचन (शासन) तीर्थकी उत्पत्ति पहले नहीं हो सकी—इन ६६ दिनोंमें वे श्री जिनसेनाचार्यके कथनानुसार मीनसे विहार करते रहे हैं। ६६ दिन तक दिव्य-छनिके प्रवृत्त न होनेका कारण बतलाते हुए घबल और जयघबल दोनों ग्रन्थोंमें एक रोचक शंका-समाधान दिया गया है, जो इस प्रकार है—

‘छासठदिवसावणयणं केवलकालम्मि किमटुं’ कीरदे ? केवलणारो समुप्पणे वि तथ तित्यापुवत्तीदो । दिव्यजभुणीए किमटुं तद्वाऽप-उत्ती ? गणिदाभावादो । सोहम्मिदेण तक्षणे चेव गणिदो किणण-घोहदो ? काललद्वीप विणा असहायस्स देविंदस्स तद्वोयणसत्तीए अभा-कान्दो । सगपाद्ममूलम्मि पडिवप्पणमहव्वयं मोत्तूण अण्णमुहिसिय दिव्य-जमुणी किणण पयद्वदे ? साहावियादो, ए च सहावो परपञ्चियोगास्तो अच्छवत्त्वापत्तीदो ।’

... शंका—केवलकालमें ६६ दिनोंका वटाना किसे लिये किया जाता है ?

समाधान—इसलिये कि, केवलज्ञानके समुद्रम होनेपर भी उस समय तीर्थ-की उत्पत्ति नहीं हुई।

शंका—दिव्यधनिकी उस समय प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई?

समाधान—गणीन्द्रका अभाव होनेसे नहीं हुई।

शंका—सौधर्म इन्हने उसी समय गणीन्द्रकी सौज क्यों नहीं की?

समाधान—कालज्ञिके बिना देवेन्द्र असहाय था और उसमें उस सौजकी शक्तिका अभाव था।

शंका—अपने पादमूलमें जिसने महाब्रत ग्रहण किया है उसे छोड़कर अन्य-को उद्देश्य करके दिव्यधनि क्यों प्रवृत्त नहीं होती?

समाधान—ऐसा ही स्वभाव है, और स्वभाव पर-पर्यन्तयोगके योग्य नहीं होता, अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

इस शंका-समाधानसे दिग्म्बर-मान्यतानुसार केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बिन वीरभगवानकी देशनाके न होने और ६६ दिन तक उसके बन्द रहनेके कारणका अली प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता है।

श्रीयतिवृषभाचार्यके ‘तिलोयपञ्चांसी’ नामक ग्रन्थसे भी, जिसकी रचना देवर्दिगुणके देवताम्बरीय आगम ग्रन्थों और आवश्यक निर्युक्ति आदिमे पहले हुई है, यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीर भगवानके शासनतीर्थकी उत्पत्ति पंच-शैलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर्वतपर शावण-कृष्ण-प्रतिपदाको हुई है; जैसा कि नीचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है—

सुर-खेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणायरम्भि ।

विडलम्भि पञ्चदबरे वीरजिणो अत्यक्षतारो ॥५५॥

वासस्स पढममासे सावणणामम्भि बहुलपदिवाए ।

अभिजीणक्षत्तम्भि य उप्पत्ती घम्मतित्थस्स ॥५६॥

ऐसी स्थितिमें देवताम्बरोंकी मान्यताका उक्त हितीक-तृतीय समवसरण जैसा ओड़ा सा भत्तेद राजगृहमें आगामी शावण कृष्ण प्रतिपदादिको होनेवाले वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सवमें उनके सहयोग देने और सम्मिलित होनेके लिये कोई बाधक नहीं हो सकता।—शासकर ऐसी हालतमें जब कि वे जान रहे हैं कि जिस श्रीवृष्ण-कृष्ण-प्रतिपदाको दिग्म्बरआगम राजगृहमें वीरभगवानके समवसरण-

का होना चला रहे हैं उसी आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको इवेतान्बर आगम भी वहा वीरप्रभुके समवसरणका ग्रस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, इतना ही नहीं किन्तु वहा केवलोत्पत्तिके अनन्तर होनेवाले उस सारे चातुर्मास्यमें समवसरणका रहना प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी मान रहे हैं कि 'राजगृह नगर महावीरके उपदेश और वर्षावासके केन्द्रोमें सबसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र वा और उसमें दोसौसे अधिकवार समवसरण होनेके उल्लेख जैनसूत्रोमें पाये जाते हैं ॥ ।

आशा है शासन-प्रभावनाके इस सत्कार्यमें दिग्म्बरोको अपने इवेतान्बर और स्थानकवासी भाइयोका अनेक प्रकारसे सद्ग्रावपूर्वक सहयोग प्राप्त होगा। इसी आशाको लेकर आगामी वीर-शासन-ज्यन्तो-महोत्सवकी योजनाके प्रस्तावमें उक्त दोनों सम्प्रदायोके प्रमुख वर्णक्तियोके नाम भी साथमें रखे गये हैं ।

अब मैं इतना और चला देना चाहता हूँ कि वीर-शासनको प्रवर्तित हुए गत आवण-कृष्ण-प्रतिपदाको २४६६ वर्ष हो जुके हैं और अब यह २५००वाँ वर्ष चल रहा है, जो आपादी पूर्णिमाको पूरा होगा। इसीसे वीरशासनका ग्रन्थ-द्वयसहस्राब्दिमहोत्सव उस राजगृहमें ही मनानेकी योजना की गई है जो वीर-शासनके प्रवर्तित होनेका आद्यस्थान अथवा मुख्यस्थान है। अतः इसके लिये सभीका सहयोग बाध्यनीय है—सभीजो मिलकर उत्सवको हर प्रकारसे सफन बनाना चाहिये ।

इस ग्रन्थसरपर वीरशासनके प्रेमियोका यह स्वास कर्तव्य है कि वे शासनकी महत्त्वाका विचारकर उसके अनुसार अपने आचार-विचारको स्थिर करे और लोकमें वीरशासनके प्रचारका—महावीर सन्देशको सर्वत्र फैलानका—भरसक उशोग करे अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे हो उन्हे मतभेदकी साधारण बातोपर न जाकर अपना सच्चा सहयोग एव साहाय्य प्रदान करनेमें कोई बात उठा न रखें, जिससे वीरशासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शान्ति-मूलक कल्याणकी अभिवृद्धि हो सके ।



४

जैनतीर्थकरोंका शासनभेद

—•—•—•—

जैनसमाजमें, श्रीवट्टकेराचार्यका बनाया हुआ 'मूलाचार' नामका एक यत्याचार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वंत्र प्रसिद्ध है। मूलग्रन्थ प्राकृत भाषामें है, और उस पर वसुनन्दी संद्वान्तिकी बनाई हुई 'आचारदृति' नामकी एक संस्कृतीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमें, सामायिकका वर्णन करने हुए, ग्रन्थकर्ता-महोदय लिखते हैं—

बावीसं तिथ्यरा सामाइयं संजमं उद्दिसंति ।

छेदोवहुवणियं पुण मयवं उसहो य वीरो य ॥ ७-३२ ॥

अथत्—अजितसे लेकर पाश्वनाथ पर्यन्त बाईस तीर्थकरोंने 'सामायिक' संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने 'छेदोपस्थापना' संयमका उपदेश दिया है।

यहाँ मूल गाथामें दो जगह 'च' (य) शब्द आया है। एक चकारसे परिहार-विशुद्धिआदि चारित्रका भी प्रहण किया जा सकता है। और तब यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवानने सामायिकादि पाँच प्रकारसे चारित्रका प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनाकी यहाँ प्रधानता है। शेष बाईस तीर्थकरोंने केवल सामायिक चारित्रका या छेदोपस्थापनाको छोड़कर शेष सामायिकादि चार प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है। अस्तु ।

आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंने छेदोपस्थापन संयमका प्रतिपादन क्यों किया है? इसका उत्तर आचार्यमहोदय आगेकी दो गाथाओंमें इस प्रकार देते हैं—

आचकिसदुं विमजिदुं विष्णादुं चावि सुहदर होदि ।
 एदेण कारणेण दु महवदा पञ्च परणता ॥ ३३ ॥
 आदीए दुव्विसोधये गिहणे तह सुहु दुरणुपालेया ।
 पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥

टीका—“.... क्षयस्मादन्यस्मै प्रतिपादयितुं स्वेच्छानुष्ठातुं विमन्तुं विज्ञातुं
 चापि भवति सुखतरं सामाधिकं तेन कारणेन महावतानि पञ्च प्रज्ञतानीति ॥ ३३ ॥”
 “आदितीर्थं शिष्या दुखेन शोष्यन्ते सुष्टु अहम्नस्वभावा यतः । तथा च पश्च-
 मतीर्थं शिष्या हुःखेन प्रतिपात्यन्ते सुष्टु वक्तस्वभावा यतः । पूर्वकालशिष्याः
 पश्चिमकालशिष्याः अपि स्फुटं कल्पं योग्यं अकल्पं अयोग्यं न जानन्ति यतस्तत
 आदी निधने च छेदोपस्थापनमुपदिशत इति ॥ ३४ ॥”

प्रयत्न—पांच महावतों (छेदोपस्थापना) का कथन इस वजहसे किया गया
 है कि इनके द्वारा सामाधिकका दूसरोंको उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना, पृथक्
 पृथक् रूपसे भावनामें लाना और सविशेषरूपसे समझना सुगम हो जाता है ।
 आदिम तीर्थमें शिष्य मुश्किलसे बुद्ध गिये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरल-
 स्वभाव होते हैं । और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं;
 क्योंकि वे अतिशय वक्तस्वभाव होते हैं । साथ ही, इन दोनों समयोंके शिष्य
 स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं । इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें
 इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी जारूरत पैदा हुई है ।

यहांपर यह भी प्रकट कर देना जरूरी है कि छेदोपस्थापनामें हिंसादिकके
 अबसे समस्त सावधकर्मका स्थाग किया जाता है । इसलिये छेदोपस्थापनाकी

क्षयसे पहले, टीकामें, गाथाका शब्दार्थ मात्र दिया है ।

† ‘तत्त्वार्थराजवार्तिक’ में भट्टाकलंकदेवने भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही
 स्वरूप प्रतिपादन किया है । यथा:—

“सावद्ध कर्म हिंसादिमेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।”

इसी प्रन्थमें अकलंकदेवने यह भी लिखा है कि सामाधिकी अपेक्षा व्रत
 एक है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पांच नेद हैं । यथा:—

‘पञ्चमहाव्रत’ संसा भी है, और इसी लिये आचार्यमहोदयने नामा नं० ३३ में छेदोपस्थापनाका ‘चंचमहाव्रत’ शब्दोंसे निर्देश किया है। अस्तु। इसी अन्यमें, आगे ‘प्रतिक्रमण’ का वरणन करते हुए, श्रीवद्वृक्षेपस्थापनाने यह भी लिखा है:—

सपदिक्कमणो धर्मो पुरिमस्त य पदिक्कमस्स जिणस्स ।

अवराहपदिक्कमणं मजिक्मयाणं जिणवराणं ॥ ८-१२५ ॥

जावे दु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो ।

तावे दु पदिक्कमणं मजिक्मयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥

इरियागोयरसुमिणादि सञ्चमाचरदु मा व आचरदु ।

पुरिमचरिमा दु सव्वे सव्वे गियमा पदिक्कमदि ॥ १२७ ॥

अर्थात्—महले और अन्तिम तीर्थकरका धर्म, अपराधके होने और न होनेकी अपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवर्तता है। पर मध्यके बाईस तीर्थकरोंका धर्म अपराधके होने पर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है। क्योंकि उनके समय-अपराधकी बहुलता नहीं होती। मध्यवर्ती तीर्थकरोंके समयमें जिस व्रतमें अपने

“सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, भेदपरतं तत्त्वेदोपस्थाप-नापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।”

श्रीपूज्यपादाचार्यने भी ‘सर्वार्थसिद्धि’ में ऐसा ही कहा है। इसके सिवाय, श्रीवीरनन्दी आचार्यने, ‘आचारमार’ अन्यके पांचवें अधिकारमें, छेदोपस्थापनाका जो निम्न स्वरूप वरणन किया है उससे इस विषयका और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। यथा:—

व्रत-समिति-गुस्तिगैः पंचं पंचं त्रिभिर्भृतैः ।

छेदैभेदैरुपेत्यार्थं स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।

व्रतं हिंसाजृतस्तेयाऽब्रह्मसंगोष्ठवसंगमः ॥ ७ ॥

अर्थात्—पांच व्रत, पांच समिति और तीन गुस्ति नामके छेदों-भेदोंके द्वारा। अर्थको प्राप्त होकर जो अपने आत्मामें स्थिर होने रूप किया है उसको छेदोप-स्थापना आ छेदोपस्थापन कहते हैं। समस्त सावद्यके त्यागमें छेदोपस्थापनाको हिंसा, भूठ, घोरी, मैथुन (भ्रष्टह) और परिप्रहसे विरतिरूप व्रत कहा है।

या दूसरोंके अतीचार लगता है उसी ब्रतसम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है । विपरीत इसके, आदि और अन्तके तीर्थकरों (ऋषभदेव और महावीर) के शिष्य ईर्या, गोचरी और स्वप्नादिमें उत्पन्न हुए समस्त अतीचारों-का आचरण करो अथवा मत करो उहें समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उचारण करना होता है । आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्योंको क्यों समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उचारण करना होता है और क्यों मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य वैसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें आचार्यमहोदय लिखते हैं—

मञ्जिकमया दिघबुद्धी एथगमणा अमोहलक्ष्मा य ।

तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता विसुज्मंति ॥ १२८ ॥

पुरिम-चरमा दु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्ष्मा य ।

तो सब्बपदिक्षमणं अधलयथोडयदिङ्गतो ॥ १२९ ॥

अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढ़बुद्धि, स्थिर-चित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इसलिये प्रकटरूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषके विषयमें आत्मनिन्दा करते हुए शुद्ध हो जाते हैं : पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त, विस्मरण शील और मूढमना होते हैं—शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करनेपर भी उसे नहीं जान पाते । उन्हें क्रमशः श्रुजुजङ्ग और बक्जङ्ग समझना चाहिये—इसलिये उनके समस्त प्रतिक्रमणदण्डकोंके उचारणका विषान किया गया है और इस विषयमें अन्ये घोड़ेका हृष्टान्त बतलाया गया है । टीकाकारने इस हृष्टान्तका जो स्पष्टीकरण किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है—

‘किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया । उक्त राजाने वैद्यपुत्रसे घोड़ेके लिये औषधि पूछी । वह वैद्यपुत्र वैद्यक नहीं जानता था, और वैद्य किसी दूसरे ग्राम में गया हुआ था । अतः उस वैद्यपुत्रने घोड़ेकी आँखोंको आराम पहुँचानेवाली समस्त औषधियोंका प्रयोग किया और उनसे वह घोड़ा नीरोग हो गया । इसी तरह सात्रु भी एक प्रतिक्रमणदण्डकमें स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेमें होगा, दूसरेमें नहीं तो तीसरेमें, तीसरेमें नहीं तो चौथेमें होगा । इस प्रकार सबंप्रतिक्रमण-दण्डकोंका उचारण करना न्याय है । इसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सब ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं ।

मूलाचारके इस समूर्ण कथनसे वह बात स्पष्टतया विदित होती है कि समस्त जैनतीर्थकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। बल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर होता रहा है। और इसलिये जिन लोगोंका ऐसा ख्याल है कि जैनतीर्थकरोंके उपदेशमें परस्पर रंचमात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मुँहसे खिरती है वही जैनी तुली दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकलती है, उसमें ज़रा भी फेरफार नहीं होता—वह ख्याल निष्पूर्ण जान पड़ता है। शायद ऐसे लोगोंने तीर्थकरोंकी वाणीको फोनोग्राफके रिकार्डोंमें भरे हुए मैटर (मज़बूत) के सदृश समझ रखा है! परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ऐसे लोगोंको मूलाचारके उपर्युक्त कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये।

प० आशाधरजीने भी, अपने 'अनगारधर्मामृत' ग्रन्थ और उसकी स्वोपना टीकामें, तीर्थकरोंके इस शासनभेदका उल्लेख किया है। जैसा कि आपके निम्नवाक्योंमें प्रकट है:—

‘ प्रादिमान्तिमनीर्थकरावेब ब्रतादिभेदेन सामायिकमुपदिशतः स्म नाऽजितादयो द्वाविशतिरिति सहेतुक व्याचष्टे—

दुःशोधमृजुजडैरिति पुरुरिव वीरोऽदिशदूत्रतादिभिदा ।

दुष्पालं वक्कजडैरिति साम्यं नापरे सुपदुशिष्याः ॥६—८॥

टीका—आदिशदुपदिष्टवान् । कोज्जते ? वीरोऽन्तिमतीर्थकरः । कि तद् ? साम्यं सामायिकास्य चारित्रम् क्या ? ब्रतादिभिदा ब्रतसमितिशुसिभेदेन । कुतो हेतो ? इति । किमिति ? भवति । कि तद् ? साम्यम् । कीदृशम् ? दुष्पालं पालयतुमशक्यम् । कैः ? वक्कजडैरनार्जवजाडधोपेतैः शिष्यैर्मंमेति । क इव ? पुरुरिव । इव शब्दो यथार्थः । यथा पुरुरादिनाथः साम्य ब्रतादिभिदाऽदिशत् । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । कि तद् ? साम्यं । कीदृशम् ? दुःशोधं शोधयितुमशक्यम् । कैः ऋजुजडैरार्जवजाडधोपेतैः शिष्यैर्मंमेति । तथा-उपरेऽजितादयो द्वाविशतिस्तीर्थकरा ब्रतादिभिदा साम्यं नादिशन् । साम्यभेद ब्रत-मिति कथयन्ति स्म स्वशिष्याणामप्ने । कीदृशास्ते ? सुपदुशिष्याः यतः ऋजुवक्ष-जडस्त्वामावात् सुष्ठु पटबो व्युत्पन्नतमाः शिष्या येषां त एवम् । ”

तिन्दागहालोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयाच्छुद्धर्थं कर्मध्नान् नियमान् समान् ॥८-६२॥

टीका—पठेदुच्चरेत् साधुः श्रगुयादा आचार्यादिभ्य धाकण्येत् । कान् ? नियमान् प्रतिक्रमणदण्डकान् । किविशिनान् ? समान् सर्वान् ।इदमव तात्पर्य, यस्मादैदयुगीना दुखमाकालानुभावाद्वक्षडीभूता. स्वयमपि कृत व्रताच्छतिचार न स्मरन्ति चलचित्तत्वाच्चासकृत्प्रायशोपराघ्निं तस्मादीर्यादिषु दोषो भवतु वा मा भवतु तै सर्वाच्छतिचारविशुद्धर्थं सर्वे प्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः । तेषु यत्र कचिचित्त स्थिर भवति तेन सर्वोऽपि दोषो विशोष्यते । ते हि सर्वोऽपि कर्मवात्समर्था । तथा चौक्तम्—

६ सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्त्ययोः ।

अपराधे प्रतिक्रमन्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥

यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा ।

तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥

ईर्यागोचरदुःस्वप्नप्रभूतौ वर्ततां न वा ।

पौरस्त्यपश्चिमाः सर्वं प्रतिक्रामन्ति निश्चितम् ॥

मध्यमा एकचित्ता यद्मूढदृढबुद्धयः ।

आत्मनानुष्ठितं तस्माद्गर्हमाणाः सूजन्ति तम् ॥

पौरस्त्यपश्चिमाय यस्मात्समोहाश्चलचेतसः ।

ततः सर्वं प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्वोऽत्र निदर्शनम् ॥”

और श्रीपूज्यपादाचार्यने, अपनी ‘चारित्रमक्ति’ में, इस विषयका एक पद्धति निम्नप्रकारसे दिया है—

तिसः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः

पञ्चेर्यादिसमाश्रयाः समितयः पञ्चब्रतानीत्यपि ।

६ ये पांचो पद्धति, जिन्हे प० आशाधरजीने अपने कथनके समर्थनमें उद्धृत किया है, विक्रमकी प्रायः १३वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए किसी प्राचीन ग्रन्थके पावह हैं। इनका सब आशय क्रमशः वही है जो मूलाचारकी उक्त गाण्या नं० १२५ से १२६ का है। इन्हे उक्त गाण्याओंकी छाया न कहकर उनका पद्धानुवाद कहना चाहिये।

‘चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिष्ट’ परै-

रात्तारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वारान्नमामो वयम् ॥५॥

इसमें कायादि तीन गुणियों, ईर्यादि पञ्च समितियों और अहिंसादि पञ्च महात्माओंके रूपमें त्रयोदश प्रकारके चारित्रको ‘चारित्राचार’ प्रतिपादन करते हुए उसे नमस्कार किया है और साथ ही यह बतलाया है कि ‘यह तेरह प्रकारका चारित्र महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीर्थकरों-द्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ है’—अर्थात्, इस चारित्रका उपदेश महावीर भगवान्‌ने दिया है, और इसलिये यह उन्हींका खास शासन है। यहाँ ‘वीरात् पूर्वं न दिष्टं परैः’ शब्दों परसे, यद्यपि, यह स्पष्ट छवि निकलती है कि महावीर भगवान्‌से पहलेके किसी भी तीर्थकरने—ऋषभदेवने भी—इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने ‘परैः’ पदके बाच्यको भगवान् ‘अजित’ त्रैक ही सीमित किया है—ऋषभदेव तक नहीं अर्थात्, यह सुझाया है कि—पार्वनाथसे लेकर अजितनाथपर्यंत पहलेके बाईस तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया है—उनके उपदेशका विषय एक प्रकारका चारित्र (सामाधिक) ही रहा है—यह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्षमान महावीर और आमदिनाथ (ऋषभदेव) के द्वारा उपदेशित हुआ है। जैसा कि आपकी टीकाके निम्न ग्रन्थसे प्रकट है:—

“.....परैः अन्यतीर्थकरैः । कस्मात्परैः ? वीरादन्यतीर्थकरात् । किविष्टात् ? जिनपते:..... । पररजितादिभिर्जिननायैष गोदशभेदभिन्नं चारित्रं न कथित सर्वासावधिविरतिलक्षणमेकं चारित्रं तैविनिर्विष्टं तत्कालीनशिष्याणा ऋचु-वक्त्रजडमतित्वाभावात् । वर्षमानस्त्वामिना तु वक्त्रजडमतिभव्याशयवशात् आदि-देवेन तु ऋचुजडमतिविनेयवशात् त्रयोदशविष्टं निर्दिष्टं आचारं नमामो वयम् ॥”

संभव है कि ‘परैः’ पदको इस सीमाके निर्धारित करनेका उद्देश्य मूलाचार-के साथ पूज्यपादके इस कथनकी संयतिको ठीक बिठलाना रहा हो। परन्तु बास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निर्धारित किया जाय और यह मान लिया जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोदशविष्टरूपसे चारित्रका उपदेश नहीं दिया है तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि यह ही सकता है कि ऋषभदेवने पञ्चमहात्माओंका सो उपदेश दिया हो—उनका छेदोप-

स्थापना सथम अहिंसादि पचमेदात्मक ही हो—किन्तु पचममितियो और तीन गुस्तियोंका उपदेश न दिया हो, और उनके उपदेशकी जरूरत भगवान् महावीर-को ही पड़ी हो। और इसी लिये उनका छदोपस्थापन सथम इस तेरह प्रकारके चारित्रमेदको लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती है। परन्तु कुछ भी हो, क्रष्णभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि शेष बाईस तीर्थवरोने उसका उपदेश नहीं दिया है।

यहापर इनना और भी बनना देना ज़रूरी है कि भगवान् महावीरन इस तेरह प्रकारके चारित्रममें दम प्रकारके चारित्रको—पचमहाव्रतो और पचममितियोंको—मूलगुणोंमें स्थान दिया है। अर्थात्, साधुओंके अट्टाईस* मूलगुणोंमें दस मूलगुण इहे करार दिया है। तब यह स्पष्ट है कि श्रीपार्श्वनाथादि दूसरे तोथकरोंके मूलगुण भगवान् महावीरद्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंसे भिन्न थे और उनकी सख्त्या भी अट्टाईस नहीं हो सकती—दसकी सख्त्या तो एकदम कम हो ही जानी है, और भी नितने ही मूलगुण इनमें ऐस हैं जो उस समयके शिष्योंकी उक्त स्थितिका दखले हुए अनावश्यक प्रतीत होते हैं। वास्तवमें मूलगुणों और उत्तरगुणोंका मारा विवान समय-समयके शिष्योंकी योग्यता और उन्हें तत्त्वकलीन परिस्थितियोंमें मन्मार्ग-पर स्थिर रख सकनेकी आवश्यकतापर अवलम्बित रहता है। इस दृष्टिसे जिस समय जिन ब्रननियमादिकोंका आचरण सर्वोंरि मुश्य तथा आवश्यक जान पड़ता है उन्हें मूलगुण करार दिया जाता है और शेषको उत्तर-

* अट्टाईस मूलगुणोंके नाम इसप्रकार हैं—

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्त्वेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह (ये पाच महाव्रत),
६ ईर्या, ७ भाषा, ८ एषणा, ९ आदाननिषेपण, १० प्रतिष्ठापन, (ये पाच ममिति) ११-१५ स्पर्शन रमन घारण-बक्षु श्रोत्र-निरोष (ये पचेद्वियनिरोष),
१६ सामायिक, १७ स्तव, १८ बन्दना, १९ प्रतिक्रमण, २० प्रत्यास्थान,
२१ कायोत्पर्ग (ये बडावश्यक क्रिया), २२ लोच, २३ आचेलक्ष्य, २४ अस्तान,
२५ भूशयन, २६ अदन्तघर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकमक्त।

गुण । इसीसे सर्व समयोंके मूलगुण कभी एक प्रकारके नहीं हो सकते । किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं अथवा योड़में ही समझ लेते हैं और किसी समयके विस्तारहचिवाले अथवा विशेष खुलासा करनेपर समझेवाले । कभी लोगोंमें ऋचुजडताका अधिक संचार होता है, कभी वक्तजडताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है । किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, दृढ़बुद्धि और बलवान् होते हैं और किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और निर्बंल । कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका ह्रास होता है । इसलिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—बहुलता होती है उस उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही ब्रत-नियमादिकका विधान होता है । उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है । परन्तु इस भिन्न प्रकारके उपदेश, विधान या शासनमें परस्पर उद्देश्य-मेद नहीं होता । समस्त जैन तीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य 'आत्मासे कर्ममल-को दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना' होता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि संसारी जीवोंको संसार-रोग दूर करनेके मार्गपर जगाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है । अस्तु । एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक औषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोग जानिके लिये उनमेंसे जिस वक्त जिस औषधिको जिस विधिसे देनेकी ज़रूरत होती है वह उस वक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ वाधा आती है । उसी प्रकार संसार-रोग या कर्म-रोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है । उनमेंसे तीर्थकर भगवान् अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं । उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या वाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती । इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके बिडान् आचार्यमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये हुए वाक्योंद्वारा अच्छा प्रकाश ढाला है और अनेक युक्तियोंसे जैनतीर्थकरोंके शासनभेदको भले प्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है । इसके सिवाय, दूसरे

विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह और भी विशेषता है।

स्वेताम्बर-मान्यता

स्वेताम्बरोंके यहाँ भी जैनतीर्थकरोंके शासनभेदका कितना ही उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं—

(१) 'आवश्यकनियुक्ति' में, जो भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती है, दो गाथाएँ निम्नप्रकारसे पाई जाती हैं—

सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छमस्स य जिणस्स ।

मञ्जिमयाण जिणाणं कारणजाएऽ पडिक्कमणं ॥१२४४॥

बावीसं तित्थयरा सामाद्यसंजमं उवङ्संति ।

छेओंवट्टावणायं पुणा वयन्ति उसभो य वीरो य ॥१२४६॥

ये गाथाएँ साधारणसे पाठभेदके साथ, जिससे कोई अर्थभेद नहीं होता, वे ही हैं जो 'मूलाचार' के ७वें अध्यायमें क्रमशः नं० १२५ और ३२ पर पाई जाती हैं। और इसलिये, इस विषयमें, नियुक्तिकार और मूलाचारके कर्ता श्रीवट्टकेराचार्य दोनोंका मत एक जान पड़ता है।

(२) 'उत्तराध्ययनसूत्र' में 'केशी-गौतम-संवाद' नामका एक प्रकरण (२३वाँ अध्ययन) है, जिसमें सबसे पहले पार्वतनाथके शिष्य (तीर्थशिष्य) केशी स्वामीने महावीर-शिष्य गौतम गणेशरसे दोनों तीर्थकरोंके शासनभेदका कुछ उल्लेख करते हुए उसका कारण दर्यापत किया है और यहाँतक पूछा है कि धर्मकी इस द्विविध-प्ररूपणा अथवा मतभेद पर क्या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है ? तब गौतमस्वामीने उसका समाधान किया है। इस संवादके कुछ वाक्य (भाव-विवरणीकी व्याख्यासहित) इस प्रकार हैं—

चाउज्जामो अ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्षित्वो ।

देसिष्ठो वट्टमाणेण, प्रासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

व्याख्या—बतुर्यामो हिंसानृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मक-व्रतचतुष्करूपः, पंचशिक्षितः स एव मैथुनविरतिरूपपंचमहाव्रतान्वितः ॥ २३ ॥

* 'कारणजाते' अपराध एवोत्पन्ने सति प्रतिक्रमणं भवति—इति हरिभद्रः ।

एककल्पयवाणाणं, विसेसे किं तु कारणं ।

धन्मे दुविहे मेहावी ! कहं विष्पवाचो न हे ? ॥२४॥

व्याख्या—‘धन्मेति’ इत्यं धर्मं साधुवर्मे द्विविधे हे मेहाविन् कर्यं विप्रस्थयः अविश्वासो न हे तत्व ? तुल्ये हि सर्वज्ञत्वे किं कृतोऽर्यं मतभेदः ? इति ॥ २४ ॥ एवं तेनोक्ते —

तथो केसि बुवंतं तु, गोअमो इणमञ्चवी ।

परणा समिक्तत्वे धर्म्यं-तत्त्वं तत्त्वविणिच्छर्य ॥२५॥

व्याख्या—‘बुवंतं तु ति’ बुवंतमेवाज्ञेनादरातिशयमाह, प्रजाबुद्धिः समीक्षयते पश्यति, किं तदित्याह—धर्म्यं-तत्त्वं विन्दोलोपे धर्मतत्त्वं धर्मपरमार्थं, तत्त्वानां जीवादानां विनिश्चयो यस्मात्तत्त्वा, अयं भावः—न वाक्यश्ववणमात्रादेवार्थनिरुप्यः स्पाल्किन्तु प्रजावशादेव ॥२५॥ तत्त्वच—

पुरिमा उज्जुजडा उ, वक्त्रजडा य पच्छिमा ।

मजिकमा उज्जुपरणा उ, तेण धन्मे दुहा कए ॥२६॥

व्याख्या—‘पुरिमेति’ पूर्वे प्रथमजिनमुनयः ऋजवश्च प्रांजलतया जडाश्च दुष्प्रज्ञाप्तया ऋजुजडाः, ‘तु’ इति यस्माद्देतोः वक्त्राश्च वक्त्रप्रकृतित्वाज्डाश्च निजानेककुविकल्पैः विवक्षितार्थविगमाक्षमत्वाद्वक्त्रजडाः, च समुच्चये, पश्चिमाः पश्चिमजिनतनयाः । मध्यमास्तु मध्यमाहंतां साधवः, ऋजवश्च ते प्रजाश्च सुबोधत्वेन ऋजुप्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मे द्विषा कृतः । एककार्यप्रपन्नत्वेषि इति प्रक्रमः ॥२६॥ यदि नाम पूर्वादिमुनीनामीदृशत्वं, तथापि कथमेतद्दैविष्य-मित्याह—

पुरिमाणं दुविवसोऽक्षो उ, चरिमाणं दुरण्णपालश्चो ।

कप्पो मजिम्मगाणं तु, सुविसोऽक्षो :सुपालश्चो ॥२७॥

व्याख्या—पूर्वेषां दुःखेन विशोष्योऽनिर्मलतां नेतुं शक्यो दुविषोष्यः, कल्प-इति योज्यते, ते हि ऋजुजडत्वेन गुणणानुशिष्यमाणा अपि न तद्वाक्यं सम्यगव-बोद्धुः प्रभवन्तीति तुः पूर्वी । चरमाणां दुःखेनानुपाल्यते इति दुरनुपालः स एव दुरनुपालः कल्पः साध्वाचारः । ते हि कथंविज्ञानन्तोऽपि वक्त्रजडत्वेन न यथा-वदनुष्ठानुभीक्षते । मध्यमकानां तु विशोष्यः सुपालकः कल्प इतीहापि योज्यं, ते हि ऋजुप्रश्नत्वेन सुखेनैव यथावज्ञानन्ति धालयन्ति च अतस्ते चतुर्वर्मोक्तावपि

पंचममपि यामं ज्ञातुं पालयितुं च क्षमाः । यदुक्तं—“नो अपरिगणहिमाए, इल्लीए
बेण होइ परिमोगो । ता तव्विरह्यै चिच्छ, अबंभविरहत्ति पवणाराण् ॥१॥ इति
तदपेक्षया श्रीपाश्वर्वस्वामिना चतुर्यामो धर्मं उत्तः पूर्वपश्चिमास्तु नेहशा इति
श्रीकृष्णभश्रीवीरस्वामिम्यां पंचवतः । तदेवं विचित्रप्रज्ञविनेयानुग्रहाय धर्मस्थ
द्वैविद्यं न तु तात्त्विकं । आद्यजिनकथनं चेह प्रसंगादिति सूत्रपञ्चकार्थः ॥२७॥

इस संवादकी २६वीं और २७वीं गाथामें शासनभेदका जो कारण बतलाया
गया है—भेदमें कारणीमूल तत्त्वकालीन शिष्योंकी जिस परिस्थितिविशेषका
उल्लेख किया गया है—वह सब वही है जो मूलाचारादि दिगम्बर ग्रन्थोंमें वर्णित
है । बाकी, पाश्वनाथके ‘चतुर्यामि’ धर्मका जो यहाँ उल्लेख किया गया है उसका
आशय यदि वही है जो टीकाकारने अहिंसादि चार व्रतरूप बतलाया है, तो वह
दिगम्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ भिन्न जान पड़ता है । हो सकता है कि पंच
प्रकारके चारित्रमें स्त्रेदोपस्थानाको निकाल देनेसे जो शेष चार प्रकारका
चारित्र रहता है उसीसे उसका अभिप्राय रहा हो और वादको आगमाविहित
चारित्र-भेदोंके स्थानपर व्रत-भेदोंकी कल्पना कर ली गई हो ।

(३) ‘प्रज्ञापनासूत्र’ की मलयगिरि-टीकामें भी तीर्थकरोंके शासन भेदका
कुछ उल्लेख मिलता है । यथा:—

“यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविशेषतः सामाधिकं तथापि छ्रेदादिविशेषेऽर्वशिष्य-
मारणमर्थतः शब्दान्तरतत्त्वं नानात्वं भजते, प्रथमं पुनरविशेषणात् सामान्यशब्द-
एवावतिष्ठते सामाधिकमिति तच्च द्विधा—इत्वर यावत्कथिक च, तत्रेत्वरं भरतै-
रावतैषु प्रथमपश्चिमतीर्थकरतीर्थेष्वानारोपितमहाव्रतस्य शंक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्क-
थिकं च प्रद्रज्याप्रतिपत्तिकालादारभ्याप्राणोपरमात्, तच्च भरतैरावतभाविमध्य-
द्वाविशतिरीर्थकरतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थकरतीर्थान्तरगतानां च साधूनामवसेयं
तेषामुपस्थापनाया अभावात् । उक्तं च—

सव्वमिद्यं सामाइय छेयाइविसेसिद्यं पुण विभिन्नं ।

अविसेसं सामाइय ठियमिय सामन्नसन्नाए ॥१॥

सावज्जोगविरहं चित्त तत्थ सामाइयं दुहा तं च ।

इत्तरमावकहं ति य पदमंतिमजिणाणां ॥२॥

तित्वेसु अणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीय ।

सेसाण यावकहियं तित्वेसु विदेहयाणं च ॥ ३ ॥

तथा छ्रदः पूर्वपर्यायस्य उपस्थापना च महावतेषु यस्मिन् चारित्रे तच्छेदोप-
स्थापनं, तच्च द्विविधा—सातिचारं निरतिचारं च, तत्र निरतिचारं यदित्वरसा-
मायिकवैतशीक्षकस्य आरोप्यते तीर्थनितरसंक्लान्तौ वा यथा पाश्वनाथतीर्थादि वर्ध-
मानतीर्थ संक्लान्तः पञ्चयमप्रतिपत्तौ, सातिचारं यन्मूलगुणधातिनः पुनर्व तोच्चा-
रण, उक्तं च—

सेहम्स निरइयारं तित्वंतरसंकमे व तं होज्जा ।

मूलगुणधाइणो साइयारमुभयं च ठियकप्पे ॥ १ ॥

'उभयं चेति' मातिचारं निरनिचार च 'स्थितकल्पे' इति प्रथमपश्चिमतीर्थ-
कर-तीर्थकाने ।"

इम उल्लेखमें अजितसे पाश्वनाथपर्यंत बाईम तीर्थकरोंके साधुओंके जो
छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाया है और महावतोंमें स्थित होनेहृषि चारित्रको
छेदोपस्थापना निखा है वह मूलाचारके कथनमें मिलता जुलता है । शेष कथन-
को विशेष अथवा भिन्न कथन कहना चाहिये ।

आशा है इस लेखको पढ़कर सर्वसाधारण जैनी भाई सत्यान्वेषी और अन्य
ऐतिहासिक विद्वान् ऐतिहासिक धंत्रमें कुछ नया अनुभव प्राप्त करेगे और साथ
ही इस बातकी खोज लगायेगे कि जैनतीर्थकरोंके शासनमें और किन किन बातों-
का परस्पर भेद रहा है ।



श्रुतावतारकथा

('ध्वल' और 'जयध्वल' के आधार पर)

—अंग—

श्रीवीर-हिमाचलसे श्रुत-अंगका जो निर्मल लोत बहा है वह अन्तिम श्रुत-
केवली श्रीभद्रबाहुस्वामी तक अविच्छिन्न एक धारामें चला आया है, इसमें
किसीको विवाद नहीं है। बादको द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षादिके कारण मतभेदरूपी
एक चट्ठानके बीचमें आजानेसे वह धारा दो भागोंमें विभाजित होगई, जिनमें से
एक दिगम्बर और दूसरी श्वेताम्बर शास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनों ही
शास्त्रांगोंमें अपनी-अपनी तात्कालिक जरूरत और तरीकतके अनुसार अवतरित
श्रुतज्ञकी रक्षाका प्रयत्न हुआ; किन्तु ऋहण-धारणकी शक्तिके दिनपर दिन कम
होतेजाने और देशकालकी परिस्थितियों अथवा रक्षणादि-विषयक उपेक्षाके कारण
कोई भी विद्वान् उस श्रुतको अपने अविकल द्वादशांग-स्त्र्यमें सुरक्षित नहीं रख
सका और इसलिये उसका मूल शरीर प्रायः क्षीण होता चला गया। जिस-जिस
अवधिपर पुनः निबद्ध संग्रहीत अथवा लिपिबद्ध होनेके कारण वह और अधिक
क्षीण होनेसे बचा है उसकी कथाएं दोनों ही सम्प्रदायोंमें पाई जाती हैं। दिग-
म्बर सम्प्रदायमें इस श्रुतावतारके जो भी प्रकरण उपलब्ध हैं उनमें इन्द्रनन्दिका
श्रुतावतार* अधिक प्रसिद्ध है। इस श्रुतावतारमें अन्तिम अवधिके तौरपर उन

* यह ग्रन्थ मार्णिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमालाके त्रयोदश ग्रन्थ 'तत्त्वानु-
शासनादि-संग्रह'में मुद्रित हुआ है। उसीपरसे उसके विषयोंका यही उल्लेख
किया गया है।

दो सिद्धान्तायमोंके अवतारकी कथा यी गई है किंव पर अन्तको 'बबला' और 'जयबबला' नामकी विस्तृत टीकाएँ—कमश ७२ हजार तथा ६० हजार इलोक-परिमाण लिखी गई है। भाष्यके रूपमें इनका नाम 'बबल' और 'जयबबल' अधिक प्रसिद्ध है।

षट्खण्डागम और कथायप्राभृतकी उत्पत्ति

बबलके शुरूमे, कतकि 'अर्थकर्ता' और 'ग्रन्थकर्ता' ऐसे दो भेद करके, केवल-ज्ञानी भगवान महाबीरको द्रव्य-क्षेत्र-काल-फाव-रूपमें अर्थकर्ता प्रतिपादित किया है और उमकी प्रमाणानामें कुछ प्राचीन पद्मोंको भी उद्धृत किया है। महाबीर-द्वारा-कथित अर्थको गौतम गोत्री ब्राह्मणोत्तम गौतमने अवधारित किया, जिनका नाम इन्द्रभूति था। यह गौतम सम्मूर्ख दुश्रुतिका पारगामी था, जीवाजीव-विषयक सन्देहके निवारणार्थ श्रीबद्धमान महाबीरके पास गया था और उनका विषय बन गया था। उसे वही पर उसी समय अयोपशम-जनित निर्मल ज्ञान-चतुष्टयकी प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार भाव-अतपर्याय-रूप परिणत हुए इन्द्रभूति गौतम ने महाबीर-कथित अर्थकी बारह अग्नो-नौदह पूर्वोंमें गन्ध-रचना की और वे द्रव्यश्रुतके कर्ता हुए। उन्होंने अपना वह द्रव्य-भाव-क्षणी श्रुतज्ञान लोहाचार्यके प्रति सचारित किया और लोहाचार्यने जम्बूस्वामीके प्रति। ये तीनों सत-प्रकारकी लक्षियोंमें मम्पन थे और उन्होंने सम्मूर्ख श्रुतके पारगामी होकर केवलज्ञानको उत्पन्न करके कमश निर्वितिको प्राप्त किया था।

जम्बूस्वामीके पश्चात् कमश विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धन और भद्रबाहु ये पाच आचार्य चतुर्दश-पूर्वके घारी अर्थात् श्रुतज्ञानके पारगामी हुए।

भद्रबाहुके अनन्तर विशालाचार्य, प्रोहिल, क्षत्रिय, जयाचार्य^१, नागाचार्य^२, सिद्धार्थदेव, वृतिषेण, विजयाचार्य^३, बुद्धिल, गगदेव और धर्मसेन ये कमशः

* बबलके वेदना खण्डमें भी लोहाचार्यका नाम दिया है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें इस स्थान पर मुख्य मुर्मिका नाम पाया जाता है।

१, २, ३, इन्द्रनन्द श्रुतावतारमें जयसेन, नागसेन, विजयसेन, ऐसे पूरे नाम दिये हैं। जयबबलामें भी जयमेन, नागसेन-रूपसे उल्लेख है परन्तु साथमें विजयको विजयसेन-रूपमें उल्लेखित नहीं किया। इससे पूल नामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

११ आचार्य ग्यारह अंगों और उत्पादपूर्वादि दश पूर्वोंके पारगामी तथा शेष चार पूर्वोंके एक देश धारी हुए ।

धर्मसेनके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेनक्षत्र और कंसाचार्य ये क्रमशः पाच आचार्य ग्यारह अंगोंके पारगामी और चौदह पूर्वोंके एक देशधारी हुए ।

कंसाचार्यके अनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य ये क्रमशः चार आचार्य आचारांगके पूर्णपाठी और शेष अंगों तथा पूर्वोंके एक देशधारी हुए* ।

लोहाचार्यके बाद सर्व अंगों तथा पूर्वोंका वह एकदेशश्रुत जो आचार्य-परम्परासे चला आया था धर्मसेनाचार्यको प्राप्त हुआ । धर्मसेनाचार्य अष्टाग महानिमित्तके पारगामी थे । वे जिस समय सोरठ देशके गिरिनगर (गिरनार) पहाड़की चन्द्र-गुहामे स्थित थे उन्हें अपने पासके ग्रन्थ (श्रुत) के अुच्छेद हो जानेका भय हुआ, और इसलिये प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन्होंने दक्षिणा-पथके आचार्योंके पास, जो उस समय महिमामुख नगरीमें सम्मिलित हुए

^{क्षे} यहां पर यद्यपि द्रुमसेन (द्रुमसेणो) नाम दिया है परन्तु इसी प्रथके 'वेदना' क्षणमें और जयधवलामें भी उसे ध्रुवसेन नामसे उल्लेखित किया है— पूर्ववर्ती प्रथ 'तिलोयपण्यती' में भी ध्रुवसेन नामका उल्लेख मिलता है । इससे यही नाम ठीक जान पड़ता है । अथवा द्रुमसेनको इसका नामान्तर समझना चाहिये । इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें द्रुमसेन नामसे ही उल्लेख किया है ।

[†] अनेक पट्टावलियोंमें यशोबाहुको भद्रबाहु (द्वितीय) सूचित किया है और इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार में 'जयबाहु' नाम दिया है तथा यशोभद्रकी जगह अभयभद्र नामका उल्लेख किया है ।

* इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें इन आचार्योंको शेष अंगों तथा पूर्वोंके एक देश धारी नहीं लिखा, न धर्मसेनादिको चौदह पूर्वोंके एकदेश-धारी लिखा और न विशाखाचार्यादिको शेष चार पूर्वोंके एक देश-धारी ही बतलाया है । इसलिये धवलाके ये उल्लेख सास विशेषताको लिए हुए हैं और बुद्धि-नाश नवा समुचित भास्तुम होते हैं ।

[‡] 'महिमानगड'-नामक एक गांव सतारा ज़िले में है (देखो, 'स्थलनामकोश'), संभवतः यह वही जान पड़ता है ।

ये (दक्षिणम्भावहाइरियाणां महिमाए भिलियाणी) के एक लेख (पत्र) भेजा। लेखस्थित धरसेनके बचनानुसार उन आचार्योंने दो साधुओंको, जो कि अहण-धारणमें समर्थ थे, बहुविध निर्मल विनयसे विश्रृष्टि तथा शील-भालाके धारक थे, गुरु-सेवामें सन्तुष्ट रहने वाले थे, देश कुल-जातिसे शुद्ध थे और सकल-कला-पारगामी एवं तीकण बुद्धिके धारक आचार्य थे—अन्न देशके वेष्यातट* नगरसे धरसेनाचार्यके पास भेजा। (अधिविसय-वेष्णायडादो पेसिदा)। वे दोनों साधु जब आ रहे थे तब रात्रिके पिछले भागमें धरसेन भट्टारकरने स्वप्नमें सर्व-लक्षण सम्पन्न दो घबल वृषभोंको आपने चरणोंमें पढ़ते हुए देखा। इस प्रकार सन्तुष्ट हुए धरसेनाचार्यने 'जयउ सुयदेवदा' ‡ ऐसा कहा। उसी दिन वे दोनों साधुजन धरसेनाचार्यके पास पहुँच गये और तब भगवान् धरसेनका कृतिकर्म (वन्दनादि) करके उन्होंने दो दिन† विश्राम किया, फिर तीमरे दिन विनयके साथ धरसेन भट्टारकको यह बतलाया कि 'हम दोनों जन ममुक कार्यके लिये आपकी चरण-शरणमें आए हैं।' इसपर धरसेन भट्टारकने 'सुट्ठु भई' ऐसा कहकर उन दोनोंको आश्वासन दिया और फिर वे इस प्रकार चिन्तन करने लगे—

कृष्ण गडबडको लिये हुये जान पढ़ता है —
कृष्ण गडबडको लिये हुये जान पढ़ता है —

"देशेन्द्र (ऋषि?) देशनामनि वेणाकतटीपुरे महामहिमा । ममुदित मुनीन् प्रति..."

इसमें 'महिमासमुदितमुनीन्' लिखा है तो आगे, लेखपत्रके ग्रंथका उल्लेख करते हुए, उसमें 'वेणाकतटसमुदितयतीन्' विशेषण दिया है, जो कि 'महिमा' और 'वेष्यातट' के वाक्योंको ठीक रूपमें न समझनेका परिणाम हो सकता है।

* 'वेष्या' नामकी एक नदी सतारा जिसे मे है (देखा 'स्वलनाम कोश')। संभवत यह उसीके तट पर बसा हुआ नगर जान पढ़ता है।

‡ इन्द्रनन्दिश्रुतावतारमें 'जयतु-श्रीदेवता' लिखा है, जो कृष्ण ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि प्रसग श्रुतदेवताका है।

† इन्द्रनन्दिश्रुतावतारमें तीन दिनके विश्रामका उल्लेख है।

“‘सेलघण-भग्नाघड-आहि-चालखि-महिसार्चि-जाहय-सुपर्हि ।’”

महिय-भस्त्रसमाण वक्ष्वाणि जो सुरं बोहा ॥१॥

घट-गारवपङ्गवद्वो विसयामिस-विस-वसेण चुम्भंतो ।

सो भट्ट्योहिलाहो भमइ चिरं भव-वसे मूढो ॥२॥

इस वचनसे स्वच्छलद्वारियोको विद्या देना समार भयका बढाने वाला है ।

ऐसा चिन्तन कर, चुभ-स्वप्नके दर्शनसे ही पुष्टमेदको जाननेवाले धरमेनाचार्वने फिर भी उनकी परीक्षा करना आगीकार किया । सुपरीक्षा ही नि सन्देह हृदय-
भ्रे मुक्ति दिलाती है * । तब धरसेनने उन्हे दो विद्याएं दी—जिनमे एक
अधिकाक्षरी, दूसरी हीनाक्षरी थी—और कहा कि इहे षष्ठोपवस्तके साथ माघन
करो । इसके बाद विद्या सिद्ध करके जब वे विद्यादेवताओंको देखने जगे तो
उन्हे मालूम हुआ कि एकका दाँत बाहरको बडा हुआ है और दूसरी कानी
(हक्काक्षिणी) है । देवताओंका ऐसा स्वभाव नहीं होता, यह विचार कर जब उन
अन्न-व्याकरणमे निपुण मुनियोने हीनाधिक आक्षरोका षष्ठण-प्रपनयन विधान
करके—कमीवेशीको दूरकरके—उन मंत्रोको फिरसे पढ़ा तो तुरन्त ही वे दोनों
विद्या दवियाँ अपने अपन स्वभाव-रूपमे स्थित होकर नज़र आन लगी ।
कादनन्तर उन मुनियोने विद्या-सिद्धिका सब हाल पूर्णदिनयके साथ भगवद्
धरसेनसे निवेदन किया । इस पर धरसेनजीने सन्तुष्ट होकर उन्हे सौम्य तिथि
और प्रशस्त नक्षत्रके दिन उस ग्रन्थका पढाना प्रारम्भ किया, जिसका नाम
'महाकम्पपयडिपाहुड' (महाकर्मप्रकृतिप्राप्तु) था । फिर क्रमसे उसकी
च्यास्था करते हुए (कुछ दिन अतीत होने पर) आषाढ़ शुक्ला एकादशीको

* इन गाथाओंका संक्षिप्त आशय यह है कि 'जो आचार्य गौरवादिक
चतुर्वर्ती हुआ मोहसे ऐसे श्रोताओंको श्रुतका व्याख्यान करता है जो धैतघन,
भग्न घट, सर्प, छलनी, महिष, मेष, जोक, शुक, मिट्टी और मणकके समान
हैं—इन जैसी प्रकृतिको लिये हुआ है—वह मूढ़ बोविलामसि भ्रष्ट होकर चिर-
काल तक ससार-वनमें परिघमण करता है ।'

* इन्द्रनन्दि-श्रुताक्षतारमे 'सुपरीक्षा हृष्ट्विर्तिकरीति, इत्यादि वाक्य के द्वारा
परीक्षाकी यही बान सूचित की है, परन्तु इससे पूर्ववर्ती चिन्तनादि-विषयक
कथन, जो इसपर 'धरसेन' से प्रारम्भ होता है, उसमे नहीं है ।

पूर्वाह्न के समय ग्रन्थ समाप्त किया गया ; जिनयपूर्वक ग्रन्थका अध्ययन समाप्त हुआ, इससे सन्तुष्ट होकर भूतोने बहापर एक मुनीकी पास-तुलसीके शब्द कहित पुष्टबलिसे महसी पूजा की । उसे देखकर घरसेन भट्टारकने उस मुनिका 'भूतबलि' नाम रखता और दूसरे मुनिका नाम 'पुष्टदल्त' रखता, जिसको पूजाके अवसर पर भूतोने उसकी अस्तव्यस्त रूपसे हित विषमदन्त पत्तिकों सम अर्थात् ठीक कर दिया था । फिर उसी नाम-करणके दिन ६ घरसेनाचार्यके उन्हे रुक्षसत (विदा) कर दिया । गुरुवत्तन अल घनीय है, ऐसा विचार कर वे वहां से चल दिये और उन्होने अकलेश्वर+ मे आकर कथाकाल व्यतीक्ष किया X ।

वर्षायोगको समाप्त करके तथा जिनपालित को देखकर पुष्टदन्ताचार्य तो बनवास देशको चले गये और भूतबलि भी द्रमिल (द्राविड) देशको प्रस्थान कर गये । इसके याद पुष्टदन्ताचार्यन जिनपालितको दीक्षा देकर, बैस सूत्रो (विशमिलि प्रकृतपणात्मकसूत्रो) की रचना कर और वे सूत्र जिनपालितको पढ़ाकर उसे भगवान् भूतबलिके पास भेजा । भगवान् भूतबलिने जिनपालितके पास उन विशतिप्ररूपणात्मक सूत्रोको देखा और साथ ही यह मालूम किया कि जिनपालित अल्पायु है । इससे उन्हे 'महाकमप्रकृतिप्राभृत' के व्युच्छेदका विचार

+ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे उक्त मुनियोका यह नामकरण घरसेनाचार्यके द्वारा न होकर भूतो द्वारा किया गया, ऐसा उल्लेख है ।

६ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे ग्रन्थसमाप्ति और नामकरणका एक ही दिन विषान करके, उससे दूसरे दिन रुक्षसत करना लिखा है ।

+ यह गुजरातके भरोच (Broach) जिलेका प्रसिद्ध नगर है ।

× इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमे ऐसा उल्लेख न करके लिखा है कि चुद घरसेनाचार्यने उन दोनो मुनियोको 'कुरीश्वर' (?) पत्तन भेज दिया था जहा वे किमें पहुँचे थे और उन्होने वहाँ आवाढ कुछण पचमीको वर्षायोग छहण किया था ।

कृष्णनन्दि श्रुतावतारमे जिनपालितको पुष्टदन्तका भानजा लिखा है और¹ दक्षिणी ओर विहार करते हुए दोनो मुनियोको करहाट पहुँचने पर उसके देखने का उल्लेख किया है ।

उत्पन्न हुआ और तब उन्होने (उक्त सूत्रोंके बाद) 'द्रव्यप्रमाणानुग्रह' नाम-के प्रकरणको आदिमें रखकर ग्रन्थकी रचना की । इस ग्रन्थका नाम ही 'षट्-स्लण्डाग्रह' है, क्योंकि इस आगम ग्रन्थमें १ जीवस्थान, २ शुलकबंध, ३ बन्ध-स्वामित्वविचय, ४ वेदना, ५ वर्णणा और ६ महाबन्ध नामके छह खण्ड अधिति विभाग हैं, जो सब महाकर्म-प्रकृतिप्राभूत-नामक मूलागमग्रन्थको सक्षित करके अथवा उसपरसे समुद्रूत करके लिखे गये हैं । और वह मूलागम द्वादशांगश्रुतके अध्यायगीय-पूर्वस्थित पचमवस्तुका चौथा प्राभूत है । इस तरह इस षट्स्लण्डाग्रहम श्रुतके मूलतत्रकार श्रीवर्घ्मान महावीर, अनुतत्रकार गौतमस्वामी और उपतत्रकार भूतबलि-पुष्पदन्तादि आचार्योंको समझना चाहिये । भूतबलि-पुष्पदन्तमें पुष्पदन्ताचार्य सिर्फ़ 'सत्प्ररूपणा' नामके प्रथम अधिकारके कर्ता हैं, जेष सम्पूर्ण ग्रन्थके रचयिता भूतबलि आचार्य हैं । ग्रन्थका इलोक-परिमाण इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके कथनानुसार ३६ हजार है, जिनमेंसे ६ हजार संख्या पाच खण्डोंकी और जेष महाबन्ध खण्डकी है, और ब्रह्महेमबन्धके श्रुत-स्कन्धानुसार ३० हजार है ।

यह तो हुई घबलाके आधारभूत षट्स्लण्डागमश्रुतके अवतारकी कथा, अब जयघबलाके आधारभूत 'कथायपाहृड' श्रुतको लीजिये, जिसे 'पेज्जदोस पाहृड' भी कहते हैं । जय घबलामें इसके अवतारकी प्रारम्भिक कथा तो प्राय वही ही है जो महावीरसे आचाराण-बारी लोहाचार्य तक ऊपर वर्णन की गई है—मुख्य भेद इतना ही है कि यहाँ पर एक-एक विषयके आचार्योंका काल भी साथमें निर्दिष्ट कर दिया गया है, जब कि 'घबला' में उसे ग्रन्थत्र 'वेदना' खण्डका निर्देश करते हुए दिया है । दूसरा भेद आचार्योंके कुछ नामोंका है । जयघबलामें गौतमस्वामीके बाद लोहाचार्यका नाम न देकर सुधर्माचार्यका नाम दिया है, जो कि बीर भगवान्के बाद होने वाले तीन केवलियोंमेंसे हिंसीय केवलीका प्रसिद्ध नाम है । इसी प्रकार जयपालकी जगह जसपाल और जसबाहूकी जगह जयबाहू नामका उल्लेख किया है । प्राचीन लिपियोंको लेखते हुए 'जस' और 'जय' के लिखनेमें बहुत ही कम अन्तर प्रतीत होता है इससे साधारण लेखकों द्वारा 'जस' का 'जय' और 'जय' का 'जस' समझ लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है । हाँ, सोहाचार्य और सुधर्माचार्यका अन्तर अवश्य ही बिन्दनीय है । जयघबलामें कही

कहीं गीतम् और जम्बूस्त्वामीके मध्य लोहाचार्यका ही नाम दिया है; जैसा कि उसके 'श्रगुभागविहृति' प्रकरणके निम्न अश्वसे प्रकट है :—

"विउलगिरिमत्थयत्थवद्धमाणदिवाचराद्वे विशिगमामिथ गोदम लो-
हर्ज-जंबुसामियादि आइरिय पर्पराए आर्गत्तुण गुणहराइरिय पाविय""
(प्राराकी प्रति पत्र ३१३)

जब घबला और जयघबला दोनों ग्रन्थोंके रचयिता वीरसेनाचार्यने एक ही व्यक्तिके लिये इन दो नामोंका स्वतन्त्रापूर्वक उल्लेख किया है, तब वे दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये; परन्तु जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका समर्थन अन्यत्रसे अथवा किसी दूसरे पुष्ट प्रमाणसे अभी तक नहीं होता —पूर्ववर्ती ग्रन्थ 'तिलोयपण्ठीती' में भी 'सुघमंस्त्वामी' नामका उल्लेख है। अस्तु; जयघबला परसे शेष कथाकी उपलब्धि निम्न प्रकार होती है :—

आचारांग-धारी लोहाचार्यका स्वर्गवास होने पर सर्व धर्मों तथा पूर्वोंका जो एकदेशश्रुत आचार्य परम्परासे चला आया था वह गुणघराचार्यको प्राप्त हुआ। गुणघराचार्य उस समय पांचवें ज्ञानप्रवाद-पूर्वस्थित दशम वस्तुके तीसरे 'कसाय-पाहुड़' नामक ग्रन्थ-महाराण्डके पारगमी थे। उन्होंने ग्रन्थ-व्युच्छेदके भयसे और प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर, सोलह हजार पद-परिमाण उस 'पेजदोसपाहुड़' ('कवायपाहुड़') का १८०* सूत्र गायाम्रोंमें उपसंहार किया—सार सींचा। साथ ही, इन गायाम्रोंके सम्बन्ध तथा कुछ वृत्ति-आदिकी सूचक ५३ विवरण-गायाएँ भी और रचीं, जिससे गायाम्रोंकी कुल संख्या २३३ हो गई। इसके बाद ये सूत्र-नायाएँ आचार्य-परम्परासे चलकर आर्यमंडु और नागहस्ती नामके आचार्योंको प्राप्त हुईं। इन दोनों आचार्योंके पाससे गुणघराचार्यकी उत्तर-

* इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें 'श्यशिकाशीत्या युक्तं शतं' पाठके द्वारा सूलसूत्र-गायाम्रोंकी संख्या १८३ सूचित की है, जो ठीक नहीं है और समझनेकी किसी गलतीपर निर्भर है। जयघबलामें १८० गायाम्रोंका सूत्र खुलासा किया गया है।

† इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें लिखा है कि 'गुणघराचार्यने इन गायाम्रोंको रचकर स्वयं ही इनकी व्याख्या नागहस्ती और आर्यमंडुको बतलाई।' इससे ऐतिहासिक कथनमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है।

आचार्योंके अर्थको भलेप्रकार उनकर यतिवृषभाचार्यने उन पर चूर्णि-सूत्रोंकी रचना की, जिनकी संख्या छह हजार इलोक-परिमाण है। इन चूर्णि-सूत्रोंको साथमें सेकर ही जयधवला-टीकाकी रचना हुई है, जिसके प्रारम्भका एक तिहाई भाग (२० हजार इलोक-परिमाण) बीरसेनाचार्यका और लेष (४० हजार इलोक-परिमाण) उनके विष्व जिनसेनाचार्यका लिखा हुआ है।

जयधवलामें चूर्णि-सूत्रों पर लिखे हुए उच्चारणाचार्यके धृति-सूत्रोंका भी कितना ही उल्लेख पाया जाता है परन्तु उन्हें टीकाका मुख्याधार नहीं बनाया गया है और न सम्पूर्ण धृति-सूत्रोंको उद्भूत ही किया जान पड़ता है, जिनकी संख्या इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें १२ हजार इलोक-परिमाण बतलाई है।

इस प्रकार संक्षेपमें यह दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा है, जिनके आधारपर फिर कितने ही ग्रंथोंकी रचना हुई है। इसमें इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार-से अनेक ग्रंथोंमें कितनी ही विशेषता और विभिन्नता पाई जाती है, जिसकी कुछ मुख्य मुख्य बातोंका दिव्यदर्शन, तुलनात्मक हृष्टिसे, इस लेखके फुटनोटोंमें कराया गया है।

यहाँ पर में इतना और बतला देना चाहता हूँ कि धवला और जयधवलामें गौतम स्वामीसे आचारांगधारी लोहाचार्य तकके श्रुतपर आचार्योंकी एकत्र गणना करके और उनकी सूक्ष्मकाल-गणना ६८३ वर्षकी देकर उसके बाद धर-सेन और गुणधर आचार्योंका नामोल्लेख किया गया है, साथमें इनकी गुणपर-भूतका कोई स्खास उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह इन दोनों आचार्योंका समय यों ही बीर-निर्वाणसे ६८३ वर्ष बादका सूचित किया है। यह सूचना ऐतिहासिक हृष्टिसे कहाँ तक ठीक है अथवा कथा कुछ आपत्तिके योग्य है इसके किनारका यहाँ अवसर नहीं है। फिर भी इतना ज़फर कह देना होगा कि मूल सूत्रबन्धोंको देखते हुए टीकाकारका यह सूचन कुछ नुटिपूर्ण अवश्य जान पड़ता है, जिसका स्पष्टीकरण फिर किसी समय किया जायगा।



इन्द्रनन्दिने तो अपने श्रुतावतारमें यह स्पष्ट लिख दिया है कि इन गुण-धर और धर्मेनाचार्यकी गुणपरम्पराका हाल हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसको बतलानेवाले शास्त्रों तथा मुनि-जनोंका इस सबव अभाव है।

६

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य और उनके ग्रन्थ

—*—*—*

प्राकृत दिगम्बर जैनवाड़मयमें सबसे अधिक ग्रन्थ (२२ या २३) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य के उपलब्ध हैं, जो ८४ पाहुड ग्रन्थोंके कर्ता प्रसिद्ध हैं और जिनके विदह-क्षेत्रमें श्रीसीमन्धर-स्वामीके समवसरणमें जाकर साक्षात् तीर्थकर-मुख तथा गगाधरदेवसे बोध प्राप्त करनेकी कथा भी सुप्रसिद्ध है^१ और जिनका समय विक्रमकी प्राय प्रथम शताब्दी माना जाता है ।

यहाँ पर मैं इन ग्रन्थकार-महोदयके सम्बन्धमें इतना और बतला देना चाहता हूँ कि इनका पहला—सम्भवतः दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दी था^२; परन्तु ये कोण्डकुन्दाचार्य अथवा कुन्दकुन्दाचार्यके नाममें ही अधिक प्रसिद्धको प्राप्त हुए हैं, जिसका कारण ‘कोण्डकुन्दपुर’ के अधिवासी होना बतलाया जाता है,

^१ देवसेनाचार्यने भी, अपने दर्शनसार (वि० स० ६६०) की निम्न गाथामें, कुन्दकुन्द (पद्मनन्द) के सीमधर-स्वामीसे दिव्यज्ञान प्राप्त करनेकी बात लिखी है,—

जह पउमण्डि-णाहो सीमधरसामि-दिव्यरणाणेण ।

ण विवोहइ तो समणा कह सुमग्नं पयाणति ॥४३॥

^२ तस्यान्वये भूविदिते बभूत य पद्मनन्दि-प्रथमाभिषान ।

श्रीकोण्डकुन्दाचिमुनीश्वरराम्यससद्यमावुद्गत-चारणार्दिः ॥

इसी नामसे इनकी वंशपरम्परा चली है अथवा 'कुन्दकुन्दान्वय' स्थापित हुआ है, जो धनेक शास्त्र-प्रशास्त्रोंमें विभक्त होकर दूर दूर तक फैला है। मकरारों का शास्त्रपत्रमें, जो शक संवत् ३८८ में उत्कीर्ण हुआ है, इसी कोण्डकुन्दान्वयकी परम्परामें होता है वह पुरानन आचार्योंका गुह-जिध्यके क्रमसे उल्लेख है ॥ ये मूलसंघके प्रधान आचार्य थे, पूतात्मा थे, सत्संयम एवं तपश्चरणके प्रभावसे इन्हें चारण-ऋषिकी प्राप्ति हुई थी और उसके बलपर ये पृथ्वीमें प्रायः चार अगुल ऊपर अन्तरिक्षमें चला करते थे। इन्होंने भरतक्षेत्रमें श्रुती—जैन आगमकी—प्रतिष्ठा की है—उसकी भान्यता एवं प्रभावको स्वयंके प्राचरणादिद्वारा (खुद आमिल बनकर) कौचा उठाया तथा सर्वत्र व्याप्त किया है अथवा यों कहिये कि आगमके अनुसार चलनेको खास महत्व दिया है, ऐसा श्रवणबेलोलके शिलालेखों आदिसे जाना जाना है ॥ ये बहुत ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित आचार्य हुए हैं। सभवतः इनकी उक्त श्रुत-प्रतिष्ठाके कारण ही शास्त्रसमाजी आदिमें जो मंगलाचरण 'मङ्गलं भगवान् वीरो' इत्यादि किया जाता है उसमें 'मङ्गलं कुन्दकुन्दायों' इस रूपसे इनके नामका खास उल्लेख है।

आपके उपलब्ध ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :—

१ प्रवचनसार, २ समर्यसार, ३ पंचास्तिकाय—ये तीनों ग्रन्थ कुन्द-
कुन्दाचार्य के ग्रन्थोंमें प्रधान स्थान रखते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अखिल

४ देखो, कुण्ड-इन्स्क्रिपशन्सका निम्न अंश :— (E. C. I.)

".....श्रीमान् कोंगणि-महाधिराज अविनीतनामवेदतत्स्य देसिगगणं
कोण्डकुन्दान्वय-गुणवन्दभटारशिष्यस्य अभ्यरण्दिभटारतस्य शिष्यस्य शीलभद्र
भटार-शिष्यस्य जनारण्दिभटार-शिष्यस्य गुणवण्दिभटार-शिष्यस्य वन्दणन्दि-
भटारमें अष्ट-अशीतिउत्तरस्य त्रयो-शतस्य सम्पत्सरस्य माघमासे....."

५ वन्दो विमुम्बुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीर्तिविभूषिताशः ।

यश्चारु-चारण-काराम्बुज-वन्धवीकश्चक्षे-मृतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

—श० शि० ५४

रजोभिरस्मृतमत्वमन्तर्बह्यैऽपि संव्यजयितुं यतीक्षः ।

रजः पर्द भूमितलं विहाय चचार मन्त्रे चतुर्तुम्लं सः ॥—श० शि० १०५

जैन समाजमें समान प्रादरकी हृषिसे देखे जाते हैं। पहलेका विषय ज्ञान, भेद और चारित्ररूप तत्त्व-त्रयके विभागसे तीन अधिकारोंमें विभक्त है, दूसरेका विषय शुद्ध आत्मतत्त्व है और तीसरेका विषय कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पुदगल, घर्म, अघर्म और आकाश नामके पाँच इव्योंका सविशेष-रूपसे वरण्णन है। प्रत्येक ग्रन्थ अपने-अपने विषयमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है। हरएक का विषेष परिचय उस—उस ग्रन्थको स्वयं देखने से ही सम्बन्ध रखता है।

इनपर अमृतचन्द्राचार्य और जयसेनाचार्यकी स्वास सस्कृत टीकाएँ हैं, तथा बालचन्द्रदेवकी कल्प टीकाएँ भी हैं, और भी दूसरी कुछ टीकाएँ प्रभाचन्द्रादिकी सस्कृत तथा हिन्दी आदिकी उपलब्ध हैं। अमृतचन्द्राचार्यकी टीकानुसार प्रवचन-सारमें २७५ समयसारमें ४१५ और पचास्तिकायमें १७३ गाथाएँ हैं, जब कि जयसेनाचार्यकी टीकाके पाठानुसार इन ग्रन्थोंमें गाथाओंकी संख्या क्रमशः ३११, ४३६ १८१ है। संखेपमें, जैनघर्मका भर्म ग्रन्थवा उनके तत्त्वज्ञानको समझाके लिये ये तीनों ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी हैं।

४. नियमसार—कृन्दकृन्दका यह ग्रन्थ भी महत्त्वपूर्ण है और अध्यात्म-विषयको लिये हुए है। इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको नियम—नियमसे किया जानेवाला कार्य—एवं मोक्षोपाय बतलाया है और मोक्षके उपायभूत सम्यग्दर्शनादिका स्वरूपकथन करते हुए उनके अनुष्ठानका तथा उनके विपरीत मिथ्यादर्शनादिके स्थागका विधान किया है और इसीको (जीवनका) सार निविष्ट किया है। इस ग्रन्थपर एकमात्र सस्कृत टीका पद्मप्रभ-मलघारिदेवकी उपलब्ध है और उसके अनुसार ग्रन्थकी गाथा-संख्या १८७ है। टीकामें मूलको द्वादश श्रुतस्कन्धरूप जो १२ अधिकारोंमें विभक्त किया है वह विभाग मूलकृत नहीं है—मूल परसे उसकी उपलब्धि नहीं होती, मूलको समझनेमें उससे कोई मदद भी नहीं मिलती और न मूलकारका वैसा कोई अभिप्राय ही जाना जाता है। उसकी सारी जिम्मेदारी टीकाकारपर है। इस टीकाने मूलको उल्टा कठिन कर दिया है। टीकामें बहुधा मूलका आश्रय छोड़-कर अपना ही राम अलापा गया है—मूलका स्पृष्टीकरण जैसा चाहिये था वैसा नहीं किया। टीकाके बहुतसे वाक्यों और पदोंका सम्बन्ध परस्परमें नहीं मिलता। टीकाकारका आश्रय अपनी गद्य-पद्यात्मक काव्यशक्तिको प्रकट करनेका

अधिक रहा है—उसके काव्योंका मूलके साथ मेल बहुत कम है। अध्यात्म-कथन होनेपर भी जगह जगहपर स्त्रीका अनावश्यक स्मरण किया गया है और अलंकाररूपमें उसके लिये उल्कांठा व्यक्त की गई है, मानो सुख स्त्रीमें ही है। इस प्रथका टीकासहित हिन्दी अनुवाद बहुचारी जीतलप्रसादजीने किया है और वह प्रकाशित भी हो चुका है।

५. वारस-अगुबेकसा (दादशानुप्रेक्षा)—इसमें १ अध्युव (अनित्य), २ अवश्यरण, ३ एकत्व, ४ अन्यत्व, ५ सासार, ६ लोक, ७ अनुचित्य, ८ आक्रम, ९ सवर, १० निर्जरा, ११ धर्म, १२ बोधिदुर्लभ नामकी बारह भावनाओंका ११ गाथाओंमें सुन्दर वर्णन है। इस प्रथकी 'सब्वे वि पोमला खलु' इत्यादि पांच गाथाएँ (न० २५ से २९) श्रीपूज्यपादाचार्य-द्वारा, जो कि विकल्पकी छठी शताब्दीके विद्वान् हैं, सर्वार्थसिद्धिके द्वितीय अध्यायान्तर्गत दशवे सूक्तकी टीकामें 'उक्तं च' रूपसे उद्घृत की गई है।

६. दंसणपाहुड—इसमें सम्पददर्शनके माहात्म्यादिका वर्णन ३६ गाथाओं-में है और उसमें यह जाना जाता है कि सम्पददर्शनको ज्ञान और चारित्रपर प्रधानता प्राप्त है। वह धर्मका मूल है और इसलिये जो सम्पददर्शनसे—जीवादि तत्त्वोंके व्याख्य अद्वानसे—भ्रष्ट है उसको सिद्धि अथवा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

७. चारित्सपाहुड—इस प्रथकी गायासस्या ४४ और उसका विषय सम्यक् चारित्र है। सम्यक्-चारित्रको सम्यक्त्वचरण और संयमचरण ऐसे दो भेदोंमें विभक्त करके उनका अलग अलग स्वरूप दिया है और संयमचरणके सामार अनगार ऐसे दो भेद करके उनके द्वारा क्रमशः श्रावकधर्मं तथा यतिष्ठर्मका अतिसंक्षेपमें प्रायः सूचनात्मक निर्देश किया है।

८. सुन्तपाहुड—यह प्रथ २७ गाथात्मक है। इसमें सूक्तार्थकी मार्यणाका उपदेश है—आगमका महत्व स्थापित करते हुए उसके अनुसार चलनेकी शिक्षा भी गई है। और साथ ही सूक्त (आगम) को कुछ बातोंका स्पष्टताके साथ निर्देश किया गया है, जिनके संबंधमें उस समय कुछ विप्रतिपत्ति या ग्रन्तफहमी फैली हुई थी अथवा प्रचारमें आरही थी।

९. वौघपाहुड—इस पाहुड का करीत ६२ गाथाओंसे निर्मित है। इसमें

१. आयतन, २ चैत्यगृह, ३ विनप्रतिमा, ४ दर्शन ५ जिनविम्ब, ६ जिनमुद्दा, ७ आत्मज्ञान, ८ देव, ९ तीर्थ, १० अर्हन्त, ११ प्रवृत्त्या इन ग्यारह बातोंका क्रमशः आगमानुसार बोष दिया गया है। इस ग्रन्थकी ६१ वीं गाथामें कुन्दकुन्दनने, अपनेको भद्रबाहुका शिष्य प्रकट किया है जो संभवतः भद्रबाहु द्वितीय जान पड़ते हैं; क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें जिनकथित श्रुतमें ऐसा विकार उपस्थित नहीं हुआ था जिसे उक्त गाथामें 'सदविवारों हूँओ भासासुत्तेसु जं जिखे कहियं' इन शब्दोंमें डारा सूचित किया गया है—वह अविच्छिन्न चला आशा था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी—कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था। इससे ६१ वीं गाथाके भृङ्गबाहु भद्रबाहु द्वितीय ही जान पड़ते हैं। ६२ वीं गाथामें उसी नामसे प्रसिद्ध होने वाले प्रथम भद्रबाहुका जो कि बारह अंग और चौदहपूर्वके जाता श्रुतकेवली थे, अन्त्य मंगलके रूपमें जयघोष किया गया था और उन्हे साफ तौर पर 'गमकमुर' लिखा है। इस तरह अन्तकी दोनों गाथाओंमें दो अलग अलग भद्रबाहुओंका उल्लेख होना अधिक युक्तियुक्त और बुद्धिगम्य जान पड़ता है।

१०. भावपाहुड—१६३ गाथाओंका यह ग्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें भावकी—चित्तशुद्धिकी—महत्ताको अनेक प्रकारसे सर्वोपरि रूपापित किया गया है। बिना भावके बाह्यपरिप्रहका त्याग करके नम दिगम्बर साधु तक होने और बनमें जो बैठनेको भी व्यर्थ ठहराया है। परिणामशुद्धिके बिना संसार-परिभ्रमण नहीं रुकता और न बिना भावके कोई पुरुषार्थ ही सघता है, भावके बिना सब कुछ निःसार है इत्यादि अनेक बहुमूल्य शिक्षाओं एवं मर्मकी बातोंसे यह ग्रन्थ परिपूर्ण है। इसकी कितनी ही गाथाओंका अनुसरण गुण-भद्राचार्यने अपने आत्मानुशासन ग्रन्थमें किया है।

११. मोक्षपाहुड—यह मोक्ष-प्राप्ति भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है और इसकी गाथा-संख्या १०६ है। इसमें आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनके स्वरूपको समझाया है और मुक्ति अवश्य

॥ सदविवारों हूँओ भासा-सुत्तेसु जं जिखे कहियं ॥

सो तह कहियं शायं सीखेण्य भद्रबाहुस् ॥ ६१ ॥

परमात्मपद कैसे प्राप्त हो सकता है इसका अनेक प्रकारसे निदश किया है। इस प्रन्थके कितने ही वाक्योंका अनुसरण पूज्यपाद आचार्यने अपने 'समाधितंत्र' प्रन्थ में किया है।

इन दंसणापाहुडसे मोक्षपाहुड तके छह प्रामृत प्रन्थोंपर श्रुतसागरसूरिकी टीका भी उपलब्ध है, जो कि माणिकचन्द्र-प्रथमालाके षट्प्राभूतादिसंग्रहमें मूल-प्रन्थोंके साथ प्रकाशित हो चुकी है।

१२. लिंगपाहुड—यह द्वाविशति (२२) गाथात्मक ग्रंथ है। इसमें अमण्डिङ्गको लक्ष्यमें लेकर उन आचरणोंका उल्लेख किया गया है जो इस लिङ्गधारी जैनसाधुके लिये निषिद्ध हैं और साथ ही उन निषिद्ध आचरणोंका फल भी नरकवासादि बतलाया गया है तथा उन निषिद्धाचारमें प्रवृत्ति करनेवाले लिङ्गभावसे शून्य साधुओंको अमण्ड नहीं माना है—तिर्यञ्चयोनि बतलाया है।

१३. शीलपाहुड—यह ४० गाथाओंका ग्रन्थ है। इसमें शीलका—विषयोंसे विरागका—महत्व स्थापित किया है और उसे मोक्ष-सोपान बतलाया है। साथ ही जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, प्रचौर्य, बहुचर्य, सतोष, सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और तपको शीलका परिवार घोषित किया है।

१४. रथणसार—इस ग्रंथका विषय गृहस्थों तथा मुनियोंके रत्नप्रय-षम्भ-सम्बन्धी कुछ विशेष कर्तव्योंका उपदेश अथवा उनकी उचित-अनुचित प्रवृत्तियोंका कुछ निर्देश है। परन्तु यह ग्रंथ अभी बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें स्थित है—जिस रूपमें अपनेको प्राप्त हुआ है उसपरसे न तो इसकी ठीक पद्ध-संस्था ही निर्धारित की जा सकती है और न इसके पूर्णतः मूलरूपका ही कोई पता चलता है। माणिकचन्द्र-प्रथमालाके षट्प्राभूतादि-संग्रहमें इस ग्रंथकी पद्ध-संस्था १६७ दी है। साथ ही फुटनोट्समें सम्पादकने जिन दो प्रतियों (क-ब) का तुलनात्मक उल्लेख किया है उसपरसे दोनों प्रतियोंमें पद्धोंकी संस्था बहुत कुछ विभिन्न (हीनाधिक) पाई जाती है और उनका कितना ही क्रममेद भी उपलब्ध है—सम्पादनमें जो पद्ध जिस प्रतियोंमें पाये गये उन सबको ही बिना जांचके यथेच्छ क्रमके साथ ले लिया गया है। देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति-परसे जब भैने इस मा० ग्र० संस्करणकी तुलना की तो मालूम हुआ कि उसमें इस ग्रंथकी १२ गाथाएँ नं० ८, ३४, ३७, ४६, ५५, ५६, ६३, ६६, ६७,

११३, १२५, १२६ नहीं हैं और इसलिये उसमें ग्रंथकी पद्धति-संख्या १५५ है। साथ ही उसमें इस ग्रंथकी गाथा नं० १७, १८ को आगे-पीछे; ५२ व ५३, ६१ व ६६ को क्रमशः १६३ के बाद, ५४ को १६४ के बाद, ६० को १६५ के पश्चात् १०१ व १०२ को आगे पीछे; ११० व १११को १६२ के अनन्तर, १२१ को १६६ के पूर्व और १२२ को १५४ के बाद दिया है। १०० कलापा भरमापा निट्टवेने इस प्रबन्धको सन् १६०७ में मराठी अनुवादके साथ मुद्रित कराया था उसमें भी यद्यपि पद्धति-संख्या १५५ है, और क्रमभेद भी देहली-प्रति-जैसा है, परन्तु उक्त १२ गाथाओंमें से ६३ वीं गाथाका अभाव नहीं है—वह मौजूद है; किन्तु मा० ग्र० १० संस्करणकी ३५ वीं गाथा नहीं है, जो कि देहली की उक्त प्रतियोंमें उपलब्ध है। इस तरह ग्रंथप्रतियोंमें पद्धति-संख्या और उनके क्रमका बहुत बड़ा भेद पाया जाता है।

इसके सिवाय, कुछ अपभ्रंश भाषाके पद्ध भी इन प्रतियोंमें उपलब्ध होते हैं, एक दोहा भी गाथाओंके मध्यमें आ चुसा है, विचारोंकी पुनरावृत्तिके साथ कुछ वेतरतीवी भी देखी जाती है, गण-गच्छादिके उल्लेख भी मिलते हैं और ये सब बातें कुन्दकुन्दके ग्रंथोंकी प्रकृतिके साथ संगत मालूम नहीं होतीं—मेल नहीं नहीं खातीं। और इसलिये विद्वार प्रोफेसर ए० एन० उपाध्येने (प्रवचनसारकी अंग्रेजी प्रस्तावनामें) इस ग्रंथपर अपना जी यह विचार व्यक्त किया है वह ठीक ही है कि—‘रयणसार ग्रंथ गाथाविभेद, विचारपुनावृत्ति, अपभ्रंश पद्धोंकी उपलब्धि, गण-गच्छादि उल्लेख और वेतरतीवी आदिको लिये हुए जिस स्थितिमें उपलब्ध है उसपरसे वह पूरा ग्रन्थ कुन्दकुन्दका नहीं कहा जा सकता—कुछ अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावटने उसके मूलमें गड़बड़ उपस्थित कर दी है। और इसलिये जब तक कुछ दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ तब तक यह बात विचाराधीन ही रहेगी कि कुन्दकुन्द इस समग्र रयणसार ग्रंथके कर्ता हैं।’ इस ग्रंथपर संस्कृतकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

१५. सिद्धभक्ति—यह १२ गाथाओंका एक स्तुतिपरक ग्रंथ है, जिसमें सिद्धों की, उनके गुणों, भेदों, सुल, स्थान, आकृति और सिद्धिके मार्ग तथा क्रमका उल्लेख करते हुए, शति-भक्तिभावके साथ वन्दना की गई है। इसपर प्रभाचन्द्राचार्यकी एक संस्कृत टीका है, जिसके अन्तमें लिखा है कि—‘संस्कृताः

सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्त्रविमिहुताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यहुताः” अर्थात् संस्कृतकी सब भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकी बनाई हुई हैं और प्राकृतकी सब भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्यहुत हैं। दोनों प्रकारकी भक्तियोंपर प्रभावन्द्रव्यार्थकी टीकाएँ हैं। इस भक्तिपाठके साथमें कहीं कहीं कुछ दूसरी पर उसी विषयकी गाथाएँ भी मिलती हैं, जिनपर प्रभावन्द्रकी टीका नहीं है और जो प्रायः प्रक्षिप्त आन पड़ती है; क्योंकि उनमेंसे कितनी ही दूसरे ग्रंथोंकी अंगभूत हैं। शोलापुरसे ‘दशभक्ति’ नामका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसमें ऐसी ८ गाथाओंका शुरूमें एक संस्कृतपद्म-सहित अलग क्रम दिया है। इस क्रमकी ‘गमणागमणविमुक्ते’ और ‘तवसिद्धे णयसिद्धे’ नामकी गाथाएँ ऐसी हैं जो दूसरे ग्रंथोंमें नहीं पाई गई हैं।

१६. श्रुतभक्ति—यह भक्तिपाठ एकादश-गायात्रमक है। इसमें जैनश्रुतके आचाराङ्गादि द्वादश अंगोंका भेद-प्रभेद-सहित उल्लेख करके उन्हें नमस्कार किया गया गया है। साथ ही, १४ पूर्वोमेसे प्रत्येकका वस्तुसंख्या और प्रत्येक वस्तुके प्राभृतों (पाहुडों) की संख्या भी दी है।

१७. चारित्रभक्ति—इस भक्तिपाठकी पद्मसंख्या १० है और वे अनुष्टुप् झट्टमें हैं। इसमें श्रीबृह्मान-प्रणीत सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंयम (सूक्ष्मसाम्प्रराय) और यथारूपात् नामके पांच चारित्रों, अहिंसाद्वि २८ मूलगुणों तथा दशषमों, त्रिगुणियों, सकलशीलों, परीषहोंकि जय और उत्तरणुणोंका उल्लेख करके उनकी सिद्धि और सिद्धि-कल मुक्तिसुखकी भावना की है।

१८. योगि (अनगार) भक्ति—यह भक्तिपाठ २३ गाथाओंको अङ्गरूप में लिये हुए है। इसमें उत्तम अनगारों-योगियोंकी अनेक अवस्थाओं, ऋद्धियों, सिद्धियों तथा गुणोंके उल्लेखपूर्वक उन्हें बड़ी भक्तिभावके साथ नमस्कार कियां हैं, योगियोंके विशेषणरूप गुणोंके कुछ समूह परिसंख्यानात्मक पारिभाषिक शब्दों में दो की संख्यासे लेकर चौदह तक दिये हैं; जैसे ‘दोदोसविष्पमुक्तकं’ तिदंडविरदं, तिसल्लपरिसुदं, तिष्णयगारवरहिअं, तियरणमुद, चउदसर्गथपरिसुद, चउद-संपुर्वपगङ्गम और चउदसमलविजिज्द’ इस भक्तिपाठके द्वारा जैनसाधुओंके आदर्श-जीवन एवं चर्याका अच्छा स्वृहणीय सुन्दर स्वरूप सामने आजाता है।

बुद्ध ऐतिहासिक बातोंका भी पता चलता है, और इससे यह भक्तिप्राठ बड़ा ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है।

१६. अवार्यभक्ति—इसमें १० गाथाएँ हैं और उनमें उत्तम-आचार्योंके गुणोंका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। प्राचार्य परमेश्वरी किन किन सास गुणोंसे विशिष्ट होने चाहिये, यह इस भक्तिप्राठपरसे भले प्रकार आना जाता है।

२०. निर्वाणभक्ति—इसकी गाथासंख्या २७ है। इसमें प्रधानतया निवाणिको प्राप्त हुए तीर्थंकरों तथा दूसरे पूतात्म-पुरुषोंके नामोंका, उन स्थानोंके नाम-सहित स्मरण तथा वन्दन किया गया है जहाँसे उन्होंने निवाण-पदकी प्राप्ति की है। साथ ही, जिन स्थानोंके साथ ऐसे व्यक्ति-विशेषोंकी कोई दूसरी स्मृति लास तौरपर तुड़ी हुई है ऐसे अतिशय क्षेत्रोंका भी उल्लेख किया गया है और उनकी तथा निवाणभूमियोंकी भी वन्दना की गई है। इस भक्तिप्राठपर से कितनी ही ऐतिहासिक तथा पीराशिक बातों पर अनुश्रुतियोंकी जानकारी होती है और इस विष्टिसे यह पाठ अपना सास महत्व रखता है।

२१. पचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति—इसकी पद्धतिरूपा ७ (६) है। इसके प्रारम्भिक पाच पद्धोंमें क्रमशः अहंत, मिढ़, प्राचार्य, उपाध्याय और साषु ऐसे पाँच गुरुओं—परमेष्ठियोंका स्नोत्र है, छठे पद्धमें स्नोत्रका फल दिया है और ये छहों पद्ध सूविरणी ढदमे हैं। अन्तका ७ वाँ पद्ध गाथा है, जिसमें अहंदादि पच परमेष्ठियोंके नाम देकर और उन्हें पचनपस्कार (सामोकारमन्त्र) के ग्रागभूत बतलाकर उनसे भवभवमें सुखकी प्रार्थना की गई है। यह गाथा प्रक्रिया जान पड़ती है। इस भक्तिपर प्रभाचन्द्रकी भूम्खन टीका नहीं है।

२२. थोस्सामि शुदि—(तीर्थंकरभक्ति)—यह 'थोस्सामि' पद्धसे प्रारंभ होनेवाली अष्टगाथात्मक स्तुति है जिसे 'नित्यपरमभक्ति (तीर्थंकरभक्ति) भी कहते हैं। इसमें वृथमादि वद्धमान-पर्वन्त वस्तुविशेषति तीर्थंकरोंकी उनके नामोंस्त्रेष्व-पूर्वंक, वन्दना की गई है और तीर्थंकरोंके लिये जिन, जिनवर, जिनवरेन्द्र, नरप्रवर, केवली अनन्तजिन, लोकमहित, धर्मतीर्थंकर, विष्वत्-रज-मत, लोकोद्दोत्तक्षर, अहंत, प्रहीन-जर-मरण, लोकोत्तम, तिढ़, चन्द्र-निर्मलतर, आदित्याधिकप्रभ और सागरमिव गम्भीर जैसे विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। और अन्तमें

उनसे आरोग्यज्ञान-लाभ (निरावरण अथवा मोहनिहीन ज्ञानप्राप्ति), समाधि (ब्रह्म-शुक्लध्यानरूप चारित्र), बोधि (सम्पदवान) और सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) की प्राप्ति की गई है। यह भक्तिपाठ प्रथम पद्मको छोड़ कर शेष सात पद्मोंके रूपमें थोड़ेसे परिवर्तनों अथवा पाठ-भेदोंके साथ श्वेताम्बर समाजमें भी प्रचलित है और इसे 'लोगस्स सूत्र कहते हैं। इस सूत्रमें लोगस्स नामके प्रथम पद्मका छादसिक रूप शेष पद्मोंसे भिन्न है—शेष छाहो पद्म जब गाथारूपमें पाये जाते हैं तब यह अनुष्टुभु जैसे छढ़म उपलब्ध होता है, और यह भेद ऐसे छोटे प्रथमें बहुत ही खटकता है—खासकर उस हालतमें जबकि दिगम्बर सम्प्रदायमें यह अपने गाथारूपमें ही पाया जाता है। यहाँ पाठभेदोंकी दृष्टिसे दोनों सम्प्रदायों के दो पद्मोंको तुलनाके रूपमें रखका जाता है—

लोगस्सुञ्जोययरे धम्म-तिथकरे जिणे वदे ।

अरहते कित्तिस्से चउवीस चेव केवलिणे ॥ २ ॥ —दिगम्बरपाठ
लोगस्स उञ्जोअगरे धम्मतिथयरे जिणे ।

अरहते कित्तिस्स चउवीस पि केवली ॥ १ ॥ —श्वेताम्बरपाठ
कित्तिय वदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।

आरोग्य-णाण लाह दिनु समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥ —दिगम्बरपाठ
कित्तिय वदिय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुग्य-बोहिलाह समाहिवरमुत्तम दिनु ॥ ६ ॥ —श्वेताम्बरपाठ*

इन दोनों नमूनोपरसे पाठक इस स्तुतिकी साम्प्रदायिक स्थिति और मूलमें एकताका अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कि यह स्तुतिपाठ और भी अधिक प्राचीन—सम्प्रदाय-भेदसे भी बहुत पहलेका हो और दोनों सम्प्रदायोंन इसे थोड़े थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपनाया हो। अस्तु ।

कुन्दकुन्दके ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं ।

२३. मूलाचार और वहके—‘मूलाचार जैन साधुओंके आचार-विषयका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। बतंभानमें दिगम्बर-सम्प्रदायका

* दोनों पद्मोंका श्वेताम्बरपाठ ५० सुललालजी-द्वारा सम्पादित ‘पचप्रति-
लिप्तरु’ ग्रन्थसे लिया गया है ।

‘आचाराङ्ग’ सूत्र समझा जाता है। घबला टीकामें आचाराङ्गके नामसे उसका नमूना प्रस्तुत करते हुए कुछ गाथाएँ उद्धृत हैं, वे भी इस ग्रन्थमें पाई जाती हैं, जब कि इवेताम्बरोके आचाराङ्गमें वे उपलब्ध नहीं हैं। इससे भी इस प्रथको आचाराङ्गकी स्पाति प्राप्त है। इसपर ‘आचाराखुति’ नामकी एक टीका आचार्य वसुनन्दीकी उपलब्ध है, जिसमें इस ग्रन्थको आचाराङ्गका उन्हीं पूर्वनिबद्ध द्वादश अधिकारोमें उपसहार (सारोदार) बतलाया, और उसके तथा भाषाटीकाके अनुसार इस प्रथकी पद्धतस्था १२४३ है। वसुनन्दी आचार्यने अपनी टीकामें इस ग्रन्थके कर्ताको बटुकेराचार्य, बटुकेर्याचार्य तथा बटुरकाचार्यके रूपमें उल्लेखित किया है। पहलारूपटीकाके प्रार्थनिक प्रस्तावना वाक्यमें, दूसरा ६वे १०वे, ११वे अधिकारों के सन्दिवाक्योमें और तीसरा ७ वे अधिकारके सन्दिवाक्यमें पाया जाता है। परन्तु इस नामके किसी भी आचार्यका उल्लेख ग्रन्थत्रय गुवालियों पट्टालियों, शिलालेखों तथा ग्रथप्रशस्तियों आदिमें कहीं भी देखनेमें नहीं आता, और इसलिये ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिसर्चस्कालरोंके सामने यह प्रश्न बराबर अद्दा हुआ है कि ये बटुकेरादि नामके कौनसे आचार्य हैं और कब हुए हैं ?

मूलाचारकी कितनी ही ऐसी पुरानी हस्तलिखित प्रतिया पाई जाती हैं जिनमें ग्रथकर्ताका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया हुआ है। डाक्टर ए० एन० उपाध्येको दक्षिणाभारतकी ऐसी कुछ प्रतियोंको स्वयं देखनेका अवसर मिला है और जिन्हे, प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें, उन्होंने quite genuine in their appearance—‘अपने रूपमें बिना किसी मिलावटके बिल्कुल प्रसली प्रतीत होनेवाली’ लिखा है। इसके सिवाय, मार्णिकचन्द दि० जैन ग्रन्थशालामें मूलाचारकी जो सटीक प्रति प्रकाशित हुई है उसकी अन्तिम पुण्यिकामें भी मूलाचारको ‘कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत’ लिखा है। वह पुण्यिका इस प्रकार है —

“इति मूलाचार-विवृत्तौ द्वादशोऽध्याय । कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत-
मूलाचाराखयविवृतिः । कृतिरियं वसुनन्दिनः श्रीश्रमणस्य ।”

यह मब देखकर मेरे हृदयमें ल्याल उत्पन्न हुआ कि कुन्दकुन्द एक बहुत

* देखो, मार्णिकचन्दशभास्मामामें प्रकाशित ग्रंथके दोनों भाग न० १६, २३ ।

बड़े प्रवर्तक भाषार्थ हुए हैं—भाषार्थ भक्तिमें उन्होंने सब भाषार्थके लिये 'प्रवर्तक' होना बहुत बड़ी विशेषता कहलाया है ॥ और 'प्रवर्तक' विशेषता भूमिको की एक उपाधि है, जो द्वेताम्बर जैन समाजमें भाषा भी व्यवहृत है । हो सकता है कि कुन्दकुन्दके इस प्रवर्तकत्व-गुणको लेकर ही उनके लिये यह 'बट्टकेर' जैसे पदका प्रयोग किया गया हो । और इसलिये ऐसे बट्टकेर, बट्टकेर और बट्टेरक इन तीनों शब्दोंके अर्थपर गम्भीरताके साथ विचार करना उचित समझा । तदनुसार मुझे यह मालूम हुआ कि 'बट्टक' का अर्थ बत्तक-प्रवर्तक है, 'इरा' गिरा-वाणी-सरस्वतीको कहते हैं, जिसकी वाणी-प्रवर्तिका हो—जनताको सदाचार एवं सन्मार्गमें लगाने वाली हो—उसे 'बट्टकेर' समझना चाहिये । दूसरे, बट्टको—प्रवर्तकोमें जो इरा=गिर प्रधान-प्रतिष्ठित हो अथवा ईरा=समर्थ शक्तिशाली हो उसे 'बट्टकेर जानना चाहिये । तीसरे, 'बट्ट' नाम बर्तन-आवश्यकाका है और 'ईरक' प्रेरक तथा प्रवर्तकको कहते हैं, मूलाचारमें जो प्रवृत्ति करनेवाला हो उसका नाम 'बट्टेरक' है, अथवा 'बट्ट' नाम मार्गका है, सन्मार्गका जो प्रवर्तक, उपदेशक एवं नेता हो उसे भी 'बट्टेरक' कहते हैं । और इसलिये अर्थकी हृषि से ये बट्टकेरादि पद कुन्दकुन्दके लिये बहुत ही उपयुक्त तथा सगत मालूम होते हैं । भाष्यर्थ नहीं जो प्रवर्तकत्व-गुणकी विधिष्ठिताके कारण ही कुन्दकुन्दके लिये बट्टेरकाचार्य (प्रवर्तकाचार्य) जैसे पदका प्रयोग किया गया हो । मूलाचारकी कुछ प्राचीन प्रतियोगी ग्रन्थकानुसूतमें सुन्दरका स्पष्ट नामोलेख उसे और भी अधिक पुष्ट करता है । एसी वस्तु-स्थितिमें सुहृद्दर प० नाथूरामजी प्रेमीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग १२ किरण १) में प्रकाशित 'मूलाचारके कर्ता बट्टकेर शीर्षक अपने हालके लेखमें, जो यह कल्पना की है कि, बेट्टगेरि या बेट्टकेरी नामके कुछ भाषा तथा स्थान पाये जाते हैं, मूलाचारके कर्ता उन्हीमेंसे किसी बेट्टगेरि या बेट्टकेरी भाषके ही रहनेवाले होंगे और उसपरमें कोण्डकुन्दादिकी तरह 'बेट्टकेरि कहलाने लगे होंगे, वह कुछ सगत मालूम नहीं होती—बट्ट और बट्ट शब्दोंके रूपमें ही नहीं किन्तु भाषा तथा अर्थमें भी बहुत अन्तर है । 'बट्ट' शब्द, प्रेमीजीके लेखानुसार, छोटी पहाड़ी का वाचक कलड़ी भाषाका शब्द है और 'गोरि' उस भाषामें गली—मोहल्लेको

● बाल-मुह-मुह-से हे गिलाण-ये रे य लमण-सञ्चुत्ता ।

कहते हैं, जब कि 'वट्ट' और 'वट्टक' जैसे शब्द प्राकृत भाषाके उपर्युक्त ग्रन्थके वाचक शब्द हैं और ग्रन्थकी भाषाके अनुकूल पड़ते हैं। ग्रन्थमें तथा उसकी टीकामें वेट्टोरि या वेट्टोकेरि रूपका एक जगह भी प्रयोग नहीं। पाया जाता और न इस ग्रन्थके कर्तृत्वरूपमें अन्यत्र ही उसका प्रयोग देखनेमें आता है, जिससे उक्त कल्पनाको कुछ अवसर मिलता। प्रत्युत इसके, ग्रन्थदानकी जो प्रशस्ति मुद्रित प्रतिमें अकित है उसमें 'श्रीमद्वट्टेरकाचायकृतसूत्रस्य सद्विधे' इस वाक्यके द्वारा 'वट्टेरक' नामका उल्लेख है, जोकि ग्रन्थकार—नामके उक्त तीनों रूपोंमें से एक रूप है और मार्यांक है। इसके मिवाय, भाषा-माहित्य और रचनाशीली की हण्डिसे भी यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके साथ मेल खाड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि कुन्दकुन्दके अनेक ग्रन्थोंके वाक्य (गाथा तथा गाथाश) इस ग्रन्थमें उसी तरहसे सप्रयुक्त पाये जाते हैं जैसे तरह कि कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंमें परस्पर एक-दूसरे ग्रन्थके वाक्योंका स्वतन्त्र प्रयोग देखनेमें आता है। अतः जब तक किसी स्पष्ट प्रमाणा-द्वारा इस ग्रन्थके कर्तृत्वरूपमें वट्टकेराचार्यका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थवा पृथक् व्यक्तित्व सिद्ध न हो जाए तब तक इस ग्रन्थको कुन्दकुन्दकृत मानने और वट्टकेराचार्यको कुन्दकुन्दके लिये प्रयुक्त हुआ प्रबत्तंकाचायका पद स्वीकार करनेमें कोई सास बाधा मालूम नहीं होती। यह ग्रन्थ अति प्राचीन है इमाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य यतिवृषभने, अपनी तिलोंपर्णात्मीमें, 'मूलाचारे इरिया एव निडणं गिरुवेंति' इस वाक्यके साथ प्रस्तुत ग्रन्थके कथनका स्पष्ट उल्लेख किया है। ग्रन्थकी यह प्राचीनता भी उसके कुन्दकुन्दकृत होने में एक सहायक है—बाधक नहीं है।

तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता कुन्दकुन्द !

सब लोग यह जानते हैं कि प्रचलित 'तत्त्वार्थसूत्र' नामक मोक्षशास्त्रके कर्ता 'उमास्वाति' आचार्य है, जिन्हे कुछ समयसे दिग्म्बरपरम्परामें 'उमास्वामी' नाम भी दिया जाना है और जिनका दूसरा नाम 'बृधपिच्छाचार्य' है। इस भावका पोषक एक श्लोक भी जैनसमाजमें सर्वत्र प्रचलित है और वह इस प्रकार है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृधपिच्छोपलक्षितं ।
वन्दे गणीन्द्रसजातमुमास्वातिमुनीश्वरं ॥

परतु पाठकोको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जैनसमाज में ऐसे भी कुछ विद्वान हो गये हैं जो इस तत्त्वार्थसूत्रको कुन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ मानते थे। कुछ वर्ष हुए, तत्त्वार्थसूत्रकी एक इवेताम्बरीय-टिप्पणी को देखते हुए, सबसे पहले मुझे इसका आभास मिला था और तब टिप्पणीकारके उस लिखने पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। टिप्पणीके प्रन्तमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्त्वविषयमें 'दुर्वादापहार' नामसे कुछ पद देते हुए लिखा है—

“ परमेतावश्चतुरैः कर्त्तव्यं शृणुत वच्चिम सविवेकः ।
शुद्धो योऽस्य विधाता सदूषणीयो न केनापि ॥ ४
यः कुंदकुन्दनामा नामांतरितो निरुच्यते कैश्चित् ।
हेयोऽन्यएव सोऽस्मात्स्पष्टमुमास्वातिरितिविदितात् ॥

टिप्पणी—“एवं चाकर्य वाचको ए मास्वातिर्दिग्बरो निन्द्व इति, केचिन्मावदन्नदः शिल्वार्थं परमेतावश्चतुरैरितिपदः ब्रूमहे शुद्धः सत्यः प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य प्रन्थस्य विर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निदनीय एतावश्चतुरैरितियमिति । तर्हि कुंदकुंद एवैतत्यथम कर्त्तेणि संशयापाहाय स्पष्ट छाप्यामः यः कुंदकुंदनामेत्यादि अर्थं च परतीर्थिकैः कुंदकुंद इडाचार्यः पद्मनंदी उमास्वातिरित्यादिनामांतराणि कल्पयित्वा पठ्यते सोऽस्मात्प्रकरणकर्तुरुमास्वातिरित्येव प्रसिद्धनाम्नः सकाशादन्य एव ज्ञेय किं पुनः पुनर्वेदयामः ।”

इसमें अपने सम्प्रदाय-बालोंको दो बातोंकी शिक्षा की गई है—एक तो यह कि इस तत्त्वार्थसूत्रके विषयाता वाचक उमास्वातिको कोई दिग्म्बर अथवा निन्द्व न कहने पाए, ऐसा चतुर पुरुषोंको यत्न करना चाहिये । दूसरे यह कि कुन्दकुन्द, इडाचार्य, पद्मनंदी, और उमास्वाति ये एक ही व्यक्तिके नाम कल्पित करके जो लोग इस प्रन्थका असली अथवा आद्यकर्ता कुन्दकुन्दको बतलाते हैं वह ठीक नहीं, वह कुन्दकुन्द हमारे इस तत्त्वार्थसूत्रकर्ता प्रसिद्ध उमास्वातिमें भिन्न ही-व्यक्ति है ।

इस परसे मुझे यह ख्याल हुआ था कि शायद पट्टावलि-वर्णित कुन्दकुन्दके नामोंको लेकर किसी दन्तकथाके आधार पर ही यह कल्पना की गई है । और इस लिये मैं उसी बक्से हम विषयकी खोजमें था कि दिग्म्बर-नाहित्यमें किसी जगह पर कुन्दकुन्दाचार्यको इस तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता लिखा है या नहीं । खोज करने पर बम्बईके ऐलक-प्रानालालसरस्वतीभवनसे ‘अर्हत्सूत्रवृत्ति’ नामका एक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ, जो कि तत्त्वार्थसूत्रकी टीका है—सिद्धान्त सूत्रवृत्ति भी जिसका नाम है—और जिसे ‘राजेन्द्रमैलि नामके भट्टारकने रचा है । इसमें तत्त्वार्थसूत्रको स्पष्टतया कुन्दकुन्दाचार्यकी कृति लिखा है, जैसा कि इसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“अथ अर्हत्सूत्रवृत्तिमारमे । तत्रादौ मंगलाचानि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रध्यते । तदस्माकं विज्ञानाताय अस्मदाचार्यो भगवान् कुन्द-कुन्दमुनिः स्वेष्टदेवतागणेऽत्कर्षकीर्तनपूर्वक तत्त्वरूपवस्तुनिर्देशात्मकं च रिष्णाचारविशिष्टे षुषीववादं सिद्धान्तीकृत्य तद्युग्मोप-

लोकिषफलोपयोग्यवन्दनानुकूलत्वापारंगार्भमंगलमाचरति—

मोक्षमार्गस्य नेतौर्मे भेत्तारं कर्मभूशृतां ।

ज्ञातारं विश्वतस्त्वनां वंदे तद्दगुणलब्धये ॥

एवदगुणोपलक्षितं समवसूताद्वापुष्टिशंतं भगवत्महर्दाख्यं केवलिनं
तद्दगुणानां नेतृत्व-भेतृत्व-ज्ञातृत्वादीनां सम्यगुपलब्धये वंदे न तोऽस्मि ॥
सूत्र ॥ “सम्यग्वर्दीर्घानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥” अत्र बहुवचनत्वात्स-
मुदायार्थात्कर्त्त्वेन त्रयाणां समुदायो मोक्षमार्गः ॥”

X X X X

“इति तत्त्वार्थोधिगमे मोक्षशास्त्रे सिद्धान्तसूत्रवृत्तौ दशमोऽध्ययाय ॥१०॥

“मूलसंघवलात्कारगणे गच्छे गिरां शुभे ॥

राजेद्रमौलि-भट्टर्कः सागत्य पट्टराडिमां ।

व्यरचीनकुंदकुंदार्थकृतसूत्रार्थदीपिकाम् ॥”

वहाँ तक मैंने जैनसाहित्यका अन्वेषण किया है और तत्त्वार्थसूत्रकी बहुतसी
टीकाओंको देखा है, यह पहला ही ग्रन्थ है जिसमें तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता ‘उमास्वाति’
का शुद्धपिच्छावार्यको न लिख कर ‘कुन्दकुन्द’ मुनिको लिखा है। यह प्रथम कव
वता अथवा राजेद्रमौलिका आस्तित्व समय क्या है, इसका भभी तक कुछ ठीक पता
कही चल सका—इतना तो स्पष्ट है कि आप मूलसंघ सरस्वतीगच्छके भट्टारक-
तथा सागत्यपट्टके आधीश्वर थे। हा, उक्त श्वेताम्बर टिप्पणिकार रत्नसिंहके
समयकल चिचार करते हुए, राजेद्रमौलिभ०क समय समवत् १४वीं शताब्दी श्रा
त्त्वसे कुछ पहले-मीठे जान पड़ता है। माझम नहीं भट्टारकजीने^१किस आधीर
वर इस तत्त्वार्थसूत्र को कुन्दकुन्दावार्यकी कृति बतलाया है। उपलब्ध प्राचीन
साहित्य परसे तो इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता। हो सकता है कि पट्टावली
(शुब्दविलि)-वलित कुन्दकुन्दके नामों^२ मृदु विच्छका नाम देख कर और यह
नीचूब करके कि उमास्वातिका दूसरा नाम ‘शुद्धपिच्छावार्य’ है, आपने कुन्दकुन्द

* ततीमवत्पंचसुनामधामा श्रौपयनदी मुनिचक्षवर्ती ॥

आवार्यकुन्दकुन्दास्वी वक्तव्यी जहामति ।

क्षमाधार्यो शुद्धपिच्छः वक्तव्यीति तत्पते स

—मन्दिसम्मुर्दीति ।

और उमास्वाति दोनोंको एक ही व्यक्ति समझ लिया हो और इसीलिये तत्त्वार्थसूत्रके कहुंत्वरूपसे कुन्दकुन्दाचार्यका नाम दे दिया हो। यदि ऐसा है, और इसीकी सबसे अधिक सभावना है, तो यह स्पष्ट भूल है। दोनोंका व्यक्तित्व एक नहीं था। उमास्वाति कुन्दकुन्दके बशमें एक जुदे ही आचार्य हुए हैं, और वे ही शुद्धत्वोंकी पीढ़ी रखने से शुद्धपिच्छ कहलाते थे। जैसा कि कुछ अवण-बेलोलके निम्न शिलालेखोंमें भी पाया जाता है —

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्द-
द्वितीयमासीद्भिधानमुद्धरित्रसंजातसुचारण्डिः ॥
अभूदुमास्वातिमुनीश्वराऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृष्ण पिच्छः ।
तदन्वये तत्सद्गुरोऽस्मि नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥
तदीयवंशाकरत. प्रसिद्धाऽभूददोषा यतिरत्नमाला ।
वभौ यदन्तर्मणिवन्मुनीन्द्रस्स कौण्डकुन्दोदितचडँडँडँ
अभूदुमास्वातिमुनि पवित्रे वंशो तदीये सकलार्थवेदी
सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्रार्थजातं मुनिपुंगवेन
सप्राणिसरहणासावधानो वभार योगीकिळगृदध्रूपज्ञान् ।
तदाप्रभृत्येव बुधायमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छ ॥

यहाँ शिलालेख न० ४७ में कुन्दकुन्दका दूसरा नाम ‘पथनदी’ दिया है और इसी का उल्लेख दूसरे शिलालेखों आदिमें भी पाया जाता है। वाकी पट्टावलियों (तुर्बावलियों) में जो शुद्धपिच्छ, एलाचार्य और बक्षप्रीव नाम अधिक दिये हैं उनका समर्थन अन्यत्र से नहीं होता। शुद्धपिच्छ (उमास्वाति) की तरह एलाचार्य और बक्षप्रीव नामके भी दूसरे ही आचार्य हो गये हैं। और इस लिये पट्टावली की यह कल्पना बहुत कुछ सदिष्व तथा मापत्ति के योग्य जान पड़ती है।

८

उमास्वाति या उमास्वामी ?

दिग्म्बर सम्प्रदायमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ताका नाम आजकल आम तौरसे ‘उमास्वामी’ प्रचलित हो रहा है। जितने ग्रन्थ और लेख आम तौरसे प्रकाशित होते हैं और जिनमें किसी न किसी रूपसे तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ताका नामोलेख करने-की जरूरत पड़ती है उन सबमें प्रायः उमास्वामी नामका ही उल्लेख किया जाता है; बल्कि कभी-कभी तो प्रकाशक अथवा सम्पादक जन ‘उमास्वाति’ की जगह ‘उमास्वामी’ या ‘उमास्वामि’का संशोधन तक कर डालते हैं। तत्त्वार्थसूत्रके जितने संस्करण निकले हैं उन सबमें भी ग्रन्थकर्त्ताका नाम उमास्वामी ही प्रकट किया गया है। प्रत्युत इसके, एवेताम्बर सम्प्रदायमें ग्रन्थकर्त्ताका नाम पहलेसे ही ‘उमास्वाति’ चला आता है और वही इस समय प्रसिद्ध है। अब देखना यह है कि उक्त ग्रन्थकर्त्ताका नाम वास्तवमें उमास्वाति था या उमास्वामी और उसकी उपलब्धि कहाँसि होती है। सोज करनेसे इस विषयमें दिग्म्बर साहित्यसे जो कुछ मालूम हुआ है उसे पाठ्कोंके अवलोकनार्थ नीचे प्रकट किया जाता है—

(१) श्रवणबेल्योलके जितने किलालेखोंमें आचार्यमहोदयका नाम प्राया है उन सबमें आपका नाम ‘उमास्वाति’ ही दिया है। ‘उमास्वामी’ नामका उल्लेख किसी शिलालेखमें नहीं पाया जाता। उदाहरणके लिये कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं—

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसाचार्यशब्दोत्तरगृद्भ्रष्टः ।

—शिलालेख न० ४७

श्रीमानुमास्वातिरियं यतीशस्तत्वार्थसूत्रं प्रकटीचकार ।

—शि० न० १०५

अभूदुमास्वातिमुनि' पवित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी ।

सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुंगवेन ॥

—शि० न० १०६

इन शिलालेखोंमें पहला शिलालेख शक संवत् १०३७ का, दूसरा १३२० का और तीसरा १३५५ का लिखा हुआ है। ४७वे शिलालेखवाला वाक्य ४०, ४२, ४३ और ५० नम्बरके शिलालेखोंमें भी पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आजसे आठसौ वर्षसे भी पहलेसे दिग्म्बर सम्प्रदायमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वाति' प्रचलित था और वह उसके बाद भी कई सौ वर्ष तक बराबर प्रचलित रहा है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उनका दूसरा नाम गृध्रपिण्डाचार्य था। विद्यानन्द स्वामीने भी, अपने 'श्लोकवार्तिक' में, इस पिछ्ले नामका उल्लेख किया है।

(२) 'एप्रिसेफिया कर्णाटिका' की ८ वीं जिलदमें प्रकाशित 'नगर' ताल्लुके ४६ वे शिलालेखमें भी 'उमास्वाति' नाम दिया गया है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्त्तरमुमास्वातिमुनीश्वरम् ।

श्रुतकेवलिदेशीयं चन्देहं गुणमन्दिरम् ॥

(३) नन्दिसङ्कुका 'गुरुवाली' में भी तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वाति' दिया गया है। यथा—

तत्त्वार्थसूत्रकर्त्तर्त्वप्रकटीकृतसम्मतिः ।

उमास्वातिपदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिरांशुमान् ॥

जैनसिद्धान्तभास्करकी ४३ी किरणमें प्रकाशित श्रीगुभचन्द्राचार्यकी गुरुवालीमें भी यही नाम है और यही वाक्य दिया है और ये शुभचन्द्राचार्य विकल्प की १६ वीं और १७ वीं शताब्दीमें हो गये हैं।

(४) नन्दिकुम्हकी 'पट्टाबली' में भी कुम्हकुन्नाचार्यके बाबू छठे नम्बर पर 'उमास्वाति' नाम ही पाया जाता है।

(५) बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई तत्त्वार्थसूत्रको कर्ताकी टीका भी 'उमा-स्वाति' नामका ही समर्थन करती है और साथ ही उसमें 'शृद्धपिञ्जाचार्य' नाम भी दिया हुआ है। बालचन्द्र मुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान् हैं।

(६) विक्रमकी १६वीं शताब्दीसे पहले का ऐसा कोई ग्रन्थ अथवा जिला-लैल आदि अभी तक मेरे देखनेमे नहीं आया जिसमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वामी' लिखा हो। हाँ, १६वीं शताब्दीके बने हुए श्रुतसागरसूरिके ग्रन्थोमें इस नामका प्रयोग जरूर पाया जाता है। श्रुतसागरसूरिने अपनी श्रुतसागरी टीकामें जगह-जगह पर यही (उमास्वामी) नाम दिया है और 'भौदार्यचिन्तामणि' नामके व्याकरण ग्रन्थमें 'श्रीमानुमाप्रभुरनन्तरपूज्यपाद.' इस वाक्यमें आपने 'उमा' के साथ 'प्रभु' शब्द लगाकर और भी साफ तौरसे 'उमास्वामी' नामको सूचित किया है। जान पड़ता है कि 'उमास्वाति' की जगह 'उमास्वामी' यह नाम श्रुतसागरसूरिका निर्देश किया हुआ है और उनके समय से ही यह हिन्दी भाषा आदिके ग्रन्थोमें प्रचलित हुआ है। और अब इसका प्रचार इतना बढ़ गया कि कुछ विद्वानोंको उसके विषयमें बिलकुल ही विपर्यास हो गया है और वे यहाँतक लिखनेका साहस करने लगे हैं कि तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम दिगम्बरोंके अनुसार 'उमास्वामी' और श्वेताम्बरोंके अनुसार 'उमास्वाति' है ॥

(७) मेरी रायमें, जब तक कोई प्रबल प्राचीन प्रमाण इस बातका उपलब्ध न हो जाय कि १६ वीं शताब्दीसे फहले भी 'उमास्वामी' नाम प्रचलित था, तब तक यही मानना ठीक होगा कि आचार्य महोदयका असली नाम 'उमास्वाति' तथा इसका नाम 'शृद्धपिञ्जाचार्य' था और 'उमास्वामी' यह नाम श्रुतसागर सूरिका निर्देश किया हुआ है। यदि किसी विद्वान् भाष्यके पास इसके विशद कोई प्रमाण मौजूद हो तो उन्हें कृपाकर उसे प्रकट करता चाहिए।

तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति



उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र पर 'तत्त्वरत्नप्रदीपिका' नामकी एक कलडी टीका बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई है, जिसे 'तत्त्वार्थ-तात्त्वार्थ-बृत्ति' भी कहते हैं। इस टीकाकी प्रस्तावनामें तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति जिस प्रकारसे बतलाई है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है —“सौराष्ट्र देशके मध्य ऊर्जयन्तगिरिके निकट गिरिनगर (ज्ञानागढ़?) नामके पत्तनमें आसन्न भव्य स्वहितार्थी, द्विजकुलोत्पन्न, श्वेताम्बरमठके ऐमा सिद्धिय नामका एक विद्वान् श्वेताम्बर मठके अनुकूल सकल शास्त्रका जाननेवाला था। उसने दर्शनज्ञानचारित्राणि भोक्षमार्गं यह एक सूत्र बनाया और उसे एक पाठिये पर लिख छोड़ा। एक समय चर्यार्थी श्रीणुद्धपिच्छाचार्य 'उमास्वाति' नामके धारक मुनिवर वहाँ पर आये और उन्होने आहार लेनेके पश्चात् पाठियेको वेलकर उसमें उक्त सूत्रके पहले 'सम्यक् शब्द जोड़ दिया। जब वह (सिद्धिय) विद्वान् बाहरसे अपने घर आया और उसने पाठिये पर 'सम्यक्' शब्द लगा देखा तो उसने प्रसन्न होकर अपनी मातासे पूछा कि, किस महानुभावने यह शब्द लिखा है। माताने उत्तर दिया कि एक महानु-भाव निर्वन्ध्याचार्यने यह बनाया है। इस पर वह गिरि और अरण्यको हूँडता हुआ उनके आश्रममें पहुँचा और भक्तिभावसे नद्रीभूत हो कर उक्त मुनि

^{३५} यह टीका आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें देवगामरी आकरोमें मैथूर है।

महाराजसे पूछने लगा कि आत्मका हित क्या है ? (यहाँ प्रश्न और इसके बादका उत्तर-प्रत्युत्तर प्रायः सब वही है जो 'सर्वार्थसिद्धि' की प्रस्तावनामें श्रीपूज्यपादाचार्यने दिया है ।) मुनिराजने कहा 'मोक्ष' है । इस पर मोक्षका स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय पूछा गया जिसके उत्तररूपमें ही इस ग्रन्थका अवतार हुआ है ।

इस तरह एक श्वेताम्बर विद्वान्‌के प्रश्नपर एक दिगम्बर आचार्यद्वारा इस तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा उक्त कथनसे पाया जाता है । नहीं कहा जा सकता कि उत्पत्तिकी यह कथा कहाँ तक ठीक है । पर इतना जरूर है कि यह कथा सातसी वर्षों से भी अधिक पुरानी है; क्योंकि उक्त टीकाके कर्ता बालचंद्र मुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हो गये हैं । उनके मुख 'नयकीर्ति' का देहान्त शक सं० १०६६ (वि० सं० १२३४) में हुआ था ॥

मालूम नहीं कि इस कनड़ी टीकासे पहलेके और किस ग्रन्थमें यह कथा पाई जाती है । तत्त्वार्थसूत्रकी जितनी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उनमें सबसे पुरानी टीका 'सर्वार्थसिद्धि' है । परन्तु उसमें यह कथा नहीं है । उसकी प्रस्ता-वनासे सिर्फ इतना पाया जाता है कि किसी विद्वान्‌के प्रश्नपर इस मूल ग्रन्थ (तत्त्वार्थसूत्र) का अवतार हुआ है । वह विद्वान् कौन था, किस सम्प्रदायका था, कहाँका रहनेवाला था और उसे किस प्रकारसे ग्रन्थकर्ता आचार्यमहोदयका परिचय तथा समागम प्राप्त हुआ था, इन सब बातोंके विषयमें उक्त टीका मौन है । यथा—

‘कश्चिद्द्रुव्यः† प्रत्यासन्ननिष्ठुः प्रजावान् स्वहितमुपलिप्युर्विविक्ते परमरम्ये भव्यसत्त्वविद्वामास्यदे क्लिच्चिदाश्रमपदे मुनिपरिषमध्ये सुनिषष्टणं भूर्तमिव मोक्ष-मार्यमाचार्यविवर्णं वपुषा निरूपयन्तं युक्त्यागमकुशलं परहितप्रतिपादनैककार्यमार्य-निषेव्यं निर्द्वन्धाचार्यवर्यमुपसर्वं सविनयं परिपृच्छतिस्म, भगवन् ! किञ्चलु आत्मनो

॥ देखो श्रवणबेल्गोलस्थ शिलालेख नं० ४२ ।

† इस पदकी दृतिमें प्रभाचन्द्रचार्यने प्रश्नकर्ता भव्यपुरुषका नाम दिया है — जो पाठकी अशुद्धिसे कुछ गलतसा हो रहा है, और प्रायः 'सिद्ध्य' हीं जान पड़ता है ।

हितं स्थापिति । स प्राहु मोक्ष इति । स एव पुनः प्रत्याहु किं स्वरूपोऽस्ती मोक्षः
कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति । आचार्य आह..... ।”

संभव है कि इस मूलको^{*} लेकर ही किसी दन्तकथाके आधार पर उक्त
कथाकी रचना की गई हो; क्योंकि यहां प्रश्नकर्ता और आचार्य महोदयके जो
विशेषण दिये गये हैं प्रायः वे सब कन्डी टीकामें भी पाये जाते हैं। साथ ही
प्रश्नोत्तरका ढंग भी दोनोंका एक सा ही है । और यह सम्भव है कि जो बात
सर्वार्थसिद्धि में सकेत रूपसे ही दी गई है वह बालचन्द्र मुनिको शुरु परम्परासे कुछ
विस्तारके साथ मालूम हो और उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया हो; अथवा
किसी दूसरे ही ग्रन्थसे उन्हें यह सब विशेष हाल मालूम हुआ हो । कुछ भी हो,
बात नहीं है जो अभी तक बहुतोंके जाननेमें न आई होगी और इससे तत्त्वार्थसूत्र-
का समन्वय दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके साथ स्थापित होता
है । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उस समय दोनों सम्प्रदायोंमें आज
कल-जैसी स्तीचातानी नहीं थी और न एक दूसरेको धूणाकी हृष्टिसे देखता था ।



* श्रुतसागरी टीकामें भी इसी मूलका प्रायः अनुसरण किया गया है और
इसे सामने रखकर ही ग्रन्थकी उत्थानिका लिखी गई है । साथ ही, इतना विशेष
है कि उसमें प्रश्नकर्ता विद्वान्का नाम ‘द्वैपायक’ अधिक दिया है । कन्डी टीका-
वाली और बातें कुछ नहीं दी । यह टीका कन्डी टीकासे कई सौ वर्ष बाद की
बनी हुई है ।

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति

अर्सा कई सालका हुआ सुहद्वर ५० नायूरामजी प्रेमीने बन्धवसे तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक पुरानी हस्तलिखित सटिप्पण प्रति, सेठ राजमलजी बड़जात्याके यहांसे लेकर मेरे पास देखनेके लिये भेजी थी । देखकर मैंने उसी समय उस पर से आवश्यक नोट्स (Notes) ले लिये थे, जो अभी तक मेरे संग्रहमे सुरक्षित है । यह सटिप्पण प्रति श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी है और जहा तक मैं समझता हूँ अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । श्वेताम्बर जैन काल्पनि द्वारा अनेक भण्डारों और उनकी सूचियों आदि परसे खोजकर तथ्यार की गई 'जैनग्रन्थावली' में इसका नाम तक भी नहीं है और न हालमे प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्रकी ५० सुखलालजी कृत विवेचनकी विस्तृत प्रस्तावना (परिचयादि) मे ही जिसमे उपलब्ध टीका-टिप्पणीका परिचय भी कराया गया है, इसका कोई उल्लेख है और इसलिये इस टिप्पणीकी-प्रतियाँ बहुत कुछ विरलसी ही जान पड़ती हैं । अस्तु, इस सटिप्पण प्रतिका परिचय प्रकट होनेसे अनेक बाते प्रकाशमे आएंगी, अत आज उसे पाठकोंके सामसे रक्खा जाता है ।

(१) यह प्रति मध्यमाकारके ८ पत्रों पर है, जिनपर पत्राङ्क ११ से १८ तक पढ़े हैं । मूल मध्यमे और टिप्पणी हाशियो (Margins) पर लिखी हुई है ।

(२) कंगाल-एशियाटिक-सोसाइटी कलकत्ताके द्वारा स० १९५६ मे प्रका-

किंतु सत्त्वार्थ-तत्त्वार्थादिग्रनथसूत्रके मुख्यमें जो ३१ सत्त्वार्थकारिकार्ह ही है और अन्तमें ३२ पद्म तथा ग्रन्थस्तिरूपसे ६ पद्म और दिये हैं वे सब कारिकार्ह हैं एवं पद्म इस सटिष्ठण प्रतिमे ज्यो-के-स्थो पाये जाते हैं, और इससे ऐसा कालून होता है कि टिष्ठणकारने उन्हे युल तत्त्वार्थसूत्रके ही अग्र समझा है।

(३) इस प्रतिमे सम्पूर्णं सूत्रोकी सत्त्वा ३४६ और प्रत्येक अध्यायके सूत्रों की सत्त्वा क्रमशः ३५, ५३, १६, ५४, ४५, २७, ३३, २६, ४६, ८ ही है। अर्थात् दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और बसवे अध्यायमें सत्त्वार्थ-तत्त्वार्थादिग्रनथसूत्रकी उक्त सोसाइटीवाले तत्कारणणकी छारी हुई प्रतिमे एक-एक सूत्र बढ़ा हुआ है, और वे सब बढ़े हुए सूत्र अपने-अपने नम्बर-संहित क्रमशः इस प्रकार है—

तैजसमपि ५०, घर्मा वंशा शैलांजनादिष्टा माधवीति च २,
उच्छ्रित्वासाहारवेदमोपपातानुभावतत्त्वं साध्या. २३, स द्विविष्ट ४२,
सम्यक्त्वं च २१, घर्मास्तिकायाभावात् ७।

और सातवें अध्यायमें एक सूत्र कम है—अर्थात् ‘सचित्तनिषेपापिधान-परव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमा ३१’ यह सूत्र नहीं है।

सूत्रोकी इस वृद्धि हानिके कारण अपने अपने अध्यायमें अगले-अगले सूत्रोंके नम्बर बदल गये हैं। उदाहरणके तौर पर दूसरे अध्यायमें ५० वे नम्बरपर ‘तैजसमपि सूत्र आजानेके कारण ५० वे ‘शुभ विशुद्ध०’ सूत्रका नम्बर ५१ हो गया है, और ७वे अध्यायमें ३१वा ‘सचित्तनिषेपापिधान०’ सूत्र न रहनेके कारण उस नम्बर पर ‘जीवितमरणा०’ नामका ३२ वा सूत्र आगया है।

दूसरी प्रतियोगीमें बढ़ हुए सूत्रोकी बाबत जो यह कहा जाता है कि वे भाष्य-के बाक्योंको ही गलतीसे सूत्र ममम्भ लेनेके कारण सूत्रोंमें दाखिल होगये हैं, वह यहाँ ‘सम्यक्त्वं च’ सूत्रकी बाबत सगत मालूम नहीं होता, क्योंकि वूर्वोत्तरवर्ती सूत्रोंके भाष्यमें इसका कही भी उल्लेख नहीं है और यह सूत्र दिग्म्बरसूत्र-पाठमें २१वे नम्बर पर ही पाया जाता है। पै० मुखलालजी भी अपने तत्त्वार्थसूत्र-विवेचनमें इस सूत्रका उल्लेख करने हुए लिखते हैं कि इवेताम्बरीय परम्पराके अनुसार भाष्यमें यह बात (सम्यक्त्वको देवायुके आन्वेका कारण बतलाना) नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भाष्यमात्य सूत्रपाठ इवेताम्बर-सम्प्रदायमें बहुत कुछ

विवादापन्न है, और उसकी यह विवादापन्नता टिप्पणीमें सातवें ग्रन्थायके उत्तर ३१वें सूत्रके न होनेसे और भी अधिक बढ़ जाती है; क्योंकि इस सूत्र पर भाष्य भी दिया हुआ है, जिसका टिप्पणीकारके सामनेवाली उस भाष्यप्रतिमें होना नहीं पाया जाता जिसपर वे विश्वास करते थे, और यदि किसी प्रतिमें होगा भी तो उसे उन्होंने प्रक्षिप्त समझा होगा। अन्यथा यह नहीं हो सकता कि जो टिप्पणीकार भाष्यको मूल-चूल-सहित तत्त्वार्थसूत्रका आता (रक्षक) मानता हो वह भाष्यतकके साथमें विद्यमान होते हुए उसके किसी सूत्रको छोड़ देवे।

(४) बढ़े हुए कतिपय सूत्रोंके सम्बन्धमें टिप्पणीके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

(क) “केचित्त्वाहारकनिर्देशात्पूर्वं “तैजसमपि” इति पाठं मन्यते, नैवं युक्तं तथासत्याहारकं न लब्धिजमिति भ्रमः समुत्पद्यते, आहारकस्य तु लब्धिरेव योनि: ।”

(ख) “केचित्तुधर्मा वशेत्यादिसूत्रं न मन्यते तदसत् । ‘घर्मा’ वंसा सेला अंजनरिद्वा मधा य माघवईं, नामेहिं पुढवीओ छृत्ताइछृत्तसंठाणा’ इत्यागमात् ।”

(ग) “केचिजडा: ‘स द्विविधः’ इत्यादिसूत्राणि न मन्यते ।”

ये तीनों वाक्य प्रायः दिग्म्बर आचार्योंको लक्ष्य करके कहे गये हैं। पहले वाक्यमें कहा है कि ‘कुछ लोग आहारके निर्देशात्मक सूत्रसे पूर्व ही “तैजसमपि” यह सूत्र पाठ मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा होने पर आहारक शरीर लब्धिजन्य नहीं ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, आहारकी तो लब्धि ही योनि है।’ दूसरे वाक्यमें बतलाया है कि ‘कुछ लोग ‘धर्मा वंशा’ इत्यादि सूत्र को जो नहीं मानते हैं वह ठीक नहीं है।’ साथ ही, ठीक न होनेके हेतुरूपमें नरकभूमियोंके दूसरे नामोंवाली एक गाथा देकर लिखा है कि ‘चूकि आगममें नरकभूमियोंके नाम तथा संस्थानके उल्लेखवाला यह वाक्य पाया जाता है, इसलिये इन नामोंवाले सूत्रको न मानना अयुक्त है।’ परन्तु यह नहीं बतलाया कि जब सूत्रकारने ‘रत्नप्रभा’ आदि नामोंके द्वारा सस नरकभूमियोंका उल्लेख पहले ही सूत्रमें कर दिया है तब उनके लिये यह कहाँ लाजिमी आता है कि वे उन नरकभूमियोंके दूसरे नामोंका भी उल्लेख एक दूसरे सूत्र-द्वारा करें।

इससे टिप्पणकारका यह हेतु कुछ विचित्रता ही जान पड़ता है। दूसरे प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्योंने भी उक्त 'धर्मविश्वा' नामक सूत्र को नहीं माना है और इसलिये यह वाक्य कुछ उन्हें भी लक्ष्य करके कहा गया है। नीसरे वाक्यमें उन आचार्योंको 'जडबुद्धि' ठहराया है जो "स द्विविधः" इत्यादि सूत्रोंको नहीं मानते हैं। यहा 'आदि' शब्दका अभिप्राय 'अनादिरात्मिकाश्च,' 'रूपिष्वादिमान्,' 'योगोपयोगौ जीवेषु' इन तीन सूत्रोंसे है जिन्हे 'स द्विविधः' सूत्र-सहित दिगम्बराचार्य सूत्रकारकी कृति नहीं मानते हैं। परन्तु इन चार सूत्रोंमें से 'स द्विविधः' सूत्रोंको तो दूसरे श्वेताम्बराचार्योंने भी नहीं माना है। और इसलिये अकस्मात् 'जड़ाः' पदका वे भी निशाना बन गये हैं। उन पर भी जडबुद्धि होनेका आरोप लगा दिया गया है।

इसमें श्वेताम्बरोंमें भाष्य-मान्य-सूत्रपाठका विषय और भी अधिक विवाद-पन्थ हो जाना है और यह निभित्सूपसे नहीं कहा जा सकता कि उसका पूर्ण एवं यथार्थ रूप क्या है। जब कि सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठके विषयमें दिगम्बराचार्योंमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। यदि दिगम्बर सम्प्रदायमें सर्वार्थसिद्धि-से पहले भाष्यमान्य प्रथवा कोई दूसरा सूत्रपाठ रूढ़ हुआ हाता और सर्वार्थ-सिद्धिकार (श्रीपूज्यपादाचार्य) ने उसमें कुछ उलटफेर किया होता तो यह सम्भव नहीं था कि दिगम्बर आचार्योंमें सूत्रपाठके सम्बन्धमें परस्पर कोई मतभेद न होता। श्वेताम्बरोंमें भाष्यमान्य सूत्रपाठके विषयमें मतभेदका होना बहुधा भाष्यसे पहले किसी दूसरे सूत्रपाठके अस्तित्व प्रथवा प्रचलित होने को सूचित करता है।

(५) इसवे अध्यायके एक दिगम्बर सूत्रके सम्बन्धमें टिप्पणकारने इस प्रकार लिखा है—

"केचित्तु 'आविद्धकुलालचक्रवट्यपगतलेपालाद्युवदेरण्डवीजवद-गिनशित्वावस्थ' इति नव्यं सूत्र प्रक्षिप्नित तत्र सूत्रकारकृति, 'कुलालचक्रे दोलायामिषौ चापि यथेष्यते' इत्यादिश्लोकैः सिद्धस्य गतिस्वरूपं प्रोक्त-मेव, ततः पाठान्तरमपार्थं।"

अर्थात्—कुछ लोग 'आविद्धकुलालचक्र' नामका नया सूत्र प्रक्षिप्त करते हैं, वह सूत्रकारकी कृति नहीं है। क्योंकि 'कुलालचक्रे दोलायामिषौ चापि यथे-

चवते' इत्यादि इलोकोंके द्वारा सिद्धगतिका स्वरूप कहा ही है, इसकिये उक्त सूत्र-रूपसे पाठान्तर निरर्थक है।

यहाँ 'कुलालचक्र' इत्यादिरूपसे जिन इलोकोंका सूचन किया है वे उक्त समाध्यतस्वार्थाधिगमसूत्रके अन्तमें लगे हुए ३२ इलोकोमें से १०, ११, १२, १४ नम्बरके इलोक हैं, जिनका विषय वही है जो उक्त सूत्रका—उक्त सूत्रमें वर्णित चार उदाहरणोंको अलग-अलग चार इलोकमें व्यक्त किया गया है। ऐसी हालत-में उक्त सूत्रके सूत्रकारकी कृति होनेमें क्या आधा आती है उसे यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि किसी बातको इलोकमें कह देने मात्रसे ही उस आशयका सूत्र निरर्थक हो जाता है और वह सूत्रकारकी कृति नहीं रहता, तो फिर ३२वें इलोकमें 'धर्मास्तिकायस्याभावात् स हि हेतुर्गते. परः' इस पाठ के मौजूद होते हुए टिप्पणकारने "धर्मास्तिकायाभावात्" यह सूत्र क्यों माना?—उसे सूत्रकारकी कृति होनेसे इनकार करते हुए निरर्थक क्यों नहीं कहा? यह प्रश्न पैदा होता है, जिसका कोई भी समुचित उत्तर नहीं बन सकता। इस तरह तो दसवें अध्यायके प्रथम छह सूत्र भी निरर्थक ही ठहरते हैं, क्योंकि उनका सब विषय उक्त ३२ इलोकोंके प्रारम्भके ६ इलोकोमें आगया है—उन्हें भी सूत्रकारकी कृति न कहना चाहिये था। अतः टिप्पणकारका उक्त नक्त नि सार है—उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात् उक्त दिगम्बर सूत्र पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। प्रत्युत इसके, उसका सूत्रपाठ उसी के हाथों बहुत कुछ द्वापत्तिका विषय बन जाता है।

(६) इस मटिप्पण प्रतिके कुछ सूत्रोंमें थोड़ामा पाठ-मेद भी उपलब्ध होता है—जैसे कि तृनीय अध्यायके १०वें सूत्रके शुरूमें 'तत्र' शब्द नहीं है वह दिगम्बर सूत्रपाठकी तरह 'भरतहैमवतहरिविदेह' से ही प्रारम्भ होता है। और छठे अध्यायके छठे (दि० ५वें सूत्रका प्रारम्भ) 'इन्द्रियकथायत्रतक्षिया:' पदसे किया गया है, जैसे कि दिगम्बर सूत्रपाठमें पाया जाता है और मिद्दसेन नदा हृरिभद्रकी कृतियोंमें भी जिसे माध्यमात्य सूत्रपाठके रूपमें माना गया है, परन्तु बंगाल एशियाटिक सोसाइटीके उक्त मस्करणमें उसके स्थानपर 'आत्रतकथायेन्द्रियक्षिया:' पाठ दिया हुआ है और प०सुखलालजीने भी अपने अनुवादमें उसी की स्वीकार किया है, जिसका कारण इस सूत्रके भाष्यमें 'आत्रत' पाठका प्रथम

होना जान पड़ता है और इसलिये जो बादमें भाष्यके व्याख्याक्रमानुसार सूत्रके सुधारको सूचित करता है।

(७) दिगम्बर सम्प्रदायमें जो सूत्र इवेताम्बरीय मान्यताकी अपेक्षा कमती-बढ़ती रूपमें माने जाते हैं अथवा माने ही नहीं जाते उनका उल्लेख करते हुए टिप्पणमें कही-कही अपशब्दोका प्रयोग भी किया गया है। अर्थात् प्राचीन दिग-म्बरगचायोंको ‘पालडी’ तथा ‘जड़बुद्धि’ तक कहा गया है। यथा—

ननु-ब्रह्मोत्तर-कापिष्ठ-महाशुक-सहस्रारेषु नेत्रोत्पत्तिरिति परवादि-मतमेनावैतैव सत्याभिमतमिति कश्चिन्मा ब्रूयात्किल पास्वेण्डनः स्वकपो-लक्षितपुद्गृह्यैव घोडश कल्पान्नाहुः, नोचेद्वशाष्टपञ्चषोडशविकल्पा इत्येष स्पष्टं सूत्रकारोऽसूत्रविषयव्याख्यास्वेण्डनीयो निन्दवः ।”

‘केचिज्ञाः प्रहाणामेकं इत्यादि मूलसूत्रान्यपि न मन्यन्ते चन्द्रा-कांटीनां मिथ्यः स्थितिभेदोस्तोत्यपि न पश्यन्ति ।’

इसमें भी अधिक अपशब्दोका जो प्रयोग किया गया है उमका परिचय पाठकोको आगे चम्कर मालूम होगा।

(८) दसवें अध्यायके अन्तमें जो पुष्टिका (अन्तिम संघि) दी है वह इस प्रकार है—

“इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्वचनसंग्रहे मोक्षप्रस्पणाध्यायो दशमः ।
अं० २५ पर्यंतमादितः । समाप्तं चैतदुमास्वातिवाचकस्य प्रकरणपञ्चशती कर्तुः कृतिसत्त्वार्थाधिगमप्रकरणं ॥”

इसमें मूल तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी आचननकारिकाओं सहित अथसत्या २२५ इलोकपरिमाण दी है और उमके रचयिता उमास्वातिको इवेताम्बरीय मान्यता-नुसार पाँचमो प्रकरणोका अथवा ‘प्रकरणपञ्चशती’ का कर्ता सूचित किया है, जिनमें से अथवा जिमका एक प्रकरण यह ‘तत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ है।

(९) उक्त पुष्टिकाके अनन्तर ६ पद्ध दिये हैं, जो टिप्पणकारकी खुदकी कृति हैं। उनमेंप्रथम सात पद्ध दुर्बादापहारके रूपमें हैं और शेष दो पद्ध अतिमं भंगल तथा टिप्पणकारके नामसूचनको लिये हुए हैं। इन पिछ्ले पद्धोंके प्रत्येक चरणके दूसरे अक्षरको क्रमशः मिलाकर रखनेसे ‘रत्नसिंहो जिनं वंदे’, ऐसा बाक्य उपलब्ध होता है, और इसीको टिप्पणमें “इत्यन्तिमगाथाद्वयरहस्यं”

पदके द्वारा पिछले दोनों गाथा-पदोंका रहस्य सूचित किया है। वे दोनों पद्य इस प्रकार हैं—

मुरुनरनिकरनिषेष्यो । नूलपयोदप्रभारुचिरदेहः ।

धीसिंघुर्जिनराजो । महोदयं दिशति न कियदूर्भ्यः ॥८॥

वृजिनोपतापहारी । सनंदिमश्चिष्ठकोरचंद्रात्मा ।

भावं भविनां तन्वन्मुदे न संजायते केषां ॥९॥

इसमें स्पष्ट है कि यह टिप्पणी 'रत्नमिह' नामके किसी श्वेताम्बराचार्यका बनाया हुआ है। श्वेताम्बरमन्त्रदायमें 'रत्नमिह' नामके अनेक मूरि-आचार्य हो गये हैं, परन्तु उनमें से इस टिप्पणीके रचयिता कौन है, इसका ठीक पता मालूम नहीं हो सका, क्योंकि 'जैनग्रथावली' और 'जैनसाहित्यनो भक्षिस इतिहास' जैसे पथोंमें किसी भी रत्नमिहके नामके साथ इस टिप्पणी मन्त्रका कोई उल्लेख नहीं है। और इसके लिये इनके समय-मन्त्रदायमें यद्यपि अभी निश्चित रूपमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किर भी इतना तो स्पष्ट है कि ये विक्रमकी १२ वी-१३ वी शताब्दीके विद्वान् आचार्य हेमचन्द्रके बाद हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक टिप्पणीमें हेमचन्द्रके कोषका प्रमाणण 'इति हैम' वाक्यके साथ दिया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट ही है कि इनमें साम्प्रदायिक-कट्टरता बहुत बड़ी-चड़ी थी और वह सम्भवा तथा शिष्टताको भी उल्लंघ गई थी, जिसका कुछ अनुभव पाठ्योंको अगले परिचयमें प्राप्त हो सकेगा।

(१०) उक्त दोनों पदोंके पूर्वमें जो ३ पद्य दिये हैं और जिनके अन्तमें "इति दुर्वादापहार." लिखा है उनपर टिप्पणीकारकी स्वांपना टिप्पणी भी है। यहा उनका क्रमशः टिप्पणी-महित कुछ परिचय कराया जाता है:—

प्रागेवैतददक्षिणभषणगणादास्यमानमिव मत्वा ।

त्रात समूलचूलं स भाष्यकारश्चरं जीयात् ॥१॥

टिप्प०—'दक्षिणं सरलोदाराविति हैमः' अदक्षिणा असरलाः

* इन दोनों पद्योंके अन्तमें 'अयोजस्तु' ऐसा आशीर्वाय दिया हुआ है।

† 'दक्षिणं सरलोदारी' यह पाठ अमरकोशका है, उसे 'इनि हैम.' लिखकर हेमचन्द्राचार्यके कोषका प्रकट करना टिप्पणीकारकी विचित्र नीतिको सूचित करता है।

स्ववचनस्यैव पह्यपातमलिना इति यावत्त एव भषणः कुरु रास्तेषां
गणैरादास्यमानं ग्रहिष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमाणमिति यावत्तथाभूत-
मित्रैतत्तत्वार्थशास्त्रं प्रागेव पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेषः सह
मूलचूलाभ्यामिति समूलचूलं त्रात रक्षितं स कश्चिद् भाष्यकारो भाष्यकर्ता
चिर ढीर्घं जीयाज्ज्य गम्यादित्याशीर्चोस्माकं लेखकानां निर्मलप्रथरक्ष-
काय प्राग्यवचनचौरिकायामशक्यायेति ।'

भावार्थ—जिसने इस तत्त्वार्थशास्त्रको अपने ही वचनके पक्षपातसे मलिन
अनुदार कुत्तोके मधूहो-द्वारा ग्रहीष्यमान-जैमा जानकर—यह देखकर कि ऐसी
कुत्ता-प्रकृतिके विडान् लोग इसे अपना अथवा अपने सम्प्रदायका बनाने वाले
हैं—यहने ही इस शास्त्रकी मूल-चूल-महित रक्षा की है—इसे ज्योका त्वे
श्वेताम्बर-सम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूप में ही कायम रखता है—वह
भाष्यकार (जिसका नाम मालूम नहीं) चिरजीव होवे—चिरकाल तक
जयको प्राप्त होवे—ऐमा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोका उम निर्मल ग्रन्थके
रक्षक तथा प्राचीन-वचनोकी चारीमें असमर्थके प्रति आशीर्वाद है ।

पूर्वार्थकृतेरपि कविचौर किंचिदात्मसाकृत्वा ।

व्याख्यानयति नवीनं न तत्समः कश्चिदपि पिशुनः ॥२॥

टिप्प०—‘अथ ये केवन दुरात्मानः सूत्रवचनचौरा स्वमनीषया

* वयोकि टिप्पणकारने भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये ‘स
कश्चित्’ (वह कोई) शब्दोका प्रयोग किया है, जबकि मूलसूत्रकारका नाम
उमास्वाति कई स्थानों पर स्पष्टरूपसे दिया है, इसमें साफ घ्वनित होता है कि
टिप्पणकारका भाष्यकारका नाम मालूम नहीं था और वह उसे मूलसूत्रकारसे
भिन्न ममझता था । भाष्यकारका ‘निर्मलप्रथरक्षकाय’ विशेषणके साथ
'प्राग्यवचनचौरिकायामशक्याय' विशेषण भी इसी बातको सूचित करता है ।
इसके ‘प्राग्यवचन’ का बाच्य तत्त्वार्थसूत्र जान पड़ता है, भाष्यकारने उसे चुराकर
अपना नहीं बनाया—वह अपनी मन परिणामिके कारण ऐसा करनेके लिये
असमर्थ था—यही आशय यहाँ व्यक्त किया गया है । अन्यथा, उमास्वातिके
लिये इस विशेषणकी कोई ज़रूरत नहीं थी और न कोई संगति ही ठीक बैठती है ।

वाक्यान्वयात् यदेवित्सुपाठप्रव्वेष प्रदर्श्य स्वपरहितापगमं कथचित् कुर्वन्ति
सद्ब्रह्म-शुशूषाविहारायेदमुच्यते— पूर्वाचार्यकृतेरपीत्यादि । ततः परं
वादविहृतानां सद्ब्रह्मव्याप्त्यमन्यमानानां वाक्यात्संशयेभ्यः सुज्ञेभ्यो
निरीहतया सिद्धान्तेतरशास्त्रसमयापनोदकमेव त्रूभः ।”

भावार्थ—सूत्रवचनोंको छुरानेवाले जो कोई दुरात्मा अपनी बुद्धिसे यथा-
स्थान यथेच्च पाठप्रक्षेपको दिखलाकर कथचित् अपने तथा दूसरोंके हितका लोप
करते हैं उनके वाक्योंके सुननेका निषेध करनेके लिये ‘पूर्वाचार्यकृतेरपीत्यादि’
पद्म कहा जाता है, जिसका आशय यह है कि ‘जो कविचोर पूर्वाचार्यकी कृतिमें
कुछ भी अपनाकर (छुराकर) उसे नवीनरूपमें व्याख्यान करता है—नवीन
प्रगट करता है—उसके समान दूसरा कोई भी नीच अथवा धूर्त नहीं है।’

इसके बाद जो सुधीजन वाद-विहृतों तथा सद्ब्रह्माके वचनको भी न मानने-
बालोंके कथनसे संशयमें पड़े हुए हैं उन्हे लक्ष्य करके सिद्धान्तसे भिन्न वास्त्र-
समयको दूर करनेके लिये कहते हैं—

सुज्ञाः शृणुत निरीहाश्चेदाहो परगृहीतमेवं ।

सति जिनसमयसमुद्रे तदेकदेशेन किमनेन ॥३॥

टिप्प०—“शृणुत भाः कतिचिद्विज्ञाश्चेदाहो यद्युतेऽत्त्वार्थप्रकरणं
परगृहीतं परोपाच्च परनिर्मितमेवंति यावदिति भवतं: संशेरते किं जात-
भेतावता वर्य त्वस्मिन्नेव कृतादरा न वर्तमाहे लघीयः सरसीव,
यस्मादद्यापि जिनेन्द्रोक्तागोपांगाद्यागमसमुद्रा गर्जतीति हेतोः तदेक-
देशेनानेन किं? न किचिदित्यर्थः । ईदशानि भूयांस्येव प्रकरणानि संति
केषु केषु रिरिसां करिष्याम इति ।”

भावार्थ—भोः कतिपय विद्वानों । मुनों, मध्यपि यह तत्त्वार्थप्रकरण
परगृहीत है—दूसरोंके द्वारा अपनाया गया है—परनिर्मित ही है, यहाँ तक
आप संशय करते हैं; परन्तु ऐसा होनेसे ही क्या होगया? हम तो एकमात्र
इसीमें आदररूप नहीं बतं रहे हैं, छोटे तानाबकी तरह । क्योंकि आज भी
जिनेन्द्रोक्त अंगोपांगादि आगमसमुद्र गर्ज रहे हैं, इस कारण उम समुद्रके एक
देशरूप इस प्रकरणमें—उसके जाने रहनेसे—क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं ।
इस प्रकारके बहुतसे प्रकरण विद्यमान हैं, हम किन किनमें रमनेकी इच्छा करेंगे?

परमेतावचतुरैः कर्तव्यं शृणुत वच्चिम सविवेकः ।

शुद्धो योस्य विधाता स दूषस्त्रीयो न केनापि ॥४॥

टिप्प०—“एवं चाकर्ण्य वाचको शुभास्वातिर्दिगम्बरो निह्व इति केविभ्मावदन्नः शिळार्थ ‘परमेतावचतुरैरिति’ पद्य त्रै महे—शुद्धः सत्यः प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य प्रथस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निन्दनीय एतावचतुरैर्विधेयमिति ।”

भावार्थ—ऊपरकी बातको सुनकर ‘वाचक उमास्वाति निश्चयमे दिगम्बर निह्व है ऐसा कोई न कहे, इस बातकी शिक्षाके लिये हम ‘परमेतावचतुरैः’ इत्यादि पद्य कहते हैं, जिसका यह आशय है कि ‘चतुरजनोको इतना कर्तव्य पालन जरूर करना चाहिये कि जिसमे इस तत्त्वार्थशास्त्रका जो कोई शुद्ध विधाता—ग्राह्यनिर्माता—है वह किसी प्रकारमे दूषणीय—निन्दनीय—न ठहरे ।

यः कुन्दकुन्दनामा नामांतरितो निरुच्यते कैश्चित् ।

ज्ञेयोऽन्य एव सोऽस्मात्पष्टमुपास्वातिरिति विदितात् ॥५॥

टिप्प०—“तद्दिः कुन्दकुन्द एवैतत्प्रथमकर्त्तेति संशयापोहाय स्पष्टं इत्याप्यामः ‘यः कुन्दकुन्दनामेत्यादि’ । अयं च परतीर्थिकैः कुन्दकुन्द इडा-चार्यः पद्मनदी उमास्वातिरित्यादिनामांतराणि कल्पयित्वा पठयते सं-अस्मात्प्रकरणकर्तुरुपास्वातिरित्येव प्रसिद्धनास्तः सकाशादन्य एव ज्ञेयः कि पुनः पुनर्वेदयामः ।”

भावार्थ—‘तब कुन्दकुन्द ही इस तत्त्वार्थशास्त्रके प्रथम कर्ता है,’ इस संशयको दूर करनेके लिये हम ‘य कुन्दनामेत्यादि’ पद्मके द्वारा स्पष्ट बतलाते हैं कि—पर तीर्थिको (!)के द्वारा जो कुन्दकुन्दको कुन्दकुन्द, इडाचार्य (?) पथनन्दी उमास्वाति कुन्दकुन्दनामेत्यादि नामान्तरोकी कल्पना करके उमास्वाति कहा जाता है

कुन्दकुन्दनामेत्यादि के द्वारा नाम उमास्वाति है ऐसा कही भी उपलब्ध नहीं होता । कुन्दकुन्दके जो पाँच नाम कहे जाने हैं उनमे भूल नाम पथनन्दी तथा प्रसिद्ध नाम कुन्दकुन्दको छोड़कर शेष तीन नाम एलाचार्य, बक्षप्रीत और शृदपिच्छाचार्य

वह हमारे इस प्रकरणकर्ता से, जिसका स्पष्ट 'उमास्वाति' ही प्रसिद्ध नाम है, भिन्न ही है, इस बातको हम बार-बार क्या बतलावें।'

श्वेतांबरसिंहानां सहजं राजाधिराजविद्यानां ।

निहृवनिर्मितशास्त्राग्रहः कथंकारमपि न स्यात् ॥ ६ ॥

टिप्प०—नन्वत्र कुनोलभ्यते यत्पाठांतरसूत्राणि दिगंबरैरेव प्रक्षिप्तानि ? परे तु वच्यंति यदस्मृद्वृद्धैरचित्मेतत्प्राप्य सम्यगिति ज्ञात्वा श्वेतांबराः स्वैरं कतिचित्सूत्राणि तिरोकुर्वन् कतिचिच्छा प्राक्षिप्तिभिति भ्रम-भेदार्थं 'श्वेतांबरसिंहानामित्यादि' ब्र. मः । कोऽर्थः श्वेतांबरसिंहाः स्वयमत्यंतोऽन्डप्रथं ग्रन्थनप्रभूषणवः परनिर्मितशास्त्रं तिरस्करण-प्रक्षेपादिभिर्नकदाचिदप्यात्मसाद्विदधीरन् । यतः 'तस्करा एव जायते परवस्त्वात्मसात्कराः, निर्विशेषेण पश्यति स्वमपि स्वं महाशयाः ।'

भावार्थ—यहाँ पर यदि कोई कहे कि 'यह बात कैसे उपलब्ध होती है कि जो पाठांतरित सूत्र हैं वे दिगम्बररोनें ही प्रक्षिप्त किये हैं । क्योंकि दिगम्बर तो कहते हैं कि हमारे दूदों-द्वारारचित् इस तत्त्वार्थसूत्रको पाकर और उसे समीक्षीन जानकर श्वेताम्बररोनें स्वेच्छाचारपूर्वक कुछ सूत्रोंको तो तिरस्कृत कर दिया और कुछ नये सूत्रोंको प्रक्षिप्त कर दिया—अपनी ओरसे मिला दिया है' । इस भ्रमको दूर करनेके लिये हम 'श्वेताम्बरसिंहानां' इत्यादि पद्य कहते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि—श्वेताम्बरसिंहोंके, जो कि स्वभावसे ही विद्याओंके राजाधिराज हैं और स्वयं अत्यन्त उद्दं ग्रन्थोंके रचनेमें समर्थ हैं, निहृवनिर्मितशास्त्रोंका ग्रहण किसी प्रकार भी नहीं होता है—वे परनिर्मित शास्त्रोंको तिरस्करण और प्रक्षेपादिके द्वारा कदाचित् भी अपने नहीं बनाते हैं । क्योंकि जो दूसरेकी वस्तुको अपनाते हैं—अपनी बनाते हैं—वे चोर होने हैं, महान् आशयके घारक तो अपने धनको भी निर्विशेषरूपसे अवलोकन करते हैं—उसमें अपनायतका (निजत्वका) भाव नहीं रखते ।'

हैं । तथा कुन्दकुन्द और उमास्वातिकी भिन्नताके बहुत स्पष्ट उल्लेख पाये जाते हैं । अतः इस नामका दिया जाना आन्तिमूलक है ।

पाठांतरसुपजीव्य भ्रमंति केचिद् वृथैव संतोऽपि ।

सर्वेषामपि लेषामतः परं भ्रांतिविगमोऽस्तु ॥ ६ ॥

टिप्प—अतः सर्वरहस्यकोविदा अमृतरसे कल्पनाविषपूर्ण न्यस्य-
मानं दूरतस्त्यक्त्वा जिनसमयार्णवानुसारसिका उमास्वातिमपि स्वती-
र्थिक इति स्मरतोऽनंतसंसारापाशं पतिष्यद्भिर्विंशदमपि कलुषीकर्तुं कामैः
सह निहृवैः संगं मारुर्कुर्वन्निति ।

भावार्थ—कुछ संत पुरुष भी पाठान्तरका उपयोग करके—उसे व्यवहारमें
लाकर—वृथा ही भ्रमते हैं, उन सबकी भ्रान्तिका इसके बादसे विनाश होवे ।

अतः जो मर्वरहस्यको जाननेवाले हैं और जिनागमसमुद्रके ग्रन्थसरण-रमिक
हैं वे अमृतरसमें न्यस्यमान कल्पना-विषपूरको दूरसे ही त्याग कर, उमास्वातिको
भी स्वतीर्थिक स्मरण करते हुए, अनन्त ससारके जालमें पड़नेवाले उन
निहृवोंके साथ संगति न करें—कोई सम्पर्क न रखें—जो विशदको भी कलुषित
करना चाहते हैं ।

(११) उक्त ७ पदों और उनकी टिप्पणीमें टिप्पणकारने अपने साम्प्रदायिक
कट्टरतासे परिपूर्ण हृदयका जो प्रदर्शन किया है—स्वसम्प्रदायके आचार्योंको ‘सिंह’
तथा ‘विद्याओंके राजाधिराज’ और दूसरे सम्प्रदायवालोंको ‘कुत्ते’ तथा ‘दुरात्मा’
बतलाया है, अपने दिगम्बर भाइयोंको ‘परतीर्थिक’ अर्थात् भ०महावीरके तीर्थंको
न माननेवाले ग्रन्थमती लिखा है और साथ ही अपने इवेताम्बर भाइयोंको यह
आदेश दिया है कि वे दिगम्बरोंकी संगति न करे अर्थात् उनसे कोई प्रकारका सम्पर्क
न रखें—उस सबकी आलोचनाका यहाँ कोई अवसर नहीं है, और न यह बतलाने
की ही जरूरत है कि इवेताम्बरसिहोने कौन कौन दिगम्बर ग्रंथोंका अपहरण किया
है और किन किन ग्रंथोंको आदरके साथ ग्रहण करके अपने अपने ग्रन्थोंमें उनका
उपयोग किया है, उल्लेख किया है और उन्हें प्रमाणामें उपस्थित किया है । जो
लोग परीक्षात्मक, आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक साहित्यको बराबर पढ़ते रहते
हैं उनसे ये बातें छिपी नहीं हैं । हाँ, इतना ज़रूर कहना होगा कि यह सब ऐसे
कलुषितहृदय लेखकोंकी लेखनी अथवा साम्प्रदायिक कट्टरताके गहरे रंगमें रो
हुए कथायाभिभूत साधुओंकी कर्तृतका ही परिणाम है—नतीजा है—जो भ्रस्तें
एक ही पिता की संतानरूप भाइयोंमें—दिगम्बरों-इवेताम्बरोंमें—परस्पर
मनमुटाव चला जाता है और पारस्परिक कलह तथा विसंवाद शान्त होनेमें नहीं

आता ! दोनों एक दूसरेपर कीचड़ उछालते हैं और विवेकको प्राप्त नहीं होते !! वास्तवमें दोनों ही बहुधा अनेकान्तकी ओर पीठ दिये हुए हैं और उस समीचीन-हृषि—अनेकान्तहृषि—को मुलाए हुए हैं जो जैनशासनकी जान तथा प्राण है और जिससे अबलोकन करनेपर विरोध ठहर नहीं सकता—मनमुटाव कायम नहीं रह सकता । यदि ऐसे लेखकोंको अनेकान्तहृषि प्राप्त होती और वे जैन-नीतिका अनु-सरण करते होते तो कदापि इस प्रकारके विषबीज न बोते । लेद है कि दोनों ही सम्प्रदायोंमें ऐसे विषबीज बोनेवाले तबा द्वेष-कथायकी अभिनिको भड़कानेवाले होते रहे हैं, जिसका कटुक परिणाम आजकी सन्तानको भुगतना पड़ रहा है !! अतः वर्तमान वीरसन्तानको चाहिये कि वह इस प्रकारकी देष्टमूलक तहरीरों—पुरानी अथवा आधुनिक लिखावटों—पर कोई ध्यान न देवे और न ऐसे जैननीतिविशद आदेशोपर कोई अमल ही करे । उसे अनेकान्तहृषिको अपनाकर अपने हृदयको उदार तथा विशाल बनाना चाहिए, उसमें विवेकको जागृत करके साम्प्रदायिक मोहको दूर भगाना चाहिए और एक सम्प्रदायवालोंको दूसरे सम्प्रदायके साहित्यका प्रेमपूर्वक तुलनात्मक हृषिसे अध्ययन करना चाहिये, जिससे परस्परके गुण-दोष मालूम होकर सत्यके प्रहरणकी ओर प्रवृत्ति होसके, हृषिविवेककी उपलब्धि होसके और साम्प्रदायिक संस्कारोंके वश कोई भी एकांगी अथवा ऐकान्तिक निरर्णय न किया जासके; फलतः हम एक दूसरेकी भूलों अथवा त्रुटियोंको प्रेमपूर्वक प्रकट कर सकें, और इस तरह परस्परके वैर-विरोधको समूल नाश करनेमें समर्थ होसकें । ऐसा करनेपर ही हम अपनेको बीरसंतान कहने और जैनशासनके अनुयायी बतलानेके अधिकारी हो सकेंगे । साथ ही, उस उपहासको मिटा सकेंगे जो अनेकान्तको अपना सिद्धान्त बनाकर उसके विशद आचरण करनेके कारण लोकमें हमारा हो रहा है ।



११

श्वेता तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यकी जाँच



जैनसमाजमें उमास्वाति अथवा उमास्वामीकी इतिरूपसे जिस तत्त्वार्थसूत्रकी प्रसिद्धि है उसके मुख्य दो पाठ पाये जाते हैं—एक दिगम्बर और दूसरा श्वेताम्बर। दिगम्बर सूत्रपाठदो सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ बतलाया जाता है, जो दिगम्बरसमाजमें सर्वत्र एकरूपमें प्रचलित है, और श्वेताम्बर सूत्रपाठको भाष्यमान्य सूत्रपाठ कहा जाता है, जो श्वेताम्बर समाजमें प्राय करके प्रचलित है, परन्तु कही कही उसमें अच्छा उल्लेखनीय भेद भी पाया जाता है ॥ १ ॥ भाष्यकी बाबत श्वेतो समाजका दावा है कि वह 'स्वोपज्ञ' है—स्वयं सूत्रकारका ही रूप हुआ है। साथ ही यह भी दावा है कि मूल सूत्र और उसका भाष्य ये दोनों बिल्कुल श्वेताम्बरश्रुतके प्रनुक्त हैं—श्वेताम्बर आगमोंके आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है, और इसलिये सूत्रकार उमास्वाति श्वेताम्बर-परम्पराके थे ॥ १ ॥

॥ देखो, 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति' नामका लेख, (न० १०) जो पहले धनेकान्त वर्ष ३ किरणा १ (बीरशासनाङ्क) में प्रकाशित हुआ था, तथा ५० सुखलालजीके तत्त्वार्थ-सूत्र-विवेचनकी प्रस्तावनाका पृष्ठ ८४-८५ ।

† श्वेतो समाजके असाधारण विदान् ५० सुखलालजी अपने तत्त्वार्थसूत्रके सेखकीय बक्तव्यमें लिखते हैं—“उमास्वाति श्वेताम्बर-परम्पराके थे और उनका सभाष्य तत्त्वार्थसूत्र सचेतपालके श्रुतके आधार पर ही बना है ।”

दावेकी ये दोनों बातें कहीं तक ठीक हैं— सूत्रसूत्र, उसके भाष्य और इवेताम्बरीय आगमों परसे इनका पूरी तौर पर समर्थन होता है या कि नहीं, इस विषयकी जाँचको पाठकोंके सामने उपस्थित करना ही इस लेखका मुख्य विषय है।

सूत्र और भाष्य-विरोध

सूत्र और भाष्य जब दोनों एक ही आचार्यकी कृति हो तब उनमें परस्पर असंगति, अर्थभेद, भत्तभेद अथवा किसी प्रकारका विरोध न होना चाहिये । और यदि उनमें कहींपर ऐसी असंगति, भेद, अथवा विरोध पाया जाता है तो कहना चाहिए कि वे दोना एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं—उनका कर्ता भिन्न भिन्न है—और इसलिये सूत्रका वह भाष्य ‘स्वोपन’ नहीं कहला सकता । इवेताम्बरोंके तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और उसके भाष्यमें ऐसी असंगति भेद अथवा विरोध पाया जाता है, जैसा कि नीचेके कुछ नमूनोंसे प्रकट है—

(१) इवेताम्बरीय सूत्रपाठमें प्रथम अध्यायका २३ वा सूत्रनिम्न प्रकार है—

यथोक्तनिमित्त षड्विकन्यः शेषाण्म् ।

इसमें अवधिज्ञानके द्वितीय भेदका नाम ‘यथोक्तनिमित्त’ दिया है और भाष्यमें ‘यथोक्तनिमित्त क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थं ऐमा लिखकर ‘यथोक्तनिमित्त’ का प्रर्थं ‘क्षयोपशमनिमित्त’ बनलाया है, परन्तु ‘यथोक्त’ का अर्थं ‘क्षयोपशम’ किसी तरह भी नहीं बनता । ‘यथोक्त’ का सर्वमाधारण अर्थं होता है—‘जैसा कि कहा गया’, परन्तु पूर्ववर्ती किसी भी सूत्रमें ‘क्षयोपशमनिमित्त’ नामसे अवधिज्ञानके भेदका ‘षट्कृत्तुल्लेख नहीं है और न कही ‘क्षयोपशम’ शब्दका ही प्रयोग आया है, जिसमें ‘यथोक्त’ के साथ उसकी अनुवृत्ति लगाई जा सकती । ऐसी हालतमें ‘क्षयोपशमनिमित्त’ के अर्थमें ‘यथोक्तनिमित्त’का प्रयोग सूत्रमदभवे साथ असंगत जान पड़ता है । इसके सिवाय, ‘द्विविधोऽवधिः’ इस २१वें सूत्रके भाष्यमें निखा है—‘भवप्रत्यय क्षयोपशमनिमित्तश्च’ और इसके द्वारा अवधिज्ञानके दो भेदोंके नाम क्रमशः भवप्रत्यय और ‘क्षयोपशमनिमित्त’ बतलाये हैं । २२वें सूत्र ‘भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्’ में अवधिज्ञानके प्रथम भेदका वर्णन जब भाष्यनिर्दिष्ट नामके साथ किया गया है तब २३वें सूत्रमें उसके द्वितीय भेदका वर्णन भी भाष्यनिर्दिष्ट नामके साथ होना चाहिये था और तब उम

सूत्रका रूप होता—“क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्”, जैसा कि दिगम्बर सम्प्रदायमें मान्य है। परन्तु ऐसा नहीं है, अत उक्त सूत्र और भाष्यकी असगति स्पष्ट है और इसलिये यह कहना होगा कि या तो ‘यथोक्तनिमित्त पदका प्रयोग ही गलत है और या इसका जो वर्ण ‘क्षयोपशमनिमित्त’ दिया है वह गलत है तथा २१वे सूत्रके भाष्यमें ‘यथोक्तनिमित्त नामको न दकर उसके स्थानपर ‘क्षयोपशमनिमित्त’ नामका दना भी गलत है। दोनों ही प्रकारमें सूत्र और भाष्यकी पारस्परिक असगतिमें कोई अन्तर मालूम नहीं होता।

(२) इवे० सूत्रपाठके छठे अध्यायका छाता सूत्र है—

“इन्द्रियकषायाऽब्रतक्रिया पञ्चतुःपञ्चपञ्चविशतिसंख्याः पूर्वस्य
भेदा ।”

दिगम्बर सूत्रपाठमें इसीको न० ५ पर दिया है। यह सूत्र इवेताम्बराचार्य हरिभद्रकी टीका और सिद्धसेनगणीकी टीकामें भी इसी प्रकारमें दिया हुआ है। इवेताम्बरगणकी उस पुरानी सटिप्पण प्रतिमें भी इसका यही रूप है जिसका प्रथम परिचय अनेकान्तके तृतीय वर्षकी प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है। इस प्रामाणिक सूत्रपाठके अनुसार भाष्यमें पहले इन्द्रियका, तदनन्तर क्षयायका और फिर अब्रतका व्याख्यान होता चाहिये या परन्तु ऐसा न होकर पहले ‘अब्रत का और अब्रनवाले तृतीय स्थानपर इन्द्रियका व्याख्यान पाया जाता है। यह भाष्यपढ़तिको देखते हुए सूत्रत्रूपलघुन नामकी एक असगति है जिसे मिद्दसेनगणीने अन्य प्रकारसे दूर करनेका प्रयत्न कियाहै जैसा वि ५० मुख्लालजी-के उक्त तत्त्वार्थसूत्रवीं सूत्रपाठसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्न टिप्पणी (पृ० १२२)-से भी पाया जाता है —

“मिद्दसेनको मृत्र और भाष्यकी यह असगति मालूम हुई है और उन्होंने इसको दूर करनेकी कोशिश भी की है।”

परन्तु जान पड़ता है ५० मुख्लालजीको सिद्धसेनका वह प्रयत्न उचित नहीं जैवा, और इसलिये उन्होंने मूलसूत्रमें उस सुधारको इष्ट किया है जो उसे भाष्यके अनुरूप रूप देकर ‘अब्रतकषायेन्द्रियक्रिया’ पदसे प्रारम्भ होनेवाला बनाता है। इस तरह पर यथोपशमनिमित्त सूत्र और भाष्यकी उक्त असंगतिको कही कही

पर सुधारा गया है, परन्तु सुधारका यह कार्य बादकी कृति होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि सूत्र और भाष्यमें उक्त असंगति नहीं थी।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि एवेताम्बरीय आगमादि पुरातनभाष्योंमें भी साम्प्रायिक आत्मवके भेदोंका निर्देश इन्द्रिय, कथाय, अक्षत योग और क्रिया इस सूत्रनिर्दिष्ट क्रमसे पाया जाता है; जैसाकि उपाध्याय मुलि श्रीआत्मारामजी द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय'में उद्घृत स्थानांगसूत्र और नवतत्त्वप्रकरणके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“ पंचिदिया पण्णत्ता … चत्तारिकसाया पण्णत्ता … पंचअविरय पण्णत्ता … पंचबीसा किरिया पण्णत्ता … । ”

—स्थानांग स्थान २, उद्देश्य १ सू० ६० (?)

“ इन्दियकसायअव्ययजोगा पंच चउ पंच तिन्नि कमा । ”

किरियाओं पण्णबीसं इमाओं ताओ अणुकमसो ॥”

—नवतत्त्वप्रकरण

इससे उक्त सुधार वैसे भी समुचित प्रतीत नहीं होता, वह आगमके विरुद्ध पड़ेगा। और इस तरह एक असंगतिसे बचनेके लिये दूसरी असंगतिको आमन्त्रित करना होगा।

(३) चौथे अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है—

“इन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिश-पारिषद्या ५५त्मरच्छ-खोकपाला-अनीक-प्रकीर्णका-५५भियोग्य-किल्विषिकाश्चैकशः । ”

इस सूत्रमें पूर्वसूत्रके निर्देशानुसार देवनिकायोंमें देवोंके दश भेदोंका उल्लेख किया है। परन्तु भाष्यमें 'तत्त्वाया' शब्दके साथ उन भेदोंको जो गिनाया है उसमें दशके स्थानपर निम्न प्रकारसे ग्यारह भेद दे दिये हैं:—

“तत्त्वाया, इन्द्राः सामानिकाः त्रायस्त्रिशाः पारिषद्याः आत्मरच्छः खोकपालाः अनीकाधिपतयः अनीकानि प्रकीर्णकाः आभियोग्याः किल्विषिकाश्चेति । ”

इस भाष्यमें 'अनीकाधिपतयः' नामका जो भेद दिया है वह सूत्रसंगत नहीं है। इसीसे सिद्धसेनगरणी भी सिद्धते हैं कि—

‘सूत्रे चानीकाम्येवेषाचालिः सूत्रिणा लानीकाम्यिपत्वः । भाष्यमेवुभ्यु-
पन्थस्ता: ।’

प्रथात्—सूत्रमें तो आचार्यान्ते अनीकाम्येका ही ग्रहण किया है, अनीकाम्यिप-
तियोंका नहीं। भाष्यमेवुभ्युपन्थः उक्त्यस्तु किम् तथा है ।

इससे सूत्र और भाष्यका जो विरोध आता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिद्धहेतुपाणीने इस विरोधस्तुतु परिमार्जन करते के, सिद्धे जो यह लिखते ही हैं कि ‘भाष्यकारने अनीकों और अनीकाम्यिपत्वियोंके एकत्रका विवरण ऐसा भाष्य कर दिया जान पड़ता है ०’, वह ठीक मालूम नहीं होती; क्योंकि अनीकों और अनीकाम्यिपत्वियोंकी एकत्रका वैसा विचार यदि भाष्यकारके ध्यानमें होता तो वह अनीकों और अनीकाम्यिपत्वियोंके लिये अलग अलग पदोंका प्रयोग करके संख्यामें इनको उत्पन्न न करता। भाष्यमें तो दोनोंका स्वरूप भी फिर अलग अलग दिया गया है जो दोनोंकी भिन्नताका घोलन करता है। यों तो देव और देवाम्यिपति (इन्द्र) यदि एक हों तो फिर ‘इन्द्र’ का अलग भेद करना भी व्यर्थ ठहरता है; परन्तु दश भेदोंमें इन्द्रकी अलग गणना की गई है, इससे उत्तर कल्पना ठीक मालूम नहीं होती। यित्तेक्ष्वानी अपनी इस कल्पना पर हड मालूम नहीं होते, इसीसे उन्होंने आगे चलकर लिख दिया है—“अन्यथा वा दशसंख्या भिन्नेत्”—प्रथमा यदि ऐसा नहीं है तो दशकी संख्याका विरोध आता है ।

(४) श्वेतसूत्रपाठके चौथे अध्यायका २६ वा सूत्र निम्न प्रकार है—

‘सारस्वतादित्यवन्त्यारुणगर्दतोष्टुषिताऽथ्यावाधमरुतोऽरित्याश्च ।’

इसमें लोकान्तिक देवोंके सारस्वत, आदित्य, वन्हि, अरुण, गर्वतोष, तुषित, अव्यावाध, मरुत और अरित्य; ऐसे नव भेद बतलाये हैं, परन्तु भाष्यकारने सूत्र-
सूत्रके भाष्यमें और इस सूत्रके भाष्यमें भी लोकान्तिक देवोंके भेद आठ ही बतलाये हैं और उन्हें पूर्वादि आठ दिशा-विदिकाश्रोंमें स्थित् सूचित किया है;
जैसाकि दोनों सूत्रोंके निम्न भाष्योंसे प्रकट है :—

“असात्मेकं अरित्याऽष्टासु दिशुः अष्टदिक्षाम् भाष्यमिति । तत्पत्र—”

“तत्पत्रमेवानीकानीकाम्यिपत्वोः परिभिन्न्य विश्वत्तेषां भाष्यमर्थादेव ।”

“एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु
प्रदक्षिणं भवन्ति यथासंख्यम् ।”

इससे सूत्र और भाष्यका भेद स्पष्ट है। सिद्धसेनगणी और प० सुखलाल-
जीने भी इस भेदको स्वीकार किया है, जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे
प्रकट है—

“नन्देवभेदे नवभेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा इति
मुद्रिता ।”

“इन दो सूत्रोंके मूलभाष्यमें लोकान्तिक देवोंके आठ ही भेद उल्लेख हैं,
नव नहीं ।”

इस विषयमें सिद्धसेनगणी तो यह कहकर छुट्टी पागये हैं कि लोकान्तरमें
रहने वालोंके ये आठ भेद जा भाष्यकार सूरिने अगीकार किये हैं वे रिष्टविमानके
प्रस्तारमें रहनेवालोंकी अपेक्षा नवभेदरूप हो जाते हैं, आगममें भी नव भेद कहे
हैं, इससे कोई दोष नहीं। परन्तु मूल सूत्रमें जब स्वयं सूत्रकारने नव भेदोंका
उल्लेख किया है तब अपन ही भाष्यमें उन्होन नव भेदोंका उल्लेख न करके
आठ भेदोंका ही उल्लेख क्यों किया है, इसकी वे कोई माफूल (युक्तियुक्त)
बाधा नहीं बतला सके। इसीसे शायद प० सुखलालजीको उस प्रवारसे
कहकर छुट्टी पा लेना उचित नहीं जैंचा, और इस लिये उन्होन भाष्यकी स्वोप-
ज्ञतामें बाधा न पड़ने देनेके सवालसे यह कह दिया है कि—“यहाँ मूल सूत्रमें
'अन्तो' पाठ पीछेसे प्रक्षित हुआ है ।” परन्तु इसके लिये वे कोई प्रमाण
उपस्थित नहीं कर सके। जब प्राचीनसे प्राचीन इवेताम्बरीय टीकामें मरुतों
पाठ स्वीकृत किया गया है तब उसे यो ही दिगम्बर पाठकी बातको सेकर
प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता।

सूत्र तथा भाष्यके इन चार नमूनों और उनके उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि
सूत्र और भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी हृति नहीं हैं, और इसलिये श्वेत-
भाष्यको 'स्वोपन' नहीं कहा जा सकता।

“उच्यते—लोकान्तरतिनः एतेष्टवेदा सूरिरेषाताः, रिष्टविमानप्रस्तारक-
तिमिन्नेवधा भवन्तीत्यद्योषः । आगमे तु नववैदाधीता इति ।”

यहाँपर मैं इतना भी भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थसूत्रपर इन-
ताम्बरोंका एक पुराना टिप्पण है, जिसका परिचय अनेकान्तके बीरसासनाम्
(वर्ष ३ कि० १ पृ० १२१-१२८) में प्रकाशित हो चुका है। इस टिप्पणके
कर्ता रत्नसिंह सूरि बहुत ही कटूर साम्राज्यिक वे और उनके सामने भाष्य ही
नहीं किन्तु सिद्धसेनकी भाष्यानुसारिणी टीका भी थी, जिन दोनोंका टिप्पणमें
उपयोग किया गया है, परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भाष्यको
‘स्वोपन्न’ नहीं बतलाया। टिप्पणके अन्तमें ‘दुर्वादापहार’ रूपसे जो सात पद
दिये हैं उनमें प्रथम पद और उसके टिप्पणमें, साम्राज्यिक-कटूरताका कुछ
प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भाष्यकारका जिन शब्दोंमें स्मरण किया है वे निम्न
प्रकार हैं:—

“प्रागेवैतददक्षिण-भषण-गणादास्यमानमिति मत्या ।

त्रात समूल-चूलं स भाष्यकारशिवरं जीयात् ॥ १ ॥

टिप्पण— ‘दक्षिणो सरलोदाराविति हेमः’ अदक्षिणा असरलाः स्व-
चनस्यैव पक्षपातमलिना इति यावत् एव भषणः कुर्कुरास्तेवां गणैरैर-
दास्यमानं प्रहित्यमानं स्वायत्त्वीकरित्यमानमिति यावत्तथाभूतमिवैत-
स्तत्वार्थसास्त्रं प्रागेत्रं पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेष । सहमूलचूलाभ्या-
मिति समूच्चूलं त्रात रक्षित स कश्चिद् भाष्यकारो भाष्यकर्ता विर दीर्घ-
जीयाख्यायं गम्यादित्याशीर्वचोऽस्माकं लेखकानां निमलग्रन्थरक्षकाय प्राग्व-
चन-चीरिकायामशक्यायेति ।”

इन शब्दोंका भावार्थ यह है कि—‘जिसने इस तत्त्वार्थशास्त्रको अपने ही बचन-
के पक्षपातसे मलिन अनुदारा कुत्तोके ‘समूर्होदारा प्रहीष्यमान-जैसा जानकर—यह
देखकर कि ऐसी कुत्ता-प्रकृतिके बिद्वान लोग इसे अपना अधिवा अपने सम्राज्यका
बनाने वाले हैं—यहले ही इस शास्त्रकी मूल-चूलं सहित-रक्षा की है—इसे ज्यों-
का त्यों देवेताम्बरसम्राज्यके उमास्वातिकी कृतिरूपमें ही कायम रखा है—वह
(अज्ञातनामा) भाष्यकार चिरंजीव होवे—चिरकाल तक जयको प्राप्त होवे—
ऐसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोंका उस निमंलग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन-
बचनोंकी ओरीमें असम्बद्धके प्रति आशीर्वाद है।’

जहाँ बहुतलालगड़ वाला न मैकर उसके लिये 'सप्तादिष्ट' (मह कोई) बहुतलालगड़ लिखा है, जब कि मूल शून्यकारको नाम 'उमास्वाति' कर्दे स्वाक्षरता अपने लिखते दिया है। इससे साफ ध्वनित होता है कि टिप्पणीकारको बहुतलालगड़ नाम मालूम नहीं था और वह नसे मूल शून्यकारसे विभ समझता था, भाष्यकारको 'विमलप्रभावरक्षकाय' विशेषणके साथ 'प्राप्तवचन-चौरिकायसम्-शास्त्राच' विशेषण भी इसी बातको सूचित करता है। इसके 'प्राप्तवचन' का बास्तव तत्त्वार्थसूत्र जान पड़ता है—जिसे प्रथम विशेषणमें 'निर्वलप्रभाव' कहा गया है, भाष्यकारने उसे चुनाकर प्रपना नहीं बनाया—जह अपनी मन-परिणामिके कारण ऐसा करनेके लिये असमर्थ था—यही असमय यहाँ व्यक्त किया गया है। अन्यथा, उमास्वातिके लिये इस विशेषणकी कोई ज़रूरत नहीं थी—यह उनके लिये किमी तरह भी ठीक नहीं बैठता। साथ ही, 'अपन ही बचनके पकापातसे मलिन अनुशार कुतोके समूहोद्वारा प्रहीष्यमान-जैसा जानकर' ऐसा जो कहा गया है उसमें यह भी ध्वनित होना है कि भाष्यकी रचना उस समय हुई है जब कि तत्त्वार्थसूत्रपर 'सर्वार्दिषिद्धि' आदि कुछ प्राचीन दिग्म्बर टीकाएँ बन चुकी थीं और उनके द्वारा दिग्म्बर समाजमें तत्त्वार्थसूत्रका प्रचल्य प्रचार प्रारम्भ हो गया था। इन प्रचारको देखकर ही किसी इवेताम्बर विद्वानको भाष्यके रचनेकी प्रेरणा मिली है और उसके द्वारा तत्त्वार्थसूत्रको इवेताम्बर बनान की चेतावनी दी गई है ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी हालतमें भाष्यको स्वय मूल शून्यकर उमास्वातिकी कृति बतलाना और भी असमित जान पड़ता है।

सत्र और भाष्यका आगमसे विरोध

सूत्र और भाष्य दोनोंका निर्माण यदि इवेताम्बर आगमोंके आधारपर ही हुए हो, जैसा कि दावा है, तो वेदों आगमोंके साथ उभयेसे किसीका जरा भी सहजेव, असमर्थन भवता विरोध न होना चाहिये। यदि इनमेंसे किसीमें भी कल्पीपर ऐसा मतमेव,—असमर्थन भवता विरोध पावा लाता है तो कहना होया

कि 'सत्र' का अधिप्राप्त आदि अन्तकी कारिकाओंसे जान पड़ता है, जिन्हें साथमें लेकर भीर मूलशून्यका अग मानकर ही टिप्पणी लिखा गया है।

कि उसके निर्भय का आवार पूर्णतः श्वेताम्बर आगम नहीं है, और इस लिये दावा मिथ्या है। श्वेताम्बरीय सूत्रपाठ और उसके भाष्यमें ऐसे अनेक स्थल हैं जो श्वेताम्बरों के साथ बतावेदादिको लिये हुए हैं। नीचे उनके कुछ नमूने प्रकट किये जाते हैं:—

(१) श्वेताम्बरीय आगममें मोक्षमार्गका वर्णन करते हुए उसके चार कारण बतलाये हैं और उनका ज्ञान, वर्णन, चारित्र, तप, इस क्रमसे निर्देश किया है। जैसाकि उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वें अध्ययनकी निम्न गाथाओंमें प्रकट है—

मोक्षमग्गाई तच्च सुखोह जिएभासियं ।

चक्रकारणसंजुर्तं नाश्चर्मणकलत्वस्य ॥१॥

नाशु च दंसणं चेव चरित्तं च तबो तदा ।

एस मग्नुक्तिपलण्टो जियोहि चरदंसहि ॥ २ ॥

नाशु च दंसणं चेव, चरित्तं च तबो तदा ।

पूर्व ममामूष्यता, जीवा गच्छति सोभग्दः ॥ ३ ॥

नाशेण जाश्चाई भावे दंसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिष्ठाई तवेण परिसुधर्महि ॥ ३५ ॥

परन्तु श्वेताम्बर-सूत्रपाठमें, दिग्म्बर सूत्रपाठकी तरह, नीन कारणोंका वर्णन-ज्ञान-चारित्रके क्रममें निर्देश है, जैसा कि निम्न सूत्रमें प्रकट है—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

अत यह सूत्र श्वेताम्बर आगमके साथ पूर्णतया सगत नहीं है। वस्तुतः यह विगम्बरसूत्र है और इसके द्वारा मोक्षमार्गके कथनकी उत्तर विगम्बर शैलीको अपनाया गया है जो श्रीकुन्दकुन्दादिके प्रथमें सर्वत्र पाई जाती है।

(२) श्वेताम्बरीय सूत्रपाठके प्रथम अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है—

जीवाऽजीवास्तवन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्यम् ।

इसमें जीव, प्रजीव, आस्तव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, ऐसे सात तत्त्वोंका निर्देश है। भाष्यमें भी “जीवा अजीवा अमृत्वा बन्धः संवरो निर्जरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽर्थस्तत्त्वम् एते वा सप्तपदाथर्थस्तत्त्वानि”। इन वाक्योंके द्वारा निर्देश तत्त्वोंके नामके साथ उनकी संख्या सात बताई गई है, और तत्त्व तथा पदार्थको एक सूचित किया है। परन्तु श्वेताम्बर आगममें

तत्त्व भयवा पदार्थ नव बतलाए हैं, जैसा कि 'स्वानाम' आगमके निम्न सूत्रसे प्रकट है —

"नव सञ्चाराधिष्ठाय यथा यत्त्वं नव बतलाए हैं, जैसा कि 'स्वानाम' आगमके निम्न सूत्रसे प्रकट है —

सात तत्त्वोके कथनकी शीली श्वेताम्बर आगमोमें हैं ही नहीं, इसीसे उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने तत्त्वार्थसूत्रका श्वेतो आगमके साथ जो समन्वय उपस्थित किया है उसमें वे स्वानामके उक्त सूत्रको उद्घृत करनेके सिवाय आगमका कोई भी दूसरा वाक्य ऐसा नहीं बतला सके जिसमें सात तत्त्वोकी कथनशीर्षीका स्पष्ट निर्देश पाया जाता हो। सात तत्त्वोके कथनकी यह शीली दिगम्बर है—दिगम्बर सम्प्रदायमें साततत्त्वो और नव पदार्थोका अलग अलग रूपसे निर्देश किया है॥ । दिगम्बर-सूत्रपाठमें यह सूत्र भी इसी रूपसे स्थित है । अत इम चौथे सूत्रका आधार दिगम्बरघृत जान पड़ता है— श्वेताम्बरघृत नहीं ।

(३) प्रथम अध्यायका आठवा सूत्र इस प्रकार है—

सत्सख्याक्षे त्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैत्यैच ।

इममें सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारसे अधिगम होना बतलाया है, जैसा कि आध्यके निम्न अशम भी प्रकट है—

"सत् सख्या क्षेत्रं स्पर्शनं कालः अन्तरं भावः अल्पबहुत्वमित्यैति श्वसद्भूतपदप्ररूपणादिभिरद्वाभिरनुयोगद्वारै । सर्वभावानां (तत्त्वानां) विकल्पशो विस्तराधिगमो भवति ।"

परन्तु श्वेताम्बर आगममें सत् आदि अनुयोगद्वारोंकी सख्या नव मानी है— 'भाव' नामका एक अनुयोगद्वार उसमें और है, जैसा कि अनुयोगद्वारसूत्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है, जिसे उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने भी अपने उक्त 'तत्त्वार्थसूत्र -जैनागमसमन्वय' में उद्घृत किया है—

* सञ्चविरओ वि भावहि शब्द य पयत्वादि सत्तत्वादि । —भावप्रामूल ६५

“से कि तं अगुणमे अवलिहे पशुते । तं जहा—संतपयपरुषण्या
१ दृढवपमाणं च २ स्तिं हे कुसणा य ४ कालो य ५ अंतरं ६ भाग
७ भाव द अप्पावहुं ॥५८॥ (अनु० सूत्र ८०)

इससे स्पष्ट है कि उक्त सूत्र में भाष्यका कथन वेताम्बर आगमके साथ सगत नहीं है । वास्तवमें यह दिग्म्बरसूत्र है, दिग्म्बरसूत्र पाठमें भी इसी तरहसे स्थित है और इसका आधार बट्कण्डागमके प्रथमस्तुष्ठ जीवद्वाणके निम्न तीन सूत्र हैं—

“एवेऽसि चोहसरहं जीवसमासाणं परुषणद्वाए तत्य इमाणि अडु
अणियोऽगाहाराणि शायब्वाणि भवन्ति ॥ ५ ॥ त जहा ॥ ६ ॥

संतपरुषणा दृढवपमाणागुणमो खेच्चागुणमो फोसणागुणमो
कालागुणमो अंतरागुणमो भावानुगमो अप्पावहुगागुणमो चेदि ॥५॥

बट्कण्डागममें और भी ऐसे अनेक सूत्र हैं जिनसे इन सत् आदि भाग अनुयोगद्वारोका समर्थन होता है ।

(४) श्वे० सूत्रपाठके द्वितीय भ्रष्टायमे ‘निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्’ नामका जो १७ वा सूत्र है उसके भाष्यमे ‘उपकरणं बाह्याभ्यन्तरं च’ इस वाक्यके द्वारा उपकरणके बाह्य और अभ्यन्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं, परन्तु श्वे० आगममे उपकरणके ये दो भेद नहीं माने गये हैं । इसीसे सिद्धेन गणी
अपनी टीकामें लिखते हैं—

“आगमे तु नास्ति कश्चिदन्तर्बहिर्भेदं उपकरणस्येत्याचार्यस्यैव
कुतोऽपि सम्प्रदाय इति ।”

पर्याति—आगममे तो उपकरणका कोई अन्तर—बाह्यभेद नहीं है । आचार्य-
का ही यह कहीसे भी कोई सम्प्रदाय है—भाष्यकारने ही किसी सम्प्रदाय-
विशेषकी मान्यतापरमे इसे अग्नीकार किया है ।

इससे दो बातें स्पष्ट हैं—एक तो यह कि भाष्यका उक्त वाक्य श्वे० आगम-
के साथ सगत नहीं है, और दूसरी यह कि भाष्यकारने दूसरे सम्प्रदायकी बातको
अपनाया है । वह दूसरा (वेताम्बरभिज्ञ) सम्प्रदाय दिग्म्बर हो सकता है ।
दिग्म्बर सम्प्रदायमें सर्वत्र उपकरणके दो भेद माने भी गये हैं ।

(५) भीमे अध्यात्ममें लोकान्तिक, जैवविविदास्थान 'ब्रह्मलोक' नामका चाचवा स्वग बतलाया गया है और 'ब्रह्मलोकान्तिक' लोकान्तिका' इस २९वें सूत्रके निम्न भाष्यम यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ब्रह्मलोक में रहने वाले ही लोकान्तिक होते हैं—अब स्वग उनसे परे—जैवविविदमें लोकान्तिक नहीं होते—

"ब्रह्मलोकालया एव लोकान्तिका भवन्ति नाम्यकल्पेषु नापि परत ।"

ब्रह्मलोकम रहने वाले देवोकी उत्कृष्ट स्थिति वस सागरकी और जघन्य स्थिति सातसागरसे कुछ अधिककी बतलाई गई जैसा कि सत्र न० ३७ और ४२ और उनके निम्न भाष्यांशोंसे प्रकट है—

'ब्रह्मलोके ग्रिभिरधिकानि सप्तवशेत्यर्थ ।'

"माहेन्द्रे परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा ब्रह्म लोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थिति सा लान्तवे जघन्या ।"

इसम स्पष्ट है कि सत्र तथा भाष्यके अनुसार लोकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट आयु दम मागरकी और जघन्य आयु सात सागरमे कुछ अधिककी होती है क्योंकि लोकान्तिक देवोकी आयुका अलग निर्देश करन वाला कोई विशेष सूत्र भी इवे० सत्रपाठम नहीं है । परन्तु इवे० आगमम लोकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट और जघन्य दोनो ही प्रकारकी आयु का म्यनि आठ मागरकी बतलाई है जैसाकि स्थानाग और व्याख्याप्रज्ञति के निम्न सूत्रमे प्रकट है—

'लागतिकडेवाण जहएणमुक्तोसण अद्वासागरावमाइ ठिरी पणगता ।"—स्थान द सू ६२४ व्या, शा० ६ च० ५

एसी हालतम सूत्र और भाष्य दोनो काकथन इवे० आगमके साथ भगत न होकर स्पष्ट विरोधको लिये हुए है । दिगम्बर आगमके साथ भी उसका कोई मेल नहीं है क्यों कि दिगम्बर सम्प्रदायम भी लोकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति आठ सागरकी मानी है और इसीसे दिगम्बर सत्रपाठमें

“ओकानिकानामहो सागरोपमाणि सर्वेषाम्” यह एक विशेषसूत्र लोकान्तिक देवोकी भाष्यके स्पष्ट निर्देशको लिये हुए है।

(६) जौये अव्याप्तमें,देवोकी जघन्य स्थितिका बराँन करते हुए, जो ४२वा सत्र दिया है वह भपने भाष्यसहित इस प्रकार है—

“परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥ ४२ ॥”

माध्य—“माहेन्द्रापरतः पूर्वापराऽनन्तरा जघन्या स्थितिर्भवति । तथाच । माहेन्द्रे परा स्थितिर्विशेषाधिकानि सप्तसागरोपमाणि सा ब्रह्मलोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तवे जघन्या । एवमासर्वार्थसिद्धादिति ।”

यहां माहेन्द्र स्वर्गसे बादके वैमानिक देवोकी स्थिति का बराँन करते हुए वह नियम दिया है कि भगले भगले विमानोमें वह स्थिति जक्ष्य है, जो पूर्व पूर्वके विमानोमें उत्कृष्ट कही गई है, और इस नियमको सर्वार्थसिद्ध विमानपर्यन्त लगानेका आदेश दिया गया है। इस लिखम और आदेशके अनुसार सर्वार्थसिद्ध विमानके देवोकी जघन्यस्थिति बत्तीस सागरकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी ठहरती है। परन्तु आगममें सर्वार्थसिद्धके देवोकी स्थिति एक ही प्रकारकी बतलाई है—उसमें जघन्य उत्कृष्टका कोई भेद नहीं है, और वह स्थिति तेतीस सागरकी ही है, जैसा कि श्वे० आगमके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

“सब्बहुसिद्धदेवाणि भते ! केवतिर्य कालं ठिंड परण्णता ? गोयमा ! अजहण्णुकोसेण तित्तीसं सागरोपमाणि ठिंड पण्णता ।”

—प्रश्ना० प० ४ सू० १०२

“अजहण्णुकोसा वेत्तीसं सागरोपमा ।

महाविमाणे सब्बहुठिंड एसा वियाहिया ॥२४२॥

—उत्तराध्ययनसूत्र अ० ३६

और इसलिए यह स्पष्ट है कि भाष्यका ‘एवमासर्वार्थसिद्धादिति’ वाक्य श्वे० आगमके विशद है। सिद्धसेनगणीने भी इसे महसूस किया है और इसलिये वे भपनी टीकामें लिखते हैं—

“तत्र विजयमध्यु चतुर्षु जघन्येनैकत्रिशदुल्क्षेण द्वात्रिंशत् सर्वार्थसिद्धे त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणवजघन्योत्कृष्टा स्थितिः । भाष्यकारेण तु

सर्वार्थसिद्धेऽपि जघन्या द्वार्त्रिशत्सागरोपमाष्यधीता तथा विद्याः केनाप्य-
भिप्रायेण । आगमस्तावदयम्—”

प्रधति—विजयादिक चार विमानोंमें जघन्य स्थिति इकतीस सागरकी—
उत्कृष्ट स्थिति बत्तीस सागरकी है और सर्वार्थसिद्धमें अजघन्योत्कृष्ट स्थिति
तेतीस सागरकी है । परन्तु भाष्यकारने तो सर्वार्थसिद्धमें जघन्यस्थिति बत्तीस
सागरकी बतलाई है, हमें नहीं मालूम किस अभिप्रायसे उन्होंने ऐसा कथन
किया है । आगम तो यह है—(इसके बाद प्रजापनासूत्रका वह वाक्य दिया है
जो ऊपर उद्घृत किया गया है) ।

(७) छठे अध्यायमें तीर्थंकर प्रकृति नामकर्मके आस्त्र-कारणोंको बतलाते
हुए जो सूत्र दिया है वह इस प्रकार है—

“दर्शनविशुद्धि विनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणं ज्ञानो-
पयोगसंवेगौ शक्तिस्त्याग-तपसी संघसाधुसमाधिवैयावृत्यकरणमहदा-
चार्य-बहुश्रुत-प्रवचनभक्तिरावश्य कापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्स-
लत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २३ ॥”

यह सूत्र दिगम्बर सूत्रपाठके विलक्षण समकक्ष है—मात्रसाधुसमाधिसे पहले
यहा ‘सर्व’ शब्द बढ़ा हुआ है, जिससे अर्थमें कोई विशेष भेद उत्पन्न नहीं
होता । दिं० सूत्रपाठमें इसका नम्बर २४ है । इसमें सोलह कारणोंका निवेद्य
है और वे हैं—१ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलब्रतानतिचार,
४ अभीक्षणज्ञानोपयोग, ५ अभीक्षणसंवेग, ६ यथाशक्ति त्याग, ७ यथाशक्ति
तप, ८ संघसाधुसमाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० अहङ्कारिक, ११ आचार्यभक्ति,
१२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहाणि, १५ मार्गप्रभावना,
१६ प्रवचनवत्सलत्व ।

परन्तु एताम्बर आगममें तीर्थंकरत्वकी प्राप्तिके बीस* कारण बतलाये
हैं—सोलह नहीं और वे हैं—१ अहंद्रवत्सलता, २ सिद्धवत्सलता, ३ प्रवचन-
वत्सलता, ४ शुद्धवत्सलता, ५ स्थविरवत्सलता, ६ बहुश्रुतवत्सलता, ७ तपस्ति-

* ‘पठमचरमेहि पुटा जिणहेक बीस ते इमे—

— सत्तरिसयठाणाड्डार १०

वत्सलता, ८ अभीक्षणानोपयोग, ९ दर्शननिरतिचारता, १० विनयनिरतिचारता, ११ आवश्यकनिरतिचारता, १२ शीलनिरतिचारता, १३ व्रतनिरतिचारता १४ क्षणलबसमाधि, १५ तण समाधि, १६ त्यागसमाधि, १७ वैद्याकृत्यसमाधि, १८ अपूर्वज्ञानप्रहृण, १९ श्रुतभक्ति, २० प्रवचनप्राचावना, जैसाकि 'ज्ञाताचर्य-कथाण' नामक श्वेताम्बर आगमकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है —

अरिहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुसुए तवस्सीमु ।

वच्छलया य एसि अभिक्षनाणांवचारो अ ॥ १ ॥

दंसणविणाए आवस्सए अ सीलव्वय निरहचारो ।

खण्णलवतवचियाए वेयावच्चे समाही य ॥ २ ॥

अपुठवणाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया ।

एएहिं कारणोहिं तित्थयरत्तं लहाह जीवो ॥ ३ ॥

इनमेंसे सिद्ध वत्सलता, गुरुवत्सलता, स्थविरवत्सलता, तपस्त्रि-वत्सलता, क्षणलबसमाधि और अपूर्व-ज्ञानप्रहृण नामके छह कारण तो ऐसे हैं जो उक्त सूत्रमें पाये ही नहीं जाते, जोवमेंसे कुछ पूरे और कुछ अधूरे मिलते जुलते हैं। इसके सिवाय, उक्त सूत्रमें अभीक्षणानोपयोग, साधुसमाधि और आचार्यभक्ति नामके दीन कारण ऐसे हैं जिनकी गणना इन आगमक्षयित बीस कारणोंमें नहीं की गई है। ऐसी हालतमें उक्त सूत्रका एकमात्र आधार श्वेताम्बर श्रुत (आगम) कैसे हो सकता है? इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

यहींपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भाष्यकारने प्रवचन-वत्सलत्वका 'अर्हृच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतघराणां बाल-बृद्ध-तपस्त्रि-शैक्ष-क्षानादिनां च संप्रहोपग्रहानुपहकारित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति' * ऐसा विलक्षण लक्षण करके, इसके द्वारा उक्त बीस कारणोंमेंसे कुछ सूटे हुए कारणोंका संग्रह करना चाहा है, परन्तु फिर भी वे सब का संग्रह नहीं कर सके—सिद्धवत्सलता और क्षणलबसमाधि जैसे कुछ कारण रह ही गये और कई

* अर्थात्—'अर्हृन्तदेवके शासनका अनुष्ठान करनेवाले श्रुतघरो और बाल-बृद्ध-तपस्त्रि-शैक्ष तथा ग्लानादि जातिके मुनियोंका जो संग्रह-उपग्रह-मनुग्रह करता है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है।'

विष कारणोंका भी संबंध कर गये हैं ! इस विषयमें तिढ़ुसेनगणी लिखते हैं—

“विशते: कारणानां सूतकारेण किञ्चित् सुत्रे किञ्चिद्भाष्ये किञ्चित्
आदिमहणात् सिद्धपूजा-खण्डवच्छानभावनाख्यमुपात्तम् उपगुञ्य च
प्रवर्त्ता व्याख्येकम् ।”

अर्थात्—बीस कारणोंमें सूतकारने कुछका सूतमें कुछका भाष्यमें और
कुछका—सिद्धपूजा खण्डवच्छानभावनाका—‘आदि’ पादके प्रहृणद्वारा संबंध
किया है, वक्ताको ऐसी ही व्याख्या करनी चाहिये ।

इस तरह आवश्यके साथ सूतकी असत्तिको दूर करनेका कुछ प्रयत्न किया
गया है, परन्तु इस तरह इसांगति दूर नहीं हो सकती—सिद्धसेनके कथनसे इतना
तो स्पष्ट ही है कि सूतमें बीतों कारणोंका उल्लेख नहीं है । और इसलिये उक्त
सूतका आवश्यक व्येतान्वर श्रुत नहीं है । बास्तवमें इस सूतका प्रधान आवश्यक
दिगम्बर श्रुत है, दिगम्बर सूतकालके यह विस्तृत समकाल है इतना ही नहीं
बल्कि दिगम्बर आमनायमें आमतीर वर जिन सोलह कारणोंकी आन्यता है
उन्हींका इसमें निर्देश है । दिगम्बर खट्टकालागमके निम्नसूत्रसे भी इसका अन्ति
प्रकार समर्थन होता है—

“दं सणविसुज्ज्ञदाए विणयसंपण्णदाए सीलवदेषु णिरदिचारदाए
आवासएसु अपरिणीणदाए खण्डवपरिबुज्ज्ञदाए लद्विसंवेगसंपरणदाए
यथागमे तथा तवे साहूण पासुअपरिज्ञागदाए साहूण समाहिसंधारणाए
साहूणे वेजावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुमुदभत्तीए पवयण-
भत्तीए पवयणवच्छालदाए पवयणप्रमावणाए अभिक्षणं णाण्णवजोग-
जुत्तदाए इच्छेदेहि सोलसहि कारणोहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्भ
वर्धति ।”

१-४१

इस विषयका विशेष ऊँहापोह पं० फूलचंदजी आस्तीने अपने ‘तत्त्वार्थसूत्रका
पन्तःपरीक्षण’ नामक लेखमें किया है, जो चौथे वर्षके अन्तेकान्तकी किरण १३-
१२ (शृङ् १८३-५८) में प्रकाशित हुआ है । इसीसे यहां अधिक विस्तृतकी जरूरत
नहीं समझी गई ।

(८) सातवें अध्याये की १६ वीं सूत इस प्रकार है—

“दिग्गुणवर्णदशविरतिसामाविक्षेषोपवासोपभोगवरिमोगपरिमाणाऽतिविसंविभागव्रतसम्पन्नरथ ।”

इस सूत्रमें तीन गुणवत्तों और चार विकावतोंके भेदबाले सात उत्तर-व्रतोंका निर्देश है, जिन्हे धीलव्रत भी कहते हैं। गुणवत्तोंका निर्देश पहले और विकावतोंका निर्देश बादमें होता है, इस हिले इस सूत्रमें प्रथम निर्दिष्ट हुए विकावत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत ये तीन तो गुणवत हैं, शेष सामायिक, प्रोष्ठोपवास, उपभोगपरिमोगपरिमाण और अतिविसंविभाग, ये चार विकावत हैं। परन्तु इतेताम्बर भागमें देशव्रतोंको गुणवतोंमें न लेकर विकावतोंमें लिया है और इसी तरह उपभोगपरिमोगपरिमाणव्रतका ब्रह्मण विकावतोंमें न करके गुणवतोंमें किया है। जैसा कि इतेताम्बर भागमें निम्न सूत्रमें प्रकट है—

“आगारधन्मन्त्र दुवालसविह आइक्लवइ, तं जहा—पञ्चगुञ्जव्याइ तिविण्ण गुणव्यव्याइ चत्तारि सिक्खावयाइ । तिष्णा गुणव्यव्याइ, तं जहा-अणत्थदंडवेरमण, दिसिव्यव्य, उपभोगपरिमोगपरिमाण । चत्तारि सिक्खावयाइ, तं जहा—सामाइय, देसावगासिय, पोमहोपवासे, अति-हिसविभागे ।”

—शौपपातिक श्रीवीरदेशना सूत्र ४७

इसमें तत्त्वार्थशास्त्रका उक्त सूत्र इतेताम्बर भागमें साथ सगत नहीं, यह स्पष्ट है। इस असमितिको सिढमेनगरस्तीने भी अनुभव किया है और अपनी टीकामें यह बताते हुए कि ‘आर्थं (प्राप्तम्) मे तो गुणवतोंका क्रमसे आदेश करके विकावतोंका उपदेश दिया है, किन्तु सूत्रकारने अन्यथा किया है’, यह प्रश्न उठाया है कि सूत्रकारने परमार्थं वचनका किसलिये उल्लंघन किया है? जैसा कि निम्नटीका बाब्यसे प्रकट है—

“सम्प्रति क्रमनिर्दिष्ट देशव्रतमुच्यते । अत्राह वस्त्रति भवान् देश-व्रतं । परमार्थवचनक्रमः कैमात्यादिभिन्नः सूत्रकारेण ॥ आर्थं तु गुणवतानि क्रमेणादित्य विकावतान्मुपविष्टानि सूत्रकारेण त्वन्यथा ।”

इसके बाद प्रश्नके उत्तररूपमें इस असंगतिको दूर करने अवश्य उस पर कुछ पर्वा डालनेका बल किया गया है, और वह इस प्रकार है—

‘तत्रायमभिप्रायः—पूर्वतो योजनशतपरिभित्रुं गमनमभिगृहीतम् । न चास्ति सम्भवो यत्प्रतिदिवसं तावसी दिवगच्छाणा, ततस्तदनन्तर-मेवोपदिष्ट देशब्रतमिति देशो-भागेऽवस्थान प्रतिदिनं प्रतिप्रहरं प्रतिक्षण-मिति सुखबोधार्थमन्यथा क्रमः ।’

इसमें अन्यथाक्रमका यह अभिप्राय बतलाया है कि — पहलेसे किसीने १०० योजन परिमाण दिशागमनकी मर्यादा ली परन्तु प्रतिदिन उनी दिशाके अवगाहनका सम्भव नहीं है, इसलिये उसके बाद ही देशब्रतका उपदेश दिया है । इससे प्रतिदिन, प्रतिप्रहर और प्रतिक्षण पूर्वगृहीत मर्यादाके एक देशमें—एक भागमें अवस्थान होता है । अत सुखबोधार्थ—सरलतासे समझानेके लिए यह अन्यथाक्रम स्वीकार किया गया है ।

यह उत्तर बच्चोंको बहकाने जैसा है । समझमें नहीं आता कि देशब्रतको सामायिकके बाद रखकर उमका स्वरूप वहां बतला दनेसे उसके सुखबोधार्थमें कौनसी अडचन पड़ती अथवा कठिनता उपस्थित होती थी और अडचन अथवा कठिनता आगमकारको क्या नहीं सूझ पड़ी ? क्या आगमकारका लक्ष्य सुख-बोधार्थ नहीं था ? आगमकारने तो अधिक शब्दोमें अच्छी तरह समझाकर—भैदोपभेदका बतलाकर लिखा है । परन्तु बात वास्तवमें सुखबोधार्थ अथवा मात्र क्रमभेदकी नहीं है क्रमभेद तो दूमरा भी माना जाना है—आगममें अनर्थ-दण्डब्रतको दिग्दण्डनमें भी पहले दिया है, जिसकी सिद्धेन गशीने कोई चर्चा नहीं की है । परन्तु वह क्रमभेद गुणब्रत-गुणब्रतका है, जिसका विशेष महत्व नहीं, यहा तो उम क्रमभेदकी बान है जिसमें एक गुणब्रत शिक्षाब्रत और एक शिक्षाब्रत गुणब्रत हो जाता है । और इसलिए इस प्रकारकी असमति सुखबोधार्थ कह देने मात्रसे दूर नहीं हो सकती । अत स्पष्ट कहना होगा कि इसके द्वारा दूसरे शासनभेदको अपनाया गया है । आचार्यों-आचार्योंमें इस विषयमें कितना ही मतभेद रहा है । इसके लिए लेखकका ‘जैनाचार्योंका शासनभेद’ ग्रन्थ देखना चाहिए ।

(६) आठवें अध्यायमें ‘गनिजाति’ आदिरूपसे नामकर्मकी प्रकृतियोका जो भूम्भ है उसमें ‘पर्याप्ति’ नामका भी एक कर्म है । भाष्यमें इस ‘पर्याप्ति’ के पाच ऐसे निम्न प्रकारमें बतलाए हैं—

**“पर्याप्तिः पंचविदा । तद्यथा—आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः
इन्द्रियपर्याप्तिः प्राणापानपर्याप्तिः भाष्यपर्याप्तिरिति ।”**

परन्तु दिगम्बर आगमकी तरह इवेताम्बर आगममें भी पर्याप्तिके छह भेद माने गये हैं—छठा भेद मन-पर्याप्तिका है, जिसका उक्त भाष्यमें कोई उल्लेख नहीं है । और इम लिये भाष्यका उक्त कथन पूर्णत इवेताम्बर आगमके अनुकूल नहीं है । इस असर्वतिको सिद्धमेनगणीने भी अनुभव किया है और अपनी टीकामें यह प्रश्न उठाया है कि ‘परमार्थवचन (आगम) में तो षट् पर्याप्तिया प्रसिद्ध हैं, फिर यह पर्याप्तियोकी पाच सूख्या कौमी ?’, जैमा कि टीकाके निम्न बाक्यमें प्रकट है—

**‘ननु च षट् पर्याप्तियः पारमार्थवचनपनिद्वा. कथं पंचसूख्याका ?
इति’ ।**

बादको इसके भी समाधानका बेसा ही प्रयत्न किया गया है जो किसी तरह भी हृदय-प्राप्त नहीं है । यणीजी लिखते हैं—“इन्द्रियपर्याप्तिनग्रहणादिह
मनःपर्याप्तिरपि प्रदर्शनमवस्थेयम् ।” अर्थात् इन्द्रियपर्याप्तिके प्रदर्शनमें यदि मन-पर्याप्तिका भी प्रदर्शन समझ लेना चाहिये । परन्तु इन्द्रियपर्याप्तिमें यदि मन-पर्याप्तिका भी सममन वेश है औरपर्याप्ति कोई अलग चीज नहीं है तो आगम में मन पर्याप्तिका अलग निर्देश क्यों किया गया है ? और सूत्रमें क्यों इन्द्रियों तथा मनको अलग अलग लेकर मतिज्ञानके भेदोंकी परिगणना की गई है तथा संज्ञीयसंज्ञीके भेदोंको भी प्राधान्य दिया गया है ? इन प्रश्नोंका कोई समुचित समाधान नहीं बैठता, और इसलिये कहना होगा कि यह भाष्यकारका आगम-निरपेक्ष अपना मत है, जिसे किसी कारणविशेषके बश होकर उसने स्वीकार

॥ आहार-सरीरेदियपञ्जती आणपाण-भास-मरणे ।

षड् पञ्च पञ्च स्तुपिय इग-विगलाऽत्सविण-सप्तणीए ॥

—मवतत्वप्रकरण, गा० ६

महार-सरीरेदिय-ऊसास-वधो-मणोऽहि निष्पत्ति ।

होइ अग्नो दस्तियाघो करण एसाउ पञ्जती ॥

—सिद्धसेनीया टीकामें उद्धृत पृ० १६०

किया है। अन्यथा, इन्द्रियपर्याप्तिका स्वरूप देते हुए वह इसका स्थृतिकरण बहर कर देता। परन्तु नहीं किया गया; जैसाकि “त्वगादीनिद्र्यनिर्वर्तना-क्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः” इस इन्द्रियपर्याप्तिके लक्षणसे प्रकट है। अतः स्वेताम्बर आगमके साथ इस भाष्यवाक्यकी संगति विठलानेका प्रयत्न निष्पत्त है।

(१०) नवमें अध्यात्मका अन्तिम सूत्र इस प्रकार है—

“संयम - श्रुत - प्रतिसेवना - तीर्थ-लिङ्ग-लेशयोपपातस्थानविकल्पतः साध्याः ।”

इसमें पुलाकादिक पञ्चप्रकारके निर्णयमुनि संयम, श्रुत, प्रतिसेवना आदि आठ घन्युयोगद्वारोंके द्वारा भेदरूप लिङ्ग किये जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। भाष्यमें उस भेदको स्पष्ट करके बतलाया गया है; परन्तु उस बतलानेमें कितने ही स्थानों पर स्वेताम्बर आगमके साथ भाष्यकारका मतभेद है, जिसे सिद्धसेन गणीय अपनी टीकामें ‘आगमस्त्वन्यथा चत्रवरिष्ठतः’, ‘अत्रैवाऽन्यवैधागमः’, ‘अत्राप्यागमोऽन्यवाऽतिदेशकारी’ जैसे वाक्योंके साथ आगमवाक्योंको उद्धृत करके व्यक्त किया है। यहीं उनमेंसे सिर्फ़ एक नमूना दे देना ही पर्याप्त होगा— भाष्यकार ‘श्रुत’ की अपेक्षा जैन मुनियोंके भेद को बतलाते हुए लिखते हैं—

“श्रुतम् । पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कृष्टेनाऽभिन्नाकर-दशपूर्ववराः । कथायकुशील-निर्धन्यो चतुर्दशपूर्ववरी । जघन्येन पुला-कल्प श्रुतमाचारवस्तु, बकुश-कुशील-निर्धन्यानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातरः । श्रुतापगतः केवली स्नातक इति ।”

अबास्ति—श्रुतकी अपेक्षा पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि ज्ञानवसे ज्यादा अभिज्ञानकर (एक भी अक्षरकी कमीसे रहित) दशपूर्वके धारी होते हैं। कथायकुशील और निर्धन्य मुनि चौदह पूर्वके धारी होते हैं। पुलाक मुनिका कमसे कम श्रुत आचारवस्तु है। बकुश, कुशील और निर्धन्यमुनियोंका कमसे कम श्रुत आठ प्रवचनमात्रा तक सीमित है। और स्नातक मुनि श्रुतसे रहित केवली होते हैं।

इस विषयमें आगमकी जिस अन्यथा व्यक्तस्थाप्ता उल्लेख सिद्धसेनने किया है वह इस प्रकार है—

“पुलाए ऐ भैते केवतिर्य सुर्य अहितिजजा गोयमा । जहण्णोरु
गवमस्स पुब्बस्स तत्त्विय आयारवत्यु, उक्कोसेण नव पुब्बाइ संपुण्णाई ।
बउस-पदिसेवणा-कुमीला जहण्णोरु अट्टपवयणमायाओ, उक्कोसेण
चौहसपुब्बाइ अहितिजजा । कसायकुमील-निगर्या जहण्णोरु अट्टप-
वयणमायाओ, उक्कोसेण चौहसपुब्बाइ अहितिजजा ।”

इसमें जघन्य श्रुतकी जो व्यवस्था है वह तो भाष्यके साथ मिलती-जुलती है, परन्तु उत्कृष्ट श्रुतकी व्यवस्थामें भाष्यके साथ बहुत कुछ अन्तर है। यहाँ पुलाक मुनियोक उत्कृष्ट श्रुतज्ञान नवपूर्व तक बतलाया है, जब कि भाष्यमें दस-पूर्व तक त्रा स्पष्ट निर्देश है। इनी तरह बकुश और प्रतिसेवनाकुमील मुनियोक श्रुतज्ञान यहाँ चौदहपूर्व तक सीमित किया गया है, जब कि भाष्यमें उसकी चरमसी मा दमपूर्व तक ही कही गई है। अनः आगमके साथ इस प्रकारके मत-भेदोकी मौजूदगीमें जिनकी संगति बिठलानेका मिछ्देन गरणीने कोई प्रयत्न भी नहीं किया यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त सूत्रके भाष्यका आधार पूर्णतया इच्छाम्बर आगम है।

(११) नवम अध्यायमें उत्तमक्षमादि-दक्षाधर्म-विषयक जो सूत्र है उसके तपोधर्म-मम्बन्धी भाष्यका अन्तिम ग्रन्थ इस प्रकार है—

“तथा द्वादशभिकु-प्रतिमा. मासिक्यादय. आसप्तमासिक्य सप्त,
सप्तचतुर्दशैक्षिक्यशितिरात्रिक्यस्तिक्ष अहोरात्रिकी एकरात्रिकी चेति ।”

इसमें भिक्षुओंकी बारह प्रतिमाओंका निर्देश है, जिनमें सात प्रतिमाएं तो एकमासिकीसे लेकर मृत्युमासिकी तक बतलाई हैं, तीन प्रतिमाएं सप्तरात्रिकी चतुर्दशरात्रिकी और एकविशतिरात्रिकी कही हैं, शेष दो प्रतिमाएं अहोरात्रिकी और एकरात्रिकी नामकी हैं।

सिद्धमेन गरणीने उक्त भाष्यकी टीका लिखते हुए आगमके अनुसार सप्त-रात्रिकी प्रतिमाएं नीन बतलाई हैं—चतुर्दशरात्रिकी और एकविशतिरात्रिकी प्रतिमाओंको आगम-मम्बत नहीं माना है, और इसलिये आप ‘सप्त चतुर्दशैक्षिक्यशितिरात्रिक्यस्तिक्ष’ इस भाष्याशको आगमके साथ असंगत, आर्यविसदादि और प्रमत्तगीत तक बतलाते हुए लिखते हैं—

‘सप्तचतुर्दशीकविशतिरात्रिक्यस्तिस्म इति नेदं परमार्थवचनानुसारि-
भाष्य; किं तर्हि ? प्रमत्तगीतमेतत् । वाचकोहि पूर्ववित् कथमेवं विधमा-
र्घविसंवादि निबध्नीयात् ? सूत्रानवबोधादुपजातभान्तिना केनापि रचि-
तमेतद्वचनकम् । दोच्चा सत्तराईंदिया तइया सत्तराईंदिया—डितीया
सप्तरात्रिकी तृतीया सप्तरात्रिकीति सूत्रनिर्भेदः । डे सप्तरात्रे त्रीणीति
सप्तरात्राणीति सूत्रनिर्भेद कृत्वा पठितमहेन्सप्तचतुर्दशीकविशतिरात्रिक्य-
स्तिस्म इति ।

अर्थात्—‘सप्तचतुर्दशीकविशतिरात्रिक्यस्तिस्म’ यह भाष्य परमार्थवचन
(आगम) के अनुकूल नहीं है । किर क्या है ? यह प्रमत्तगीत है—पागलो जैसी
बरड है अथवा किसी पागलका कहा हुआ है । वाचक (उमास्वाति) पूर्वके जाता
है, वे कैसे इस प्रकारका आर्थविमवादि वचन निबद्ध कर सकते हैं ? आगममूलक-
की अनिभितामे उत्पन्न हृई आन्तिके कारण किसीने इस वचनकी रचना नी
है । ‘दोच्चा सत्तराईंरिया तइया सत्तराईंडिया—डितीया सप्तरात्रिकी तृतीया
सप्तरात्रिकी’ ऐसा आगममूलका निर्णय है, इसे डेसप्तरात्रे, त्रीणीति सप्तरात्राणीति’
ऐसा सूत्रनिर्भेद करके किसी अज्ञानीने पढ़ा है और उनीका फल ‘सप्तचतुर्दशीक-
विशतिरात्रिक्यस्तिस्म’ यह भाष्य बना है ।

मिद्दमेनकी इम टीका परमे ऐसा मालूम होता है कि सिद्धसेनके समयमें
इस विवादापन्न भाष्यका कोई दूसरा आगममगतरूप उपलब्ध नहीं था, उप-
लब्ध होता तो वह मिद्दमेन-जैसे व्यानिप्राप्त और साधनसम्पन्न आचार्यको जहर
प्राप्त होता, और प्राप्त होनेपर वे उमे ही भाष्यके रूपमें निबद्ध करते—आपति-
जनक पाठ न देने, अथवा दोनों पाठोंको देकर उनके सत्याऽसत्यकी आलाचना
करते । दूसरी बात यह मालूम हानी है कि सिद्धसेन चूँकि पहलेमें भाष्यको
मूल सूत्रकारकी स्वोपज्ञकृति स्वीकार कर चुके हैं और सूत्रकारको पूर्ववित् भी
मान चुके हैं, ऐसी हालतमें जिम तत्कालीन डें आगमके वे कटूर पक्षपाती हैं
उसके विरुद्ध ऐसा कथन आनेपर वे एकदम विचलित हो उठे हैं और उन्होंने
वह कल्पना कर डाली है कि किसीने यह अन्यथा कथन भाष्यमें विस्ता दिया है,

यही कारण है कि वे उक्त भाष्यवाक्यके कर्ताको अज्ञानी और उस भाष्यवाक्यको 'प्रभृतमीत' तक कहनेके लिए उतारू होगये हैं। परन्तु स्वयं यह नहीं बतला सके कि उस भाष्यवाक्यको किसने मिलाया, किसके स्थानपर मिलाया, क्यों मिलाया, कब मिलाया और इस मिलावटके निरण्यका आधार क्या है? यदि उन्होंने भाष्यकारको स्वयं मूलसूत्रकार और पूर्वविन् न माना होना तो वे शायद वैसा निखलनेका कभी साहस न बरते। उनका यह तर्क कि 'वाचक उतास्वाति पूर्वके ज्ञाता ये वे कैमे इम प्रकारका आषविसवादि वचन निबद्ध कर मकते थे, कुछ भी महत्व नहीं रखता, जबवि अन्य कितन ही स्थानोपर भी आगमके साथ भाष्यका स्पष्ट विरोध पाया जाता है और जिसके किनन ही नमूने ऊपर बतलाये जा चुके हैं। पिछले (न० १०) नमूनमे प्रदर्शित भाष्यके विषयमे जब सिद्धमन गरी स्वयं यह लिखते हैं कि "आगमस्वन्यथा व्यवस्थित" — आगमकी व्यवस्था इसके प्रतिकूल है, और उसकी संगति बिठलानका भी काई प्रयत्न नहीं करते तब वहाँ भाष्यकारका पूर्वविन् हाना कहा चला गया? अथवा पूर्ववित हाने हुए भी उन्होंने वहाँ 'आषविसवादि वचन क्यों निबद्ध किया? इसका कोई उत्तर सिद्धमेनकी टीका परम नहीं मिन रहा है और इसनिये जब तक इसके विशद्द सिद्ध न किया जाय तब नक यह कहना होगा कि भाष्यका उक्त वाक्य इवें आगमके विशद्द है और वह किमीके द्वारा प्रक्रियत न होकर भाष्यकारका निजी मत है। और एम स्पष्ट विरोधोकी हालत मे यह नहीं कहा जा सकता कि भाष्यादिका एकमात्र आधार श्वेताम्बर श्रुत है।

उपमंहार

मैं समझता हूँ ये सब प्रमाण, जो ऊपर दो भागोंमें सकलित किये गये हैं, इस बातको बतलानेके लिये पर्याप्त हैं कि श्वेताम्बरीय तत्त्वायसूत्र और उसका भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं और न दोनोंकी रचना सर्वथा श्वेताम्बर आगमोंके आधारपर अवलम्बित है, उसमे दिगम्बर आगमोंका भी बहत बड़ा हाथ है और कुछ मनव्य ऐसे भी हैं जो दोनों मम्प्रदायोंसे भिन्न

कि इस विषयकी विशेष ज्ञानकारी प्राप्त करनेके लिये 'तत्त्वार्थसूत्रके बीजो-

किसी तीसरे ही सम्प्रवादसे सम्बन्ध रखते हैं अथवा सूत्रकार तथा भाष्यकारके निकी मतभेद हैं। और इसलिये उक्त दोनों दावे तथ्यहीन होनेसे मिथ्या हैं। आवा है विद्वज्ज्ञन इस विषय पर गहरा विचार करके अपने-अपने अनुभवोंको प्रकट करेंगे। जरूरत होनेपर जैच-पहिलालकी विशेष बातोंको फिर किसी समय पाठकोंके सामने रखा जायगा।



‘की सोज’ नामका वह निबन्ध देखना चाहिये जो चतुर्वृ वर्षके ‘अनेकान्त’ दी प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है।

स्वामी समन्तभद्र



प्रास्ताविक

जैनसमाजके प्रतिभाषाली आचार्यों, समय विदानों और सुपूर्ज्य महात्माओंमें
भगवान् समन्तभद्र स्वामाका आसन बहुत ऊँचा है। एसा शायद कोई ही
अभाग जैनी होगा जिसन आपका पवित्र नाम न मुना हो परन्तु समाजका अधि-
कांश भाग एसा ज़रूर है जो आपके निमल युगों और पवित्र जीवनबनान्तोंसे
बहुत ही कम परिचित है—बल्कि यो कहिये कि अपरिचित है। अपन एक
महान् नना और ऐसे ननाके विषयम जिम ‘जिनशासनका प्रणेता’* नह निखा
है समाजका इनना भारी अज्ञान बहुत ही लटकता है। मरी बहुत दिनोंमें इस
बातकी बराबर छँड़ा रही है कि आचार्यमहोदयका एक सज्जा इतिहास—
उनके जीवनका पूरा बुनान्त—लिखकर लोगोंका यह अज्ञानभाव दूर किया जाय।
परन्तु बहुत कुछ प्रयत्न बरन पर भी मैं अभी तक अपनी उस इच्छाओं पूरा
करनके निये समय नहीं हो सका। इसका प्रधान कारण यथापृष्ठ मावनसामग्रीकी
अप्राप्ति है। समाज अपन प्रथादस, यथापि अपनी बहुतसी प्रतिहासिक सामग्रीको
खो चुका है फिर भी जो अविज्ञप्ति है वह भी कुछ कम नहीं है। परन्तु वह
इतनी अस्वस्ति तथा इधर उधर बिल्लरी हुई है और उसको मालूम करन तथा
प्राप्त करनमें इतनी अधिक विघ्नबाधाएँ उपस्थित होती हैं कि उसका होना न-
होना प्राय बराबर हो रहा है। वह न तो अधिकारियोंके स्वयं उपयोगम आती
है न दूसरोंका उपयोगके लिए दी जाती है और इसलिए उनकी दिनपर दिन
तृतीया गति (नष्टि) होती रहती है यह बड़े ही दुखका विषय है।

* देखो, अवसानवेलोलका शिलालेख न० १०८ (नया न०२५८)।

साधनसामग्रीकी इस विरलताके कारण ऐतिहासिक तत्त्वोंके अनुसंधान और उनकी जीवमें कभी कभी बड़ी ही विछृतें पेश आती हैं और कठिनाइयाँ मार्ग रोककर खड़ी हो जाती हैं। एक नामके कई कई विद्वान् हो गये हैं; एक विद्वान् आचार्यके जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय और देशप्रत्यादिके भेदसे कई कई नाम अथवा उपनाम भी हुए हैं और दूसरे विद्वानोंने उनका यथारुचि—चाहे जिस नामसे—अपने गन्धोंमें उल्लेख किया है; एक नामके कई कई पर्यायनाम भी होते हैं और उन पर्यायनामों अथवा आंशिक पर्यायनामोंसे भी विद्वानोंतथा आचार्योंका उल्लेख † मिलता है; कितने ही विभिन्न भाषाओंके अनुवादोंमें, कभी कभी मूलग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामोंका भी अनुवाद कर दिया जाता है अथवा वे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भाषाओंके गन्धोंमें उल्लेखित हैं; एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम हो वे ही दूसरे व्यक्तियोंके मूल नाम भी हो सकते हैं और अक्सर होते रहे हैं; सम-सामयिक व्यक्तियोंके

* जैसे, 'पद्मनन्दि' और 'प्रभाचन्द्र' आदि नामके धारक बहुतमे आचार्य हुए हैं। 'समन्तभद्र' नामके धारक भी कितने ही विद्वान् हो गये हैं, जिनमें कोई 'लघु' या 'चिङ्क', कोई 'अभिनव', कोई 'गेस्सोल्प', कोई 'भट्टारक' और कोई 'गृहस्थ' समन्तभद्र कहलाते थे। इन मध्यके ममयादिका कुछ परिचय रत्नकरण्डआवकाचार (समीचीन घर्णशास्त्र)की प्रस्नावना अथवा तद्विषयक निबन्धमें गन्धपर सन्देह शीर्षकके नीचे, दिया गया है। स्वामी समन्तभद्र इन मध्यमें भिन्न ये और वे बहुत पहले हो गये हैं।

† जैसे 'पद्मनन्दी' यह कुन्दकुन्दाचार्यका पहला दीक्षानाम या और बादको कोण्डकुन्दाचार्य यह उनका देशप्रत्यय-नाम हुआ है; क्योंकि वे 'कोण्डकुन्दपुर'-के निवासी थे। गुरुलियोंमें आपके एलाचार्य, वक्रशीव और गृष्णपिञ्चाचार्य भी दिये हैं, जो ठीक होनेपर गुणादिप्रत्यको लिये हुए समझने चाहिये और इन नामोंके दूसरे आचार्य भी हुए हैं।

‡ जैसे नागचन्द्रका कही 'नागचन्द्र' और कही 'मुर्वंगसुधाकर' इस पर्याय-नामसे उल्लेख पाया जाता है। और प्रभाचन्द्रका 'प्रभेन्दु' यह आंशिक पर्याय नाम है, जिसका बहुत कुछ व्यवहार देखनेमें आता है।

नामोका भी प्राय ऐसा ही हाल है, कोई कोई विद्वान् कहि कहि आचार्योंके भी शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपनेको चाहे जहाँ चाहे जिस आचार्यका शिष्य सूचित किया है, एक सध अथवा गच्छके किसी अच्छे आचार्यको दूसरे सध अथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने ही सध तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है, इसी तरहपर काई कोई आचार्य अनेक मठोंके अधिपति अथवा अनक स्थानोंकी गदियोंके स्वामी भी हुए हैं और इससे उनके कई कई पट्टशिष्य हो गये हैं, जिनमेंसे प्रत्येकने उन्हें अपना ही पट्टशुरु सूचित किया है। इस प्रकार की हालतोंमें किसीके असली नाम और असली कामका पता चलाना कितनी टड़ी लीर है, और एक ऐतिहासिक विद्वानके लिये यथार्थ वस्तु वस्तुस्थिनिका निरांय करने अथवा किसी साम घटना या उल्लेखको किसी खास व्यक्तिके भाष सयोजिन करनेमें कितनी अधिक उलझनो तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभव वे ही विद्वान् कर सकते हैं जिन्हे ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ असेंतक काम करनेका अवसर मिला हो। अस्तु ।

यथोष्ट साधनसामग्रीके बिना ही इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी दिक्षातों, उलझनो और कठिनाइयोंमें गुजरते हुए, मैंन आजतक स्वामी समन्तभद्रके विषयमें जो कुछ अनुसधान किया है—जो कुछ उनकी हृतियो, दूसरे विद्वानोंके ग्रन्थोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्यों और शिलालेखों आदि परस में मालूम कर सका हूँ—अथवा जिसका मुझ अनुभव हुआ है उस सब इतिहासको अब सकलित करके, और अधिक साधन सामग्रीके मिलनकी प्रतीकामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित मालूम होता है, और इसलिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता है ।

पितृकुल और गुरुकुल

स्वामी समन्तभद्रके बाल्पकालका अथवा उनके शृङ्खल-जीवनका प्राय कुछ भी पता नहीं चलता और न यह मालूम होता है कि उनके माता पिताका क्या नाम था । हाँ, आपके 'आत्मीयासा' ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति ताडपत्रों पर लिखी हुई अवणवेस्तोलके दोर्बंसि-जिनदास शास्त्रीके भडारमें पाई जाती है उसके अन्तमें लिखा है—

“इति फणिमंडलालकारस्योरगपुराधिपस्त्रोः शीस्वाभिसमन्तभद्र-
मुनेः कृतौ आप्नमीमासांयाम् ॥”

इससे मालूम होता है कि समन्तभद्र क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए थे और राज-
पुत्र थे। आपके पिता फणिम डलान्तर्गत ‘उरगपुर’ के राजा थे, और इसलिए
उरगपुरको आपकी जन्मभूमि अथवा बाल्यलीलाभूमि समझना चाहिये। ‘राजा-
बसीकथे’ में आपका जन्म ‘उत्कलिका’ ग्राममें होना लिखा है, जो प्राय उरग-
पुरके ही अन्तर्गत होगा। यह उरगपुर ‘उद्धूर’† का ही सस्कृत अथवा अन्ति-
मधुर नाम जान पड़ता है जो चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज-
धानी थी। पुरानी चित्रिताणोली भी इसीको कहते हैं। यह नगर कावेरीके नट
पर बसा हुआ था बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही ममुद्धशानी
जनपद था।

समन्तभद्रका बनाया हुआ ‘स्तुतिविद्या’ ‡ अथवा जिनस्तुतिशत नामका
एक ग्रन्थकारप्रधान प्रथ है, जिसे ‘जिनशतक’ अथवा जिनशतकालकार भी कहत
हैं। इस ग्रन्थका ‘गत्वैकस्तुतमेव’ नामका जो अन्तिम पद्म है वह कवि और
काव्यके नामको लिये हुए एक चित्रबद्ध काव्य है। इस काव्यकी छह आरे और
नव बलयवाली चित्ररचनापरम ये दो पद निकलते X हैं—

‘शातिवर्मकृत,’ ‘जिनस्तुतिशत’।

इनमें स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ ‘शान्तिवर्मा’ का बनाया हुआ और इसमिये
‘शान्तिवर्मा’ समन्तभद्रका ही नामान्तर है। परन्तु यह नाम उनके मुनिजीवनका
नहीं हा सकता, क्योंकि मुनियोंके ‘वर्मनि’ नाम नहीं होते। जान पड़ना है यह

● देखो जैनहितीषी भाग ११, अक ७-८, पृष्ठ ४८०। आगे जैन-
सिद्धान्तभवनमें भी, नाडपत्रोपर, प्राय ऐसे ही लेखवाली प्रति मौजूद है।

† महाकवि कालिदासने अपने ‘रघुवश में भी ‘उरगपुर नाममें इस नगर
का उल्लेख किया है।

‡ यह नाम ग्रन्थके आदिम भगलाचरणमें दिये हुए ‘स्तुतिविद्या प्रमाधये’
इस प्रतिज्ञावाक्यसे जाना जाता है।

X देखो वसुनन्दिकृत ‘जिनशतक-टीका’।

आचार्यमहोदयके मातापितादि-द्वारा रक्षा हुआ उनका जन्मका शुभ नाम था । इस नामसे भी आपके क्षत्रियवशेषोद्ग्रुव होनेका पता चलता है । यह नाम राज-धरानोका सा है । कदम्ब, यग और पल्लव प्रादि वंशोमें कितने ही राजा बर्मन्त नामको लिये हुए हो गए हैं । कदम्बोंमें शातिवर्मा नामका भी एक राजा हुआ है ।

यही पर किसीको यह आशका करनकी ज़रूरत नहीं वि जिनस्तुतिशत' नामका ग्रन्थ समन्तभद्रका बनाया हुआ न होकर शातिवर्मा नामके किसी दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ होगा क्योंकि यह ग्रन्थ निविवाद-रूपसे स्वामी समन्तभद्रका बनाया हुआ माना जाता है । ग्रन्थकी प्रतियोग कर्तुंत्वरूपमें समन्त-भद्रका नाम लगा हुआ है टीकाकार श्रीवस्त्रुतन्दीन भी उमे 'तार्किंचृडामणि-श्रीमासमन्तभद्राचार्यविरचित' सूचित किया है और दूसरे आचार्यों नथा विद्वानों भा उमके वाक्योका समन्तभद्रक नाममें, अपन ग्रन्थोमें उल्लेख किया है । उत्तरणके लिये 'ग्रलकारचिन्तामणि' वो नीजिये, जिमम अजितसेनाचायन निम्नप्रतिज्ञावाक्यवे साथ 'स ग्रन्थक कितन ही पदोंको प्रमाणारूपसे उद्धन किया है—

श्रीमत्समन्तभद्रार्यजिनसनादिभाषितम् ।
लक्ष्यमात्र लिख्यामि स्वनामसूचितलक्षणम् ॥

इसके मिवाय ५० जिनदाम पाद्वनाथजी फट्कूलेन 'स्वयंभूत्सनात्र' का जो सस्करण मस्तृनटीका और मराठी भ्रनुवादस हित प्रकाशित वराया है उसमें समन्तभद्रका परिचय दते हुए उन्होन यह सूचित किया है कि कण्ठाटिकदेशस्थित 'आष्टसहस्री' की एक प्रतिम आचार्यक नामका इस प्रकारमें उल्लेख किया है—“इति फणिमढलाल फारस्यारगपुराधिग्रस्तुना शातिग्रमनाम्ना श्रीसमन्तभद्रेण । यदि पड़िनजीकी यह सूचना सत्यकु हो तो इससे यह विषय और

६० प० जिनदामकी इस सूचनाको देखकर मैंने पत्र द्वारा उनसे यह भास्तुम करना चाहा कि कण्ठाटिक देशमें मिली हुई अष्टसहस्रीकी वह कौनसी प्रति है और कहाँके भण्डारमें पाई जाती है जिमये उक्त उल्लेख मिलता है । क्योंकि दौर्बलि जिनदाम शास्त्रीके भण्डारसे मिली हुई 'आसमीमासा' के उल्लेखसे इह

भी स्पष्ट हो जाता है कि शातिवर्मा समन्तभद्रका ही नाम था ।

वास्तवमें ऐसे ही महत्वपूरण काव्यग्रंथोंके द्वारा समन्तभद्रकी काव्यकीर्ति जगतमें विस्तारको प्राप्त हुई है । इस ग्रन्थमें आपने जो अपूर्व शब्दचातुर्योंको लिये हुए निर्भल भक्तिगग्न बहाई है उसके उपयुक्त पात्र भी आप ही हैं । आपसे भिन्न 'शातिवर्मा' नामका कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वान् हुआ भी नहीं । इस लिये उक्त सका निर्मल जान पड़ती है । हा, यह कहा जा सकता है कि समन्तभद्रने अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रन्थकी रचना की होगी । परन्तु ग्रन्थके साहित्य परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता । आचार्यमहोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस परिणामिति और जिस भावमधीं सूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति

उल्लेख कुछ भिन्न है । उत्तरमें आपन यह सूचित किया कि यह उल्लेख ५० वशीघरजीकी लिखी हुई अष्टसहस्रीकी प्रस्नावना परसे लिया गया है, इसलिये इस विषयका प्रश्न उन्हींसे करना चाहिये । अष्टसहस्रीकी प्रस्नावना (परिचय) को देखने पर मालूम हुआ कि इसमें 'इनि मे 'समन्तभद्रग्न तकका उक्त उल्लेख ज्योका त्यो पाया जाता है, उसके शुरूमें 'कण्ठांदेशनो लब्धपुस्तवे' और अन्तमें 'इत्याद्युल्लेखो दृश्यते ये शब्द लगे हुए हैं । इसपर नां० ११ जुलाईको एक रजिस्टर्ड पत्र ५० वशीघरजीको शोलापुर भेजा गया और उनमें अपने उक्त उल्लेखका खुलासा करनके लिये प्रार्थना की गई । साथ ही यह भी लिखा गया कि 'यदि आपने स्वयं उस कण्ठांद देशसे मिली हुई प्रस्तकको न देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उल्लेख किया है उमे ही कृपया सूचित कीजिये' । ३ री अगस्त सन् १६२४ को दूसरा रिमाण्डर पत्र भी दिया गया परन्तु पठित-जीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर देनेकी कृपा नहीं की । और भी कहींसे इस उल्लेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी हानतमें यह उल्लेख कुछ सदिग्द मालूम होता है । आदर्श नहीं जो जैनहितैषीमें प्रकाशित उक्त 'आप्तमीमासा' के उल्लेखकी गलत स्मृति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया हो, क्योंकि उक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उल्लेख पाये जाते हैं—जैसे 'काव्या नम्नाटकोऽह' नामक पत्रको मत्स्वेणप्रशस्तिका बतलाना, जिसका वह पत्र नहीं है ।

मुनिअवस्थाकी ही मालूम होती है। शुहस्यात्र में रहते हुए और राजकाज करते हुए इस प्रकार की महापादित्यपूर्ण और महदुषमावसम्पन्न मौलिक रचनाएँ नहीं बन सकती। इस विषयका निरांय करनेके लिये, सपूर्ण ग्रन्थको गौरके साथ पढ़ते हुए, पद्धति नं १६, ३६ और ११४ * को स्वाम तौरमें ध्यानमें लाना चाहिये। १६ वे पद्धतेमें ही यह मालूम हो जाता है कि स्वामी समारसे भय भीत होने पर शरीरको लेकर (अन्य समस्त परियह छोड़कर) बीतराग भगवान्की क्षरणमें प्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार उस समय (ग्रन्थरचनाके समय) पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणधरादि-अनुष्ठित आचार-जैमा उत्कृष्ट अथवा निर्दोष था। वह पद्धति इस प्रकार है—

पूतस्वनवमाचारं तन्वायात् भयादूरुचा ।
स्वया वामेशा पाया मा नतमेकाच्चर्यशंभव ॥

इस पद्धतेमें समन्तभद्रने जिस प्रकार 'पूतस्वनवमाचार + और 'भयात् तन्वायात्' × में अपने (मा = 'मा' पदके) दो सास विशेषणापद दिये हैं उसी प्रकार ७६ वें ** पद्धतेमें उन्होंने 'ध्वंसमानसमानस्त्रियासमानसं' विशेषणके द्वारा अपनेको उल्लेखित किया है। इस विशेषणमें मालूम होता है कि समन्तभद्रके मनसे यद्यापि त्रास उद्देश-विलकुल नहै (अस्त) नहीं हृषा या—सत्तामें कुछ मौजूद बहुर या—फिर भी वह ध्वंसमानके समान ही गया था, और इस लिये उनके चित्तको उद्देशित अथवा समस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था। चित्तकी ऐसी स्थिति बहुत ऊंचे दर्जे पर जाकर होती है और इस लिये यह विशेषण भी समन्तभद्रके मुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थितिको सूचित करता है और वह बतलाता है

* यह पद्धति आगे 'भावी तीर्थकरत्व' शीर्थकके नीचे उद्घृत किया गया है।

+ 'पूतः पवित्र मु मुष्टु अनवम गणधराद्यनुष्ठित आचार पापक्रिया-निष्पत्तिर्यस्यासौ पूतस्वनवमाचारं प्रतस्त पूतस्वनतमाचारम्'—इति टीका ।

× 'भयात् ससारभीते । तन्वा शरीरेण (सह) प्रायातं आगत ।'

** यह पूरा पद्धति इस प्रकार है—

स्वसमान समानन्दा भासमान स माझनव ।

ध्वंसमानसमानस्त्रियासमानसमानतय् ॥ ७६ ॥

कि इस प्रथकी रचना उनके मुनिजीवनमें ही हुई है। टीकाकार आचार्य सुन-दीने भी, प्रथम पदकी प्रस्नावनामे 'ओसमन्तभद्र चार्यविरचित' लिखनेके प्रतिरिक्त, ८४ वे पदमे आए हुए 'शुद्ध' विशेषणका अर्थ 'कुद्ध' करके, और १५ वे पदके 'बन्द्रीभूतवतः' पदका अर्थ 'मंगलपाठ कीभूतवतोपि नमनाचार्यरूपेण भवतोपि मम' ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह प्रथ समन्तभद्रके मुनिजीवनका बना हुआ है। अस्तु ।

स्वामी समन्तभद्रने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया और विवाह कराया था कि नहीं, इस बातके जाननेका प्राय कोई साधन नहीं है। हाँ, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवशी राजा शान्तिवर्मा और शान्तिवर्मा समन्तभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे तो यह सहजहीमे बनलाया जा सकता है कि आपने गृहस्थाश्रमको धारण किया था और विवाह भी कराया था। मात्र ही, यह भी कहा जा सकता कि आपके पुत्रका नाम मृगेशवर्मा, पौत्रका रविवर्मा, प्रपीत्रका हरिवर्मा और पिताका नाम काकुत्स्थवर्मा था, क्षेत्रिक काकुत्स्थवर्मा, मृगेशवर्मा और हरिवर्मके जो दानपत्र जैनियों अथवा जैनसम्पादकोंदिये हुए हलमी और वैजयनी के मुकामोपर पाये जाते हैं उनमें इम वशारम्पराका एता चलना है । इसमें सदैह नहीं कि प्राचीन कदम्बवशी राजा प्राय मव जेतो हुआ है और दक्षिण (बनवास) देशके राजा हुआ है, परन्तु उन्ने परमे ही, नाममान्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शान्तिवर्मा कदम्ब और शान्तिवर्मा समन्तभद्र दोनों एक व्यक्ति थे । दोनोंको एक व्यक्ति सिद्ध करनके लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है, जिनका इसमय अभाव है । मेरी गणमें, यदि भमत-भद्रने विवाह कराया भी हो तो वे बहुत समय तक गृहस्थाश्रममें नहीं रहे हैं, उन्होंने जलदी ही घोड़ी अवस्थामें, मुनि-दीका धारण की है और तभी वे उम्म अनाधारण योग्यता और महत्त्वाको प्राप्त कर सके हैं जो उनकी कृतियों तथा दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्योंसे पाई जाती है और जिसका दिग्दर्शन आगे चल कर कराया जायगा । ऐसा मालूम होता है कि

फ्रैंको 'स्टडीज इन साडव इंडियन जैनिजम' नामकी पुस्तक, भाग दूसरा पृष्ठ ८७ ।

समन्तभद्रन बाल्यावस्थासे ही प्रपन आपको जनघर्मं और बिन्द्रदेवकी सेवके लिये अपरण कर दिया था उनके प्रति आपका नैमिक प्रम था और आपका रोम रोम उहीके ध्यान और उन्हीकी बानको लिये हुा था । एसी हालतम यह आशा नहीं की जा सकती कि आपन घर छोड़नमें विलम्ब किया होगा ।

भाग्नमें एमा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्यासन सबसे बड़े बेटको मिलना था छोट देने तब कुटुम्बको छोड़ देने थे और धार्मिकजीवन व्यतीत करत थे उही अधिक समयतक अपनी दशीय रियासतम रहनकी भी इजाजत नहीं होती थी * । और यह एक चर्चा थी जिसे भारतकी सासकर बुद्धकालीन भारतकी धार्मिक सत्पाने छोट पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था इस कायम पठ कर याथ्य आवाय कभी कभा अपन राजवचुसे भी अधिक प्रमिद्ध प्राप्त करत थे । समव है कि समन्तभद्रको भी एसी ही किसी परस्तिमसे गुजरना पढ़ा हो उनका कोई बड़ा भाई राज्याधिकारी हा उसे हा पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिला हो और इस लिये समन्तभद्र न तो राज्य किया हा और न विवाह ही कराया हो वर्क अपनी इत्थितका समझ कर उन्होन अपन जीवनको शुरूम ही धार्मिक मार्गेम ढाल लिया हा और पिताकी मृत्यु पर अथवा उसम पहले ही अवसर पाकर आप दीक्षित हो गये हो और शायद यही बजह हा कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहा रहना प्राप्त नहीं पाया जाता । परनु कुछ भा हो इसम सदह नहीं कि आपकी धार्मिक परिणामि म कृत्रिमताकी जरा भी गष नहीं थी । आप स्वभावसे ही धर्मामा थ और आपन

* इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी लेखक लेखकमे मिलता है (Matwan lin, cited in Ind Ant I\ 22) देखो, विन्मेष्ट स्मिथकी अर्ली हिस्ट्री आफ इडिया पृ० १८५, जिसका एकप्रश्न इस प्रकार है—

An ancient Chinese writer tells us that 'according to the laws of India when a king dies he is succeeded by his eldest son (Kumarhaaji), the other sons leave the family and enter a religious life, and they are no longer allowed to reside in their native kingdom'

अपने अन्त करणकी भावाज्ञसे प्रेरित होकर ही जिनदीका* बारण की थी।

दीक्षासे पहले आपकी शिक्षा या तो उर्मुरम ही हुई है और या वह कांची अथवा मदुरामे हुई जान पड़ती है। ये तीनों ही स्थान उस वक्त दक्षिण भारतमें विचाके सास केन्द्र थे और इन सबोंमें जैनियोंके घट्टे घञ्जे मठ भी मौजूद थे, जो उस समय बड़े बड़े विचालयों तथा शिक्षालयोंका काम देते थे।

आपका दीक्षास्थान प्राय कांची था उसके आसपासका कोई ग्राम जान पड़ता है और कांची की ही—जिसे काजीवरम् भी कहते हैं—आपके धार्मिक उद्घोगोंकी केन्द्र रही मालूम होती है। आप वहीं दिगम्बर साधु थे। ‘कान्या नग्ननाटकोऽह +’ आपके इस वाक्यसे भी प्राय यही छवनित हाता है। कांचीम आप कितनी ही बार गये हैं एसा उल्लेख × ‘राजावलीकथ म भी मिलता है।

पितृकुलबां नरह समन्तभद्रक गुरुकुरका भी प्राय कही कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता और न यह मालूम हाता है कि आपके दीक्षागुरुका क्या नाम था। स्वयं उनके ग्रन्थोंम उनकी कोई प्रशस्तिया उपलब्ध नहीं हाती और न दूसरे

* सम्बद्धकान और सम्बद्धकानपूर्वक जिनानुष्ठित मन्त्रकचारित्रवं ग्रहणको ‘जिनदीका’ कहते हैं। समन्तभद्रन जिनन्ददेवके चारित्र गुरुगां का अपनी जीव-द्वारा न्यायविहिन और ‘अद्भुत उदयमहिन’ पाया था, और इसी निये व सुप्र सन्नचित्तम उस धारण करके जिनन्ददेवकी सज्जी मवा और भक्तिम नीन हुए थे। नीचक एक पदाम भी उनके इसी भावकी छवनि निकलती है—

अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुरामदभुतोऽयम् ।

न्यायविहिनमवधाय जिन । त्वयि मुप्रसन्नमनस स्थिता वयम् ॥१३०॥

—स्वयम्भूस्तोत्र ।

कृ द्रविड दशकों राजधानी जो अमेतक पन्नवराजाओंके अधिकारमें रही है। यह मद्रासम दक्षिण-पश्चिमकी ओर ४० मीलके फ़ासलेपर, बेगवती नदी पर स्थित है।

+ यह पूरा पद आगे दिया जायगा।

× स्टडीज इन साठथ इडियन जैनिज्म, पृ० ३० ।

विद्वानोंने ही उनके शुल्कुलके सम्बन्धमें कोई स्वास प्रकाश ढाला है। ही, इतना अहर मालूम होता है कि आप 'मूलसध' के प्रधान आचार्योंमें थे। विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान् कवि 'हस्तिमल्ल' और 'अव्यप्तार्य'ने 'श्रीमूल संघटकोम्नेन्दु' विशेषणके द्वारा आपको मूलसधरूपी आकाशका चन्द्रमा लिखा है। इसके सिवाय अवणबेलोलके कुछ शिलालेखोंसे इतना पता और चलता है कि आप श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवली, उनके शिष्य चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वशज पद्मनन्दि श्रीपरनाम श्रीकोडकुन्दमुनिराज, उनके वशज उमास्वाति अपर नाम गृध्रपिच्छावार्य, और गृध्रपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ इस प्रकार महान् आचार्योंकी वशपरम्परामें हुए हैं। यथा—

श्रीभद्रस्सर्वतो यो हि भद्रबाहुरितिश्रुतः ।

श्रुतकेवलिनायेषु चरम परमो मुनिः ॥

चद्रप्रकाशोऽजलसान्द्रकीर्ति श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः ।

यस्य प्रभावाद्वन्देवताभिराराधितः ऋष्य गणो मुनीना ॥

तस्यान्वये भृविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधानः ।

श्रीकोण्डकुन्दादिमुनीश्वरास्त्वमत्संशयमादद्गतचारणद्दिः ॥

अभूदुमास्यातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिच्छः ।

तदन्वये तत्सहश्रोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाऽशेषपदार्थवंडी ॥

श्रीगृध्रपिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छ.

शिष्योऽजनिष्ट भुवनत्रयवर्तिकीर्ति ।

चारित्रचब्दचुरस्तिलावनिपालमौलि-

मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥

एवं महाचार्यपरपरायां स्यात्कारमुद्भांकिततस्वदीपः ।

भद्रस्ममन्तादगुणतो गणीशस्मन्तभद्रोऽजनि वादिसिंह ॥

—शिलालेख न० ४० (६४) ।

इस शिलालेखमें जिस प्रकार चन्द्रगुप्तको भद्रबाहुका और बलाकपिच्छ-
को उमास्वातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार ममन्तभद्र, अथवा कुन्द-

कु देखो, 'विक्रमन्तकीरत' और 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' नामके ग्रन्थ ।

कुन्द और उमास्वाति आचार्योंके विषयमें यह सूचित नहीं किया कि वे किसके शिष्य थे । दूसरें^५ शिलालेखोंका भी प्राय ऐसा ही हाल है । और इससे यह मालूम होता है कि या तो लेखकोंको इन आचार्योंके गुरुओंके नाम मालूम ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त शिष्योंकी कीर्तिकीमुद्राके सामन उस बक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये थे कि उनके नामोंके उल्लेखकी ओर लेखकोंके प्रवृत्ति ही नहीं हो सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी । सभव है कि उन गुणदेवोंके द्वारा उनकी विशेष उदासीन परिणतिके कारण साहित्यसेवाका काम बहुत कम हुआ हो और यही बात बादको, समय बीतन पर, उनकी अप्रसिद्धि का कारण बन गई हो । परन्तु कुछ भी हो इसमें सदेह नहीं कि इस शिलालेख में और इसी प्रकारके दूसरे शिलालेखोंमें भी, जिस ढगमें कुछ जुन हुए आचार्यों के बाद समन्तभद्रका नाम दिया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वामी समन्तभद्र बहुत ही खास आचार्योंमेंसे थे । उनकी कीर्ति उनके गुरुकुल अथवा गण-गच्छसे ऊपर है, पितृकुलको भी वह उत्तम गई है । और हम लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुरुकुलादिका पूरा पता नहो चलता ।

^५ देखो इन्स्क्रिपशन्स एट श्रवणबेलगोल नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर बी लेविस राइसन सन् १८८६ में मुद्रित कराया था, अथवा उसका संशोधित संस्करण १९२३ का छपा हुआ । शिलालेखोंके जो नये नम्बर बाष्टक आदिमें दिये हैं वे इसी संशोधित संस्करणके नम्बर हैं ।

† श्रवणबेलगोलके दूसरे शिलालेखोंमें, और दूसरे स्थानोंके शिलालेखोंमें भी, कुन्दकुन्दका नन्दिगण तथा देवीय गणका आचार्य लिखा है । कुन्दकुन्दकी वशपरम्परामें होनेसे समतभद्र नन्दिगण अथवा देवीयगणके आचार्य ठहरते हैं । परन्तु जैनसिद्धान्तभास्करमें भकाशित सेनगणगकी पट्टावलीमें आपको सेनगणगका आचार्य सूचित किया है । यद्यपि यह पट्टावली पूरी तौर पर पट्टावलीके ढगमें नहीं लिखी गई और न इसमें सभी आचार्योंका पट्टक्रमसे उल्लेख है किर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि इसमें समन्तभद्रको सेनगणगके आचार्योंमें परिगणित किया है । इन दोनोंके विशद १०८ नवरका शिलालेख यह बतलाता है कि नन्दि और सेनादि भेदोंको लिये हुए यह आर प्रकारका सधमेद भट्टाकलकदेवके

तेरे न सही; हमें यहाँ पर उसकी विनताको छोड़कर अब आचार्यमहोदयके मुण्डों-
की ओर ही विशेष इशान देना चाहिये—यह मालूम करना चाहिये कि वे कैसे
कैवे गुणोंसे विशिष्ट थे और उनके द्वारा जर्म, देश तथा समाजकी क्या कुछ
सेवा हुई है।

गुणादि-परिचय

उपरके शिलालेखमें ‘गुणतोगणीश.’ विशेषणके द्वारा स्वामी समन्तभद्रको
गुणोंकी अपेक्षा गणियोंका—मध्याधिपति आचार्योंका—ईश्वर (स्वामी)
सूचित किया है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि, ‘आप समन्तात् भद्र’ थे—
बाहर भीतर सब ओरमें भद्रलूप ॥ ए—अधिवा यो वहिये कि आप भद्रपरणामी
थे, भद्रवाक् थे, भद्राङ्गनि थे, भद्रदर्शन थे, भद्रावलोक्ति थे भद्रव्यवहारी थे, और
इस लिये जो लोग आपके पास आते थे वे भी भद्रतामें परिणाम हो जाते थे।
जायद इन्हीं गुणोंकी वजहसे, दीक्षासमय ही, आपका नाम समन्तभद्र रखला
गया है, अबत्रा आर बादको इस नाममें प्रभिष्ठ हुए हो और यह आपका
गुणप्रत्यय नाम हो। इसमें मदेह नहीं कि, समन्तभद्र एवं बहुत ही बड़े योगी,
त्यागी, नपस्ती और तत्त्वज्ञानी हो गये हैं। आपकी भद्रमूर्ति, तेज पूरां-हृषि

स्वर्गाराहणके बाद उत्पन्न हुआ है और इसमें समन्तभद्र न तो नन्दिगणके रहते
हैं और न सेनगणाके, बरोकि वे अकलकदेवमें बहुत पहले हो जुके हैं। अकलक-
देवमें पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख अभी उत्तेजनमें नहीं
आया। इन्द्रनन्दिके ‘नीनिसार’ और १०५ नवरके शिलालेखमें इन चारों संघोंका
प्रवर्तनक ‘अर्हदबलि’ आचार्यांको लिखा है, परन्तु यह सब साहित्य अकलकदेवमें बहुत
ही पीछेका है। इसके सिवाय, निरुमकूडलु-नरमीपुर तालुकेके शिलालेख न०
१०५ में (E. C. III) समन्तभद्रको द्रमिल मध्यके अन्तर्गत नन्दिनवकी
अरुङ्गन शाला (अन्वय) का विद्वान् सूचित किया है। ऐसी हालतमें समन्तभद्रके
गण गच्छादिका विषय वितनी गढ़बडमें है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

“‘भद्र’ अब लक्ष्याल, मगल, शुभ, श्रेष्ठ, साधु, मनोज, खेम, प्रसाद
और सानुकम्प आदि अवौमें व्यवहृत होता है।

और सारगमित उक्ति अच्छे अच्छे महोन्मतोंको ननमस्तक बनानेमें समर्थ थी। आप सदैव व्यानाऽध्ययनमें भग्न और दूसरोंके अज्ञानभावको दूर करने उन्हें सम्मांगकी ओर लगाने तथा आत्मोन्नतिके पथ पर अग्रसर करनेके लिये सावधान रहते थे। जैनधर्म और जैनसिद्धान्तोंके ममज्ज होनेके सिवाय आप तर्क, व्याकरण, छद, अलकार और काव्य-कोपादि ग्रथोम पूरी तौरपर निराशात थ। आपकी प्रलीकिक प्रतिभान तात्पालिव ज्ञान और विज्ञानके प्राय सभी विषयों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यद्यपि आप मस्कुन्, प्राकृत, कन्डी और तामिल आदि वर्वा भाषाओंके पारम्पर विद्वान् थे, फिर भी सस्कृत भाषा पर आपका विनाप अनुराग तथा प्रस था आर उसमें आपन जो असाधारण योग्यता प्राप्त की री वह विद्वानोंमें इसी नहीं है। अबली ‘स्तुतिविद्वा’ ही आपक अद्विनाय शब्दर्थापत्त्यको अवश्वा शब्दावर आपके एकाधिष्ठन सूचित करनी है। जितनी इनिया अब तक उत्तरव्य हुई है वे सब सस्कृतम ही हैं। परतु उसमें किसीका यह न समझ नेना चाहिए कि दूसरी भाषाओंमें आपन ग्रथरचना न की हांगी, का जरूर है क्योंकि कन्डी भाषावे प्राचीन कवियोंमें सभीन, आपन कन्डी काव्योंमें, उत्कृष्ट कविक रूपम आपकी भूरि भूरि प्रेणमा की है ॥ और तामिल इशम तो आप उत्तर ना हुए थे उनमें नामिन भाषा आपकी मातृभाषा थी। उसमें ग्रथरचनाका नाम स्वाभाविक ही है। फिर भी सस्कृत भाषाव भाषित्यपर आपका अन्त द्वाप गा। दिनिंग भारतमें उच्च कानिके मस्कृत जानवा। प्रात जन, प्रामाहन और प्रमारण देनवानाम आपका नाम खाम नौरमें निया जाना है। आपक समयमें मस्कृत भाषित्यके इतिहासमें एक खाम युगका प्रारंभ होता है। आर खाम मस्कृत माहियके इतिहासमें आपका नाम अमर है।

* देखा ‘हिस्तरी आफ कन्डीज लिस्टेवर तथा कर्गाटिकविचरिते।

† मिस्टर एम० एस० रामस्वामा आध्यगर, एम० ए० भी अपनी ‘स्टडीज इन साउथ इडियन जैनिजम’ नामकी पुस्तकमें बम्बई गजेटियर जिल्द पहनी, भाग दूसरा, पृष्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि ‘दिनिंग भारतमें समनभद्रका उदय न सिफ दिग्म्बर मम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, सस्कृत साहित्यके इतिहासम भी एक खाम युगका मकित बरता है। यथा—

सचमुच ही आपकी विद्याके आलोकसे एक बार सारा भारत आलोकिन हो चुका है। देखमे जिस समय बौद्धादिकोका प्रबल आतक आया हुआ था और लोग उनके नैरात्म्यवाद, शून्यवाद कणिकवादादि सिद्धान्तोंसे सत्रस्त थे—घबरा रहे थे—अथवा उन एकान्त गतोंमे पड़कर अपना आत्मपतन करनेके लिये विवश हो रहे थे, उम समय दक्षिण भारतमें उदय होकर आपने जो लोकमेवा की है वह बड़े ही महत्ववाली तथा चिरस्मरणीय है। और इस लिये शुभमवद्राप्यायेने जो आपको 'भारतभूषण' ५६ लिखा है वह बहुत ही युक्तिवृत्तिक जान पड़ता है।

स्वामी समन्तभद्र, यद्यपि, बहुतमे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी थे, किर भी कवित्व, गमकत्व वादित्व और वाग्मित्व नामके चार गुण आपमें अभाधारणा कोटिकी योग्यतावाले थे—ये चारों ही शक्तिया आपमें व्याप्त तौरमें विकाशको प्राप्त हुई थी—और इनके बारमें आपका निमंल यश दूर दूर तक चारों ओर फैन गया था। उम वक्त जितने वाली, वामी +, कवि X और

"Sunantbhadrā's appearance in South India marks an epoch not only in the annals of Digambar Tradition, but also in the history of Sanskrit literature."

५६ समन्तभद्र भद्रार्थो भातु भारतभूषण ।—पाइवपुराण ।

† 'वाली विजयवाघवनि'—जिसकी ववनप्रवृत्ति विजयनी और हो उमे 'वाली' कहने हैं।

+ 'वामी तु जनरजन'—जो अपनी वाक्पटुग तथा शब्दचान्तुरीसे दूसरोंका रजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बनालेनमे निपुण हो उसे 'वामी' कहने हैं।

X 'कविनूर्तनसदर्भ'—जो नये नये सदर्भ—नई नई मौलिक रचनाएँ नैयाँ रखनेमे समर्थ हो वह कवि है, अथवा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो : गवगानाओंमे निपुण है, कृती है, नाना अभ्यासोंमे कुशलवृद्धि है और शुल्पनिषान (लौकिक अवहारोंमे कृशल) है उसे भी कवि कहते हैं, यथा—

प्रनिभोउज्जीवनो नानावर्गनानिपुणः कृनी ।

नानाभ्यासकुशाश्रीयमनिष्टुत्पत्तिमान्कविः । —प्रलकारचिन्तावस्थिः ।

गमक के उन सब पर आपके यशकी छाप पढ़ी हुई थी—आपका यश चूड़ा-भणि के तुल्य सर्वोपरि था—और वह बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान् आचार्यों के डारा शिरोधार्य किया गया है। जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहले के विद्वान्, भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं—

कवीनां गमकानां च वाकीनां वाग्मिनामपि ।

यश सामन्तभद्रीयं मूर्खं चूडामणीयते ॥ ४४ ॥

—दादिपुराण ।

भगवान् समतभद्रके इन वादित्य और कवित्वादि युगोंकी लोकमें कितनी धाक थी, विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिङ्गा जमा हम्रा था और वे वास्तवमें किनने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सब बानोंका कुछ अनुभव करानेके लिये नीचे कुछ प्रमाणावाक्योंका उल्लेख किया जाता है—

(१) यशोधरचरितके 'कर्ता और विक्रमकी ११वी शताब्दीके विद्वान् महाकवि वादिरा जमूरि, समतभद्रको 'उत्कृष्टकाव्य-मार्गिक्योंका रोहण (पवन)' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते हैं कि वे हमें सूक्तिरूपी रूपोंके समूहको प्रदान करने वाले हों—

श्रीमत्समंतभद्राचार्यः काव्यमाणिक्यरोहणा ।

सम्भु नः संततोक्तुष्टाः सूक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥

(२) 'ज्ञानार्गाव यथके रचयिता योगी श्रीशुभन्द्राचार्य, जो विक्रमकी प्राय ११वी शताब्दीके विद्वान हैं, समतभद्रको 'कवीन्द्रभास्वान' विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, लिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र-सूर्योंकी निर्मल सूक्तिरूपी किरणों स्फुरायमान हो रही हैं वहाँ वे लोग ब्यादोत या जुगनूकी तरह हँसीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेमे ज्ञानको पाकर उद्धृत हैं—कविता करने लगते हैं ।

—

‘गमक कृतिभेदकः’—जो दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्मको समझने-वाला—उनकी तहतक पहुँचनेवाला—हो और दूसरोंको उनका मर्म तथा रहस्य समझनेमें प्रवीण हो उसे 'गमक' कहते हैं। निदचार्यक, प्रत्ययज्ञनक और सक्षयछेदी भी उसीके नामान्तर हैं।

और इस तरहपर उन्होंने समतमद्वके मुकाबलेमें अपनी कविताकी बहुत ही सुन्दर प्रकट की है—

समन्तभद्रादिकीन्द्रभास्वता स्फुरन्ति यत्रामलमत्तिरश्मय ।

अजन्मि त्वयोत्तरेत्र हास्यता, न तत्र किं हानलबोद्धता जना ॥१४॥

(३) अनकारचिन्नायणिम अजितमनाचायन समतमद्वको नमस्कार करते हुए उह कविकु जर मुनिवद्य और 'जनानाद (लोगोंको आनंदिन करना- वाले) लिखा है और साथ ही वह प्रकट किया है कि मैं उह अपनी 'वचनश्री' के लिए—वचनोकी शोभा बढ़ान अथवा उनम शक्ति उत्पन्न करनक लिये— नमस्कार करता हूँ—

श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकु जरमचयम् ।

मुनिपद्य जनानन्द नमामि उचनश्रीयै ॥ ३ ॥

(४) वगगचित्रम परवादि-दा त पचानत श्रीर्पमानमूरि, समन्तभद्रको महाकवीश्वर और मुतकशास्त्रामृतमासागर प्रकट करते हुए, यह सूचित करते हैं कि समतमद्र कवियों (प्रतिवादिया) वा विद्यापर जयनाम करके यशस्वी हुए थे । साथ हा यह भावना करते हैं कि व महाकवीश्वर मह कविताकाषीपर प्रभन्न हाव—उनकी विद्या मर अन्न करणमें स्फुरण्यमान हाकर मुझ मफल मनोरथ करे—

समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरा कुपादिविद्याजयनद्यकीतय ।

सुतकशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्पकाच्छिणि ॥५॥

(५) भगवज्जितमनाचायन, आदिपुराणम समन्तमद्रको नमस्कार करते हुए, उन्हे 'महान् विवेषा वियोका उत्पन्न वरनवाला महान् विधाना (महाकवि- श्रद्धा) लिखा है और यह प्रकट किया है कि उनके वचनहपी वज्रपानम कुमतरूपी पवन खड़ खड़ हो गये थे—

नम समन्तभद्राय महते कविवेषमे ।

यदुच्छोवज्जपातेन निभिज्ञा कुमताद्रय ॥

(६) बहा अजितने, अपन 'हनुमचरित' म, समन्तभद्रका जयषोष करते हुए, उन्हे भव्यरूपी कुमुदोंको प्रफुल्लित वरनवाला चन्द्रमा लिखा है और साथ

ही यह प्रकट किया है कि वे 'दुर्वादियोकी वादरूपी साज' (सुजली) को मिटाने के लिये अद्वितीय महीषधि' थे—उन्होंने कुवादियोकी बढ़ती हुई वादाभिलाषाको ही नष्ट कर दिया था—

जीयात्समन्तभद्रोऽसौ भव्यकैरवचंद्रमाः ।
दुर्वादिवादकंहूनां शमनैकमहीषधि ॥ १६ ॥

(३) अबण्डेलोलके शिलालेख न० १०५ (२५४) में, जो शक संवत् १३२० का लिखा हुआ है, समन्तभद्रको 'वादीभवज्ञाकुशसूक्तिजाल' विशेषणके साथ स्मरण किया है—अर्थात् यह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी मुन्दर उक्तियोका समूह वादीरूपी हस्तियोका वशमें करनवे लिये वज्ञाकुशका काम देता है । माथ ही, यह भी प्रकट किया है कि समन्तभद्रके प्रभावमें यह ममूर्गं पृथ्वी दुर्वादिकाका वानामें भी विहीन हो गई—उनकी कोई वान भी नहीं करता—

समन्तभद्रस्स चिराय जीयाढादीभवज्ञाकुशसूक्तिजालः ।
यस्य प्रभावात्मकलावनीय वंश्यास दुर्वादुकवान्यापि ॥

इस पद्धके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्ध भी दिया हुआ है और उसमें समन्तभद्रके बचनोको 'स्फुटरलदीप' की उपमा दी है और यह बननाया है कि वह दैदीप्यमान रत्नदीपक उम त्रैलोक्यरूपी ममूर्गं महनको निश्चिन रूपमें प्रशाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको लिए हुए ममनपदाथोर्ये पूर्ण हैं और जिसके अन्नगल दुर्वादिकोकी उक्तिरूपी अन्धकारम आच्छादित हैं—

स्यात्कारमुद्गितसमन्तपदार्थपूर्णं त्रैलोक्यहर्म्यमस्तिल स खलु व्यनक्ति ।
दुर्वादुकोक्तिमसा पिति तान्तरालं सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीप ॥

४० वे शिलालेखमें भी, 'जिसके पद्ध ऊपर उढ़त किये गये हैं, समन्तभद्रको 'स्यात्कारमुद्राकिततन्वदीप' और 'वादिसिंह' लिखा है । इसी तरह पर इवता-म्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्रसूरिने, अपनी 'अनेकान्तजयपत्राका' में, समन्तभद्रका 'वादिमुख्य' विशेषण दिया है और उसकी स्वोपन टीकामें लिखा है—“आह च वादिमुख्यः समन्तभद्रः ।”

(४) गद्यचिन्तामणिमें, भावाकृति वादीभसिंह समन्तभद्र-मुनीश्वरको 'सरस्वतीकी स्वखन्दविहारमूर्मि' लिखते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि

समन्तभद्रके हृदय-भन्दिरमें सरस्वती देवी दिना किसी रोक-टोकके पूरी आजादीके साथ विचरती थी और इसलिये समन्तभद्र असाधारण विद्याके घनी थे और उनमें कवित्व वाग्मित्वादि शक्तियाँ उच्च कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थीं, यह स्वत ही स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि उनके बचन-रूपी वज्रके निपातमें प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चाटियाँ खड़ खड़ हो गई थीं—ग्रथात् समन्तभद्रके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्राय कुछ भी गीर्णव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे—

सरस्वतीन्दैरविहारभूमय समन्तभद्रमसुत्ता मुनीश्वरा ।
जयन्ति वाग्वच्छनिपातपाटितप्रतीपराद्वान्तमहीभ्रकोटय ॥

(६) श्वरणबेलानन्दे जिनालेख न० १०८ मे, जो म० १३०१ का लिखा हुआ है और जिसका नया नम्बर २५८ है, मणगगजकवि सूचित करते हैं कि समन्तभद्र बलावच्छद्वके बाद ‘जिनशासनके प्रणेता’ हाँ हैं, व ‘भद्रमूर्ति’ य और उनके बचनरूपी वज्रके कठोर पानसे प्रतिवादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये थे—वाई प्रतिवादी उनके मामन नहीं ठरहरना था—

समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूर्तिमनतः प्रणेता जिनशासनस्य ।
यदीयथाग्वच्छकठोरपातश्चुर्णीचकार प्रतिवादिशैलान् ॥

(१०) समन्तभद्रके मामने प्रतिवादियोंकी—कुवादियोंकी—क्या हानन होनी थी, और वे कैम नम्र अथवा विगण्णवदन और विकल्पविभूष बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलकार-चिन्तामणिमें उदृत विये हुए तिन्ह दो पुरानन पश्चोमे मिलता है—

कुवादिनः स्वकान्ताना निकटे परुषोक्तयः ।
समन्तभद्रयस्यद्वे पाहि पाहीति सूक्तयः ॥ ४—३१५
श्रीमत्समन्तभद्रार्घ्ये महावादिनि चागते ।
कुवादिनोऽलिखनभूमिमंगुष्ठैरानताननाः ॥ ५—१५६

पहले पश्चोमे यह सूचित होता है कि कुवादिजन अपनी स्त्रियोंके निकट तो कठोर भाषण किया करते थे—उन्हे अपनी गर्वोक्तियाँ सुनाते थे—परन्तु जब

समन्तभद्र यति के सामने आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे और उन्हे 'पाहि पाहि'—रक्षा करो, रक्षा करो, अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं, ऐसे सुन्दर मृदुलबचत ही कहते बनता था। और दूसरा पद्म यह बतलाता है कि जब महावादी समन्तभद्र (समास्यान आदिम) आते थे तो कुवादिजन नीचा मुख करके घोंगूठोंसे पृष्ठी कुरेदने लगते थे—अर्थात् उन लोगों पर—प्रतिवादियों पर—समन्तभद्रका इतना प्रभाव छा जाता था कि वे उन्हे देखते ही विषष्णवदन हो जाते और किकर्तव्यविमूढ़ बन जाते थे।

(१२) अजितसेनाचार्यके 'अनकार-चिन्तामणि' पन्थमे और विहंसि-मण्डके 'विकान्तकौरव नाटकी' प्रशस्तिमे एक पद्म निम्न प्रकारमे पाया जाता है—

*अवदुत्तमटति झटिति स्फुटपदुवाचाटधूर्जटेजिहा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषाम् ॥

इसमे यह बतलाया है कि बादी समन्तभद्रकी उपस्थितिमे, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलने वाले धूर्जटिकी जिहा ही जब शीघ्र अपने बिनमें घुस जानी है—उसे कुछ बोल नहीं आता—तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता ।

इस पद्मसे भी समन्तभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत हाती थी उमड़ा कुछ बोध होना है ।

कितने ही विद्वानोंने इस पद्ममे 'धूर्जटि' को 'महादेव अथवा 'शिव' का पर्याय नाम समझा है और इमलिये अपने अनुवादोंमें उन्हान 'धूर्जटि' की जगह महादेव तथा शिव नामोंका ही प्रयोग किया है । परन्तु ऐसा नहीं है । भले ही यह नाम, यहा पर, किमी व्यक्ति-विशेषका पर्यायनाम हो, परन्तु वह महादेव नामके रुद्र अथवा शिव नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है । महादेव न तो

* 'जिनेन्द्रकल्यासाभ्युदय' ग्रन्थकी प्रशस्तिमे भी, जो शब्द स० १२४१ मेरे बनकर समाप्त हुआ है, यह पद्म पाया जाता है, सिफं 'धूर्जटेजिहा'के स्थानमे 'धूर्जटेरपि जिहा' यह पाठान्तर कुछ प्रतियोगि देखा जाता है ।

समन्तभद्रके समसामयिक व्यक्ति ये और न समन्तभद्रका उमके साथ कभी कोई साक्षात्कार या बाद ही हुआ। ऐसी हालतमें यहाँ 'धूर्जंटि' से महादेवका अर्थ निकालना भूलसे खाली नहीं है। वास्तवमें इस पद्मकी रचना केवल समन्तभद्रका महत्व स्थापित करनेके लिये नहीं हुई बल्कि उसमें समन्तभद्रके बादविषयकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है और उसमें दो ऐतिहासिक तत्वोंका पता चलता है—एक तो यह कि समन्तभद्रके समयमें 'धूर्जंटि' नामका कोई बहुत बड़ा विदान् हुआ है, जो चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेमें प्रसिद्ध था; उसका यह विशेषण भी उसके तात्कालिक व्यक्तिविशेष होनेको और अधिकताके साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समन्तभद्रका उसके साथ बाद हुआ, जिसमें वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया और उसे फिर कुछ बोल नहीं आया।

पद्मका यह ग्राण्य उसके उस प्राचीन रूपमें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है जो शक स ० १०५० में उत्कीर्ण हुए, मलिलवेणुप्रशस्ति नामके ५४वें (६७वें) शिलालेखमें पाया जाता है और वह रूप इस प्रकार है—

ऋबद्धुतटमटति ऋटिति स्फुटपदुवाचाटधूर्जंटेरपि जिह्वा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषां ॥

इस पद्ममें 'धूर्जंटि'के बाद 'अपि' शब्द ज्यादा है और चौथे चरणमें 'सति का कथान्येषां'की जगह 'तव सदसि भूप कास्थान्येषां' ये शब्द दिये हुए हैं। साथ ही इसका छन्द भी दूसरा है। पहला पद्म 'आर्या' और यह 'आर्यानीति' नामके छन्दमें है, जिसके समचरणोंमें बीम बीम मात्राएँ होती हैं। प्रस्तु; इस पद्ममें पहले पद्ममें जो अवृद्धिरूप है उम परमें यह मालूम होता है कि यह पद्म समन्तभद्रकी ओरसे प्रथवा, उनकी मौजूदगीमें, उनके किमी शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाको सम्बोधन करके कहा गया है। वह राजसभा चाहे वही हो जिसमें 'धूर्जंटि' को पराजित किया गया है और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो। पहली हालतमें यह पद्म धूर्जंटिके निरुत्तर होनेके बाद सभास्थित

के दावणगेरे ताल्लुकके शिलालेख नं० ६० में भी, जो चालुक्य विक्रमके ५३वें वर्ष, कीलक संवत्सर (६० सन ११२८) का लिखा हुआ है यह पद्म इसी प्रकार दिया है। देखो एपिग्रेफिया करणीटिका, जिल्ड ११वी।

दूसरे विद्वानोंको लक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह पूछा था यहै कि धूर्जंटि जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होने पर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानों की क्या आस्था है ? क्या उनमें से कोई बाद करनेकी हिम्मत रखता है ? दूसरी हालत में, यह पद्य समन्तभद्रके बादारभ-समयका बचन मालूम होता है और उसमें धूर्जंटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि वे बहुत सोच-समझकर बादर्भ प्रवृत्त हों। शिलालेखमें इस पद्यको समन्तभद्रके बादारभ-समारंभ समयकी उक्तियोंमें ही शामिल किया है। परन्तु यह पद्य चाहे जिस राजसभामें कहा गया हो, इसमें सदेह नहीं कि इसमें जिस घटनाका उल्लेख किया गया है वह बहुत ही महत्वकी जान पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि धूर्जंटि † उस वक्त एक बहुत ही बड़ाचड़ा प्रसिद्ध प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी धाक थी और वह समन्तभद्रके सामने बुरी तरहसे पराजित हुआ था। ऐसे महाबादीको लीलामात्रमें परास्त कर देनेसे समन्तभद्रका सिङ्का दूसरे विद्वानों पर और भी ज्यादा अकित हो गया और तबसे यह एक कहावतसां प्रसिद्ध हो गई कि 'धूर्जंटि जैसे विद्वान् ही जब समन्तभद्रके सामने बादमें नहीं ठहर सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्या सामर्थ्य है जो उनसे बाद करे।'

समन्तभद्रकी बादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वानोंपर उसका किनना अधिक सिङ्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके अवतरणोंसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी मैं यहां पर इतना और बतला देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका बाद-क्षेत्र सकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें अपने बाबकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी बादशीति, नोगों-के अज्ञानभावको दूर करके उन्हें सन्मार्गकी ओर लगानेकी शुभ भावना और

* जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न बाब्यसे प्रकट है—
“यस्यैवंविधा विद्वावादारभस्तरभविजृ भिताभिव्यक्तयः सूक्तयः ।”

† ग्राफेरेडके 'केटेलॉग' में धूर्जंटिको एक 'कवि' Poet लिखा है और कवि अच्छे विद्वानको कहते हैं, जैसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके लक्षणों-से मालूम होगा।

जैन सिद्धान्तोंके महत्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरचि इतनी बड़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने बादका लीलास्थल बनाया था । वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा उन्हें बादके लिये निर्मलण दे और न उनकी मनःपरिणाम उन्हें इस बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गतों (खड़ों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें बैसा करने दिया जाय । और इस लिये, उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा किसी बड़ी बादशालाका पता लगता था वे वहाँ पहुँच जाते थे और अपने बादका ढंका बजाकर विद्वानोंको स्वतः बादके लिये आह्वान करते थे । डंकेको सुनकर बादीजन, यथानियम, जनताके साथ बादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्तभद्र उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन सिद्धान्तोंमेंसे जिम किसी सिद्धान्त पर भी किसीको आपत्ति हो वह बादके लिये सामने आ जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके स्थाद्वादन्यायकी तुलामें तुले हुए तस्वभावणको मुनकर लोग मुख्य हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं बनता था—यदि कभी कोई मनुष्य अहंकारके बश होकर अथवा नाममभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करना था तो उसे शीघ्र ही निश्चित हो जाना पड़ता था । इम तरह पर, समन्तभद्र भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः सभी देशोंमें, एक अप्रतिद्वद्धी सिहकी तरह कीड़ा करते हुए, निर्भयताके साथ बादके लिये थूमे हैं । एक बार आप थूमते हुए 'करहाटक' नगरमें पहुँचे, जिसे कुछ विद्वानोंने सितारा जिलेका

[†] उन दिनों— समन्तभद्रके समयमें—, फाहियान (६० स० ४००) और हूँ नस्तंग (६० स० ६३०) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी साबंजनिक स्थानपर एक डंका (भेरी या नक्कारा) रखता जाता था और जो कोई विद्वान् किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा बादमें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह बादघोषणाके तौरपर, उस डंकेको बजाता था ।

—हिस्टरी आफ कन्दीज लिटरेचर ।

आधुनिक 'करहाड़ का या कराड़' और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हा-पुर' † नगर बतलाया है, और जो उस समय बहुतसे भट्ठों (बीर-योद्धाओं) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प विस्तारवाला अथवा जनाकीर्ण था। उस वक्त आपने वहाँके राजा पर अपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्विषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवण-बेलगोलके उक्त ५४ वे शिलालेखमें निम्न प्रकारसे संग्रहीत है—

‡ पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता

पश्चान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वैदिशो ।

प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभट्टं विद्योत्कटं संकटं

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितं ॥

इस पद्ममें दिये हुए आत्म-परिचयसे यह मालूम होता है कि 'करहाटक' पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें वादके लिये विहार किया था उनमें पाटलीपुत्र (पटना) नगर, मालव (मालवा), सिन्धु तथा ठङ्क ६

‡ देखो, मिस्टर एडवर्ड पी० राइस बी०ए० रचित 'हिस्टरी आफ कन्डीज लिटरेचर' पृ० २३ ।

† देखो, मिस्टर बी० लेविस राइसकी 'इंस्क्रिप्शन्स एट श्रवणबेलगोल नामकी पुस्तक, पृ० ४२; परन्तु इस पुस्तकके हितीय संशोधित सस्करणमें, जिसे आर० नरभिहाचारने तैयार किया है, शुद्धिप्रदारा 'कोल्हापुर' के स्थानमें 'कहाड़' बनानेकी मूलना की गई है ।

‡ यह पद्म ब्रह्म नेमिदत्तके 'आराधनाकथाकोष'में भी पाया जाता है; परन्तु यह ग्रन्थ शिलालेखसे कई सी वर्ण पीछेका बना हुआ है ।

§ कनिंघम साहबने अपनी Ancient Geography (प्राचीन भूगोल) नामकी पुस्तक में 'ठङ्क' देशका पंजाब देशके साथ समीकरण किया है (S. I. J. 30); मिस्टर लेविस राइस साहबने भी अपनी श्रवणबेलगोल-के शिलालेखोंकी पुस्तकमें उसे पंजाब देश लिखा है। और 'हिस्टरी आफ कन-डीज लिटरेचर' के लेखक मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने उसे In the Punjab लिखकर पंजाबका एक देश बतलाया है। परन्तु हमारे कितने ही

(पंजाब) देश, कांचीपुर (कांजीवरम्), और वैदिशांत् (भिलसा) मे प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने बादकी मेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि सबसे पहले जिस प्रधान नगरके मध्यमें आपने बादकी मेरी बजाई थी वह 'पाटलीपुत्र' नामका शहर था, जिसे आजकल 'पटना' कहते हैं और जो सम्राट् चंद्रगुप्त (मौर्य) की राजधानी रह चुका है ।

'राजावलीकथे' नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकमें भी समन्तभद्रका यह सब आत्मपरिचय दिया हुआ है—विशेषता मिफँ इतना ही है कि उसमें करहाटकसे पहले 'कर्णाट' नामके देशका भी उल्लेख है, ऐसा मिस्टर लेविस राइस साहब अपनी 'इन्स्क्रिप्शन्स एट् श्रवणबेल्गोल' नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें मूल्चित करते हैं । परन्तु इससे यह मालूम न हो सका कि राजावलीकथेका वह सब परिचय केवल कनडीमें ही दिया हुआ है या उसके लिये उक्त संस्कृत पद्यका

जैन विद्वानोंने 'ठङ्क' का 'ठङ्क' पाठ बनाकर उसे बंगाल प्रदेशका 'ढाका' सूचिन किया है, जो ठीक नहीं है । पंजाबमें, 'अटक' एक प्रदेश है । संभव है उसीकी बजहसे प्राचीन कालमें साग पंजाब 'ठङ्क' कहलाना हो, अबवा उस लास प्रदेशका ही नाम ठङ्क हो जो सिधुके पास है । पद्यमें भी 'सिधु' के बाद एक ही समस्त पदमें उङ्कोंको दिया है इससे वह पंजाब देश या उसका अटकबाला प्रदेश ही मालूम होता है—बंगाल या ढाका नहीं । पंजाबके उस प्रदेशमें 'ठहा' आदि और भी कितने ही नाम इसी प्रकारके पाये जाते हैं । प्राक्तनविमर्शविचकारण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी ठङ्कको पंजाब देश ही लिखा है ।

† वैदिशाके प्रदेशको वैदिश कहते हैं जो दशार्ण देश की राजधानी थी और जिसका वर्तमान नाम भिलसा है । राइस साहबने 'कांचीपुरे वैदिशे' का अर्थ to the out of the way Kanchi किया था जो बल्ल था और जिसका मुख्यार श्रवणबेल्गोल-शिलालेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया गया है । इसी तरह पर आव्यंगर महानायने जो उसका अर्थ in the far off city of Kanchi किया है वह भी ठीक नहीं है ।

भी, प्रभाणा रूपसे उल्लेख किया गया है। यदि वह परिचय के बल कन्दीमें ही है तब तो दूसरी बात है, और यदि उसके साथमें संस्कृत पद्य भी लगा हुआ है, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो उसमें करहाटकसे पहले 'कण्ठाटि'का समावेश नहीं बन सकता; वसा किये जाने पर छंदोभंग हो जाता है और गलनी साफ तौरसे मालूम होने लगती है। हाँ, यह हो सकता है कि पद्यका तीसरा चरण ही उसमें 'कण्ठाटि' करहाटके बहुभट्टे विद्योत्कटे संकटे' इस प्रकार से दिया हुआ हो। यदि ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाटके बाद किसी दूसरी राजसभामें कहा गया होगा। परन्तु वह दूसरी राजसभा कौनसी थी अथवा करहाटके बाद समन्तभद्रने और कहाँ कहाँ पर अपनी बादभेरी बजाई है, इन सब बानोंके जाननेका इस समय कोई साधन नहीं है। हाँ, राजावलिक्ये आदिसे इनना जरूर मालूम होता है कि समन्तभद्र कौशाम्बी †, मण्डुवकहल्ली, लाम्बुग(?) , पुण्डोड़ू‡, दशपुर § और वाराणसी (बनारस) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं। परन्तु करहाटक

* मेरी इस कल्पनाके बाद, बादू छोटेलालजी जैन, एम० आर० ए० एस० कलकत्ताने, 'कण्ठाटिक शब्दानुशासन' की लेविस राइस लिखित भूमिकाके आचार पर, एक अध्युरासा नोट लिखकर मेरे पास भेजा है। उसमें समन्तभद्रके परिचयका डेढ़ पद्य दिया है और उमे 'गजावलिकथे' का बतलाया है, जिसमें एक पद्य नो 'काच्या नग्नाटकोह' बाला है और बाकीका आधा पद्य इस प्रकार है—

कण्ठाटि करहाटके बहुभट्टे विद्योत्कटे मंकटे
बादार्थ विजहार संप्रतिदिनं शादूलविक्रीडितम् ।

† इलाहाबादके निकट यमुना-तटपर स्थित नगरी। यहाँ एक समय बौद्ध धर्मका बड़ा प्रचार रहा है। यह वस्त्रदेशी राजधानी थी।

‡ उत्तर बंगालका पुण्ड्र नगर तथा उड़ीसा।

§ कुछ विडानोंने 'दशपुर' को आधुनिक 'मन्दसीर' (मालवा) और कुछने 'घोलपुर' लिखा है; परन्तु पम्परामायण (७-३५) में उसे 'उज्जिनी' के पास-का नगर बतलाया है और इसलिये वह 'मन्दसीर' ही मालूम होता है।

पहुँचनेसे पहले रहे हैं या पीछे, यह कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका ।

बनारसमें आपने बहाके राजाको सम्बोधन करके यह बाक्य भी कहा था—

‘राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्वन्धवादी ॥’

अर्थात्—हे राजन् मैं जैननिर्वन्धवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति मुझसे बाद करनेकी हो वह सम्मुख आकर बाद करे ।

और इससे आपकी बहौपर भी स्पष्ट रूपसे बादघोषणा पाई जाती है । परन्तु बनारसमें आपकी बादघोषणा ही होकर नहीं रह गई, बल्कि बाद भी हुआ जान पड़ा है, जिसका उल्लेख निरुम्भूडलुनरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ के निम्नपद्मसे, जो शक्ति अं० १०५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है—

समन्तभद्रस्सस्तुत्यः कस्य न स्यान्मुनीश्वरः ।

वाराण्सीश्वरस्याश्रे निर्जिता येन विद्विषः ॥

इम पद्ममें लिखा है कि ‘वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी (बनारस) के राजाके मामने शत्रुओंको—मिथ्येकान्तवादियोंको—परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं है ? अर्थात्, मध्येके द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।

समन्तभद्रने अपनी एक ही यात्रामें इन सब देशों तथा नगरोंमें परिभ्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी हैं, इम बातका यद्यपि कही कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी अनुभवमें और आपके जीवनकी कुछ घटनाओंमें यह जरूर मालूम होना है कि आपको अपनी उद्देश-सिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राके लिये उठना पड़ा है—‘ठङ्क’ से कांची पहुँच जाना और फिर बापिस बैदिश तथा करहाटकको आना भी इसी बातको सूचित करता है । बनारस आप कांचीमें चलकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे ।

समन्तभद्रके सम्बन्धमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे ‘पद्मर्द्धक’ थे—चारण ^५ क्रहिद्विसे युक्त थे—अर्थात् उन्हें तपके प्रभावसे चलनेकी ऐसी शक्ति

* यह ‘कांच्यां नग्नाटकोद्’ पद्मका चौथा चरण है ।

^५ ‘तत्वार्थ-राजवार्तिक’में भट्टाकलंकदेवने चारणार्द्धयुक्तोंका जो कुछ स्वरूप दिया है वह इस प्रकार है—‘क्रियाविषया ऋद्धिद्विविधा चारणत्वमाकाशगमित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविधाः जलजंघातं तु युणपत्रवेष्यग्निशिखादालंबनयमनाः।

प्राप्त हो गई थी जिससे वे दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँचाते हुए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे । उस उल्लेखके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

... समन्तभद्रास्त्वो मुनिर्जीयात्पद्धिकः ॥

—विकान्तकौरव प्र० ।

.... समन्तभद्रायों जीयात्राप्रपद्धिकः ।

—जिवेन्द्रकल्पाणाम्भुदय ।

... समन्तभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षेगोण्डु तपस्सामर्व्येदि
चतुरङ्गुलचारणत्वम् पडेदु..... ।

—राजावलीकथे ।

ऐसी हालतमें समन्तभद्रके लिये सुदूरदेशोंकी नमी यात्राएँ करना भी कुछ कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंमें आसानी-के साथ घूम सके हैं ।

समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम. एस. रामस्वामी आव्यंगर, अपनी ‘स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिजम’ नामकी पुस्तकमें लिखते हैं—

“....It is evident that he (Samantbhadra) was a great Jain missionary who tried to spread far and wide Jain doctrines and morals and that he met with no opposition from other sects wherever he went.”

अर्थात्—यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचारक थे, जिन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर दूर तक विस्तारके साथ फैलाने-का उद्योग किया है, और यह कि जहां कही वे गये हैं उन्हें दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पड़ा ।

जलमुपादाय वाप्यादिष्वकायान् जीवानविशब्दयंतः भूमाविव पादोद्धारनिक्षेप-
कुशला जलचारणाः । भूव उपर्याकाशे चतुरङ्गुलप्रभासौ जंघोत्क्षेपनिक्षेपसीध-
करणपटवो बहुयोजनशतासु गमनप्रवणा जंघचारणाः । एवमितरे च वेदितव्याः ।’

—अध्याय ३, सूत्र ३६ ।

‘हिस्टरी ऑफ कनडीज लिटेर’ के लेखक—कनडी साहित्यका इतिहास लिखनेवाले—मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समंतभद्रको एक देज़्यरूण प्रभावशाली बादी लिखते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे सारे भारतवर्षमें जैनधर्मका प्रचार करनेवाले एक महान् प्रचारक थे। साथ ही, यह भी सूचित करते हैं कि उन्होंने बादमेरी बजानेके उस दस्तूरसे पूरा लाभ उठाया है, जिसका उन्नेक पीछे एक फुटनोटमें किया गया है, और वे बड़ी शक्तिके साथ जैनधर्मके ‘स्याद्वाद-सिद्धान्त’ को पुष्ट करनेमें समर्थ हुए हैं ॥४॥

यहां तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतभद्रके अभावारण युगों, उनके प्रभाव और धर्मप्रचारके लिये उनके देशाटनका कितना ही हाल तो मालूम हो गया, परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि समंतभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मंत्र या जिसकी वजहसे वे हमेशा इस बातके लिये खुशकिस्मत + रहे हैं कि विद्वान् लोग उनकी बादबोपणाओं और उनके तात्त्विक भाषणोंको चुपकेसे सुन नेते थे और उन्हे उनका प्रायः कोई विरोध करते नहीं बनता था—बादका तो नाम ही ऐसा है जिससे न्वाहमस्वाह विरोधकी आग भड़कती है, लोग अपनी मानरक्षाके लिये, अपने पक्षको निर्बल समझते हुए भी, उसका समर्थन करनेके

* He (Samantbhadra) was a brilliant disputant, and a great preacher of the Jain religion throughout India It was the custom in those days, alluded to by Fa Hian (400) and Hiven Tsang (630) for a drum to be fixed in a public place in the city, and any learned man, wishing to propagate a doctrine or prove his erudition and skill in debate, would strike it by way of challenge of disputation,... Samantbhadra made full use of this custom, and powerfully maintained the Jain doctrine of Syadvada.

+ मिस्टर आव्यंगरने भी आपको ‘ever fortunate’ ‘सदा भाव्यशाली’ निभा है। S. in S.I. Jainism, 29.

लिये लड़े हो जाते हैं और दूमरेकी युक्तियुक्त बातको भी मानकर नहीं देते, फिर भी समंतभद्रके साथमें ऐसा प्रायः कुछ भी न होता था, यह क्यों?—अबवय ही इसमें कोई सास रहस्य है जिसके प्रकट होने की जरूरत है और जिसको जानने के लिये पठक भी उत्सुक होंगे।

जहाँ तक मैंने इस विषयकी जांच की है—इस मामले पर गहरा विचार किया है—और अपनेको समंतभद्रके साहित्यादिपरसे उसका अनुभव हुआ है उसके आधार पर मुझे इस बातके कहनेमें जरा भी सकोच नहीं होता कि, समंतभद्रकी इस सफलताका सारा रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मलता और उनकी बाणीके महत्वमें संनिहित है, अथवा यों कहिये कि यह सब अतः—करण तथा चरित्रकी शुद्धिको लिये हुए उनके बचनोंका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस प्रकार सिखा जमा सके हैं। समंतभद्रकी जो कुछ भी बचनप्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हितकामनाको ही लिये हुए होती थी। उसमें उनके लौकिक स्वार्थकी अथवा अपने अहंकारको पुष्ट करने और दूसरोंको नीचा दिखानेरूप कुत्सित भावनाकी गंध तक भी नहीं रहती थी। वे स्वयं सन्मार्ग पर आरूढ़ थे और यह जाहते थे कि दूमरे लोग भी सन्मार्गको पहचानें और उसपर चनना आरंभ करे। साथ ही, उन्हें दूसरोंको कुमांगमें फेंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेदकुश तथा कष्ट होता था और इसलिये उनका वाक्प्रयत्न सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे लोगोंके

* प्रापके इस लेखादिको प्रकट करनेवाले तीन पश्च, नमूनेके तौर पर, इस प्रकार हैं—

मद्यांगवदभूतसमागमे ज्ञः शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसृष्टिः ।

इत्यात्मशिशनोदरपुष्टिनुष्टैर्निर्हीभवेहर्ण ! मृदवः प्रलब्धाः ॥३५॥

हृष्टेऽविशिष्टे जननादिहेती विशिष्टता का प्रतिसत्स्वमेवां ।

स्वभावतः किं न परस्य सिद्धिरत्वावकानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥

स्वच्छन्दवृत्तेजंगतः स्वभावादुर्बल रनाचारपथेष्वदोर्वं ।

निषुँव्य दीक्षासमयुक्तिमानास्त्वद्दृष्टिवाहा बत ! विभ्रमन्ति ॥३७॥

—मुख्यमुशासन ।

उद्धारका अपनी शक्तिभर उच्चोग किया करते थे। ऐसा मालूम होता है कि स्वात्म-हितसाधनके बाद दूसरोंका हितसाधन करना ही उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी ही योग्यताके साथ उसका संपादन करते थे। उनकी बाक्ष्यरिणाति सदा क्षोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरोंके अपशब्देसे उनकी शांति भंग होती थी, उनकी आंखोंमें कभी सुर्खी नहीं आती थी, हमेशा वे हँसमुख तथा प्रसन्नबद्ध रहते थे, दुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और मधुरभाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था। यही बजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले भी उनके सामने ग्राकर मृदुभाषी बन जाते थे, अपशब्दमदान्धों को भी उनके आगे बोल तक नहीं आता था और उनके 'वज्जपात' तथा 'वज्जांकुश' की उपमाको लिए हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे।

समंतभद्रके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे स्याद्वाद-न्मायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इस लिये उनपर पञ्चपातका भूत कभी सबार होने नहीं पाता था। समंतभद्र स्वयं परीक्षाप्रधानी थे, वे कदाप्रह्लो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भगवान् महावीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हे 'आत्म' रूपसे स्वीकार किया है। वे दूसरोंको भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे—उनकी सदैव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको, बिना परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहने पर ही न मान लेना चाहिये बल्कि समयं युक्तियोद्धारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये—उसके गुण-दोषोंका पता लगाना चाहिये—और तब उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने अथवा उनके सिर मैंडनेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे विद्वानोंको, निष्पक्ष हृषिसे, स्वन्पर सिद्धान्तों पर खुला विचार करनेका पूरा अवसर देते थे। उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि किसी भी वस्तुको एक ही पहसुसे—एक ही ओरसे मत देखो, उसे सब ओरसे और सब पहसुप्रोत्से देखना चाहिये, तभी उसका यथार्थ ज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक घमं अथवा झंग होते हैं—इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है—उसके किसी

संक्षेप में यह अमंगको लेकर सर्वथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकल है, और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाचह है, तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है और अन्याय है। स्पादादन्याय इसी एकान्तवादका निवेद करता है, सर्वथा स्तुत-अस्तु-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्ततत्त्व ही उसका विषय है। वह सप्तमंगु^१ तथा नय X विवक्षाको लिये रहता है और हेयादेयका विशेषक है, उसका 'स्याद्' शब्द ही वाक्योंमें अनेकान्तताका ओतक्रतथा गम्यका विशेषण है और वह 'कर्त्तव्यित' आदि शब्दोंके छारा भी अभिहित होता है। यथा—

वाक्येष्वनेकान्तशोती गम्यं प्रति विशेषणं ।

स्यान्निपातं १५३ येऽगत्वात्तथ केवलिनामपि ॥ १०३ ॥

स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्किंवृत्तचिद्विधिः ।

सप्रभगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥

—देवागम ।

अपनी धोषणाके अनुमार, समंतभद्र प्रत्येक विषयके गुणोंको स्याद्वाद-

* 'मर्वथासदसंकानेकनित्यानित्यादिसकलैकान्तप्रत्यनीकानेकान्ततत्त्वविपयः स्याद्वादः' ।—देवागमवृत्तिः ।

^१ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्त्यवक्तव्य और स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भंग हैं जिनका विशेष स्वरूप नया रहस्य भगवान् समंतभद्रके 'आसमीमासा' नामक 'देवागम' ग्रन्थमें दिया हुआ है।

X द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकके विभागको लिये हूए, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ज्ञजसूत्र, शब्द, समझिष्ठ और एवभूत ऐसे सात नय हैं। इनमेंसे पहले तीन नय 'द्रव्यार्थिक' और चौथे 'पर्यायार्थिक' कहे जाते हैं। इसी तरह पहले चार 'शर्यनय' और चौथे तीन 'शब्दनय' कहे जाते हैं। द्रव्यार्थिकको कर्त्तव्यित शुद्ध, निहचय नथा भूतार्थ और पर्यायार्थिकको अशुद्ध, व्यवहार तथा अभूतार्थ नय भी कहते हैं। इन नयोंका विस्तृत स्वरूप 'नयचक्र' तथा 'इलोकवातिक' आदि संघोंमें कानना चाहिये ।

नीयकी कसीटी पर कसकर बिडालोंके सामने रखते थे— वे उन्हें बतलाते थे कि: एक ही वस्तुतस्वर्णं अमुक अमुक एकान्तं पक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवार्य दोष आते हैं और वे दोष स्यादादन्यावको स्वीकार करनेपर प्रथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतस्वका सामंजस्य बैठ जाता है * । उनके समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वे एक मार्ग भूते हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी चुटियोंका बोध करते थे, और इसमें उनके भाषणादिकका दूसरोंपर अच्छा ही प्रभाव पड़ता था—उनके पास उमके विरोधका कुछ भी कारण नहीं रहता था । यही बजह थी और यही सब वह मोहन मत्र था जिसमें समतभद्रको दूसरे संप्रदायोंकी ओरसे किसी भाव विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें अच्छी मफनताभी प्राप्ति हुई ।

यहाँपर मैं इनना और भी प्रकट कर देना उचित समझता हूँ कि समंतभद्र स्यादादविद्याके अडितीय अविष्पति थे; वे दूसरोंहो स्यादाद मार्गपर चलनेका उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वयं अपने जीवनको स्यादादके रंगमें पूरी

* इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समंतभद्रका 'आत्मी-माँसा' नामक ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'देवागम' भी कहते हैं । यहाँपर अडैत एकांतपक्षमें दोषोऽद्वावन करनेवाले उसके कुछ पद्य, नमूनेके तौरपर, नीचे दिये जाने हैं—

अडैतकान्तपक्षेऽपि हृष्टो भेदो विरुद्धते ।

कारकाणां क्रियायाइच नैकं स्वस्मात्प्रजायते ॥ २५ ॥

कर्मदैनं फलदैतं लोकदैतं च नो भवेत् ।

विद्याविद्याद्यं न स्याद्बन्धमोऽद्वयं तत्त्वं ॥ २५ ॥

हेतुरदैतसिद्धिश्चेदैतं स्यादेतुसाध्योः ।

हेतुना चेदिना सिद्धिदैतं वाऽमात्रतो न कि ॥ २६ ॥

अदैतं न विना दैतादेतुरिक्त हेतुना ।

संजिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेधाहृते अवचित् ॥ २७ ॥

तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके सब्दे तथा पूरे अनुयायी थे ॥ उनकी प्रत्येक बात अथवा कियासे अनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी और उनके चारों ओर अनेकान्तका ही साम्राज्य रहता था । उन्होंने स्याद्वादका जो विस्तृत वितान या शामियाना ताना था उसकी छवियायाके नीचे सभी लोग, अपने अज्ञान ताप-को मिटाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे । वास्तवमें समन्तभद्रके द्वारा स्याद्वादविद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है । उन्होंने स्याद्वादन्यायको जो विशद और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे पहले के किसी भी ग्रंथमें नहीं पाया जाता । इस विषयमें, आपका 'आत्ममीमांसा' नामका ग्रंथ जिसे 'देवागम' स्तोत्र भी कहते हैं, एक सास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमें उसकी जोड़का दूसरा कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा मालूम होता है कि समन्तभद्रसे पहले जैनधर्मकी स्याद्वादविद्या बहुत कुछ लुप्त हो चुकी थी, जनता उससे प्रायः अनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था । समन्तभद्रने अपनी असाधारण प्रतिभासे उस विद्याको पुनरुज्जीवित किया और उसके प्रभाव-को सर्वत्र व्याप्त किया है । इसीसे विद्वान् लोग आपको 'स्याद्वादविद्याग्रनुग्रह +', 'स्याद्वादविद्याधिपति' 'स्याद्वादशरीर' ‡ और 'स्याद्वादमार्गिणी' † जैसे विशेषणोंके साथ स्मरण करते आए हैं । परन्तु इसे भी रहने दीजिये, उन्हीं

* भट्टाकलंकदेवने भी समन्तभद्रको स्याद्वादमार्गके परिपालन करनेवाले लिखा है । साथ ही 'भव्यैकलोकनयन' (भव्यजीवोंके लिये अद्वितीय नेत्र) यह उनका अथवा स्याद्वादमार्गका विशेषण दिया है—

श्रीवद्मानमकलंकमनिन्दावन्द्यापादारविन्दव्युग्मलं प्रणिपत्य मूर्ख्ना ।

भव्यैकलोकनयनं परिपालयनं स्याद्वादवत्तर्म परिणौमि समन्तभद्रम् ॥

—पृष्ठशती ।

श्रीविद्यानन्दाचार्यने भी, युक्त्यनुशासनकी टीकाके अन्तमें, 'स्याद्वादमार्गनुगैः' विशेषणके द्वारा, आपको स्याद्वादमार्गका अनुगामी लिखा है ।

+ लघुसमन्तभद्रकृत 'अष्टसहस्री-विषमपद-तात्पर्यटीका' ।

‡ वसुनन्दाचार्यकृत 'देवागमवृत्ति' ।

† श्रीविद्यानन्दाचार्यकृत 'अष्टसहस्री' ।

क्षताब्दीके तार्किक विद्वान्, भट्टाकलंकदेव जैसे महान्^४ प्राचार्य लिखते हैं कि ‘प्राचार्य समन्तभद्रने संपूरणपदार्थतत्त्वोंको अपना विषय करनेवाले स्याह्नादरूपी पुष्पोदधि-तीर्थोंको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके प्रान्तरिक मलको दूर करनेके लिये प्रभावित किया है—उसके प्रभावको सर्वत्र स्यात् किया है। यथा—

तीर्थं सर्वपदार्थं-तस्यविषय-स्याह्नादपुण्योदधे-

र्भव्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलौ ।

येनाचार्यसमन्तभद्रयतिना तस्मै नमः संततं

कृत्वा विश्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तकृतिः ॥

यह पथ भट्टाकलंककी ‘श्रावृत्ताती’ नामक वृत्तिके मंगलाचरणका हितीय पथ है, जिसे भट्टाकलंकने, समन्तभद्राचार्यके ‘देवागम’ नामक भगवत्स्तोत्रकी वृत्ति (भाष्य) लिखनेका प्रारम्भ करते हुए, उनकी स्तुति और वृत्ति लिखनेकी प्रतिकारूपसे दिया है। इसमें समन्तभद्र और उनके वाढ़-मयका जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है वह बड़े ही महत्त्वका है। समन्तभद्रने स्याह्नादीर्थोंको कलिकालमें प्रभावित किया। इस परिचयके ‘कलिकालमें’ (‘काले कलौ’) शब्द खास तौरसे ध्यान देने योग्य है और उनसे दो अर्थोंकी ध्वनि निकलती है— एक तो यह कि, कलिकालमें स्याह्नादीर्थोंको प्रभावित करना बहुत कठिन कार्य था, समन्तभद्रने उसे पूरा करके निःसन्देह एक ऐसा कठिन कार्य किया है जो दूसरोंसे प्रायः नहीं हो सकता था अथवा नहीं हो सका था; और दूसरा यह कि कलिकालमें समन्तभद्रसे पहले उक्त तीर्थकी प्रभावना—महिमा या तो हुई नहीं थी, या वह होकर लुतप्राय हो चुकी थी और या वह कभी उतनी और उतने महत्वकी नहीं हुई थी जितनी और जितने महत्वकी समन्तभद्रके ढारा, उनके समयमें, हो सकी है। पहले अर्थमें किसीको प्रायः कुछ भी विवाद नहीं हो सकता—कलिकालमें जब कलुषाशयकी वृद्धि हो जाती है तब उसके कारण अच्छे कामोंका प्रचलित होना कठिन हो ही जाता है—स्वयं समन्तभद्राचार्यने,

^४ नगर तालुका (जिऽशिमोगा) के ४६वें शिलालेखमें, समन्तभद्रके ‘देवागम’ स्तोत्रका भाष्य लिखनेवाले अकलंकदेवको ‘महर्दिक’ लिखा है। यथा—

जीयात्समन्तभद्रस्य देवागमनस्त्रिणः ।

स्तोत्रस्य माष्यं कृतवानकलंको महर्दिकः ॥

यह सूचित करते हुए कि महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपति-त्वरूप-लक्ष्मीकां स्वामी होनेकी शक्ति है, कलिकालको भी उप शक्तिके अपवाद-का—एकाधिपत्य^५ प्राप्त न कर सकनेका—एक कारण माना है। यथापि, कलिकाल उसमें एक साधारण^६ बाह्य कारण है, प्रसाधारणकेरूपमें उन्होंने श्रोताओं का कलुषित आशय (दर्शनमोहकान्त-चित्त) और प्रवक्ता (आचार्यादि) का वचनानय (वचनका अप्रशस्त निरपेक्ष* नयके माथ अवहार) ही स्वीकार किया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कलिकाल उस शासनप्रचारके कार्यमें कुछ बाधा डालनेवाला—उसकी सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाला—जारी है। यथा—

कालः कलिर्वा कलुपाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुर्वचनानयो वा ।

त्वच्छासनैकाधिपतित्व-लक्ष्मी-प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतुः ॥५॥

—युक्त्यनुशासन ।

स्वामी समन्तभद्र एक महान् प्रवक्ता थे, वे वचनानयके दोषमें बिल्कुल रहित थे, उनके वचन—जैमा कि पहले जाहिर किया गया है—स्याद्वादन्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे; विकार-हेनुओंके समुगमित होने पर भी उनका चिन कभी बिकृत नहीं होता था—उन्हे क्षोभ या क्रोध नहीं आता था—और इमें लिये उनके वचन कभी मार्गका उल्लंघन नहो करने थे। उन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि, अपने चारित्रबल और अपने स्तुत्य वचनोंके प्रभावमें श्रोताओंके कलुषित आशय पर भी बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था—उमे कितने ही अशोमें बदल दिया था। यही बजह है कि आप स्याद्वादशासनको प्रतिष्ठित करनेमें बहुत

^५ 'एकाधिपतित्वं सर्वं वश्याश्रयणीयत्वम्'—इति विद्यानन्दः ।

'सभी जिमका अवश्य आश्रय ग्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेको एकाधिपतित्व या एकाधिपत्य कहते हैं।'

^६ अपवादहेतुवाहा: साधारणः कलिरेव कालः—इति विद्यानन्दः ।

* जो नय परस्पर अपेक्षारहित है वे मिथ्या हैं और जो अपेक्षासहित है वे सम्यक् अथवा वस्तुतत्त्व कहलाते हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा है—

'निरपेक्षा नया मिथ्यों सम्पेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत' —देवागम ।

कुछ सफल हो मके और कलिकाल उसमें कोई विशेष बाधा नहीं ढाल सका । वसुनन्दि संद्वान्तिकने तो आपके मतकी—शासनकी—बंदना और स्तुति करते हुए यहाँ तक लिखा है कि उस शासनमें कालदोषको ही नष्ट कर दिया था—अर्थात् समन्तभद्रमुनिके शासन-कालमें वह मालूम नहीं होता था कि आजकल कलिकाल बीत रहा है । यथा—

लक्ष्मीभृत्यरमं निरुक्तिनिरतं निर्वाणसौख्यप्रदं
कुञ्जानातपवारणायविधृतं छत्रं यथा भासुरं ।
सज्जानीनययुक्तिमौक्तिकफलैः संशोभमानं परं
वन्दे तद्वत्कालदोषममलं सामन्तभद्रं मतम् ॥३॥

—देवागमवृत्ति

इस पदमें समन्तभद्रके ‘मत’ को, लक्ष्मीभृत परम निर्वाणसौख्यप्रद हृत-कालदोष और अमल आदि विशेषणोंके साथ स्मरण करते हुए, जो देवीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह बड़ी ही हृदयग्राहिणी है, और उससे मालूम होता है कि समन्तभद्रका शासनछत्र सम्परणानों, मनयो तथा सुयुक्तियो रूपी मुक्ताफलों-से संशोभित है और वह उसे धारण करनेवालेके कुञ्जनरूपी आनापको मिटा देने वाला है । इस सब कथनसे स्पष्ट है कि समन्तभद्रका स्याद्वादशासन बड़ा ही प्रभावशाली था । उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज मन्द पड़ गया था, और इसलिये कलिकालमें स्याद्वाद तीर्थको प्रभावित करना, यह समन्तभद्रका ही एक खास काम था ।

दूसरे अर्थके सम्बन्धमें सिफ़ इनना ही मान लेना ज्यादा अच्छा मालूम होता है कि समन्तभद्रसे पहले स्याद्वादतीर्थकी महिमा लुप्तप्राय हो गई थी, समन्त-भद्रने उसे पुनः संजीवित किया है, और उसमें असाधारण बल तथा शक्तिका संचार किया है । अवरणबेलालके निम्न शिलावाक्यसे भी ऐसा ही ज्वनित होता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसंघके नायक आचार्य समन्तभद्रके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग (स्याद्वादमार्ग) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ है—अर्थात् उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला— और सबका प्रेमपात्र बना है—

‘आचार्यस्स समन्तभद्रगणभूचेनेहकाले कलौ
जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भ्र समन्तान्मुहु’ ॥

—५४ वा शिलालेख ।

इसके सिवाय चन्द्ररायपट्टण ताल्लुके के कनडी शिलालेख का न० १४६ म, जो शक स० १०४७ का निष्ठा हुआ है समन्तभद्रकी बाबत यह उल्लेख मिलता है कि वे श्रुतकेवलि सतानको उन्नत करनवाले और समस्त विद्याओंके निधि थ । यथा—

श्रुतकेवलिगलु पलवरूप् अतीतर् आद् इस्वलिकके तत्सन्तानो-
अतिय समन्तभद्र-ब्रातिपर् चलेन्द्रु समस्तविद्यानिधिगल् ॥

और बलूर ताल्लुके शिलालेख का न० १७ म भी, जो रामानुजाचार्य मंदिर के अहातेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी छतके एक पत्थर पर उत्कीरण है और जिसम उसके उत्कीरण होनका समय शक स० १०५६ दिया है, एसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्योंके बाद समन्तभद्रस्वामी श्रीवद्भानस्वामीक तीर्थकी—जैनमार्गकी—सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए । यथा—

श्रीवद्भ्वानस्वामिगलु तीर्थदोलु कवलिगलु ऋद्धिप्राप्तरु श्रुति-
केवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर् आगे तत् तथम् सहस्रगुण मादि
समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्दर्भ ।

इन दोनो उल्लेखोंसे भी यही पाया जाता है कि स्वामी समन्तभद्र इस कलिकालम जैनमार्गकी—स्याद्वादशासनकी—भ्रसाधारण उन्नति करनवाले हुए हैं । नगर ताल्लुके के ३-४ शिलालेखमें भद्रबाहुवे बाद कलिकालके प्रवेशको सुचित करते हुए, आपको ‘कलिकालगणधर’ और ‘शास्त्रकर्ता’ निष्ठा है—

का का देखो एपिग्रफिया कर्णाटिका जिल्ड पांचवी (E C V)

इस अशका सेविस राहस्यकृत भ्रमजी मनुवाद इस प्रकार है—Increasing that doctrine a thousand fold Samantabhadra swami arose.

† यह शिलालेख शक स० ११६ का निष्ठा हुआ है (E C , VIII)

“....भद्रवाहुस्यामि गलिंद् इत्कलिकालं वर्तेनेयिं गणमेवं पुष्टिदुदृ
अवर अन्वयक्तमदिक्कलिकालगणधरुं शास्त्रकस्तुगलुम् पनिसिद् समन्त-
भद्रस्वामिगत् ।”

समन्तभद्रने जिस स्याद्वादशासनको कलिकालमें प्रभावित किया है उसे भट्ठाकलंकदेवने, आपने उक्त पदमें, ‘पुष्टोदधि’ की उपमा दी है। साथ ही, उसे ‘तीर्थं’ लिखा है और यह प्रकट किया है कि वह भव्यजीवोंके आन्तरिक भलको दूर करनेवाला है और इसी उद्देश्यसे प्रभावित किया गया है। भट्ठाकलंकका यह सब लेख समन्तभद्रके उस बचनतीर्थको लक्ष्य करके ही लिखा गया है जिसका भाव्य लिखनेके लिये आप उस बक्त दत्तावधान थे और जिसके प्रभावमें ‘पात्रकेसरी’^५ जैमे प्रस्तर तार्किक विद्वान् भी जैनधर्मको धारण करनेमें समर्थ हो सके हैं।

भट्ठाकलंकके इस सब कथनसे समन्तभद्रके बचनोंका अद्वितीय माहात्म्य प्रकट होता है। वे प्रौढत्व, उदारता और अर्थगौरवको लिये हुए होनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे। इसीसे बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने आपके बचनोंकी महिमाका सुला गान किया है। नीचे उसीके कुछ नमूने और दिये जाने हैं, जिनसे पाठकोंको समन्तभद्रके बचनमाहात्म्यको समझने और उनके गुणोंका विशेष अनुभव प्राप्त करनेमें और भी ज्यादह सहायता मिल सकेगी। साथ ही, यह भी मासूम हो सकेगा कि समन्तभद्रकी बचनप्रवृत्ति, परिणामित और स्याद्वादविद्याको पुनरुज्जीवित करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ कहा गया है अथवा अनुमान किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है—

नित्याद्योक्तान्तर्गतप्रपतनविवशान्प्राणिनोऽनर्थसार्थाद्-

उद्धरुं नेतुमुच्चैः पद्ममलमलं मंगलानामलंद्यं ।

स्याद्वादन्यायवर्त्म प्रथयद्वितथार्थं बचः स्वामिनोदः

प्रेक्षावत्वात्प्रवृत्तं जयतु विषट्टिताऽशेषमिध्याप्रवादं ॥—अष्टसहस्री

इस पदमें, विक्रमकी प्रायः ६ वी शताब्दीके दिमाज तार्किक विद्वान्

^५ आप पहले अजेन थे, ‘देवागम’ को सुनकर आपकी अद्वा बदल गई और आपने जैनवीका धारण की।

श्रीविद्यानन्द आचार्य, स्वामी समन्तभद्रके बचनसमूहका जयघोष करते हुए लिखते हैं कि स्वामीजीके बचा नित्यादिष्ठ एकान्त गतों में पड़े हुए प्राणियोंको अनधर्मसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त करानके लिये समर्थ हैं जो उत्कृष्ट मगलात्मक तथा निर्दोष है स्याद्वादन्यायके मार्गंको ग्रथित करनवाले हैं, सत्याय हैं, परीक्षापूर्वक प्रवृत्त हुए हैं प्रथवा प्रेक्षावान् ।—समीक्ष्यकारी—आचार्यमहोदयके हारा उनकी प्रवृत्ति हई है, और उन्होंने मधुर भिष्या-प्रवाद-कों विषट्टि—तिर विनर—कर दिया है ।

प्रज्ञाधीशप्रपृज्योउज्ज्वलगुणनिकरोऽनुसत्कीर्तिसम्प-
द्विद्यानन्दोदयायानवरतमस्तिलक्लेशनिर्णाशनाय ।

स्तादृगौ सामन्तभद्री दिनकरक्षिजित्यप्रभगीविधीढा
भावाद्यकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वाऽकलकप्रकाशा ॥

—मष्टमहस्ती ।

इम पदमे वे ही विद्यानन्द आचार्य यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्रकी वार्णी उन उज्ज्वल गुणके मधुरमें उत्तन हुई मन्त्रीनिहिती सम्पत्तिम युक्त है

*बस्तु सवधा नित्य ही है—कृत्यवत् एकरूपनाम रहना है—इस प्रकारकी मान्यनाव । नित्यकान्त कहत हैं और उम सवधा अशिक्ष मानना—अग्राधग्राम उसका निर्गच्छविनाश स्वीकार करना—क्षणिककान्त बाद कहलाना है । देवागम म इन दोना एवान्तवादोवी स्थिति और उमम होनवाले अनयोंका बहुत कुछ स्पष्ट करके बतलाया गया है ।

यह स्वामी समन्तभद्रका विशयण है । युक्त्यनुशासन—टीकाके निम्न पदमे भी श्रीविद्यानदाचार्यन आपका 'परीक्षावृष्टि' विशयणक साथ स्मरण किया है और इस नरह पर आपनी परीक्षाप्रधानताका मूचित किया है—

श्रीमद्वीरजिनेश्वरामलगुणस्तोत्र परीक्षेक्षरणं'

मोक्षात्स्वाभिममन्तभद्रगुणभिस्तत्वं ममीक्ष्यास्तिल ।

प्रोक्त युक्त्यनुशासन विजयिभि स्याद्वादमार्गनुरूप—

विद्यानन्दवृष्टरलकृतमिद श्रीसत्यवाक्याविवै ॥

जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रशूच्य है, वह अपने तेजसे सूर्यकी किरणों की जीतनेवाली सत्तमंगी विधि के द्वारा प्रदीप्त है, निर्मल प्रकाशको लिये हुए है और आव-आवाव आदिके एकान्त पक्षरूपी हृदयांषकारको दूर करनेवाली है। साथ ही, अपने पाठकोंको यह आशीर्वाद देते हैं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या (केवलज्ञान) और आनन्द (अनन्तसुख) के उदयके लिये निरतर कारणीभूत होवे और उसके प्रसादमें तुम्हारे सपूर्णं क्नेश नाशको प्राप्त हो जायें। यहाँ 'विद्यानन्दोदयाय' पदसे एक दूसरा भर्च भी निकलता है और उससे यह सूचिन होता है कि समंतभद्रकी वाणी विद्यानन्दाचार्यके उदयका कारण हुई है और इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और उदयकी भी भावना की है।

अद्वैताश्याग्रहाप्रगहानविपनिमहालंघवीर्यः

स्यात्कारामोघमंत्रप्रणवनविधयः शुद्धसद्ध्वानधीराः ।

धन्यानामादधाना धृतिमधिवसतां मंडलं जैनमग्रन्थं

वाचः सामन्तभद्रश्चं विद्यथु विधिं सिद्धिमुद्भूतमुद्राः ॥

अपेक्षैकान्तादिप्रबलगरलोद्रेकदलिनी

प्रबृद्धानेकान्तासूतरसनिंपकानवरतम् ।

प्रबृत्ता वागेषा सकलविकलादेशवशतः

समन्ताद्वद् चो दिशतु मुनिपस्थ्यामलमतेः ॥

मष्टसहस्रीके इन पदोंमें भी श्रीविद्यानन्द-जैसे महान् आचार्योंने, जिन्होंने अष्टमहस्तीके अतिरिक्त आसपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यकासनपरीक्षा, विद्यानन्दमहादय और इलोकवातिक आदि कितने ही महत्वपूर्णं प्रथमोंकी रचना की है, निर्मलमति श्रीसमंतभद्र-मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारसे गुणगान किया है और उसे अलंघयीर्यं, स्यात्काररूप अमोघमंत्रका प्रणयन करनेवाली, शुद्ध-सद्धानधीराँ, उद्भूतमुद्रा फूँ (ऊँ आनन्दको देनेवाली), एकान्तरूपी

संघवा समंतभद्रकी भारती बड़े बड़े बुद्धिमानोंके द्वारा प्रशूचित है और उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्न हुई सत्कीर्तिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है।

† 'ध्यानं परीक्षा तेन धीराः स्थिराः' इति टिप्पणकारः ।

‡ 'उद्भूतां मुदं शान्तिं ददातीति (उद्भूतमुद्राः) इति टिप्पणकारः ।

प्रबल गरल (विष) के उड़ेको दलनेवाली और निरन्तर अनेकान्तरूप अमृत रसके सिचनसे प्रवृद्ध तथा प्रमाण नयोके अधीन प्रवृत्त हुई लिखा है। साथ ही, वह बारणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब औरसे मगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होवे, इस प्रकारके प्राशीर्वाद भी दिये हैं।

कार्यादेमेद एव म्फुटमिह-नियतः सर्वथा-कारणादे-
रित्याद्येकान्तवादाद्यतरमतयः शाततामाश्रयन्ति ।

प्रायो यस्योपदेशादविधिटितनयान्माननूयादलंच्यात्
स्वामी जीयात्स शश्वत्प्रथिततरयतीशोऽकल्पकोरुकीर्तिः ॥

भष्टसहस्रीके इस पद्मे लिखा है कि 'वे स्वामी (समनभद्र) सदा जयवत रहे जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हैं, जिनकी कीर्ति निरोप तथा विशाल है और जिनके नयप्रमाणमूलक अलघ्य उपदेशमे वे महाउद्धतमति एकान्तवादी भी प्राय शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिका मर्वथ। भेद ही नियत मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि वे कारण कार्यादिक सवथा अभिन्न ही है—एक ही है।

येनाशेषकुनीतिवृत्तिसरितः प्रेक्षावतां शोषिता.
यद्वाचोऽप्यकलंकनीतिरुचिरास्तस्वार्थसार्थद्यातः ।
स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयनिभृद्भूयाद्विभुर्भानुमान्,
विद्यानंदधनप्रदोऽनधिधियां स्याद्वादमार्गप्रणीः ॥

भष्टसहस्रीके इस अनिमां मगलपद्ममें श्रीविद्यानन्द आचार्यने, सक्षेपमें, समन्तभद्र विषयक अपने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे बड़े ही महत्वके हैं। आप

† भष्टमहस्रीके प्रारम्भमे जो मगल पद्म दिया है उसमे समन्तभद्रको 'श्री बद्मान', 'उद्भूतबोधमहिमान्' और 'अनिन्द्यवाक्' विशेषणोके साथ अभिवन्दन किया है। यथा—

श्रीबद्मामभिवद्यसमन्तभद्रभूतबोधविहिमानमनिन्द्यवाचम् ।

शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचरासमीमासितं कृतिरलक्षियते मयाऽस्य ॥

लिखते हैं कि 'जिन्होने परीक्षाकालोके लिये सपूर्ण कुनीति-वृत्तिरूपी नवियोको सुखा दिया है और जिनके बचन निर्दोषनीति (स्याद्वादन्याय) को लिये हुए होने-की वजहसे मनोहर है तथा तत्त्वार्थसमूहके द्वातक है वे यतियोके नायक, स्याद्वादमार्गके अपरणी, विश्व और भानुमान् (तेजस्वी) श्रीसमन्तभद्र स्वामी बलुषा-शयरहित प्राणियोको विद्या और आननदधनके प्रदान करनेवाले होवें ।' इससे स्वामी समन्तभद्र और उनके बचनोका बहुत ही अच्छा महत्व स्पष्टपित होता है ।

गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरांतरमै. करण्ठविभूषणीकृता ।

न हारयष्टि परमेव दुर्लभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ ६ ॥

—चन्द्रप्रभचरित ।

इस पद्मे महाकवि श्रीबीरनंदी आचार्य, समन्तभद्रकी भारती (बाणी)-को उस हारयष्टि (मोतियोकी माला) के समकक्ष रखते हुए जो शुणो (सूतके धागो) में शूँधी हुई है, निर्मल गोल मोतियोमें युक्त है और उत्तम पुष्पोंके कठ-का विभूषण बनी हुई है, यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्रकी आणी अनेक सद्गुणोंको लिये हुए है, निर्मल वृत्तझौँ रूपी युक्ताफलोमें युक्त है और बड़े बड़े आचार्यों तथा विडानोने उमे अपने कठका आभूषण बनाया है । साथ ही, यह भी बतलाने हैं कि उम हारयष्टिको प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारतीको पा लेना—उसे समझकर हृदयगम कर लेना—और इससे स्पष्ट घटनि निकलती है कि समन्तभद्रके बचनोका लाभ बड़े ही भाग्य है । तथा परिश्रमसे हाता है ।

श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य भी, अपने सिद्धान्तसारमध्ये, ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं । आप समन्तभद्रके बचनको 'अनघ' (निष्पाप) सूचिन करते हुए उसे मनुष्यत्वकी प्रतिकी तरह दुर्लभ बतलाते हैं । यथा—

श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघ ।

प्राणिनां दुर्लभं यद्यन्मानुशत्वं तथा पुनः ॥ ११ ॥

शक संवत् ७०५ में 'हरिवशपुराण' को बनाकर समाप्त करनेवाले ओजिने-सेनाचार्यने समन्तभद्रके बचनोको विस कोटिमें रखा है और उन्हे किस महा-

• बृतान्त, चरित, आचार, विद्यान अथवा छन्द ।

पुरुषके वचनोकी उपमा दी है, यह सब उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

जीवसिद्धि-विधायीह कृत-युक्त्यनुशासनं ।

वचः समन्तभद्रस्य वारस्येव विजृम्भते ॥ ३० ॥

इस पद्ममे जीवसिद्धिका विधान करनेवाले और युक्तियोद्वारा अथवा युक्तियोका अनुशासन करनेवाले समतभद्रके वचनोकी बाबत मह कहा गया है कि वे वीर भगवानके वचनोकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात् अन्तिम तीर्थकर श्रीमहावीर भगवानके वचनोके समकक्ष हैं और प्रभावादिकमें भी उन्हीके तुल्य हैं। जिनसेनाचार्यका यह कथन समतभद्रके 'जीवमिद्दि' और 'युक्त्यनुशासन' नामक दो ग्रन्थोके उल्लेखको लिये हुए हैं, और इसमे उन ग्रन्थो (प्रवचनो) का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

प्रमाण-नय-निर्णय-वस्तुतस्वमवाधितं ।

जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनं ॥

—युक्त्यनुशासनटीका ।

इस पद्ममे श्रीविद्यानन्दचार्य, समतभद्रके 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्रका नय-धोष करते हुए, उसे 'अवाधित' विशेषण देते हैं और साथ ही यह सूचित करने हैं कि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्त्वका निर्णय किया गया है।

* स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं ।

देवागमेन सर्वज्ञा येनाद्यापि प्रदर्श्यते ।

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाद्यग्न्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकर्णडकः ॥

—पाश्वनाथचरित ।

* मार्गिकचद्रपन्त्यमालामे प्रकाशिन 'पाश्वनाथचरित' मे इन दोनो पद्मोके मध्यमें नीचे लिखा एक पद्म और भी दिया है, जिसके द्वारा वादिराजने समत-भद्रको अपना हित चाहनेवालोके द्वारा बदनीय और अचिन्त्य-महिमावाला देव प्रतिपादन किया है। माथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होने हैं, उनके किमी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है—

अचिन्त्यमहिमा देवं सोऽमिवंशो हितैशिणा ।

शब्दाद्य येन सिद्धान्ति याचुत्त्वं प्रतिर्मिता ॥

इन पर्यावरणों, ‘पास्वनायचरितको शक सं० ६४७ में बनाकर समाप्त करने-वाले श्रीवाहिराजसूरि, समतभद्रके ‘देवागम’ और ‘रत्नकरडक’ नामके दो प्रवचनों (प्रन्वाँ) का उल्लेख करते हुए, लिखते हैं कि ‘उन स्वामी (समतभद्र) का चरित्र किसके लिये विस्मयावह (आश्चर्यजनक) नहीं है जिन्होंने ‘देवागम’ के द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रखा है । निष्ठयसे वे ही योगीन्द्र (समन्तभद्र) त्यागी (दाता) हुए हैं जिन्होंने भव्यसमूहरूपी याचकको अक्षय सुखका कारण रत्नोंका पिटारा (रत्नकरडक) दान दिया है’ ।

समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूषणः ।
देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥

—पाण्डवपुराण

इम परामे श्रीशुभचंद्राचार्य लिखते हैं कि ‘‘जिन्होंने ‘देवागम’ नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको—जिनेन्द्रदेवके आगमको—इस लोकमे व्यक्त कर दिया है वे ‘भारतभूषण’ और ‘एक मात्र भद्रप्रयोजनके ध्यारक’ श्रीसमन्तभद्र लोकमे प्रकाशमान होवे, अर्थात् अपनी विद्या और गुणोंके द्वारा लोगोंके हृदयान्वयकारको दूर करनेमें समर्थ होवे ।’’

समन्तभद्रकी भारतीका एक स्नोत्र, हाथधे, मुझे दक्षिण देशसे प्राप्त हुआ है । यह स्नोत्र कवि नागराजाँ का बनाया हुआ और अभीतक प्राय अप्रकाशित ही जान पड़ता है । यहाँ पर उसे भी अपने पाठकोंकी अनुभववृद्धिके लिये दे देना उचित समझता हूँ । वह स्नोत्र इस प्रकार है—

सास्मरीमि तोष्ट्रवीमि ननभीमि भारती,
तंतनीमि पापठीमि वंभणीमि तेऽमलां ।

॥ इसकी प्राप्तिके लिये मैं उत्तर्व० शातिराजीका आभारी हूँ जो कुछ असें तक ‘जैनसिद्धान्तभवन आरा’ के अध्यक्ष रह चुके हैं ।

† ‘नागराज’ नामके एक कवि शक संवत् १२५३ में हो गये है, ऐसा ‘कण्टिककविचरित’ में मातृम होता है । बहुत संभव है कि यह स्नोत्र उन्हींका बनाया हुआ हो; वे ‘उभयकविताविलास’ उपाधिमें भी युक्त थे । उन्होंने उस सं० में अपना ‘पुण्यात्मवचम्पू’ बना कर समाप्त किया है ।

देवराजनागराजमर्त्यराजपूजितां
 श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥
 मातृ-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे,
 सप्तभगसप्तनीतिगम्यतस्वगोचरां ।
 मोक्षमार्ग-तद्विपक्षभूरिघर्मगोचरा-
 मापतस्वगोचरां समन्तभद्रभारती ॥ २ ॥
 सूरसूक्तिवदितामुपेयतस्वभाषणी.
 चारुकीर्तिभासुरामुपायतस्वसाधनी ।
 पूर्वपक्षसंडनप्रचण्डवाग्विलासिनी
 संस्तुवे जगद्वितां समन्तभद्रभारती ॥ ३ ॥
 पात्रकेसरप्रभावसिद्धकारिणी स्तुवे,
 भाष्यकारयोपितामलंकृतां सुनीश्वरैः ।
 गृध्रपिङ्गभाषितप्रकृष्टमंगलार्थिकं
 सिद्धि-सौख्यमाधनी समन्तभद्रभारती ॥ ४ ॥
 इन्द्रभूतिभाषितप्रमेयजालगोचरां,
 वर्द्धमानदेवघोद्धुद्धुचिद्विलासिनी,
 यौगसौगतादिगर्वपर्वताशनिं स्तुवे
 क्षीरवार्धिसञ्जिमां समन्तभद्रभारती ॥ ५ ॥
 मान-नीति-वाक्यमिद्वस्तुधर्मगोचरां
 मानितप्रभावमिद्वसिद्धिसिद्धसाधनी ।
 घारभूरिदुःखवार्धितारणहमामिमां
 चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ६ ॥
 सान्तसाद्यनाद्यनन्तमध्ययुक्तमध्यमां
 शून्यभावसर्ववेदि-तस्वसिद्धिसाधनी ।
 हेत्वहेतुवादसिद्धवाक्यजालभासुरां
 मोहसिद्धये स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ७ ॥
 व्यापकद्वयाप्तमार्गतस्वयुम्भगोचरां
 पापहारि-वाग्विलासिभूषणांशुकां स्तुवे ।

शीकरी च धीकरी च सर्वसौख्यदायिनी
नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम् ॥ ८ ॥

इस 'समन्तभद्रभारतीस्तोत्र' में, स्तुतिके माथ, समन्तभद्रके बादी, भाषणों और ग्रंथोंके विषयका यत्किञ्चित् दिग्दर्शन कराया गया है। साथ ही, यह सूचित किया गया है कि समन्तभद्रकी भारती आचार्योंकी सूक्तियोद्घारा विदित, मनोहर कीतिसे देवीपूजान और क्षीरोदधिके समान उज्ज्वल नदा गम्भीर है, पापोंको हरना, मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रको दूर करना ही उम बारदेवी-का एक आभूषण और बासिन्दाम ही उसका एक वस्त्र है, वह घार दुःखमागर-से पार करनेके लिये सर्वथ है, मर्वं सुखोंको देनेवाली है और जगतके लिये हितरूप है ॥ ८ ॥

यह मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ कि समन्तभद्रकी जो कुछ वचनप्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंके हितके लिये ही होती थी, यहाँ भी इस स्नोत्रसे वही बात पाई जाती है, और ऊपर दिये हुए दूसरे किनने ही आचार्योंके वाक्योंसे भी उमका पोषण नदा स्पष्टीकरण होता है। अस्तु, इस विषयका यदि और भी अच्छा अनुभव प्राप्त करना हो तो उमके लिये स्वयं समन्तभद्रके ग्रंथोंको देखना चाहिये। उनके विचारपूर्वक अध्ययनमें वह अनुभव स्वतं हो जायगा। समन्तभद्रके भन्योंका उद्देश्य ही पापोंको दूर करने—कुटृष्टि, कुदुषि, कुनीति और कुवृत्तिको हटाकर—जगतका हित साधन करना है। समन्तभद्रने अपने इम उद्देश्यको कितन ही ग्रंथोंमें व्यक्त भी किया है, जिसके दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

इतीयमास्मीमांसा विहिता हितमिच्छतां ।
सम्यग्मिध्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥ ११४ ॥

यह 'आप्तमीमासा' ग्रन्थका पद्धति है। इसमें, ग्रन्थानिर्माणका उद्देश्य प्रकट करते हुए, बतलाया गया है कि यह 'आप्तमीमासा' उन लोगोंको सम्यक् और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गई है जो अपना

^५ इस स्तोत्रके पूरे हिन्दी अनुवादके लिये देखो, 'सत्ताषु-स्मरण-मगलपाठ'

जो शीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित हुआ है।

हित चाहते हैं। ग्रन्थकी कुछ प्रतियोगे में 'हितमिच्छता' की जगह 'हितमिच्छता' पाठ भी पाया जाता है। यदि यह पाठ ठीक हो तो वह ये परचयिता समन्तभद्र-का विशेषण है और उससे यह अथ निकलता है कि यह आनन्दमासा हित चाहनवाले समन्तभद्रके द्वारा निर्मित हुई है जोकी निर्माणका उद्देश्य ज्योक्ता त्यो कायम ही रहता है—दोनो ही हालतोम यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ दूसरोका हित सम्पादन करन—उन्हे हेयादेयका विशेष बोध करानके लिये ही लिखा गया है।

न रागान्न स्तोत्रं भवति भवपाशच्छ्रद्धिं मुनौ
न चान्येषु द्वेषादपगुणकथाभ्यासखलता ।
किमु न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषव्यापका ।
हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासगगदित ॥

यह 'युक्त्यनुशासन' नामक स्तोत्रका, अन्तिम पद्मसे पहला, पद्म है। इसमें आचायमहादयन बड़ ही महत्वका भाव प्रदर्शित किया है। आप श्रीबद्धमान (महावार) भगवान्‌को सम्बोधन करवा उनके प्रति अपनी इस स्तोत्र रचनाका जो भाव प्रकट करते हैं उमका स्पष्टाशयैः इस प्रकार है—

(हे वीर भगवन् !) हमारा यह स्तोत्र आप जैसे भवपाशच्छ्रद्धक मुनिक प्रति रागभावस नहीं है न हा मकना है क्योंकि इधर तो हम परीकाप्रधानो हैं और उधर आपन भवपानको छद दिया है—ममारसे अपना सम्बाध ही अनग कर लिया है—एमी हालतम आपके व्यक्तिवक्त्वे प्रति हमारा रागभाव इम स्तोत्रकी उत्पत्तिका काई कारण नहीं हो सकता। दूसरोके प्रति दृष्टभावसे भी इस स्तोत्र-का काई सम्बाध नहीं है क्योंकि एका तवादियोके साथ उनके व्यक्तित्वके प्रति—हमारा काई दृष्ट नहीं है। हम तो दुष्ट रोकी कथाके अभ्यासको भी खलता समझते हैं और उस प्रकारवा अभ्यास न होनसे वह 'खलता हमम नहीं है, और इस लिये दूसरोके प्रति कोई दृष्टभाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता। तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश ? उद्देश यही है कि जो

६ इस स्पष्टाशयके लिखनम श्रीविज्ञानदाचायकी टीकामे कितनी ही सहा यत् सी गई है।

लोग न्याय-धर्मायको पहचानना चाहते हैं और प्रहृत पदार्थके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह स्तोत्र 'हितान्वेषणके उपायस्वरूप' आपकी गुणकथाके साथ, कहा गया है। इसके सिवाय, जिम भवपाशको आपने खोद दिया है उसे छोड़ना—अपने और दूसरोंके सासारबन्धनोंको तोड़ना—हमें भी हृष्ट है और इम लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक हेतु है।'

इससे स्पष्ट है कि समतभद्रके भयोंका प्रणयन—उनके बचनोंका अवतार—किसी तुच्छ रागद्वे बके बशवर्ती होकर नहीं हुआ है। वह आचार्यमहोदयकी उदारता तथा प्रेक्षापूर्वकारिताको लिये हुए है और उमर्मे उनकी अद्वा तथा गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जानी हैं। साथ ही, यह भी प्रकट है कि समतभद्रके भयोंका उद्देश्य महान् है, लोकहितको लिये हुए है, और उनका प्राय कोई भी विशेष कथन गुणादोषोंकी अच्छी जांचके बिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता।

यहा नके इस सब कथनमें ऐसा मालूम होता है कि समतभद्र अपने इन सब गुणोंके कारण ही लोकमें भ्रत्यत महनीय तथा पूजनीय थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसाधारण कीर्तिको प्रतिष्ठित किया था। नि सन्देह, वे सद्बोधरूप थे, श्रेष्ठगुणोंके आवास थे, निर्दोष थे और उनकी यश कान्तिसे तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कान्तिमान थे—उनका यशस्तेज सर्वत्र फैला हुआ था, जैसा कि श्रीवसुनन्दी आचार्यके निम्न वाक्यसे पाया जाता है—

समन्तभद्र सद्बोधं स्तुते वरगुणालयं ।
निर्मल यशशङ्कान्तं वभूव भुवनत्रयं ॥२॥

—जिनशतकटीका ।

अपने इन सब पूज्य गुणोंकी बजहमें ही सप्तभद्र लोकमें 'स्वामी' पदसे ज्ञास तौर पर विभूषित थे। लोग उन्हे 'स्वामी' 'स्वामीजी' कहकर ही पुकारते थे, और बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने भी उन्हे प्राय इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यथापि और भी कितने ही आचार्य 'स्वामी' कहलाते थे परन्तु उनके साथ यह विशेषण उतना रुद नहीं है जितना कि समतभद्रके साथ रुद जान पड़ता है—समतभद्रके नामका तो यह प्राय एक अग ही बन गया है। इसीमें कितने ही महान् आचार्यों तथा विद्वानोंने अनेक स्थानों पर नाम न देकर,

केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही आपका नामोल्लेख किया है क्ली और इससे यह बात सहजहीमे समझमे आ सकती है कि आचार्य महोदयकी 'स्वामी' कृपसे कितनी अविक प्रसिद्ध थी। नि सदेह यह पद आपकी महत्ती प्रतिष्ठा और असाधारण महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, स्थायियोंके स्वामी थे, अधिष्ठुनियोंके स्वामी थे, सद्गुणियोंके स्वामी थे और लोकहितायियोंके स्वामी थे।

भावी तीर्थकरत्व

समन्तभद्रके लोकहितकी मात्रा इतनी बड़ी हुई थी कि उन्हे दिन रात उसी-के सपादनकी एक छुन रहती थी उनका मन, उनका वचन और उनका जरीर सब उसी मार लगा हुआ था, वे विश्वभरका ग्रन्था कुटुम्ब ममभत् थे—उनके हृदयमे 'विद्वप्रेम' जागृत था—और एक कुटुम्बीके उदारकी तरह वे विश्वभर-का उद्धार करनमे सदा सावधान रहते थे। बस्तुत्वकी सम्यक् अनुभूतिक माय, अपनी इस यागपरिणामिके द्वारा ही उन्होन उस महत्, नि भीम तथा सर्वानि-शायि पुष्पको सञ्चित किया मालूम हाता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षमे 'तीर्थकर' हानवाले हैं—वस्तीयका चलानके लिये अवनार नेनेवाल हैं। आपके 'भावी तीर्थकर हानका उल्लेख कितन ही ग्रन्थोमे पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं—

क्ली देवो—वादिराजमूरिरुन पाइर्वनाथचरितका स्वामिनश्चरित[†] नामका पद जो ऊपर उद्घृत किया गया है प० आशाधरकृत मागारधर्मामृत और भूम-गारधर्मामृतकी टीकाओंके 'स्वाम्युक्ताष्टमूलगुणपद्मे, इति स्वामिमतेन दर्शनिको भवेत्, स्वामिमतेन त्विमे (अनिचारा), अत्राह स्वामी यथा, तथा च स्वामि-सूक्तानि' इत्यादि पद ,न्यायदीपिकाना 'तदुक्त स्वामिभिरेव' इस वाक्यके साथ 'देवागम' की दो कारिकाओंका अवतरण, और श्रीविद्वानदाचार्यकृत अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके कितने ही पद तथा वाक्य जिनमेंस 'निरपाद्येकान्त आदि कुछ पद ऊपर उद्घृत किये जा चुके हैं।

[†] "सर्वानिशायि तत्पुर्य त्रैलोक्यादिपरित्प्रकृत् ।" —दलोकवातिक

श्रीमूलसंघव्योमेन्दुर्भारते भावितीर्थकृद्-

देशो समंतभद्रास्त्वयो मुनिर्जीवात्पदर्हिकः ॥ —विज्ञानतकोरत्र प्र०

श्रीमूलसंघव्योमेन्दुर्भारते भावितीर्थकृद्-

देशो समंतभद्रार्थो जीयात्प्रापदर्हिकः ॥

—जिनेंद्रकल्पाणाम्युदय

उक्त च समंतभद्रेणोत्पर्णिणीकाले आगामिनिभविष्यतीर्थकर-परम-
देवेन—‘काले कल्पशंतेऽपि च’ (इत्यादि ‘रत्नकरण’ का पूरा पथ दिया है।)

—श्रुतसागर्कृत पट्टप्राभृतटीका

कृत्वा श्रीमज्जिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां ।

स्वर्मोक्तदायिनी धीरो भावितीर्थकरो गुणी ।

—जमिदसहृन आराधनाकथाकोश ।

आ भावि तीर्थकरन अप्य समंतभद्रस्वामिगलु (राजावलिक्ष्ये)

*अहु हरी खब पडिहरि चक्षिचउक्त च एय बलभद्रो ।

सेणिय समंतभद्रो तिथ्यरा हुंति णियमेण ॥

श्रीबद्धमान महावीरस्वामीके निर्वाणके बाद संकड़ो ही अच्छे अच्छे महा-
स्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये हैं परन्तु उनमें से दूसरे किसी भी आचार्य
तथा मुनिराजके विषयमें यह उल्लेख नहीं मिलता कि वे आगेको इस वेषमें

* इस गाथामें लिखा है कि—प्राठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार
चक्रवर्ती, एक बलभद्र, श्रेणिक और समंतभद्र ये (२४ पुरुष आगेको) नियमसे
तीर्थकर होंगे ।

† यह गाथा कौनमें सूलग्रन्थकी है, इसका अभीनक मुझे काई ठीक पता
नहीं चला । ५० जिनदास पार्वतीधर्जी फडकुलेने इसे स्वयभूतोत्त्रके उस
सस्करणमें उदृत किया है जिसे उन्होंने सकृनटीका तथा मराठीमनुवादसहित
प्रकाशित कराया है । मेरे दर्याफित करने पर पडितजीने सूचित किया है कि यह
गाथा ‘बच्चासमाधान’ नामक प्रथमें पाई जाती है । ग्रन्थके इस नाम परसे ऐसा
मात्राम होता है कि वहाँ भी यह गाथा उदृत ही होगी और किसी दूसरे ही
पुरातन ग्रन्थकी जान पड़ती है ।

‘तीर्थंकर’ होगे। भारतमें ‘भावी तीर्थंकर’ होने का यह सौमान्य, शलाका पुरुषों तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक समतभद्रको ही प्राप्त है और इससे समतभद्रके इतिहासका—उनके चरित्रका—गौरव और भी बढ़ जाता है। साथ ही, यह भी मालूम हो जाता है कि आप १ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलवत्तेष्वनतिचार, ४ अभीक्षणज्ञानोपयोग, ५ सवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ शक्तितस्त्व, ८ सांख्यसमाधि, ९ वैयाकृत्यकरण, १० अहंद्रक्ति, ११ आचार्यभक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रबचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिग्रहाग्नि, १५ मार्गप्रभावना और १६ प्रबचनवत्सलत्व, इन सोलह गुणोंमें प्राप्त: युक्त थे—इनकी उच्च गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित था—यद्योऽकि दर्शनविशुद्धिको लिये हुए, ये ही गुण समस्त अधिकार व्यस्तरूपसे आगममें तीर्थंकरप्रकृति नामक ‘नामकर्म’-की महापुण्यप्रकृतिके आलावके कारण कहे गये हैं *। इन गुणोंका स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रकी बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी वितन ही ग्रन्थोंमें विशदरूपसे दिया हुआ है, इसलिये उनकी यहाँगर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि दर्शनविशुद्धिके माथ साथ, समतभद्रकी ‘अहंद्रक्ति’ बहुत बड़ी चढ़ी थी, वह बड़े ही उच्चकोटिके विकासको लिये हुए थी। उसमें अघथद्वा अथवा अर्धाविश्वामिको स्थान नहीं था। गुणज्ञता गुणप्रीति और हृदयकी सरलता ही उसका एक आधार था, और इम लिये वह एकदम शुद्ध तथा निर्दोष थी। अपनी इस शुद्धभक्तिके प्रनापमें ही समतभद्र इनने अधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए मालूम होते हैं। उन्होंने स्वयं भी इस बातका अनुभव किया था, और इसीमें वे अपने ‘जिमस्तुतिशतक’ (स्तुतिविद्या) के अन्नमें लिखते हैं—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचनं चापि ते
हस्तार्थजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽहि संप्रेक्षते ।

* देखो, तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके छठे अध्यायका २४वाँ सूत्र, और उसके ‘स्लोकवातिक’ भाव्यका निम्न पद्म—

हग्निवशुद्धपादयो नामस्तीर्थकृत्यस्य हेतव ।

समस्ता व्यस्तरूपा वा हग्निवशुद्धपा समन्विता ॥

सुस्तुत्या व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेष्टशी येन ते
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेज पते ॥१४॥

अर्थात्—हे भगवन्, आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें मेरी सुअदा है—अन्धशब्दा नहीं, मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है, मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ मेरे हाथ आपको ही प्रणामाजलि करनके निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही गुणकथाका सुननम लीन रहते हैं मेरी आँख आपके ही रूपको देखनी हैं, मुझे जो व्यसन † है वह भी आपकी ही सुन्दर स्तुतियाँके रचनका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा है—मैं निरन्तर ही आपका इस तरह पर सवन किया करता हूँ—इसी लिये हे तेज पते ! (केवलज्ञानस्वामिन् !) मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और सुकृती (पुण्यवान्) हूँ।

समतभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्गारोमें यह स्पष्ट चित्र खिच जाता है कि वे कैसे और किनन 'प्रहद्रूप' ये और उहोन कहाँ तक अपनको अहंत्येवाके लिये अपना कर दिया था । अहंशुणोम इतनी अधिक प्रीति हानस ही वे अहन्त होनके याम्य और अहन्तोम भी नीथकर होनके योग्य पुण्य सच्चय कर सके हैं, इसम जरा भी सदह नहीं है । अहंशुणाकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ रचनकी ओर उनकी बड़ी रुचि थी, उहान इसीको अपना व्यसन लिखा है और यह विल्कुल ठीक है । समतभद्रके जितन भी ग्रन्थ पाये जाते हैं उनमें सुखको छोड़कर शय सब ग्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिये हुए हैं और उनमें समतभद्रकी प्रद्वितीय प्रहद्रूपि प्रकट होनी है । 'जिनस्तुतिशतक' के सिवाय देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूतोत्र, ये आँक खास स्तुतिग्रन्थ हैं ।

† समतभद्रके इस उल्लेखसे एसा पाया जाता है कि यह 'जिनशतक' ग्रन्थ उस समय बना है जब कि समन्तभद्र कितनी ही सुन्दर सुन्दर स्तुतियों—स्तुतिग्रन्थों—का विराणि कर चुके थे और स्तुतिरचना उनका एक व्यसन बन चुका था । आश्चर्य नहीं जो देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूतामके स्तोत्र इस ग्रन्थसे पहले ही बन चुके हो और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समतभद्र अपने स्तुतिव्यसनको 'सुस्तुतिव्यसन' लिखनेके लिये समर्प हो सके हो ।

इन प्रश्नोंमें जिस स्तोत्रप्रशाणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है और कठिनसे कठिन नास्तिक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है वह समतभद्रसे पहलेके ग्रन्थोंमें प्राप्त नहीं पाई जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है। समतभद्रने, अपने रनुतिशब्दोंके द्वारा, स्तुतिविद्याका खान तौरसे उद्धार तथा सस्कार किया है और इसी लिये वे 'स्तुतिकार' कहलाते थे। उन्हें 'आद्य स्तुतिकार' होनेका भी गौरव प्राप्त था। इवेताम्बर सम्प्रदायके प्रचान आचार्य श्रीमहचंद्रने भी अपने 'सिद्ध हैमशब्दानुशासन' व्याकरणके द्वितीय-सूक्ष्मकी व्याख्यामें 'स्तुतिकारोऽप्याह' इस वाक्यके द्वारा आपको 'स्तुतिकार' लिखा है और साथ ही आपके 'स्वयम्भूस्तोत्र' का निम्न पद्धति उद्धृत किया है—

नयास्तव स्यात्पद्लाङ्घनाऽ इमे रसोपविद्वा इय लोहधातव।
भवन्त्यभिप्रेतफलाऽ यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिण ॥

इसी पद्धका इवेताम्बराप्रणी श्रीमलयगिरिसूरिने भी, अपनी 'आवश्यकसूत्र' की टीकामें, 'आद्यस्तुतिकारोऽप्याह' * इस परिचय-वाक्यके माथ उद्धृत किया है, और इस तरह पर समन्तभद्रको 'आद्यस्तुतिकार'—सबसे प्रथम अथवा सबमें श्रेष्ठ स्तुतिकार—मूर्चित किया है। इन उल्लेखनाक्योंमें यह भी पाया जाता है कि समन्तभद्रकी 'स्तुतिकार' रूपसे भी बहुत अधिक प्रभिद्वि थी और इसीलिये 'स्तुतिकार' के साथम उनका नाम देनेकी शायद बोई जरूरत नहीं समझी गई।

समन्तभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्यों ये और उन्होंने क्यों इस मार्ग-को अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यद्यपि, उनका भक्ति-उद्देश्य अथवा भक्तिविशेष हो सकता है, परन्तु यहाँ पर मैं उन्हींके शब्दोंमें इस विषय-

†, ‡ सनातन जैनग्रन्थमालामें प्रकाशित 'स्वयम्भूस्तोत्र' में और स्वयम्भूस्तोत्रकी प्रभाचंद्राचार्यविरचित-सस्कृतटीकामें 'लाल्लना इमे' की जगह 'सत्यलाङ्घना' और 'फलाः' की जगह 'गुणाः' पाठ पाया जाता है।

* इस पर मुनि जिनविजयजी अपने 'माहित्यसंशोधक' के प्रथम अक्षमे लिखते हैं—'इस उल्लेखसे स्पष्ट जाना जाता है कि ये (समन्तभद्र) प्रसिद्ध स्तुतिकार माने जाते थे, इतना ही नहीं परन्तु आद्य—सबसे पहले होनेवाले—स्तुतिकारका मात्र प्राप्त थे।'

को कुछ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका इन स्तुति-स्तोत्रोंके विषयमें क्या माब था और वे उन्हें किस महत्वकी दृष्टिनें देखते थे। आप अपने ‘स्वयम्भूतोऽम्’ में लिखते हैं—

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।
किमेवं स्वाधीन्यादजगति सुलभे श्रायसपथे
स्तुयाम त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम् ॥११६॥

अर्थात्—स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो या न होनी हो, परन्तु साधु स्तोत्राकी स्तुति कुशलपरिणामको—पुण्यप्रसाधक परिणामोकी—कारण ज़हर होनी है, और वह कुशलपरिणाम ग्रथवा तज्जन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता है। जब जगतमें इस तरह स्वाधीननासे श्रेयोमार्गं सुलभ है—अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है—तब, हे सर्वदा अभिपूज्य नमिजिन ! ऐसा कौन परीक्षापूर्वकारी विद्वान् ग्रथवा विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? ज़हर करेगा ।

इसमें स्पष्ट है कि समन्तभद्र इन ग्रहंस्तोत्रोंके द्वारा श्रेयोमार्गंको सुलभ और स्वाधीन मानते थे, उन्होन इन्हे ‘जन्मारण्यशिस्ती’†—जन्मभरणहपी समार-बनको भस्म करनेवाली श्रग्नि—तक लिखा है और वे उनकी उम नि श्रेयस—मुक्तिप्राप्तिविषयक—भावनाके पोषक थे जिसमें वे मठा सावधान रहते थे। इसी लिये उन्होने इन ‘जिन-स्तुतियों’ को अपना व्यसन बनाया था—उनका उपयोग ग्राय ऐसे ही सुभ कामोंमें लगा रहता था। यही बजह थी कि ससारमें उनकी उन्नतिका—उनकी मर्हमाका—कोई बाधक नहीं था, वह नाशरहित थी। ‘जिनस्तुतिशतक’ के निम्नवाक्यमें भी ऐसा ही घटनित होता है—

‘वन्दीभूतवतोऽपिनोऽतिहितिनन्तुश्च येषां मुदाष्व ।

† ‘जन्मारण्यशिस्ती स्तव’ ऐसा ‘जिनस्तुतिशतक’ में लिखा है ।

‡ “येषां नन्तु. (स्तोतु) मुदा (हर्षम) वन्दीभूतवतोऽपि (मगतपाठकी भूतवतोऽपि नन्माचार्यस्येषु भवतोऽपि मम) नोऽतिहिति (न उपते माहात्म्यस्क हति: हनन)” —इति तटीकाया वसुनन्दी ।

॥ यह पूरा पद इस प्रकार है—

इसी ग्रन्थमें एक इलोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है—

रुचं विभर्ति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः ।
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पर्शवेदिनः ॥ ६० ॥

इसमें, घोड़े ही शब्दो-द्वारा, अर्हद्वक्तिका अच्छा माहात्म्य प्रदर्शित किया है—यह बतलाया है कि ‘हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पर्शमणि (पारस पाषाण) का सेवन (स्पर्शन) करनेमें सोना बन जाता है और उसमें तेज आजाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा करनेसे अति स्पष्ट (विशद) ज्ञानी होता हुआ तेजको धारणा करता है और उसका वचन भी सारभूत तथा गम्भीर हो जाता है।’

मालूम होता है समन्तभद्र अपनी इस प्रकारकी श्रद्धाके कारण ही अर्हद्वक्ति में सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परिणाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये हैं और उनके वचन अद्विनीय तथा अपूर्व माहात्म्यको निये हुए थे।

समन्तभद्रका भक्तिमार्ग उनके स्तुतिग्रन्थोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। वास्तवमें समन्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे—इनमेंमें विसी एक ही योगके बे एकान्त पक्षपानी नहीं थे—निरी *एकान्तता तो उनके पाम भी नहीं फटकती थी। वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उमे वस्तुतस्व नहीं मानते थे। उन्होंने जिन स्वास कारणोंमें अर्हन्देवको अपनी स्तुतिके योग्य समझा और उन्हे अपनी स्तुति

जन्मारण्यशिखी स्तव स्मृतिरपि क्लेशाम्बुधेनर्नै पदे

भक्ताना परमी निधी प्रतिकृति मर्वर्यमिदि परा ।

बन्दीमूर्तवतोपि नोन्निहितिन्नमुश्च येषा मुदा

दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेशवराम्ते सदा । ११५॥

* जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवहारको निये हुए होती है उसे निरीं अथवा ‘मिद्या’ एकान्तता कहते हैं। समन्तभद्र इस मिद्यैकान्ततासे रहित थे; इसीसे ‘देवागम’में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिखा है—

‘न मिद्यैकान्ततास्ति न ।’

का विषय बनाया है उनमें, उनके द्वारा, एकान्तहृष्टिके प्रतिवेषकी सिद्धि भी एक कारण है। अहंतदेवने अपने न्यायवाणोंमें एकान्त हृष्टिका निषेध किया है अबवा उसके प्रतिवेषको सिद्ध किया है और मोहरूपी शशुको नष्ट करके वे कैवल्य-विभूतिके सम्भाट् बने हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हे लक्ष्य करके कहते हैं कि 'आप मेरी स्तुतिके योग्य हैं—पात्र हैं'। यथा—

एकान्तहृष्टिप्रतिवेषसिद्धि-न्यायेषुभिर्मोर्हरिषु निरस्य ।

असि स्म कैवल्यविभूतिसम्भाट् ततस्वर्महान्नसि वे स्तवार्हः ॥५५॥

—स्वयम्भूस्तोत्र

इससे समन्तभद्रकी माफ तीरपर परीक्षाप्रधानता पाई जाती है और साथ ही यह मालूम होता है कि (१) एकान्तहृष्टिका प्रतिवेष करना और (२) मोह-शशुका नाश करके कैवल्य विभूतिका सम्भाट् होना ये दो उनके जीवनके खास उद्देश्य थे। समन्तभद्र अपने इन उद्देश्योंको पूरा करनेमें बहुत कुछ सफल हुए हैं। यद्यपि वे अपन इस जन्ममें कैवल्यविभूतिके सम्भाट् नहीं हो सके परन्तु उन्होंने दैमा होनेके लिये प्राय सम्पूर्ण योग्यताओंका सम्पादन कर लिया है, यह कुछ कम सफलता नहीं है—और इसीलिये वे आगामीको उस विभूतिके सम्भाट होगे—तीर्थकर होगे—जैसा कि ऊपर प्रकट किया जा चुका है। कैवलज्ञान न होने पर भी, समन्तभद्र उस स्यादादविद्याकी अनुपम विभूतिमें विभूषित थे जिसे कैवलज्ञानकी तरह सर्वतस्वोकी प्रवाशित करनेवाली लिखा है और जिसमें तथा कैवलज्ञानमें साक्षात्-प्रसाक्षात्का ही भेद माना गया है क्ष४। इसलिये प्रयोजनीय पदार्थोंके सम्बन्धमें आपका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था, इसमें जरा भी मन्देह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपरके कितने ही अवतरणों तथा समन्तभद्रके ग्रन्थोंसे बहुत कुछ हो जाता है। यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचार्य ने आपके बच्चोंको कैवली भगवान महावीरके बच्चोंके तुल्य प्रकाशमान लिखा है और दूसरे भी कितने ही प्रधान प्रधान आचार्यों नथा विद्वानोंने आपकी

॥ यथा—स्यादादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षात्साक्षात् ह्यवस्वन्यतम भवेत् ॥१०५॥

—श्रावसीमासा ।

विद्या और वार्णीकी प्रक्षसामें खुला गात किया है + ।

यही तकके इस सपूर्ण परिचयसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है और इसमें जरा भी सदेह नहीं रहता कि समन्तभद्र एक बहुत ही बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्वान् थे, प्रभावशाली आचार्य थे, महा मुनिराज थे, स्याह्वादविद्याके नायक थे, एकात पक्षके निमूँलक थे, अबाधितशक्ति थे, 'सातिशय योगी' थे, सातिशय वादी थे, सातिशय वाग्मी थे, श्रेष्ठकवि थे, उत्तम गमक थे, सद्गुणोकी मूर्ति थे, प्रशात थे, गम्भीर थे, भद्रप्रयोजन और सदुदेश्यके धारक थे, हितमित-भाषी थे लोकहिनैषी थे, विश्वप्रेर्मी थे, परहितनिरत थे, मुनिजनोस वद्ध थे, बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे और जैन शासनके अनुप्रम वातक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे ।

ऐसे मातिशय पूज्य महामान्य और मदा स्मरण रहन याग्य भगवान्^५ समन्तभद्र स्वामीके विषयमें श्रीशिवकोटि आचार्यन अपनी 'रत्नमाला में जो यह भावना की है कि वे निरापाप स्वामी समन्तभद्र मरे हृदयम रात दिन तिढ़ा जो जिनराजके ऊंचे उठने हुए शामनमसुद्रको बहानक लिये चढ़मा है' वह बहुत ही युक्तियुक्त है और सुक्ष्म बड़ी प्यारी मानूम देनी है । नि मन्देह स्वामी समन्तभद्र इसी याग्य है कि उन्हे निरन्तर अपन हृदयमदिर्मे विगजमान किया जाय, और इम लिये मैं शिवकोटि आचार्यकी इम भावनाका हृदयमें अभिनदन और अनुमोदन करन हुए, उम यहा पर उद्घृत करना हूँ—

स्वामी समन्तभद्रो मेऽहर्निश मानसेऽनधः ।
तिष्ठताज्जिनराजोद्यच्छामनाम्बुधिचक्रमा ॥ ४ ॥

+ श्वेताम्बर साधु मुनिश्री जिनविजयजी कुछ घोड़ेस प्रशसा - वाक्योंके आधार पर ही लिखते हैं—“इसना गोरव शायद ही अन्य किमी आचार्योंका किया गया हो ।”—जैनमाहित्यसंशोधक १ ।

॥ श्रीविद्यानंदाचार्यने भी अष्टमहस्तीमें कई बार इस विशेषणके साथ आपका उल्लेख किया है ।

समन्वयमध्रका मुनि-जीवन और आपत्काल

श्रीशत्रुघ्निकथेव, विद्यानद और जिनमेन-जैसे महान् आचार्यों तथा दूसरे भी अनेक प्रसिद्ध मुनियों और विद्वानोंके द्वारा किये गये जिनके उदार समग्रणों एवं प्रभावशाली स्तवनों-स्तकीयोंनोको पाठक इसमें पहले आनंदके माध्य पढ़ चुके हैं और उन परसे जिन आचार्यों महोदयकी अमाधारण विद्वता, योग्यता, लोक-सेवा और प्रतिष्ठादिका कितना ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उन स्वामी समन्वयमध्रके बाधारहित और शान्त मुनिजीवनमें एक बार कठिन विपन्निको भी एक बड़ी भारी लहर आई है, जिसे आपका 'आपत्काल' कहते हैं। वह विपत्ति क्या थी और समन्वयमध्रने उमे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है। नीचे उमीका, उनके मुनिजीवनकी झाँका महिन, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाना है।

मुनि जीवन

समन्वयमध्र, अपनी मुनिचर्याके अनुमार, अहिमा, मत्य, अम्बेप, व्रद्यवर्य और अर्पणरथ नामके पञ्चमहाप्रतीको यथोऽग्निमें पालन करने थे, ईर्या-भाषा गणगार्दि पञ्चमयिनियोंवे परिषालन-द्वारा उन्हें निरन्वर पृष्ठ बनाने थे, पातो इद्रियोंवे निप्रहमे सदा तन्वर, मनोशुसि आदि चीनों शुसियोंके पालनमें धीर और सामायिकादि पडावद्यक क्रियाओंके अनुष्टुप्में सदा सावधान रहने थे। वे पूर्ण अहिंसाकालका पालन करते हुए, कथायभावको नेकर किमी भी जीवको अपने भन, बचन या कायसे पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीको उनके प्रमादवश बाधा न पहुँच जाय इसीलिये वे दिनमें मार्ग जोखकर चलते थे, चलते समय हृष्टिको इवर उधर नहीं भ्रमाते थे, रात्रिको गमनागमन नहीं करते थे, और इतने साधनसपन्न थे कि सोने समय एकासनमें रहते थे—यह नहीं होता था कि निद्राऽवस्थामें एक कर्बटमें दूसरी कर्बट बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीवजनुको बाधा पहुँच जाय, वे पीढ़ी पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाल कर उठाते-बरते थे और मलमूत्रादिक भी प्रासुक भूमि तथा बाधारहित एकात स्थानमें क्षेपण करते थे। इसके सिवाय, उनपर यदि कोई प्रहार करता तो वे उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी

नहीं रखते थे, जंगलमें यदि हिल जाते भी उन्हें सताते अथवा डंसमधाकादिक उनके शरीरका रक्त पीते थे तो वे बलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न ध्यानावस्थामें अपने शरीरपर होने वाले चीटी आदि जातुओंके स्वच्छांद चिह्नको ही रोकते थे। वे इन सब अथवा इसी प्रकारके और भी कितने ही उपसर्गों तथा परीष्ठोंको साम्यभावसे सहन करते थे और अपने ही कर्मविषयका चिन्तन कर सदा वैर्य धारण करते थे—दूसरोंको उसमें जरा भी दोष नहीं देते थे।

समंतभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे, वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, इतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला सावध बचन भी मुँहसे नहीं निकालते थे, और कितनी ही बार मौन धारण करना भी ओह समझते थे। स्त्रियोंके प्रति आपका अनादरभाव न होते हुए भी आप कभी उन्हें रागभावसे नहीं देखते थे; बल्कि माता, बहिन और मृताकी तरहमें ही पहचानते थे। साथ ही, मैथुनकर्मसे, घृणात्मक हृष्टिके साथ, आपकी पूर्ण विरक्ति रहनी थी, और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिसाका सद्ग्राव मानते थे। इसके सिवाय, प्राणियोंकी अहिंसाको आप ‘परमब्रह्म’ समझते थे और जिस आश्रमविधि में अरुगुमात्र भी आरंभ न होता हो उसी-के द्वारा उस अहिंसाकी पूर्णसिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी परमब्रह्मकी सिद्धि के लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिप्रहोंका

४४ आपकी इम घृणात्मक हृष्टिका भाव ‘ब्रह्मचारी’ के निम्न लक्षणमें भी पाया जाता है, जिसे आपने ‘रत्नकरण’ में दिया है—

मलवीजं मलयोनि गलन्मलं पूति गंधि बीभत्सं ।

पश्यन्तंगमनंगाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥

‡ अहिंसा भूताना जगति विदितं ब्रह्म परमं,

न सा तत्रारंभोस्त्वगुरुपि च यत्राश्रमविचौ ।

ततस्तस्तिद्धर्थं परमकरणो ग्रन्थमुभयं,

भवानेवात्याकीनं च विकृतवेषोपविरतः ॥११६॥

—स्वयंसूतोन् ।

त्याग किया था और नैर्यध्य-आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना प्राकृतिक विश्वासर देख आरण किया था। इसीलिये आप अपने पास कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते थे, बल्कि कोई-पैमेस सम्बन्ध रखना भी अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे। आपके पास शीतोष्णरणा (कमड़ु), सर्योष्णकरण (पीछी) और जानोष्णकरण (पुस्तकादिक) के रूपमें जो कुछ घोड़ीमी उपचिथी उसमें भी आपका अमत्य नहीं था—भने ही उमे कोई उठा ले जाय, आपको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं थी। आप मदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी सुस्कारित अथवा मढ़ित नहीं करते थे, यदि पर्मीना आकर उस पर बैल जम जाता था तो उमे स्वयं अपने हाथमें घोकर दूसरोंको अपना उजलारूप दिखाने-की भी कभी कोई जेष्ठा नहीं करते थे उल्कि उस मलबनिन परीषहको साम्य-भावमें जीतकर कर्मभनको घोनेका यत्न करते थे, और इसी प्रकार नम रहते तथा दूसरी मरदी गरमी आदिकी परोषहोंको भी लुशीलुशीमें महान करते थे। इसी यथा अपने अपने एक परिचय ॥ में गौरवके माथ अपने आपको 'नमाटक' और 'मलमग्निनन्तु' भी प्रकट किया है।

समनभद्र दिनमें चिर्फ एक बार भाजन करते थे, गत्रिको कभी भोजन नहीं करते थे, और भाजन भी आगमोदिन विधिके अनुसार शुद्ध, प्रामुक तथा निर्दोष ही लेते थे। वे अपने उस भाजनके लिये किसीका निमत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी अपना भोजन करने-करानेके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हे यह मालूम हो जाता था कि किसीने उसके उद्देश्यसे कोई भोजन तथ्यार किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि (मेहमान) के लिये तथ्यार किया हुआ भोजन उन्हे दिया जाता है तो वे उस भोजनको नहीं लेते थे। उन्हे उसके लेनेमें मावद्यकमके भावी होनका दोष मालूम पड़ता था और सावद्यकमंभ वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कृत-कारित अनुमोदन-द्वारा दूर रखना चाहते थे। वे उसी शुद्ध भोजनको अपने लिये बल्पित और शास्त्रानुमोदित समझते थे जिसे दातारने स्वयं अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये

॥ 'कांच्या नमाटकोह मलमग्निनन्तु।' इत्यादि पद्ममें।

ही तथ्यार किया हो, जो देनेके स्थान पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेसे दातार कुछ अश उन्हे भक्तिपूर्वक भेट करके शेषमे स्वय सतुष्ट रहना चाहता हो—उसे अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरभ करनेकी कोई ज़रूरत न हो। आप आमरी बृत्तिमे, दातारको कुछ भी बाधा न पहुँचाते हुए, भोजन लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकथित दोपीमेमे उन्हे कोई भी दोष मालूम पड़ जाना था अथवा कोई अन्तराय सामने उपस्थित हो जाना था तो वे खुशीसे उसी दम भोजनको छोड़ देते थे और इस अलाभके कारण चित्तपर जरा भी मैल नहीं लाने थे। इसके मिवाय, आपका भोजन परिमित और मकारण होता था। आगममें मुनियोके लिये ३२ ग्राम तक भोजनकी आज्ञा है परन्तु आप उसमे अक्सर दो चार दम ग्राम कम ही भोजन लेते थे, और जब यह देखते थे कि बिना भोजन किये भी चल सकता है—नित्यनियमोके पालन नथा धार्मिक अनुष्ठानोके सम्बादनमें कोई विशेष बाधा नहीं आनी तो कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर लेते थे, आगनी जटिको जावने और उसे बढ़ानेके लिये भी आप अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रमोका त्याग कर देते थे और कभी कभी गेम बठिन तथा गुप्त नियम भी ले लेते थे जिनकी स्वाभाविक पूर्निपर ही आपका भोजन अवन्मित रहता था। वास्तवमें, समनभद्र भोजनको इम जीवनयात्राका एक माध्यनमात्र समझते थे। उमे अपने ज्ञान, ध्यान और मयमादिकी मिठि, बृहि नथा स्थिति-का सहायकमात्र मानते थे—और इसी दृष्टिमें उसको गहण करते थे। किमी शारीरिक बलको बढ़ाना, शारीरको पुष्ट बनाना अथवा नेजोबृद्धि करना उन्हे उसके द्वारा इष्ट नहीं था। वे स्वादके लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही बजह है कि आप भोजनके घासको प्राय बिना चबाये ही—बिना! उमका रमास्वादन किये ही—निगल जाते थे। आप समझते थे कि जो भोजन केवल देहस्थितिको कायम रखनेके उद्देशसे किया जाय उसके लिये रमास्वादनकी ज़रूरत ही नहीं है, उमे तो उदरस्थ कर लेने मात्रकी ज़रूरत है। साथ ही, उनका यह विश्वास था कि रमास्वादन करनेमें इन्द्रियविषय पुष्ट होता है, इन्द्रियविषयोके सेवनम कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, उल्टी तृष्णा बढ़ जानी है, तृष्णारोगकी बृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है और उस ताप अथवा दाहके कारण यह जीव

संसारमें अनेक प्रकारकी दुखपरम्परासे पीड़ित होता है †, इसलिये वे धर्मिक सुखके लिये कभी इन्द्रियविवरोंको पुष्ट नहीं करते थे—धर्मिक सुखोकी अभिलाषा करना ही वे परीक्षावानोंके लिये एक कलक और अवर्मकी बात समझते थे। आपकी यह खास धारणा थी कि, आत्मनिकस्वास्थ्य—अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कर्मविमुक्त-अनन्तज्ञानादिमय-अवस्थाकी प्राप्ति—ही पुरुषोंका—इस जीवात्माका—स्वार्थ है—स्वप्रयोजन है, भगवन्नुभुर भोग—भग्णस्थायी विषयमुखानुभवन—उनका स्वार्थ नहीं है, क्योंकि तृष्णानुषगम—भोगों की उत्तरोत्तर आकाशा बढ़नेसे—शारीरिक और मानसिक दुखोंकी कभी शानि नहीं होती। वे समझते थे कि, यह शरीर ‘अजगम’ है—दुद्धिपूर्वक परिस्पदब्यापाररहित है—और एक यत्रकी तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा स्वब्यापारमें प्रवृत्त किया जाता है, साथ ही, ‘मलबीज’ है—मलमें उत्पन्न हुआ है, मलयोनि है—मलकी उत्पत्ति का स्थान है, ‘गल-मल’ है—मन ही इसमें भरता है, ‘पूनि’ है—दुर्गन्धियुक्त है, ‘बीभत्स है—घृणात्मक है, ‘क्षयि है—नाशवान् है—और ‘तापक’ है—आत्माके दुखोंका वारण है। इस लिये वे इस शरीरमें स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेको अच्छा नहीं समझते थे उस व्यर्थ मानते थे, और इस प्रारकी मान्यता तथा परिणामिको ही आत्महित स्वीकार करते थे *। अपनी “सी ही विवारणपरिणामिके बारण समन्तभद्र शरीरमें बड़े ही निष्पृह और

* शतहृदोन्मेषचल हि मौस्य तृष्णामयाप्यायनमात्रत्वं तु ।

तृष्णामिवृद्धिच तपत्यजम , तापस्नदायासयनीत्यवादी ॥१३॥

—स्वयम्भूम्नोत्र ।

* स्वास्थ्य यदात्यन्तकमेव पु सा, स्वार्थो न भोगः परिभ्युरात्मा ।

तृष्णोनुयगान्न च तापशान्तिरितीदमास्थदभगवान्सुपाश्वं ॥३१॥

अजगम जगमनेययत्र यथा तथा जीववृत शरीर ।

बीभन्नु पूनि क्षयि तापक च स्नेहो वृथात्रेति हित स्वमास्य ॥३२॥

—स्वयम्भूस्तोत्र ।

मलबीज मलयोनि गलन्मल पूनि गन्धि बीभत्स । पश्यन्नगम्

—रत्नकरण

निर्बन्धत्व रहते थे—उन्हे भोगोंसे जरा भी हवि अथवा प्रीति नहीं थी—; वे इस शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे घोड़ासा कुछ भोजन देते थे और इस बातकी कोई पर्वाह नहीं करते थे कि वह भोजन रुक्षा-चिकना, ठड़ा-भरम, हल्का-भारी, कटुया-बधायला आदि कैसा है ।

इस लघु भोजनके बदलेमें समन्वय अपने शरीरसे यथाशक्ति खूब काम लेते थे, घटो तक कायोत्सर्ग में स्थिर होजाते थे, आनापनादि योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तपनी बृद्धिके लिये †, अपनी जक्किको न छिपाकर, दूसरे भी किनने ही अनशनादि उम्र उप्र बाह्य नपश्चरणोंका अनुष्ठान किया करते थे । इसके मित्राय, नित्य ही आपका बहुतसा समय सामार्थिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण स्वाध्याय, समाधि, भावना, धर्मोपदेश, चन्द्रचरचना और परहित-प्रतिपादनादि इतने ही धर्मकार्योंमें खर्च होता था । आप अपने समयको जरा भी धर्माधानारहित व्यर्थ नहीं जान देते थे ।

आपत्काल

इस तरहपर, बड़े ही प्रमके भाथ मुनिवर्मंका पालन करते हुए, स्वामी मध्य-न्तभद्र जब 'मणुवकहली' * ग्राममें धर्मध्यानमहित आनन्दपूर्वक अपना मुनि जीवन व्यनीत कर रहे थे और अनेक दुर्दृर नपश्चरणोंके द्वारा आत्मोन्नानिके पथमें अप्रे-सर हो रहे थे तब एक पूर्वमचिन अमानावेदनीय कर्मके तीव्र उदयमें आपके शरीरमें 'भस्मक' नामका एक महारोग उत्पन्न होगया ‡ । इस रोगकी उत्पत्तिमें † बाय तप परमदुश्चरमारस्त्वमाध्यतिथिकस्यतपस परिवृहगार्थम् ॥८२॥

—स्वयम्भूस्तोत्र ।

* ग्रामका यह नाम 'राजावलीकथे' में दिया है । यह 'काची' के आस-पासका कोई गाँव जान पड़ा है ।

† ब्रह्मनेमिदन भी अपने 'आराधनाकथाकोष' में, समन्वयभद्रकथाके अन्तंगत, ऐसा ही सूचित करते हैं । यथा—

दुर्दृरानेकचारित्ररत्नाकरो महान् ।

यावदास्ने मुख धीरस्तावत्तकायकेऽभवत् ॥४॥

अमद्वेषमहाव धर्मोदयाददुर्दृ भवायकः ।

तीव्रकष्टप्रद कष्ट भस्मकव्याधिसङ्कः ॥ ५ ॥

से यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके शरीरमें उस तमय कफ कीण होगया था और वायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे, क्योंकि कफके द्वीण होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता है तब वह अरनी गर्भी और नेत्रीमें जठरामिन-को अत्यन्त प्रदीप, बलाढ़ध और तीक्ष्ण रूप देता है और वह अग्नि अपनी तीक्ष्णतामें, विरुद्ध शरीरमें पड़े हुए भोजनका तिरस्कार करनी ही उसे क्षण-भावमें भस्म कर देती है। जठरामिनकी इस अत्यन्त तीक्ष्णावस्थाको ही 'भस्मक' रोग कहते हैं। यह रोग उपेक्षा किये जान पर—अर्थात् युरु, मिथि जीनल मधुर और इलेव्मल अश्रपानका यथाहु परिमाणम अववा तृतीयन्त मेवन न करने पर—जरीरके रक्तमासादि धातुप्रोक्तों भी भस्म रूप देता है, महादौर्बल्य उत्पन्न कर देता है, तुषा, स्वेद, दाह तथा मून्डादिक अनक उपद्रव खड़े रूप देता है और अनमें गारीको मृत्युमृत्युमें ही स्वापिन वरके छाड़ना है ॥। इस रोगक आक्रमण पर समन्तभद्र दुर्घटनामें उमरी कुछ पर्वाह नहीं की। वे स्वेच्छापूर्वक धारणा किये हुए उपवासों तथा अनशनादि तपोंके अवसरपर जिस

* 'कट्वादिस्काशभुजा नराणा कीणे कफ मास्तपित्तवृद्धौ ।
अतिप्रवृद्ध पवनान्विताऽमिन्द्रुत्त क्षणा द्रूस्मदरोति यस्मात् ।

तस्मादसौ भस्मकमत्तकोऽमूदुपक्षिताय पचते च धातून् ।

—इति भावप्रकाश ।

'नरे द्वीणके पित्त कुपित मास्तानुगम् ।
स्वाध्मणा पावकस्थाने बलमने प्रयच्छति ॥
तथा लब्धवला देहे विरुद्धे साऽनिनोऽनल ।
परिभूय पचत्यन्त तैक्ष्णादाशु मुहुर्मुह ॥
पक्ष्वान्न सतत धातून् शाणिनादी पचत्यपि ।
ततो दीर्बल्यमातकान् मृत्यु चोपनयेन्नर ॥

मुक्तेऽने सभते शार्ति जीर्णमात्रे प्रनाम्यति ।
तृट्ट्वेददाहमूर्च्छा स्युर्व्याधियोऽस्यमिनसभवा ॥'
'तमेत्यग्नि पुरुस्त्विष्णवशीतमधुरविज्ञले ।
अन्नपानैर्वैच्छान्ति दीप्तमविनिमित्वामृग्नि ॥'—इति चरकः ।

प्रकार क्षुधापरीयहको सहा करते थे उसी प्रकार उन्होने इस अवसर पर भी, पूर्व अभ्यासके बलपर, उसे सह लिया। परन्तु इस क्षुधा और उस क्षुधा-मे बड़ा अन्लर था, वे इम बढ़ती हुई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असहा वेदनाका अनुभव करने लगे, पहले भोजनसे घटोके बाद नियत समय पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके दूसरी ओर लगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता था तो वह भूख मर जाती थी और किर घटो तक उसका पता नहीं रहता था, परन्तु अब भोजनको किये हुए देर नहा होनी थी कि क्षुधा फिरसे आ धमकनी थी और भोजनके न मिलनेपर जठराग्नि अपने आमपासके रक्त मासको ही खीच खीचकर भस्म करना आरम्भ कर देती थी। समन्तभद्रको इसम बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाके समान दूसरी शरीरवेदना है भी नहीं, कहा भी गया है—

‘‘क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना।’’

इस तीव्र क्षुधावेदनाके अवमरपर किमीमे भोजनकी याचना करना, दोबारा भोजन रखना अथवा रोगोपशानिके लिये किमीको अपने वास्ते अच्छे स्निग्ध, मधुर शीतल, गंगिष्ठ और कफ़ारी भोजनोके तथ्यार करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्ध था। इसलिये समन्तभद्र, वस्तुस्थितिका विचार करते हुए, उम ममग अनेक उत्तमोत्तम भावनाओवा चिन्नबन करते थे और अपने आन्माको मध्वोधन करके कहने थे—‘‘हे आन्मन्, तून अनादिवालसे इस ससारमे परिभ्रमण करने हुए अनेक बार नरक पशु आदि गतियामे दुसह क्षुधावेदनाको सहा है, उमके आगे ना यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है। तुम्हे इतनी तीव्र क्षुधा रह चुकी है जो तीन लाकडा अश्व खाजाने पर भी उपशम न हो, परन्तु एक कग्ग खानेको नहीं मिला। ये सब कष्ट तूने पराधीन होकर सहे हैं और इसलिए उनमे कोई लाभ नहीं होसका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको महत कर। यह सब तेरे ही पूर्वकर्मका दुष्प्रियपाक है। साम्य-भावसे वेदनाको मह लेनेपर कर्मकी निर्जरा हो जायगी, नवीन कर्म नहीं बैंधेगा और न आगेको किर कभी गेसे दुःखोको उठानेका अवसर ही प्राप्त होगा।’’ इस तरह पर समन्तभद्र अपने साम्यभावको हड रखते थे और कथायादि दुर्भावोको उत्पन्न होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय, वे इस शरीरको

कुछ अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक शक्तिको विशेष क्षीणा न होने देनके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन अनशनादि बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंको वे कर रहे थे और जिनका अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्तिपर निभर था—मूरगुणोंकी तरह लाज्जी नहीं था—उन्हें वे हीला अथवा स्थगित कर द। उन्होन वैमा ही किया भी—वे अब उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिस्थ्यान रसपरित्याग और कायक्लेश नाम-के बाह्य नपाके अनुष्ठानका उन्होन, कुछ कालक लिये एकदम स्थगित कर दिया था भोजनके भी वे अब पूरे ३२ ग्रास नेत थे साथ ही रोगी मुनिक लिये जो कुछ भी रिमायत मिल सकती थी वे भी प्राय सभी उन्होन प्राप्त कर नी थी। परन्तु यह सब कुछ हात हुए भी, आपकी क्षुधारो जरा भी शाति नहीं मिनी, वह दिनपर दिन बढ़ती और नीबूम तीव्रतर हानी जाती थी जठरानलबी ज्वालाओ तथा पिलकी तीक्ष्णा ऊप्पमे शरीरका रम रक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वलाएँ शरारके अग्रापर दूर दूर तक धावा कर रही थी और नित्यका स्वल्प भोजन उनके नियंत्रण नहीं हाना था—वह एक जाज्वल्यमान अग्निपर थाडेम जनक खाटका ही काम देता था। इसक अतिरिक्त यदि किसी दिन भोजनका अनुराय हो जाता था तो आगे भी ज्यादा गजब हो जाना था—क्षुधा राखभी उम दिन और भा ज्यादा दश तथा निदय रूप धारणा कर नेती थी। इस तरहपर समतभद्र जिम महावेदनाका अनुभव कर रहे थे उसका पारक अनुमान भी नहीं कर सकते। एमा हालतम अच्छ अच्छ धीरखीरोका वैय क्षून जाना है अडान अष्ट ही जाना है और जानगुण डगमगा जाना है। परन्तु सभ महामना थे महात्मा थे आत्म-देहान्तरज्ञानी थे सपत्नि-विपात्तम समचित थे, निमल सम्यग्दशनके गारक थे और उनका जान अदुख-भावित नहीं था जो दुखोंके आन पर क्षीण हो जाय कि, उन्हान यथाशक्ति उप उप तपश्चरणोंके द्वाग कष्ट महनका अच्छा अभ्यास किया था, वे आनद-पूवक कष्टाको सहन किया करते थे—उन्हें सहते हुए खद नहीं मानते

॥ अदुखभावित जान क्षीयते हु समग्रिधौ ।

तस्माद्यावल दुखैरत्मान भावयेन्मुनि ॥ —समाधितन्त्र

ये ही और इसलिये इस सकटके अवसरपर वे जरा भी विचलित तथा वैयच्छुत नहीं हो सके।

समन्तभद्रन जब यह देखा कि रोग गारा नहीं होता शरीरकी दुखलता बढ़ती जा रही है और उस दूबलनाके कारण नियकी आवश्यक कियाग्रोमे भी कुछ बदा पड़न लगी है माथ ही प्यास आदिक भा कुछ उपद्रव शुरु हो गये हैं तब आपको बड़ी ही चि ना पना है अप सावन नगे— इस मुनि अवस्थाम जहा आगमोन्ति विधिके अनुसार उदगम उपादन नि ख्यालीम दोषो चौदह मलदोषो और बत्तीम अनुरायोको नालकर प्रासव तथा परिमित भाजन लिया जाता है वहा इस भयकर रागकी शातिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी कोई यवस्था नहीं बन सकती ॥ मुनिपन्दको कायम रखते हुए यह रोग प्राय अमाघ अथवा नि प्रतीक र जात पड़ता है अन्तिये या नो मुझ अग्रन मुनिपन्दको ढोड़ देना च लिये और या म-तेवना ब्रत धारण करके इस शरीरको धर्माय यागनके लिये तथार हो जाना चाहिये परन्तु मुनिपन्द कम छोड़ जा मकना है ? जिस मुनिधमके लिये मैं अग्रना मवस्व अ ग वर चुका हूँ जिस मुनिपन्दको म बड़ प्रसके माथ अब तक पानना आ रहा ॥ और जो मुनिधम मेरे ध्येयका एक मात्र आगर बना हुआ है उसे क्या मैं ठार दूँ ?

जो आमा और देहक भव विज्ञाना हाते हैं वे एम क्षेत्रों सहते हुए खर नहीं मान करते कहा भा ह—

आ मदहान्नारज्ञानजनिनाल्लादनिव त

तपसा दण्डन धार मु ज नारि न विद्वन —समाधित-

जो लोग आगमम बन उदगमाद दोषो तथा अन्तरायोका स्वरूप ज नने ह और जिहे पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उ ह यह बतलानकी जारूरत नहीं है वि सब जन साधुओको भोजनके लिये वसे ही कितनी कठिनाइयोका साम । बग्ना पड़ता है । इन कठिनाइयोका कारण दातागोकी बाई कमी नहीं है बरि क भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिलता ह उसका प्राय एक कारण है—फिर भस्त्रक जमे रोगकी शातिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी तो बात ही दूर है ।

क्या क्षुधाकी वेदनासे बचाकर अथवा उससे बचनेके लिये छोड़ दूँ ? क्या इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दें ? यह नहीं हो सकता । क्या क्षुधादि दुःखोके इम प्रतिकारसे अथवा इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके अनुभवनमें इम देहकी स्थिति सदा एकमी और सुखरूप बनी रहेगी ? क्या फिर इस देहमें क्षुधादि दुःखोका उदय नहीं होगा ? क्या मृत्यु नहीं आगमी ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोके प्रतिकार आदिमें गुण ही क्या है ? उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्या बन मज्जना है ? उसे दुखोंसे बचनेके लिये कवापि मुनिधर्मको नहीं छोड़गा, भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझ उमकी चिन्ना नहीं है, मेरा आन्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, भैने दुःखोका सशात् करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनमें बचाने और बचनेके लिये, भेरी परीक्षाका यही समय है, मैं मुनिधर्मको नहीं छोड़ूँगा ।” इनमें ही अन करणके भीतरमें एक दूसरी आवाज आई—“अमनभद्र ! तू अनेक प्रकारमें जैन शासनका उद्घार करने और उसे प्रचार देनेमें भव्य है, तेरी बदौलत बहुतम जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिथ्यात्व नष्ट होगा और वे सन्मानमें लगेंगे, यह शासनोद्धार और लोकहितका काम क्या कुछ कम धर्म है ? यदि इस शासनोद्धार और लोकहितकी हृषिमें ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़दे और अपने भोजनकी योग्य अवस्था-द्वारा रोगको शान्त करके फिरमें मुनिपद आगरा कर नेवे तो इसमें कौनसी हानि है ? तेरे ज्ञान, अद्वान, और आरिके भावको नो इसमें जरा भी क्षति नहीं पहुँच सकती, वह सो हरदम तेरे साथ ही रहेगा, तू इच्छालिङ्गकी अपेक्षा अथवा बाह्यमें भले ही मुनि न रहे, परन्तु भावोंकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि-जैसी ही होगी, फिर इसमें भविक सोबने विचारनेकी बात ही क्या है ? इसे आपदामेंके नौरपर ही स्वीकार कर, तेरी पारणति तो हमेशा लोकहितकी तरफ रही है, अब उसे

“ क्षुधादि दुःखोके प्रतिकारादिविषयक आपका यह भाव ‘स्वयभूत्सोत्र’ के निम्न पद्धये भी प्रकट होता है—

क्षुधादिदुःखप्रतिकारत स्थिति नं चेन्द्रियार्थं प्रभवात्प्रभौस्थित ।

तनो मुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीवित्य भगवान् व्यजिज्ञात ॥१८॥

गौण क्यों किये देता है ? दूसरोंके हितके लिये ही यदि तू अपन स्वाधीनी थोड़ीसी बलि देकर—प्रल्पकालके लिये मुनिपदको छोड़कर—बहुतोंका भला कर सके तो इससे तरे चरित्र पर जरा भी करक नहीं आ सकता वह तो उलटा और भी ज्यादा ऐदीप्यमान होगा अत तू कुछ दिनोंके लिये इसमुनि पदका मोह छोड़कर और मानापमानकी जरा भी पर्वाह न करते हुए अपन रोग को शात करनका यत्न कर वह नि प्रतीकार नहीं है इस रोगसे मुक्त हानपर, स्वस्थावरुप्याम तू और भी अधिक उत्तम रातिम मुनिघमका गालन कर सकेगा अब विनम्र करनकी जरूरत नहीं है विलम्बम हानि हानी

इस तरह पर सम तमद्वा हृष्यम किननी ही तर तक विवाहेका उथान और पतन ह ता रहा अतको आपन यहा स्थिर किया दि क्षुगान्दिव्यमेघवराकर उनक प्रतिकारक निये अपन याध्य नियमाको तावना उचित नन्हा ने लोकवा न्नि वास्तवम नाकके आवित है और मगा न्नि मेरे आवित है यह ठीक है कि लोकवा जितनी सवा मैं करना चाहना था उम म नहा कर सका परतु उम मेराका भाव मर आमाम मौजूद = और म उम अगरे ज मम पूरा करूँगा इस समय लोकहितकी आगा पर आमहितका विगड़ना मुन मिद नहीं है इसनिये मझ अप मल्लेखना का ब्रत जरूर ने नेना चाहिये और मृग्यु की प्रताधाम बनकर नार्निक साथ उस तहका धर्माध याग कर दना चाहिये। इस निश्चयका लेकर समन्तभद्र सल्लेखनाद्वनकी आजा प्राप्त बरनके लिय अपन वयावृढ तपोवृढ और अनक मद्युग्मानकृत पूज्य मुहूर्नवृक्ष क पाम पहुँच और उनमे अपन रोगका सारा हात निवेश्वन विथा। साव नी उनपर यह प्रकट करन हुआ दि मग राग नि प्रनोकार जान पडता है और रागका नि प्रनीकारा वस्थ म सल्लेखन का गरगा लेना हो श्रृँग कहा गया है + यह विनम्र प्राप्यना

कुरावलीक्ष्य म यह तो पता चलता है कि समन्तभद्रक मुहूर्ने उम समय मौजूद थ और समन्तभद्र सल्लेखनाकी आजा प्राप्त करनके लिये उनके पास गये थ परतु यह मालूम नहीं हो सका दि उनका क्या नाम था ।

+ उपमग दुर्भिक्ष जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे ।

धर्माध तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या ॥१२२॥

—रत्नकरठ

की कि—‘अब आप कृपाकर मुझे सल्लेखना धारण करनेकी आज्ञा प्रदान करें और यह आशीर्वाद देवे कि मैं साहसपूर्वक और महर्ष उसका निर्वाह करनेमें समर्थ हो सकूँ।’

समन्तभद्रकी इस विज्ञापना और प्रार्थनाको मुनकर गुरुजी कुछ देरके लिये मीन रहे, उन्होंने समन्तभद्रके मुखमठल (चेहरे) पर एक गभीर हाथि ढाली और फिर आपने योगदलसे मालूम किया कि समन्तभद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा धर्म तथा शासनवे उद्घारका महान् कार्य हानका है, इस हाथिमें वह सन्नेखनाका पात्र नहीं, यदि उमे सन्नेखनाकी इजाजत दी गई तो वह भक्तालमें ही कालके गालमें चला जायगा और उमसे श्री बीरभगवानके शासन-कार्यको बहुत बड़ी हानि पहुँचगी, माथ ही, लोकका भी बड़ा अहित होगा। यह मब साचकर गुरुजीने, समन्तभद्रकी प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए, उन्हे बड़े ही प्रेमके माथ समझाकर कहा—‘वर्तम, अभी तुम्हारी सल्लेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासन कार्यके उद्घारनी मुझे बड़ी आशा है निश्चय ही तुम धर्मका उद्घार आर प्रचार करोगे, ऐसा मेरा अन्त करण कहता है, लोकको भी इस समय तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, इसलिये मेरी यह व्याप छऱ्हा है और यही मेरी आज्ञा है कि तुम जहापर और जिम वेषमें रहकर रोगोपशमनके याग्य तृप्तिपर्यन्त भोजन प्राप्त कर सका वहीपर खुशीमें चले जाओगे और उसी वेषका धारण करलो, रोगके उपशान्त हानपर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना और अपन मब कामोका संभाल लेना। मुझे तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास है, इसीलिये मुझे यह कहनेमें बरा भी सकोच नहीं हाता कि तुम चाह जहाँ जा सकते हो और चाह जिस वेषका धारण कर सकते हो, मैं खुशीमें तुम्हे ऐसा करनकी इजाजत दता हूँ।

गुरुजीके इन मधुर तथा सारगम्भित वचनोको मुनकर और आपने अपनकरण की उम आवाजको स्मरण करके समन्तभद्रको यह निश्चय हा गया कि इसीमें जहर कुछ हित है, इसलिये आपने अपने सल्लेखनाके विचारको छोड़ दिया और गुरुजीकी आज्ञाको शिरोधारण कर आप उनके पाससे चल दिये।

अब समन्तभद्रको यह चिन्ता हुई कि दिग्गम्बर मुनिवेषको यदि छोड़ा जाय तो किर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह वेष जैन हो या अजैन। अपने

भुग्निवेषको छोडनेका स्थाल आते ही उन्हे फिर दुख होने लगा और वे सोचने लगे—‘जिम दूसरे वेषको मैं आज तक विकृत + और अप्राकृतिक वेष समझता आरहा हूँ उसे मैं कैसे धारण करूँ’ । क्या उमीको अब मुझे धारण करना होगा ? क्या गुरुजीकी एसी ही आज्ञा है ?—‘नों, ऐसी ही आज्ञा है । उन्होने स्पष्ट कहा है—‘यही मेरी आज्ञा है—चाहे जिस वेषको धारण करलो रोगके उपशात हानपर फिरमे जैनमुनिदीक्षा धारण कर नेना, तब तो इसे अलव्यधि-शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये । यह ठीक है कि मैं वेष (लिंग) का ही सब कुछ नहीं समझता—उसीको मुनिका एवं मात्र कारण नहीं जानता,—वह देहाश्रित है और देह ही इस आत्माका समार है इमलिये मुझ मुमुक्षुका—ससार बबनोमे छूटनके इ छुकका—किमी वपम ॥ कान्त आग्रह नहीं हो सकता क्यों फिर भा मैं वेषके विकृत और अविकृत एम दो भद्र जरूर मानता हूँ, और अपन लिये अविकृत वेषम रहना ही अधिक अच्छा समझता हूँ’ । इसीम, यद्यपि उम दूसरे वेषम मरी कोर रुनि नहीं हो सकती, मरे लिये वह एवं प्रकारका उपमग ही होगा और मेरी अवस्था उम समय अधिकतर चनोपमष्ट मुनि जैसी ही होगी पर तु पिर भी उम उपमगका रूपांतर मैं खुद ही हूँगा न ? मुझ ही स्वय उम वेषका धारण करना पड़गा । यही मरे लिये मुझ कष्टकर प्रीत होना है । अच्छा, अन्य वप न धारण करूँ तो फिर उपाय भी

+ ततस्तिष्ठच्य परमकर्मणा ग्रन्थमुभय ।

भवानवात्याख्याम च विकृतवेषोपधिरत ॥ —स्वयभूस्तोऽम

क्यूँ श्रीपूज्यपादके समाधितत्रम भी वपविषयम एमा ही भाव प्रतिपादित किया गया है । यथा—

लिंग देहाश्रित दृष्ट दह एवात्मना भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात य लिंगकृताशुह ॥८७॥

अर्थात्—लिंग (अटाधारण-नमनत्वादि) देहाश्रित है और देह ही आत्मा का ससार है इमलिये जो लाग निग (वेष) का ही एकान्त आग्रह रखते हैं—उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं—वे ससारबधनसे नहीं छूटते ।

अब क्या है ? मुनिवेषकों कायम रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयमें स्वेच्छा-चारसे प्रवृत्ति करूँ तो उससे अपना मुनिवेष लज्जित और कलंकित होता है, और यह मुझसे नहीं हो सकता; मैं खुशीसे प्राण दे सकता हूँ परन्तु ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा मुनिपदको लज्जित और कलंकित होना पड़े । मुझसे यह नहीं बन सकता कि जैनमुनिके रूपमें उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचारण करूँ; और इसलिये मुझे अब लाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना ही होगा । मुनिपदको छोड़कर मैं ‘भुल्लक’ हो सकता था, परन्तु वह लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिके योग्य नहीं है—उस पदधारीके लिए भी उद्धिष्ठ भोजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है जिससे, उस पदकी मर्यादाको पालन करते हुए, रोगोपशान्तिके लिये यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, और मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं बन सकता—इसलिये मैं उस वेषको भी नहीं धारण करूँगा । बिलकुल गृहस्थ बन जाना अथवा यों ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी मुझे इष्ट नहीं है । इसके सिवाय, मेरी चिरकालकी प्रवृत्ति मुझे इस बातकी इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति-विशेषको कष्ट दूँ; मैं अपने भोजनके लिए ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें खाम मेरे लिये किसीको भी भोजनका कोई प्रबन्ध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध होना रहे ।'

यही सब सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहुतमें ऊहापोहके बाद, आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ त्याग किया और साथ ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पवित्र भस्ममें आच्छादित करना आरम्भ कर दिया । उस समयका हृष्य बड़ा ही करुणाजनक था । देहसे भस्मको भलते हुए आपकी आँखें कुछ आँदूँ हो आई थीं । जो आँखें भस्मक व्याधिकी तीव्र वैदनासे भी कभी आँदूँ नहीं हुई थीं उनका इस समय कुछ आँदूँ हो जाना साधारण बात न थी । संचके मुनिजनोंका हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावी-की अलंध्य शक्ति तथा कर्मके दुर्विपाकका ही चिंतन कर रहे थे । समन्तभद्र जब अपने देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगमें भस्म और अंतरङ्गमें सम्पर्वनादि निर्यत गुणोंके दिव्य प्रकाशको देखकर ऐसा मालूम होता था कि

एक महाकांतिमान् रत्न कर्दमसे लिप्त होरहा है और वह कर्दम उस रत्नमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिगड़ नहीं कर सकता है, अथवा ऐसा जान पड़ता था कि समन्तभद्रने अपनी भस्मकाणिको भस्म करने—उसे शांत बनाने—के लिये यह 'भस्म' का दिव्य प्रयोग किया है। अस्तु। संघको अभिवादन करके अब समन्तभद्र एक बीर योद्धाकी तरह कार्यसिद्धिके लिए, 'मणुवकहल्ली' से चल दिये।

'राजावलिकथे' के अनुसार, समन्तभद्र मणुवकहल्लीमें चलकर 'कांची' पहुँचे और वहा 'शिवकोटि' राजाके पास, संभवतः उसके 'भीमलिंग' नामक शिवालयमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। राजा उनकी भद्राकृति आदिको देखकर विस्मित हुआ और उसने उन्हे 'शिव' समझकर प्रणाम किया। धर्मकृत्योंका हाल पूछे जानेपर राजाने अपनी शिवभक्ति, शिवाचार, मंदिर-निर्माण और भीमलिंगके मंदिरमें प्रनिदिन बारह खंडुग + परिमाण तंडुलान्न-विनियोग करनेका हाल उनसे निवेदन किया। इसपर समन्तभद्रने, यह कहकर कि 'मैं तुम्हारे इस नैवेद्यको शिवार्पण † कहूँगा,' उम भोजनके साथ मंदिरमें अपना आसन पहण किया, और किवाड़ बंद करके सबको चने जानेकी आज्ञा की। सब लोगोंके चले जाने पर समन्तभद्रने शिवार्पण जठराग्निमें उस भोजनकी आहुतियाँ देनी आरम्भ की और आहुतियाँ देते देने उम भोजनमें जब एक कला भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण तृतीय लाभ करके, दरबाजा खोल दिया।

॥ अन्तःस्फुरितसम्यक्त्वे बहिर्व्यासकुर्लिंगक ।

शोभितोऽमो महाकान्ति कर्दमाक्तो मणिर्यंथा ॥—धाराधना कथाकोश ।

+ 'खंडुग' कितने मेरका होता है, इस विषयमें वर्णी नेमिसागरजीने, पं० शातिराजजी शास्त्री मैसूरके पत्राधार्गपर, यह सूचित किया है कि बैंगलोर प्रांतमें २०० सेरका, मैसूर प्रांतमें १८० सेरका, हेगडेवन कोटमें ८० सेरका और शिमोगा डिस्ट्रिक्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और मेरका परिमाण सर्वत्र ८० तोलेका है। मालूम नहीं उस समय खाल कांचीमें कितने सेरका खंडुग प्रचलित था। संभवतः वह ४० सेरसे तो कम न रहा होगा।

† 'शिवार्पण' में कितना ही गूढ़ अर्थसंनिहत है।

सम्पूर्ण भोजनकी समाप्तिको देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ । अगले दिन उसने और भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेट किया; परन्तु पहले दिन प्रकुर परिमाणमें त्रुतिपर्यन्तभोजन कर लेनेके कारण जठरानिके कुछ उपशांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन आधा भोजन जेव रह गया । समन्तभद्रने साधारणतया इस शेषानंको देवप्रसाद बतलाया; परन्तु राजा को उससे संतोष नहीं हुआ । चौथे दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजा का संदेह बढ़ गया और उसने पांचवें दिन मन्दिरको, उस अवसर पर, अपनी मेनासे घिरवाकर दरवाजे को खोल डालने की आज्ञा दी ।

दरवाजेको खोलनेके लिए बहुतमा कलकल शब्द होनेपर ममन्तभद्रने उपसर्ग का अनुभव किया और उपसर्गकी निवृत्तिपर्यन्त समस्त आहार पानका त्याग करके तथा शरीरमें बिल्कुल ही ममत्व छोड़कर, आपने बड़ी ही भक्तिके साथ एकाग्र चित्तमें श्रीबृष्टभादि चतुर्विंशति तीर्थकरोंकी स्तुति श्री करना आरंभ किया । स्तुति करते हुए, समन्तभद्रने जब आठवें नीर्धकर श्रीचन्द्रप्रभस्वामीकी भले प्रकार स्तुति करके भीमलिंगकी ओर दृष्टि की तो उन्हें उस स्थानपर, किमी दिव्यधक्तिके प्रतिष्ठाने, चन्द्रलांघनयुक्त अहंत भगवानका एक जाउवस्थमान सुवर्णांमय विशाल विम्ब, विभूतिमहित, प्रकट होता हुआ दिखलाई दिया । यह तेजस्कर समन्तभद्रने दरवाजा खोल दिया और आप शेष तीर्थकरोंकी स्तुति करनेमें तक्षीन होगये ।

दरवाजा खुलते ही इस माहात्म्यको देखकर शिवकोटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपने ढोटे भाई 'शिवायन'-सहित, योगिगण श्रीसमन्तभद्रको उद्दं नमस्कार करना हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा । समन्तभद्रने, श्रीवर्घ्मान महावीरपर्यंत स्तुति कर चुकनेपर, हाथ उठाकर दोनोंको आशीर्वाद दिया । इसके बाद धर्मका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भोगोंसे दिरक्त होगया और उसने अपने पुत्र 'श्रीकंठ' को राज्य देकर शिवायन-सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीका धारण की । और भी कितने ही लोगोंकी

* इसी स्तुतीको 'स्वयमभूस्तोत्र' कहते हैं ।

अद्दा इस माहात्म्यसे पलट यही और वे असुविताविके आरक होमये थे ।

इस तरह समन्तभद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने 'भस्मक' रोगको भस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्कान समाप्त हुआ, और देहके प्रकृतिस्थ होजानेपर उन्होंने फिरसे जैनमुनिदीका आरण कर ली ।

श्रवणबैलोलके एक शिलालेख^१ में भी, जो आजसे आठसौ वर्षसे भी अधिक पहलेका लिखा हुआ है, समन्तभद्रके 'भस्मक' रोगकी शान्ति, एक दिव्य शक्तिके द्वारा उन्हें उदात पदकी प्राप्ति और योगसामर्थ्य अथवा वचन-बलसे उनके द्वारा 'चन्द्रप्रभ' (विम्ब) की आकृष्टि आदि कितनी ही बातोंका उल्लेख पाया जाता है । यथा—

वंशो भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पद्मावती देवता-
दत्तोदात्तपद-स्वमन्त्रवचनव्याहूतचंद्रप्रभः ।
आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृत्येनेह काले कलौ
जैन वर्त्म समन्तभद्रमभवद्द्रदं समन्तान्मुहुः ॥

इस पद्ममें यह बतलाया गया है कि 'जो अपने 'भस्मक' रोगको भस्मसाप्त करनेमें चतुर हैं 'पद्मावती' नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मन्त्रवचनोंसे (विम्बरूपमे) 'चन्द्रप्रभ' को बुना लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी जैनमार्ग (घर्म) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्यं समन्तभद्र पुनः पुनः बन्दना किये जानेके योग्य हैं ।'



^१ देखो, 'राजावलिकथे' का वह मूलपाठ, जिसे मिस्टर लेविस राइस साहृ-ने अपनी Inscriptions at Sravanabelgola नामक पुस्तककी प्रस्ता-वनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है । इस पाठका अनुवाद मुझे बर्णी नेमिसागरकी कृपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ ।

इस शिलालेखका पुराना नंबर ५४ तथा नया नं० ६७ है, इसे 'महिं-वेणप्रशस्ति' भी कहते हैं, और यह शक सम्वत् १०५० का लिखा हुआ है ।

ऐतिहासिक पर्यालोचन

स्वामी समन्तभद्रकी 'भ स्मक' व्याधि और उसकी उपशान्ति आदिके समर्थनमें जो 'बंधो भस्मकभस्मसात्कुनिपटुः' इत्यादि प्राचीन परिचय-वाक्य श्रवण-बैलोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) परसे इस लेखमें ऊपर उढ़त किया गया है उसमें यद्यपि 'शिवकोटि' राजाका कोई नाम नहीं है; परन्तु जिन घटनाओंका उसमें उल्लेख है वे 'राजावलिकथं' आदिके अनुसार शिवकोटि राजाके 'शिवालय'से हीं सम्बन्ध रखनी हैं। 'सेनगणकी पटुआबली' में भी इस विषयका समर्थन होता है। उसमें भी 'भीमनिंग' शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्रद्वारा चमत्कृत और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही, उसे 'नवतिलिंग' देशका 'महाराज' सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय संभवतः 'कांची' ही होगी। यथा—

“(स्वस्ति) नवतिलिङ्गदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभीमलिङ्गस्वयंवादि-
स्तोटकोत्कीरणऽरुद्रसान्द्रचन्द्रिकाविशदयशः श्रीचन्द्रजिनेन्द्रसहर्षनसमु-
त्पन्नकौतूहलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापकाचार्यश्रीमत्समन्त -
भद्रस्वामिनाम् ।”

इसके सिवाय, 'विक्रान्तकौरव' नाटक और श्रवणबैलोलके शिलालेख नं० १०५ (नया नं० २५४) से यह भी पता चलता है कि 'शिवकोटि' समन्तभद्रके प्रधान विषय थे। यथा—

शिष्यो तदीयो शिवकोटिनामा शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्यो ।

कृत्सनश्चुतं श्रीगुरुपादमूले शाधीतवर्ती भवतः कृतार्थो ॥ X

—विक्रान्तकौरव

तस्यैव शिष्यशिशवकोटिसूरि: तपोलतालम्बनदेहयष्टिः ।

संसारवाराकरपोतमेतत् तस्यार्थसूत्रं तदलंचकार ॥

—श्रवणबैलोल-शिलालेख

॥ 'स्वयं' से 'कीरण' तकका पाठ कुछ भ्रष्ट जान पड़ता है।

† 'जैनसिद्धान्तभास्कर' किरण १८ी, पृ० ३८ ।

× यह पश्च 'जिनेन्द्रकल्पायाशाभ्युदय'की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है।

‘विक्रान्तकोरव’ के उक्त पदमें ‘शिवकोटि’ के साथ ‘शिवायन’ नामके एक दूसरे शिव्यका भी उल्लेख है, जिसे ‘राजावलिकये’ में ‘शिवकोटि’ राजाका अनुज (छोटा भाई) लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समन्तभद्रसे जिनदीका ली थीं ४; परन्तु शिलालेखवाले पदमें वह उल्लेख नहीं है और उसका कारण पद्धतेके अर्थपरसे यह जान पड़ता है कि यह पद तत्त्वार्थसूत्रकी उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्धति है जिसे शिवकोटि आचार्यने रचा था, इसीलिये इसमें तत्त्वार्थसूत्रके पहले ‘एतत्’ शब्दका प्रयोग किया गया है और यह सूचितकिया गया है कि ‘इस तत्त्वार्थसूत्रको उस शिवकोटि-सूरिने अलंकृत किया है जिसका देह तपरूपी लक्षणके लिये यष्टि बना द्युधा है’। जान पड़ता है कि यह पद्धति + उक्त टीका परसे ही शिलालेखमें उद्घृत किया गया है, और इस हृषिमें यह पद्धति बहुत प्राचीन है और इस बातका निरायं करनेके लिये पर्याप्त मालूम होता है कि ‘शिवकोटि’ आचार्य स्वामी समन्तभद्रके शिष्य थे †। आश्चर्य नहीं जो ये ‘शिवकोटि’ कोई राजा ही हुए हों। देवागमकी वसुनन्दिवृस्ति में मंगलाचरणका प्रथम पद्धति निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

सर्वश्रीकुलभूषणं ज्ञतरिपुं सर्वार्थसंसाधनं
सम्नीतेरकलंकभावविधृतेः संस्कारकं सत्पर्थं ।
निष्ठातं नयसागरे यतिपतिं झानांगुसद्वास्करं
भेत्तारं वसुपालभावतमसो वन्दामहं बुद्धये ॥

यह पद्धति द्वयर्थक है, और इस प्रकारके द्वयर्थक अर्थर्थक पद्धति बहुधा प्रन्थों

* यथा—शिवकोटिमहाराजं भव्यनप्तुदरि निजानुजं वेरस...संसारसारीर-भोगनिर्वेगदि श्रीकंठेम्बमुत्तरे राज्यमनिलु शिवायन गृहिय आ मुनिपरलिये जिनदीकेनान्तु शिवकोटिशाचार्यरागि... ।

+ इसके पहलेके ‘समन्तभद्रस्य विराय जीयात्’ और ‘स्यात्कारसुद्वितसमस्त-पदार्थपूर्ण’ नामके दो पद्धति भी उसी टीकाके जान पड़ते हैं ।

† नगरताल्लुके ३५ वें शिलालेखमें भी ‘शिवकोटि’ आचार्यको समन्तभद्र-का शिष्य लिखा है (E. C. VIII.) ।

‡ अर्थर्थक भी ही तकता है, और तब यतिपतिसे तीसरे अर्थमें वसुनन्दीके

में पाये जाते हैं। इसमें बुद्धिवृद्धिके लिये जिस 'यतिपति' को नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमें 'श्रीवर्द्धमानस्वामी' और दूसरेमें 'समन्तभद्रस्वामी' का अभिप्राय जान पड़ता है। यतिपतिके जितने विशेषण हैं वे भी दोनोंपर ठीक उचित होजाते हैं। 'अकलंक-भावकी अवस्था करनेवाली सन्नीति (स्वाहादनीति) के सत्पादको संस्कारित करनेवाले' ऐसा जो विशेषण है वह समन्तभद्रके लिये भट्टाकलंकदेव और श्रीविद्यानन्द-जैसे भावाचार्योंद्वारा प्रयुक्त विशेषणोंमें मिलता-जुलता है। इस पदके अनन्तर ही दूसरे 'लक्ष्मीभृत्परम' नामके पदमें, समन्तभद्र-के मत(शासन) को नमस्कार किया गया है। मतको नमस्कार करनेसे पहले खास समन्तभद्रको नमस्कार किया जाना ज्यादा मंभवनीय तथा उचित मालूम होता है। इसके सिवाय, इस व्रतिके अन्तमें जो मंगलपदा दिया है वह भी दृष्ट्यंक है और उसमें साफ तौरसे परमार्थविकल्पी 'समन्तभद्रदेव' को नमस्कार किया है और दूसरे अर्थमें वही 'समन्तभद्रदेव' परमात्माका विशेषण किया गया है। यथा—

समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पिने ।

समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥

इन सब बातोंसे यह बात भी हृद हो जाती है कि उक्त 'यतिपति'-से समन्तभद्र खास तौर पर अभिग्रहत है। अस्तु; उक्त यतिपतिके विशेषणोंमें 'भेत्तारं वसुगालभावतमसः' भी एक विशेषण है, जिसका अर्थ होता है 'वसुपालके भावांधकारको दूर करनेवाले'। 'वसुपाल' शब्द सामान्य तौरसे 'राजा' का बाचक है और इसलिये उक्त विशेषणसे यह मालूम होता है कि समन्तभद्रस्वामी-ने भी किसी राजाके भावांधकारको दूर किया है ॥। बहुत संभव है कि वह राजा 'शिवकोटि' ही ही और वही समन्तभद्रका प्रधान शिष्य हुआ हो। इसके सिवाय, 'वसु' शब्दका अर्थ 'शिव' और 'पाल'का अर्थ 'राजा' भी होता है और इस तरह पर 'वसुपाल' से शिवकोटि राजाका अर्थ निकाला जा सकता है; परन्तु यह कल्पना बहुत ही किलाउ जान पड़ती है और इसलिये मैं इस पर अधिक जोर गुह नेमिचंद्रका भी आशय लिया जा सकता है, जो वसुनन्दि-भावकाचारकी प्रस्तिके अनुसार नवनन्दीके शिष्य और श्रीनन्दीके प्रशिष्य थे।

॥ श्रीवर्द्धमानस्वामीने राजा श्रेणिके भावांधकारको दूर किया था ॥

देना नहीं चाहता ।

ब्रह्म नेमिदत्त † के 'आराधना-कथाकोश' में भी 'शिवकोटि' राजा का उल्लेख है—उसीके शिवालयमें शिवनवेद्यसे 'भस्मक' व्याधिकी शांति और चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी प्रादुर्भूतिका उल्लेख है । साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शिवकोटि महाराजने जिनदीक्षा घारण की थी । परन्तु शिवकोटिको, 'काची' ग्रथवा 'नवतीलंग' देशका राजा न लिखकर 'बाराणसी' (काशी-बनारस) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है ‡ ।

अब देखना चाहिये, इतिहाससे 'शिवकोटि' कहाँका राजा सिद्ध होता है । जहाँ तक मैंने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो अब तक संकलित हुआ है, परिशीलन किया है वह इस विषयमें मौन मालूम होता है—शिवकोटि नामके राजाकी उमसे कोई उपलब्धि नहीं होती—बनारसके तत्कालीन राजाओंका तो उसमें प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता । इतिहासकालके प्रारम्भमें ही—इसवी सनसे करीब ६०० वर्ष पहले—बनारस या काशीकी छांटी रियासत 'कोशल' ग्रज्यमें मिला ली गई थी, और प्रकट रूपमें अपनी स्वाधीनताको खो चुकी थी । इसके बाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें, अजातशत्रुके द्वारा वह 'कोशल' राज्य भी 'मगध' राज्यमें शामिल कर लिया गया था, और उस बरसे उसका एक स्वतन्त्र राज्यसत्ताके तौरपर कोई उल्लेख नहीं मिलता ॥

† ब्रह्म नेमिदत्त भट्टारक मल्लभूषणके शिष्य और विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान् थे । आपने वि० सं० १५८५ मे श्रीपालचरित्र बनाकर समाप्त किया है । आराधना कथाकोश भी उसी बनके करीबका बना हुआ है ।

‡ यथा—बाराणसीं ततः प्राप्तः कुलधोर्यैः समन्विताभूः ।

योगिलिङं तथा तत्र गृहीत्वा पर्यटन्पुरे ॥१६॥

स योगी सीलया तत्र शिवकोटिमहीभुजा ।

कारितं शिवदेवोरप्राप्तादं संविनोक्य च ॥२०॥

॥ V. A. Smith's Early History of India, III Edition, p. 30-35. (विन्सेट ए० स्मिथ साहबकी भर्ती हिस्टरी ऑफ इन्डिया, मूलीयसंस्करण, पृ० ३०-३५ ।)

संभवतः यही वजह है जो इस छोटीसी परतन्त्र रियासतके राजाओं अथवा रईसोंका कोई विशेष हाल उपलब्ध नहीं होता। रही कांचीके राजाओंकी बात, इतिहासमें सबसे पहले वहाँके राजा 'विष्णुगोप' (विष्णुगोप वर्मा) का नाम मिलता है, जो धर्मसे वैष्णव था और जिसे इसबी सन् ३५०के करीब 'समुद्रगुप्त'-ने युद्धमें परास्त किया था। इसके बाद इसबी सन् ४३७ में 'सिंहवर्मन्' (बौद्ध)† का, ५७५ में सिंहविष्णुका, ६०० से ६२५ तक महेन्द्रवर्मनका, ६२५ से ६४५ तक नरसिंहवर्मनका, ६५५में परमेश्वरवर्मनका, इसके बाद नर्महवर्मन् द्वितीय (राजभिंह) का और ७४० में नन्दिवर्मनका नामोल्लेख मिलता है क्ष। ये सब राजा पल्लव बंशके थे और इनमें 'सिंहविष्णु' से लेकर पिछले सभी राजाओं का राज्यक्रम ठीक पाया जाता है क्ष। परन्तु सिंहविष्णुमें पहलेके राजाओंकी क्रमशः नामावली और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इम अवसर पर —शिवकोटिका निष्कर्ष करनेके लिये—खास जस्तर थी। इसके सिवाय, विसेट स्मिथ साहब ने, अपनी 'अर्ली हिस्टरी ऑफ इन्डिया' (पृ० २७५-२७६) में यह भी सूचित किया है कि इसबी सन् २२० या २३० और ३२० का मध्य-वर्तीं प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास बिल्कुल ही अन्धकाराच्छन्न है—। उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह बहुत कुछ अधूरा है। उसमें शिवकोटि-जैसे

† शक सं० ३८० (ई० सं० ४५८) में भी 'सिंहवर्मन्' कांचीका राजा था और वह उसके राज्यका २२वाँ वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दिग्म्बर जैनग्रन्थसे मालूम होता है।

क्ष कांचीका एक पछ्ववराजा 'शिवस्कंद वर्मा' भी था जिसकी ओरसे 'मायिदाबोल्लु' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मद्रासके प्र०० ए० चक्रवर्ती 'पंचास्तिकाय' की अपनी अयोजी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओं-के अनुसार यह राजा इसाकी १८ी शताब्दीके करीब (विष्णुगोपसे भी पहले) हुआ जान पड़ता है।

६ देखो, विसेट ए० स्मिथ साहबका 'भारतका प्राचीन इतिहास' (Early History of India) तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४७१ से ४७६।

प्राचीन राजाका यदि नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी प्राकृत्यकी बात नहीं है। यद्यपि जयादा पुराना इतिहास मिलता भी नहीं, परन्तु जो मिलता है और मिल सकता है उसको संकलित करनेका भी अभी तक पूरा आयोजन नहीं हुआ। जैनियोंके ही बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कन्दी, तामिल और तेलगु आदि भाष्योंमें इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिसकी ओर परभी तक प्रायः कुछ भी लक्ष्य नहीं गया। इसके सिवाय, एक एक राजाके कई कई नाम भी हुए हैं और उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें 'शिवकोटि' का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख हो * और वहाँ पर यथेष्ट परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हो, और वह समीकरण विशेष अनुमन्धानकी अपेक्षा रखता हो। परन्तु कुछ भी हो, इतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनु-संधानके यह नहीं कहा जा सकता कि 'शिवकोटि' नामका कोई राजा हुआ ही नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तित्वसे ही इनकार किया जा सकता है। 'राजा-बलिकर्ये' में शिवकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है और पट्टावलियों तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन होता है उस परसे मेरी यही राय होती है कि 'शिवकोटि' नामका अथवा उस व्यक्तित्वका कोई राजा जाहर हुआ है, और उसके अस्तित्वकी संभावना अविकलन कांचीकी ओर ही पाई जाती है; ब्रह्मनेमिदत्तने जो उसे वाराणसी (काशी-बनारस) का राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं ज़ंचती। इस कथा में लिखा है कि—

कांचीमें उस बहु भस्मक व्याधिको नाश करने के लिये समर्थ (स्त्रिघादि)

* शिवकोटिसे मिलते-जुलते शिवस्कन्दवर्मा (पल्लव), शिवमुगेशवर्मा (कदम्ब), शिवकुमार (कुन्दकुन्दाचार्यका शिष्य), लिवस्कन्द वर्मा हारितीपुष्ट (कदम्ब), शिवस्कन्द शातकर्णि (आंध्र), शिवमार (गंग), शिवश्री (आंध्र), और शिवदेव (लिच्छिवि), इत्यादि नामोंके चारक भी राजा हो गये हैं। संभव है कि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेंसे ही कोई शिव-कोटि हो।

भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था, इसलिये समन्तभद्र कोंचीको छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। चलते चलते वे 'पुण्ड्रनुनगर'[†] में पहुंचे, वहाँ बौद्धोंकी महती दानशालाको देखकर उन्होंने बौद्ध-भिक्षुकका रूप घारण किया; परन्तु जब वहाँ भी भव्यव्यापिकी शान्तिके योग्य आहार का अभाव देखा तो आप वहाँ निकल गये और क्षुधामें पीड़ित अनेक नगरोंमें धूमले हुए 'दशपुर' नामके नगरमें भागवतों (वैष्णवों) का उपनग मठ देखकर और यह देखकर कि यहाँपर भागवत लिङ्गधारी साधुओंको भक्तजनों-द्वारा प्रचुर परिमाणमें सदा विशिष्ट आहार भेट किया जाता है, आपने बौद्ध-वेषका परिस्थाग किया और भागवत वेष घारण कर लिया, परन्तु यहाँका विशिष्टाहार भी आपकी भस्मक व्यापिकी शान्त करनेमें समर्थ न हो सका और इस लिये आप यहाँसे भी चल दिये। इसके बाद नानादिगदेशादिकोंमें धूमले हुए आप अन्तको 'वाराणसी' नगरी पहुंचे और वहाँ आपने योगिलिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया। इस शिवालयमें शिवजीके भोगके लिये तथ्यार किये हुए अठारह प्रकारके मुन्द्र श्रेष्ठ भोजनोंके समूहको देखकर आपने सोचा कि यहाँ मेरी दुर्व्याप्ति चरूर शान्त हो जायगी। इसके बाद जब पूजा हो चुकी और वह दिव्य आहार—डेरका ढेर नैवेद्य—बाहर निःेपित किया गया तब आपने एक युक्तिके द्वारा लोगों तथा राजाको आश्चर्यमें डालकर शिवको भोजन करानेका काम अपने हाथमें लिया। इस पर राजाने थी, दूध, दही और मिठाई (इखुरस) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य भोजन प्रचुर परिमाणमें (पूर्णः कुम-शतैर्पूर्क्तं=भरे हुए सौ घड़ों जितना) तथ्यार कराया और उसे शिवभोजनके लिये योगिराजके सुपुर्ण किया। समन्तभद्रने वह भोजन स्वयं खाकर जब मंदिरके कपाट खोले और खाली बरतनोंको बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब राजादिको बड़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिराजने अपने योग-

[†] 'पुण्ड्र' नाम उत्तर दंगालका है जिसे 'पौण्ड्रवर्धन'भी कहते हैं। 'पुण्ड्रेष्टु नगरसे उत्तर दंगालके इन्द्रपुर, चन्द्रपुर आथवा चन्द्रनगर आदि किसी खाली शहरका अभिप्राय जान पड़ता है। इसे हुए 'आराधनाकथाकोश' (अलोक ११) में ऐसा ही पाठ दिया है। संभव है कि वह कुछ अशुद्ध हो।

बलसे साक्षात् शिवको अवतारित करके यह भोजन उन्हें ही कराया है। इससे राजाकी भवित बड़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम नैवेद्यका समूह तैयार करा कर भेजने लगा। इस तरह, प्रचुर परिमाणमें उंठकृष्ट आहारका सेवन करते हुए, जब पूरे छह महीने बीत गये तब आपकी व्याधि एकदम शांत होगई और आहारकी मात्रा प्राकृतिक हो जाने के कारण वह सब नैवेद्य प्रायः ज्योंका त्वयों बचने लगा। इसके बाद राजाको जब यह स्वर लगी कि योगी स्वयं ही वह भोजन करता रहा है और 'शिव' को प्रणाम तक भी नहीं करता तब उसने कुपित होकर योगीसे प्रणाम न करनेका कारण पूछा। उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि 'तुम्हारा यह रागी हौपी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता, मेरे नमस्कारको सहन करनेके लिये वे जिनमूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हैं और केवल ज्ञानरूपी सत्तेजसे लोकालोकके प्रकाशक हैं। यदि मैंने नमस्कार किया तो तुम्हारा यह देव (शिवलिङ्ग) विदीर्घ हो जायगा—लंड लंड हो जायगा—इसीसे मैं नमस्कार नहीं करता हूँ'। इम पर राजाका कौतुक बढ़ गया और उसने नमस्कारके लिये प्राप्राह करते हुए, कहा—'यदि यह देव लंड लंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्कारके सामर्थ्यको ज़रूर देखना है। समन्तभद्रने इसे स्वीकार किया और अगले दिन अपने सामर्थ्यको दिखलानेका बादा किया। राजाने 'एवमस्तु' कहकर उन्हें मन्दिरमें रक्खा और बाहरसे चौकी पहरेका पूरा इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समन्तभद्रको अपने बचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्बिकादेवीका आसन ढोल गया। वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समन्तभद्रको आश्वासन दिया और यह कहकर चली गई कि तुम 'स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले' इस पदसे प्रारम्भ करके चतुर्विशति तीर्थकर्गोंकी उत्तम स्तुति रखो, उसके प्रभावसे सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुर्लिंग टूट जायगा। समन्तभद्रको इस दिव्य-दर्शनसे प्रसन्नता हुई और वे निर्दिष्ट स्तुतिको रचकर सुखसे स्थित हो गये। सचेरे (प्रभात समय) राजा आया और उसने वही नमस्कार ढारा सामर्थ्य दिखलानेकी बात कही। इस पर समन्तभद्रने अपनी उस महास्तुतिको पढ़ना प्रारम्भ किया। जिस वक्त 'चन्द्रप्रभ' भगवानकी स्तुति करते हुए 'तमस्तमो-रैरिव रसिमभिन्न' यह बाक्ष पढ़ा गया उसी वक्त वह 'शिवलिंग' लंड लंड'

होगया और उस स्थानसे 'चन्द्रप्रभ' भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान् बय-
कोलाहलके साथ प्रकट हुई। यह देखकर राजादिको बड़ा आश्चर्य हुआ और
राजाने उसी समय समन्तभद्रसे पूछा —हे योगीन्द्र, आप महासामर्थ्यवान् भव्यत-
लिंगी कौन है? इसके उत्तरमें समन्तभद्रने नीचे लिखे दो काव्य कहे—

कांचयां नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिंडः ।
पुण्ड्रोण्ड्रे शाक्यमित्तुः दशपुरनगरे मृष्टमोजां परित्राट् ।
वाराणस्यामभूवं शशिधरघवलः† पाण्डुरांगतपस्त्वी,
राजन् यस्यास्ति शक्तिः, सबदतुं पुरतो जैननिर्ग्रथवादी ॥
पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भरी मया ताडिता,
पश्चान्मालवसिन्धुठक्कविषये कांचीपुरे वैदिशे,
प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभट्ट विद्यात्कटं तंकटं,
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविकीडितं ॥

इसके बाद समन्तभद्रने कुलिगवेष छोड़कर जैन निर्ग्रथ लिग धारण किया
और संपूर्ण एकान्तवादियोंको बादमें जीनकर जैनशासनकी प्रभावना की। यह
सब देखकर राजा को जैनवर्म में अद्वा होगई, वैराग्य हो आया और राज्य छोड़
कर उसने जिनदीक्षा धारण करली X ।

* संभव है कि यह 'पुण्ड्रोऽहं' पाठ हो, जिसे 'पुण्ड्र'—उत्तर बंगाल—और
'उहू'—उडीसा—दोनोंका अभिशय जान पड़ता है।

† कहीं पर 'शशिधरघवलः' भी पाठ है जिसका अर्थ चन्द्रमाके समान
उज्ज्वल होता है।

‡ 'प्रबद्धु' भी पाठ कहीं कहीं पर पाया जाता है।

X बहु नेमिदत्तके कथनानुसार उनका कथाकोश भट्टारक प्रभाचन्द्रके उस
कथाकोशके आधारपर बना हुआ है जो गद्यात्मक है और जिसको पूरी तरह
देखनेका मुक्त तक कोई भवसर नहीं मिल सका। सुहृदर पं० नाथूरामजी
प्रेमीने भेरी प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोंमें दी हुई समन्तभद्रकी कथाका परस्पर
प्रिज्ञान किया है और उसे प्रायः समान पाया है। आप लिखते हैं—‘दोनोंमें
कोई विशेष फर्क नहीं है। नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पूर्ण

नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जीको नहीं सगती कि 'कौची' जैसी राजधानी में अथवा और भी बड़े-बड़े नगरों शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शात करने योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस लिये समन्तभद्रको सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ थीं जिनमें साधुओंको भरपेट भोजन मिलता था, और अगणित ऐसे शिवालय ये जिनमें इसी प्रकारसे शिवको भोग लगाया जाता था, और इसलिये जो घटना काशी (बनारस) में घटी वह वहां भी घट सकती थी। ऐसी हालतमें, इन सब संस्थाओंमें यथेष्ट लाभ न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके लिये अमरण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामें भी यथेष्ट भोजनके न मिलनेका कोई विचार कारण नहीं बतलाया गया—सामान्यरूपसे 'भस्मकठाधिविनाशाहाराहानितः' ऐसा मूर्चित किया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। दूसरे यह बात भी कुछ असंगतमी मालूम होती है कि ऐसे गुरु, स्त्रिय, मधुर और इनप्रमाण

पक्षानुवाद है। पादपूर्ति आदिके लिये उसमें कही कही थोड़े बहुत शब्द—विशेषण अव्यय आदि—अवश्य बढ़ा दिये गये हैं। नेमिदत्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें इलोकमें 'पुण्ड्रेन्दुनगरे' लिखा है, परन्तु गद्यकथामें 'पुण्ड्रनगरे' और 'बन्दक-लोकानां स्थाने' की जगह 'बन्दकानां बृहदिहारे' पाठ दिया है। १२ वें पद्मके 'बौद्धिंगकं' की जगह 'बंदकिंग' पाया जाता है। शायद 'बंदक' बौद्ध-का पर्यायशब्द हो। 'कांच्या नग्नाटकोऽहं' आदि पद्मोंका पाठ ज्योंका त्यों है। उसमें 'पुण्ड्रोण्डे' की जगह 'पुण्ड्रोण्डे' 'ठङ्कविषये' की जगह 'ठङ्कविषये' और 'वेदिशे' की जगह 'वेदुपे' इस तरह नाममात्रका अन्तर दीख पड़ता है।^१ ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको प्रभावनदकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इसपर होनेवाले विवेचनादिको उस पर भी यथासंभव लगा लेना चाहिये। 'बन्दक' बौद्ध का पर्याय नाम है यह बात परमात्मप्रकाश-की ब्रह्मदेवकृतीकाके निम्न प्रश्नसे भी प्रकट है—

"खवणुर बंदर सेवडउ" —भपणुको दिगम्बरोऽहं, बंदको बौदोऽहं, वेत-पटादिंगधारकोहङ्गमित्यूडात्मा एवं मन्यत हरि।"

गरिष्ठ पदार्थोंका इतने अधिक (पूर्ण शतकुंभ जितने) परिमाणमें नित्य सेवन करने पर भी भस्मकाग्निको शांत होनेमें लह महीने लग गये हों। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने कुछ अनुभवी वैद्योंसे भी इस विषयमें परामर्श किया है, यह रोग भोजनकी इतनी अच्छी अनुकूल-परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदलका इतना लम्बा सफ़र भी बन सकता है। इसलिये, 'राजावलिकथे' में जो पांच दिनकी बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती। तीसरे समन्तभद्रके मुखसे उनके परिचयके जो दो काव्य कहलाये गये हैं वे बिल्कुल ही अप्राप्तिगिक जान पड़ते हैं। प्रथम तो राजा-की ओरमें उस अवसर पर वैमे प्रश्नका होना ही कुछ बेधंगा मालूम देता है—वह अवसर तो राजाका उनके चरणोंमें पड़ जाने और क्षमा-प्रार्थना करनेका था—दूसरे समन्तभद्र, नमस्कारके लिये आग्रह किये जाने पर, अपना इतना परिचय दे भी चुके थे कि वे 'शिवोपासक' नहीं हैं बल्कि 'जिनोपासक' हैं। किर भी यदि विशेष परिचयके लिये वैसे प्रश्नका किया जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्रकी ओरसे उनके पितृकुल और गुरुकुलका परिचय दिये जानेकी, अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति और उसकी शांतिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाको भी बतला देनेकी ज़रूरत थी; परन्तु उक्त दोनों पद्धोंमें यह सब कुछ भी नहीं है—न पितृकुल अथवा गुरुकुलका कोई परिचय है और न भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उसमें कोई स्थान ज़िक्र है—दोनोंमें स्पृष्टरूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पद्धमें तो, उन स्थानोंका नाम देते हुए जहाँ पहले वादकी भेरो बजाई थी, अपने इस भ्रमणका उद्देश्य भी 'वाद' ही बतलाया गया है। पाठक सोचें, क्या समन्त-भद्रके इस भ्रमणका उद्देश्य 'वाद' था? क्या एक प्रतिहित व्यक्तिद्वारा विनीत-भावसे परिचयका प्रश्न पूछे जानेपर दूसरे व्यक्तिका उसके उत्तरमें लड़ने-उगड़ने-के लिये तयार होना अथवा वादकी घोषणा करना शिष्टता और सम्यताका अवहार कहला सकता है? और क्या समन्तभद्र-वैसे यहाँ एक द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। पहले पद्धके चतुर्थ चरणमें यदि वादकी घोषणा न होती तो वह पद्ध इस अवसर पर उत्तरका एक धंग बनाया जा सकता था; क्योंकि उसमें अनेक स्थानों पर समन्तभद्रके अनेक देव-

आरण करनेकी बातका उल्लेख है *। परन्तु दूसरा पद्धतो यहाँ पर कोया अप्राप्तिगिक ही है—वह पद्धतो 'करहाटक' नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पद्धतो है उसमें, अपने पिछले वादस्थानोंका परिचय देते हुए, साफ लिखा भी है कि मैं अब उस करहाटक (नगर) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहुभट्टोंसे युक्त है, विद्याका उत्कट स्थान है और जनाकीर्ण है । ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि बनारसके राजाके प्रश्नके उत्तरमें समंतभद्रसे यह कहलाना कि, अब मैं इस करहाटक नगरमें आया हूँ कितनी बे-सिर-पैरकी बात है, कितनी भारी भूल है और उससे कथामें कितनी कृत्रिमता आ जाती है । जान पड़ता है ब्रह्मनेमदत्त इन दोनों पुरातन पद्धोंको किमी तरह कथामें संयुक्त करना चाहते थे और उस संयहकी घुनमें उन्हें इन पद्धोंके अर्थसम्बन्धका कुछ भी ख्याल नहीं रहा । यहीं बजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान पर देने अथवा उन्हें ठीक नीर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो सके । उनका इस प्रसंग पर, 'स्कुटं काव्यद्वयं चेति योगीन्द्रः तमुवाच सः' यह लिखकर, उक्त पद्धोंका उद्घृत करना कथाके गौरव और उसकी अकृत्रिमताको बहुत कुछ कम कर देता है । इन पद्धोंमें वादकी घोषणा होनेमें ही ऐसा मालूम देना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने, राजामें जैन धर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेमें पहले, समंतभद्रका एकान्तवादियोंसे बाद कराया है; अन्यथा इनने वहे चमत्कारके अवमर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । कांचीके बाद समंतभद्रका वह भ्रमण भी पहलेपर्याको लक्ष्यमें रखकर ही कराया गया मालूम होता है । यद्यपि उसमें भी कुछ त्रुटियाँ हैं—वहाँ, पद्धानुसार कांचीके बाद, लालूशमें समंतभद्रके 'पाण्डु-पिण्ड'रूपसे (शरीरमें भस्म रमाए हुए) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है,

* यह बतलाया गया है कि "कांचीमें मैं ननाटक (दिग्म्बर साधु) हुआ, वहाँ मेरा शरीर मनसे भलिन था, लालूशमें पाण्डुपिण्ड रूपका घारक (भस्म रमाए शैवसाधु) हुआ; पुण्डोड़में बौद्ध भिक्षुक हुआ; दशपुर नगरमें मृष्टभोजी परिव्राजक हुआ, और चारालासीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका घारी में तपस्वी (शैवसाधु) हुआ हूँ; हे राजन् मैं जैन निर्द्वन्धवादी हूँ, जिस किसीकी शक्ति मुझसे बाद करनेकी हो वह सामने आकर बाद करे ।"

और न दशपुरमें रहते हुए उनके मृष्टमोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई उल्लेख है। परन्तु इन्हें रहने दीजिये, सबमें बड़ी बात यह है कि उस पदमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि समन्तभद्र उस समय भस्मक व्याधिसे पुक्त ये अथवा भोजनकी यथेष्ट प्राप्तिके लिये ही उन्होंने वे वेष धारण किये थे ॥ १ ॥ बहुत संभव है कि काँचीमें 'भस्मक' व्याधिकी शांतिके बाद समन्तभद्रने कुछ अर्थों तक और भी पुनर्जिनदीक्षा धारण करना उचित न समझा हो; बल्कि लगे हाथों जासनप्रबारके उद्देशसे, दूसरे घरोंके आनंदिक भेदको अच्छी तरहसे मालूम करनेके लिये उम तरह पर भ्रमण करना जहरी अनुभव किया हो और उसी अभ्यरणका उक्त पदमें उल्लेख हो; अथवा यह भी होसकता है कि उक्त पदमें समन्तभद्रके निर्गन्धमुनिजीवनसे पहलेकी कुछ घटनाओंका उल्लेख हो जिनका इतिहास नहीं मिलता और इसलिये जिन पर कोई विशेष राय कायम नहीं की जासकती । पदमें किसी क्रमिक अभ्यरणका अथवा घटनाओं-के क्रमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहाँ काँची और कहाँ उत्तर बंगालका पुण्ड्रनगर ! पुण्ड्रसे वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर उज्जैनके पास 'दशपुर' जाना और फिर वापिस वाराणसी आना, ये बातें क्रमिक अभ्यरणको सूचित नहीं करती । मेरी रायमें पहली बात ही ज्यादा संभवनीय मालूम होती है। अस्तु, इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, बहु नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता जो काँचीसे बनारस तक भोजनके लिये भ्रमण करने और बनारसमें भस्मक-व्याधिकी शाति आदिसे सम्बन्ध रखता है, खासकर

जू कुछ जैन विद्वानोंने इस पदका अर्थ देते हुए 'मलमलिनतनुलम्बुशो पाण्डु-पिण्डः' पदोंका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें 'शरीरमें रोग होनेसे' ऐसा एक लंडवाक्य दिया है; जो ठीक नहीं है । इस पदमें एक स्थानपर 'पाण्डुपिण्डः' और दूसरे पर 'पाण्डुरागः' पद आये हैं जो दोनों एक ही अर्थके बावजूद हैं और उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रने जो वेष वाराणसीमें धारण किया है वही लाम्बुशमें भी धारण किया था । हर्षका विषय है कि उन लेखकोंमेंसे प्रधान लेखकने मेरे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया है और उसे अपनी उस समयकी भूल माना है ।

ऐसी हालतमें जब कि 'राजावलिकथे' साफ़ तौर पर कांचीमें ही भस्मक-व्याधि-की शांति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पट्टावलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

जहाँ तक मैंने इन दोनों कथाओंकी जाँच की है, मुझे 'राजावलिकथे' में दी हुई समन्तभद्रकी कथामें बहुत कुछ स्वाभाविकता मालूम होती है—मणुषकहली ग्राममें नपश्चरण करते हुए भस्मक-व्याधिका उत्पन्न होना, उसकी निःप्रती-कारावस्थाको देखकर समन्तभद्रका गुरुसे सल्लेखनाद्वयकी प्रार्थना करना, मुरुका प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए मुनिवेष छोड़ने और रोगोपशानितके पश्चात् पुनर्जनीका धारण करनेकी प्रेरणा करना, 'भीमलिंग' नामक शिवालयका और उसमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण तंदुलास्त्रके विनिवोगका उल्लेख, भिव-कोटि राजाको आणीर्वाद देकर उसके घर्मकृत्योंका पूछना, क्रमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपर्योगका अनुभव होते ही उसकी निवृतिपर्यन्त समस्त आहार-यानादिका त्याग करके समन्तभद्रका पहलेसे ही जिनस्तुतिमें लीन होना, चन्द्रप्रभकी स्तुतिके बाद शेष तीर्थकरोंकी स्तुति भी करने रहना, महावीर भग-वान्की स्तुति की समाप्ति पर चरणोंमें पढ़े हुए राजा और उनके श्रोटे भाईको आणीर्वाद देकर उन्हे सद्मंडका विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजाके पुत्र 'श्रीकंठ' का नामोल्लेख, राजाके भाई 'शिवायन' का भी गजाके साथ दीक्षा लेना, और समन्तभद्रकी ओरसे भीमलिंग नामक महादेवके विषयमें एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैं, इस कथाकी स्वाभाविकताको बहुत कुछ बढ़ा देती है। प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी कथासे कृत्रिमताकी बहुत कुछ गंध आती है, जिसका कितना ही परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इसके मिवाय, राजाका नमस्कारके लिये आप्रह, समन्तभद्र का उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करनेका बादा, इत्यादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही हैं जो जीको नहीं लगती और आपत्तिके योग्य जान पड़ती है। नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ विडानोंका यह ख्याल हो गया था कि इसमें जिनविष्वके प्रकट होनेकी जो बात कही गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह 'प्रभावकवरित' में दी हुई 'सिद्धसेन दिवाकर' की कथासे, कुछ परिवर्तनके साथ, ले ली गई जान पड़ती है—उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए इसी तरह

पार्श्वनाथका विष्व प्रकट होनेकी बात लिखी है। परन्तु उनका यह स्थान मलत था और उसका निरसन व्यवस्थाएँ नोलके उस मत्स्येण प्रशस्ति नामक शिलालेख से भले प्रकार हो जाता है, जिसका 'वंशो भस्मक' नामका प्रकृति पक्ष पर उड़ूत किया जा चुका है और वो उक्त प्रभावकचरितम् १५६ वर्ष पहिले का लिखा हुआ है—प्रभावकचरितका निर्माणकाल विं सं० १३१४ है और जिलालेख जक संवत् १०६० (विं सं० ११८५) का लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रप्रभ-विष्वके प्रकट होनेकी बात उक्त कथापरसे नहीं ली गई बल्कि वह समन्तभद्रकी कथासे स्थान तौरपर सम्बन्ध रखती है। दूसरे एक प्रकारकी घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि नमस्कारके लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा परसे ले ली गई हो ॥ ५ ॥ क्योंकि 'राजावलिकथे' आदिसे उसका कोई समर्थन नहीं होता, और न समन्तभद्रके सम्बन्धमें वह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है। इन्हीं सब कारणोंसे मेरा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने 'शिवकोटि' को जो वाराणसी का राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता; उसके अस्तित्वकी सम्भावना अधिकतर कांचीकी और ही पाई जाती है, जो समन्तभद्रके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है। अस्तु ।

शिवकोटिने समन्तभद्रका शिष्य होने पर क्या क्या कार्य किये और कौन कौनसे ग्रन्थोंकी रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय है जो स्थान शिवकोटि आचार्यके चरित्र अथवा इतिहाससे सम्बन्ध रखता है, और इसलिये मैं यहाँ पर उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझता ।

'शिवकोटि' और 'शिवायन' के सिद्धाय समन्तभद्रके और भी बहुत से

६ प्रभाचन्द्रभट्टारकका गदा कथाकोश, जिसके आधार पर नेमिदत्तने अपने कथाकोशकी रचना की है, 'प्रभावकचरित' से पहलेका बना हुआ है भ्रतः यह भी हो सकता है कि उसपरसे ही प्रभावकचरितमें यह बात ले ली गई हो । परन्तु साहित्यकी एकतादि कुछ विशेष प्रमाणोंके बिना दोनों ही के सम्बन्धमें वह कोई लाभिमी बात नहीं है कि एकने दूसरेकी नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकारके विचारोंका दो ग्रन्थकाताधिके हृदयमें उदय होना भी कोई असंभव नहीं है ।

शिष्य रहे होंगे, इसमें सब्देह नहीं है परन्तु उनके नामादिका अभी तक कोई पता नहीं चला, और इसलिये अभी हमें इन दो प्रधान शिष्यों के नामों पर ही संतोष करना होगा ।

समन्तभद्रके शरीरमें 'भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति किस समय घटवा उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका यद्यपि कोई यथोच्च साधन नहीं हैं, फिर भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वह समय, जबकि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाका ही था । उनका बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा लोकहितका बहुत कुछ साधन, स्यादादतीर्थके प्रभावका विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है । 'राजावलिकथे' में तपके प्रभावसे उन्हें 'चारणक्रह्दि' की प्राप्ति होना, और उनके द्वारा 'रत्नकरण्डक' आदि शंखोंका रचा जाना भी पुनर्दीक्षाके बाद ही लिखा है । माथ ही, इसी अवसर पर उनका स्वास तौर पर 'स्यादाद-वादी'—स्यादादविद्याके आचार्य—होना भी सूचित किया है * इसीसे एडवर्ड राइस साहब भी निखते हैं—

It is told of him that in early life he (Samanta-bhadra) performed severe penance, and on account of a depressing disease was about to make the vow of Sallekhana, or starvation; but was dissuaded by his guru, who foresaw that he would be a great pillar of the Jain faith.

अर्थात्—समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन (मुनिजीवन) की प्रथमावस्था में घोर तपश्चरण किया था, और एक अव-पीड़क या अपकर्षक रोगके कारण वे सल्लेखनाद्वारा धारण करने ही को थे कि उनके गुरु, यह देखकर कि वे जैनधर्मके एक बहुत बड़े स्तम्भ होने वाले हैं, उन्हें बैसा करनेसे रोक दिया ।

इस प्रकार यह स्वामी समन्तभद्रकी भस्मकव्याधि और उसकी प्रतिक्रिया एवं शान्ति शादिकी घटनाका कुछ समर्थन और विवेचन है ।

* "आ भावि तीर्थकरण् अप्य समन्तभद्रस्वामिगच्छु पुनर्दीक्षेगोच्छु तपस्साम-
म्यंदि चतुर्गुल-चारणात्ममं पढेदु रत्नकरण्डकादिजिनामपुराणमं पेलि स्यादाद-
वादिनल आगि समाधिय् ओडेदह ॥"

समन्तभद्रका एक और परिचय-पद्म

—○—○—○—○—

स्वामी समन्तभद्रके आत्म-परिचय-विषयक अभी तक दो ही ऐसे पद्म मिल रहे थे जो राजसभाओंमें राजाको सम्बोधन करके कहे गये हैं—एक 'पूर्व पाट-लिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता'[†] नामका है, जो करहाटककी राजसभा-में अपनी पूर्ववाद-घोषणाओंका उल्लेख करते हुए कहा गया था और दूसरा 'कांडयां नम्नाटकोह'[‡] इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है जो किसी दूसरी राजसभा-में कहा हुआ जान पड़ता है और जिसमें विभिन्न स्थानोंपर अपने विभिन्न सांचु-वेणोंका उल्लेख करते हुए अपनेको जैननिर्देशवादी प्रकट किया है और साथ ही यह चेलेज किया है कि जिस किसीकी भी वादकी शक्ति हो वह सामने आकर बाद करे।

हालमें समन्तभद्र-भारतीका सशोधन करते हुए, स्वयम्भूस्तोषकी प्राचीन प्रतियोंकी खोजमें, मुझे देहलीके पंचायती मंदिरसे एक ऐसा अतिजीर्ण-शीर्ण मुट्ठका मिला है जिसके पश्च उलटने-पलटने आदिकी जारा-सी भी असाधानीको

[†] पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता,

पश्चान्मालवसिन्धुठुक्कविषये काँचीपुरे वैदिशे ।

प्रासोऽहं करहाटक बदुभट्ठं विष्णोत्कर्तं संकटं,

वादार्थं विचराम्यहं नरपते ! शादूँ लविष्मीडितम् ॥

[‡] कांडयां नम्नाटकोऽहं मलमलिनतनुलम्बुद्धे पाष्ठुपिडः,

पुष्टोद्दे शान्त्यभिकुदशपुरनगरे मृ(मि)ष्मोजी परिहाट् ।

वाराणस्यामसूबं शशि(श)वरवृत्तः पाष्ठुरांगस्तपस्ती,

राजन् ! यस्यास्ति शक्तिः सकदतु पुरतो जैननिर्देशवादी ॥

सहन नहीं कर सकते। इस गुटके के अन्तर्गत स्वयम्भूस्तोत्र के अन्त में उक्त दोनों यथाक्रम पद्मों के अनन्तर एक तीसरा पद्म और संगृहीत है, जिसमें स्वामीजी के परिचय-विषयक दस विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं—१ आचार्य, २ कवि, ३ वादिराट्, ४ पण्डित, ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्तिवदि), ६ मिथक (वैद्य), ७ मान्त्रिक (मन्त्रविशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्रविशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध और सिद्ध सारस्वत। वह पद्म इस प्रकार है :—

आचार्योहं कविरहमहं वादिराट् पण्डितोहं
दैवज्ञोहं भिषगहमहं मांत्रिकस्तांत्रिकोहं ।

राजभ्रस्यां जलधिवलयामेस्वलायामिलाया-

माल्हासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥

इस पद्ममें बर्णित प्रथम तीन विशेषण—आचार्य, कवि और वादिराट्—तो पहलेसे परिज्ञान हैं—अनेक पूर्वाचार्योंके वाक्यों, प्रथों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख मिलता है। चौथा ‘पण्डित’ विशेषण आजकलके व्यवहारमें ‘कवि’ विशेषण की तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मूल्य था और वह प्रायः गमक (वास्त्रोंके मर्म एवं रहस्यको समझने और दूसरोंको समझानेमें निपुण) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त होता था। भगवज्जिनसेनावार्यने आदिपुराणमें समन्तभद्रके यशको कवियों, गमकों, वादियों और वाग्मियोंके मस्तकका चूडामणि बतलाया है। और इसके द्वारा यह सूचित किया है कि उम ममय जितने कवि, गमक-वादी और वाग्मी थे उन मन्त्रपर ममन्तभद्रके यशकी छाया पढ़ी हुई थी—उनमें कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके थे चारों मुण्ड असाधारण कोटिके विकासको प्राप्त हुए थे, और इसलिये पण्डित विशेषण यहाँ गमकत्व जैसे मुण्ड विशेषका ढांतक है। शेष सब विशेषण इस पद्मके द्वारा प्रायः नए ही

‡ देखो, वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित ‘सत्ताधुस्मरणमंगलपाठ’ में ‘स्वामि-
समन्तभद्रस्मरण’

* कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यथा: सामन्तभद्रीयं मूर्च्छं चूडामणीवते ॥

प्रकाशमें आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जैसे विषयोंमें भी समन्तभद्रकी निपुणताका पता चलता है। रत्नकरण्डधावकाचारमें अंगहीन सम्यग्दर्शनको जन्मसन्ततिके छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके हरनेमें न्यूनाक्षरमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शिलालेखों तथा ग्रंथोंमें 'स्वमन्त्रवचन-इयाहूतचन्द्रप्रभः' जैसे वाक्योंका जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्रविशेषज्ञ तथा मन्त्रवादी होने का सूचक है। अथवा यों कहिये कि आपके 'मान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथार्थताको अच्छा पोषण मिलता है। इधर ही शताब्दीके विद्वान् उग्रादित्याचार्यने अपने 'कन्याएकारक' वैद्यक ग्रंथमें 'अष्टाङ्गमप्यत्तिलमत्र समन्तभद्रैः प्रोक्तं सविस्तरवचोविभवैर्विशेषात्' इत्यादि पत्र (२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अष्टाङ्ग वैद्यकविषयपर विस्तृत रचनाका जो उल्लेख किया है उम्मको ठीक बतानेमें 'भिषक्' विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है।

अन्तके दो विशेषण 'आङ्गासिद्ध' और 'सिद्धसारस्यत' तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधारण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आ जाता है। इन विशेषणोंको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि—'हे राजन् ! मैं इस समुद्रवलया पृथ्वीपर 'आङ्गासिद्ध' हूँ—जो आदेश हूँ वही होता है। और अधिक क्या कहा जाय 'मैं सिद्धसारस्यत' हूँ—सरस्वती मुझे सिद्ध है।' इस सरस्वतीकी सिद्ध अथवा वचनसिद्ध में ही समन्तभद्रकी उस सफलता का सारा रहस्य सञ्चिह्न है जो स्थान स्थानपर वादघोषणाएँ करने पर उन्हें प्राप्त हुई थी अथवा एक शिलालेखके कथनानुसार वीर जिनेन्द्रके शासनतीर्थकी हजारगुणी दृष्टि करनेके रूपमें वे जिसे अधिकृत कर सके थे।

अनेक विद्वानोंने 'सरस्वती-स्वैरविहारभूमयः' जैसे पदोंके द्वारा समन्तभद्रको जो सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि प्रकट किया है और उनके रवे हुए प्रबन्ध (पृष्ठ) रूप उज्ज्वल सरोवरमें सरस्वतीको कीड़ा करती हुई बतलाया है* उन सब

*देखो, सत्साधुस्मरणमंगलपाठ, पृ० ३४, ४६।

† देखो, बैक्षुरताल्मुकेका शिलालेख नं० १७ (E. C. V.) तथा सत्साधुस्मरणमंगल पाठ, पृ० ५१।

कथनोंकी मुहिं भी इस 'सिद्धसारस्वत' विशेषणसे अले प्रकार हो जाती है।

समन्तभद्रकी वह सरस्वती (वार्देवी) जिनवाली माता भी जिसकी अनेकाम्लहिंदारा अनन्य भाराधना करके उन्होंने प्रथमी बालीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी नततस्तक होते थे और जो भाव भी सदृश्य विद्वानोंको उनकी ओर आकर्षित किए हुए हैं।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि उक्त गुटकेमें जो दूसरे दो पद्म पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठमेद भी उपलब्ध होता है; जैसे कि प्रथम पद्ममें 'ताडिता' की जगह 'त्राटिता' 'वैदितो' की जगह 'वैकुण्ठ' 'बहुभट्टं विद्योत्कटं' की जगह 'बहुभट्टैविद्योत्कटैः' और 'शादूलविक्रीडित' की जगह 'शादूलवत्क्रीडितु' पाठ मिलता है। दूसरे पद्ममें 'कांच्या' की जगह 'कांच्या' 'लांबुणे' की जगह 'लांबुसे', 'पुङ्होङ्हे' की [जगह 'पिंडोङ्हे'], 'शाक्यमिषुः' की जगह 'शाकभक्षी', 'वाराणस्यामभूवं' की जगह 'वाराणस्यां बभूव', 'शाशाधररघवला' की जगह 'शाशाधररघवला' और 'यस्याति' की जगह 'जस्यास्ति' पाठ पाया जाता है। इन पाठमेदोंमें कुछ तो साधारण है, कुछ लेखकोंकी लिपि की अशुद्धिके परिणाम जान पड़ते हैं और कुछ मौलिक भी हो सकते हैं। 'शाक्यमिषुः' की जगह 'शाकभक्षी' जैसा पाठमेद विचारणीय है। भट्टारक प्रभानन्द और ब्रह्मनेमिदत्त के कथाकोषोंमें जिस प्रकार समन्तभद्रकी कथा दी है उसके अनुसार तो वह 'शाक्यमिषुः' ही बनता है; परन्तु यह भी हो सकता है कि उस पाठके कारण ही कथाको वैसा रूप दिया गया हो और वह 'मिष्टभोजी परित्राट्' से मिलता जुलता 'शाकभोजी' परिवाटका वाचक हो। कुछ भी हो, अभी निश्चितरूपमें एक बात नहीं कही जा सकती। इस विषयमें अधिक सोजकी आवश्यकता है।

स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे

मनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ७ नं० ३-४) में सुहृद्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीका एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है 'क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही है?' इस लेखमें 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' पर स्वामी समन्त-भद्रके कर्तृत्वकी आशंका करते हुए प्रेमीजीने वादिराजसूरिके पार्श्वनाथचरितसे 'स्वामिनश्चरितं तस्य', 'अचिन्त्यमहिमादेवः', 'त्यागी स एव योगीन्द्रो' इन तीन पदोंको इसी क्रमसे एक साथ उद्धृत किया है और बतलाया है कि इसमें क्रमशः स्वामी, देव और योगीन्द्र इन तीन आचार्योंकी स्तुति उनके अलग-अलग ग्रन्थों (देवागम, जैनेन्द्र, रत्नकरण्डक) के संकेत सहित की गई है। 'स्वामी' तंत्रो 'योगीन्द्र' नाम न होकर उपर्युक्त है और 'देव' जैनेन्द्रध्याकरणके कर्ता देवनन्दीके नामका एक देश है। स्वामी पद देवागमके कर्ता स्वामी समन्तभद्रका वाचक है और 'योगीन्द्र' पद, बीचमें देवनन्दीका नाम पड़ जानेसे, स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न किसी दूसरे ही आचार्यका वाचक है और इसलिये वे दूसरे आचार्य ही 'रत्नकरण्ड' के कर्ता होने चाहिये। परन्तु 'योगीन्द्र' पदके वाच्य वे दूसरे आचार्य कौन हैं यह आपने बतलाया नहीं। हाँ, इतनी कल्पना जरूर की है कि—“असली नाम रत्नकरण्डके कर्ताका भी समन्तभद्र हो सकता है, जो स्वामी समन्तभद्रसे पृष्ठक् शायद दूसरे ही समन्तभद्र हों। यह कल्पना भी आपकी ('हो सकता है', 'क्या वह' और 'हों' जैसे शब्दोंके प्रयोगको लिये रहने

और दूसरे समन्तभद्रका कोई स्पष्टीकरण न होनसे) स-इहासमक है, और इस लिये यह कहना चाहिये कि 'योगी-न्द्र' पदके वाच्यरूपमे आप दूसरे किसी आचार्यका नाम अभी तक निर्धारित नहीं कर सके हैं। ऐसी हालतम आपकी आशका और कल्पना कुछ बलवती मालूम नहीं होती ।

लेखके अ तमे 'समन्तभद्र नामके धारण करनवाने विद्वान् और भी अनक हो गये हैं' एसा निखकर उदाहरणके तौर पर अष्टमहस्तीकी विषमपद तात्पर्य वृत्तिके कर्ताका नाम सूचित किया है और बतलाया है कि वे म० म० सीश-चन्द्र विद्याभूषणके अनुमार ई० सन् १००० के लगभग हुए हैं। हो मकता है कि ये विषमपद ता पय वृत्ति^३ के कर्ता समन्तभद्र ही प्रमीजी की दृष्टिम उन दूसरे समन्तभद्रके रूपम स्थित हो जिनके विषयम रत्नकरणके कर्ता हानकी उपयुक्त कल्पना का गई है। परन्तु एक तो इहे 'योगी-न्द्र' सिद्ध नहीं विया गया जिसस उक्त पदम प्रयुक्त योगी-न्द्र^४ पदक साथ इनकी सगति कुछ ठीक बढ़ सकती। दूसरे इन विषमपद-तात्पर्यवृत्तिके कर्ता-विषयम प्रमीजी स्वय ही आगे लिखते हैं—

'नाम ता इनका भी समन्तभद्र या परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे अपनको पृथक बतलानके लिए इन्होन आपको 'नघु विशब्दण सहित लिखा है।'

अत ये लघु समन्तभद्र हो यदि रत्नकरणके कर्ता होते तो अपनी वृत्तिके अनुसार रत्नकरणम भी स्वामी समन्तभद्रसे अपना पृथक बोध करानके लिए अपनवो 'लघुसमन्तभद्र' के रूपम हो उल्लेखित करते परन्तु रत्नकरणके पदो, गच्छात्मक सन्धियो और टीका तकम कही भी ग्रन्थके क्तु त्वरूपसे 'लघुसमन्तभद्र' का नामाल्लेख नहीं है तब उसवे विषयम लघुसमन्तभद्र कृत होनकी कल्पना कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती—खासकर ऐसी हालतमे जब कि

कृ देव स्वामिनमल विद्यानन्द प्रणाम्य निजभक्त्या ।

विवृणोम्यष्टसहस्री विषमपद लघुसमन्तभद्रोऽहम् ॥१॥

त्रै इन लघुसम तभद्रके अलावा चिङ्गस०, गेहसोप्ये स०, अभिनव स०, भट्टारक स० और गृहस्थ स० नामके पाँच समन्तभद्रोंकी मेन और सोज की भी और उसे आजसे कोई २० वर्ष पहले मा० दि० जैन ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण-आवकाचारकी अपनी प्रस्तावनामें प्रकट किया था और उसके डारा

स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे २६७

रत्नकरण्डकी प्रयेक सत्त्विमे समन्तभद्रके नामके साथ 'स्वामी' पद लगा हुआ है, जैसा कि सनातन जैनधर्ममालाके उस प्रथम शुच्छकमे भी प्रकट है जिसे सन् १९०५ में प्रेमीजीके गुरुवर प० पन्नालालजी बाकलीबालन एक प्राचीन गुटके परसे बम्बईके निरायसागर प्रेसमे मुद्रित कराया था और जिसकी एक संधिका नमूना इस प्रकार है—

“इति श्रीसमन्तभद्रस्वामिविरचिते रत्नकरण्डनाम्नि उपासकाभ्य-
यने सम्यग्दर्शनवर्णनो नाम प्रथम परिच्छेद. ॥१॥”

और इसलिये नेत्रके शुरुमे प्रमीजीका यह लिखना कि ग्रन्थमे कही भी कनकानाम नहीं दिया है कुछ सगत मालूम नहीं देता। यदि पद भागमे नाम के इनको ही ग्रन्थकारका नाम देना कहा जायगा तब तो समन्तभद्रका 'देवागम' भी उनके नाममे शून्य ही ठहरेगा क्योंकि उसके भी किसी पदमे समन्तभद्रका नाम नहीं है।

तीमरे लघुसमन्तभद्रन अपनी उस विषमपदनात्पर्यवृत्तिमे प्रभाचन्द्रके 'प्रमेयकमलमातण्ड' का उल्लेख किया है, इसमे लघुसमन्तभद्र प्रभाचन्द्रके बाद-के विहान ठहरते हैं। और स्वयं प्रेमीजीके कथनानुसार इन प्रभाचन्द्राचार्याँही रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी वह स्फूर्त टीका लिखी है जो मार्णिकचन्द्रधर्ममाला मे उन्हींके मन्त्रित्वमे मुद्रित हो चुकी है +। इस टीकाके संविवाकोंमे ही नहीं किन्तु मूलग्रन्थकी टीकाका प्रारम्भ करते हुए उसके आदिम प्रस्तावना बाक्यमे

यह स्पष्ट किया था कि समयादिकी हृषिसे इन छहों दूसरे समन्तभद्रोंमें से कोई भी रत्नकरण्डका कर्ता नहीं हो सकता है। (देखो, उक्त प्रस्तावनाका ग्रन्थपर सन्देह' प्रकरण प० ५ से ।)

“‘श्रथवा तच्छक्तिसमर्थन प्रमेयकमलमातण्डे द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यक्षेतर-
भेदादित्यत्र व्याख्यानावसरे प्रपञ्चत्र प्रोक्तमत्रावग्नतव्यम् ।’”

“तथा च प्रमेयकमलमातण्डे द्वितीय-परिच्छेदे इतरेतराभावप्रघट्टके प्रति-
पादित ।

+ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास' ग्रन्थमे 'श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र' नामक लेख, पृष्ठ ३३६।

४७८ जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद वक्तव्य

भी प्रभाचन्द्राचार्यने इस रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति सूचित किया है। यह प्रस्तावना-वाक्य और नमूनेके तौर एक तन्त्रिकाव्य इस प्रकार है—

“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रत्नणोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं सम्बन्धशीर्णादिरत्नानां पालनांपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कर्तुं कामो निर्विघ्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलथग्निषुद्देवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह—”

“इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामिविरचितोपासकाग्ययन-टीकायां प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥”

प्रेमीजीने अपने ‘जैनसाहित्य और इनिहास’ नामक प्रत्य (पृ० ३३६) में कुछ उल्लेखोंके आधारपर यह स्वीकार किया है कि प्रभाचन्द्राचार्य भारते परमारवंशी राजा भोजदेव और उनके उत्तराधिकारी जयसिंह नरेशके राज्य-कालमें हुए हैं और उनका ‘प्रमेयकमलमातंड’ भोजदेवके राज्यकालकी रचना है। जब कि वादिराजसूरिका पादवनायचरित शकसवत् ६४७ (वि० सं० १०८२) में बनकर समाप्त हुआ है। इससे प्रभाचन्द्राचार्य वादिराजके प्रायः समकालीन जान पड़ते हैं। और जब प्रेमीजीकी मान्यतामुसार उन्हीने रत्नकरण्डकी वह टीका लिखी है जिसमें साफ तौर पर रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति प्रतिपादित किया गया है तब प्रेमीजीके लिये यह कल्पना करनेकी कोई माझूल वजह नहीं रहती कि वादिराजसूरि देवागम और रत्नकरण्डको दो अलग अलग आचार्योंकी कृति मानते थे और उनके समक्ष वैसा माननेका कोई प्रमाण या जनश्रुति रही होगी।

यहाँ पर मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रेमीजीने वादिराजके स्पष्ट निर्देशके बिना ही देवागम और रत्नकरण्डको भिन्न भिन्न कर्तुंक मानकर यह कल्पना तो कर डाली कि वादिराजके सामने दोनों ग्रन्थोंके भिन्नकर्तुंत्वका कोई प्रमाण या जनश्रुति रही होगी, उनके कथनपर एकाएक अविश्वास नहीं किया जा सकता; परन्तु १३वीं शताब्दीके आचार्यकल्प पं० प्राशाधर जैसे महान् विद्वान् ने जब अपने ‘बमायुत’ ग्रन्थमें जगह जगहपर रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति और एक आगम ग्रन्थ प्रतिपादित किया है तब उसके सम्बन्ध में यह कल्पना नहीं की कि पं० प्राशाधरजीके सामने भी वैसा प्रतिपादन करने

का कोई प्रबल प्रमाण अथवा जनधुतिका आवार रहा होगा !! क्या आशाघर-जी को एकाएक अविश्वासका पात्र समझ लिया गया, जो उनके कथनकी जाँचके लिये तो पूर्व परम्पराकी खोजकी प्रोत्संहन दिया गया परन्तु आदिराजके तथा-कथित कथनकी जाँचके लिए कोई संकेत तक भी नहीं किया गया ? नहीं मालूम हैं मैं क्या कुछ रहस्य है ? आशाघरजीके सामने तो बहुत बड़ी परम्परा आचार्य प्रभाचन्द्रकी रही है, जो अपनी टीका द्वारा रत्नकरण्डको स्वामी समन्त-भद्रका प्रतिपादित करते थे और जिनके वार्त्योंको आशाघरजीने अपने धर्मामृत की टीकामें अद्वाके साथ उद्धृत किया है और जिनके उद्धरणका एक नमूना इस प्रकार है—

“यथाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमत्प्रभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्ड-टीकायां ‘चतुरावत्त्रितय’ इत्यादि सूत्रे ‘द्विनिष्ठा’ इत्यस्य व्याख्याने ‘देववन्दनां कुर्वता हि प्रारम्भे समाप्तौ चोपविश्य प्राणामः कर्तव्यः’ इति ।

—अनगारधर्मामृत प० नं० ६३ की टीका

प० आशाघरजीके पहले १२वीं शताब्दीमें श्रीपदप्रभमलघारिदेव भी होगये हैं, जो रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति मानते थे, इसीसे नियमसारकी टीकामें उन्होंने ‘तथा चोक्त’ श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः’ इस वाक्यके साथ रत्न-करण्डका ‘अन्यूनमनतिरिक्त’ नामका पद उद्धृत किया है ।

इस तरह प० आशाघरजीसे पूर्वकी १२वीं और ११वीं शताब्दीमें भी, आदिराजसूरिके समय तक, रत्नकरण्डके स्वामी समन्तभद्रकृत होनेकी मान्यता-का पता चलता है । खोजने पर और भी प्रमाण मिल सकते हैं । और वैसे रत्नकरण्डके अस्तित्वका पता तो उसके वाक्योंके उद्धरणों तथा अनुसरणोंके द्वारा विक्रमकी छठी (इसकी ५वीं) शताब्दी तक पाया जाता है ॥, और

॥ उदाहरणके तौरपर रत्नकरण्डका ‘श्रातीपञ्चमनुस्लंध्य’ पद न्यायावतार में उद्धृत मिलता है, जो ई० की ७वीं शताब्दिकी रचना प्रमाणित हुई है । और रत्नकरण्डके कितने ही पद-वाक्योंका अनुसरण ‘सर्वार्थसिद्धि’ (ई० की ५वीं शताब्दि) में पाया जाता है और जिनका स्पष्टीकरण ‘सर्वार्थसिद्धिपर समन्त-भद्रका प्रभाव’ नामक लेखमें किया जा चुका है (देखो, अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११)

उमलिये उसके पादके विसी विद्वान्-द्वारा उसके कर्तृत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती ।

यहाँ पर पाठकोंको इतना और भी जान लेना चाहिये कि आजमे कोई २० वर्ष पहले मैंने 'स्वामी समन्तभद्र नामका एक इतिहास ग्रन्थ लिखा था, जो प्रेरणाजीको समर्पित किया गया था और माणिकचन्द्र-जैनग्रन्थमालामे रत्न-करण्ड आवकाचारकी प्रस्तावनाके साथ भी प्रकाशित हुआ था । उसमे पादव-नाथचरितके उक्त 'स्वामिनश्चरितं' और 'त्यागी स एव योगीन्द्रो' इन दानो पद्योंका एक साथ रखकर मैंने बतलाया था कि इनमे वादिराजसूरिने स्वामी समन्तभद्रकी स्तुति उनके 'दवागम और 'रत्नकरण्डक'नामक दो प्रबन्धों (ग्रन्थों) के उल्लेख पूर्वक की है । साथ ही, 'क फुटनोर-द्वारा यह सूचित किया था कि इन दोनों पद्योंके मध्यमे "अचिन्त्यमहिमा देवः मोऽभवन्त्यो हितैषिणा । शब्दात्त्वं येन सिद्धं अन्ति साधुत्वं प्रतिलम्भता ॥" यह पद्य प्रकाशित प्रतिमे पाया जाता है, जो मेरी रायमे उक्त दोनों पद्योंके बादका मालूम होता है और जिसका 'देवः' पद सभवतः देवनन्दी (पूज्यपाद) का बाचक जान पड़ता है । और लिखा था कि "यदि यह तीसरा पद्य सबसुच ही ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोगे इन दोनों पद्योंके मध्यमे ही पाया जाना है और मध्य-का ही पद्य है तो यह कहना होगा कि वादिराजने समन्तभद्रको अपना हित चाहने वालोंके द्वारा बन्दनीय और अचिन्त्यमहिमा वाला देव भी प्रतिपादन किया है । साथ ही यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार भिन्न होते हैं, उनके (समन्तभद्रके) विसी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है ।" इस सूचना और सम्मतिके अनुसार विद्वान् लोग बराबर यह मानते आ रहे हैं कि 'त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षयसुखावहः । अर्थिने भद्र्य अर्थायदिष्ट्रो रत्न-करण्डक' इस पद्यके द्वारा वादिराजसूरिने पूर्वके 'स्वामिनश्चरित' पद्यमे उल्लिखित स्वामी समन्तभद्रको ही रत्नकरण्डका कर्ता सूचित किया है, तुनाचे प्रोफेसर हीरालालजी एम.ए.० भी सन् १९४२ मे घट्खण्डागमकी चौथी जिल्दकी प्रस्ता-वना लिखते हुए उसके १२ वं पुष्टपर लिखते हैं—

'आवकाचारका सबसे प्रबाल, प्राचीन, उत्तम और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड-आवकाचार है, जिसे वादिराजसूरिने 'अक्षयसुखावह'

और प्रभाचन्द्रने 'अखिल' सायारमार्गको प्रकाशित करनेवाला सूर्य' लिखा है"

मेरे उक्त फुटनोटको लक्ष्यमें रखते हुए प्रेमीजी अपने लेखमें लिखते हैं—
 'यदि यह कल्पना की जाय तो पहले इलोकके बाद ही तीसरा इलोक होगा, बीचका इलोक गलतीसे तीसरेकी जगह छूप गया होगा—यद्यपि इसके लिये हृस्तलिखित प्रतियोका कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है तो भी, दोनोंको एक साथ रखनेपर भी, स्वामी और योगीन्द्रको एक नहीं किया जासकता और न उनका सम्बन्ध ही ठीक बैठता है।' परन्तु समन्तभद्र क्योंकर ठीक नहीं बैठता और स्वामी तथा योगीन्द्रको एक कैसे नहीं किया जा सकता? इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं किया। मात्र यह कह देनेसे काम नहीं चल सकता कि "तीनोंमें एक एक आचार्यकी स्वतन्त्र प्रशस्ति है"। क्योंकि मह बात तो अभी विवादापन्थ ही है कि तीनोंमें एक एक आचार्यकी प्रशस्ति है या दोकी अधिका तीनकी। बादिराजसूरिने तो कही यह लिखा नहीं कि "हमने १५ इलोकों में पूर्ववर्ती १५ ही आचार्योंका या कवियोंका स्मरण किया है" और न दूसरे ही किसी आचार्यने ऐसी कोई सूचना की है। इसके मिवाय समन्तभद्रके साथ 'देव' उपपद भी जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण देवागमकी वसुनन्दिद्वुत्तिके अन्त्यमगलवा निम्न पद्ध है—

समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पने ।

समन्तभद्रदेवाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

और इस लिये उक्त मध्यवर्ती इलोकमें आए हुए 'देव' पदके बाच्य समन्तभद्र भी हो सकते हैं, जैसा कि उपर्युक्त लिखित फुटनोटमें कहा गया है, उसमें कोई बाधा नहीं आती।

इसी तरह यह कह देनेसे भी काम नहीं चलता कि—"तीनों इलोक अलग-अलग अपने आपमें परिपूर्ण हैं, वे एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते।" क्योंकि अपने आपमें परिपूर्ण होते और एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए भी क्या ऐसे एकसे अधिक इलोकोंके द्वारा किसीकी स्तुति नहीं की जा सकती? जरूर की जा सकती है। और इसका एक सुन्दर उदाहरण भगवाञ्जनसेन-द्वारा समन्तभद्रकी ही स्तुतिके निम्न दो इलोक हैं, जो अलग-अलग अपनेमें परिपूर्ण हैं, एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते और एक साथ भी दिये हुए हैं—

नमः समन्तभद्राय महते कविवेदसे ।

यहुचो वज्रपातेन निर्भिज्ञाः कुमताक्रवः ॥ ४३ ॥

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीय मूर्धिन चूडामणीयते ॥ ४४ ॥

—आदिपुराण, प्रथम पर्व

यहाँ पर यह बात भी नोट कर लेने की है कि भगवद्विनेशनने ‘प्रबादि-करियूथानं’ इस पद्मसे पूर्वाचार्योंकी स्तुतिका प्रारम्भ करते हुए, समन्तभद्र और अपने गुरु वीरसेनके लिये तो दो दो पद्मोंमें स्तुति की है, शेषमेंसे किसी भी आचार्यकी स्तुतिके लिये एकसे अधिक पद्मका प्रयोग नहीं किया है । और इस लिये यह स्तुतिकर्ताकी इच्छा और वचिपर निर्भर है कि वह सबकी एक-एक पद्ममें स्तुति करता हुआ भी किसीकी दो या तीन पद्मोंमें भी स्तुति कर सकता है—उसके ऐसा करनेमें आशाकी कोई बात नहीं है । और इसलिये प्रेमीजीका अपने उक्त तकंपरसे यह नतीजा निकालना कि “तब उक्त दो श्लोकोंमें एक ही समन्तभद्रकी स्तुति की होगी, यह नहीं हो सकता,” कुछ भी युक्ति-संगत मालूम नहीं होता ।

हाँ, एक बात लेखके अन्तमें प्रेमीजीने और भी कही है । सभव है वही उनका अन्तिम तर्क और उनकी आशाकाका मूलाधार हो, वह बात इस प्रकार है—

“देवागमादिके कर्ता और रत्नकरण्डके कर्ता अपनी रचनाश्लोली और विषयकी हड्डिसे भी एक नहीं मालूम होते । एक तो महान् ताकिंक है और दूसरे घर्मशास्त्री । जिनसेन आदि प्राचीन आचार्योंने उन्हे बादी, बामी और ताकिंक-के रूपमें ही उल्लेखित किया है, घर्मशास्त्रीके रूपमें नहीं । योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हे कही भी नहीं दिया गया ।”

इससे मालूम होता है कि प्रेमीजी स्वामी समन्तभद्रको ‘ताकिंक’ मानते हैं; परन्तु ‘घर्मशास्त्री’ और ‘योगी’ माननेमें सन्दिग्ध हैं, और अपने इस सन्देहके कारण स्वामीजीके द्वारा किसी घर्मशास्त्रका रक्षा जाना तथा पाश्वनाथ-चरितके उस तीसरे श्लोकमें ‘योगीन्द्र’ पदके द्वारा स्वामीजीका उल्लेख किया जाना उन्हे कुछ संगत मालूम नहीं होता, और इसलिये वे शका शील बने हुए हैं । ऐसा

नहीं कि वे एक तार्किकका धर्मशास्त्री तथा योगी होना असमव समझते हों, बल्कि इस विषयमें उनकी दूसरी दलील है और वह केवल इतनी ही है कि—किसी प्राचीन आचार्यने स्वामी समन्तभद्रको धर्मशास्त्रीके रूपमें उल्लेखित नहीं किया और योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कही भी नहीं दिया गया।’ परन्तु यह दूसील ठीक नहीं है क्योंकि श्रीजिनसेनाचार्यसे भी प्राचीन आचार्य प्रकलकदेवने देवागम भाष्यके मगलपद्ममें येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तरमै नम सतत्’ इस वाक्यके द्वारा समन्तभद्रको ‘आचार्य’ और यति दोनों विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है जिसमें ‘आचार्य’ विशेषण ‘धर्मचार्य’ अथवा ‘आचार्यपरमेष्ठि’ का वाचक है, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप और वीर्यरूप पचाचार धर्मका स्वयं आचरण करते और दूसरोंको आचरण कराते हैं *। और इसलिये यह आचार्यपद ‘धर्मशास्त्री’से भी बड़ा है—धर्मशास्त्रित्व इसके भीतर मनिहित अथवा समाविष्ट है। स्वयं समन्तभद्रने भी अपन एक परिचय-पदार्थमें, अपने को आचार्य सूचित किया है।

दूसरा यति विशेषण सन्मानमें यत्नशील योगीका वाचक है। श्री विद्यानन्दाचार्यन अपनी अष्टसहस्रीमें स्वामी समन्तभद्रको ‘यतिभूत’ और ‘यतीष’ + तक लिखा है जो दोनों ही ‘योगिराज अथवा योगीन्द्र’ अथके श्वोतक हैं। कवि हस्तिमङ्गल और अव्यपायन विक्रान्तकौरवादिक ग्रन्थोमें समन्तभद्रको ‘पद्मद्विक—चारण ऋद्धिका धारक—लिखा है जो उनके महान् योगी होनका सूचक है। और कवि दामोदरने अपन ‘चन्द्रप्रभचरितमें’ साफतौरपर ‘योगी विशेषणका ही प्रयोग किया है। यथा—

* दसखणाणपहारो वीरियचरितवरतवायारे ।

अप्य पर च चु जह सो आयरिमो मुणि भैयो ॥५६॥

—इव्यसद्गह

† देखो अनेकान्तकी उस पिछली किरणमें प्रकाशित ‘समन्तभद्रका एक और परिचय-पद’ शीर्षक सम्पादकीय लेख (अथवा इससे पूर्वबत्ती लेख)।

+ “स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिष्ठद भूयादिभुमनुभान् ।”

“स्वामी जीयात्स अश्वत्रयरत्यतीशोऽकलङ्घोऽक्षीर्ति ॥”

यद्गारत्याः कविः सर्वोऽभवत्संज्ञानपारगः ।
तं कविनायकं स्तौभि समन्तभद्र-योगिनम् ॥

इसके सिवाय ब्रह्म नेमिदत्तने अपने 'आराधना-कथाकोश' में, समन्तभद्रकी कथाका वर्णन करते हुए, जब योगिचमत्कारके अनन्तर समन्तभद्रके मुखसे उनके परिचयके दो पद्म कहलाये हैं तब उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें 'योगीन्द्र' लिखा है जैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट है—

"फुटं काञ्च्यद्वयं चेति योगीन्द्रः समुवाच सः ।"

ब्रह्म नेमिदत्तका यह कथाकोश आचार्य प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोशके आधार पर निर्मित हुआ है, और इसलिये स्वामी समन्तभद्रका इतिहास लिखते समय मैंने प्रेमीजीको उक्त गद्यकथाकोशपरसे ब्रह्मनेमिदत्त-वर्णित कथाका मिलान करके विशेषनायोंका नोट कर देनेकी प्रेरणा की थी । तदनुसार उन्होंने मिलान करके मुझे जो पत्र लिखा था उसका तुलनात्मक वाक्योंके साथ उल्लेख मैंने एक फुटनोटमें उक्त इतिहासके पृ० १०५, १०६ पर कर दिया था । उसपरसे मालूम होता है कि—“दोनों कथायोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है । नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्य कथाका प्राय पूर्ण अनुवाद है ।” और जो साधारणसा फर्क है वह उक्त फुटनोटमें पत्रकी पत्तियोंके उद्दरण-डारा व्यक्त है । अतः उसपरसे यह कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि प्रभाचन्द्रने भी अपने गद्य कथाकोशमें स्वामी समन्तभद्रको 'योगीन्द्र' रूपमें उल्लेखित किया है । चूँकि प्रेमीजीके कथनानुसार # ये गद्यकथाकोशके कर्ता प्रभाचन्द्र भी वे ही प्रभाचन्द्र हैं जो 'प्रेमेयकमलमातंड' और 'रत्नकरण्ड-श्रावकाचार' की टीकाके कर्ता हैं । अतः स्वामी समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' विशेषणके प्रयोगका अनुसन्धान प्रमेय-कमलमातंडकी रचनाके समय तक अथवा वादिराजसूरिके पादर्वनाथ-चरितकी रचनाके लगभग पहुँच जगता है । ऐसी हालतमें प्रेमीजीका यह लिखना कि “योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया” कुछ भी संगत मालूम नहीं होता और वह ज्ञोजसे कोई विशेष सम्बन्ध न रखता हुमा चलती लेखनीका ही परिणाम जान पड़ता है ।

* देखो, 'जैनसाहित्य और इतिहास' पृ० ३३६

स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किंक और योगीं तीनों थे २४५

अब रही रचनाकौली और विषयकी बात। इसमें किसीको विवाद नहीं कि 'देवागम' और 'रत्नकरण्ड' का विवर प्रायः अलग है—एक मुख्यतया आत्मकी मीमांसाको लिये हुए है तो दूसरा आत्मकथित आवकधर्मके निर्देशको। विषयकी भिन्नतासे रचनाकौलीमें भिन्नताका होना स्वाभाविक है; फिर भी यह भिन्नता ऐसी नहीं जो एक साहित्यकी उत्तमता तथा दूसरेकी अनुत्तमता (धटियापन) -को छोतन करती हो। रत्नकरण्डका साहित्य देवागमसे जरा भी हीन न होकर अपने विषयकी हृषिसे इतना प्रौढ़, सुन्दर जैंचा तुला और अर्द्धगौरवको लिये हुए है कि उसे सूत्रप्रन्थ कहनेमें जरा भी सकोच नहीं होता। ५० आशाधरजी जैसे प्रौढ़ विद्वानोंने तो उपनी धर्मामृतटीकामें उसे जगह-जगह 'आगम' ग्रन्थ लिखा ही है और उसके बाक्योंको 'सूत्र' रूपसे उल्लेखित भी किया है—जैसा कि पीछे दिये हुए एक उद्धरणसे प्रकट है।

और यदि रचनाकौलीसे प्रेरीजीका अभिप्राय उस 'नक्षपद्धति' से है जिसे वे देवागमादिक तकन्प्रधान ग्रन्थोंमें देख रहे हैं और समझते हैं कि 'रत्नकरण्ड' भी उसी रंगमें रगा हुआ होना चाहिये था तो वह उनकी भारी भूल है। और तब मुझे कहना होगा कि उन्होंने आवकाचार-विषयक जैनसाहित्यका कालक्रमसे अध्यवा ऐतिहासिक हृषिसे अवलोकन नहीं किया और न देश तथा समाजकी तात्कालिक स्थितिपर ही कुछ गम्भीर विचार किया है। यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूम हो जाता कि उस बत्त—स्वामी समन्तभद्रके समयमें—और उससे भी पहले श्रावक-लोग प्रायः साधु-मुख्यापेक्षी हुआ करते थे—उन्हे स्वतन्त्ररूपसे ग्रन्थोंको अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं होती थी; बल्कि साधु अथवा मुनिजन ही उस बत्त, धर्मविषयमें, उनके एकमात्र पद्धतिकृत होते थे। देशमें उस समय मुनिजनोंकी सासी बहुलता थी और उनका प्रायः हर बत्तका सत्समागम बना रहता था। इसमें गृहस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उन्हींके पाय जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने लिये कभी कोई ब्रत, किसी सास ब्रत, अथवा ब्रतसमूहकी याचना किया करते थे। साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तव्यकमंका उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि उचित समझते तो उसकी गुहमन्त्र-पूर्वक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निवेद

कर देते थे। साथ ही, जिस भ्रतका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विषयध्यानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल निर्धारित कर देते थे। इस तरहपर शुद्ध-चर्चनोंके द्वारा घर्मोंप्रदेशको सुनकर घर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा गृहस्थोंको मिलती थी उसीके अनुसार चलना वे अपना घर्म—अपना कर्तव्यकर्म—समझते थे, उसमें ‘चूंचरा’ (किं, कर्मभित्यादि) करना उन्हें नहीं आता था; अथवा यों कहिये कि उनकी शब्दा और भक्ति उन्हें उस और (संशयमार्गकी तरफ) जाने ही न देती थी। आवकोंमें सर्वत्र आज्ञा-प्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस प्रवृत्ति तथा परिणामिके कारण ही वे लोग ‘आवक’ तथा ‘आढ़’^१ कहलाते थे। उस वक्त तक आवकघर्ममें अथवा स्वाचार-विषयपर आवकोंमें तकंका प्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्योंका परस्पर इतना मत-मेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको तकंपद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती। उस वक्त तकंका प्रयोग प्रायः स्व-प्रस्तुतके विचारों तिदांतों तथा आतादि विवादप्रस्तुत विषयोंपर ही होता था। वे ही तकंकी कसौटीपर चढ़े हुए थे—उन्हींकी परीक्षा तथा निर्णयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। और इसलिये उस वक्तके जो तकंप्रधान ग्रंथ पाये जाते हैं वे प्रायः उन्हीं विषयोंकी चर्चाको लिये हुए हैं। जहाँ विचाद नहीं होता वहाँ तर्कका काम भी नहीं होता। इसीसे छन्द, ग्रन्थकार, काव्य, कोश, व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रंथ तकंपद्धतिसे प्रायः ज्ञान्य पाये जाते हैं। शुद्ध स्वामी समन्तभद्रका ‘जिनशतक’ नामक ग्रंथ भी इसी कोटिमें स्थित है—स्वामी-द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें ‘देवागम’ जैसी तकंप्रधानता नहीं पाई जाती—वह एक कठिन, शब्दालस्कूल-प्रधान ग्रंथ है और आचार्यमहोदयके अपूर्व काव्यकीशल, अद्भुत व्याकरण-पाठित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको

^१ “शूणोति शुर्वादिभ्यो घर्ममिति आवकः”

—सा० घर्मपूर्तीका

“आढ़ः अद्वासमन्विते”

—शीघ्र, हेमचन्द्र”

सूचित करता है। रत्नकरण्ड भी उन्हीं तर्कप्रधानता-रहित ६४ ग्रन्थोंमें से एक प्रथम है और इसलिये उसकी यह तर्क-हीनता सन्देहका कोई कारण नहीं हो सकती। ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने सम्मूर्णं ग्रन्थ-में एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये बाध्य हो सके। नानाविषयोंके ग्रन्थ नाना प्रकारके विष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते हैं और उनमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण लेखन-पद्धतिमें भी अक्सर विभिन्नता हुआ करती है।

ऐसी हालतमें प्रेमीजीने रत्नकरण्ड-शावकाचारके कर्तुंत्व-विषयपर जो आशंका की है उसमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता। आशा है इस लेखपर-से प्रेमजी अपनी शकाका यथोचित समाधान करनेमें समर्थ हो सकेंगे।

—८३—

“ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तर्कसे बिल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तर्कको यथावसर बराबर स्थान दिया गया है। उच्चरत होनेपर उसका अच्छा स्पष्टीकरण किया जायगा। यहाँ सूचनारूपमें ऐसे कुछ पद्धोंके नम्बरोंको (१५० की संख्यानुसार) नोट किया जाता है, जिनमें तर्कसे कुछ काम लिया गया है अथवा जो तर्कदृष्टिको लक्ष्यमें रख कर लिखे गये हैं:—५, ८, ११, २६, २७, २८, ३०, ३१, ३२, ३३, ४७, ४८, ५३, ५६, ६७, ७०, ७१, ८२, ८४, ८५, ८६, ९५, १०२, १२३।

समन्तभद्रके ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय

स्वामी समन्तभद्राचार्यने कुल कितने ग्रन्थोंकी रचना की, वे किस किस विषय अध्यवा नामके ग्रन्थ हैं, प्रत्येककी श्लोकसंख्या क्या है, और उनपर किन किन आचार्यों तथा विद्वानोंने टीका-टिप्पण अध्यवा भाष्य लिखे हैं; इन सब बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, यद्यपि साधनाभावसे, मैं तब्बार नहीं हूँ फिर भी आचार्यमहोदयके बनाये हुए जो जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं और जिनका पता चलता या उल्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय अध्यवा यथावश्यकता उनपर कुछ विचार नीचे प्रस्तुत किया जाता है:—

१ आप्समीमांसा

समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमे यह सबसे प्रधान ग्रन्थ है और ग्रन्थका यह नाम उसके विषयका स्पष्ट शोतक है। इसे 'देवागम' स्तोत्र भी कहते हैं। 'भक्तामर' आदि कितने ही स्तोत्रोंके नाम जिस प्रकार उनके कुछ आच्य अक्षरोंपर अबलम्बित हैं उसी प्रकार 'देवागम' शब्दसे प्रारम्भ होनेके कारण यह ग्रन्थ भी 'देवागम' कहा जाता है; अथवा अर्हनवेका आगम इसके द्वारा व्यक्त होता है—उसका तत्त्व साक तौर पर समझमे आजाता है—और यह उसके रहस्यको लिये हुए है, इससे भी यह ग्रन्थ 'देवागम' कहलाता है। इस ग्रन्थके श्लोकों अध्यवा कारिकाओंकी संख्या ११४ है। परन्तु 'इतीयमाप्समीमांसा' नामके पद्ध नं० ११४ के बाद 'वसुनन्दी' आचार्यने, अपनी 'देवागमबृहति' में, नीचे लिखा पड़ भी दिया है—

जगति जगति क्षेरावेशप्रपञ्चहिमांशुमान्
विहतविषमैकान्तव्यान्तप्रमाणनयांशुमान्।

यतिपतिरजो यस्वाधृष्टान्मतास्मुनिशेखवान्
स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते ॥११५॥

यह पद्म यदि वृत्तिके मन्त्रमें ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीका निकाल सकते थे कि यह बसुनन्दी आचार्यका ही पद्म है और उन्होने अपनी वृत्तिके मन्त्र मंगलस्वरूप इसे दिया है। परन्तु उन्होने इसकी वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनाकाय भी दिया है—

“कृतकृत्यो निर्वृद्धतस्वप्रतिज्ञा आचार्यः श्रीसमन्वयभूकेसरी प्रमाण-
नयतीचणनल्लरद्वाविदारित-प्रवादिकुनयमद्विद्वलकुम्भकुम्भस्थलपाट-
नपदुरिदमाह—”

इससे दो बाने स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो यह कि यह पद्म बसुनन्दी आचार्यका नहीं है, दूसरी यह कि बसुनन्दीने इसे समन्वयभूका ही, मन्त्रके मन्त्र मंगलस्वरूप, पद्म समझा है और वैसा समझकर ही इसे वृत्ति तथा प्रस्तावनाके साथ दिया है। परन्तु यह पद्म, वास्तवमें, मूल प्रन्थका अन्तिम पद्म है या नहीं यह बात अबश्य ही विचारणीय है और उसका यहाँ विचार किया जाता है—

इस ग्रन्थपर भट्ठाकालकदेवने एक भाष्य लिखा है, जिसे ‘अष्टशती’ कहते हैं और श्रीविद्यानन्दाचार्यने ‘अष्टसहस्री’ नामक एक बड़ी टीका लिखी है, जिसे ‘आसमीमासालकृति’ तथा ‘देवागमालकृति’ भी कहते हैं। इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकाग्रन्थोमें इस पद्मको मूल प्रन्थका कोई अग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई व्याख्या ही की गई है। ‘अष्टशती’ में तो यह पद्म दिया भी नहीं। हाँ, ‘अष्टसहस्री’ में टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निम्न वाक्यके साथ दिया है—

‘अत्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवच्चनमनुमन्यते।’

उक्त पद्मको देनेके बाद ‘श्रीमद्भक्तादेवाः पुनरिद वदन्ति’ इस वाक्यके साथ ‘अष्टशती’ का अन्तिम मंगलपद्म उद्भूत किया है; और किर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानन्दाचार्यने अपना अन्तिम मंगल पद्म दिया है—

“इति परापरगुरुप्रवाहाहगुणगणसंस्तवस्य मंगलस्य प्रसिद्धोर्वर्वं तु
वभक्तिवशादेवं निवेदयामः ॥”

अष्टसहस्रीके इन बाक्योंसे यह स्पष्ट ज्ञानि निकलती है कि 'आशृती' और 'अष्टसहस्री' के अन्तिम मगल-वचनोकी तरह यह पद्म भी किसी दूसरी पुरानी टीकाका मगल-वचन है, जिससे शायद विद्यानदाचार्य परिचित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके रचयिताका नाम ठीक मालूम नहीं होगा। इसीलिये उन्होन, अकलकदेवके सहश उनका नाम न देकर, 'कचित्' शब्दके ढारा ही उनका उल्लेख किया है। मेरी रायमें भी यहां बात ठीक जँचती है। ग्रन्थकी पढ़ति भी उक्त पद्मको नहीं चाहती। मालूम होता है बसुनदी आचार्य-को 'देवागम' की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात् अथवा परम्परया उक्त टीकासे उतारी गई होगी और जिसमें टीकाका उक्त मगल-पद्म भी गलतीसे उतार लिया गया होगा। लेखकोकी नासमझीसे ऐसा बहुधा ग्रन्थप्रतियोगेमें देखा जाता है। 'सनातनजैनप्रथमाल' में प्रकाशित बृहस्पत्यभू-स्नोत्र'के अन्तमें भी टीकाका 'यो नि शेषजिनोक्त' नामका पद्म मूलरूपसे दिया हुआ है और उसपर नबर भी क्रमशः १४४ डाला है। परन्तु यह मूलग्रन्थका पद्म कदापि नहीं है।

'आसमीमासा' की जिन चार टीकाओंका ऊपर उल्लेख किया गया है उनके सिवाय 'देवागम-पद्मवार्तिकालकार' नामकी एक पात्रवी टीका भी जान पड़ती है जिसका उल्लेख *युक्त्यनुशासन-टीकामें निम्न प्रकारमें पाया जाता है—

इति देवागमपद्मवार्तिकालकारे निरूपितप्रायम् ।

इससे मालूम होता है कि यह टीका प्राय पद्मात्मक है। मालूम नहीं इसके रचयिता कौन आचार्य हुए हैं। सभव है कि 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालकार' की तरह इस 'देवागमपद्मवार्तिकालकार' के कर्ता भी श्रीविद्यानद आचार्य ही हो और इस तरह उन्होने इस ग्रन्थकी एक गद्यात्मक (अष्टसहस्री) और दूसरी यह पद्मात्मक ऐसी दो टीकाएँ लिखी हो, परन्तु यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती। अस्तु, इन टीकाओंमें 'अष्टसहस्री' पर 'अष्टसहस्रीविषय-पद्मतात्पर्यटीका' नामकी एक टिप्पणी लघुसमन्वयान्वयने लिखी है और दूसरी टिप्पणी इवेताम्बर सम्प्रदायके महान् आचार्यं तथा नैव्यायिक विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजीकी लिखी हुई है। प्रत्येक टिप्पणी परिमाणमें अष्टसहस्री-जितनी

* देखो, माणिकचन्द-ग्रथमालामें प्रकाशित 'युक्त्यनुशासन' पृष्ठ ६४

ही है—अर्थात् दोनों भाठ भाठ हजार इलोकोवाली हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी—ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ टीका-टिप्पणियोंकी उपस्थितिमें भी—‘देवागम’ आभी तक विद्वानोंके लिये दूरह और दुर्बोधसा बना हुआ है। इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रन्थके ११४ इलोक किनने अधिक महत्त्व, गाभीयं तथा ग्रादार्थको लिये हुए हैं, और इसलिये, श्रीबीरनदी आचार्यने ‘निर्मलबृत्तमार्त्तिका हारयष्टि’ की तरह और नरेद्वेनाचार्यने ‘मनुष्यत्व के समान समन्वयभद्रकी भारतीको जो ‘दुर्लभ’ बतलाया है उसमें जग भी अस्तुर्कि नहीं है। वास्तवमें इस ग्रन्थकी प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद ‘सूत्र है और वह बहुन ही जाँचतोलकर रखका गया है—उसका एक भी प्रक्षरण व्यर्थ नहीं है। यहीं वज्रह है कि समन्वयभद्र इस छोटेसे बूजेमें सपूर्णं मतमतान्तरोके रहस्यरूपी ममुद्रको भर सके हैं और इसलिये उसको अधिगत करनेके लिये गहरे अध्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है।

हिन्दीमें भी इस ग्रन्थपर पड़िन जयचन्द्ररायजीको बनाई हुई एक टीका मिलती है जो प्राय साधारण है। सबसे पहले यहीं टीका मुझे उपलब्ध हुई थी और इसी परसे मैंने इस ग्रन्थका कुछ प्राथमिक परिचय प्राप्त किया था। उस बत्त तक यह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ था, और इसलिये मैंन बड़ प्रमक साथ, उत्तम टीकासहित, इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि स्वयं अपन हाथसे उतारी थी। वह प्रतिलिपि आभी तक मेरे पुस्तकालयमें सुरक्षित है। उस बत्तसे बराबर मैं इस मूल ग्रन्थको देखता था रहा हूँ और मुझे यह बड़ा ही प्रिय मालूम होता है।

इस ग्रन्थपर कनडी, तामिलादि भाषाओंमें भी वितने ही टीका-टिप्पण, विवरण और भाष्य ग्रन्थ होगे परन्तु उनका कोई हाल मुझे मालूम नहीं है, इसीलिये यहापर उनका कुछ भी परिचय नहीं दिया जा गका।

[†] इस विषयमें, श्वेताम्बर साधु मुनि जिनविजयजी भी लिखते हैं—

‘यह देखनेमें ११४ इलोकोंका एक छोटासा ग्रन्थ मालूम होता है, पर इसका गाभीयं इतना है कि, इस पर संकड़ो-हजारो इलोकोवाले बड़े बड़े गहन भाष्य-विवरण आदि लिखे जाने पर भी विद्वानोंको मह हुर्गम्यसा दिल्लाई देता है।’ —जैनहितीषी भाग १४, अक ६।

२ युक्त्यनुशासन

समन्तभद्रका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्वपूर्ण तथा अपूर्व है और इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगौरवको लिए हुए है। इसमें, स्तोत्रप्रणालीसे, कुल ६४६ पद्धों-डारा, स्वमत और परमतोकि गुणादोषोंका, सूत्ररूपसे, बड़ा ही मायिक वर्णन दिया है, और प्रत्येक विषयका निरूपण, बड़ी ही खूबी के साथ, प्रबल युक्तियों-डारा किया गया है। यह ग्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेषणके उपाय-स्वरूप है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर लिखा गया है; जैसा कि ६३वीं कार्तिकाके उत्तरार्धसे प्रकट है[†]। श्रीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य लिखा है। इस ग्रन्थपर अभीतक श्रीविद्यानंदाचार्यकी बनाई हुई एक ही सुन्दर संस्कृतटीका ल्पलब्ध हुई है और वह 'माशिकचन्द-प्रथमाला' में प्रकाशित भी हो चुकी है। इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे मालूम होता है कि यह ग्रंथ 'आत्मीयामांसा' के बादका बना हुआ है—

‘श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमामासायामन्ययोगठ्यवच्छेदादृव्य-वस्थापितेन भगवता श्रीमतार्हतान्त्यतीर्थकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य किंचिकीर्ष्वो भवत इति ते पृष्ठा इच्छा प्राहुः।’

ग्रंथका विशेष परिचय 'समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन' लेखमें दिया गया है।

३ स्वयम्भूस्तोत्र

इसे 'बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र' और 'समन्तभद्रस्तोत्र'+ भी कहते हैं। यह ग्रंथ भी

* सन् १६०५ में प्रकाशित 'सनातनजैनग्रन्थमाला'के प्रथम गुच्छकमें इस ग्रंथके पद्धोंकी संख्या ६५ दी है, परन्तु यह भूल है। उसमें ४० वें नम्बर पर जो 'स्तोत्रे युक्त्यनुशासने' नामका पद्ध दिया है वह टीकाकार का पद्ध है, मूलग्रन्थका नहीं। और मात्र ३० ग्रन्थमालामें प्रकाशित इस ग्रन्थके पद्धों पर गलत नम्बर पढ़ जानेसे ६५ संख्या मालूम होती है।

† किमु भ्यायाज्ञाय-प्रकृत-गुणादोषः-मनसां हितान्वेषोपायस्तव गुण-कथा-संग-गदितः।

+ 'जैनसिद्धान्त भवत आरा' में इस ग्रंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियां कलही अक्षरोंमें भीजूद हैं जिनपर ग्रंथका नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' लिखा है।

बड़ा ही महत्वशाली है, निर्मल-भूक्तियोंको लिये हुए है और जनुविश्वति जिन-देवोंके घमको प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कही कही पर-किसी किसी तीव्रकरके सम्बन्धम्—कुछ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया गया है जो बड़ा ही रोचक मालूम होता है। उस उल्लेखको छोड़कर शब्द संपूर्ण ग्रथ स्थान स्थान पर तात्त्विक वर्णनों और धार्मिक शिक्षाओंसे परिपूर्ण है। यह ग्रथ अच्छी तरहसे समझ कर नित्य पाठ किये जानके योग्य है। इसका पूरा एवं विस्तृत परिचय ‘समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र’ इस नामके निबन्धम् दिया गया है।

इस ग्रन्थपर क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्यकी बनाई हुई अभी तक एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है। नीका साधारणतया अच्छी है परन्तु ग्रन्थके रहस्यको अच्छी तरह उद्धारण करनके लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रन्थपर अवश्य ही दूसरी कोई उत्तम टीका भी होगी, जिसे भडारोसे खोज निकालनकी जरूरत है। यह स्मोक्र क्रियाकलाप ग्रन्थमें भी संग्रह किया गया है और क्रिया-कलापपर ५० आशाधरजीकी एक टीका कही जानी है इससे इस ग्रथपर ५० आशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये।

४ स्तुतिविद्या

यह ग्रथ ‘जिनस्तुतिशतक जिनस्तुनिशत,’ ‘जिनशतक और जिनशत-कालकार’ नामोंसे भी प्रभिद्व है भक्तिरससे लबालब भरा हुआ है, रचनाकौशल तथा चित्रकार्योंके उत्कृष्टको लिये हुए है, सब ग्रन्थकारोंसे भूषित है और इतना दुगम तथा कठिन है कि बिना संस्कृतटीकाकी सहायता के अच्छ अच्छ विद्वान् भी इसे सहसा नहीं लगा सकते। इसके पद्मोकी सख्त्या ११६ है और उनपर एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है जो वसुनन्दीकी बनाई हुई है। वसुनन्दीसे पहले नरसिंह विभाकरकी टीका बनी थी, जो इस सुपथिनी कृतिको विकसित करने वाली थी और जिससे पहल इस ग्रथपर दूसरी कोई टीका नहीं थी, ऐसा टीकाकार वसुनन्दीके एक बाक्यसे पाया जाता है। वह टीका आज उपलब्ध नहीं है और सभवत वसुनन्दीके समय (१२वीं शताब्दी)में भी उपलब्ध नहीं थी—केवल उसकी जनशृति ही अवशिष्ट थी ऐसा जाना जाता है। प्रस्तुत टीका अच्छी

और उपयोगी बनी हैं। इसका विशेष परिचय 'समन्तभद्रकी सुतिविद्या' नामक निबन्धसे जाना जासकता है।

५ रत्नकरंड उपासकाध्ययन

इसे 'रत्नकरंडश्रावकाचार' तथा 'समीचीन-धर्मशास्त्र' भी कहते हैं। उपलब्ध ग्रंथोंमें, श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। श्रीवादिराजसूरिने इसे 'अक्षयसुखावह' के और प्रभाचन्द्रने 'अखिल सागरमार्गोंको प्रकाशित करनेवाला निर्भल सूर्य' लिखा है। इसका विशेष परिचय और इसके पद्धोंको जाँच घाटि-विषयक विस्तृत लेख माणिकचन्द्र-ग्रंथमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनामें तथा वीरसेवामन्दिर-से हालमें प्रकाशित 'समीचीन-धर्मशास्त्र'की प्रस्तावनामें दिया गया है। यहांपर मैं सिर्फ इतनाही बतला देना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थपर अभीतक केवल एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचन्द्राचार्यकी बनाई हुई है और वह प्रायः साधारण है। हाँ, 'रत्नकरंडकविषमपदव्याख्यान'नामका एक संस्कृक टिप्पणी भी इस ग्रन्थपर मिलता है, जिसके कर्त्ताका नाम उसपरसे मालूम नहीं हो सका। यह टिप्पणी आराके जैनसिद्धान्तभवनमे मौजूद है। कन्ढी भाषामें भी इस ग्रन्थकी कुछ टीकाएं उपलब्ध हैं परन्तु उनके रचयिताओं आदिका कुछ पता नहीं चल सका। तामिल भाषाका 'अरुंगलछेष्टु' (रत्नकरंडक) ग्रन्थ, जिसकी पद्ध-सस्था १६० है, इस ग्रन्थको सामने रखकर बनाया गया मालूम होता है और कुछ अपवादोंको छोड़कर इसीका प्रायः भावानुवाद अथवा सारांश जान पड़ता है *। परन्तु वह कब बना और किसने बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता और न उसे तामिल-भाषाकी टीका ही कह सकते हैं।

६ जीवसिद्धि

इस ग्रन्थका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत 'हरिकथपुराण' के उस पद्धसे चलता है जो 'जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासन' जैसे पद्धोंसे प्रारम्भ

* यह राय मैंने इस प्रथके उस अंग्रेजी अनुवादपरसे कायम की है जो सन् १६२३-२४ के अंग्रेजी जैनगजटके कई अंकोंमें the Casket of Gems नामसे प्रकाशित हुआ है।

होता है। ग्रंथका विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा ही उपयोगी विषय है। श्रीजिनसेनाचार्यने समन्तभद्रके इस प्रबचनको भी “जीवसिद्धिविधायीइ कुनयुक्त्यनुशासनम् । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्थेव विजूम्भते ॥” इस वाक्यके द्वारा महावीर भगवानके वचनोंके समान प्रकाशमान बतलाया है। इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्वका होगा। दुभाग्य-से यह ग्रंथ आभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। मालूम नहीं किस भंडारमें बन्द पड़ा हुआ अपना जीवन शेष कर रहा है अथवा शेष कर चुका है। इसके शीघ्र अनुसंधानकी बड़ी जरूरत है।

७ तत्त्वानुशासन

‘दिग्म्बरजैनग्रन्थकर्ता’ और उनके ‘ग्रंथ’ नामकी सूचीमें दिए हुए समन्तभद्रके ग्रंथोंमें ‘तत्त्वानुशासन’ का भी एक नाम है। इवेताम्बर काम्फरेसद्वारा प्रकाशित ‘जैनग्रन्थावली’ में भी ‘तत्त्वानुशासन’ को समन्तभद्रका बनाया हुआ लिखा है, और साथ ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ भगवानदास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टमें है जो पिटर्सन साहबकी नौकरीमें थे। और भी कुछ विद्वानोंने, समन्तभद्रका परिचय देते हुए, उनके ग्रंथोंमें ‘तत्त्वानुशासन’ का भी नाम दिया है। इस तरह पर इस ग्रन्थके अस्तित्वका कुछ पता चलता है। परन्तु यह ग्रन्थ आभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियाँ देखने पर भी यह मालूम नहीं हो सका कि यह ग्रन्थ किस जगह मौजूद है और न इसके विषयमें आभी तक किसी शास्त्रवाक्यादिपरसे यह ही पूरी तीर पर निश्चय किया जा सका है कि समन्तभद्रने वास्तवमें इस नामका कोई ग्रंथ बनाया है, किर भी यह खाल जारूर होता है कि समन्तभद्रका ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये। खोज करनेसे इतना पता जारूर चलता है कि रामसेनके उस ‘तत्त्वानुशासन’से भिन्न, जो मार्णिकचन्द्रग्रंथमालामें ‘नागसेन’‡

‡ ‘नागसेन’ नाम गलतीसे दिया गया है। वास्तवमें वह ग्रन्थ नागसेनके शिष्य ‘रामसेन’ का बनाया हुआ है; और यह बात मैने एक लेखद्वारा सिद्ध की थी जो जुलाई सन् १६२० के जैनहितीषीमें प्रकाशित हुआ है।

के नामसे मुक्रित हुआ है, कोई दूसरा ‘तत्त्वानुशासन’ ग्रन्थ भी नहा है, जिसका एक पथ नियमसारकी पद्धप्रभ-मलधारिदेव-विरचित टीकामें, ‘तथा चोक्तं तत्त्वानुशासने’ इस बाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पथ इस प्रकार है—

उत्सज्जे कायकर्मणि भावं च भवकारणं ।

स्वात्मावस्थानमव्यग्रं कायोत्सर्गः स उच्यते ॥

यह पथ ‘मारिणकवन्दग्रंथमाला’ में प्रकाशित उक्त तत्त्वानुशासनमें नहीं है, और इसलिये यह किसी दूसरे ही ‘तत्त्वानुशासन’ का पथ है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता । पद्धपरसे ग्रन्थ भी कुछ कम महत्वका मालूम नहीं होता । बहुत संभव है कि जिस ‘तत्त्वानुशासन’का उक्त पथ है वह स्वामी समंतभद्रका ही बनाया हुआ हो ।

इसके सिवाय, इवेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्रसूरिने, अपने ‘अनेकान्तजयपताका’ ग्रन्थमें ‘वादिमुख्य समन्तभद्र’के नामसे नीचे लिखे दो इलोक उद्धृत किये हैं, और ये इलोक शान्त्याचार्यविरचित ‘प्रमाणकलिका’ तथा वादिदेवमूरि-विरचित ‘स्याद्वादरत्नाकर’में भी समन्तभद्रके नामसे उद्धृत पाये जाते हैं ॥—

बोधात्मा चेच्छुच्छस्य न स्यादन्यत्र तच्छ्रुतिः ।

यद्बोद्धारं परित्यज्य न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥

न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते ।

शब्दाभेदेन सत्येवं सर्वः स्यात्पर्वित्तवत् ॥

और ‘समयसार’ की जयसेनाचार्यकृत ‘तात्पर्यवृत्ति’ में भी, समन्तभद्रके नामसे कुछ इलोकोंको उद्धृत करते हुए एक इलोक निम्न प्रकारसे दिया है—

धर्मिणोऽनन्तरूपत्वं धर्माणां न कथंचन ।

अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥

ये तीनों इलोक समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थों (नं० १ से ५ तक) में नहीं पाये जाते और इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्रके किसी दूसरे ही ग्रन्थ

३ देखो, जैनहितीवी भाग १४, अंक ६ (पृ० १६१) तथा ‘जैनसाहित्यसंशोधक’ अंक प्रथममें मुनि विजयजयवीका लेख ।

अथवा ग्रन्थोंके पद हैं जो अनी तक अज्ञात अथवा अप्राप्त है। आश्वर्य नहीं जो ये भी इस 'तत्त्वानुशासन' ग्रन्थके ही पद हों। यदि ऐसा हो और यह ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनियोंका ही नहीं किन्तु विज्ञानगतका महाभाग्य समझना चाहिये। ऐसी हालतमें इस ग्रन्थकी भी शीघ्र स्वोज होनेकी बड़ी चाहरत है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्र से शताब्दियों बाद बने हुए रामसेनके तत्त्वानुशासनमें एक पद निम्न प्रकारसे पाया जाना है—

ममाऽहंकारनामानी सेनान्यौ तौ च तत्सुतौ ।

यदाऽक्तः सुदर्भेदो मोहव्यूहः प्रवर्त्तते ॥ २३ ॥

इसमें रूपकालंकार-द्वारा भमकार और अहंकारको मोहराजाके दो सेनापति बतलाया है और उनके द्वारा उस दुर्भेद मोहव्यूहके प्रवर्तित होनेका उल्लेख किया है जिसके राग-द्वेष-काम-क्रोधादि प्रमुख अग होते हैं। इस पदके आशयसे मिलता-जुलता एक प्राचीन पद आचार्य विद्यानन्दने पुष्ट्यनुशासनकी टीकामें 'तथा चोक्त' वाक्यके साथ उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है—

ममकाराऽहंकारौ सचिवाविव मोहनीयराजस्य ।

रागादि-सकलपरिकर-परिपोषणतत्परौ सततम् ॥

इसमें भमकार और अहंकारको मोहराजाके दो मन्त्री बतलाया है और सिला है कि वे दोनों मन्त्री राग-द्वेष-काम-क्रोधादिरूप सारे मोह-परिवारको परिपृष्ठ करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। यह पद अपने मूलरूपमें अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता और इससे भेरी यह कल्पना एवं घारणा होती है कि इसका मूलस्थान संभवतः समन्तभद्रका उक्त तत्त्वानुशासन ही है। इसी पदमें कुछ फेर-फार करके अथवा रूपकको बदलकर या० रामसेनने अपने उक्त पदकी सूष्टि की है।

८ प्राकृतव्याकरण

'जैनग्रन्थावली'से मालूम होता है कि समन्तभद्रका बनाया हुआ एक 'प्राकृत-व्याकरण' भी है जिसकी एतोकस्त्वा १२०० है। उक्त व्याकरणीमें इस ग्रन्थका ।

उल्लेख 'रायल एंजियाटिक सोसाइटी' की रिपोर्ट के आधारपर किया गया है और उक्त सोसाइटीमें ही उसका अस्तित्व बतलाया गया है। परन्तु मेरे देखने-में अभी तक यह ग्रन्थ नहीं प्राप्त और न उक्त सोसाइटीकी वह रिपोर्ट ही देखनेको मिल सकी है ॥५॥ इसलिए इस विषयमें मैं अधिक कुछ भी कहना नहीं चाहता। हीं, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्वामी समन्तभद्रका बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होजाय तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गौरवकी बस्तु होगी। श्रीपूज्यपाद आचार्यने अपने 'जैनेन्ड्र' व्याकरणमें 'चतुष्टयं समन्त-भद्रस्य' इस सूत्रके द्वारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख भी किया है, इससे समन्त-भद्रके किसी व्याकरणका उपलब्ध होना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।

६ प्रमाणपदार्थ

मूडविद्रीके 'पद्मवास्तभंडार' की सूचीसे मालूम होता है कि वहाँपर 'प्रमाणपदार्थ' नामका एक संस्कृत ग्रन्थ समन्तभद्राचार्यका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी दलोकसंख्या १००० है॥६॥ साथ ही उसके विषयमें यह भी लिखा है कि वह अधूरा है। मालूम नहीं, ग्रन्थकी यह दलोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथमें लेकर है या मूलकाही इतना परिमाण है। यदि अपूरण मूलका ही इतना परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि समन्तभद्रके उपलब्ध मूलग्रन्थोंमें यह सबसे बड़ा ग्रन्थ है, और न्यायविषयक होनेसे बड़ा ही महत्व रखता है। यह भी मालूम नहीं कि यह ग्रन्थ किस प्रकारका अधूरा है—इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैं या ग्रन्थकार इसे पूरा ही नहों कर सके हैं। बिना दख्ले इन सब बातोंके विषयमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता॥७॥ हीं, इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ

॥५॥ रिपोर्ट आदिको देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार अपने एक मित्र, मेम्बर रॉयल एंजियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, को लिखा गया और प्रार्थनाएँ की गईं परन्तु वे अपनी किन्हीं परिस्थितियोंके बश आवश्यक सूचनाएँ देनेमें दास्तावधी रहे।

॥६॥ यह सूची आराके 'जैनसिद्धान्त भवन' में मौजूद है।

॥७॥ इस ग्रन्थके विषयमें आवश्यक बातोंको मालूम करनेके लिए मूडविद्रीके ५० लोकनाथजी शास्त्रीको दो पत्र दिये गये। एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने ग्रन्थको

कि यदि यह प्रथं, बास्तवमें, इन्हीं समन्तभद्राचार्य का बनाया हुआ है 'तो इसका बहुत शीघ्र उदार करने और उसे प्रकाशमें लानेकी बड़ी ही आवश्यकता है।

१० कर्मप्राभृत-टीका

प्राकृतभाषामें, श्रीपुष्पदन्त-सूतबल्याचार्य-विरचित 'कर्मप्राभृत' अथवा 'कर्मप्रकृतिप्राभृत' नामका एक सिद्धान्त प्रथं है। यह प्रथं १जीवस्थान, २क्षुण्णक-बन्ध, ३बन्धस्वामित्र, ४मावदेना, ५वर्गंशा और ६ महाबन्ध नामके छह खंडोंमें विभक्त है, और इसलिये इसे 'षट्खण्डागम' भी कहते हैं। समन्तभद्रने इस प्रथमें प्रथम पांच खंडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर तथा मुदु संस्कृत भाषामें लिखी है और इसकी संहया ग्रन्थालीस हजार इलोकपरिमाण है; ऐसा श्रीइदनं-चाचार्यकृत 'धूतावतार' प्रथमें निम्नवाक्योंसे पाया जाता है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि समन्तभद्र 'कर्वायप्राभृत' नामके द्वितीय सिद्धान्तप्रथमकी भी न्यास्या लिखना चाहते थे; परंतु द्रव्यादि-शुद्धिकरण-प्रयत्नोंके अभावसे, उनके एक सधर्मी साधुने (शुरुभाईन) उन्हें बैसा करनेसे रोक दिया था—

कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्या पलरि (?) तार्किकाऽर्कोभूत् ॥१६७॥

श्रीमान्समंतभद्रस्वामीत्यथ सोऽप्यधीत्य त द्विविधं ।

सिद्धान्तमतः षट्खण्डागमगतस्वंडपंचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥

अष्टौ चत्वारिंशत्सहस्रसदूर्घंथरचनया युक्तं ।

विरचितवानतिसुन्दरमृदुसंस्कृतभाषया टीकाम् ॥ १६९ ॥

विलिखन द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मया स्वेन ।

द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नविरहाप्रतिनिधिदः ॥१७० ॥

इस परिचयमें उस स्थानविशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया हुआ है जहाँ तार्किकसूर्य स्वामी समंतभद्रने उदय होकर अपनी टीकाकिरणोंसे कर्मप्राभृत सिद्धान्तके प्रथमों विकसित किया है। परन्तु पाठकी कुछ अशुद्धिके कारण

निकलवाकर देखने और उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएं देनेका बाथदा भी किया था; परंतु नहीं मालूम क्या वजह हुई जिससे वे मुझे फिर कोई सूचना नहीं दे सके। यदि शास्त्रीजीसे मेरे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता तो मैं पाठकोंको इस प्रथमका अच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ हो सकता था।

वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका। 'आसन्ध्यं पलरि' की जगह 'आसीदः पलरि' पाठ देकर १० जिनदास पादवनाथजी फड़कुले उसका अर्थ 'आनन्द नावच्चा गावौत्'—आनंद नामके गावमें—दिया है। परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ कैसे हो सकता है, यह बात कुछ समझमें नहीं आती। पूँछने पर १८ठितजी लिखते हैं “‘श्रुतपञ्चमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनुवादमें समंतभद्रा-चार्यका जन्म आनंदमें होना लिखा है,’ ” वस इतने परसे ही आपने 'पलरि' का अर्थ 'आनंद गौवमें' कर दिया है, जो ठीक मालूम नहीं होता; और न आपका 'असीदः' पाठ ही ठीक जैचता है; क्योंकि 'अभूत' क्रियापदके होनेसे 'आसीद्' क्रियापद व्यर्थ पड़ता है। मेरी रायमें, यदि कण्ठिक प्रान्तमें 'पली' शब्दके अर्थमें 'पलर' या इसीसे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द व्यवहृत होता हो और सतमी विभक्तियें उसका 'पलरि' रूप बनता हो तो यह कहा जा सकता है कि 'आसन्ध्या' की जगह 'आनंद्या' पाठ होगा, और तब ऐसा आशय निकल सकेगा कि समंतभद्रने 'आनंदी पली' में अथवा 'आनंदमठ' में ठहर कर इस टीकाकी रचना की है।



गंधस्ति महाभाष्यकी स्वोज

कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके 'तत्त्वार्थसूत्र' पर 'गंधहस्ति'[†] नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी श्लोक-संख्या ८४ हजार है, और उक्त 'देवाग्रम' स्तोत्र ही जिसका मगलाचरण है। इस ग्रंथकी वर्षोंसे तलाश हो रही है। बम्बईके सुप्रसिद्ध-दानबीर सेठ मारिंगचंद हीराचंदजी ज० पी० ने इसके दर्शनमात्र करा देनेवालेके लिये पाँचसौ रुपये नक़्षदका परिनोषिक भी निकाला था, और ऐने भी, 'देवाग्रम' पर मोहित होकर, उस समय वह संकल्प किया था कि यदि यह ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय तो मैं इसके अध्ययन, भनन और प्रचारमें अपना शेष जीवन अयतीत करूँगा— परन्तु आज तक किसी भी भण्डारसे इस ग्रंथका कोई पता नहीं चला। एक बार अखबारों में ऐसी खबर उड़ी थी कि यह ग्रन्थ आस्ट्रिया देश के एक प्रसिद्ध

† 'गंधहस्ति' एक बड़ा ही महत्वसूचक विशेषण है—गन्धेभ, गन्धगज, और गन्धद्विप भी इसीके पर्यायनाम हैं। जिस हाथीकी गन्धको पाकर दूसरे हाथी नहीं ठहरते—भाग जाते अथवा निर्मद और निस्तोज हो जाते हैं—उसे 'गंधहस्ती' कहते हैं। इसी गुणके कारण कुछ खास खास विद्वान् भी इस पदसे विशूषित रहे हैं। समन्तभद्रके सामने प्रतिवादी नहीं ठहरते थे, यह बात कुछ विस्तारके साथ उनके परिचयमें बतलाई जा चुकी है; इससे 'गंधहस्ती' अवश्य ही समन्तभद्रका विश्व अथवा विशेषण रहा होगा और इसीसे उनके महाभाष्यको गंधहस्ति-महाभाष्य कहते होंगे। अथवा गंधहस्ति—तुल्य होनेसे ही वह गंधहस्ति-महाभाष्य कहलाता होगा और इससे यह समझना चाहिये कि वह सर्वोत्तम भाष्य है—दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, भीहीन और निस्तोज हैं।

नगर (वियना) की लायब्रेरीमें मौजूद है । और इसपर दो एक विद्वानोंको बही भेजकर धंथकी कापी भँगानेके लिये कुछ चंदे बगैरहकी योजना भी हुई थी; परंतु बादमें मालूम हुआ कि वह खबर गलत थी—उसके मूलमें ही मूल हुई है—और इस लिये दशनोत्कठित जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगलमय आवाज बैंधी थी वह फिर से निराशामें परिणत होगई ।

मैं जैनसाहित्यपरसे भी इस ग्रन्थके अस्तित्वकी बराबर स्तोज करता आ रहा हूँ । अबतकके मिले हुए उल्लेखो—द्वारा प्रा चीन जैनसाहित्य परसे इस ग्रन्थका जो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है:—

(१) कवि हस्तिमल्ल[†]के ‘विक्रान्त-कौरव’ नाटककी प्रशस्तिमें एक पद्ध निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समन्तभद्रोऽभूहेवागमनिदेशकः ॥

यही पद्ध ‘जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय’ धंथकी प्रशस्तिमें भी दिया हुआ है, जिसे ५० अव्यपायने शक सं० १२४१ में बना कर समाप्त किया था; और उसकी किसी किसी प्रतिमें ‘प्रवर्तकः’ की जगह ‘विधायकः’ और ‘निदेशकः’ की जगह ‘कवीश्वरः’ पाठ भी पाया जाता है; परन्तु उससे कोई अव्यभेद नहीं होता अथवा यों कहिये कि पद्धके प्रतिपाद्य विषयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । इस पद्धमें यह बतलाया गया है कि “स्वामी समन्तभद्र ‘तत्त्वार्थसूत्र’ के ‘गंधहस्ति’ नामक व्याख्यान (भाष्य) के प्रवर्तक—अथवा विधायक—हुए हैं और साथ ही वे ‘देवागम’ के निदेशक—अथवा कवीश्वर—भी थे ।”

इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्रने ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर ‘गंधहस्ति’ नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य लिखा है, परंतु यह मालूम नहीं होता कि देवागम (आसमीमासा) उस भाष्यका मंगलाचरण है । ‘देवागम’ यदि मंगलाचरणरूपसे उस भाष्यका ही एक अंश होता तो उसका पृथक् रूपसे नामोल्लेख करनेकी यही कोई जरूरत नहीं थी; इस पद्धमें उसके पृथक् नामनिर्देशसे

[†] कवि हस्तिमल्ल विक्रमकी १४ वीं शताब्दीमें हुए हैं ।

वह स्पष्ट इनि निकलती है कि वह समन्तभद्रका एक स्वतंत्र और प्रबाल भंग है। देवागम (आसमीमांसा) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ट करती हुई नजर आती है और वह निम्न प्रकार है—

५ इतीयमासमीमांसा विहिता हितमिच्छातां ।
सम्यग्मिष्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥

बहुनन्दी आचार्यने, अपनी टीकामें, इस कारिकाको ‘शास्त्रार्थोपसंहार-कारिका’ ६ लिखा है, और इसकी टीकाके अन्तमें समन्तभद्रका ‘कुतकृत्यः निर्वूढतत्त्वप्रतिज्ञः’ * इत्यादि विशेषणोंके साथ उल्लेख किया है। विद्यानंदाचार्यने अहृसहस्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनिर्वहण—प्रारंभ किये हुए कार्यकी परिसमाप्ति—आदि को सूचित करते हुए, ‘देवागम’ को ‘स्वोक्तपरिच्छेदशास्त्र’ † वितलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि इस शास्त्रमें जो दश परिच्छेदोंका विभाग पाया जाता है वह स्वयं स्वामी समन्तभद्रका किया हुआ है। अकलंकदेवने भी ऐसा ही + प्रतिपादन किया है। और इस सब कथनसे ‘देवागम’का एक स्वतंत्र शास्त्र होना पाया जाता है जिसकी समाप्तिरुक्त कारिकाके साथ ही जाती है, और यह प्रतीत नहीं होता कि वह किसी टीका अध्यका आदिम मंगलाचरण है; क्योंकि किसी प्रथंपर टीका

५ जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें लक्ष्य करके, यह ‘आसमीमांसा’ सम्यक् और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है।

६ शास्त्रके विषयका उपसंहार करनेवाली अथवा उसकी समाप्तिकी सूचक कारिका।

* ये दोनों विशेषण समन्तभद्रके द्वारा प्रारंभ किये हुए घंथकी परिसमाप्तिको सूचित करते हैं।

† “इति देवागमात्थे स्वोक्तपरिच्छेदे शास्त्रे (स्वेनोक्ताः परिच्छेदा दश यस्मिस्तत् स्वोक्तपरिच्छेदमिति ग्राह्य तत्र) विहितेयमासमीमांसा सर्वज्ञविशेषपरीक्षा” — अहृसहस्री।

+ “इति स्वोक्तपरिच्छेदविहितेयमासमीमांसा सर्वज्ञविशेषपरीक्षा”

— अष्टशती।

भवता भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि-रूपसे मंगलाचरण करनेकी जो पदाति पाई जाती है वह इससे विभिन्न मालूम होती है और उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदमें नहीं देखा जाता। इसके सिवाय उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहां तक मंगलाचरण किया गया है और न प्रथके तीनों टीकाकारों—अकलंक, विद्यानंद तथा वसुनन्दी नामके आचार्यों—मेंसे ही किसीने अपनी टीकामें इसे ‘गंधहस्त महाभाष्यका मंगलाचरण’ सूचित किया है, बल्कि गंधहस्त महाभाष्यका कही नाम तक भी नहीं दिया। और भी कितने ही उल्लेखोंसे देवागम (आत्ममीमांसा) एक स्वतंत्र प्रथके रूपमें उल्लेखित मिलताहै*। और इस लिये कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्य परसे देवागमकी स्वतंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाला गया है उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्यसे यह भी मालूम नहीं होता कि जिम तत्त्वार्थसूत्र पर समन्तभद्रने गंधहस्त नामका भाष्य लिखा है वह उमास्वातिका ‘तत्त्वार्थसूत्र’ प्रथवा ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ है या कोई दूसरा तत्त्वार्थसूत्र। हो सकता है कि वह उमास्वातिका ही तत्त्वार्थसूत्र हो, परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही तत्त्वार्थसूत्र प्रथवा तत्त्वार्थशास्त्र हो, जिसकी रचना किसी दूसरे विद्वानाचार्य के हांगा हुई हो; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रोंके रचयिता अकेले उमास्वाति ही नहीं हुए हैं—दूसरे आचार्य भी हुए हैं—और न सूत्रका अर्थ केवल गद्यभय

* यथा—

- १—गोविन्दभट्ट इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववर्जितः
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्वा सहर्षनान्वितः ॥ —विज्ञानत्कौरव-प्रशास्ति
- २—स्वामिनश्चरित नस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।
देवागमेन सर्वज्ञो येनाचापि प्रदेशयंते ॥ —वादिराजसूरि (पाद्यं च०)
- ३—जीयात् समन्तभद्रस्य देवागमनसंज्ञिनः ।
स्तोत्रस्य भाष्यं कृतवानकलंको महृषिकः ॥
अलच्चकार यस्सार्वमात्ममीमांसितं मतं ।
स्वामिविद्यादिनंदाय नमस्तस्मै महात्मने ॥
—नगरताल्खुकेका शिं० लेख नं० ४६ (E. C., VIII.)

संक्षिप्त सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है बल्कि वह 'शास्त्र' का पर्याय नाम भी है और पद्धात्मक शास्त्र भी उससे अभिप्रेत होते हैं। यथा—

कायस्थपद्मनाभेन रचितः पूर्वसूत्रतः ।—यशोवरचरित्र ।
 तथोदिष्ट भयात्रापि ज्ञात्वा श्रीजिनसूत्रतः ।—भद्रबाहुचरित्र ।
 भणियं पवयणसारं पञ्चत्विष्यसंग्रहं सुत्तं ।—पञ्चास्तिकाय ।
 देवागमनसूत्रस्य श्रुत्वा सदर्शनान्वितः ।—वि० कौरव प्रशस्ति ।
 एतच्च... मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसूत्रे द्विस्तरतः समर्थितं
 द्रष्टव्यं ।—घनगारधममित-टीका ।

अतएव तत्त्वार्थसूत्रका ग्रथं 'तत्त्वार्थविषयक शास्त्र' होता है और इसीसे उभास्त्रातिका तत्त्वार्थसूत्र 'तत्त्वार्थशास्त्र' और 'तत्त्वार्थाचिगममोक्षशास्त्र' कहलाता है। 'सिद्धान्तशास्त्र' और 'राद्वान्तसूत्र' भी तत्त्वार्थशास्त्र ग्रथवा तत्त्वार्थसूत्रके नामान्तर हैं। इसीसे आर्यदेवको एक जगह 'तत्त्वार्थसूत्र'का और दूसरी जगह 'राद्वान्त' का कर्ता लिखा है और पुष्पदन्त, भूतबल्यादि आचार्यों-द्वारा विरचित सिद्धान्तशास्त्रको भी तत्त्वार्थशास्त्र या तत्त्वार्थमहाशास्त्र कहा जाता है। इन सिद्धान्त शास्त्रोंपर तुम्हुलाराचार्यने कनडी भाषामे 'चूडामणि नामकी एक बड़ी टीका लिखी है, जिसका परिमाण इन्द्रनन्दिकृत 'श्रुतावतार'में ८४ हजार और 'करण्टिकशब्दानुशासन' में ६६ हजार श्लोकोंका बतलाया है। भट्टाकलंकदेवने, क्षे अपने 'करण्टिक शब्दानुशासन' में कनडी भाषाकी

‡ यह गाथावद 'भगवती आराधना' शास्त्रके एक अधिकारका नाम है।

† यथा—(१)“.....प्रवर्ति तत्त्वार्थसूत्रकतुंगल् एनिसिद् आर्यदेवर...!”
 —नगरताल्लुकेका शि० लेख नं० ३५

(२)“आचार्यवस्यो यतिरार्थं देवो राद्वान्तकर्ता ध्रियता स मृच्छि ।
 —अवण्वेल्युल शिलालेख नं० ५४ (६७)

क्षे ये 'अष्टशती' आदि ग्रन्थोंके कर्तासे भिन्न दूसरे भट्टाकलंक हैं, जो विकल्पकी १७वीं शताब्दीमें हुए हैं। इन्होने करण्टिकशब्दानुशासनको ई० सन् १६०४(शक-१५२६) में बनाकर समाप्त किया है।

उपयोगिताको- जलताते हुए, इस टीकाका निम्न प्रकारसे उल्लेख † किया है—

“ न चैष (कण्टिक) भाषाशास्त्रानुपयोगिनी । तत्त्वार्थमहाशास्त्र-
व्याख्यानस्य परणावतिसहस्रप्रभितप्रन्थसंदर्भरूपस्य चूडामण्डभिधानस्य
महाशास्त्रस्यान्येणां च शब्दागम-युक्त्यागम-परमागम-विषयाणां तथा
काव्य-नाटक-कलाशास्त्र-विषयाणां च वहनां ग्रन्थानामपि भाषाकृतानामु-
पलब्धमानत्वात् ” ।

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि ‘चूडामणि’ जिन दोनों (कर्मप्राभृत और कषाय-
प्राभृत) सिद्धान्त-शास्त्रोंकी टीका कहलाती है, उन्हे यहाँ ‘तत्त्वार्थमहाशास्त्र’के
नामसे उल्लेखित किया गया है । इससे ‘सिद्धान्तशास्त्र’ और ‘तत्त्वार्थशास्त्र’
दोनोंकी एकार्थताका समर्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता है कि कर्म-
प्राभृत तथा कषायप्राभृत ग्रंथ ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ कहलाते थे । तत्त्वार्थविषयक होनेसे
उन्हें ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ या ‘तत्त्वार्थसूत्र’ कहना कोई अनुचित भी प्रतीत नहीं होता ।

इन्हीं तत्त्वार्थशास्त्रोंमेंसे ‘कर्मप्राभृत’ सिद्धान्तपर समन्तभद्रने भी एक वि-
स्तृत संस्कृतटीका लिखी है जिसका परिचय पहले दिया जा चुका है और जिसकी
संख्या ‘इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार’के अनुसार ४८ हजार और ‘विद्युधीधर-विर-
चित-श्रुतावतार’के मतसे ६८ हजारश्लोक-परिमाण है । ऐसी हालतमें,
आदर्श नहीं कि कवि हस्तिमङ्गादिकने अपने उक्त पद्ममें^१समन्तभद्रको तत्त्वार्थसूत्र-
के जिस ‘गधहस्ति’ नामक व्याख्यानका कर्ता सूचित किया है वह यही टीका
अधिवा भाष्य हो । जब तक किसी प्रबल और समर्थ प्रमाणके द्वारा, बिना किसी
संदेहके, यह मालूम न हो जाय कि समन्तभद्रने उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रपर ही
‘गंधहस्ति’ नामक महाभाष्यकी रचना की थी तबतक उनके उक्त सिद्धान्तभाष्यको
गंधहस्तिमहाभाष्य माना जा सकता है और उसमें यह पद्म कोई बाधक प्रतीत
नहीं होता ।

(२) आराके जैनसिद्धान्त भवनमें ताडपत्रों पर लिखा हुआ, कन्ढी
भाषाका एक अपूर्ण ग्रंथ है, जिसका तथा जिसके कस्तिका नाम मालूम नहीं हो

^१ देखो, राइस साहबकी ‘हस्तिमङ्गांस एट शब्दरेक्षालोल’ नामकी पुस्तक
सन १८८६ की छपी हुई ।

सका, और जिसका विषय उमास्वातिके तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके तीसरे भाष्यायसे सम्बन्ध रखता है । इस ग्रंथके प्रारंभमें नीचे लिखा वाक्य मंगलाचरणके तौर पर भीटे शब्दरूपोंमें दिया हुआ है—

‘तत्त्वार्थव्याख्यानप्रणालेणवित्सहस्रगम्धस्तिमहाभाष्यविधायत(क)-
देवागमकवीश्वरस्याद्वादविद्याधिपतिसमन्तभद्रान्वयपेनुगोऽरडेयलक्ष्मीसे-
नाचार्यर दिव्यश्रीपादपद्मंगलिगो नमोस्तु ।’

इस वाक्यमें ‘पेनुगोष्ठे’के रहनेवाले लक्ष्मीसेन * भाष्यार्थके चरणकमलोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह बताया गया है कि वे उन समन्तभद्रान्वयके बंधार्थमें हुए हैं जिन्होने तत्त्वार्थके व्याख्यानस्वरूप ६६ हजार प्रथमपरिमाणको लिए हुए गंधस्ति नामक महाभाष्यकी रचना की है और जो ‘देवागम’के कवीश्वर तथा स्याद्वादविद्याके अधीश्वर (धर्मिपति) ये ।

यही समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे पहले दो विशेषण प्रायः वे ही हैं जो ‘विकान्तकौरव’ नाटक और ‘जिनेन्द्रिकल्याणाभ्युदय’ के उक्त पद्ममें—खासकर उसके पाठान्तरित रूपमें—पाये जाते हैं । विशेषता सिर्फ इतनी है कि इसमें ‘तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यान’की जगह ‘तत्त्वार्थव्याख्यान’ और ‘गंधस्ति’ की जगह ‘गंधस्तिमहाभाष्य’ऐसा स्पष्टोलेख किया है । साथही, गंधस्तिमहाभाष्यका परिमाण भी ६६ हजार दिया है, जो उसके प्रचलित परिमाण (चौरासी हजार) से १२ हजार अधिक है ।

* लक्ष्मीसेनाचार्यके एक शिष्य मल्लिवेणुदेवकी निषद्धाका उल्लेख अवण्डेश्वोलके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता है और वह शिलालेख ५० सन् १४०० के करीबका बतलाया गया है । संभव है कि इन्ही लक्ष्मीसेनके शिष्यकी निषद्धाका वह उल्लेख हो और इससे लक्ष्मीसेन १४ वी शताब्दीके लगभगके विद्वान हों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्वानोंका और भी पता चला है परन्तु वे १६ वी और १८ वी शताब्दीके भाषार्थ हैं ।

किंकमकी १२वी शताब्दीके विद्वान् कवि मुण्डवर्मने भी अपने कश्मीरार्थी रचे गये पुष्पदन्तपुराणमें समन्तभद्रके गंधस्तिभाष्यको उल्लेख करते हुए उसकी भाष्यतंत्रका ६६ हजार दी है ।

इस उल्लेखसे भी 'देवागम' के एक स्वतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेका पता चलता है, और यह मालूम नहीं होता कि गंधहस्तमहाभाष्य जिस 'तत्त्वार्थ' ग्रन्थका संस्कार है वह उमास्वातिका 'तत्त्वार्थसूत्र' है या कोई दूसरा तत्त्वार्थ-सास्त्र; और इसलिये, इस विषयमें जो कुछ कल्पना और विवेचना ऊपर की गई है उसे यथासंभव यहाँ भी समझ लेना चाहिये। रही ग्रन्थसंस्कारी बात, वह बेशक उसके प्रचलित परिमाणसे भिन्न है और कमप्राभृतीकाके उस परिमाणसे भी भिन्न है जिसका उल्लेख इन्द्रनन्दी तथा विद्युष श्रीधरके 'श्रुतावतार' नामक ग्रन्थोंमें पाया जाता है। ऐसी हालतमें यह सौजनेकी ज़रूरत है कि कौनसी संस्कार ठीक है। उपलब्ध जैनसाहित्यमें, किसी भी आचार्यके ग्रन्थ ग्रन्थानुसार शिलालेख परसे प्रचलित संस्कार कोई समर्थन नहीं होता प्रथम, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे गंधहस्त महाभाष्यकी श्लोक-संस्कार ८४ हजार पाई जाती हो;—बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आता जिससे यह मालूम होता हो कि समन्तभद्रने ८४ हजार श्लोकसंस्काराला कोई ग्रन्थ निर्माण किया है, जिसका सम्बन्ध गंधहस्त महाभाष्यके साथ मिला लिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित संस्कारा मूल मालूम न होनेसे उसपर संदेह किया जासकता है। श्रुतावतारमें 'चूडामणि' नामके कन्दी भाष्य-की संस्कार ८४ हजार दी है; परंतु कर्णाटिक शब्दानुशासनमें भट्टाकलंकदेव उसकी संस्कार ६६ हजार लिखते हैं और यह संस्कार स्वयं ग्रन्थको 'उपलभ्यमान' बतलाया है। इससे श्रुतावतारमें समन्तभद्रके सिद्धान्तागम-भाष्यकी जो संस्कार ४८ हजार दी है उसपर भी संदेहको अवसर मिल सकता है, ज्ञासकर ऐसी हालत में जब कि विद्युष श्रीधरके 'श्रुतावतार'में उसकी संस्कार ६८ हजार हो—अंकोंके लिये आगे

लिये आगे पीछे लिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वह कभी-कभी जल्दीमें हो जाया करता है। उदाहरणके लिये डा० सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी ऑफ इंडियन लाजिक'को लीजिये, उसमें उमास्वातिकी आयुका उल्लेख करते हुए ६४ की जगह ४८ वर्ष, इसी अंकोंके आगे पीछेके कारण, लिखे गये हैं। अन्यथा, डॉक्टर साहबने उमास्वातिका समय ईसवी सन् १ से ८५ तक दिया है। वे यदि इसे न देते तो वहाँ आयुके विषयमें और भी ज्यादा भ्रम होना संभव था।

पीछे लिखे जानेसे कहीं पर ४८ हजार लिखी गई हो और उसीके आधारपर ४८ हजारका गलत उल्लेख कर दिया गया हो—या ६६ हजार हो अथवा ६८ हजार वर्गरह कुछ और ही हो; और यह भी संभव है कि उक्त वाक्यमें जो संख्या दी गई है वही ठीक न हो—वह किसी गलतीसे ८४ हजार या ४८ हजार आदिकी जगह लिखी गई है हो। परन्तु इन सब बातोंके लिये विशेष अनुसंधान तथा खोजकी ज़रूरत है और तभी कोई निश्चित बात कही जा सकती है। हाँ, उक्त वाक्यमें दी हुई महाभाष्यकी संख्या और किसी एक श्रुताचतारमें दी हुई समन्तभद्रके सिद्धान्तागमभाष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य साबित हों तो यह ज़रूर कहा जा सकता है कि समन्तभद्रका गंधहस्तिमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागमभाष्य (कर्मप्राभृत-टीका) से भिन्न है, और वह उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका भाष्य ही सकता है।

(३) श्रीचामुण्डरायन, अपने कण्ठिक भाषा-निबद्ध विविधलक्षणपुराणके निम्न पद्यमें, समन्तभद्रके तत्त्वार्थभाष्यका उल्लेख किया है—

“अभिमत्तमग्निरे तत्त्वार्थभाष्यम् तर्कं शास्त्रम् वरदु वचो—।
विभवदिनिलेगेसेद समन्तभद्रदेवर समानरैवरुमोतारे ॥ ५ ॥”

यह पुराण शक सं० ६०० (वि० १०३५) में बनकर समाप्त हुआ है। इसमें समन्तभद्रके जिस तत्त्वार्थभाष्यका उल्लेख है उसे ‘तर्कशास्त्र’ बतलाया गया है, जिससे वह तर्कशीलीकी प्रधानताको लिये हुए जान पड़ता है, उसकी संख्यादिका यहाँ कोई निर्देश नहीं है।

(४) उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर ‘राजवार्तिक’ और ‘श्लोकवार्तिक’ नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो क्रमशः अकलंकदेव तथा विद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं। ये वार्तिकके ढंगसे लिखे गये हैं और ‘वार्तिक’ ही कहलाते हैं। वार्तिकोंमें उक्त, अनुकूल और दुरुकूल—कहे हुए, बिना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए—तीनों प्रकारके अर्थोंकी चिन्ता, विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करती है। जैसा कि श्रीहेमचन्द्राचार्यप्रतिपादित ‘वार्तिक’के निम्न लक्षणसे प्रकट है—

उक्तानुकुलुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम् ।

† A rule which explains what is said or but imperfectly said and supplies omissions. (V. S. Apte's dictionary)

इससे वार्तिक-भाष्योंका +परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ जाता है। जैसे सर्वार्थसिद्धिसे राजवार्तिकका और राजवार्तिकसे श्लोकवार्तिकका परिमाण बढ़ा हुआ है। ऐसी हालतमें उक्त तत्त्वार्थसूत्रपर समन्तभद्रका ८४ वा १६ हजार श्लोकसंख्यावाला भाष्य यदि पहलेसे मौजूद था तो अकलंकदेव और विद्यानन्दके वार्तिक-भाष्योंका अलग अलग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था; परन्तु बढ़ना तो दूर रहा वह उल्टा उससे कई गुणा कम है। इससे यह न तो ज्ञानिकलता है कि या तो समन्तभद्रने उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र पर वैसा कोई भाष्य नहीं लिखा—उन्होंने सिद्धान्तग्रन्थपर जो भाष्य लिखा है वही 'गच्छहस्ति महाभाष्य' कहलाता होगा—और या लिखा है तो वह अकलंकदेव तथा विद्यानन्दसे पहले ही नष्ट हो चुका था, उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ।

(५) शाकटायन व्याकरणके 'उपज्ञाते' सूत्रकी टीकामें टीकाकार शीघ्रस्यचन्द्रसूरि^५ लिखते हैं—

+ वार्तिकभाष्योंसे जिन दूसरे प्रकारके भाष्यों अथवा टीकाओंका परिमाण भी बढ़ जाता है, ऐसा अभिप्राय नहीं है। वह चाहे जितना कम भी हो सकता है।

* यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८२ वां सूत्र है और शीघ्रस्यचन्द्रसूरिके मुद्रित 'प्रक्रियासंग्रह'में इसका क्रमिक नं० ७४६ दिया है। देखो, कोल्हापुरके 'जिनेन्द्रमुद्रणालय'में छपा हुआ सन् १६०७ का संस्करण।

^५ ये शीघ्रस्यचन्द्रसूरि वे ही शीघ्रस्यचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मालूम होते हैं जो केशवदर्शीके गुरु तथा 'गोमटसार'की 'मन्दप्रबोधिका' टीकाके कर्ता थे, और 'लघीयस्त्रय'के टीकाकार भी ये ही जान पड़ते हैं। 'लघीयस्त्रय'की टीकामें टीकाकारने अपनेको मुनिचंद्रका शिष्य प्रकट किया है और भंगलाचरणमें मुनि-चंद्रको भी नमस्कार किया है; 'मन्दप्रबोधिका' टीकामें भी 'मुनि'को नमस्कार किया गया है और शाकटायन व्याकरणकी इस 'प्रक्रियासंग्रह' टीकामें भी 'मुनीन्द्र'को नमस्कार पाया जाता है और वह 'मुनीन्द्र' (= मुनिचंद्र) का पाठान्तर भी हो सकता है। साथ ही, इन तीनों टीकाओंके संश्लेषणमें शीली भी एक पाई जाती है—प्रत्येकमें अपने गुच्छे 'सिद्धायम्, मुनिचंद्रकर्ता तथा जिनेश्वर' (चिनामीति) के भी नमस्कार किया गया है और 'दीक्षा, करतोऽस्मि' प्रतिश्लोक

“तुरीयान्तदुपज्ञाते प्रथमतोज्ञाते यथायोगं अणादयो भवन्ति ॥
आर्हता प्रथमतो ज्ञाते आर्हते प्रवचनं । सामन्तभद्रं महाभाष्यमित्यादि ॥”

यही तृतीयान्तसे उपज्ञात अर्थमें धरणादि प्रथयोंके होनेसे जो रूप होते हैं उनके दो उदाहरण दिये गये हैं—एक ‘आर्हत-प्रवचन’ और दूसरा सामन्तभद्र महाभाष्य’। साथ ही, ‘उपज्ञात’का अर्थ ‘प्रथमतो ज्ञात’—विना उपदेशके प्रथम-जाना हुआ—किया है। अमरकोशमें भी ‘आद्य ज्ञान’को ‘उपज्ञा’ लिखा है। इस अर्थकी हृषिसे अहंतके द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचनको जिस प्रकार ‘आर्हत प्रवचन’ कहते हैं उसी प्रकार (समन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेशोनज्ञात सामन्त-

साथ टीकाका नाम भी दिया है। इससे ये तीनों टीकाकार एक ही व्यक्ति मालूम होते हैं और मुनिचब्रके शिष्य जान पड़ते हैं। केशवबर्णने गोमटसारकी कन्डी टीका शक सं० १२८१ (वि० सं० १४१६) में बनाकर समाप्त की है, और मुनिचब्र विक्रमकी १३ वी १४ वी शताब्दीके विद्वान् थे। उनके भृत्यत्व समयका एक उल्लेख सौंदर्तिके शिलालेखमें शक सं० १५१ (वि० सं० १२८६) का और दूसरा अवणावेलोलके १३७ (३४७) नंबरके शिलालेखमें शक सं० १२०० (वि० सं० १३३५) का पाया जाता है। इस लिए ये अभयचंद्रसूरि विक्रमकी प्रायः १४ वी शताब्दीके विद्वान् मालूम होते हैं। बहुत संभव है कि वे अभयसूरि संदान्तिक भी ये ही अभयचंद्र हों जो ‘श्रुतमुनि’के शास्त्रगुरु ये और जिन्हें श्रुतमुनि के ‘भावसंग्रह’की प्रशस्तिमें शब्दागम, परमागम और तकागिमके पूर्ण जानकार (विद्वान्) लिखा है। उनका समय भी यही पाया जाता है; क्योंकि श्रुतमुनिके अरण्यनगर और गुरुभाई बालचंद्र मुनिने शक सं० ११६५ (वि० सं० १३३०) में ‘द्रव्यसंप्रहृसूत्र पर एक टीका लिखी है (देखो ‘करण्टिकविचरिते’)। परन्तु श्रुतमुनिके दीक्षागुरु अभयचंद्र संदान्तिक इन अभयचंद्रसूरिसे भिन्न जान पड़ते हैं; क्योंकि अवणावेलोलके शि० लेख नं० ४१ और १०५ में उन्हें माधवनंदीका शिष्य लिखा है। लेकिन समय उनका भी विक्रमकी १३ वी १४ वी शताब्दी है। अभयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वानोंका अस्तित्व विक्रमकी १६ वी घोर, १७ वीं शताब्दियोंमें पाया जाता है, परन्तु वे इस ‘प्रक्रियासंग्रह’के कर्ता मालूम नहीं होते।

भ्रं) समन्तभद्रके हारा बिना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको 'सामन्तभद्र महाभाष्य' कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये; और इससे यह घटनि निकलती है कि समन्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपन्न भाष्य है— उन्हीके किसी ग्रन्थपर रचा हुआ भाष्य है। [ग्रन्थया, इसका उल्लेख टः प्रोक्तः* सूत्रकी टीका में किया जाता, जहाँ 'प्रोक्तः' तथा 'व्याख्यातः' अर्थमें इन्ही प्रत्ययोंसे बने हुए रूपोंके उदाहरण दिये हैं और उनमें सामन्तभद्र' भी एक उदाहरण है परन्तु उसके साथमें 'महाभाष्य' पद नहीं है क्योंकि इसरेके ग्रथ पर रचे हुए भाष्यका अधिकारी यों कहिये कि उस ग्रन्थके अधिकारीका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता बल्कि मूल ग्रन्थकारको होता है। परन्तु यहा पर हमें इस चर्चामें अधिक जानेकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस उल्लेख परसे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि इसमें समन्तभद्रके महाभाष्यका उल्लेख है और उसे 'गंधहस्ति' नाम न देकर 'सामन्तभद्र महाभाष्य'के नामसे ही उल्लेखित किया गया है। परन्तु इस उल्लेखसे यह मालूम नहीं होता कि वह माध्य कौनसे ग्रन्थपर लिखा गया है। उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रकी तरह वह कर्मप्राभृत सिद्धान्तपर या अपने ही किसी ग्रन्थपर लिखा हुआ भाष्य भी हो सकता है। ऐसी हालतमें, महाभाष्यके निर्माणका कुछ पता चलनेके सिवाय, इस उल्लेखसे और किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती।

(६) स्पादादमजरी का नामके श्वेताम्बर ग्रंथमें एक स्थानपर 'गंधहस्ति' आदि ग्रन्थोंके हवानेसे अवश्य और प्रदेशके भेदका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

"यश्यप्यवयवप्रदेशयोर्गंधहस्त्यादिषु भेदोऽस्ति तथापि नात्र सूक्ष्मे-क्षिका चिन्त्या ।"

* यह उसी तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १६६ वाँ सूत है; और प्रक्रियासंग्रहमें इसका क्रमिक नं० ७४३ दिया है।

का यह हेमचन्द्राचार्य-विरचित 'ग्रन्थयोगव्यवच्छेद-द्वार्तिशिका'की टीका है जिसे मलिलबेणसूरिने शक सं० १२१४ (वि० सं० १३५१) में बनाकर समाप्त किया है।

इस उल्लेखसे सिर्फ़ 'गंधार्हस्ति' नामके एक ग्रन्थका पता चलता है परन्तु वह मालूम नहीं होता कि वह मूल ग्रन्थ है या टीका, दिगम्बर है या श्वेताम्बर और उसके कत्तका क्या नाम है। हो सकता है कि, इसमें 'गंधार्हस्ति' से समन्तभद्रके गंधार्हस्तिमहाभाष्यका ही अभिप्राय हो, जैसाकि ५० जवाहरलाल शास्त्रीने ग्रन्थकी भाषाटीकामें सूचित किया है; परन्तु वह श्वेताम्बरोंका कोई ग्रन्थ भी हो सकता है जिसकी इस प्रकारके उल्लेख-अवसरपर प्रधिक संभावना पाई जाती है। क्योंकि दोनों ही सम्प्रदायोंमें एक नामके अनेक ग्रन्थ होते रहे हैं— और नामोंकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बौद्धों तकमें पाई जाती है। अतः इस नाममात्रके उल्लेखसे किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती।

(७) 'न्यायदीपका' * में आचार्य बर्मभूषणने अनेक स्थानों पर 'आसमीमांसा' के कई पद्धोंको उद्धृत किया है; परन्तु एक जगह सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए, वे उसके 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्थीः' नामक पद्धको निम्न वाक्यके साथ उद्धृत करते हैं—

“तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावाममीमांसाप्रस्तावे—”

इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी आदिमें 'आसमीमांसा' नामका भी एक प्रस्ताव है—प्रकरण है—और ऐसा होना कोई भस्वाभाविक नहीं है; एक ग्रन्थकार अपनी किसी कृतिको उपयोगा समझकर अनेक ग्रन्थोंमें भी उद्धृत कर सकता है। परन्तु इससे यह मालूम नहीं होता कि वह महाभाष्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका ही भाष्य है। वह कर्मप्राभृत नामके सिद्धान्तगास्त्रका भी भाष्य हो सकता है और उसमें भी 'आसमीमांसा' नामके एक प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय 'आसमीमांसाप्रस्तावे' पदमें आये हुए 'आसमीमांसा' शब्दोंका वाच्य यदि समन्तभद्रका संपूर्ण 'आसमीमांसा' नामका दशपरिच्छेदात्मक ग्रन्थ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी मालूम नहीं होता कि वह आसमीमांसा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगलाचरण है, बल्कि वह उसका एक प्रकरण जान पड़ता है। प्रस्ताव या प्रकरण होना और बात है और

* यह ग्रन्थ शक सं० १३०७ (विं सं० १४४२)में बनकर समाप्त हुआ है और इसके रचयिता बर्मभूषण 'अभिनव बर्मभूषण' कहलाते हैं।

मगलाचरण होना दूसरी बात। एक प्रकरण मगलात्मक होते हुए भी टीकाकारोंके मगलाचरणकी भाषामें मगलाचरण नहीं कहलाता। टीकाकारोंका मगलाचरण अपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको लिए हुए या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादात्मक और कभी कभी उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है, प्रथवा इष्टकी स्तुति-ध्यानादिपूर्वक टीका करने की प्रतिज्ञाको ही लिये हुए होता है, परन्तु वह एक ग्रन्थके रूपमें अनेक परच्छेदोंमें बटा हुआ नहीं देखा जाता। आप्तमीमांसमें ऐसा एक भी पद नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक हो प्रथवा इष्टकी स्तुतिध्यानादिपूर्वक टीका करनकी प्रतिज्ञाको लिए हुए हो, उसके अन्तिम पद्धतें भी यह मालूम नहीं होता कि वह किस ग्रन्थका मगलाचरण है और यह बात पहले जादिर की जा चुकी है कि उसमें दशपरिच्छशोका जो विभाग है वह स्वयं समन्वयनभद्राचायका किया हुआ है। ऐसी हालतमें यह प्रनीत नहीं होता कि आप्तमीमांसा गवहस्तिमहाभाष्यका आदिम मगलाचरण है—प्रथत् वह भाष्य ‘देवागमनभोयानचामरादिविभूतिय । मायाविष्वपि-हृश्यन्ते नातस्त्वमसि ना महान् ॥’ इस पद्धतें भी प्रारम्भ होता है और इससे पहले उसमें कोई दूसरा मगल पद्धति प्रथवा वाक्य नहीं है। हो सकता है कि समन्वयनभद्रन महाभाष्यकी आदिम आप्तके गुणोंकोई खास स्तब्दन किया हो और फिर उन गुणोंकी परीक्षा करने प्रथवा उनके विषयमें अपनी शब्दाशीर गुणज्ञताको समूचित करने आदिके लिये ‘आप्तमीमांसा’ नामके प्रकरणकी रचना की हो प्रथवा पहलेसे रखे हुए अपने इस ग्रन्थके बहा उद्भृत किया हो। और यह भी हो सकता है कि मूलग्रन्थके मगलाचरणको ही उन्होंने महाभाष्यका मगलाचरण स्वीकार किया हो जैसे कि पूज्यपादकी बाबत अनक विद्वानोंका कहना है कि उन्होंने नव्यार्थसूत्रके मगलाचरणको ही अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकाका मगलाचरण बनाया है और उससे मिलन टीकामें किसी नये मगलाचरणका विधान नहीं किया था। दोनों ही हालतोंमें ‘आप्तमीमांसा’ प्रकरणसे पहले दूसरे मगलाचरणका—प्राप्तस्तब्दन—होना छहरता है, जिसकी समावना अभी बहुत कुछ विचारणीय है।

कि परन्तु किनने ही विद्वान् इस भत्तसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे चलकर मीमांसा होगा ।

(८) आसमीमासा (देवागम) की 'घट्टसहस्री' टीका पर लघु ६८ समन्त भद्रन 'विषमपदतात्पयटीका नामकी एक टिप्पणी लिखा है, जिसकी प्रस्तावना-का प्रथम वाक्य इस प्रकार है —

"इह हि । खलु पुरा स्वकीय-निरवद्य विद्या-सथम-सपदा गणधर-प्रत्येकबुद्ध-श्रुतके लिं दशपूर्वाणा सूत्रकृम्महर्षीणा महिमानमात्मसाकुर्वद्विर्भगवद्विरुमास्वातिपादैराचार्यवैरासूत्रितस्य तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गधहस्त्याख्य महाभाष्यमुपनिबध्नत स्याद्वाद्विज्ञाप्रगुरुव श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यास्तत्र किल इमगलपुरस्सर-स्तव-विषय-परमाम-गुणातिशय परीक्षामुपक्षिपत्वन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीथस्य स्-

६९ " १० सतीशबन्द्रन अपनी 'हिस्टरी आफ इडियन लाजिक मे, लघुसमन्त-भद्रको ई० सन् १११० (वि० स० १०७७) के करीबका विद्वान् लिखा है । परन्तु विना किसा हतुके उनका यह लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि घट्टसहस्रीके अत्रम 'केचित्' शब्दपर टिप्पणी देते हुए, लघुसमन्तभद्र उसमे वसुनन्दि आचार्य और उनकी दबागमवृत्तिका उल्लेख करते हैं । यथा— "वसुनन्दिप्राचार्या केचिच्छब्दन ग्राहा यतस्त्वरेव स्वस्य चृत्यन्ते लिखितोय इलोक इत्यादि । और वसुनन्दि आचार्य विक्रमकी १२ वी शताब्दीम हुए हैं, इसलिये लघुसमन्तभद्र सम्भवत विक्रमकी १३ वी शताब्दीसे पहले नहीं हुए । रत्नकरण-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाम 'चिङ्क (लघु) समन्तभद्र के विषयमे जो कुछ उल्लेख किया गया है उसे ध्यानमे रखते हुए ये विक्रमकी प्राय १४ वी शताब्दीके विद्वान् मालूम होते हैं और यदि 'माघनन्दी' नामान्तरको लिये हुए तथा अमरकीर्तिके विषय न हो तो ज्यादेसे ज्यादा विक्रमकी १३ वी शताब्दीके विद्वान् हो सकते हैं ।

† यह प्रस्तावनावाक्य मुनिजिनविजयजीने पूनाके भण्डारकर इन्स्टटिउट की उस मन्त्र प्रतिपरमे उद्घृत करके भेजा था जिसका नम्बर ६२० है ।

‡ मगलपुरस्सरस्तवोहि शास्त्रावतार-नवित-स्तुतिश्च्यते । मगल पुरस्सर-मस्त्रेति मगलपुरस्सर शास्त्रावतारकालस्तत्र रचित स्तवो मगलपुरस्सरस्तव इति व्याख्यानात् ।"

—घट्टसहस्री

ष्टुमापूर्यांचक्रिरे ।”

इस वाक्य-द्वारा, आचार्योंके विशेषणोंको छोड़कर, यह सास्तीर पर सूचित किया गया है कि स्वामो समन्तभद्रन उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थाणिगम—मोक्षशास्त्र पर ‘गन्धहस्त’ नामका एक महाभाष्य लिखा है, और उसकी रचना करते हुए उन्होने उसमें परम आत्मक मुण्डातिशयकी परीक्षाक अवसरपर ‘देवागम’ नामके प्रबन्धनीयकी सूष्टि भी है ।

यद्यपि इस उल्लेखसे गधहस्तमहाभाष्यकी श्लोकसंख्याका काई हाल मालूम नहीं होता और न यही पाया जाता है कि देवागम (आत्मीमासा) उसका मगलाचरण है, परन्तु यह वात बिलकुल स्पष्ट मालूम होती है कि समन्तभद्रका गधहस्त महाभाष्य उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर लिखा गया है और ‘देवागम’ भी उसीका एक प्रकरण है । जहा तक मैं समझता हूँ यही इस विषयका पहला स्पष्टोल्लेख है जो अभीतक उपलब्ध हुआ है । परन्तु यह उल्लेख किस आधारपर अवलम्बित है ऐमा कृच्छ मालूम नहीं होता । विक्रमकी बारहवी शताब्दीसे पहले-के जैनसाहित्यमें तो गधहस्तमहाभाष्यका कोई नाम भी अभीतक देखनमें नहीं आया और न जिस अष्टुसहस्री टीका पर यह टिप्पणी लिखी गई है उसमें ही इस विषयका कोई स्पष्ट विचान पाया जाता है । अष्टुसहस्रीकी प्रस्तावनासे सिफँ इतना मालूम होता है कि किसी नि श्रेयस शास्त्रके आदिमें किये हुए आत्मके स्तवनको लेकर उसके आशयका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये यह आत्मीमासा लिखी गई है ॥ । वह नि श्रेयसशास्त्र कौनसा और उसका वह स्तवन क्या है, इस वातकी पर्यालोचना करनेपर अष्टुसहस्रीके अन्तिम भागसे इतना पता चलता है कि जिस शास्त्रके आरम्भमें आत्मका स्तवन ‘मोक्षमाग-प्रणेता, कर्मभूभूद्देता और विश्वतस्वानां ज्ञाता’ रूपसे किया गया है उसी

* ‘तदेवेद नि श्रेयसशास्त्रस्यादौ तस्मिवन्धनतया मगलाचतया च मुनिमि-ससुतेन निरतिशयमुण्डेन भगवताप्लेन श्रेयोमार्यमात्महितमिच्छता सम्यग्मि-च्योपदेशाव॑विशेषप्रतिपत्यर्थमात्मीमासा विदधाना श्रद्धामुण्डताम्याँ प्रद्रक्ष-मनस, कस्माद् देवागमादिविभूतितोऽह महाश्रामिष्टुत इति स्फुट पृष्ठा इव स्वामिसमन्तभद्राचार्या प्राहुः—’

शास्त्रमें ‘निःश्रेयस शास्त्र’ का अभिप्राय है ६। इन विशेषणोंको लिये हुए आपके स्तवनका प्रसिद्ध इलोक निम्न प्रकार है—

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूषृताम् ।
ज्ञातारं विश्वतस्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे ॥

आपके इस स्तोत्रको लेकर, अष्टसहस्रीके कर्ता श्रीविद्यानन्दाचार्यने इसपर ‘आपपरीक्षा’ नामका एक ग्रन्थ लिखा है और स्वयं उसकी टीका भी की है । इस ग्रन्थमें परीक्षाद्वारा अहंतदेवको ही इन विशेषणोंसे विशिष्ट और बंदनीय ठहराते हुए, १२० वे नंबरके पदमें, ‘इति संहेपतोऽन्वयः’ यह वाक्य दिया है और इसकी टीकामें लिखा है—

“इति संहेपतः शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्य मुनिपुङ्गवैर्विधीयमान-स्यान्वयः संप्रदायाव्यवच्छेदलक्षणः पदार्थघटनालक्षणो वा लक्षणीयः प्रपञ्चतस्तदन्वयस्यात्तेषसमाधानलक्षणस्य श्रीमत्स्वामीसमंतभद्रदेवागमाख्यामीमांसाथा प्रकाशनात्... ।”

इस सब कथनमें इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि समन्तभद्रका देवागम नामक आपमीमांसा ग्रन्थ ‘मोक्षमार्गस्य नेतारं’ नामके पदमें कहे हुए आपके स्वरूपको लेकर लिखा गया है; परन्तु यह पद कौनसे निःश्रेयस (मोक्ष) शास्त्रका पद है और उसका कर्ता कौन है, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई । विद्यानन्दाचार्य, आपपरीक्षाको समाप्त करते हुए, इस विषयमें लिखते हैं—

श्रीमत्स्वार्थशास्त्राद्वुतसलिलनिधेरिद्वरत्नोद्भवस्य,

प्रोत्यानारंभकाले सकलमलभिदे शास्त्रकरैः कुर्त यत् ।

स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपृथुपथं स्वामीमांसितं तत् ,

विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्याथसिद्धैः ॥१२३॥

इस पदसे सिर्फ़ इतना पता चलता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, जिसकी स्वामी समंतभद्रने मीमांसा और विद्यानन्दने परीक्षा की, तत्त्वार्थशास्त्ररूपी अद्भुत

६ “शास्त्रारंभेष्ठुतस्यासस्य मोक्षमार्गप्रणेतृतया कर्मभूषद्वैतृतया विश्वतस्त्वाना ज्ञातृतया च भगवदर्हत्सवंशस्यैवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपर-परीक्षेयं विहिता ।”

समुद्रके प्रोत्थानका—उसे ऊँचा उठाने या बढ़ानेका—आरम्भ करते समय शास्त्रकारद्वारा रचा गया है। परन्तु वे शास्त्रकार महोदय कौन हैं, यह कुछ स्पष्ट मालूम नहीं होता। विद्यानन्दने आत्मपरीक्षाकी टीकामें शास्त्रकारको सूत्र-कार सूचित किया है और उन्हीं 'मुनिपुंगव'का बनाया हुआ उक्त गुणस्तोत्र लिखा है परन्तु उनका नाम नहीं दिया। हो सकता है कि आपका अभिप्राय 'सूत्रकार'से 'उमास्वाति' महाराजका ही हो; क्योंकि कई स्वानोंपर आपने उमास्वातिके बचनोंको सूत्रकारके नामसे उद्धृत किया है परन्तु केवल सूत्रकार या शास्त्रकार शब्दोंपरसे ही—जो दोनों एक ही अर्थके वाचक हैं—उमास्वातिका नाम नहीं निकलता; क्योंकि दूसरे भी कितने ही प्राचार्य सूत्रकार अथवा शास्त्र-कार हो गए हैं, समन्तभद्र भी शास्त्रकार थे, और उनके देवागमादिषु ग्रन्थ सूत्रग्रन्थ कहलाते हैं। इसके सिवाय, यह बात अभी विवादग्रस्त चल रही है कि उक्त 'मोक्षमार्गस्य नेतार' नामका स्तुतिपद्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण है। कितने ही विद्वान् इसे उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण मानते हैं, और बालचन्द्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिछले टीकाकारोंने भी अपनी अपनी टीकामें ऐसा ही प्रतिपादन किया है। परन्तु दूसरे कितने ही विद्वान् ऐसा नहीं मानते, वे इसे तत्त्वार्थसूत्रकी प्राचीन टीका 'सर्वार्थसिद्धि' का मंगलाचरण स्वीकार करते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं कि यदि यह पद्य तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण होता तो सर्वार्थसिद्धि-टीकाके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्य इसकी ऊरुर व्याख्या करते, लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके मंगलाचरणके तौर पर दिया है और इस लिये यह पूज्यपादकृत ही मालूम होता है। सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें, पं० कलाप्णा भरमाप्णा निटवे भी, श्रुत-सागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं, और साथ ही, एक हेतु यह भी देते हैं कि नत्त्वार्थसूत्रकी रचना द्वैपायक ३ के प्रश्नपर हुई

की “देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदृशंनाम्नितः”—विज्ञान्तकौरव ।

इ श्रुतसागरी टीकाकी एक प्रतिमें ‘द्वैपायक’ नाम दिया है, और बालचन्द्र मुनिकी टीकामें ‘सिद्धम्य’ ऐसा नाम पाया जाता ह। देखो, जनवरी सन् १९२१ का जैनहितीबी, पृ० ८०, द१।

है और प्रश्नका उत्तर देते हुए बीचमें मंगलाचरणका करना प्रप्रस्तुत जान पड़ता है; हसरे वस्तुनिर्देशको भी मंगल माना गया है जिसका उत्तरद्वारा स्वतः विवाल हो जाता है और इसलिये ऐसी परिस्थितिमें पृथक् रूपसे मंगलाचरणका किया जाना कुछ संगत मालूम नहीं होता। भूमिकाके बे बाक्य इस प्रकार हैं—

“सर्वार्थसिद्धिप्रथारभे ‘मोक्षमार्गस्य नेतारमिति’ श्लोकों वतते स तु सूत्रकृता भगवदुमाश्वातिनैव विरचित इति श्रुतसागराचार्यस्याभिमत-मिति तत्प्रणीतश्रुतसागरार्थस्यवृत्तिः स्पष्टमवगम्यते । तथापि श्रीमत्पूज्य-पादाचार्येणाव्याख्यातत्वादिदं श्लोकनिर्माणं न सूत्रकृतः किंतु सर्वार्थ-सिद्धिकृत एवेति निर्विवादम् । तथा एतेषा सूत्राणां हौपायक-प्रश्नोपर्दु-त्तरत्वेन विरचनं तैरेवाङ्गीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मगलस्या-प्रस्तुतत्वाद्वस्तुनिर्देशस्यापि भंगलत्वेनाङ्गीकृतत्वाचोपरितनः सिद्धान्तं एव दाह्य माप्नोतीत्युहा’ सुधीमिः ॥”

प० वंशीघरजी, आष्टसहस्रीके स्वसपादित सस्करणमें, प्रथक्तर्त्ताओंका परिचय देते हुए, लिखते हैं कि समन्तभद्रने गन्धहस्तिमहाभाष्यकी रचनाकरते हुए उसकी प्रादिमें इस पद्धतेके द्वारा प्राप्तका स्तबन किया है और फिर उसकी परीक्षाके लिये ‘आप्तमीमांसा’ ग्रन्थकी रचना की है । यथा—

“भगवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहाभाष्यनामानं तत्त्वार्थोपरि टीकाप्रभ्यं चतुरशीतिसहस्रानुद्भुभ्मात्रं विरचयत । तदादौ ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ इत्यादिनैकेन पद्येनासः स्तुतः । तत्परीक्षणार्थं च ततोमे पञ्चद-शाधिकशतपद्यैराप्तमीमांसाप्रन्थोभ्यधायि ।”

कुछ विद्वानोंका कहना है कि ‘राजवातिक’ टीकामें शकलंकदेवने इस पद्धतिको नहीं दिया—इसमें दिये हुए आपके विशेषणोंकी चर्चा तक भी नहीं की—और न विद्यानंदने ही अपनी ‘श्लोकवार्तिक’ टीकामें इसे उद्घृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्धिके बाबकी दो प्राचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें यह पद्धति नहीं पाया जाता, और इससे यह मालूम होता है कि इन प्राचीन टीकाकारोंने इस पद्धतिको मूलग्रन्थ (तत्त्वार्थसूत्र) का अंग नहीं माना । अन्यथा, ऐसे महत्वशाली पद्धतिको छोड़कर लण्ठनरूपमें ग्रन्थके उपरिथित करनेकी कोई बजह नहीं थी जिस पर ‘आप्तमीमांसा’ जैसे महान् ग्रन्थोंकी रचना हुई हो ।

सनातनजैनग्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकर्में प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्रमें भी, जो कि एक प्राचीन मुटके परसे प्रकाशित हुआ है, मंगलाचरण नहीं है, और भी बम्बई-बनारस आदिसे प्रकाशित हुए मूल तत्त्वार्थसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकांश हस्तलिखित प्रतियोंमें भी वह नहीं देखा जाता और कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें वह पद्ध 'त्रैकाल्यं द्रव्यशट्कं,' 'उज्जोवण-भुज्जवणं' इन दोनों अथवा इनमें से किसी एक पद्धके साथ उपलब्ध होता है और इससे यह मालूम नहीं होता कि वह मूल ग्रन्थकारका पद्ध है बल्कि दूसरे पद्धोंकी तरह ग्रन्थके शुरूमें मंगलाचरणके तौरपर संग्रह किया हुआ जान पड़ता है। साथ ही श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो मूल तत्त्वार्थसूत्र प्रचलित है उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगलाचरण नहीं पाया जाता।

ऐसी हालतमें लघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका अष्टसहस्री ग्रन्थ भी कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता। और यदि यह मान भी लिया जाय कि विद्यानन्दने सूत्रकार या शास्त्रकारमें 'उमास्वाति' का और तत्त्वार्थशास्त्रसे उनके 'तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र' का उल्लेख किया है और इस लिये उक्त पद्धको तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका मंगलाचरण माना है तो इसमें अष्टसहस्री और आसपरीक्षाके उक्त कथनोंका सिर्फ इतना ही नतीजा निकलता है कि समन्त-भद्रने उमास्वातिके उक्त पद्धको लेकर उसपर उसी तरहसे 'आसमीमांसा' ग्रन्थकी रचना की है जिस तरहसे कि विद्यानन्दने उसपर 'आसपरीक्षा' लिखी है— अथवा यों कहिये कि जिस प्रकार 'आसपरीक्षा' की सुषिट श्लोकवातिक-भाष्यको लिखते हुए नहीं की गई और न वह श्लोकवातिकका कोई अंग है उसी प्रकारकी स्थिति गच्छहस्ति महाभाष्यके समन्वयमें 'आसमीमांसा' की भी हो सकती है, उसमें अष्टसहस्री या आसपरीक्षाके उक्त वचनोंसे कोई बाधा नहीं आती; और न उनसे यह लाजिमी आता है कि समूचे तत्त्वार्थसूत्रपर महा-

की 'समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र' के निम्न बाक्यसे भी कोई बाधा नहीं आती, जिसमें सांकेतिक रूपसे समन्तभद्रकी भारती (आप्तमीमांसा) को 'शृष्टिपिञ्चाचार्यके कहे हुए प्रकृष्ट मंगलके आशयको लिये हुए' बतलाया है—

“शृष्टिपिञ्च-भाषित-प्रकृष्ट-मंगलार्थिकाम् । ”

भाष्यकी रचना करते हुए 'आपत्तिमांसा' की सूष्टि की गई है और इसकिये बहु उसीका एक अंग है। हाँ, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि 'आपत्ति-परीक्षा' के उक्त १२३वें पदमें 'शास्त्रकार' से समन्वयभद्रका अभिप्राय है और इस लिये भंगलाचरणका वह स्तूति पद्म (स्तोत्र) उन्हीं का रचा हुआ है तो 'तत्त्वार्थशास्त्र' का अर्थ उमास्तातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त पदके 'प्रोत्थान' शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाला जा सकता है; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रका प्रोत्थान—उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना—महाभाष्य जैसे गृन्थोंके द्वारा ही होता है। और 'प्रोत्थान' का आशय यदि ग्रन्थकी उस 'उत्थानिका' से लिया जाय जो कभी कभी गृन्थकी रचनाका सम्बन्धादिक बतलानेके लिये शुरूमें लिखी जाती है, तो उससे भी उक्त आशयमें कोई बाधा नहीं आती; बल्कि 'भाष्यकार' को 'शास्त्रकार' कहा गया है यह भी स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि मूल तत्त्वार्थसूत्रमें वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो भंगलाचरणके बाद 'सर्वार्थसिद्धि' में पाई जाती और या महाभाष्यमें होगी। सर्वार्थसिद्धि टीकाके कर्ता भी कथंचित् उस 'शास्त्रकार' शब्दके बाच्य हो सकते हैं। रही भाष्यकारको शास्त्रकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध मालूम नहीं होता—तत्त्वार्थशास्त्रका अर्थ होनेसे जब उसके वार्तिक भाष्य या व्याख्यानको भी 'शास्त्र' कहा जाता* हैं तब उन वार्तिक-भाष्यादिके रचयिता स्वयं 'शास्त्रकार' सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

और यदि उमास्तातिके तत्त्वार्थसूत्रद्वारा तत्त्वार्थशास्त्ररूपी समुद्रका प्रोत्थान होनेसे 'प्रोत्थान' शब्दका बाच्य वही उक्त तत्त्वार्थसूत्र ही माना जाय तो फिर उसमें पहले 'तत्त्वार्थशास्त्राद्युतसलिलनिधि' का वह बाच्य नहीं रहेगा, उसका बाच्य कोई ग्रन्थविशेष न होकर सामान्य रूपसे तत्त्वार्थमहोदधि, द्वादशांगश्रूत या कोई प्रांग-पूर्वे ठहरेगा, और तब अष्टसहस्री तथा आपत्तिपरीक्षाके कथनोंका वही नतीजा निकलेगा जो ऊपर निकाला गया है—गंधर्हस्ति महाभाष्यकी

* जैसा कि 'श्लोकवार्तिक' में विद्यानंदाचार्यके निम्न बाच्योंसे भी प्रकट है—
 'प्रसिद्धे च तत्त्वार्थस्य शास्त्रत्वे तद्वार्तिकस्य शास्त्रत्वं सिद्धमेव तदर्थत्वात् ।
तदनेन तदव्याख्यानस्य शास्त्रत्वं निवेदितम् ॥ १ ॥'

रचनाका लाजिमी नतीजा उनसे नहीं निकल सकेगा ।

इसके सिवाय, आसमीमांसाके साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस प्रकार उक्त पद्धके अनुसरणकी या उसे अपना विचाराध्य बनानेकी कोई खास व्यवनि नहीं निकलती उसी प्रकार 'वमुनन्दि-वृत्ति' की प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह मालूम नहीं होता कि आसमीमांसा उक्त मंगलपद्ध (मोक्षमार्यस्य नेतारमि-त्यादि) को लेकर लिखी गई है, वह इस विषयमे अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन्न पाई जाती है और उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्र स्वयं सर्वज्ञ भगवानकी स्तुति करनेके लिये बैठे हैं—किसीकी स्तुतिका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं—उन्होंने अपने मानसप्रत्यक्ष-द्वारा सर्वज्ञको साक्षात् करके उनसे यह निवेदन किया है कि 'हे भगवन्, माहात्म्यके आधिक्य-कथनको 'स्तवन' कहते हैं और आपका माहात्म्य अतीन्द्रिय होनेसे मेरे प्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस निये मे किस तरहसे आपकी स्तुति करूँ ? उत्तरमे भगवान्की औरसे यह कहे जानेपर कि, हे बत्स ! जिस प्रकार दूसरे विद्वान् देवोंके आगमन और प्राकाशमें गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्यको समझकर स्तुति करते हैं उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते ?' समन्तभद्रने फिर कहा कि 'भगवन् ! इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान् नहीं ठहरते—मैं देवोंके आगमन और प्राकाशमें गमनादिकके कारण आपको पूज्य नहीं मानता—क्योंकि यह हेतु व्यभिचारी है, ' और यह कह कर उन्होंने आसमीमांसाके प्रथम पद्ध-द्वारा उसके व्यभिचारको दिखलाया है; आगे भी इसी प्रकारके अनेक हेतु-प्रयोगों तथा विकल्पोंको उठाकर आपने अपने ग्रन्थकी क्रमशः रचना की है

ऋग्मित्रीकी प्रस्तावनाके जो शब्द पीछे फुटनोटमें उद्दूत किये गये हैं उनसे यह पाया जाता है कि निःश्रेयसशास्त्रकी आदिमें दिये हुए मंगलपद्धमें आसका स्तवन निरतिशय गुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानों आस भगवानने समन्तभद्रसे यहपूछा है कि मैं देवागमादि विभूतिके कारण महान् हूँ, इस लिये इस प्रकारके गुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रेयस शास्त्रके कर्ता मुनिने मेरी स्तुति क्यों नहीं की ? उत्तरमें समन्तभद्रने आसमीमांसाका प्रथम पद्ध कहा है । और उसका ' नः ' पद खास तौरसे व्यान देने योग्य है ।

है और उसके द्वारा सभी आत्मोंकी परीका कर डाली है । वसुनन्दि-दृतिकी प्रस्तावनाके बे बाक्य इस प्रकार है—

“.....स्वभक्तिसमारप्रेक्षापूर्वकारित्वलक्षणप्रयोजनवद्गुणस्तवं कर्तुकामः श्रीमत्समन्तभद्राचार्यः सर्वज्ञं प्रत्यक्षीकृत्यैवमाचष्टे—हे भद्रारक संस्तवो नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथनं । त्वदीयं च माहात्म्यमतीन्द्रियं मम प्रत्यक्षागोचरं । अतः कर्थं मया स्तुयसे ॥ अत आह भगवान् ननु भो वत्स यथान्ये देवागमादिहेतोर्मम माहात्म्यमवबुध्य स्तवं कुर्वन्ति तथा त्वं किमिति न कुरुषे ॥ अत आह—आस्माद्देतोन महान् भवान् मां प्रति । व्यभिचारित्वादस्य हेतोः । इति व्यभिचारं दर्शयति—”

इस तरहपर, लघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहित्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ मालूम नहीं होता । बहुत संभव है कि उन्होंने अष्टसहस्री और आत्मपरीक्षाके उक्त वचनोंपरसे ही परम्परा-कथनके सहारेसे वह नतीजा निकाला हो, और यह भी संभव है कि किसी दूसरे ग्रन्थके स्पष्टलेखके आधार-पर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वे गंघहस्ति-महाभाष्यके विषयमें वैसा उल्लेख करने अथवा नतीजा निकालनेके लिये समर्थ हुए हों । दोनों ही हालतोंमें प्राचीन साहित्यपरसे उक्त कथनके समर्थन और यथेष्ट निर्णयके लिये विशेष अनुसंधानकी जरूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंको प्रयत्न करना चाहिए ।

ये ही सब उल्लेख हैं जो अभीतक इस ग्रन्थके विषयमें हमें उपलब्ध हुए हैं । और प्रत्येक उल्लेखपरसे जो बात जितने अशोर्में पाई जाती है उसपर यथाशक्ति कपर विचार किया जा चुका है । मेरी रायमें, इन सब उल्लेखोंपरसे इतना जरूर मालूम होता है कि ‘गंघहस्ति-महाभाष्य’ नामका कोई ग्रन्थ जरूर लिखा गया है, उसे ‘सामन्तभद्र-महाभाष्य’ भी कहते थे और खालिस ‘गंघहस्ति’ नामसे भी उसका उल्लेखित होना संभव है । परन्तु वह किस ग्रन्थपर लिखा गया— कर्मप्राभृत^५के माध्यसे भिन्न है या अभिन्न—यह अभी सुनिश्चितरूपसे नहीं

^५ समन्तभद्रका ‘कर्मप्राभृत’ सिद्धान्तपर लिखा हुआ भी उपलब्ध नहीं है । यदि वह सामने होता तो गंघहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्णयमें उससे बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी ।

कहा जा सकता। हाँ, उमास्वातिके 'तत्त्वार्थसूत्र'पर उसके लिखे जानेकी अधिक संभावना जरूर है; परन्तु ऐसी हालतमें, वह अष्टशती और राजवार्तिकके कर्त्ता प्रकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है। पिछले लेखोंके ग्रंथोंमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख मिलते हैं वे स्वयं महाभाष्यको देखार किये हुए उल्लेख मालूम नहीं होते—बल्कि परंपरा-कथनों-के आधारपर या उन दूसरे प्राचीन ग्रंथोंके उल्लेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते हैं, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिसमें 'देवागम' जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थके पद्धतोंको छोड़कर, महाभाष्यके नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धृत किया हो। इसके[†] सिवाय, 'देवागम' उक्त महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है यह बात इन उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती। हाँ, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो सकता है; परन्तु उसकी रचना 'गंधहस्ति' की रचनाके अवसरपर हुई या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादको महाभाष्यमें शामिल किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि 'देवागम (आत्मीयांसा)' एक बिल्कुल ही स्वन्तत्र ग्रन्थके रूपमें इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यको समंतभद्रकी कृति प्रकट करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमका भी नाम एक पुष्कर कृतिके रूपमें देना चर्चा समझा गया है और इस तरहपर 'देवागम' की प्रधानता और स्वन्तत्रताको उद्घोषित करनेके साथ साथ यह सूचित किया गया है कि देवागमके परिचयके लिये गंधहस्ति-महाभाष्यका नामोल्लेख पर्याप्त नहीं है—उसके नामपरसे ही देवागमका बोध नहीं होता। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'देवागम' गंधहस्ति-महाभाष्यका एक प्रकरण है तो 'युक्त्यनुशासन' भंग भी उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि 'युक्त्यनुशासनटीकाके प्रथम[‡] प्रस्तावनावा-

[†] टीकाका प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है—

"श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिरात्मीयासायामन्ययोगव्यवच्छेदाद्व्यवस्थापितेन
भगवता श्रीमताहंतान्त्यतीर्थकरपरमदेवेन मां परीक्य किं चिकीषेवो भवन्तः इति
ते पूष्टा इव प्राहुः—।"

क्यद्वारा श्रीविद्यानंद आचार्य ऐसा सूचित करते हैं कि आत्मीमांसा-द्वारा आत्मकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह ग्रंथ रखा गया है, और ग्रंथके प्रथम† पद्धतियों में आये हुए 'अथ'‡ शब्द परसे भी यह घटनि निकलती है कि उससे पहले किसी दूसरे ग्रन्थ अथवा प्रकारणकी रखना हुई है। ऐसी हालतमें, उस ग्रन्थ-राजको 'गंधहस्ती' कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 'देवागम' और 'युक्त्यनुशासन' जैसे महामहिमासम्पन्न मौलिक ग्रन्थरत्न भी प्रकरण हों। नहीं मालूम तब, उस महाभाष्यमें ऐसे कितने ग्रन्थरत्नोंका समावेश होगा। उसका लुप्त हो जाना निःसन्देह जैनसमाजका बड़ा ही कुर्भाग्य है।

रही महाभाष्यके मंगलाचरणकी बात, इस विषयमें, यद्यपि अभी कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, किर भी 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' नामक पद्धतिके मंगलाचरण होनेकी संभावना ज़रूर पाई जाती है और साथ ही इस बातकी भी संभावना है कि वह समन्तभद्र-प्रणीत है। परन्तु यह भी हो सकता है कि उक्त पद्धति उमास्थातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण हो और समन्तभद्रने उसे ही महा-भाष्यका प्रादिम मंगलाचरण स्वीकार किया हो, ऐसी हालतमें उन सब आक्षेपों के योग्य समाधानकी ज़रूरत रहती है जो इस पद्धतिको तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण मानने पर किये जाते हैं और जिनका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है। मेरी रायमें, इन सब बातोंको लेकर और सबका अच्छा निर्णय प्राप्त करनेके लिये, महा-भाष्यके सम्बन्धमें प्राचीन जैनसाहित्यको टोलनेकी अभी और ज़रूरत जान पड़ती है, और वह ज़रूरत और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ऊपर जितने भी उल्लेख मिले हैं वे सब विकल्पकी प्रायः ११वीं, १२वीं, १३वीं, १४वीं, और १५वीं

† युक्त्यनुशासनका प्रथम पद्धति इस प्रकार है—

"कीर्त्या महत्या भुवि वद्धमानं त्वा वद्धमानं स्तुतिगोचरत्वं ।

निनीषबः स्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं ॥"

‡ अथ अस्मिन्काले परीक्षाक्षात्समये (— इति विद्यानंदः)

प्रथति—इस समय—परीक्षाकी समाप्तिके अवसरपर—हम आपको—वीर-वद्धमानको—प्रपनी स्तुतिका विषय बनाना चाहते हैं—आपकी स्तुति करना चाहते हैं।

शताब्दियोंके उल्लेखनी है, उनसे पहले प्राचीनी वर्षोंके भीतरका एक भी उल्लेख नहीं है और यह समय इतना तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पर्वाहि न की जाय; बल्कि महाभाष्यके अस्तित्व, प्रचार और उल्लेखकी इस समयमें ही अधिक संभावना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता है। अतः पहले उल्लेखोंके साथ पिछले उल्लेखोंकी शृंखला और संगति ठीक बिठलाने के लिये इस बातकी खास ज़रूरत है कि १०वींसे ३री शताब्दी पीछे तकके प्राचीन जैनसाहित्यको सूब टटोला जाय—उस समयका कोई भी ग्रन्थ अथवा शिलालेख देखनेसे बाकी न रखा जाय—, ऐसा होने पर इन पिछले उल्लेखोंकी शृंखला और संगति ठीक बैठ सकेनी और तब वे और भी ज्यादा बजनदार ही जाएंगे। साथ ही, इस द्वौँ-खोजसे समन्तभद्रके दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रन्थों तथा जीवन-वृत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो उनके परिचयमें निवद्ध नहीं हो सके और जिनके मालूम होनेपर समन्तभद्रके इतिहासका और भी ज्यादा उद्धार होना संभव है। आशा है कि अब पुरातत्वके प्रेमी और समन्तभद्रके इतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् जरूरइस द्वौँ-खोजके लिये अच्छा यत्न करें, और इस तरह शीघ्र ही कुछ विवादप्रस्त प्रश्नोंको हल करनेमें समर्थ हो सकें।



[†] इसों, उन उल्लेखोंके वे फुटनोट भी जिनमें उनके कर्ताओंका समय दिया है।

१८

समन्तभद्रका समय और डॉक्टर के० बी० पाठक

डॉक्टर के० बी० पाठक बी० ए०, पी० ए८० डी० ने 'समन्तभद्रके समय-पर' एक लेख पूनाके 'ऐनल्स थॉफ दि भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट' नामक अंग्रेजी पत्रकी ११वी जिल्ड (Vol XI, Pt. II P. 149) में प्रकाशित कराया है और उसके द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि स्वामी समन्तभद्र ईसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्वाद्देशमें हुए हैं; जब कि जैन समाजमें उनका समय आमतौरपर दूसरी शताब्दी माना जाता है और पुरातत्वके कई विद्वानोंने उसका समर्थन किया है। यह लेख, कुछ असरा हुआ, मेरे मित्र पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बईकी कृपासे मुझे देखनेको मिला, देखनेपर बहुत कुछ सदोष तथा भ्रममूलक जान पड़ा और अन्तको जाँचनेपर निश्चय हो गया कि पाठकजीने जो निर्णय विद्या है वह ठीक तथा युक्तियुक्त नहीं है। प्रतः आज पाठकजीके उक्त लेखके उत्पन्न होनेवाले भ्रमको दूर करने और यथार्थ कस्तु-स्थितिका बोध करानेके लिए ही यह लेख लिखा जाता है।

पाठकजी का हेतुबाद

"समन्तभद्रका समय निर्णय करना आसान है, यदि हम उनके 'बुर्कयनु-शासन' और उनकी 'शासमीमांसा' का सख्तानीके साथ अध्ययन करें," इस

प्रस्तावनावाक्यके साथ पाठकजीने अपने लेखमें जिन हेतुओंका प्रयोग किया है, उनका सार इस प्रकार है:—

(१) समन्तभद्र बौद्ध ग्रन्थकार धर्मकीतिके बाद हुए हैं; वयोंकि उन्होंने ‘मुक्ष्यनुशासन’ में निम्न वाक्य-द्वारा प्रत्यक्षके उस प्रसिद्ध लक्षणपर आपत्ति की है जिसे धर्मकीतिने ‘न्यायविन्दु’ में दिया है—

प्रत्यक्षनिर्देशवदप्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयितुं श्वशक्यम् ।

विना च सिद्धेन्नं च लक्षणार्थो न तावकद्वेषिणि वीर ! सत्यम् ॥३॥

(२) चूँकि आपनीमासाके ८०वें पद्ममें समन्तभद्रने बनलाया है कि धर्म-कीति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह कहता है कि—

सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्वियोः (प्रमाणविनिश्चय)

इसलिये भी समन्तभद्र धर्मकीतिके बाद हुए हैं।

(३) आपनीमासाके पद्म न० १०६ में जैनग्रन्थकार (समन्तभद्र) ने बौद्ध ग्रन्थकार (धर्मकीति) के त्रिलक्षण हेतुपर आपत्ति की है। इससे भी स्पष्ट है कि समन्तभद्र धर्मकीतिके बादके विद्वान् हैं।

(४) शब्दाद्वैतके सिद्धान्तको भर्तुंहरिने इस प्रकारसे प्रतिपादित किया है—

न मोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

वाग्मृपता चेदुक्तामेदवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥

भर्तुंहरिके इसी सिद्धान्तकी द्वेताम्बर ग्रन्थकार हरिभद्रसूरिने अपनी ‘अनेकान्तजयपताका’ के निम्न वाक्यमें तीव्र आलोचना की है और उसमें समन्त-भद्रको ‘वादिमुख्य’ नाम देते हुए प्रमाणारूपसे उनका वचन उद्भृत किया है—

‘एतेन यदुक्तमाह च शब्दार्थवित्, वाग्मृपता चेदुक्तामेत् इत्यादि कारिकाद्वयं तदपि प्रत्युक्तम् । तुल्ययोगस्त्वेमत्वादिति आह च वादिमुख्यः—

बोधात्मा चेच्छबदस्य न स्यादन्यत्र तच्छ्रुतिः ।

यद्योद्धारं परित्यज्य न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥

न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते ।

शब्दाभेदेन सत्येवं सर्वः स्यात्परचित्तवत् ॥ इत्यादि ।

इस तरहपर यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके मतमें शब्दाद्वैतका सिद्धान्त सुनिश्चित रूपसे असत्य है । समन्तभद्रके शब्दों “न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते” की तुलना भर्तुंहरिके शब्दों “न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते” के साथ करनेपर मात्रम् होता है कि समन्तभद्रने भर्तुंहरिके मतका खण्डन यथासंभव प्रायः उसीके शब्दोंको उद्घृत करके किया है, जो कि मध्यकालीन ग्रन्थकारोंकी विशेषताओंमेंसे एक साप्त विशेषता है, (लेखमें नमूनेके तीर पर इस विशेषताके कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं ।) और इस लिये समन्तभद्र भर्तुंहरिके बाद हुए हैं ।

(५) समन्तभद्रके शिष्य लक्ष्मीघरने अपने ‘एकान्त खण्डन’ में लिखा है—

“अनेकांतलक्ष्मीविलासावासाः सिद्धसेनार्याः असिद्धिं प्रति (त्य)-
पादयन् । षड्दर्शनरहस्यसंबेदनसंपादितनिस्सीमपादिहृत्यमणिहृताः पूज्य-
पादस्वामिनस्तु विरोधं साधयति स्म । सकलताकिंचकचकचूडामणिमरीचि-
मेचकितचरणनखमयूखा भगवन्तः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्या असिद्धि-
विरोधावत्रुत्रन् । तदुक्तं ।

असिद्धं सिद्धसेनस्य विरुद्धं देवनन्दिनः ।

दुर्यं समन्तभद्रस्य सर्वथैकान्तसाधनमिति ॥

नित्यादेकान्तहेतोर्बुधतिमहितः सिद्धसेनो ह्यसिद्धं ।

त्रूते श्रीदेवनन्दी विदितजिनमतः सन् विरोधं व्यनक्ति ॥”

इन अवतरणोंसे, जो कि एकान्तखण्डनके प्रारम्भिक भागसे उद्घृत किये गये हैं, स्पष्ट है कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित थे—अर्थात् समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं । और इसलिये पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें “चतुष्टूर्यं समन्तभद्रस्य” यह समन्तभद्रके नामोल्लेखवाला जो सूत्र (अ० ५ पा० ४ सू० १६८) पाया जाता है, वह प्रक्षिप्त है । इसीसे जैन शाकटायनने, जिसने जैनेन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल की है, उसका अनुसरण भी नहीं किया है, किन्तु “बा” शब्दका प्रयोग करके ही सन्तोष धारण किया है—अपना काम निकाल लिया है ।

(६) उक्त एकान्तखण्डनमें लक्ष्मीघरने भट्टाचार्यका एक बाक्य निम्न प्रकारसे उद्घृत किया है—

वर्णांत्मकाश्च ये शब्दः नित्याः सर्वगतास्था ।

पृथक् द्रव्यतया ते तु न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥

—इति भट्टाचार्याः(वंवचनाच्च)

ये भट्टाचार्य स्वयं कुमारिल हैं, जो प्रायः इस नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं; जैसा कि निम्न दो प्रवतरणोंमें प्रकट है—

तदुक्तं भट्टाचार्यं मीमांसाश्लोकवार्तिके ।

यस्य नावयवः स्फोटो व्यञ्जयते वर्णबुद्धिभिः ।

सोपि पर्यन्तुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते ॥ इति ।

तदुक्तं भट्टाचार्यः

प्रयोजनमनुहित्य न मन्दोपि प्रवर्तते ।

जगत्त्वं सृजतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेत् ॥ इति ।

—सर्वदर्शनसग्रह

अतः खुद समन्तभद्रके शिष्यद्वारा कुमारिलका उल्लेख होनेसे समन्तभद्र कुमारिलसे अधिक पहलेके विद्वान् नहीं ठहरते—वे या तो कुमारिलके प्रायः समसामयिक हैं अथवा कुमारिलम ओड़े ही समय पहले हुए हैं ।

(७) “दिग्म्बर जैनसाहित्यमे कुमारिलका स्थान” नामक मेरे लेखमे यह सिद्ध किया जा चुका है कि समन्तभद्रकी ‘आत्ममीमांसा’ और उसकी अकलंक-देवकृत ‘शृष्टशती’ नामकी पहली टीका दोनों कुमारिलके द्वारा तीव्रालोचित हुई हैं—खण्डित की गई हैं—और अकलंकदेवके दो अवर (Junior) समकालीन विद्वानों विद्वानन्द-पात्रकेसरी तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा मण्डित (सुरक्षित) की गई हैं। अकलंकदेव राष्ट्रकूट राजा साहसुख-दन्तितुर्गंके राज्यकालमें हुए हैं, और प्रभाचन्द्र अमोघवर्ण प्रथमके राज्यतक जीवित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुण-भद्रके आत्मानुशासनका उल्लेख किया है। अकलंकदेव और उनके छिद्राल्वेषी कुमारिलके साहित्यिक व्यापारोंको इसाकी आठवीं शताब्दीके उत्तराधिर्भवे रखा जाना चाहिये। और चूंकि समन्तभद्रने धर्मकीर्ति तथा भरुंहरिके मर्तोंका खण्डन किया है और उनके शिष्य लक्ष्मीधर कुमारिलका उल्लेख करते हैं, अतः

हम समन्तभद्रको ईसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें स्थापित करनेके लिये भजबूर हैं—हमें बलात् ऐसा निर्णय देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है।

देतुओंकी जाँच

समन्तभद्रका धर्मकीर्तिके बाद होना सिद्ध करनेके लिये जो पहले तीन हेतु दिये गये हैं उनमेंसे कोई भी समीक्षीन नहीं है। प्रथमहेतु रूपसे जो बात कही गई है वह मुक्तधनुशासनके उस वाक्यपरसे उपलब्ध ही नहीं होती जो वहाँपर उद्घृत किया गया है; क्योंकि उसमें न तो धर्मकीर्तिका नामोलेख है, न न्याय-विद्वन्द्वका और न धर्मकीर्तिका प्रत्यक्ष लक्षण ही उद्घृत पाया जाता है, जिसका रूप है—“प्रत्यक्षं कल्पनापोद्भम्भ्रान्तम्।” यदि यह कहाजाय कि उक्त वाक्यमें ‘अकल्प’ पदका जो प्रयोग है वह ‘निविकल्पक’ तथा ‘कल्पनापोद’का बाचक है और इसलिये धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष-लक्षणको लक्ष्य करके ही लिखा गया है, तो इसके लिये सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि प्रत्यक्षको अकल्पक अथवा कल्पनापोद निर्दिष्ट करना एकमात्र धर्मकीर्तिकी ईजाद है—उससे पहलेके किसी भी चिह्नान्ते प्रत्यक्षका ऐसा स्वरूप नहीं बतलाया है। परन्तु यह सिद्ध नहीं है—धर्मकीर्तिसे पहले दिग्नान नामके एक बहुत बड़े बौद्ध तात्किक हो गये हैं, जिन्हों-ने न्यायशास्त्रपर ‘प्रमाणसमुच्चय’ आदि कितने ही ग्रन्थ लिखे हैं और जिनका समय ई० सन् ३४५ से ४१५ तक बतलाया जाता है *। उन्होंने भी ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोद्भम्’ इत्यादि वाक्य † के द्वारा प्रत्यक्षका स्वरूप ‘कल्पनापोद’ बतलाया है। आहरण तात्किक उद्घोतकरने अपने न्यायवात्तिक (१--१--४) में ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोद्भम्’ इस वाक्यको उद्घृत करते हुए दिग्नानके प्रत्यक्ष विषयक सिद्धान्तकी तीव्र आलोचना की है। और यह उद्घोतकर भी धर्मकीर्तिसे पहले हुए हैं; क्योंकि धर्मकीर्तिने उनपर आपत्ति की है, जिसका उल्लेख खुद

* देखो, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज बड़ौदामें प्रकाशित ‘तत्त्वसंग्रह’ प्रथम-की सूमिकादिक ।

† यह वाक्य दिग्नानके ‘प्रमाणसमुच्चय’ में तथा ‘न्यायप्रवेश’ में भी पाया जाता है और वाचस्पति मिशने न्यायवात्तिककी टीकामें इसे साफ़ तौर पर दिग्नानके नामसे उल्लेखित किया है।

पाठक महाशयने अपने 'भटु' हरि और कुमारिल' नामके लेखमें किया है ।
इसके सिवाय तत्त्वार्थराजवातिकमें अकलंकदेवने जो निम्न इलोक 'तथा चोत्ते'
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है उसे पाठकजीने, उक्त ऐन्नल्सकी उसी संख्यामें
प्रकाशित अपने दूसरे लेख (पृ० १५७) में दिग्नागका बतलाया है—

प्रत्यक्षं कल्पनापोद्धं नामजात्यादियोजना ।

असाधारणहेतुत्यादचैस्तद्व्यपदिश्यते ॥

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षका 'कल्पनापोद्ध' स्वरूप एकमात्र धर्मकीर्तिके द्वारा निर्दिष्ट नहीं हुआ है । यदि सबसे पहले उसीके द्वारा निर्दिष्ट होना माना जायगा तो दिग्नागको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् कहना होगा जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं हो सकता और न इतिहाससे किसी तरह सिद्ध ही किया जासकता है; क्योंकि धर्मकीर्तिने दिग्नागके 'प्रमाणासमुच्चय' ग्रन्थपर वार्तिक लिखा है । वस्तुतः धर्मकीर्ति दिग्नागके बाद न्यायशास्त्रमें विशेष उन्नति करनेवाला हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण ई-तिसग नामक चीनी यात्री (सन् ६७१—६६५) ने अपने यात्राविवरणमें भी दिया है । उसने दिग्नाग-प्रतिपादित प्रत्यक्षके 'कल्पनापोद्ध' लक्षणमें 'अभ्रान्त' पदकी वृद्धिकर उसका सुधार किया है । और यह 'अभ्रान्त' शब्द अथवा इसी आशयका कोई दूसरा शब्द समन्वयद्वारे उक्त वाक्यमें नहीं पाया जाता, और इसलिये यह नहीं कहा जासकता कि समन्वयद्वारे धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष लक्षणको सामने रखकर उसपर आपत्ति की है । यह दूसरी बात है कि समन्वयद्वारे प्रत्यक्षके जिस 'निर्विकल्पक' लक्षणपर आपत्ति की है उससे धर्मकीर्तिका लक्षण भी आपन्न एवं वासित ठहरता है; क्योंकि उसने भी अपने लक्षणमें प्रत्यक्षके निर्विकल्पक स्वरूपको अपनाया है । और इसीसे टीकामें टीकाकार विद्यानन्द आचार्यने, जिन्हें गलतीसे लेखमें 'पात्रकेसरी' नामसे भी उल्लेखित किया गया है, "कल्प-

† देखो, डा० सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल आफ इंडियन लॉजिक' पृ० १०५ तथा J. B. B. R. A. S. Vol. XVIII P. 229.

‡ देखो, उक्त हिस्टरी (H. M. S. I. L.) पृ० १०५ का हिस्टरी आफ इंडियन लॉजिक प० ३०६ ।

नापोढमभान्तं प्रत्यक्षमिति लक्षणमस्यार्थः प्रत्यक्षप्रत्यायन्” इस वाक्यके द्वारा उवाहरणके तौरपर अपने समयमें खास प्रसिद्धिको प्राप्त धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष-लक्षणको लक्षणार्थ बतलाया है। अन्यथा, “प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्” यह लक्षण भी लक्षणार्थ कहा जासकता है। इसी तरह धर्मकीर्तिके बाद होनेवाले जिन जिन विद्वानोंने प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना है उन सबका मत भी आपन्त तथा बाचित हो जाता है, और इससे समन्तभद्र इतने परसे ही जिस प्रकार उन अनुकरणशील विद्वानोंके बादके विद्वान् नहीं कहे जासकते उसी प्रकार वे धर्मकीर्तिके बादके भी विद्वान् नहीं कहे जासकते। अतः यह हेतु असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं है।

यहौपर में इतना और भी बतला देना उचित समझता हूँ कि प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माननेके विषयमें दिग्नानकी भी गणना अनुकरणशील विद्वानोंमें ही है; क्योंकि उनके पूर्ववर्ती आचार्य वसुबन्धुने भी सम्यक्ज्ञानरूप प्रत्यक्षको ‘निर्विकल्प’ माना है, और यह बात उनके ‘विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि’ तथा ‘त्रिशिका विज्ञप्तिकारिका’ जैसे प्रकरण-प्रन्थों # परसे साफ़ छ्वनित है। इसके सिवाय वसुबन्धुसे भी पहलेके प्राचीन बौद्ध साहित्यमें इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि बौद्ध सम्प्रदायमें उस सम्यक्ज्ञानको ‘निर्विकल्प’ माना है जिसके १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ऐसे दो भेद किये गये हैं और जिन्हे धर्मकीर्तिने भी, न्यायविन्दुमें, “द्विविधं सम्यग्ज्ञानं प्रत्यक्षमनुमानं च” इस वाक्यके द्वारा अपनाया है; जैसा कि ‘लंकावतारसूत्र’ में दिये हुए ‘सम्यक्ज्ञान’ के स्वरूपप्रतिपादक निम्न बुद्ध-वाक्यसे प्रकट है—

“मयान्यैश्च तथागतैरनुगम्य यथावेशितं प्रज्ञप्तं विवृतमुत्तानीकृतं यथानुगम्य सम्यग्वबोधानुच्छेदाशाश्वततो विकल्प्य प्रवृत्तिः स्वप्रत्याल्पार्थज्ञानानुकूलं तीर्थकरपञ्चपरपञ्चश्रावकप्रत्येकव्युद्धागतिलक्षणं तत्सम्यग्ज्ञानम्।” २१० २२८

* ये दोनों ग्रंथ संस्कृतवृत्तिसहित शिलबेन लेखीसके द्वारा संपादित होकर प्रिसिसमें मुद्रित हुए हैं। पहलेकी वृत्ति स्वोपन्न जान पड़ती है, और दूसरेकी वृत्ति आचार्य स्थिरमतिकी है।

जब 'सम्भवान' ही बोढ़ोके यहाँ बहुत प्राचीनकालसे विकल्पकी प्रवृत्तिसे रहित माना गया है तब उसके अंगभूत प्रत्यक्षका निविकल्प माना जाना स्वतः सिद्ध है । बहुत सम्भव है कि आर्य नागर्जुनके किसी ग्रन्थमें—सम्भवतः उनकी 'युक्तिष्ठिकाकारिका' के में—प्रत्यक्षका अकल्पक अथवा निविकल्पक रूपसे निर्देश किया गया हो और उसे लक्ष्यमें रखकर ही समन्तभद्रने अपने युक्त्यनुशासनमें उसका निरसन किया हो । आर्य नागर्जुनका समय ईसवी सन् १८५ बतलाया जाता है । और समन्तभद्र भी दूसरी शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं । दोनों ग्रन्थोंके नामोंमें भी बहुत कुछ साम्य है और दोनोंकी कारिकासंस्था भी प्रायः मिलती-जुलती है । युक्त्यनुशासनमें ६४ कारिकाएँ हैं—मुख्य तो ६० ही हैं—और इसमें उमेर्मी 'युक्तिष्ठिका' अथवा 'युक्त्यनुशासनष्ठिका' कहसकते हैं । ये सब बातें उक्त सम्भावनाकी पुष्टि करती हैं । यदि वह ठीक हो—और उसको ठीक माननेके लिये और भी कुछ सहायक सामग्री पाई जाती है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा—तो समन्तभद्र प्रायः नागर्जुनके समकालीन विद्वान् ठहरते हैं । धर्मकीतिके बादके विद्वान् तो वे किसी तरह भी सिद्ध नहीं किये जासकते ।

दूसरे हेतुरूपसे जो बात कही गई है वह भी असिद्ध है अर्थात् आप्तमीमासाकी उस ८० नम्बरकी कारिकासे उपलब्ध ही नहीं होती, जो इस प्रकार है—

साध्यसाधनवेङ्गपत्तेर्यादि विज्ञप्तिमात्रता ।

न साध्यं न च हेतुश्च प्रतिज्ञा-हेतु-दोषतः ॥

इसमें न तो धर्मकीतिका नामोल्लेख है और न "सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतदधियोः" वाक्यका । फिर समन्तभद्रकी ओरसे यह कहना कैसे बन सकता है कि 'धर्मकीति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह सहोपलम्भनियमात् इत्यादि वाक्य कहता है ?' मालूम होता है अष्टसहस्री-जैसी टीकामें 'सहोपलम्भनियमात्' इत्यादि वाक्यको देखकर और उसे धर्मकीतिके प्रमाण-विनिश्चय ग्रन्थमें भी पाकर पाठक महाशयने यह सब कल्पना कर डाली है !

के नागर्जुनके इस ग्रन्थका उल्लेख डाक्टर सतीशचन्द्रने अपनी पूर्वोल्लेखित 'हिस्टरी आफ इण्डियन लॉजिक'में किया है; देखो, उसका पृ० ७० ।

† देखो, पूर्वोल्लेखित 'तत्त्वसंग्रह' ग्रन्थकी भूमिकादिक ।

परन्तु अष्टसहस्रीमें यह वाक्य उदाहरणके तौरपर दिये हुए कथनका एक अंग है, इसके पूर्व 'तथाहि' शब्दका भी प्रयोग किया गया है जो उदाहरणका वाचक है और साथमें घर्मकीर्तिका कोई नाम नहीं दिया गया है; जैसाकि टीकाके निम्न प्रारम्भिक अंशसे प्रकट है—

“प्रतिज्ञादोषस्तावत्स्वचनविद्विष्णुः साध्यसाधनविज्ञानस्य विज्ञपि-
मात्रमभिलपतः प्रसञ्चते । तथाहि । सहोपलम्भनियमादभेदो नील-
तद्वियोद्विचन्द्रदर्शनविदित्यत्रार्थसंविदो सहदर्शनमुपेत्यैकत्वैकान्तं साधयन्
कथमवधेयाभिलापः ?” पृ० २४२

ऐसी हालतमें टीकाकारके द्वारा उदाहरणरूपसे प्रस्तुत किये हुए कथनको मूल ग्रन्थकारका बतला देना अति साहसका कार्य है ! मूलमें तो विज्ञिमात्रता-का सिद्धान्त माननेवालों (बौद्धों) पर आपत्ति की गई है और इस सिद्धान्तके माननेवाले समन्तभद्रके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों ही हुए हैं । अतः इस आपत्तिसे जिस प्रकार पूर्ववर्ती विद्वानोंकी मान्यताका निरसन होता है वैसे ही उत्तरवर्ती विद्वानोंकी मान्यताका भी निरसन होजाता है । इसीसे टीकाकारोंको उनमेंसे जिसके भतका निरसन करना इष्ट होता है वे उसीके वाक्यको लेकर मूलके आधारपर उसका खण्डन करडालते हैं और इसीसे टीकाओंमें प्रायः ‘पतेन एतदपि निरस्तं-भवति-प्रत्युक्त’ भवति’, ‘पतेन यदुक्त’ भद्रेन… तत्त्विरस्तं (अष्टसहस्री)’ जैसे वाक्योंका भी प्रयोग पाया जाता है । और इस जिये यदि टीकाकारने उत्तरवर्ती किसी विद्वान्के वाक्यको लेकर उसका निरसन किया है तो इससे वह विद्वान् मूलकारका पूर्ववर्ती नहीं होजाता—टीकाकारका पूर्ववर्ती जल्ल होता है । मूलकारको तब उसके वादका विद्वान् मानना भारी भूल होगा और ऐसी भूलोंसे ऐतिहासिक क्षेत्रमें भारी अनियोंकी संभावना है; क्योंकि प्रायः सभी सम्प्रदायोंके टीकाग्रंथ यथावश्यकता उत्तरवर्ती विद्वानोंके मतोंके खण्डनसे भरे हुए हैं । टीकाकारोंकी हृषि प्रायः ऐतिहासिक नहीं होती किन्तु सैद्धान्तिक होती है । यदि ऐतिहासिक हो तो वे मूलवाक्योंपरसे उन पूर्ववर्ती विद्वानोंके मतोंका ही निरसन करके बतलाएं जो मूलकारके लक्ष्यमें थे ।

इसके सिवाय, विज्ञिमात्रताका सिद्धान्त घर्मकीर्तिके बहुत पहलेसे माना जाता था, वसुबन्धु जैसे प्राचीन भाचागोंने उसपर ‘विज्ञिमात्रतासिद्धि’ और

‘विज्ञिका विज्ञिकारिका’ जैसे प्रकरण-ग्रन्थों तककी रचना की है, जिनका उल्लेख पहले किया जातुका है। यह बौद्धोंकी विज्ञानाद्वैतवादिनी योगाचार-शास्त्राका मत है और आचार्य वसुबन्धुके भी बहुत पहले से प्रचलित था। इसीसे उन्होंने लिखा है कि ‘यह विज्ञिमात्रताकी सिद्धि मैंने अपनी शक्तिके अनुसार की है, पूर्ण रूपसे यह मुझ-जैसोंके द्वारा चिन्तनीय नहीं है, बुद्धगोचर है’—

‘विज्ञिमिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदृशी मया ।

कृतेयं सर्वथा सा तु न चिन्तया बुद्धगोचरः ॥’

‘लंकाबतारसुत्र’ नामके प्राचीन बौद्ध ग्रन्थमें, जो वसुबन्धुसे भी बहुत पहले निर्मित हो चुका है और जिसका उल्लेख नामगार्जुनके प्रधान शिष्य आर्यदेव तक ने किया है ४८, महामति-द्वारा बुद्ध भगवान्में जो १०८ प्रश्न किये गये हैं, उनमें भी विज्ञिमात्रताका प्रश्न निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

‘प्रज्ञमिमात्रं च कर्थं ब्रूहि मे वदतांवर । २-३७ ।’

और आगे ग्रन्थके तीसरे परिवर्तनमें विज्ञिमात्रताके स्वरूप-सम्बन्धमें लिखा है—

“यदा त्वालम्ब्यमर्थं नोपलभते ज्ञानं तथा विज्ञमिमात्रव्यवस्थानं भवति विज्ञप्तेप्रार्थाभावाद् प्राहकस्याप्यप्रहणं भवति । तदग्रहणान्नप्रवर्तते ज्ञानं विकल्पसंशब्दिते ।”

इससे बौद्धका यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन मालूम होता है। आश्चर्य नहीं जो “सद्वोपलम्भानियमादभेदो नीलतद्वियोः” यह वाक्य भी पुराना ही हो और उसे धर्मकीर्तिने अपनाया हो। अतः आत्मीयांसाके उक्त वाक्यपरसे समन्वयभद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देना नितान्त भ्रमात्मक है। यदि धर्मकीर्तिको ही विज्ञिमात्रता सिद्धान्तका ईजाद करनेवाला माना जायगा तो वसुबन्धु आदि पुरातन आचार्योंको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् मानना होगा, जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं होसकता और न इतिहाससे ही किसी तरह-पर सिद्ध किया जासकता है। और इसलिये यह दूसरा हेतु भी भ्रसिद्धादि दोषों-

* देखो, पूर्वोल्लेखित ‘हिस्टरी ऑफ मिडियावल स्कूल आफ इण्डियन लॉजिक’ १० ७२, (या हिस्टरी ऑफ इण्डियन लॉजिक पृ० २४३, २६१)

से दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करने—समन्तभद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देने—के लिये समर्थ नहीं है।

तीसरे हेतुमें आसमीमांसाकी जिस कारिका नं० १०६ का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है—

सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः ।

स्याद्वादप्रविभक्तार्थ-विशेष-व्यंजको नयः ॥

इसमें नयका स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट रूपसे बोद्धोंके ब्रैह्मण प्रथवा त्रिलक्षण हेतुका कोई नामोल्लेख नहीं किया गया है, जो “पञ्चधर्मत्वं सपच्चे सत्वं विपच्चे चासत्वं” इन तीन रूप है * और न उसपर सीधी कोई आपत्ति ही की गई है, बल्कि इतना ही कहागया है कि स्याद्वाद (श्रुतज्ञान)के द्वारा प्रविभक्त अर्थविशेषका जो साध्यके सधर्मारूपसे, साधर्म्यरूपसे और अविरोधरूपसे व्यंजक है—प्रतिपादक है—वह ‘नय’ है। इसीसे आसमीमांसा (देवागम) को सुनकर पात्रकेसरी स्वामी जब जैनधर्मके श्रद्धालु बने थे तब उन्हें अनुमान-विषयक हेतुके स्वरूपमें सन्देह रहगया था—उक्त ग्रन्थपरसे यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जैनधर्म सम्मत-उसका क्या स्वरूप है और उससे बोद्धका त्रिलक्षण-हेतु कैसे असमीचीन ठहरता है। और वह सन्देह बादको “आन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्” इस वाक्य-की उपलब्धिपर दूर होसका था, और इसके आधारपर ही वे बोद्धोंके त्रिलक्षण-हेतुका कदर्थन करनेमें समर्थ हुए थे। परन्तु अकलंकदेव-जैसे टीकाकारोंने, जो पात्रकेसरीके बाद हुए हैं, अपने बुद्धिवैभवसे यह खनियान करके बतलाया है कि उक्त कारिकामें ‘सपक्षेणैव (सधर्मणैव) साध्यस्य साधर्म्यात्’ इन शब्दोंके द्वारा हेतुके ब्रैह्मण रूपको और ‘अविरोधात्’ पदसे हेतुके अन्यथा-नुपत्ति स्वरूपको दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल त्रिलक्षणके अहेतुपना है, तत्पुत्रत्वादिकी तरह †। यदि यह मान लिया जाय कि समन्तभद्रके

* देखो, ‘न्यायप्रवेश’ आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ।

† ‘सपक्षेणैव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यमविरोधात् इत्यन्यथानुप-पत्तिच दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्त’ तत्पुत्रत्वादिवत्।’ —प्रष्टवृत्ती

सामने ऐसी ही परिस्थिति थी और इस बाक्यसे उनका वही लक्ष्य था जो अकलंकदेव-द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह त्रिलक्षणहेतु घर्मंकीर्तिका ही था; क्योंकि 'घर्मंकीर्तिसे पहले भी बौद्ध-सम्प्रदायमें हेतुको त्रिलक्षणात्मक मानागया है। जैसा कि दिनांगके 'प्रमाणसमुच्चय' तथा 'हेतुचक्रडमरु' आदि पर्यायोंपरसे प्रकट है—प्रमाणसमुच्चयमें 'त्रिरूपहेतु' नामका एक अव्याय ही अलग है ६। नागार्जुनने अपने 'प्रमाणविहेतना' ग्रन्थमें नैव्यायिकोंके पंचांगी अनुमानकी जगह अंगी अनुमान स्थापित किया है * और इससे ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार नैव्यायिकोंने पंचांगी अनुमानके साथ हेतुको पंचलक्षण माना है उसी प्रकार नागार्जुनने भी अंगी अनुमानका विधान करके हेतुको त्रिलक्षणरूपसे प्रतिपादित किया है। इस तरह त्रिलक्षण अथवा त्रैरूप्य हेतुका अनुसन्धान नागार्जुन तक पहुँच जाता है।

इसके सिवाय, प्रशास्तपादने काश्यपके नामसे जो निम्न दो इलोक उद्धृत किये हैं उनके आशयसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वैशेषिक दर्शनमें भी बहुत प्राचीन कालसे त्रैरूप्य हेतुकी मान्यता प्रचलित † थी—

यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते ।
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम् ॥
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा ।
विरुद्धासिद्धसंदिग्धमर्लिंगं काश्यपोऽब्रवीत् ॥

यदि केवल इस त्रिलक्षण-हेतुके उल्लेखके कारण, जो स्पष्ट भी नहीं है, समन्तभद्रको घर्मंकीर्तिके बादका विद्वान् माना जायगा तो दिनांगको और दिनांगके पूर्ववर्ती उन आचार्योंको भी घर्मंकीर्तिके बादका विद्वान् मानना पड़ेगा जिन्होंने

६ देखो, डा० सतीशचन्द्रकी उक्त हिस्टरी आफ इण्डियन लाइक पृ० ८५-८६

* देखो, श्रीनर्मदाशंकर मेहताशंकर बी० ऐ० कृत 'हिन्द तत्त्वज्ञाननो इतिहास' पृष्ठ १८२ ।

† देखो, गायकवाड़सिरीजमें प्रकाशित 'न्यायप्रवेश' की प्रस्तावना (Introduction) पृ० २३ आदि ।

त्रिरूपहेतुको स्वीकार किया है, और यह मान्यता किसी तरह भी संगत नहीं ठहर सकेगी, किन्तु विश्व घड़ेगी। अतः यह तीसरा हेतु भी असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करनेके लिये समर्थ नहीं है।

इस तरहपर जब यह सिद्ध ही नहीं है कि समन्तभद्रने अपने दोनों ग्रन्थोंके उक्त वाक्योंमें से किसीमें भी धर्मकीर्तिका, धर्मकीर्तिके किसी ग्रन्थ-विशेषका वा वाक्य-विशेषका अध्यवा उसके किसी ऐसे अन्तर्वर्ती सिद्धान्त-विशेषका उल्लेख तथा प्रतिवाद किया है जिसका ग्राविज्ञाकार एकमात्र उसीके द्वारा हुआ हो, तब स्पष्ट है कि ये हेतु खुद असिद्ध होनेसे तीनों मिलकर भी साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते—अर्थात् इनके आधारपर किसी तरह भी यह साधित नहीं किया जासकता कि स्वामी समन्तभद्र धर्मकीर्तिके बाद हुए हैं।

चौथा हेतु भी समीचीन नहीं है; क्योंकि इस हेतु-द्वारा जो यह बात कही गई है कि ‘समन्तभद्रने भर्तु॑हरिके मतका खण्डन यथासम्भव प्रायः उसीके शब्दोंको उदृत करके किया है’ वह सुनिश्चिन नहीं है। इस हेतुकी निश्चय-पथप्राप्तिके लिये अथवा इसे सिद्ध करार देनेके लिए कमसे कम दो बातोंको साधित करनेकी खास जरूरत है, जो लेखपत्रसे साधित नहीं हैं—एक तो यह है कि “बोधात्मा चेच्छाद्वस्य” इत्यादि दोनों इलोक वस्तुतः समन्तभद्रकी कृति हैं, और दूसरी यह है कि भर्तु॑हरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ है—भर्तु॑हरि ही उसका आद्य विधायक है—और यदि हुआ है तो उसके द्वारा ‘न सोस्ति प्रत्ययो लोके’ इत्यादि इलोकसे मिलता जुलता या ऐसे प्राशयका कोई वाक्य नहीं कहा गया है अथवा एक ही विषयपर एक ही भाषामें दो विद्वानोंके लिखने वैठनेपर परस्पर कुछ भी शब्द-साहश्य नहीं हो सकता है।

लेखमें यह नहीं बतलाया गया है कि उक्त दोनों इलोक समन्तभद्रके कौनसे ग्रन्थके वाक्य हैं। समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमें से किसीमें भी वे पाये नहीं जाते और न विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र-जैसे आचार्योंके ग्रन्थोंमें ही वे उल्लेखित मिलते हैं, जो समन्तभद्रके वाक्योंका बहुत कुछ अनुसरण करनेवाले हुए हैं। विद्यानन्दके इलोकवार्तिकमें इस शब्दाद्वैतके सिद्धान्तका खण्डन अकलंकदेवके

आधारपर किया है—समन्तभद्रके आधार पर नहीं। इस कथनका प्रस्तावना-बाक्य इस प्रकार है—

“……सर्वथैकान्तानां तदसंभवं भगवत्समन्तभद्राचार्यन्यायाद्ग्रावादेकान्तनिराकरणप्रवणादावेद्य वच्यमानाच्च न्यायात्संक्षेपतः प्रवचन-प्रामाण्यदाहर्यं मवधार्यं तत्र निश्चितं नामात्मसाकृत्यं संप्रति श्रुतस्वरूप-प्रतिपादकमकलंकश्यमनुवादपुरस्सरं विचारयति ।” (ष०२३६)

इसपरसे ऐसा त्याल होता है कि यदि शब्दाद्वृतके स्थानमें समन्तभद्रके उक्त दोनों श्लोक होते तो विद्यानन्द उन्हें यहाँ पर—इस प्रकरणमें—उद्घृत किये बिना न रहते। और इसलिये इन श्लोकोंको समन्तभद्रके बतलाना संदेहसे खाली नहीं है। इन श्लोकोंके साथ हरिभद्रसूरिके जिन पूर्ववर्ती वाक्योंको पाठकजीने उद्घृत किया है वे ‘अनेकान्तजयपताका’ की उस वृत्तिके ही वाक्य जान पड़ते हैं जिसे स्वोपन्न कहा जाता है और उनमें “आह च वादिमुख्यः” इस वाक्यके द्वारा इन श्लोकोंको वादिमुख्यकी कृति बतलाया गया है—समन्त-भद्रकी नहीं। वादिमुख्यको यहाँ समन्तभद्र नाम देना किसी टिप्पणीकारका कार्य मालूम होता है, और शायद इसीमें उस टिप्पणीको पाठकजीने उद्घृत नहीं किया। हो सकता है कि जिस ग्रन्थके ये श्लोक हों उसे अथवा इन श्लोकोंको ही समन्तभद्रके समझनेमें टिप्पणीकारको, चाहे वे खुद हरिभद्र ही क्यों न हों—भ्रम हुआ हो। ऐसे भ्रमके बहुत कुछ उदाहरण पाये जाते हैं—कितने ही ग्रन्थ तथा वाक्य ऐसे देखनेमें आते हैं जो कृति तो हैं किसीकी और समझ लिए गये किसी दूसरेके। नमूनेके तीरपर ‘तत्त्वानुशासन’ को लीजिये, जो रामसेनाचार्यकी कृति है परन्तु मार्णिकचन्द्रग्रन्थमालामें वह गलतीसे उनके गुरु नागसेनके नामसे मुद्रित हो गई है * और तबसे हस्तलिखित प्रतियोंसे अपरिचित विद्वान् लोग भी देखावेली नागसेनके नामसे ही उसका उल्लेख करने लगे हैं। इसी तरह प्रमेयकमलमार्त्तण्डके निम्न वाक्यको लीजिये, जो गलतीसे उक्त ग्रन्थमें अपनी टीकासहित मुद्रित हो गया है और उसपरसे कुछ विद्वानों-ने यह समझ लिया है कि वह मूलकार मार्णिकयनन्दीका वाक्य है, जिनके

‘परीक्षामुख’ शास्त्रका उक्त प्रमेयकमलमार्तण्ड भाष्य है और जिस भाष्यपर भी फिर अन्यद्वारा टीका लिखी गई है, और इसीलिये वे यह कहने लगे हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है—

सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सत्योऽकलंकाश्रयं ।

विद्यानन्दं समन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम् ।

निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षणम् ।

युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुविद्यः श्रीवर्घमानं जिनम् ॥

खुद पाठक महाशयने भी कहा है कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है और वह इसी वाक्यको माणिक्यनन्दीका वाक्य समझनेकी शुल्कती पर आधार रखता हुआ जान पड़ता है । इसीसे डाक्टर सतीशचन्द्र विद्यामूषण-को अपनी मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्त्रकी हिस्टरीमें (पृ० २८ पर) यह लिखना पड़ा है कि ‘मिस्टर पाठक कहते हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है, परन्तु खुद परीक्षामुख शास्त्रके मूलमें ऐसा उल्लेख भेरे देखनेमें नहीं आया ।’

ऐसी हालत में उक्त दोनों श्लोकोंकी स्थिति बहुत कुछ सन्देहजनक है— बिना किसी विशेष समर्थन तथा प्रमाणके उन्हे सुनिश्चित रूपसे समन्तभद्रका नहीं कहा जासकता और इसलिये उनके आधारपर जो अनुमान बांधा गया है वह निर्दोष नहीं कहूँला सकता । यदि किसी तरह पर यह सिद्ध कर दिया जाय कि वे दोनों श्लोक समन्तभद्रके ही हैं तो फिर दूसरी बातको सिद्ध करना होगा और उसमें यह तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भतुँहरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका माननेवाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं ; क्योंकि पाणिनि आदि दूसरे विद्वान् भी शब्दाद्वैतके माननेवाले शब्द-ब्रह्मवादी हुए हैं—खुद भतुँहरिने अपने ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थमें उनमेंसे कितनोंही का नामोल्लेख तथा सूचन किए हैं । और न तब यही सिद्ध किया जा सकता है कि उनमेंसे किसी-के द्वारा “न सोस्ति प्रत्ययो लोके” जैसा कोई वाक्य न कहा गया हो । शब्दतन्त्र रूपसे एक ही विषयपर लिखने वैठनेवाले विद्वानोंके साहृदयमें कितना ही शब्दशाद्य स्वतः ही ही जाया करता है, फिर उस विषयके अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंके कथनोंको पढ़कर तथा स्परण कर लिखनेवालोंकी तो बात ही ज्ञानी

है—उनकी रचनाओंमें शब्दसाहश्यका होना और भी अधिक स्वाभाविक है। जैसा कि पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दकी कृतियोंके ऋसिक ग्रन्थयनसे जाना जाता है अथवा दिग्नाग और धर्मकीर्तिकी रचनाओंकी तुलनासे पाया जाता है। दिग्नागने प्रत्यक्षका लक्षण ‘कल्पनापोढ़’ और हेतुका लक्षण ‘आहार्यस्तदंशेन व्याप्तो हेतु।’ किया तब धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षका लक्षण ‘कल्पनापोढमभ्रान्त’ और हेतुका लक्षण ‘पच्छार्यस्तदंशेन व्याप्तो हेतुः’ किया है ६। दोनोंमें कितना अधिक शब्दसाहश्य है, इसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं। इसी तरह भर्तृहरिका ‘न सोस्ति प्रत्ययो लोके, नामका श्लोक भी अपने पूर्ववर्ती किसी विद्वान्के वाक्यका अनुसरण जान पड़ता है। बहुत सम्भव है कि वह निम्न वाक्यका ही अनुसरण हो, जो विद्यानन्दके श्लोकवार्तिक और प्रभावंद्रके प्रमेय-कमलमातंणमें समानरूपसे उद्घृत पाया जाता है और अपने उत्तरार्थमें घोड़ेसे शब्दभेदको लिये हुए है, और यह भी सम्भव है कि उसे ही लक्ष्यमें रखकर ‘न चास्ति प्रत्ययो लोके’ नामक उस श्लोककी रचना हुई हो जिसे हरिमद्वने उद्घृत किया है—

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते ।
अनुविद्विभावाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥

प्रमेयकमलमातंणमें यह श्लोक और साथमें दो श्लोक और भी, ऐसे तीन श्लोक ‘तदुक्तं’ शब्दके साथ एक ही जगह पर उद्घृत किये गये हैं, और इससे ऐसा जान पड़ता है कि वे किसी ऐसे ग्रन्थसे उद्घृत किये गये हैं जिसमें वे इसी क्रमको लिये हुए होंगे। भर्तृहरिके ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थमें वे इस क्रमको लिये हुए नहीं हैं; बल्कि ‘अनादिनिधनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदच्चारं’ नामका तीसरा श्लोक जारामें पाठभेदके साथ वाक्यपदीयके प्रथम काण्डका पहला श्लोक है और शेष दो श्लोक (पहला उपर्युक्त शब्द भेदको लिये हुए) उसमें क्रमशः नम्बर १२४, १२५ पर पाये जाते हैं। इससे भी किसी दूसरे ऐसे प्राचीन ग्रन्थकी सम्भावना हट होती है जिसका भर्तृहरिने अनुकरण किया हो। इसके

६ हेतुके ये दोनों लक्षण पाठकजीने एफल्सके उसी नम्बरमें प्रकाशित अपने दूसरे लेखमें उद्घृत किये हैं।

सिवाय भतुंहरि खुब अपने वाक्यपदीय ग्रन्थको एक संग्रहग्रन्थ बतलाते हैं—
न्यायप्रस्थानमार्गस्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम् ।

प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंमहः ॥ २—४६०

उन्होंने पूर्वमें एक बहुत बड़े संग्रहकी सूचना की है, जिसके ग्रन्थ-ज्ञानियोंद्वारा लुतप्राय हो जानेपर पतञ्जलि ऋषिके द्वारा उसका पुनः कुछ उद्धार किया गया । इसीसे टीकाकार पुष्पराजने “एतेन संग्रहानुसारेण भगवता पतञ्जलिना संग्रहसंक्षेपभूतमेव प्रायशो भाष्यमुपनिषद्भूमित्युक्तं वेदितव्यम्” इस वाक्यके द्वारा पतञ्जलिके महाभाष्यको उस संग्रहका प्रायः ‘संक्षेपभूत’ बतलाया है । और भतुंहरिने इस ग्रन्थके प्रथम कांडमें यहां तक भी प्रतिपादित किया है कि पूर्व ऋषियोंके स्मृति-शास्त्रोंका आधार लेकर ही शिष्योंद्वारा शब्दानुशासनकी रचना की जाती है—

तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं वा सनिवन्धनम् ।

आश्रित्यारभ्यते शिष्टौः शब्दानामनुशासनम् ॥४३॥

ऐसी हालतमें ‘न च स्यात् प्रत्ययो लोके’ इन शब्दोंका किसी दूसरे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें पाया जाना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है । अस्तु ।

यदि धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ती किसी विद्वानने दिग्नाग-प्रतिपादित प्रत्यक्ष-लक्षण अथवा हेतु-लक्षणको बिना नामधारके उद्घृत करके उसका खण्डन किया हो और बादको दिग्नागके ग्रन्थोंकी अनुपलब्धिके कारण कोई शरूप धर्मकीर्तिके वाक्योंके साथ साहस्र देखकर उसे धर्मकीर्तिपर आपत्ति करनेवाला और इस-लिये धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् समझ बैठे, तो उसका वह समझना जिस प्रकार मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा उसी प्रकार भतुंहरिके पूर्ववर्ती किसी विद्वान्को उसके महज किसी ऐसे पूर्ववर्ती वाक्यके उल्लेखके कारण जो भतुंहरिके उक्त वाक्यके साथ कुछ भिलताजुलता हो, भतुंहरिके बादका विद्वान् करार देना भी मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा ।

अतः यह चौथा हेतु दोनों बातोंकी हटिसे प्रसिद्ध है और इसलिये इसके आधारपर समन्तभद्रको भतुंहरिके बादका विद्वान् करार नहीं दिया जासकता ।

पौच्छं हेतुमें एकान्तलक्षण्डनके जिन अवतरणोंकी तरफ इशारा किया गया है उनपरसे यह कैसे स्पष्ट है कि पूर्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित-ये अर्थात्

समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं—वह कुछ समझमें नहीं आता ! क्योंकि यह तो कहा नहीं जासकता कि सिद्धेनने प्रसिद्धहेत्वाभासका और पूज्यपाद (देव-नन्दी) ने विरुद्धहेत्वाभासका आविभाव किया है और समन्तभद्रने एकान्त-साधन को दूषित करनेके लिये, कूँकि इन दोनोंका प्रयोग किया है इसलिये वे इनके आविष्कर्ता सिद्धेन और पूज्यपादके बाद हुए हैं। ऐसा कहना हेत्वाभासोंके इतिहासकी अनभिज्ञताको सूचित करेगा; क्योंकि ये हेत्वाभास न्यायशास्त्रमें बहुत प्राचीनकालसे प्रचलित हैं। जब प्रसिद्धादि हेत्वाभास पहलेसे प्रचलित थे तब एकान्त-साधनको दूषित करनेके लिये किसीने उनमें से एकका, किसीने दूसरेका और किसीने एकसे अधिक हेत्वाभासोंका यदि प्रयोग किया है तो ये एक प्रकार-की घटनाएँ अथवा किसी किसी विषयमें किसी किसीकी प्रसिद्धिकथाएँ हुईं, उनके मात्र उल्लेखक्रमको देखकर उसपरसे उनके अस्तित्व-क्रमका अनुमान करलेना निहेंतुक है। उदाहरणके तौरपर नीचे लिखे इलोकको लीजिये, जिसमें तीन विद्वानोंकी एक एक विषयमें खास प्रसिद्धिका उल्लेख है—

प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।

धनंजयकवे: काव्यं रत्नत्रयमकरण्टकम् ॥

यदि उल्लेखक्रमसे इन विद्वानोंके अस्तित्वक्रमका अनुमान किया जाय तो अकलंकदेवको पूज्यपादसे पूर्वका विद्वान् मानना होगा । परन्तु ऐसा नहीं है— पूज्यपाद ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान् हैं और अकलंकदेवने उनकी सर्वार्थ-सिद्धिको साथमें लेकर ‘राजवार्तिक’ की रचना की है। अतः मात्र उल्लेखक्रमकी दृष्टिसे अस्तित्वक्रमका अनुमान करलेना ठीक नहीं है। यदि पाठकजीका ऐसा ही अनुमान हो तो सिद्धेनका नाम पहले उल्लेखित होनेके कारण उन्हें मिद्देनको पूज्यपादसे पहलेका विद्वान् मानना होगा, और ऐसा मानना उनके पहले हेतुके विशद्ध पड़ेगा! क्योंकि सिद्धेनने अपने ‘न्यायावतार’ में प्रत्यक्षको ‘अभ्रान्त’ के अतिरिक्त ‘आहक’ भी बतलाया है जो निर्णायक, व्यवसायात्मक अथवा सविकल्पकका वाचक है और उससे धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष-लक्षणपर आपत्ति होती है। इसीसे उसकी टीकामें कहा गया है—‘तेन यत् ताथागतैः प्रत्यपादि ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोऽमध्यान्तभिति’ तदपास्तं भवति ।’ और इसलिये अपने प्रथम-हेतुके अनुसार उन्हें सिद्धेनको धर्मकीर्तिके आहकका विद्वान् कहता होगा । सिद्ध-

सेनका घर्मंकीतिके बाद होना और पूज्यपादके पहले होना ये दोनों कथन परस्पर में विरुद्ध हैं; क्योंकि पूज्यपादका अस्तित्वसमय घर्मंकीतिसे कोई दो शताब्दी पहलेका है।

अतः महज उक्त-अवतरणोपरसे न तो हेत्वाभासोंके आविष्कारकी हष्टिसे और न उल्लेखकमकी हष्टिसे ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान् कहा जासकता है। तब एक सूरत अनुमानकी और भी रह जाती है—यद्यपि पाठकजी-के शब्दोपरसे उसका भी स्पष्टीकरण नहीं होता * और वह यह है कि, चूंकि समन्तभद्रके शिष्यने उक्त अवतरणोंमें पूज्यपाद (देवनन्दी) का नामोल्लेख किया है इसलिये पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए है—यद्यपि इसपरसे वे समन्त-भद्रके समकालीन भी कहे जासकते हैं। परन्तु यह अनुमान तभी बन सकता है जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि एकान्तखण्डनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षात् शिष्य थे। उक्त अवतरणोपरसे इस गुहशिष्य-सम्बन्धका कोई पता नहीं चलता, और इसलिये मुझे ‘एकान्तखण्ड’ की उस प्रतिको देखनेकी ज़रूरत पैदा हुई जिसका पाठकजीने अपने लेखमें उल्लेख किया है और जो कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन-मठमें ताङ्पत्रोपर पुरानी कल्पलिपिमें मौजूद है। श्रीयुत ए० एन० उपाध्येयी एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कालिज कोल्हापुरके सोजन्य तथा अनुग्रहसे मुझे उक्त ग्रंथकी एक विश्वस्त प्रति (True copy) छुट प्रोफेसर साहबके द्वारा जाँच होकर प्राप्त हुई, और इसके लिये मैं प्रोफेसर साहबका बहुत ही आभारी हूँ।

ग्रन्थप्रतिको देखनेसे मालूम हुआ कि यह ग्रन्थ अधूरा है—किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका—और इसलिये इसमें ग्रन्थकारकी कोई प्रशास्ति नहीं है, न दुर्भाग्यसे ऐसी कोई सन्धियां ही हैं जिनमें ग्रन्थकारने गुरुके नामोल्लेखपूर्वक अपना नाम दिया हो और न अन्यत्र ही कहीं ग्रन्थकारने अपनेको स्पष्टरूपसे समन्तभद्र-का दीक्षित या समन्तभद्रशिष्य लिखा है। साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि उक्त

* पाठकजीके शब्द इस प्रकार हैं—From the passages cited above from the Ekantakhandana, it is clear that Pujyapada lived prior to Samantabhadra.

अवतरणोंमें पाठकजीने 'तदुक्त' रूपसे जो दो श्लोक दिये हैं वहाँ एक पहला ही श्लोक है और उसके बाद निम्न वाक्य देकर ग्रन्थविषयका प्रारम्भ किया गया है—

"तदीयचरणाराधनाराधितसंबेदनविशेष नित्याद्यकान्तवादविवाद-
ग्रन्थमवचनखण्डनप्रचण्डरचनाडम्बरो लक्ष्मीधरो धीरः पुनरसिद्धादि-
षट्कमाह ।"

दूसरा श्लोक वस्तुतः ग्रन्थके मंगलाचरणपद्म 'जिनदेवं जगद्वन्धु' इत्यादि के अनन्तरवर्ती पद्म नं० २ का पूर्वार्थ है और जिसका उत्तरार्थ निम्न प्रकार है। इसलिये वह ग्रन्थकारका अपना पद्म है, उसे भिन्न स्थानपर 'तदुक्त' रूपसे देना पाठक महाशयकी किसी गलतीका परिणाम है—

"तौ द्वौ ब्रूते वरेण्यः पदुतरधिपणः श्रीसमन्तादिभद्रः

तच्छिष्यो लक्ष्मणस्तु प्रथितनयपथो वक्त्यसिद्ध्यादिषट्क ॥"

इस उत्तरार्थके बाद और 'तदुक्त' से पहले कुछ गद्य है, जिसका उत्तरांश पाठकजीने उद्घृत किया है और पूर्वांश, जिससे ग्रन्थके विषयका कुछ दिग्दर्शन होता है, इस प्रकार है—

"नित्याद्यकान्तसाधनानामंकुरादिकं सकर्तुं कं कार्यत्वाद् यत्कार्यं तत्
सकर्तुं कं यथा घटः । कार्यं च इदं तस्मात्सकर्तुं कमेवेत्यादीनाम् ।"

इस तरहपर यह ग्रन्थकी स्थिति है और इसपरसे ग्रन्थकारका नाम 'लक्ष्मीधर' के साथ 'लक्ष्मण' भी उपलब्ध होता है, जो लक्ष्मीधरका पर्यायनाम भी हो सकता है। जान पड़ता है ग्रन्थके आरम्भमें उक्त प्रकारसे प्रयुक्त हुए 'तच्छिष्यः' और "तदीयचरणाराधनाराधितसंबेदनविशेषः" इन दो विशेषणोंपरसे ही पाठकजीने लक्ष्मीधरके विषयमें समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य होनेकी कल्पना कर डाली है ! परन्तु वास्तवमें इन विशेषणोंपरसे लक्ष्मीधरको समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य समझना भूल है; क्योंकि लक्ष्मीधरने एकान्तसाधनके विषयमें भिन्नकालीन तीन आचार्यों—सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्यपाद) और समन्तभद्रके भतोंका उल्लेख करके जो 'तच्छिष्यः' और 'तदीयचरणाराधना-राधितसंबेदनविशेषः' ऐसे अपने दो विशेषण दिये हैं उनके द्वारा उसने अपने को उक्त तीनों आचार्योंका शिष्य (उपदेश्य) सूचित किया है, जिसका कलि-

तार्थ है परम्परा-शिष्य (उपदेश) । और यह बात 'तदुक्त' रूपसे दिये हुए इलोकको 'इति' शब्दसे पृथक् करके उसके बाद प्रयुक्त किये गये तदीयादि द्वितीय विशेषणपदसे और भी स्पष्टताके साथ भलकर्ती है । 'तच्छिष्यः' का मर्याँ 'तस्य समन्तभद्रस्य शिष्यः' नहीं किन्तु 'तेषां सिद्धसेनादीनां शिष्यः' ऐसा होना चाहिये । और उसपरसे किसीको यह भ्रम भी न होना चाहिये कि 'उनके चरणोंकी आराधना-सेवासे प्राप्त हुआ है ज्ञानविशेष जिसको' पदके इस आधाय-से तो वह साक्षात् शिष्य मात्रम् होता है; क्योंकि आराधना प्रत्यक्ष ही नहीं किन्तु परोक्ष भी होती है, बल्कि अधिकतर परोक्ष ही होती है । और चरण-राधनाका अभिप्राय शरीरके अग्ररूप पैरोंकी पूजा नहीं, किन्तु उनके पदोंकी—वाक्योंकी—सेवा—उपासना है, जिससे ज्ञान-विशेषकी प्राप्ति होती है । ऐसे बहुतसे उदाहरण देखनेमें आते हैं जिसमें शताब्दियों पहलेके विद्वानोंको गुह-रूपसे अथवा अपनेको उनका शिष्यरूपसे उल्लेखित किया गया है, और वे सब परम्परीण गुरुशिष्यके उल्लेख हैं—साक्षात् के नहीं । नमूनेके तौरपर 'नीतिसार' के निम्न प्रशस्ति वाक्यको लीजिये, जिसमें ग्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षों से भी अधिक पहलेके आचार्यं कुन्दकुन्दस्वामीका अपनेको शिष्य (विनेय) मूर्चित किया है—

“—सः श्रीमानिन्दननन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी दैवज्ञः
कुन्दकुन्दप्रमुपदविनयः स्वागमाचारचंचुः ॥”

इसी तरह एकान्तखंडनके उक्त विशेषणपद भी परम्परीण शिष्यताके उल्लेखको लिये हुए हैं—साक्षात् शिष्यताके नहीं । यदि लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य होता तो वह 'तदुक्त' रूपसे उस इलोकको न देता, जिसमें सिद्धसेनादिकी तरह समन्तभद्रकी भी एकान्त साधनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया गया है और वह उल्लेख-वाक्य किसी दूसरे विद्वान्‌का है, जिससे ग्रन्थकार समन्तभद्रसे बहुत पीछे का—इतने पीछेका जब कि वह प्रसिद्धि एक लोकोक्तिका रूप बन गई थी—विद्वान् ज्ञान पढ़ता है । यह प्रसिद्धिका इलोक सिद्धिविनिश्चयटीका और व्यायविनिश्चय-विवरणमें निम्न रूपसे पाथा जाता है—

असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः ।

देवा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ॥

न्यायविनिष्टय-विवरणमें बादिराजने इसे 'तदुक्तं' पदके साथ दिया है और सिद्धिविनिष्टयटीकामें अनन्तवीयं आचार्यने, जो कि अकलंकदेवके ग्रन्थोंके प्रधान व्याख्याकार हैं और अपने बादके व्याख्याकारों प्रभाचन्द्र-बादिराजादिके द्वारा अतीव पूज्यभाव तथा कृतज्ञताके व्यक्तीकरणपूर्वक स्मृत किये गये हैं, इस श्लोक-को एक बार पाँचवें प्रस्तावमें "यद्यद्यत्यसिद्धः सिद्धसेनस्य" इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें इसे पुनः पूरा दिया है। और वहाँपर इसके पदोंकी इशार्या भी की है। इससे यह श्लोक अकलंकदेवके सिद्धिविनिष्टय ग्रंथके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामक छठे प्रस्तावका है। और इसलिये लक्ष्मीधर अकलंकदेव-के बादका विद्वान् मालूम होता है। वह वस्तुतः उन विद्यानन्दके भी बाद हुआ है जिन्होंने अकलंकदेवकी 'अष्टशती'के प्रतिवादी कुमारिलके मतका अपने तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक आदि ग्रंथोंमें तीव्र लक्षण दिया है; व्योंगि उसने एकान्तखण्डनमें "तथा चोक्तं विद्यानन्दस्वामिभिः" इस वाक्यके साथ 'आसपरीक्षा' का निम्न वाक्य उद्धृत किया है, जो कि विद्यानन्दकी उनके तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक और अष्टसहस्री आदि कई ग्रंथोंके बादकी कृति है—

सनि धर्मविशेषे हि तीर्थकृत्वसमाङ्घये ।

त्रूयाज्जिनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलात् ॥

ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था—समन्तभद्रके साक्षात् शिष्योंमें शिवकोटि और शिवायन नामके दो आचार्योंका ही नामोल्लेख मिलता है ४४—वह विद्यानन्दका उक्त प्रकारसे उल्लेख करने के कारण वास्तवमें समन्तभद्रसे कई शताब्दी पीछे का विद्वान् मालूम होता है और यह बात आगे चल कर और स्पष्ट हो जायेगी। यहाँपर सिर्फ इतना ही जान सेना चाहिये कि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था, तब उसके द्वारा पूज्यपादका नामोल्लेख होना इस बातके लिये कोई नियामक नहीं

४४ देखो, विक्रान्तकौरव, जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय, अथवा स्वामी समन्तभद्र (इतिहास) पृ० ६५ आदि ।

हो सकता कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं। यदि लक्ष्मीघरके द्वारा उल्लेखित होने मात्रसे ही उन्हें समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् माना जायगा तो विद्वानन्दको भी समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् मानना होगा, और यह स्पष्ट ही पाठकजीके, इतिहासके तथा विद्वानन्दके उस उपलब्ध साहित्यके विशद पड़ेगा, जिसमें जगह जगह पर समन्तभद्रका और उनके बहुत पीछे होनेवाले अकलंक-देवका तथा दोनोंके बाब्योंका भी उल्लेख किया गया है।

यहाँ मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि उपलब्ध जैनसाहित्यमें पूज्यपाद समन्तभद्रसे बादके विद्वान् माने याये हैं। पट्टावालियोंको छोड़कर श्रवणबेलोलके शिलालेखोंमें भी ऐसा ही प्रतिपादित होता है। शिलालेख नं० ४० (६४) में समन्तभद्रके परिचय-पद्मके बाद ‘‘ततः’’ शब्द लिखकर ‘‘यो देवनन्दी प्रथमाभिधानः’’ इत्यादि पद्मों के द्वारा पूज्यपादका परिचय दिया है, और नं० १०८ (२५८) के शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद पूज्यपाद-के परिचयका जो प्रथम पद्म दिया है उसीमें ‘‘ततः’’ शब्दका प्रयोग किया है। इस तरह पर पूज्यपादको समन्तभद्रके बादका विद्वान् सूचित किया है। इसके सिवाय, खुद पूज्यपादके जैनेन्द्रव्याकरणमें समन्तभद्रका नामोल्लेख करनेवाला एक सूत्र निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

“चतुष्ट्रयं समन्तभद्रस्य !” ५-४-१६८

इस सूत्रकी मौजूदगीमें यह नहीं कहा जासकता कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद दुए हैं, और इसी लिए पाठकजीको इस सूत्रकी चिन्ता पैदा हुई, जिसने उनके उक्त निर्णयके मार्गमें एक भारी कठिनाई (difficulty) उपस्थित कर दी। इस कठिनाईसे सहजमें ही पार पानेके लिये पाठकजीने इस सूत्रको तथा इसी प्रकारके दूसरे नामोल्लेखवाले सूत्रोंको भी—क्षेपक करार देनेकी जो चेष्टा की है वह व्यर्थकी कल्पना तथा स्वीचातानीके सिवाय और कुछ प्रतीत नहीं होती। आपकी इस कल्पनाका एकमात्र आधार शाकटायन व्याकरणमें, जिसे आपने जैनेन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल (copy) करनेवाला बतलाया है, उक्त सूत्रका अथवा उसी आशयके दूसरे समान सूत्रका न होना है। और इससे आपका ऐसा आशय तथा अनुभान जान पड़ता है कि

‘चूंकि जैनशाकटायनने जैनेंद्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल (कोई) की है इसलिये यह सूत्र यदि जैनेंद्र व्याकरणका होता तो शाकटायन इसकी भी नकल उठार करता , परन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो ‘बहुत’ में ‘सब’-का समावेश नहीं किया जासकता है । यदि ऐसा समावेश माना जायगा तो पूज्यपादके ‘जैनेंद्र’ में पाणिनीय व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंका अनुसरण होनेसे और साथ ही पाणिनि-द्वारा उल्लेखित शाकटायनादि विद्वानोंका नामोलेख न होनेसे पाणिनीय व्याकरणके उन नामोलेखवाले सूत्रोंको भी प्रक्षिप्त कहना होगा, जो इष्ट नहीं होसकता । दूसरे, जैन शाकटायनने सर्वथा ‘जैनेंद्र’ का अनुसरण किया है, ऐसा न तो पाठकजी-द्वारा उद्घृत सूत्रोंपरसे और न दूसरे सूत्रोंपरसे ही प्रतीत होता है । प्रत्युत इसके, कितने ही अंशोंमें वह स्वतन्त्र रहा है और कितने ही अंशोंमें उसने दूसरोंके सूत्रोंका, जिनमें पाणिनिके सूत्र भी शामिल हैं, अनुसरण किया है । युद्ध पाठकजीने अपने प्रकृत लेखमें शाकटायनके “ जरायाङ्गसिन्द्रस्याचि ” (१-२-२७) सूत्रके विषयमें लिखा है कि वह बिल्कुल पाणिनिके “ जराया जरसम्यतरस्याम् ” (७-२-१०१) सूत्रके आधार पर रखा गया है (is entirely based on) । साथ ही, यह भी लिखा है कि जैन शाकटायनके इस सूत्रमें ‘इन्द्र’का नामोलेख होनेसे ही कुछ विद्वानोंको यह विश्वास करनेमें शलती हुई है कि ‘इन्द्र’ नामका भी वास्तवमें कोई वैव्याकरणी हुआ है । ऐसी हालतमें यदि उसने जैनेंद्रके कुछ सूत्रोंको नहीं लिया अथवा उनका या उनके नामवाले अंशका काम ‘वा’ शब्दके प्रयोगसे निकाल लिया और कुछ ऐसे सूत्रोंमें स्वय पूर्वान्धार्योंके नामोंका निवेश किया जिनमें पूज्यपादने ‘वा’ शब्दका प्रयोग करके ही संतोष धारण कर लिया था तो इससे कोई बाधा नहीं आती और न जैनेंद्र तथा शाकटायनके वे वे (पूर्वान्धार्योंके नामोलेखवाले) सूत्र प्रक्षिप्त ही ठहरते हैं । उन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रमाणोंको उपस्थित करनेकी

[†] पाठकजीका यह मत भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि लंकाव-तारसूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थमें भी इन्द्रको शब्दशास्त्रका प्रणेता लिखा है—

“ इन्द्रोऽपि महामते अनेकशास्त्रविद्यवृद्धिः स्वशब्दशास्त्रप्रणेता ” पृ० १७४

बहुत है, जो उपस्थित नहीं किये गये। अस्तु ।

जब एकान्तखण्डनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षात् शिष्य ही सिद्ध नहीं होते और न उनके द्वारा उल्लेखित होने मात्रसे पूज्यपादाचार्य समन्तभद्रसे पहुँचेके विद्वान् ठहरते हैं तब यहाँपर इन सूत्रोंके विषयमें कोई विशेष विचार करनेकी जरूरत ही नहीं रहती; क्योंकि उक्तसूत्र (५-४-१६८) की प्रक्रियताके आधारपर ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान् नहीं बतलाया गया है बल्कि एकान्तखण्डनके उक्त अवतरणोंके आधार पर वैसा प्रतिपादित करके जैनेन्द्रके इस सूत्रविषयमें प्रक्रियाकी कल्पना की गई है, और इस कल्पनाके कारण दूसरे नामोल्लेखवाले सूत्रोंको भी प्रक्रिय कहनेके लिये बाध्य होना पड़ा है। परन्तु फिर भी जैनेन्द्रके “कृत्युषिमृजां यशोभद्रस्य” (२-१-६६) इस नामोल्लेखवाले सूत्रको प्रक्रिय नहीं बतलाया गया। नहीं मालूम इसका क्या कारण है !

छठा हेतु भी समीचीन नहीं है; क्योंकि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य ही नहीं था और उसने कुमारिलके मतका खंडन करनेवाले विद्वानन्दस्वामी तकका अपने ग्रन्थमें उल्लेख होनेसे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि समन्तभद्र कुमारिलके प्रायः समसामयिक ये अथवा कुमारिलसे कुछ थोड़े ही समय पहले हुए हैं।

अब रहा सातवाँ हेतु, जो कि प्रायः सब हेतुओंके समुच्चयके साथ साथ समयके निर्देशको लिये हुए है। इसमेंकी कुछ बातें—जैसे समन्तभद्रका धर्मकीति तथा भर्तुर्हरिको लक्ष्य करके उनके मतोंका खण्डन करना और लक्ष्मीधरकी साक्षात् शिष्यता—तो पहले ही असिद्ध सिद्ध की जानुकी है, जिनकी असिद्धिके कारण इस हेतुमें प्रायः कुछ भी बल तथा सार नहीं रहता। बाकी विद्वानन्द और पात्रकेसरीको जो यहाँ एक बतलाया गया है—पहले भी विद्वानन्दको ‘पात्रकेसरी’ तथा ‘विद्वानन्द-पात्रकेसरी’ उल्लेखित किया गया है—और उन्हें तथा प्रभावन्द्रको अकलंकदेवके अवर (Junior) समकालीन विद्वान् ठहराया गया है और साथ ही अकलंकदेवको इसाकी आठवीं

शताब्दीके उत्तरार्धका विद्वान करार दिया गया है, वह सब भी असिद्ध और वाचित है। पात्रकेसरी विद्यानन्दका कोई नामान्तर नहीं था, न वे तथा प्रभावन्द अकलंकदेवके लिए थे और न उनके समकालीन विद्वान; बल्कि पात्रकेसरी तत्त्वार्थ-लोकवर्त्तिकादिके कर्ता विद्यानन्दसे मिल एक जुदे ही आचार्य हुए हैं तथा अकलंकदेवके भी बहुत पहले होगये हैं और अकलंकदेव इसाकी सातवीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्धके विद्वान् हैं। इन सब बातोंके लिये 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामक निबन्धको देखना चाहिये जो इस निबन्धसंग्रहमें अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है।



१६

सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव

‘सवाभिद्धि’ आचाय उमास्वाति (गृधपिच्छाचार्य) के तत्त्वार्थसूत्रकी प्रसिद्ध प्राचीन टीका है और देवनन्दी अपरनाम पूज्यपाद आचार्यकी सास कृति है, जिनका समय आम तौरपर ईसाकी पाचवी श्रीर विक्रमकी छठी शताब्दी काना जाता है। दिगम्बर समाजकी मान्यतानुसार आ० पूज्यपाद स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं, यह बात पट्टावर्णियोंसे ही नहीं किन्तु अनेक शिलालेखोंसे भी जानी जाती है। अबरावेलोलक गिलालेख न० ४० (६४) मैं आचार्योंके वशादिक-का उल्लेख करते हुए, समन्तभद्रक परिचय पद्धके बाद ‘तत्’ (तत्पश्चात्) शब्द निखकर ‘यो देवनन्दी प्रथमाभिवान’ इत्यादि पद्धोके द्वारा पूज्यपादका परिचय दिया है, और न० १०० (२५८) के शिलालेखमे समन्तभद्रके अनन्तर पूज्यपादके परिचयवा जो प्रथमपद्ध किया है उसीमें ‘तत्’ शब्दका प्रयोग किया है, और इस तरहपर पूज्यपादको समन्तभद्रके बादका विद्वान् सूचित किया है। इसके सिवाय स्वयं पूज्यपादने अपने ‘जीनेन्द्र’ व्याकरणके निम्न सूत्रमें समन्तभद्रके भतका उल्लेख किया है—

“चतुष्प्रय समन्तभद्रस्य ॥” —५-४-१६८

इस सूत्रकी भौद्रदीमें यह नहीं कहा जा सकता कि समन्तभद्र पूज्यपादके

* श्रीपूज्यपादोद्घृतवर्मराज्यस्ततः सुराधीशवरपूज्यपाद ।

यशीवैदुष्यपूणानिदानी वश्निं शास्त्राणि तदुद्वृतानि ॥

बाद हुए हैं, और न अनेक कारणोंके बश † इसे प्रक्षिप्त ही बतलाया जाना सकता है।

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी और इन उल्लेखोंको असत्यताका कोई कारण न बतलाते हुए भी, किसी गलत वारणीके बश, हालमें एक नई विचार-धारा उपस्थित की गई है, जिसके जनक हैं प्रभुज्ञ दये० विद्वान् श्रीमान् पं० सुखलालजी संघवी काशी, और उसे गति प्रदान करनेवाले हैं न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी शास्त्री काशी। पं० सुखलालजीने जो बात अकलंकग्रन्थत्रयके 'प्राकृथन' में कही उसे ही अपनाकर तथा पुष्ट बनाकर पं० महेन्द्रकुमारजीने न्यायकुमुदचन्द्र डिं० भागकी प्रस्तावना, प्रमेयकमलमार्त्तिष्ठकी प्रस्तावना और जैनसिद्धान्तभास्कर के 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' शीर्षक लेखमें प्रकाशित की है। तुनाचे पं० सुखलाल-जी, न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागके 'प्रकृथन' में, पं० महेन्द्रकुमारजीकी कृतिपर सन्तोष व्यक्त करते हुए और उसे अपने 'संक्षिप्त लेखका विशद और सबल भाष्य' बतलाते हुए लिखते हैं—‘पं० महेन्द्रकुमारजीने मेरे संक्षिप्त लेखका विशद और सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागकी प्रस्तावना (पृ० २५) में यह आधान्तरूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं।

इस तरह पं० सुखलालजीको पं० महेन्द्रकुमारजीका और पं० महेन्द्रकुमार-जीको पं० सुखलालजीका इस विषयमें पारस्परिक समर्थन और अभिनन्दन प्राप्त है—दोनों ही विद्वान् इस विचारधाराको बहानेमें एकमत है। अतु ।

इस नई विचारधाराका लक्ष्य है समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान् सिद्ध करना, और उसके प्रधान दो साधन हैं जो संक्षेपमें निम्न प्रकार हैं—

(१) विद्यानन्दकी आत्मपरीक्षा और अष्टसहस्रीके उल्लेखोंपरसे यह 'सर्वथा स्पष्ट' है कि विद्यानन्दने 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि मंगलस्तोत्रको पूज्यपाद-

† देखो, 'समन्तभद्रका समय और डा० के० वी० पाठक' नामका (पूर्ववर्ती) लेख जो (पहले) १६७०-१७१८ सन् १६३४ के 'जैन जगत्'में प्रकाशित हुआ है, अथवा "Samantabhadra's date and Dr. pathak" Annals of B. O. R. I. vol XV Pts. I-II. P. 67-88.

कुत् सूचित किया है और समन्तभद्रको इसी आस्तोत्रका 'मीमांसाकार' लिखा है, अतएव समन्तभद्र पूज्यपादके "उत्तरवर्ती ही" हैं।

(२) यदि पूज्यपाद समन्तभद्रके उत्तरवर्ती होते तो वे समन्तभद्रकी भ्रसा-धारण कृतियोंका और ज्ञासकर 'सत्तमंगी' का "जेतिक समन्तभद्रकी जैनपरम्परा को उस समयकी नई देन रही," अपने 'सर्वार्थसिद्धि' आदि किसी ग्रन्थमें 'उप-योग' किये बिना न रहते। चूंकि पूज्यपादके ग्रन्थोंमें "समन्तभद्रकी भ्रसाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी" नहीं पाया जाता, अतएव समन्तभद्र पूज्य-पादके "उत्तरवर्ती ही" हैं।

इन दोनों साधनोंमें प्रथम साधनको कुछ विशद तथा प्रस्तुति करते हुए पं० महेन्द्रकुमारजीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग ६ कि० १) में अपना जो लेख प्रकाशित कराया था उसमें विद्यानन्दकी आसपरीक्षाके "श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुत-सलिलनिधेरिद्वरत्नोद्भवस्य प्रोत्थानारम्भकाले" इत्यादि पद्म * को देकर यह बतलाना चाहा था कि विद्यानन्द इसके द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि 'मोक्ष-मार्गस्थ नेतारम्' इत्यादि जिस मंगलस्तोत्रका इसमें संकेत है उसे तत्त्वार्थशास्त्र-की उत्पत्तिका निमित्त बतलाते समय या उसकी प्रोत्थान-भूमिका बांधते समय पूज्यपादने रखा है। और इसके लिये उन्हें 'प्रोत्थानारम्भकाले' पदकी अर्थ-विषयक बहुत कुछ खींचतान करनी पड़ी थी, 'ज्ञास्त्रावताररचितस्तुति' तथा 'तत्त्वार्थशास्त्रादौ' जैसे स्पष्ट पदोंके सीधे सच्चे अर्थको भी उसी 'प्रोत्थानारम्भ-काले' पदके कलिपन पर्यन्तकी ओर घसीटनेको प्रेरणाके लिये प्रबृत्त होना पड़ा था और खींचतानकी यह सब जैषा पं० मुख्यलालजीके उस नोटके घनुरूप थी जिसे उन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र-द्वितीय भागके 'प्राकृत्यन' (पृ० १७) में अपने बुद्धिव्यापारके द्वारा स्थिर किया था। परन्तु 'प्रोत्थानारम्भकाले' पदके अर्थकी खींचतान उसी बक्त तक कुछ चल सकती थी जब तक विद्यानन्दका कोई सम्भू

* श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधेरिद्वरत्नोद्भवस्य

प्रोत्थानारम्भकाले सकलभृत्यमिदे शास्त्रकारं: कृतं यत् ।

स्तोत्रं तीर्थोपयानं पूर्वितपूरुपवं स्वामिमीमांसितं तद्

विद्यानन्दः स्वत्त्वार्थ्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धर्थं ॥१२३४

उल्लेख इस विषयका न मिलता कि वे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि मंगल-स्तोत्र को किसका बतला रहे हैं। चुनांचे न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी कोठिया और पं० रामप्रसादजी शास्त्री आदि कुछ विद्वानोंने जब पं० महेन्द्रकुमारजीकी भूलों तथा गलतियोंको पकड़ते हुए, अपने उत्तर-लेखोंके द्वारा विद्यानन्दके कुछ अभ्यान्त उल्लेखोंको सामने रखवा और यह स्पष्ट करके बतला दिया कि विद्यानन्दने उत्तर मंगलस्तोत्रको सूत्रकार उमास्वातिकृत लिखा है और उनके तत्त्वार्थ-सूत्रका मगलाचरण बतलाया है, तब उस खीच-तानकी गति रुकी तथा बन्द पड़ी। और इसालये उत्तर मंगलस्तोत्रको पूज्यपादकृत मानकर तथा समन्तभद्रको उसीका भीमांसाकार बतला कर निविषतरूपमे समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका (उत्तरवर्ती) विद्वान् बतलानेस्थ कल्पनाकी जो इमारत खड़ी की गई थी वह एक दम धराशायी हो गई है। और इसीसे पं० महेन्द्रकुमारजीको यह स्वीकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ा है कि आ० विद्यानन्दने उत्तर मंगलश्लोकको सूत्रकार उमास्वाति-कृत बतलाया है, जैसा कि अनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ५ कि० ८-९)में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' शीर्षक उनके उत्तर-लेखसे प्रकट है। इस लेखमे उन्होंने अब विद्यानन्दके कथनपर सन्देह व्यक्त किया है और यह सूचित किया है कि विद्यानन्दने अपनी अष्टसहस्रीमें अकलंककी अष्टशतीके 'देवागमेत्यादिमंगल-पुरस्सरस्तव' वाक्यका सीधा अर्थ न करके कुछ गलती साई है और उसीका यह परिणाम है कि वे उत्तर मंगलश्लोकको उमास्वातिकी कृति बतला रहे हैं, अन्यथा उन्हे इसके लिये कोई पूर्वाचार्यपरम्परा प्राप्त नहीं थी। उनके इस लेखका उत्तर न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीने अपने द्वितीय लेखमे दिया है, जो अन्यत्र (अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११मे) 'तस्वार्थसूत्रका मंगलाचरण'इस शीर्षकके साथ, प्रकाशित हुआ है। जब पं० महेन्द्रकुमारजी विद्यानन्दके कथनपर सन्देह करने लगे हैं तब वे यह भी असन्मिश्रणमें नहीं कह सकेंगे कि समन्तभद्रने उत्तर मंगलस्तोत्रको लेकर ही 'आत्मीमांसा' रखी है, क्योंकि उसका पता भी विद्यानन्दके आत्मपरीक्षादि गन्धोंसे चलता है। चुनांचे वे अब इसपर भी सन्देह करने लगे हैं, जैसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

"यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है कि स्वामी समन्तभद्रने 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोकपर 'आत्मीमांसा बनाई है या नहीं ?'

ऐसी स्थितिमें पं० सुखलालजीके द्वारा अपने प्राक्षयनोंमें प्रयुक्त निम्न बाक्यों का क्या मूल्य रहेगा, इसे विज्ञापाठक स्वयं समझ सकते हैं—

“ ‘पूज्यपादके द्वारा स्तुत आपके समर्थनमें ही उन्होंने (समन्तभद्रने) आत्मीमांसा लिखी है’ यह बात विद्यावन्दने आत्मपरीक्षा तथा अष्टसहस्रीमें सर्वेषा स्पष्टरूपसे लिखी है।” — अकलकग्रन्थत्रय, प्राक्कथन प०० ८

“ मैंने अकलकग्रन्थत्रयके ही प्राक्कथनमें विद्यानन्दकी आपसरीक्षा एवं अष्टसहस्रीके स्पष्ट उल्लेखके आधारपर यह निःशंक रूपसे बतलाया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके आपस्तोत्रके मीमांसाकार है अतएव उनके उत्तरवर्ती ही है।”

“ ठीक उसी नरहसे समन्तभद्रने भी पूज्यपादके ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ वाले मंगलपद्मको लेकर उसके ऊपर आत्मीमांसा रची है।”

“ पूज्यपादका ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ वाला मुप्रसन्न पद्य उन्हें (समन्तभद्रको) मिला फिर तो उनकी प्रतिभा और जग उठी।”

—न्यायकुमुद० दि० प्राक्कथन प०० १७—१६

इन बाक्योंपरसे मुझे यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पं० सुखलालजी-जैसे प्रौढ़ विद्वान् भी कच्चे आधारोंपर ऐसे सुनिश्चित बाक्योंका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं ! सम्भवतः इसकी तहमें कोई गलत धारणा ही काम करती हुई जान पड़ती है, अन्यथा जब विद्यानन्दने आत्मपरीक्षा और अष्टसहस्रीमें कहीं भी उक्त मंगलश्लोकके पूज्यपादकृत होनेकी बात लिखी नहीं तब उसे ‘सर्वेषा स्पष्ट रूपमें लिखी’ बतलाना कैसे संगत हो सकता है ?” नहीं हो सकता ।

अब रही दूसरे साधनकी बात, पं० महेन्द्रकुमारजी इस विषयमें पं० सुखलालजीके एक युक्ति-बाक्यको उद्घटतकरते और उसका अभिनन्दन करते हुए, अपने उसी जैनमिद्दान्तभास्कर वाले लेखके अन्तमें, लिखते हैं—

“श्रीमान् पडित सुखलालजी साठका इस विषयमें यह तर्क ‘कि यदि समन्तभद्र पूर्ववर्ती होते, तो समन्तभद्रकी आत्मीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उल्लेख अपनी सर्वार्थसिद्धि आदि कृतियोंमें किए बिना न रहते’ हृदयको लगता है।”

इसमें पं० सुखलालजीके जिस युक्ति-वाक्यका डबल इनवर्टेंड कामाजके भीतर उल्लेख है उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने अकलंगप्रत्यय और न्याये-कुमुदचन्द्र द्विं० भागके प्राकृथनोंमें देखनेकी प्रेरणा की है, तदनुसार दोनों प्राकृथनोंको एकसे अधिक बार देखा गवा, परन्तु क्षेद है कि उनमें कहीं भी उक्त वाक्य उपलब्ध नहीं हुआ ! न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनामें यह वाक्य कुछ दूसरे ही शब्दपरिवर्तनोंके साथ दिया हुआ है* और वहां किसी 'प्राकृथन' को देखनेकी प्रेरणा भी नहीं की गई । अच्छा होता यदि 'भास्कर' वाले लेखमें भी किसी प्राकृथनकी देखनेकी प्रेरणा न की जाती अबवा पं० सुखलालजीके तर्कोंको उन्हींके शब्दोंमें रखा जाता और या डबल इनवर्टेंड कामाजके भीतर न दिया जाता । अस्तु; इस विषयमें पं० सुखलालजीने जो तर्कं अपने दोनों प्राकृथनोंमें उपस्थित किया है उसीके प्रधान अंशको ऊपर साधन नं० २ में संकलित किया गया है, और उसमें पंडितजीके खास शब्दोंको इनवर्टेंड कामाजके भीतर दे दिया है । इससे पंडितजीके तर्कंकी स्पिरिट अध्यवा रूपरेखाको भले प्रकार समझ जा सकता है । पंडितजीने अपने पहले प्राकृथनमें उपस्थित तर्कंकी बाबत दूसरे प्राकृथनमें यह स्वयं स्वीकार किया है कि—'मेरी वह (ससमंगीवाली) दलील विद्यानन्दके स्पष्ट उल्लेखके आधारपर किये गये निराण्यकी पोषक है । और उसे मैंने वहाँ स्वतन्त्र प्रमाणके रूपसे पेश नहीं किया है ;' परन्तु उक्त भंगलालनोको 'पूज्यपादकृत' बतलाने-वाला जब विद्यानन्दका कोई स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं और उसकी कल्पनाके आधारपर जो निराण्य किया गया था वह गिर गया है तब पोषकके रूपमें उपस्थित की गई दलील भी व्यर्थ पड़ जाती है; क्योंकि जब वह दीवार ही नहीं रही जिसे लेप लगाकर पुष्ट किया जाय तब लेप व्यर्थ ठहरता है—उसका कुछ अर्थ नहीं रहता । और इसलिये पंडितजीकी वह दलील विचारके योग्य नहीं रहती ।

* यथा—“यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राकाकालीन होते तो वे अपने इस युग-प्रधान आचार्यकी आत्मीयांता जैसी अनूठी कृतिको उल्लेख किये बिना नहीं रहते ।”

यथापि, पं० महेंद्रकुमारजीके शब्दोंमें, “ऐसे नकारात्मक प्रमाणोंमें किसी आचार्यके समयका स्वतन्त्रभावसे साधन-बाधन नहीं होता.” फिर भी विचार-की एक कोटि उपस्थित होआती है। सम्भव है कलको पं० सुखलालजी अपनी दलीलको स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमें भी उपस्थित करने लगें, जिसका उपक्रम उन्होंने “समन्तभद्रकी जैनपरम्पराको उस समयकी नई देन” जैसे, शब्दोंको बादमें जोड़कर किया है और साथ ही ‘समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अशमें स्पष्ट भी न करने’ तककी बात भी वे लिख गये हैं ॥ अतः उसपर—हिनीय साधनपर—विचार कर लेना ही आवश्यक जान पड़ता है। और उमीका इस नेटमें आगे प्रयत्न किया जाता है।

सबसे पहले मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि यथापि किसी आचार्यके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने पूर्ववर्ती आचार्योंके सभी विषयोंको अपने ग्रन्थमें उल्लेखित अथवा चर्चित करे—ऐसा करना न करना ग्रन्थकारकी रुचि-विषेषपर अवलम्बित है। कुनौचि ऐसे बहुतसे प्रमाण उपस्थित किये जासकते हैं जिनमें पिछले आचार्योंने पूर्ववर्ती आचार्योंकी कितनी ही बातोंको अपने ग्रन्थोंमें छुआ तक भी नहीं; इन्हें भी पूज्यपादके सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उनके ‘सारसंग्रह’ नामके एक खास ग्रन्थ का ‘धवलता’ में नवविषयक उल्लेख न मिलता है। और उसपरसे वह उनका महत्वका स्वतन्त्र ग्रन्थ जान पड़ता है। बहुत सम्भव है कि उसमें उन्होंने ‘सप्तभंगी’ की भी विशदचर्चा की हो। उस ग्रन्थकी अनुपलब्धिकी हालतमें यह नहीं कहा जा सकता कि पूज्यपादने ‘सप्तभंगी’ का कोई विशद कथन नहीं किया अथवा उसे छुपा तक नहीं।

इसके सिवाय, ‘सप्तभंगी’ एकमात्र समन्तभद्रकी ईजाद अथवा उन्हींके द्वारा आविष्कृत नहीं है, बल्कि उसका विधान पहलेसे चला आता है और वह श्रीकुन्द्रकुन्द्राचार्यके ग्रन्थोंमें भी स्पष्टरूपसे पाया जाता है; जैसा कि निम्न दो गाथाओंसे प्रकट है—

कृ देखो, न्यायकुमुदचन्द्र द्विं भागका ‘प्राकृष्णन’ १०१ ।

फू “तथा सारसंग्रहेऽप्युक्तं पूज्यपादः—‘अनन्तप्रयातिमकस्य वस्तुनोऽन्यत-मर्पायादिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवशप्रयोगो नय’ इति ।”

अथि त्ति य गति त्ति य हवदि अवत्तव्यमिदि पुणो दव्यं ।
पञ्चायेण दु केण वि तदुभयमादिष्टमण्णं वा ॥ २-२३

—प्रवचनसार

सिय अथि गति उद्यं अवत्तव्यं पुणो य तत्तिद्यं ।
दव्यं सु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४ ॥

—पंचास्तिकाय

आचार्य कुन्दकुन्द पूज्यपादसे बहुत पहले हो गये हैं। पूज्यपादने उनके मोक्ष-प्राभूतादि ग्रन्थोंका अपने समाधितंत्रमें बहुत कुछ अनुसरण किया है—कितनी ही गाथाओंको तो अनुवादितरूपमें ज्यों-का-स्थों रख दिया है † और कितनी ही गाथाओंको अपनी सर्वार्थसिद्धिमें ‘उक्तं च’ प्रादि रूपसे उद्धृत किया है, जिसका एक नमूना ५वें अध्यायके १६वें सूत्रकी टीकामें उद्धृत पंचास्तिकायकी निम्न गाथा है—

अण्णोण्णं पविसंता दिंता ओगासमण्णमण्णस्म ।

मेलंता वि य णिच्चं सगं सभावं ण विजहंति ॥५॥

ऐसी हालतमें पूज्यपादके द्वारा ‘सत्तभंगी’ का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख न होने-पर भी जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि आ० कुन्दकुन्द पूज्यपादके बाद हुए हैं वैसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि समन्तभद्राचार्य पूज्यपादके बाद हुए हैं—उत्तरवर्ती हैं। और न यही कहा जा सकता है कि ‘सत्तभंगी’ एकमात्र समन्त-भद्रकी कृति है—उन्हींकी जैनपरम्पराको ‘नई देन’ है। ऐसा कहनेपर आचार्य कुन्दकुन्दको समन्तभद्रके भी बादका विद्वान् कहना होगा, और यह किसी तरह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता—मर्कराके ताम्रपत्र और अनेक शिलालेख तथा ग्रन्थोंके उल्लेख इसमें प्रबल बाधक हैं। अतः पं० सुखलालजीकी ‘सत्तभंगी’ बाली दलील ठीक नहीं है—उससे उनके अभिमतकी सिद्धि नहीं हो सकती।

अब मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि पं० सुखलालजीने अपने साधन- (दलील) के अंगरूपमें जो यह प्रतिपादन किया है कि ‘पूज्यपादने समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पश्चं भी नहीं किया’ वह अभ्रात्मन न होकर

† देखो, वीरसेवामन्दिरमें प्रकाशित ‘समाधितंत्र’ की प्रस्तावना

वस्तुस्थितिके विरुद्ध है; ज्योंकि समन्तभद्रकी उपलब्ध पाँच असाधारण कृतियोंमें- से आसमीमांसा, युक्त्यनुशासन, स्वयंभूस्तोत्र और रत्नकरण्डशावकाचार नामकी चार कृतियोंका स्पष्ट प्रभाव पूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' पर पाया जाता है; जैसा कि अन्तःपरीक्षणके द्वारा स्थिर की गई नीचेकी कुछ तुलना परसे प्रकट है। इस तुलनामें रखे हुए वाक्योंपरसे विज्ञपाठक सहजहीमें यह जान सकेंगे कि आ० पूज्यपादने स्वामी समन्तभद्रके प्रतिपादित अर्थको कहीं शब्दानुसरणके, कहीं पदानुसरणके, कहीं वाक्यानुसरणके, कहीं उदाहरणके, कहीं पर्यायशब्द-प्रयोगके, कहीं 'आदि' जैसे संग्राहकपद-प्रयोगके और कहीं व्याख्यान-विवेचनादि- के रूपमें पूर्णतः अथवा अंशातः अपनाया है—ग्रहण किया है। तुलनामें स्वामी समन्तभद्रके वाक्योंको ऊपर और श्रीपूज्यपादके वाक्योंको नीचे भिन्न टाइपोंमें रख दिया गया है, और साथमें यथावश्यक अपनी कुछ व्याख्या भी दे दी गई है, जिससे साधारण पाठक भी इस विषयको ठीक तौरपर अवगत कर सके:—

(१) “नित्यं तत्प्रत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा ।

क्षणिकं कालमेदात्ते बुद्ध्यसंचरदोपतः ॥”

—आसमीमांसा, का० ५६

“नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यत्रतिपत्तिसिद्धे: ।”

—स्वयम्भूस्तोत्र, का० ४३

“तदेवेदमिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम् । तदकस्मात् भवतीति योऽस्य हेतुः स सङ्घावः ।”...येनात्मना प्राग्दृष्टं वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि भावात्- देवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते.....ततसङ्घवेनाऽव्ययं नित्यमिति निश्चयिते । ततु कथंचिद्वेदितव्यम् ।

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू ३१

यहाँ पूज्यपादने समन्तभद्रके 'तदेवेदमिति' इस प्रत्यभिज्ञानलघुणको ज्योंका त्यो अपनाकर इसकी व्याख्या की है, 'नाऽकस्मात्' शब्दोंको 'अकस्मात् भवति' रूपमें रखा है, 'तदविच्छिदा' के लिये सुत्रानुसार 'तद्वावेनाऽव्ययं' शब्दोंका प्रयोग किया है और 'प्रत्यभिज्ञान' शब्दको ज्योंका तर्यो रहने दिया है। साथ ही 'न नित्यमन्यत्रतिपत्तिसिद्धे:' 'क्षणिकं कालमेदात्' इन वाक्योंके भावको 'ततु कथंचिद्वेदितव्यं' इन शब्दोंके द्वारा संगृहीत और सूचित किया है।

(२) “नित्यत्वैकान्तपञ्चेऽपि विकिया नोपचारे ।”

—आत्मीयांसा, का० ३७

“भावेषु नित्येषु विकारहानेन कारकव्यापृतकार्ययुक्तिः ।

न व्यवधानं न च तद्विमोक्षः ॥

—युक्त्यनुशासन, का० ८

“न सर्वथा नित्यमुद्देत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।”

—स्वयम्भूस्तोत्र २४

“सर्वथा नित्यत्वे अन्यथाभावाभावात् संसारतञ्जितिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात् ।”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू० ३१

यहीं पूज्यपादने ‘नित्यत्वैकान्तपञ्चे’ पदके लिये समन्तभद्रके ही अभिमतानुसार ‘सर्वथा नित्यत्वे’ इन समानार्थक पदका प्रयोग किया है, ‘विकिया नोपचारे’ और ‘विकारहानेन’ के आशयको ‘अन्यथाभावाभावात्’ पदके द्वारा व्यक्त किया है और शेषका समावेश ‘संसार-तञ्जितिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात्’ इन शब्दोंमें किया है।

(३) “विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरालकर्ते ।

—स्वयम्भूस्तोत्र ५३

“विवक्षा चाऽविवक्षा च विशेष्येऽनन्तवर्मिणि ।

सतो विशेषणस्याऽत्र नाऽसतस्तत्तदर्थिभिः ॥”

—आत्मीयांसा, का० ३५

“अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्य कस्यचिद्दर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्रावान्यमर्पितमुपनीतमिति यावत् । तद्विपरीतमनर्पितम्, प्रयोजनाभावात् । सतोऽप्यविवक्षा भवतीत्युपसर्जनीभूतमनर्पितमुच्यते ।”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू० ३२

यहीं ‘अर्पित’ और ‘अनर्पित’ शब्दोंकी व्याख्या करते हुए समन्तभद्रकी ‘मुख्य’ और ‘गुण (गोण)’ शब्दोंकी व्याख्याको अर्थतः अपनाया गया है। ‘मुख्य’ के लिये प्रावान्य, ‘गुण’ के लिये ‘उपसर्जनीभूत’ ‘विवक्षित’ के लिये ‘विवक्षया प्रापित’ और ‘अन्यो गुणः’ के लिये ‘तद्विपरीतमनर्पितम्’ जैसे शब्दोंका प्रयोग

किया गया है। साथ ही, 'अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवक्षात्मस्य कस्य-चिद्भूमस्य' वे शब्द 'विवक्षित' के स्पष्टीकरणको लिये हुए हैं—आत्मीमांसाकी उक्त कारिकामें जिस अनन्तवर्गिक्षेत्रका उल्लेख है और मुक्त्यनुशासनकी ४६ वी कारिकामें जिसे 'तत्त्वं त्वनेकान्तमसेषरूपम्' शब्दोंसे उल्लेखित किया है उसीको पूज्यपादने 'अनेकान्तात्मकवस्तु'के रूपमें यही अहण किया है। और उनका 'धर्मस्वरूप' पद भी समन्तभद्रके 'विवेषरात्मस्य' पदका स्वानापन है। इसके सिवाय, दूसरी महत्वकी बात यह है कि आत्मीमांसाकी उक्त कारिकामें जो यह नियम दिया गया है कि विवक्षा और अविवक्षा दोनों ही सत् विवेषणकी होती है—असत्की नहीं—और जिसको स्ववभूत्सौत्रके 'भविवक्षो न निरात्मकः' शब्दोंके द्वारा भी सूचित किया गया है, उसीको पूज्यपादने 'सतोऽप्यविक्षा भवतीति' इन शब्दोंमें संग्रहीत किया है। इस तरह प्रपित और प्रनपितकी व्याख्यामें समन्तभद्रका पूरा अनुसरण किया गया है।

(५) “न द्रव्यपर्यायपृथग्न्यवस्था, द्वैयात्म्यमेकापेण्या विरुद्धम् ।
धर्मी च धर्मस्त्वं मिथस्त्रिघेमौ न सर्वधा लेऽभिमत्ती विरुद्धौ ॥”
—मुक्त्यनुशासन, का० ४७

“न सामान्यात्मनांदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥”

—आत्मीमांसा, का० ५७

“ननु इदमेव विरुद्धं तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति । यदि नित्यं व्ययो-दयाभावादनित्यताव्याघातः । अथानित्यत्वमेव स्थित्यभावाचित्यताव्याघात इति । नैतद्विरुद्धम् । कुतः ? (उत्थानिका)……अपितानपितसिद्धेनार्थित विरोधः । तद्यथा—एकस्य देवदत्तस्य पिता, पुत्रो, भ्राता, भागिनेय इत्येव-मादयः सम्बन्धा जनकत्व-जन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्ध्यन्ते अपेणाभंदात् । पुत्रापक्षेया पिता, पित्रपक्षेया पुत्र इत्येवमादिः । तथा द्रव्यमपि सामान्यापेण्या नित्यं, विशेषापेण्याऽनित्यमिति नास्ति विरोधः ॥”

—सर्वार्थसिं० अ० ५ सू० ३२

यहीं पूज्यपादने एक ही वस्तुमें उत्पाद-व्ययादिकी हड्डिसे नित्य-भवित्यके विरोधकी शंका उठाकर उसका जो परिहार किया है वह सब मुक्त्यनुशासन

और आत्मीमांसाकी उक्त दोनों कारिकाओंके आशयको लिए हुए है—उसे ही पिता-पुत्रादिके सम्बन्धों-द्वारा उदाहृत किया गया है। आत्मीमांसाकी उक्त कारिकाके पूर्वार्थ तथा तृतीय चरणमें कही गई नित्यता-प्रनित्यता-विषयक बातको ‘द्रव्यमणि सामान्यार्पणावा नित्यं, विशेषार्पणाऽनित्यभिति’ हन शब्दोंमें फलितार्थः खण्डे रखता गया है। और युक्त्यनुशासनकी उक्त कारिकामें ‘एकार्पणात्मे’—एक ही अपेक्षासे—विरोध बतलाकर जो यह सुभाया था कि अर्पणाभेदसे विरोध नहीं आता उसे ‘न विरुद्धन्ते अर्पणाभेदात्’ जैसे शब्दों-द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

(५) “द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यतिरेकतः ।
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥
संज्ञा-संख्या-विशेषाच्च स्वलक्षणविशेषतः ।
प्रयोजनादिभेदाच्च तज्जनात्वं न सर्वथा ॥”

—आत्मीमांसा, का०७१, ७२

“यद्यपि कथंचिद् व्यदेपशादिभेदहेतुत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये (गुणाः)
तथापि तदव्यतिरेकात्तपरिणामाच्च नान्ये ।”—सर्वार्थसिद्धि अ० ५ स०४४

यहां द्रव्य और शुणों (पर्यायों) का अन्यत्व तथा अनन्यत्व बतलाते हुए, आठ पूज्यपादने स्वामी समन्तभद्रकी उक्त दोनों ही कारिकाओंके आशयको अपनाया है और ऐसा करते हुए उनके वाक्यमें कितना ही शब्द-साम्य भी आगया है; जैसा कि ‘तदव्यतिरेकात्’ और ‘परिणामाच्च’ पदोंके प्रयोगसे प्रकट है। इसके तिवाय, ‘कथंचित्’ शब्द ‘न सर्वथा’ का, ‘द्रव्यादन्य’ पद ‘नानात्व’ का ‘नान्य’ शब्द ‘ऐक्य’ का, ‘व्यपदेश’ शब्द ‘संज्ञा’ का वाचक है तथा ‘भेदहेत्वपेक्षया’ पद ‘भेदात्’ ‘विशेषात्’ पदोंका समानार्थक है और ‘प्रादि’ शब्द संज्ञासे भिन्न शेष संख्या-लक्षण-प्रयोजनादि भेदोंका संश्लेषक है। इस तरह शब्द और अर्थ दोनोंका साम्य पाया जाता है।

(६) “उपेत्ता फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः ।
पूर्वायाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥”—आत्मी०१०२
“ज्ञानभावस्यात्मनः कर्मयलीमसम्य करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीति-

रुपजायते, सा फलमित्युच्यते । उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम् । रागद्वेषयो-
रप्रणिधानमुपेक्षा अन्धकारकल्पाज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते ।”

—सर्वार्थसिद्धि अ० १ सू० १०

यहाँ इन्द्रियोंके आलम्बनसे भर्त्यके निवायमें जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे प्रमाणज्ञानका फल बतलाकर ‘उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्’ यह वाच्य दिया है, जो स्पष्टतया आत्ममीमांसाकी उक्त कारिकाका एक अवतरण जान पड़ता है और इसके १०८ प्रमाणफल-विषयमें दूसरे आचार्यके मतको उद्घृत किया गया है। कारिकामें पड़ा हुआ ‘पूर्व’ पद भी उसी ‘उपेक्षा’ फलके लिये प्रयुक्त हुआ है जिससे कारिकाका प्रारम्भ है।

(७) “नयस्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥६३॥” —स्वयम्भूत्सोत्र
“निरपेक्षा नयामित्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ।”

—ग्रासमीमासा, का० १०८

“मिथोऽनपेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्नांशा न चांशी पृथगास्ति तेभ्यः ।
परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्द्वया नयात्तद्वदसिक्रियायाम् ॥

—युक्त्यनुवासन, का० ५६

“त एते (नया) गुण-प्रधानतया परस्परतंत्राः सम्यग्दर्शनहेतयः
पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्यात् तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः
पटादिसंज्ञाः स्वतंत्राश्चासमर्थाः । निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं
नास्तीति ॥” —सर्वार्थसिद्धि, अ० १ सू० ३३

स्वामी समन्तभद्रने अपने उक्त वाक्योंमें नयोंके मुख्य और गुण (गौण) ऐसे दो भेद बतलाये हैं, निरपेक्ष नयोंको मिथ्या तथा सापेक्ष नयोंको वस्तु = वास्तविक (सम्यक्) प्रतिपादित किया है और सापेक्ष नयोंका ‘अर्थकृत्’ लिख कर फलतः निरपेक्ष नयोंको ‘नार्थकृत्’ अथवा कार्यशक्त (असर्व) मूलित किया है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि जिस प्रकार परस्पर अनपेक्ष अंश पुरुषार्थके हेतु नहीं, किन्तु परस्पर सापेक्ष अंश पुरुषार्थके हेतु देख-जाते हैं और अंशोंसे मंसी पृथक् (मिथ्या अथवा स्वतन्त्र) नहीं होता। उसी प्रकार नयोंको जानना चाहिए। इन सब वाक्योंको सामने रखकर ही पूज्यपादने

अपनी सर्वार्थिंसिद्धिके उक्त वाक्यों की जान पड़ती है। इस वाक्यमें असें-
धंशीकी बातको तत्त्वादिपटादिसे उदाहृत करके रखा है। इसके 'मुण्डप्रवाल-
तथा', 'परस्परतंत्राः', 'पुरुषार्थ-क्रियासामनसामव्याप्तिः' और 'स्वतंत्राः' पद
क्रब्याः 'मुण्डमुख्यकल्पतः' 'परस्परेकाः-सापेकाः 'पुरुषार्थ-हेतुः', 'निरपेकाः'
अनपेकाः' पदोंके समानार्थक हैं। और 'धर्मर्थाः' तथा 'कार्य नास्ति' के
पद 'धर्मकृतः'के विपरीत 'नार्थकृतः'के आवश्यको लिये हुए हैं।

(८) “भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो भावान्तरं भाववद्वृत्तस्ते।

प्रभीयते च व्यपदिश्यते च वस्तुव्यवस्थाङ्गमन्यत् ॥”

—मुक्त्यनुशासन, का० ५६

“अभावस्य भावान्तरत्वादेतत्त्वादिभिरभावस्य वस्तुधर्मत्वसिद्धेत्व ।”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ६ सू० २७

इस वाक्यमें पूज्यपादने, अभावके वस्तुधर्मत्वकी सिद्धि बतलाते हुए,
समन्तभद्रके मुक्त्यनुशासन-गत उक्त वाक्यका शब्दानुसरणके साथ कितना
अधिक अनुकरण किया है, यह बात दोनों वाक्योंको पढ़ते ही स्पष्ट होजाती
है। इनमें 'हेत्वङ्ग' और 'वस्तुव्यवस्थाङ्ग' शब्द समानार्थक हैं।

(९) “धनधान्यादि-प्रथं परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता । परिमित-
परिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामाऽपि ॥” —रत्नकरण शा० ६१

“धन-धान्य-क्षेत्रादीनामिच्छावशान् कृत्यरिच्छेदो यृहीति

पंचमाणुष्रतम् ।” —सर्वार्थसिद्धि, अ० ७ सू० २०

यही 'इच्छावशान् कृत्यरिच्छेदः' ये शब्द 'परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता'
आवश्यको लिये हुए हैं।

(१०) “तिर्यक्क्लेशवणिज्याहिसारम्भप्रलभ्नादीनाम् ।

कथाप्रसङ्गप्रसवः स्मर्तव्यः पापउपदेशः ॥” —रत्नकरण० ७६

“तिर्यक्क्लेशवणिज्यप्राणवधकारम्भकादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापो-
पदेशः ॥” —सर्वार्थसिद्धि, अ० ७ सू० २५

२१ वें सूत्र ('दिवदेशानर्थदण्ड०') की व्याख्यामें अनर्थदण्डतके समन्त-
भद्र-प्रतिपादित पाँचों भेदोंको अपनाते हुए उनके जो लक्षण दिये हैं उनमें शब्द

और ग्रंथका कितना धर्मिक साम्य है, यह इस तुलना तथा आगे की दो तुलनाओं से प्रमाणित है। यहां 'प्राणिवध' हिसाका समानार्थक है और 'आदि' में 'प्रलम्बन' भी वर्णित है।

(११) “वध-वन्धुक्षेद्वाराद्वागाव परकलत्रादेः ।

आध्यानमपच्छुद्वं शासनं जिनशासने विशदाः ॥”

—रत्नकरण्ड० ७८

“परेषां जयपराजयवधवन्धनाङ्केदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम्” —सर्वार्थसिं० अ० ७ सू० २१

यहां 'कथं स्यादिति मनसा चिन्तनम्' यह 'आध्यानम्' पदकी व्याख्या है 'परेषां जय पराजय' तथा 'परस्वहरण' यह 'आदि' वाड-डारा शुहीत ग्रंथका कुछ प्रकटीकरण है और 'परस्वहरणादि' में 'परकलप्रादि' का अपहरण भी शामिल है।

(१२) “च्छितिसलिलदहनपवनारम्भ विफलं वनस्पतिच्छेदम् ।

सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभावन्ते ॥” —रत्नकरण्ड० ८०

“प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्टन-सलिलसेचनाद्यवद्यकार्यं प्रमादचरितम् ॥” —सर्वार्थसिं० अ० ७ सू० २१

यहां 'प्रयोजनमन्तरेण' यह पद 'विफलं' पदका समानार्थक है, 'वृक्षादि' पद 'वनस्पति' के आशयको लिये हुए है, 'कुट्टन-सेचन' में 'प्रारम्भ' के आशयका एक देश प्रकटीकरण है और 'आदि भवद्यकार्यं' में 'दहन-पवनारम्भ' तथा 'सरणं सारणं' का आशय संशुहीत है।

(१३) “त्रसहतिपरिहरणार्थं चौद्रं पिशितं प्रमादपरिदृतये ।

मध्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥” —रत्नकरण्ड० ८४

“मधु मांसं मध्यं च सदा परिहत्त्वयं त्रसघाताज्जिवृत्तचेतसा ॥”

—सर्वार्थसिं० अ० ७ सू० ११

यहां 'त्रसघाताज्जिवृत्तचेतसा' ये शब्द 'त्रसहतिपरिहरणार्थं' पदके स्पष्ट आशयको लिये हुए हैं और मधु, मांस, परिहत्त्वयं ये पद क्रमशः क्षीरं, पिशितं, वर्जनीयं पदोंके व्याप्तियद हैं।

(१४) अल्पफलबहुविधातान्मूलकमार्दीणि शृंगवेराणि ।

नवनीत-निष्ठकुसुरं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ —रत्नकरण्ड० ८५

‘कैतक्यजुं नपृष्णानि शृंगवेरमूलकादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तका-
यव्यपदेशार्हाणि परिहर्तव्यानि बहुधाताल्पफलत्वात् ।’

यहाँ ‘बहुतधानाल्पफलत्वात्’ पद ‘अल्पफलबहुविधातात्’ पदका शब्दानु-
सरणके साथ समानार्थक है ‘परिहर्तव्यानि’ पद ‘हेय’ के आशयका लिए हुए हैं
और ‘बहुजन्तुयोनिस्थानानि’ जैसे दो पद स्पष्टीकरणके रूपमें हैं ।

(१५) ‘यदनिष्ठं तद्ब्रतयेद्यात्तुपसेव्यमेतदपि जाह्नात् ।

अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्ब्रतं भवति ॥’

—रत्नकरण्ड० ८६

“यानवाहनाभरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्ठमित्यनिष्ठाचिवतनं
कर्तव्यं कालनियमेन यावज्जीवं वा यथाशक्ति ।”

“ब्रतमभिसन्धिकृतो वियमः ।” —सर्वार्थसिं० अ०७ स० २१, १

यहाँ ‘यानवाहन’ आदि पदोंके द्वारा ‘अनिष्ट’ की व्याख्या की गई है, शेष
भोगोपभोगपरिमाणव्रतमें अनिष्टके निवर्तनका कथन समन्तभद्रका अनुसरण है ।
साथमें ‘कालनियमेन’ और ‘यावज्जीव’ जैसे पद समन्तभद्रके ‘नियम’ और
‘यम’ के आशयको लिए हुए हैं, जिनका लक्षण रत्नकरण्ड० श्रा० के अगले पद
(८७) में ही दिया हुआ है । भोगोपभोगपरिमाणव्रतके प्रसंगानुसार समन्त-
भद्रने उत्तरपदके उत्तरार्थमें यह निर्देश किया था कि भ्रष्टेग्य विषयसे ही नहीं
किन्तु योग्य विषयसे भी जो ‘अभिसन्धिकृता विरति’ होती है वह व्रत कहलाती
है । पूज्यपादने इस निर्देशसे प्रसंगोपात्म ‘विषयाद्योग्यात्’ पदोंको निकाल कर
उसे व्रतके साधारण लक्षणके रूपमें अहरण किया है, और इसीसे उस लक्षणको
प्रकृत अध्याय (नं० ७) के प्रथम ‘सूत्रकी व्याख्यामें दिया है ।

(१६) ‘आहारीपवयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।

‘वैश्यावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मवेन चतुरस्ताः ॥’ —रत्नकरण्ड० ११७

“स (अतिविसंविभागः) चतुर्विधः—मिष्ठोपकरणीष्वप्रतिश्रयमेदात् ।”

—सर्वार्थसिं० अ० ७ स० २१

यहाँ पूज्यपादने समन्तभद्र-प्रतिपादित दानके चारों भेदोंको अपनाया है। उनके 'मिक्षा' और 'प्रतिष्ठय' शब्द क्लमशः 'आहार' और 'आवास' के लिये प्रयुक्त हुए हैं।

इस प्रकार ये तुलनाके कुछ नमूने हैं जो श्रीपूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' पर स्वामी समन्तभद्रके प्रभावको—उनके साहित्य एवं विचारोंकी छापको—स्पष्टतया बतला रहे हैं और द्वितीय साधनको दूषित ठहरा रहे हैं। ऐसी हालतमें मित्रदर पं० सुखलालजीका यह कथन कि 'पूज्यपादने समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी नहीं किया' बड़ा ही आदर्शजनक जान पड़ता है और किसी तरह भी सगत मालूम नहीं होता। आशा है पं० सुखलालजी उक्त तुलनाकी रोशनीमें इस विषयपर फिरसे विचार करनेकी कृपा करेंगे।



समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका मूलनाम 'स्तुतिविद्या' है; जैसा कि आदिम मंगलपदामे प्रयुक्त हुए 'रत्नतिविद्यां प्रसाधये' इस प्रतिज्ञावाक्यसे जाना जाता है। ग्रन्थका 'गत्वैकस्तुतमेव' नामक जो अन्तिम पद्य कवि और काव्यके नामको लिए हुए एक चक्रवृत्तरूपमें चित्रकाव्य है उसकी छह आरों और नव बलयोंबाली चित्ररचनापरसे ग्रन्थका नाम 'जिनस्तुतिशत्' निकलता है, जैसा कि टीकाकारने व्यक्त किया है और इसलिए ग्रन्थका दूसरा नाम 'जिनस्तुतिशत्' है जो ग्रन्थकारको इष्ट रहा मालूम होता है। यह नाम जिनस्तुतियोंके रूपमें स्तुतिविद्याके पद्योंकी प्रधान संस्थाको साथमें लिये हुए है और इसलिये इसे स्तुतिसंस्थापरक नाम समझना चाहिये। जो ग्रन्थनाम संस्थापरक होते हैं उनमें 'शत' की संस्थाके लिये ऐसा नियम नहीं है कि ग्रन्थकी पद्यसंख्या पूरी सी ही हो वह दो चार दस बीस अधिक भी हो सकती है; वैसे सम्भाविष्टकी पद्यसंख्या १०५ और मूँहर-जैनशतकी १०७ है। और भी बहुतसे शत-संस्थापरक ग्रन्थनामोंका ऐसा ही हाल है। मारतमें बहुत ग्रन्थीनकालसे कुछ चीजोंके विषयमें ऐसा दस्तूर रहा है कि वे सौ की संख्या अथवा सेकड़ेके रूपमें सरीदी जानेपर कुछ अधिक संख्यामें ही मिलती है; वैसे आम कही ११२ और कही १२० की संख्यामें मिलते हैं इत्यादि। शतक ग्रन्थोंमें भी ग्रन्थकारोंकी प्रायः ऐसी ही नीति रही है—उन्होंने 'शत' कहकर भी शतसे प्रायः कुछ अधिक पद्य ही अपने पाठकोंको प्रदान किये हैं। इस हिस्सेपरस्तुत ग्रन्थमें ११६ पद्य होते हुए भी उसका 'जिनस्तुतिशत'

यह नाम सार्थक जान पड़ता है। 'शत' और 'शतक' दोनों एकार्थक हैं अर्थः 'जिनस्तुतिशतं' को जिनस्तुतिशतकं भी कहा जाता है। 'जिनस्तुतिशतक' का बादको संक्षिप्तरूप 'जिनशतक' होगया है और यह प्रथमका तीसरा नाम है, जिसे टीकाकारने 'जिनशतकनामेति' इस वाक्यके द्वारा प्रारम्भमें ही व्यक्त किया है। साथ ही, 'स्तुतिविद्या' नामका भी उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ अलक्ष्मारोंकी प्रधानताको लिये हुए है और इसलिये अनेक ग्रन्थप्रतियोगे इसे 'जिनशतालक्ष्मार' अथवा 'जिनशतकालकार' जैसे नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और इसलिये यह ग्रन्थका चौथा नाम अबवा ग्रन्थनामका चौथा संस्करण है।

ग्रन्थ-परिचय—

समन्तभद्र—भारतीया का अंगरूप यह ग्रन्थ जिन-स्तुति-विषयक है। इसमें वृषभादि चतुर्विंशतिजिनोंकी—चौबीस जैन तीर्थकरोंकी—अलंकृत भाषामें बड़ी ही कलात्मक स्तुति की गई है। कहीं श्लोकके एक चरणको उलटकर रख देनेसे दूसरा चरण कृ. पूर्वार्थको उलटकर रख देनेसे उत्तरार्थ † और समूचे श्लोकको उलटकर रख देनेसे दूसरा श्लोक ‡ बन गया है। कहीं-कहीं चरणके पूर्वार्थ-उत्तरार्थमें भी ऐसा ही कम रखका गया + है और कहीं-कहीं एक चरणमें क्रमज्ञः जो अक्षर है वे ही दूसरे चरण में है, पूर्वार्थमें जो अक्षर हैं वे ही उत्तरवर्ती श्लोकमें हैं, परन्तु अर्थ उन सबका एक-दूसरेसे प्रायः भिन्न है और वह अक्षरोंको सटा कर तथा अलगसे रखकर भिन्न-भिन्न शब्दों तथा पदोंकी कल्पना-द्वारा संभालित किया गया है। श्लोक नं० १०२ का उत्तरार्थ है—'ओमते वर्द्धमानाय नमो नमितविद्युषे'। अगले दो श्लोकोंका भी यही उत्तरार्थ इसी अक्षर-क्रमको लिये हुए है; परन्तु वही अक्षरोंके विन्यासमें और पदादिककी जुदी कल्पनाओंसे अर्थ प्रायः बदल गया है।

‡ श्लोक १०, ८३, ८८, ६५ : † श्लोक ५७, ६६, ६८।

‡ श्लोक ८६, ८७। + श्लोक ८५, ८३, ८४।

* देखो, श्लोक ५, १५, २५, ५२, ११-१२, १६-१७, ६७-३८, ४६-४७, ७६-७७, ८३-८४, १०६-१०७।

कितने ही श्लोकप्राच्यमें ऐसे हैं जिनमें पूर्वार्थके विषमसत्या कुछभक्तरोंको उत्तरार्थ-के समसत्याकुछ भक्तरोके साथ कमश मिलाकर पढ़नेसे पूर्वार्थ और उत्तरार्थके विषमसत्याकुछभक्तरोको पूर्वार्थके समसत्याक अक्षरोकेसाथ कमश मिलाकर पढ़नेसे उत्तरार्थ हो जाता है। ये श्लोक 'मुरज' अथवा 'मुरजबन्ध' कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मृदज्जुके बन्धनोंजैसी चिनाकृतिको लिये हुए भक्तरोका बन्धन रक्खा गया है। ये चिनालकार थोड़े थोड़ेसे घन्टरके कारण अनेक भेदोंको लिये हुए हैं और अनेक शलाकोंमें समाविष्ट किये गये हैं। कुछ ज्ञानों ऐसे भी कलापूरण हैं जिनके प्रथमादि चार चरणोंके चार आव भक्तरोको अनित्यादि चरणोंके चार अनित्यम अक्षरोंके साथ मिलाकर पढ़नेसे प्रथम चरण बन जाता है। इसी तरह प्रथमादि चरणोंके द्वितीयादि अक्षराओं अनित्यादि चरणोंके उपान्त्यादि अक्षरोंके साथ त्रयम चलाकर पढ़नेपर द्वितीयादि चरण बनजाते हैं, ऐसे श्लोक 'अर्थ-भ्रम' रहते हैं ।

कुछ पद्य चक्राकृतिके रूपमें अक्षर-विन्यासको लिये हुए हैं और इससे उनके कोई काई अक्षर चक्रमें एक बार लिख जाकर भी अनेक बार पढ़नेमें आते हैं। उनमेंने कुछमें यह भी सूची है कि चक्रके गभवन्में लिखा जानेवाला जो आदि अक्षर है वह चक्रकी चार महा दिशाओंमें स्थित चारों धारोंके अन्नमें भी पड़ता है । १११ और ११२ नम्बरके पद्योंमें तो वह सूची और भी बड़ी चाढ़ी है। उनकी छह भारों और नव बलयोवाली चक्ररचना करनेपर गभवन्में अथवा केन्द्र-बृत्तमें स्थित जो एक अक्षर ('न' या 'र') है वही छहों भारोंके प्रथम चतुर्थ तथा सप्तम बलयमें भी पड़ता है, और इसलिए चक्रमें १६ बार लिखा जाकर २८ बार पढ़ा जाना है। पद्यमें भी वह दो-दो अक्षरोंके अन्तरालसे ८८ बार प्रयुक्त हुआ है। इनके सिवाय, कुछ चक्रवत्त ऐसे भी हैं जिनमें आदि अक्षरको गर्भमें नहीं रक्खा गया बल्कि गर्भमें वह अक्षर रक्खा गया है जो प्रथम तीन चरणोंमेंसे

[†] देखो श्लोक न० ३, ४, १८, १९, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४, ५६, ६०, ६२ ।

[‡] देखो, श्लोक २६, ५३, ५४ आदि । [†] देखो, श्लोक २२, २३, २४ ।

प्रत्येकके मध्यमें प्रयुक्त हुआ है फूँ। इन्हीमें कवि और काव्यके नामोंको अंकित करनेवाला ११६ वाँ चलनुत है।

अनेक पद्य ग्रन्थमें ऐसे हैं जो एकसे अधिक भलंकारोंको साथमें लिये हुए हैं, जिसका एक नमूना ८४ वाँ श्लोक है, जो आठ प्रकारके चित्रालंकारोंसे भलंकृत है *। यह श्लोक अपनी चित्ररचनापरसे सब ओरसे समानरूपमें पढ़ा जाता है।

कितने ही पद्य ग्रन्थमें ऐसे हैं जो दो-दो अक्षरोंसे बने हैं—दो व्यञ्जनालरों-से ही जिनका सारा शरीर निभित हुआ है †। १४ वाँ श्लोक ऐसा है जिसका प्रत्येक पाद भिन्न प्रकारके एक-एक अक्षरसे बना है और वे अक्षर हैं कमशः य, न, म, त, । साथ ही, 'ततोतिता तु तेतीत' नामका १६ वाँ श्लोक ऐसा भी है जिसके सारे शरीरका निर्माण एक ही तकार अक्षरसे हुआ है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ शब्दालंकार और चित्रालंकारके अनेक भेद-भेदोंसे अलंकृत है और इसीसे टीकाकार महोदयने टीकाके प्रारंभमें ही इस कृतिको 'समस्तगुणगणोपेता' विशेषणके साथ 'सर्वालंकारभूषिता' (प्रायः सब अलंकारोंसे भूषित) लिखा है। सचमुच यह ग्रन्थ ग्रन्थकारमहोदयके अपूर्व काव्य-कौशल, अद्भुत व्याकरण-पाण्डित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। इसकी दुर्बोधिताका उल्लेख टीकाकारने 'योगिनामपि दुष्करा'—योगियोंके लिये भी दुर्गम (कठिनतासे बोधगम्य)—विशेषणके द्वारा किया है और साथ ही इस कृतिको 'सद्गुणाधारा' (उत्तम गुणोंकी आधारभूत) बतलाते हुए 'सुपविद्यनी' भी सूचित किया है और इससे इसके द्वारोंकी कोमलता, सुरभिता और सुन्दरताका भी सहज सूचन हो जाता है, जो ग्रन्थमें पद-पदपर लक्षित होती है।

ग्रन्थ रचनाका उद्देश्य—

इस ग्रन्थकी रचनाका उद्देश्य, ग्रन्थके प्रथम पदमें 'आगस्ती जये' वाक्यके द्वारा 'पापोंको जीतना' बतलाया है और दूसरे अनेक पदोंमें भी जिनसुनिसे

* देखो, पद्य नं० ११०, ११३, ११४, ११५, ११६।

* देखो,—वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशितग्रन्थ पृष्ठ नं० १०३, १०४ का फूटनोट।

† दोनों, पद्य नं० ५१, ५२, ५५, ८५, ९३, ९४, ९७, १००, १०६।

पापोंको जीते जानेका भाव अर्थक किया है। परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते जाते हैं यह एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण विषय है। यहाँ उसके स्पष्टीकरणका विशेष अवसर नहीं है, फिर भी संक्षेपमें इतना ज़रूर बतला देना होगा कि जिन तीर्थकुरोंकी स्तुति की गई है वे सब पाप-विनेता हुए हैं—उन्होंने अज्ञान-मोह तथा काम-क्रोधादि पापप्रकृतियोंपर पूर्णतः विजय प्राप्त की है। उनके चिन्तन और आराधनसे अथवा हृदयमन्दिरमें उनके प्रतिष्ठित (विराजमान) होनेसे पाप खड़े नहीं रह सकते—पापोंके हृद बन्धन उसी प्रकार ढीले पढ़ जाते हैं जिस प्रकार कि अन्दरके बृक्षपर मोरके आनेसे उससे लिपटे हुए सौंप ढीले पढ़ जाते हैं और वे अपने विजेतासे घबराकर कहीं भाग निकलनेकी ही सोचने लगते हैं ॥ ६ ॥ अथवा यो कहिये कि उन पुण्यपुरुषोंके ध्यानादिकसे आत्माका वह निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने आना है जो सभी जीवोंकी सामान्य सम्पत्ति है और जिस प्राप्त करनेके सभी भव्य जीव अधिकारी है। उस शुद्ध स्वरूपके सामने आने ही अपनी उस भूली हुई निधिका स्मरण हो उठता है, उसकी प्राप्तिके लिये प्रेम तथा अनुराग जाग्रत हो जाता है और पाप-परिणाम सहज ही छूट जाता है। अतः जिन पूनात्माओंमें वह शुद्धस्वरूप पूर्णतः विकसित हुआ है उनकी उपासना करता हुआ भव्यजीव अपनेमें उस शुद्धस्वरूपको विकसित करनेके लिये उसी तरह नमर्थ होता है जिस तरह कि तैलादिकसे सुसज्जित बत्ती दीपककी उपासना बरती हुई उसके चरणोंमें जब तन्मयताकी इष्टिसे अपना मस्तक रखती है तो तद्रूप हो जाती है—स्वयं दीपक बनकर जगमगा उठती है। यह सब भक्ति-धोगका माहात्म्य है, स्तुति-नूजा और प्रार्थना जिसके प्रधान अग है। साधु स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणामोंकी—पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंकी—निमित्तभूत होती है और अमृत अथवा पापकी निवृत्तिरूप वे कुशल-परिणाम ही आत्माके विकासमें सहायक होते हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने

॥ “हृष्टिनि स्वयं विभो ! शिखिलीभवन्ति

जन्तोः क्षणेण निविडा अपि कर्मवन्धाः ।

सद्यो भुजंगमया इव मध्यभाग-

मम्यागते बनश्चिलण्डिनि चन्दनस्य ॥”—कल्याणमन्दिर

अपने स्वयम्भूतोन्मर्मे, परमात्माकी—परम वीतराय-सर्वज्ञ-जिनदेवकी—स्तुतिको कुशल-परिणामोंकी हेतु बतलाकर उसके द्वारा कल्याणमार्गको सुलभ और स्वाधीन बतलाया है । साथ ही यह भी बतलाया है कि पुष्प-गुणोंका स्मरण आत्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र बनाता है । और स्तुतिविद्या (११४) में जिनदेवकी ऐसी सेवाको अपने 'तेजस्वी' तथा 'सुकृती' होने आदिका कारण निर्दिष्ट किया है ।

परन्तु स्तुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त अथवा रुढिका पालन-मात्र न हो कर सच्ची स्तुति होनी चाहिये—स्तुतिकर्ता स्तुत्यके गुणोंकी अनुशूति करता हुआ उनमें अनुरागी होकर तदरूप होने अथवा उन आत्मीय गुणोंको अपनेमें विकसित करनेकी शुद्ध-मावनासे सम्पन्न होना चाहिये, तभी स्तुतिका ठीक उद्देश्य एवं फल (पापोंको जीतना) घटित हो सकता है और वह ग्रन्थकारके जबदोमें 'जन्मारण्यशिखी' (१५)—भवभ्रमणरूप संसार-बनको दहनकरनेवाली अग्नि—तक बनकर आत्माके पूरण विकासमें सहायक हो सकती है ।

और इसलिये स्तुत्यकी प्रशंसामें अनेक विकली-नुपश्ची वाते बनाकर उसे प्रसन्न करना और उसकी उस प्रसन्नता-द्वारा अपने लौकिक कार्योंको सिद्ध-करना—कराना-जैसा कोई उद्देश्य भी यहाँ अभीष्ट नहीं है । परमवीतरागदेवके साथ वह घटित भी नहीं हो सकता; क्योंकि सचिन्दानन्दरूप होनेसे वह सदा ही ज्ञान तथा आनन्दमय है, उसमें रागका कोई अंश भी विद्यमान नहीं है, और इसलिये किसीकी पूजा-बन्दना या स्तुति-प्रशंसासे उसमें नवीन प्रसन्नताका कोई संचार नहीं होता और न वह अपनी स्तुति-पूजा करनेवालेको पुरस्कारमें कुछ देता-दिलाता ही है । इसी तरह आत्मामें द्वेषाशके न रहनेसे

† “स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।

किमेवं स्वाधीन्याक्षयति सुलभे आयसपये

स्तुयान्त त्वा विद्वान्स्ततमभिपूज्यं नविजिनम् ॥१६॥”

‡ “ तथापि ते पुष्पगुणस्मृतिनः पुनाति चित्तं दुरिताङ्गनेभ्यः ॥५७॥”

वह किसीकी निन्दा या भवशापर कभी अप्रसन्न नहीं होता, कोप नहीं करता और न दण्ड देने-दिलानेका कोई भाव ही भनमें लाता है। निन्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिये समान हैं, वह दोनोंके प्रति उदासीन है, और इस लिये उनसे उसका कुछ भी बनता या बियड़ता नहीं है। फिर भी उसका एक निन्दक स्वतः दण्ड पा जाता है और एक प्रशासक अम्बुदयको प्राप्त होता है, यह सब कमों और उनकी फल-प्रदान-शक्तिका बड़ा ही वैचित्र्य है, जिसे कर्मसिद्धान्तके अध्ययनसे भले प्रकार जाना जा सकता है। इसी कर्म-फल-वैचित्र्यको ध्यानमें रखते हुए स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भूतोत्र में कहा है—

सुहृत्त्वयि श्रीसुभगत्वमशुते द्विष्ट्वयि प्रत्यय-वत्प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो ! परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६६॥

‘हे भगवन् ! आप मित्र और शत्रु दोनोंके प्रति अत्यन्त उदासीन हैं। मित्रसे कोई अनुराग और शत्रुसे कोई प्रकारका द्वेषभाव नहीं रखते, इसीसे मित्रके कार्योंसे प्रसन्न होकर उसका भला नहीं चाहते और न शत्रुके कार्योंसे अप्रसन्न होकर उसका बुरा मनाते हैं,—, फिर भी आपका मित्र (अपने मुण्णानुराग, प्रेम और भक्तिभावके द्वारा) श्रीविशिष्ट सौभाग्यको अर्थात् ज्ञानादि लक्ष्यमीके आधिपत्यरूप अम्बुदयको प्राप्त होता है और एक शत्रु (अपने मुण्णाद्वयी परिणामके द्वारा) ‘विवक्’ प्रत्ययादिकी तरह विनाशको—अपकर्षको—प्राप्त हो जाता है, यह आपका ईहित-चरित्र बड़ा ही विचित्र है !!

ऐसी स्थितिमें ‘स्तुति’ सचमुच ही एक विद्या है। जिसे यह विद्या सिद्ध होती है वह सहज ही पापोंको जीतने और अपना आत्मविकास सिद्ध करनेमें समर्थ होता है ^५। इस विद्याकी सिद्धिके लिये स्तुत्यके युणोंका परिचय चाहिये, युणोंमें बढ़मान अनुराग चाहिये, स्तुत्यके युण ही आत्म-युण हैं और उनका विकास अपने आत्मामें हो सकता है ऐसी हड़ अद्वा चाहिये। साथ ही,

^५ इसीसे टीकाकारने स्तुतिविद्याको ‘घन-कठिन-धातिकर्म-व्यव-दहन-समर्थी’ लिखा है—पर्यात् यह बतलाया है कि ‘वह घने कठोर धातिवाकर्मरूपी ईन्धनको मस्त करनेवाली समर्थ भवित है’, और इससे पाठक धन्यके आध्यात्मिक यहृत्वका कितना ही भनुभव प्राप्त कर सकते हैं ।

मन-वचन-कायरूप योगको स्तुत्यके प्रति एकाग्र करनेकी कला आनी चाहिये । इसी योग-साधनारूप कलाके द्वारा स्तुत्यमें स्थित प्रकाशसे अपनो स्नेहसे—भक्तिरससे—भीगी हुई आत्म-बत्तीको प्रकाशित और प्रज्वलित किया जाता है ।

वस्तुतः पुरातन आचार्योंने—प्रज्ञ-पूर्वादिके पाठी महर्षियोंने—वचन और कायको ग्रन्थ व्यापारोंसे हटाकर स्तुत्य (उपास्य) के प्रति एकाग्र करनेको ‘द्रव्यपूजा’ और मनकी नाना-विकल्पजनित व्ययताको दूर करके उसे ध्यान तथा गुणचिन्तनादिके द्वारा स्तुत्यमें लीन करनेको ‘भावपूजा’ बतलाया है । प्राचीनोंकी इस द्रव्यपूजा आदिके भावको श्रीश्रिमितगति आचार्योंने अपने उपासकाचार (विं ११वीं शताब्दी) के निम्न वाक्यमें प्रकट किया है—

“ वचोविग्रह-संकेचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनै; ॥”

स्तुति-स्तोत्रादिके रूपमें ये भक्तिगाठ ही उस समय हमारे पूजा-पाठ थे, ऐसा उपासना-साहित्यके अनुसन्धानसे जाना जाता है । आधुनिक पूजापाठोंकी तरहके कोई भी दूसरे पूजापाठ उस समयके उपलब्ध नहीं हैं । उस समय मुमुक्षु-जन एकान्त-स्थानमें बैठकर अध्यात्मा अहंत्रपतिमा आदिके सामने स्थित होकर बड़े ही भक्तिभावके साथ विचार-पूर्वक इन स्तुतिस्तोत्रोंको पढ़ते थे और सब कुछ भूल-भुलाकर स्तुत्यके गुणोंमें लीन हो जाते थे; तभी अपने उद्देश्यमें सफल और अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेमें समर्थ होते थे । ग्रन्थकारमहोदय उन्हीं मुमुक्षुजनोंके अग्रणी थे । उन्होंने स्तुतिविद्याके मार्गको बहुत ही परिष्कृत और प्रशस्त किया है ।

बीतरागसे प्रार्थना क्यों ?

स्तुतिविद्याका उद्देश्य प्रतिष्ठित होजानेपर अब एक बात और प्रस्तुत की जाती है और वह यह कि, जब बीतराग अहंतादेव परम उदासीन हीनेसे कुछ करते-घरते नहीं तब ग्रन्थमें उनसे प्रार्थनाएँ क्यों की गई हैं और क्यों उनमें व्यर्थ ही कर्त्तव्य-विषय-का आरोप किया गया है ? यह प्रश्न बड़ा सुन्दर है,

और सभीके लिये इसका उत्तर वांछनीय एवं जाननेके योग्य है। अतः अब इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है।

सबसे पहली बात इस विषयमें यह जान लेनेकी है कि इच्छापूर्वक अथवा बुद्धिपूर्वक किसी कामको करनेवाला ही उसका कर्ता नहीं होता बल्कि अनिच्छा-पूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक कार्य करनेवाला भी कर्ता होता है। वह भी कार्यका कर्ता होता है जिसमें इच्छा या बुद्धिका प्रयोग ही नहीं बल्कि सद्ग्राव (अस्तित्व) भी नहीं अथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं है। ऐसे इच्छाशून्य तथा बुद्धिविहीन कर्ता कामोंके प्रायः निमित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्षरूपमें उनके कर्ता जड़ और चेतन दीनों ही प्रकारके पदार्थ हुआ करते हैं। इस विषयके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं, उनपर जरा ध्यान दीजिये—

(१) 'यह दवाई अमुक रोगको हरनेवाली है।' यहाँ दवाईमें कोई इच्छा नहीं और न बुद्धि है, किर भी वह रोगको हरनेवाली है—रोगहरण कार्यकी कर्ता कही जाती है; क्योंकि उसके निमित्तसे रोग दूर होता है।

(२) 'इस रसायनके प्रसादसे मुझे नीरोगताकी प्राप्ति हुई।' यहाँ 'रसायन' जड़-धीषधियोंका समूह होनेसे एक जड़ पदार्थ है; उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्नता; फिर भी एक रोगी प्रसन्नचित्तसे उस रसायनका सेवन करके उसके निमित्तसे आरोग्य-लाभ करता है और उस रसायनमें प्रसन्नताका आरोप करता हुआ उत्त वाक्य कहता है। यह सब लोक-व्यवहार है अथवा अलंकारोंकी भाषामें कहनेका एक प्रकार है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि 'मुझे इस रसायन या दवाईने अच्छा कर दिया' जूँ कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छापूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं किया। हाँ, उसके निमित्तसे शरीरमें रोगनाशक तथा आरोग्यवर्धक कार्य जरूर हुआ है और इसलिये वह उसका कार्य कहा जाता है।

(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य बिना छत्रीके सामनेसे पा रहा था। सामनेवाले मनुष्यकी हटि जब छत्रीपर पड़ी तो उसे अपनी छत्रीकी याद आगई और यह स्मरण हो गया कि 'मैं अपनी छत्री अमुक दुकानपर भूलगया हूँ', चुनावे वह तुरन्त ही वहाँ गया और अपनी छत्री ले गाया और आकर कहने लगा— 'तुम्हारी इस छत्रीका मैं बहुत आभारी हूँ,

इसने मुझे मेरी भूली हुई छत्रीकी याद दिलाई है।' यहाँ छत्री एक जड़बस्तु है, उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं और न उसने बुद्धिपूर्वक छत्री भूलनेकी वह बात ही सुझाई है, फिर भी चूँकि उसके निमित्तसे भूली हुई छत्रीकी स्मृतिप्रादिष्ट्य यह सब कार्य हुआ है इसीसे अलंकृत भाषामें उसका आभार माना गया है।

(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर आसक्त होगया, तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया और कहने लगा—‘उस स्त्रीने मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चुरा लिया, मेरे ऊपर जाहू कर दिया ! मुझे पागल बना दिया ! अब मैं बेकार हूँ और मुझसे उसके बिना कुछ भी करते-धरते नहीं बनता।’ परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कोई खबर नहीं—किसी बातका पता तक नहीं और न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धिपूर्वक कोई कार्य ही किया है—उस पुरुषने ही कहीं जाते हुए उसे देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके निमित्तको पाकर उस मनुष्यके मात्रम्-दोषोंको उत्तेजना मिली और उसकी यह सब दुर्दशा हुई। इसीसे वह उसका सारा दोष उस स्त्रीके मर्ये मढ़ रहा है; जब कि वह उसमें भ्राताभावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, बड़ा कारण तो उस मनुष्यका ही मात्रमदोष था।

(५) एक दुःखित और पीड़ित गरीब मनुष्य एक सन्तके आश्रयमें बला गया और वडे भक्तिभावके साथ उस सन्तकी सेवा-शुश्रूषा करने लगा। वह सन्त संसार-देह-भोगोंसे विरक्त है—वैराग्यसम्पन्न है—किसीसे कुछ बोलता कहता नहीं—सदा मौनसे रहता है। उस मनुष्यकी अपूर्व भक्तिको देखकर पिछले भक्त लोग सब दंग रह गये ! अपनी भक्तिको उसकी भक्तिके आगे नगण्य गिनने लगे और वडे आदर-सत्कारके साथ उस नवायननुक भक्तहृदय मनुष्यको अपने-अपने घर भोजन कराने लगे और उसकी दूसरी भी अनेक आवश्यकताओंकी पूर्ति गड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कभी-कभी वह भक्तिमें विहृत होकर सन्तके चरणोंमें पिर पड़ता और वडे ही कम्पित स्वरमें गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगता—‘हे नाथ ! माप ही मुझ दीन-हीनके रक्षक हैं, माप ही मेरे असदाता है, मापने मुझे वह भोजन दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भूल मिट

यही है। आपके चरण-शरणमें आनेसे ही मैं सुखी बन गया हूँ, आपने मेरे सारे दुःख भिटा दिये हैं और मुझे वह हृषि प्रदान की है जिससे मैं अपनेको और जगतको भले प्रकार देख सकता हूँ। अब दिया कर इतना अनुग्रह और कीजिये कि मैं जल्दी ही इस संसारके पार हो जाऊँ।' यहाँ भक्त-द्वारा सन्तके विषयमें जो कुछ कहा गया है वैसा उस सन्तने स्वेच्छासे कुछ भी नहीं किया। उसने तो भक्तके भोजनादिकी व्यवस्थाके लिये किसीको संकेत तक भी नहीं किया और न अपने भोजनमें कभी कोई ग्रास ही उठा कर उसे दिया है; किर भी उसके भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई। दूसरे भक्तजन स्वयं ही बिना किसीको प्रेरणाके उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमें प्रवृत्त हो गये और वैसा करके अपना अहोभाग्य समझने लगे। इसी तरह सन्तने उस भक्तको लक्ष्य करके कभी कोई खास उपदेश भी नहीं दिया, किर भी वह भक्त उस सन्त-की दिनचर्या और अवाच्चिसर्ग (मौनोपंचांशुरूप) मुख-मुद्रादिकपरसे स्वयं ही उपदेश ग्रहण करता रहा और प्रबोधको प्राप्त हो गया। परन्तु यह सबकुछ घटित होनेमें उस सन्त पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निमित्त कारण रहा है— भले ही वह कितना ही उदासीन क्यों न हो। इसीसे भक्त-द्वारा उसका सारा श्रेय उक्त सन्तपुरुषको ही दिया गया है।

इन सब उदाहरणोंपरसे यह बात सहज ही समझमें आजाती है कि किसी कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह लाजिमी (अनिवार्य) अथवा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथमें इच्छा, बुद्धि तथा प्रेरणादिक भी हों, वह उनके बिना भी हो सकता है और होता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तुको अपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके अथवा प्रादेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि ऐसा न करते हुए भी दाता होता है, जब कि उसके निमित्तसे, प्रभावसे, आश्रयमें रहनेसे, सम्पर्कमें आनेसे, कारणका कारण बननेसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त नहीं जाती है। ऐसी स्थितिमें परमवीतराग शीघ्रहृतादिदेवोंमें कर्तृत्वादि-विषयका आरोप अर्थ नहीं कहा जा सकता— भले ही वे अपने हाथसे सीधा (direct) किसी का कोई कार्य न करते हों, मोहनीय कर्मके अभावसे उनमें इच्छाका अस्तित्व तक न हो और न किसीको उस कार्यकी प्रेरणा या आज्ञा देना ही उनसे बनता

हो। क्योंकि उनके पुण्यस्मरण, चिन्तन, पूजन, कीर्तन, स्तवन और आराधन से जब पापकर्मोंका नाश होता है, पुण्यको बढ़ि और आत्माकी विशुद्धि होती है—जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है—तब फिर कौन कार्य है जो अटका रह जाए? * ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, भक्त जनोंकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, और इसलिये उन्हें यही कहना पड़ता है कि ‘हे भगवन् आपके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया; जैसे कि रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्राप्त होना कहा जाता है। रसायन-आधारित जिस प्रकार अपना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न नहीं होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करती है उसी तरह वीतराग भगवान् भी अपने सेवकपर प्रसन्न नहीं होते और न प्रसन्नताके फल-स्वरूप इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य सिद्धकरनेका प्रयत्न ही करते हैं। प्रसन्नता-पूर्वक सेवन-आराधनके कारण ही दोनोंमें—रसायन और वीतरागदेवमें—प्रसन्नताका आरोप किया जाता है और यह अलंकृत भाषाका कथन है। अन्यथा, दोनोंका कार्य वस्तुस्वभावके वशवर्ती, संयोगोंकी अनुकूलताको लिये हुए, स्वतः होता है—उसमें किसीकी इच्छा अथवा प्रसन्नतादिकी कोई बात नहीं है।

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी हड्डिसे एक बात और प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि, संसारी जीव मनसे बचनसे या कायसे जो किया करता है उससे आत्मामें कम्पन (हलन-चलन) होकर द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए पुदगल परमाणु-ओंका आत्म-प्रवेश होता है, जिसे ‘आक्षब’ कहते हैं। मन-बचन-काय की यह किया यदि शुभ होती है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है तो अशुभ कर्मका आक्षब होता है। तदनुसार ही बन्ध होता है। इस तरह कर्म शुभ-अशुभके भेदसे दो भागोंमें बँटा रहता है। शुभकार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे शुभकर्म अथवा पुण्यप्रकृति और अशुभ कार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे अशुभकर्म अथवा पापप्रकृति कहते हैं। मुमुक्षुभ-भावोंकी तरनमता और कथायादि परिणामोंकी तीव्रता-मन्दतादिके कारण इन कर्मप्रकृतियोंमें ब्रह्मवर परिवर्तन, (उलटफेर) अथवा संकरण हुआ करता है। जिस

* ‘पुण्यप्रभावात् कि कि न भवति’—‘पुण्यके प्रभावसे क्या-क्या नहीं होता?’ ऐसी जोकोवित भी प्रसिद्ध है।

समय जिस प्रकारकी कर्मप्रकृतियोंके उदयका प्राबल्य होता है उस समय कार्य प्रायः उन्हींके अनुरूप निष्पन्न होता है। वीतरागदेवकी उपासनाके समय उनके पुण्यगुणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण एवं चिन्तन करने और उनमें अनुराग बढ़ानेसे शुभभावों (कुशलपरिणामों)की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणामि सूक्ष्टी और पुण्य-परिणामि उसका स्थान लेती है। नतीजा इसका यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस (अनुभाग) सूखता और पुण्यप्रकृतियोंका रस बढ़ता है। पापप्रकृतियोंका रस सूखने और पुण्यप्रकृतियोंमें रस बढ़ानेसे 'अन्तरायकम्' नामकी प्रकृति, जो कि एक मूल पापप्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य (शक्ति-बल) में विघ्नहृप रहा करती है—उन्हें होने नहीं देती—वह भग्नरस होकर निर्बल पड़ जाती है और हमारे इष्ट कार्यको बाधा पहुँचानेमें समर्थ नहीं रहती। तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, विगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं और उन सबका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। इसीसे स्तुति-बन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जैसा कि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकादिमें उद्घृत एक आचार्यमहीदयके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“ नेष्टं विहन्तु शुभभाव-भग्न-रसप्रकर्षः प्रभुरन्तरायः ।
तत्कामचारेण गुणानुरागानुत्त्यादिरिष्टाथकदाऽङ्गदादे ॥ ”

जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-बन्दनादि कार्य इष्ट-फलको देनेवाले हैं और वीतरागदेवमें कर्तृत्व-विषयका आरोप सर्वथा असंगत तथा व्यर्थ नहीं है बल्कि उपरके निर्देशानुसार संगत और सुषठित है—वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादिकी हृषिसे कर्ता जरूर हैं और इस-लिये उनके विषयमें अकर्तृपनका सर्वथा एकान्त पक्ष घटित नहीं होता; तब उनसे तद्विषयक अथवा ऐसी प्रार्थनाओंका किया जाना भी असंगत नहीं कहा जा सकता औ उनके सम्पर्क तथा शरणबंधोंसे स्वयं सफल हो जाती हैं अथवा उपासना एवं भवितके द्वारा सहज-साध्य होती है। वास्तवमें परमवीतरागदेवसे प्रार्थना एक प्रकारकी भावना है अथवा यों कहिये कि अलंकारकी आवार्में देवके समक्ष अपनी मनःकामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है कि 'मैं आपके शरण-

शरस्मे रहकर और उससे पदार्थपाठ लेकर आत्मशक्तिको जागृत एवं विकसित करता हुआ अपनी उस इच्छाको पूरा करनेमें समर्थ होना चाहता है।' उसका यह प्राशय कदापि नहीं होता कि, 'हे बीतसाम देव ! प्राप अपने हाथ-पर हिलाकर मेरा असुक काम करदो, अपनी जबान चलाकर या अपनी इच्छाशक्ति-को काममें लाकर मेरे कार्यके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, आदेश दे दो अथवा सिफारिश कर दो; मेरा प्रज्ञान दूर करनेके लिये अपना ज्ञान या उसका एक दूषक तोड़कर मुझे दे दो; मैं दुखी हूँ, मेरा दूस प्राप ले लो और मुझे अपना सुख दे दो; मैं पापी हूँ, मेरा पाप प्राप अपने सिरपर उठालो—इत्यं उसके जिमेदार बन जाओ—और मुझे निष्पाप बना दो।' ऐसा प्राशय असम्भाव्यको सम्भाव्य बनाने जैसा है और देवके स्वरूपसे अनभिज्ञता व्यक्त करता है।

ग्रन्थकारमहोदय देवरूपके पूर्णपरीक्षक और बहुविज्ञ है। उन्होंने अपने स्तुत्यदेवके लिये जिन विशेषणपदों तथा सम्बोधनपदोंका प्रयोग किया है और अपने तथा दूसरोंके लिये जैसी कुछ प्रार्थनाएँ की हैं उनमें असम्भाव्य—जैसी कोई वात नहीं है—वे सब जैसे तुले शब्दोंमें देवगुणोंके अनुरूप, स्वाभाविक, सुसंभाव्य, युक्तिसंगत और सुसंचित हैं। उनसे देवके पुण्योंका बहुत बड़ा परिचय मिलता है और देवकी साकार मूर्ति सामने आ जाती है। ऐसी ही मूर्तिको अपने हृदय-पटलपर अंकित करके ग्रन्थकारमहोदय उसका व्यान, भजन तथा आराधन किया करते हैं; जैसा कि उनके 'स्वचित्तपटवालिस्य जिन्न चार्ह भजत्ययम्' (१०१) इस व.क्यसे जाना जाता है। मैं चाहूँता था कि उन विशेषणादिपदों तथा प्रार्थनाघोंका विवरण कराते हुए यहाँ उनपर कुछ विशेष प्रकाश ढाकूँ और इसके लिये मैंने उनकी एक सूची भी तयार की थी; परन्तु यह कृति खोरणासे अधिक लम्बी होती चली जाती है अतः उस विचारको यहाँ छोड़ना है इष्ट ज्ञान पढ़ता है। मैं समझता हूँ कि उस विषयमें जौ कुछ लिखा गया है उसपरसे सहृदय पाठक स्वर्ण ही उन सबका सामंजस्य संयापित करनेमें समर्थ हो सकेंगे। बोरसेवामन्दिरसे प्रकाशित यंत्रके हिन्दी अनुवादमें कहीं-कहीं कुछ वाक्तोंका स्फूटोकरण किया गया है, वहाँ नहीं किया गया और सामान्यतः पदोंका अनुवाद सात्र दे दिया गया है। वहाँ भी अन्यत्र कृष्णके अनुरूप उसका प्राप्त्य समझना चाहिये।

ग्रन्थटीका और टीकाकार—

इस ग्रन्थरत्नपर वर्तमानमें एक ही संस्कृत टीका उपलब्ध है, जिसके कतिका विषय कुछ जटिलसा हो रहा है। आम-तौरपर इस टीकाके कर्ता नरसिंह नामके कोई महाकवि समझे जाते हैं, जिनका 'विशेष परिचय ग्रन्थात है, और उसका कारण प्रायः यही जान पड़ता है कि अनेक हस्तलिखित प्रतियोंके अन्तमें इस टीकाको 'श्रीनर्सिंहमहाकवि-भव्योत्तमविरचिता' लिखा है^६। स्व० पं० पञ्चालालजी बाकलीबालने इस ग्रन्थका 'जिनशनक' नामसे जो पहला संस्करण सन् १६१२ में जयपुरकी एक ही प्रतिके आधारपर प्रकट किया था उसके टाइटिलपेजपर नरसिंहके साथ 'भट्ठ' शब्द और जोड़कर इसे 'नरसिंहभट्ठकृतव्याख्या' बना दिया था और उबने यह टीका नरसिंहभट्ठकृत समझी जाने लगी है। परन्तु 'भट्ठ' विशेषणकी जयपुरकी किसी प्रतिमें तथा देहली घर्मपुराके नवामन्दिरकी प्रतिमें भी उपलब्ध नहीं हुई और इसलिये नरसिंहका यह 'भट्ठ' विशेषण तो व्यर्थ ही जान पड़ना है। अब देखना यह है कि इस टीकाके कर्ता वास्तवमें नरसिंह ही है या कोई दूसरे विद्वान् ।

श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैनसाहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थ-के ३२वेंप्रकरणमें इस चर्चाको उठाया है और टीकाके प्रारम्भमें दिये हुए सात + पर्योंकी स्थिति और ग्रन्थ पर विचार करते हुए अपना जो मत व्यक्त किया है उसका सार इस प्रकार है—

^६ बाबा दुलीचन्दजी जयपुरके शास्त्रभण्डारकी प्रति नं० २१६ और २६६ के घन्तमें लिखा है—'इति कविगमकवादिवाग्मित्वगुणालंकृतस्य श्रीसमन्तभद्रस्य कृनिरियं जिनशतालंकारनाम समाप्ता ॥ टीका श्रीनर्सिंहमहाकविभव्योत्तमविरचिता समाप्ता ॥'

+ बाबा दुलीचन्दजी जयपुरके भण्डारकी मूल ग्रन्थकी दो प्रतियों नं० ४१५, ४५४ में भी ये सातों पद दिये हुए हैं, जो कि लेखकोंकी असाधारणी और नासमझीका परिणाम है; क्योंकि मूलकृतिके ये पद कोई अंग नहीं हैं।

(१) इस ठीकाके कर्ता 'नरसिंह' नहीं किन्तु 'वसुनन्दि' जान पढ़ते हैं अन्यथा इठे पदमें प्रयुक्त 'कुरुते वसुनन्द्यपि' वाक्यकी संगति नहीं बैठती ।

(२) एक तो नरसिंहकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभाव-से वसुनन्दि इस टीकाको बनानेमें समर्थ हुए ।

(३) पदोंका ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण ही भाषाकार (पं० लालाराम) ने इस वृत्तिको अपनी कल्पनासे 'भव्योत्तमनर्सिंहमट्टकृत' छपा दिया ।

इस मत की तीसरी बातमें तो कुछ तथ्य मालूम नहीं होता; क्योंकि हस्त-लिखित प्रतियोंमें टीकाको भव्योत्तमनर्सिंहकृत लिखा ही है और इसलिये 'मट्ट'विशेषणको छोड़कर वह भाषाकारकी कोई निची कल्पना नहीं है । दूसरी बातका यह अंश ठीक नहीं ज़चता कि वसुनन्दिने नरसिंहकी सहायतासे टीका बनाई; क्योंकि नरसिंहके लिये परतेकालूनकी क्रिया 'बधूय' का प्रयोग किया गया है, जिससे मालूम होता है कि वसुनन्दिके समयमें उसका अस्तित्व नहीं था । अब रही पहली बात, वह प्रायः ठीक जान पढ़ती है; क्योंकि टीकाके नरसिंहकृत होनेसे उसमें छठे पदकी ही नहीं किन्तु चौथे पदकी भी स्थिति ठीक नहीं बैठती । ये दोनों पद अपने मध्यवर्ती पदसहित निम्न प्रकार हैं:—

तस्याः प्रबोधकः करिवन्नास्तीति विदुवां मतिः ।

यावत्तावद्ववभूवैको नरसिंहो विभाकरः ॥ ४ ॥

दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रूयते महतां वचः ।

नरसिंहं पुनः प्राप्तं सुगमं सुगमं भवेत् ॥ ५ ॥

स्तुतिविद्यां समाप्तिव कस्य न क्रमते मतिः ।

तद्यूर्ति येन जाड्ये तु कुरुते वसुनन्द्यपि ॥ ६ ॥

यही भये पदमें यह बतलाया है कि 'जब तक एक नरसिंह नामका सूर्यं उस शूतकालमें उदित नहीं हुआ था जो अपने लिये परोक्ष है, तब तक विद्वानोंका यह यत था कि समन्वयाद्वारा 'स्तुतिविद्या' नामकी सुषष्ठिनीका कोई प्रबोधक—उसके अर्थको खोलने-खिलाने वाला—नहीं है ।' इस वाक्यका, जो परोपकूर्वके क्रियापंद 'बभूव' को सामने लिये हुए है, उस नरसिंहके द्वारा कहा जाना नहीं

बनवा जो स्वयं टीकाकार हो। पांचवें पद्ममें यह प्रकट किया गया है कि 'महान् पुरुषोंका ऐसा वचन मुना जाता है कि नरसिंहको प्राप्त हुआ दुर्भाग्यसे दुर्गम क्राव्य भी सुखमसे सुगम हो जाता है।' इसमें कुछ बड़ोंकी नरसिंहके विषयमें काव्यमर्मज्ञ होने विषयक सम्मतिका उल्लेखमात्र है और इसलिये यह पद्म नरसिंहके समयका स्वयं उसके द्वारा उक्त तथा उसके बादका भी हो सकता है। यो छठे पद्ममें स्पष्ट लिखा ही है कि स्तुतिविद्याको समाप्तित करके किसकी बुद्धि वहीं चलती? — जरूर चलती और प्रगति करती है। यही लजह है कि जडमति होते हुए वसुनन्दी भी उस स्तुतिविद्याकी वृत्ति कर रहा है। और इससे आगले पद्ममें आश्रयका महत्व स्वापित किया गया है।

ऐसी स्थिति में यही कहना पड़ता है कि यह वृत्ति (टीका) वसुनन्दीको कृति है—नरसिंहकी नहीं। नरसिंहकी वृत्ति वसुनन्दीके सामने भी मालूम नहीं होती, इसलिये प्रस्तुत वृत्तिमें उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। जान पड़ता है वह उस समय तक नहै हो चुकी थी और उसकी 'किवदन्ती' मात्र रह गई थी। प्रस्तु; इस वृत्तिके कर्ता वसुनन्दी संभवतः वे ही वसुनन्दी आचार्य जान पड़ते हैं जो देवागमवृत्तिके कर्ता हैं; क्योंकि वहां भी 'वसुनन्दिना जडमतिना' जैसे शब्दोंद्वारा वसुनन्दीने आपने को 'जडमति' सूचित किया है और समन्तभद्रका स्मरण भी वृत्तिके प्रारम्भमें किया गया है। साथ ही, दोनों वृत्तियोंका डंग भी समान है—दोनोंमें पद्मोंके पदक्रमसे अर्थ दिया गया है और 'किमुक्तं भवति', 'एतदुक्तं भवति'—जैसे बाक्योंके साथ अर्थका समुच्चय अथवा सारसंग्रह भी यथारूपि किया गया है। हाँ, प्रस्तुत वृत्तिके अन्तमें समाप्ति-सूचक वैसे कोई गच्छात्मक या पद्मात्मक वाक्य नहीं है जैसे कि देवागमवृत्तिके अन्तमें पाये जाते हैं। यदि वे होते तो एककी वृत्तिको दूसरेकी वृत्ति समझ लेनेवैसी गडबड ही न हो पाती। बहुत संभव है कि वृत्तिके अन्तमें 'कोई प्रशास्ति-पद्म रहा हो और वह किसी कारणवश प्रति-सेवकोंसे छूट गया हो; जैसा कि अन्य धनेके प्रन्थोंकी प्रतियोंमें हुआ है और जो जाना गया है। उसके छूट जाने अथवा खण्डित होजानेके कारण ही किसीने उस पुष्टिकाकी कल्पना की हो जो आधुनिक (१०० वर्षोंके भीतरकी) कुछ प्रतियोंमें पाई जाती है। इस यन्त्रकी अभी तक कोई प्राचीन प्रति सामने नहीं आई। अर्थः

प्राचीन प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये, तभी दोनों वृत्तियोंका यह सारा विषय स्पष्ट हो सकेगा ।

यह टीका यद्यपि साधारण प्रायः पदोंके अर्थबोधके रूपमें है—किसी विषयके विशेष व्याख्यानको साथमें लिये हुए नहीं है—फिर भी मूल ग्रन्थमें प्रवेश पानेके इच्छुकों एवं विद्यार्थियोंके लिये बड़ी ही काम की जीज है । इसके सहारे ग्रन्थ-पदोंके सामान्यार्थ तक गति होकर उसके भीतर (ग्रन्थरूपमें) संनिहित विशेषार्थको जाननेकी प्रवृत्ति हो सकती है और वह प्रयत्न करनेपर जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है । ग्रन्थका सामान्यार्थ भी उतना ही नहीं है जितना कि वृत्तिमें दिया हुआ है, बल्कि कहीं कहीं उससे अधिक भी होना संभव है; जैसाकि अनुशादक साहित्याचार्य पं० पश्चालालजीके उन टिप्पणीमें जाना जाता है जिन्हे पद नं० ५३ और ८७ के सम्बन्धमें दिया है । हो सकता है कि इस ग्रन्थपर कवि नरसिंहकी कोई बुहत टोका रही हो और अजितसेनाचार्यने अपने अलंकार-चिन्तामणि ग्रन्थमें, ५३वें पदको उद्घृत करते हुए, उसके विषयका स्वर्णीकरण करनेवाले जिन तीन पदोंको साथमें दिया है वे उक्त टीकाके ही अंश हों । यदि ऐसा हो तो उस टीकाको पश्चात्मक अथवा गद्य-पश्चात्मक समझना चाहिये ॥



॥ अलंकारचिन्तामणि ग्रन्थ इस समय मेरे सामने नहीं है । देहलीमें खोजने पर भी उसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी इसीसे इस विषयका कोई विशेष विचार यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

२१

समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ है। ‘स्वयम्भू’ शब्दसे यह प्रारम्भ होता है, जिसका तृतीयान्तपद ‘स्वयम्भुवा’ प्रादिमें प्रयुक्त हुआ है। प्रारम्भिक शब्दानुसार स्तोत्रोंका नाम रखलोकी वरिपाठी बहुत कुछ रुद्ध है। देवागम, सिद्धिप्रिय, भक्तिमर, कल्याणमन्दिर और एकीभाव जैसे स्तोत्र-नाम इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं—ये सब अपने अपने नामके शब्दसे ही प्रारम्भ होते हैं। इस तरह प्रारम्भिक शब्दकी हटिसे ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ यह नाम जहाँ सुचिटि है वहीं स्तुति-पात्रकी हटिसे भी यह सुचिटि है; क्योंकि इसमे स्वयम्भूवोंकी—स्वयम्भू-पदको प्राप्त चतुर्विशित जैनतीर्थकुरोंकी—स्तुति की गई हैं। दूसरोंके उपदेश विना ही जो स्वयं मोक्षमार्गको जानकर और उसका अनुष्ठान करके अनन्तवर्णन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यरूप आत्मविकासको प्राप्त होता है उसे ‘स्वयम्भू’ कहते हैं ; वृषभादिवीरपर्यन्त चौबीस जैनतीर्थकुर ऐसे अनन्तचतुष्टयादिरूप आत्मविकासको प्राप्त हुए हैं, स्वयम्भू-पदके स्वामी हैं और इसलिये उन स्तुत्योंका यह स्तोत्र ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ इस सार्थक संज्ञाको भी प्राप्त है। इसी हटिसे चतुर्विशिति-जिनकी स्तुतिरूप एक दूसरा स्तोत्र भी, जो ‘स्वयम्भू’ शब्दसे प्रारम्भ न हो कर ‘येन स्वयं बोधमयेन’ जैसे शब्दोंसे प्रारम्भ होता है, ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ कहलाता है।

५ “स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमनुद्रध अनुष्ठाय वाऽनन्तचतुष्टयतया
भवतीति स्वयम्भूः ।”—प्रभाचन्द्राचार्यः

ग्रन्थकी अनेक प्रतियोंमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' भी पाया जाता है। अकेले जैनसिद्धान्त-मवन आरामे ऐसी कई प्रतियाँ हैं। दूसरे भी शास्त्रभंडारोंमें ऐसी प्रतियाँ पाई जाती हैं। जिस समय सूचियोंपरसे 'समन्तभद्रस्तोत्र' यह नाम मेरे सामने आया तो मुझे उसी बक्त यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि यह गमनबन समन्तभद्रकी स्तुतिमें लिखा गया कोई ग्रन्थ है और इसलिये उसे देखनेकी इच्छा तीव्र हो उठी। मेंगानेके लिये लिखा पढ़ी करने पर मालूम हुआ कि यह समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र ही है—दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं, और इसलिये 'समन्तभद्रस्तोत्र' को समन्तभद्र-कृत स्तोत्र माननेके लिये वाध्य होना पड़ा। ऐसा माननेमें स्तोत्रका कोई मूल विशेषण नहीं रहता। परन्तु समन्तभद्रकृत स्तोत्र तो और भी है उनमेसे किसीको 'समन्तभद्रस्तोत्र' कर्यों नहीं लिखा और इसी को कर्यों लिखा ? इसमें लेखकोकी गलती है या अन्य कुछ, यह बात विचारणीय है। इस सम्बन्धमें यहाँ एक बात प्रकट कर देनेकी ओर है वह मह कि स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थ प्रायः दो नामोंको लिये हुए हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम 'धासमीमासा', स्तुतिविद्याका दूसरा नाम 'जिनशतक' और समीचीनधर्मशास्त्रका दूसरा नाम 'रत्नकरण' है। इनमेसे पहला पहला नाम ग्रन्थके प्रारम्भमें और दूसरा दूसरा नाम ग्रन्थके अन्तिम भागमें सूचित किया गया है। मुख्यनुशासनग्रन्थके भी दो नाम हैं—दूसरा नाम 'बीरजिनस्तोत्र' है, जिसकी सूचना आदि और अन्तके दोनों पश्चोंमें की गई है। ऐसी स्थितिमें बहुत संभव है कि स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तिम पश्चमें जो 'समन्तभद्र' पद प्रयुक्त हुआ है उसके द्वारा स्वयम्भूस्तोत्रका दूसरा नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' सूचित किया गया हो। 'समन्तभद्र' पद वहाँ बीरजिनस्तोत्रके मत-शासनके विशेषणरूपमें स्थित है और उसका ग्रन्थ है सब ओरसे भद्ररूप—यथार्थता, निर्बाधिता और परहित-प्रतिपादनतादि मुण्डोंकी शोभासे सम्पन्न एवं जपतके लिये कल्याणकारी'। यह स्तोत्र बीरके शासनका 'प्रतिनिधित्व-करता है—उसके स्वरूपका निरदर्शक है—और सब ओरसे भद्ररूप है ग्रन्थः इसका 'समन्तभद्रस्तोत्र' यह नाम भी सार्थक जान पड़ता है, जो समन्तात् भद्र इस पदच्छेदकी दृष्टिको लिये हुए है और उसमें श्लेषालंकारसे ग्रन्थकारका नाम भी उसी तरह समाविष्ट हो जाता है जिस तरह कि वह उक्त

‘समन्तभद्र’ पद में संनिहित है। औइ इसलिये इस द्वितीय नीचोलेखनमें लेखकोंकी कोई क्रतुंत या गलती प्रतीत नहीं होती। यह नाम भी प्रायः पहलेसे ही इस ग्रन्थको दिया हुआ जान पड़ता है।

ग्रन्थका सामान्य परिचय और महत्व—

स्वामी समन्तभद्रकी यह ‘स्वयम्भूतोत्र’ कृति समन्तभद्रभारतीका एक प्रमुख ग्रंथ है और बड़ी ही हृदय-हारिणी एवं अपूर्वरचना है। कहनेके लिये यह एक स्तोत्रग्रन्थ है—स्तोत्रकीपद्धतिको लिये हुए है और इसमें वृषभादि चौबीस जिनदेवोंकी स्तुति की गई है; परन्तु यह कोरा स्तोत्र नहीं, इसमें स्तुतिके बहाने जैनागमका सार एवं तत्त्वज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीसे टीकाकार आचार्य प्रभावनन्दने इसे ‘निर्मीष-जिनोक्त-घर्म-विषय’ ऐपा विशेषण दिया है और ‘स्तवोऽयमसमः’ पदोंके द्वारा इसे अपना सानी (जोड़ा) न रखने-वाला अद्वितीय स्तवन प्रकट किया है। साथ ही, इसके पदोंको ‘सूक्षार्थ’, ‘अग्रल’, ‘स्वल्प’ और ‘प्रसन्न’ विशेषण देखकर यह बतलाया है कि ‘वे सूक्ष्म हामें ठीक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले हैं, निर्देष हैं, अल्पाक्षर हैं और प्रसादयुग्म-विशिष्ट हैं।’ सबसुधा इस स्तोत्रका एक एक पद प्रायः बीजपद-जैसा सूक्ष्मवाक्य है, और इसलिये इसे ‘जैनमार्गप्रदीप’ ही नहीं किन्तु एकप्रकारते ‘जैनागम’ कहना चाहिये। आगम (श्रुति) रूपसे इसके वाक्योंका उल्लेख मिला भी है। इतना ही नहीं, स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने ‘स्वयम् वरदाऽज्ञाम-

[†] “सूक्ष्मार्थमलैः स्तवोऽयमसमः स्वल्पः प्रसन्नं पदैः ।”

के जैसा कि कवि वाग्भटके काव्यानुशासनमें भी जटासिंहनन्दी आचार्यके वरागचरितमें पाये जानेवाले निम्न उल्लेखोंसे प्रकट है—

(क) आगमं आत्मवचनं यथा—

‘प्रजापतियं प्रति(थ)मं जिजीविष्णुः शशास कृष्णादिसु कर्मसु प्रजाः ।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्युतोदयो ममत्वतो निर्विवदे विदोवरः॥” [स्व० २]

—काव्यानुशासन

दृष्टिरूपत शुणकुशमपि किञ्चनोदित' (१०५) इस वाक्यके द्वारा प्रन्थके कथन-को आशमहितके अनुरूप बतलाया है। इसके सिवाय, अपने दूसरे इन्द्र युक्त्य-नुशासनमे 'हष्टाऽगमाम्यामविरुद्धमर्थप्रस्परणं युक्त्यनुशासन ते' इस वाक्यके द्वारा युक्त्यनुशासन (युक्तिवचन) का लक्षण अक्षत करते हुए यह बतलाया है कि 'प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप—युक्तिरूपित विषय-स्वरूप—अर्थका जो अर्थमें प्रस्परण है—प्रत्यक्षानुपपत्तेकलक्षण साधनरूप अर्थसे साध्यरूप अर्थका प्रतिपादन है—उते 'युक्त्यनुशासन' कहते हैं और वही (हे वीरभगवन् !) आपको अभिमत है। इससे साफ जाना जाता है कि स्वयम्भूतोत्त्रमे जो कुछ युक्तिवाद है और उसके द्वारा अर्थका जो प्रस्परण किया गया है वह सब प्रत्यक्षाऽविरोधके साथ साक्ष आगमके भी अविरोधको लिए हुए हैं अर्थात् जैनागमके अनुकूल हैं। जैनागमके अनुकूल होनेसे आगमकी प्रतिष्ठाको प्राप्त है। और इस तरह यह प्रन्थ आगमके—आत्मवचनके—तुल्य मान्यताकी कोटिमे स्थित है। वस्तुत समन्तभद्र महान् के वचनोका ऐसा ही महत्व है। इसीसे उनके 'जीवसिद्धि' और 'युक्त्यनुशासन' जैसे कुछ प्रत्यक्षोका नामोल्लेख साध्यमे करते हुए विक्रमकी द्वी शताब्दीके आचार्य जिनसेनने, अपने हरिवशपुराणमे, समन्तभद्रके वचनको श्रीबीरभगवानके वचन (आगम) के समान प्रकाशमान एव प्रभावादिकसे युक्त बतलाया है। और उदी शताब्दीके अकलकदेव-जैसे महान् विद्वान् आचार्यने, देवागमका भाष्य लिखते समय, यह स्पष्ट घोषित किया है कि 'समन्तभद्रके वचनोसे उस स्याद्वादरूपी पुण्योद्वितीर्थका प्रभाव कलिकालमे भी भव्यजीवोके आन्तरिक मलको दूर करनेके लिये सर्वत्र व्याप्त'

(क) अनेकान्तोऽपि चैकान्तः स्यादित्येव वदेत्परः ।

"अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः" [स्व० १०३] इति जैनी श्रुति स्मृता ॥

—वीरागचरित

इस पदमे स्वयम्भूतोत्त्रके "अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः" इस वाक्यको उद्भूत करते हुए उसे 'जैनी श्रुतिः' अर्थात् जैनागमका वाक्य बतलाया है।

ॐ जीवसिद्धि-विषयार्थं ह कृत-युक्त्यनुशासनं ।

वच समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजूम्भते ॥ —हरिवशपुराण

हुआ है, जो सर्व पदार्थो और तत्त्वोंको अपना विषय लिये हुए है^५। इसके सिवाय, समन्तभद्रभारतीके स्तोता कवि नागराजने सारी ही समन्तभद्रवारणीके लिये 'बद्रमानदेव-बोध-बुद्ध-विद्विलासिनी' और 'इन्द्रभूति-भाषित-प्रमेयजाल-गोवरा' जैसे विशेषणोंका प्रयोग करके वह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी वाणी श्रीबद्रमानदेवके बोधसे प्रबुद्ध हुए चंतन्यके विलासको लिये हुए है और उसका विषय वह सारा पदार्थसुह है जो इन्द्रभूति (गीतम्) गणधरके द्वारा प्रभाषित हुआ है—द्वादशागश्चुतके रूपमें गौण्या गया है। अस्तु ।

इस ग्रन्थमें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगकी जो निर्मल गगा अथवा त्रिवेणी बहर्द्दि है उसमें अवगाहन-स्नान किए ही बनता है और उस अवगाहनसे जो शान्ति-सुख मिलता अथवा ज्ञानानन्दका लाभ होता है उसका कुछ पार नहीं—वह प्राय अनिवृत्तनीय है। इन तीनों योगोंका घलग अलग विशेष परिचय आगे कराया जायगा ।

इस स्तोत्रमें २४ स्तवन हैं और वे भरतक्षेत्र-सम्बन्धी वर्णमान अवसरिणी-कालमें अवधीरण हुए २४ जैन तीर्थकरोंकी घलग घलग सुनिको लिये हुए हैं। स्तुति-पदोंकी संख्या सब स्तवनोंमें समान नहीं है। १८ वे स्तवनकी पद्म संख्या २०, २२ वे की १० और २४ वे की आठ है, जब कि शेष २१ स्तवनोंमेंसे प्रत्येक की पद्मसंख्या पाच पाचके रूपमें समान है। और इस तरह ग्रन्थके पदोंकी कुल संख्या १४३ है। ये सब पद्म अथवा स्तवन एक ही छन्दमें नहीं किन्तु भिन्न भिन्न रूपसे तेरह प्रकारके छन्दोंमें निर्मित हुए हैं जिनके नाम हैं—वशस्थ, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, उपजाति, रथोद्धता, वसन्ततिलका, पद्मावतन अनुष्टुप्, सुभद्रामालती-मिथ्य-यमक, वानवासिका, वैतालीय, शिखरणी, उदगता आर्यांशीति (स्व-धक) । कहीं वही एक स्नवनमें एकमें अधिक छन्दोंका भी प्रयोग किया गया है। किस स्तवनका कौनसा पद्म किस छन्दमें रचा गया है

^५ तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त्व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदये-

भेष्यानामकलकभावकृतये प्रभावि कालै कलौ ।

येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्मै नम सन्तत

कृत्वा विवियते स्तवो भगवता देवागमस्तकृतिः ॥—गृह्णती

और उस छान्दका पाठ लकड़ा है, इसकी सूचना 'स्तवन-छन्द सूची' नामके एक परिचयमें कर दी गई है, जिससे पाठकोंको इस सत्त्वके छन्द-विधयका ठीक परिचान हो सके ।

स्तवनोंमें सुतियोचर-तीर्थकरोंके जो नाम दिये हैं वे सब क्रमशः इस प्रकार हैं—

१ वृषभ, २ अग्नित, ३ शम्भव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पथप्रभ,
७ सुपाश्व, ८ चन्दप्रभ, ९ सुविधि, १० शीतल, ११ श्रेष्ठांस, १२ वासुपूज्य,
१३ विमल, १४ अनन्तजित, १५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्तु, १८ धर, १९
मलिल, २० मुनिसुवत, २१ नमि, २२ अरिष्टनेमि, २३ पाश्व, २४ वीर ।

[इनमेंसे वृषभको इक्षवाकु-कुलका आदिपुरुष, अरिष्टनेमिको हरिवंशकेतु
और पाश्वको उग्रकुलाम्बरचन्द्र बतलाया है । शेष तीर्थकरोंके कुलका कोई
उल्लेख नहीं किया गया है ।]

उक्त सब नाम अन्वर्य-संज्ञक हैं—नामानुकूल अर्थविशेषको लिये हुए हैं ।
इनमेंसे जिनकी अन्वर्यसंज्ञकता अथवा साधकताको स्तोत्रमें किसी-न-किसी तरह
प्रकट किया गया है वे क्रमशः नं० २, ४, ५, ६, ८, १०, ११, १४, १५, १६,
१७, २० पर स्थित हैं । शेषमेंसे कितने ही नामोंकी अन्वर्यताको अनुवादमें व्यक्त
किया गया है ।

स्तुत-तीर्थकरोंका परिचय—

इन तीर्थकरोंके स्तवनोंमें गुणकीर्तनादिके साथ कुछ ऐसी बातों अथवा
घटनाओंका भी उल्लेख मिलता है जो इतिहास तथा पुराणसे सम्बन्ध रखती हैं
और स्वाभी समन्तभद्रकी लेखनीसे उल्लेखित होनेके कारण जिनका अपना
विशेष महत्त्व है और इसलिए उनकी प्रधानताको लिये हुए यहाँ इन स्तवनोंमेंसे
स्तुत-तीर्थकरोंका परिचय क्रमसे दिया जाता है—

(१) वृषभजिन नाभिनन्दन (नाभिरायके पुत्र) थे, इक्षवाकुकुलके भादि-
पुरुष थे और प्रथम प्रजापति थे । उन्होंने सबसे पहले प्रजाजनोंको कृष्णादि-
कर्मोंमें सुशिक्षित किया था (उनसे पहले यहाँ भोगभूमिकी प्रवृत्ति होनेसे लोग
सेती-व्यापारादि करता अथवा असि, भसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प,

इन जीवनोपायरूप पट कर्मोंको नहीं जानते थे), मुमुक्षु होकर और भगवा खोड़कर वधु तथा वसुधाका त्याग करते हुए दीक्षा धारण की थी, अपने दोषोंके मूलकारण (आतिकमचतुष्क) को अपने ही समाचितेज द्वारा भस्म किया था (फलत विश्वचक्षुता एव सबलताको प्राप्त किया था) और जगतको सत्त्वका उपदेश दिया था । वे सत्यरूपोंसे पूजित होकर अन्तको ब्रह्मपदरूप अमृतके स्वामी बन थे और निरजन पदको प्राप्त हुए थे ।

(२) अजितजिन देवलोकसे अवतरित हुए थ, अवनारके समयसे उनको वधुवग पृथ्वीपर आज्ञशक्ति बना था । और उस वधुवगन उनका नाम 'अजित' रखा था । आज भी (लालो वय बीत आनपर) उनका नाम स्वसिद्धिकी कामना रखनव लोके द्वारा मगलके लिये लिया जाता है । वे महामुनि बनकर तथा बनोपदेहसे (आतिया कर्मोंके आवरणादिरूप ठड़ उपलेपसे) मुक्त होकर भव्यर्जीवोंके हृदयोम सलग्न हुए कलको (अज्ञानादिदोष तथा उनके कारणों) की शार्तिके लिए अपनी समय वचनादि शक्तिकी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार उदयको प्राप्त हुए थ जिम प्रकार कि मेघोंके आवरणसे मुक्त हुआ सूय कमलोंके अम्बुदयके लिये—उनके अन्त आधकारको दूर कर उन्हे विकसित करनके लिये—अपनी प्रकाशमय समर्थकी सम्पत्तिके साथ प्रकट होना है । और उन्होंन उस महान् एव ज्येष्ठ घमतीयका प्रणयन किया था जिसे प्राप्त होकर लौकिक जन दुखपर विजय प्राप्त करते हैं ।

(३) शाभ्मव जिन इस लोकमें तुष्णा-रोगोंसे सतत जनसमूहके लिए एक आकस्मिक बैद्यके रूपम अवतीर्ण हुए थे और उन्होंन दोष-दूषित एव प्रपीडिव जगतको अपन उपदेशो द्वारा निरजना शान्तिकी प्राप्ति कराई थी । आपके उपदेशका कुछ नसूना दो एक पश्चीम दिया है और पिर लिखा है कि 'उन पुण्य-कीर्तिकी स्तुति करनमें शक्त (इन्द्र) भी असमर रहा है ।

(४) अभिनन्दन जिन (लौकिक वधुका त्याग कर) उस दयावधुको अपने आश्रयम लिया था जिसकी सर्वी कामा थी और समाचिकी सिद्धिके लिए बाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग कर निभ्रन्ताको धारण किया था । साथ ही, मिथ्याभिनिवेशके वशसे नष्ट होते हुए जगतको हितका उपर्युक्त

हेकर तत्त्वका प्रहरण कराया था । हितका जो उपदेश दिया गया था उसका कुछ नमूना ३-४ पद्धोंमें व्यक्त किया गया है ।

(५) सुमति-जिनने जिस सुशुक्तिनीत तत्त्वका प्रणयन किया है उसका सुन्दर सार इस स्तवनमें दिया गया है ।

(६) पद्मप्रभ-जिन पद्मपत्रके समान रक्तवर्णीष शरीरके बारक थे । उनके शरीरकी किरणोंके प्रसारने नरों और अमररोपे पूर्ण समाको व्यास किया था—सारी समवसरणग्रामामें उनके शरीरकी आमा फैली हुई थी । प्रजाजननोंकी विभूतिके लिये—उनमें हेयोपादेयके विवेकको जागृत करनेके लिये—उन्होंने भूतल-पर विहार किया था और विहारके समय (इन्द्रादिरचित) सहस्रदल-कमलों-के मध्यमागपर चलते हुए अपने चरण-कमलों-द्वारा नमस्तालको पल्लवमय बना दिया था । उनकी स्तुतिमें इन्द्र असमर्थ रहा है ।

(७) सुपाश्व-जिन सर्वतत्त्वके प्रमाता (ज्ञाता) और माताकी तरह लोक-हितके अनुशास्ता थे । उन्होंने हितकी जो बातें कही हैं उन्होंका सार इस स्तवन में दिया गया है ।

(८) चन्द्रप्रभ-जिन चन्द्रकिरण-सम-गौरवणे थे, द्विनीय चन्द्रमाकी समान दीतिमान थे । उनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डलसे बाह्य अन्धकार और ध्यान-प्रदीपके अतिशयसे मानस अन्धकार दूर हुआ था । उनके प्रबचनरूप सिंहादोंको सुनकर अपने पक्षकी सुस्थितिका घमण्ड रखने वाले प्रवादिजन निर्मद हो जाते थे । और वे लोकमें परमेष्ठिके पदको प्राप्त हुए हैं ।

(९) सुविधि-जिन जगदीश्वरों (इन्द्र-चक्रवर्यादिकों) के द्वारा अभिवन्ध दे । उन्होंने जिस अनेकान्तशासनका प्रणयन किया है उसका सार पाँचों पद्धोंमें दिया है ।

(१०) शीतल-जिनने अपने सुखाभिलाषारूप अग्निके दाहसे मुर्छित हुए भनको कैसे मूर्खा-रहित किया और कैसे वे दिन-रात आत्मविशुद्धिके मार्गमें जागृत रहते थे, इन बातोंको बतलानेके बाइ उनके तपस्याके उद्देश्य और अक्षित्वकी दूसरे तपस्त्वयों आदिसे तुलना करते हुए निखा है कि ‘इसीसे वे बुधजनश्चेष्ठ आपकी उपरासना करते हैं जो अपने आत्मकल्पाणीकी भावनामें जल्दर हैं ।

(११) अवो-जिनने प्रजाजनोंको अवोभागमें अनुशासित किया था। उनके अनेकान्त-शासनकी कुछ बातोंका उल्लेख करनेके बाद लिखा है कि वे 'कैवल्य-विमूर्तिके समाद् हुए हैं'।

(१२) बासुपूज्य-जिन अमृदय क्रियाओंके समय पूजाको प्राप्त हुए थे, अिदाशेन्द्र-पूज्य वे और किसीकी पूजा या निन्दासे कोई प्रयोगन नहीं रखते थे। उनके शासनकी कुछ बातोंका उल्लेख करके उनके बुधजन-अभिवन्द्य होनेकी सार्थकताका घोटन किया गया है।

(१३) विमल-जिनका शासन किस प्रकारमें नवोंकी विशेषताको लिये हुए था उसका कुछ दिग्दर्शन करते हुए लिखा है कि 'इसीसे वे अपना हित चाहने-बालोंके द्वारा बन्दित थे'।

(१४) अनन्तजित-जिनने अपने अनन्तदोषाशय-विग्रहरूप 'मोह' को कथाय नामके पीड़नशील-शत्रुघ्नोंको, विशेषक कामदेवके बुरभिमानरूप आतंक-को कंसे जीना और अपनी तृणानदीको कंसे सुखाया, इत्यादि बातोंका इय स्तवनमें उल्लेख है।

(१५) धर्म-जिन धर्मवच्च-धर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हुए सत्यरूपोंके द्वारा 'धर्म' इस सार्थक संज्ञाको लिए हुए माने गये है। उन्होंने तपरूप अग्नियोंसे अपने कर्मवनको दहन करके शाश्वत मुक्त प्राप्त किया है और इसलिये वे 'शङ्कर' हैं। वे देवों तथा मनुष्यके उत्तम समूहोंसे परिवेहित तथा गणधरादि बुधजनोंसे परिचारित (सेवित) हुए (समवसरण-समार्थ) उसी प्रकार शोभाकी प्राप्त हुए वे जिसप्रकार कि आकाशमें तारकाम्रोंसे परिवृत निर्मल चन्द्रमा। प्रातिहायों और विभवोंसे विमूर्ति होते हुए भी वे उन्हींसे नहीं, किन्तु देहसे भी विरक्त रहे हैं। उन्होंने मनुष्यों तथा देवोंको मोक्षमार्ग सिखलाया, परन्तु शासनफलकी एषणासे वे कभी आतुर नहीं हुए। उनके मन-वचन-कामकी प्रवृत्तियां इच्छाके द्विना होते हुए भी असमीक्ष्य नहीं होती थी। वे मानुषी प्रकृतिका उल्लंघन कर गये थे, देवताओंके भी देवता थे और इसीसे 'परमदेवता'के पदको प्राप्त थे।

(१६) शान्ति-जिन शत्रुघ्नोंसे प्रजाकी रक्षा करके अप्रतिम प्रतापके धारी राजा हुए थे और भयंकर चक्रसे सर्वनरेन्द्र-समूहकों जीतकर चक्रवर्ती राजा

हने थे। उन्होंने समाधिचक्रपे दुर्जय मोहचक्रको—मोहनीय कर्मके भूलोत्तर-प्रकृति-प्रपञ्चको—जीता था और उसे जीतकर वे महान् उदयको प्राप्त हुए थे, आहंस्यलक्ष्मीसे युक्त होकर देवों तथा असुरोंकी महती (समवरण) समामे सुशोभित हुए थे। उनके चक्रवर्ती राजा होने पर राजचक्र, मुनि होनेपर दया-दीर्घिति-धर्मचक, पूज्य (तीर्थ-प्रवर्तक) होने पर देवचक्र प्राप्त्यालि हुआ—हाथ जोडे खड़ा रहा अथवा स्वाधीन बना—और ध्यानोन्मुख होने पर कृता-न्तचक्र—कर्मोंका अवस्थितमूह—नाशको प्राप्त हुआ था।

(१७) कुन्त्यु-जिन कुन्त्यादि सकल प्राणियोपर दयाके अनन्य विस्तारको लिये हुए थे। उन्होंने पहले चक्रवर्ती राजा होकर पश्चात् धर्मचक्रप्रवर्तन किया था, जिसका लक्ष्य लौकिकजनोंके ज्वर-ज्वरा-मरणकी उपशान्ति और उन्हें आत्म विभूतिकी प्राप्ति कराना था। वे विषय-सौख्यसे पराइमुख कैसे हुए, परमदुश्चर बाह्यतपका आचरण उन्होंने किस लिये किया, कौनसे ध्यानोंको अपनाया और कौनसी सातिकाय अग्निमे अपने (धातिया) कर्मोंकी चार प्रकृतियोंको भस्म करके वे शक्तिसम्पन्न हुए और सकल-वेद-विधिके प्रश्नोत्तर बने, इन सब बातोंको इस स्तरनमे बतलाया गया है। साथ ही, यह भी बतलाया गया है कि लोकके जो पितामहादिक प्रसिद्ध हैं वे आपकी विद्या और विभूतिकी एक कणिकाको भी प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसलिये आत्महित-की घुनमे लगे हुए श्रेष्ठ सुधीजन (गणधरादिक) उनश्रद्धितीय स्तुत्यकी स्तुति करते हैं।

(१८) अर-जिन चक्रवर्ती थे, मुमुक्ष होनेपर चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य उनके लिये जीर्णतृणके समान हो गया और इसलिए उन्होंने निःसार समझकर उसे त्याग दिया। उनके रूप-सौन्दर्यको देखकर द्विनेत्र इन्द्र तुस न हो सका और इसलिए (विक्रियाकृद्धिसे) सहस्रनेत्र बन कर देखने लगा और बहुत ही विस्मयको प्राप्त हुआ। उन्होंने कषाय-भटोंकी सेनासे सम्पन्न पानी मोहसनुको हाहि सविद् और उपेक्षारूप अस्त्रोंसे पराजित किया था और अपनी तृष्णा-नदीको विद्या नीकासे पार किया था। उनके सामने कामदेव लज्जित तथा हतप्रभ हुआ था और जगत्को रुलानेवाले अन्तको अपना स्वेच्छ व्यवहार बन्द करना पड़ा था और इस तरह वह भी पराजित हुआ था। उनका कथ

आभूषणों, वेषों तथा आयुषोंका संगी और विज्ञा, कवायेन्द्रियजय तथा दृष्टिकी उत्कृष्टताको लिये हुए था। उनके शरीरके बहुत प्रभामण्डलसे बाह्य अन्वकार और व्यानतेजसे आच्यात्मिक अन्वकार दूर हुआ था। समवरणसमां में अंतर्संहासन होनेवाला उनका चक्रनामूत सर्वभाषाओंमें परिणत होनेके स्वभावको लिए हुए था तथा प्राणियोंको तृति प्रदान करनेवाला था। उनकी हृष्टि अनेकान्तर्त्पक थी। उस संती हृष्टिके महत्वादिका क्षयायन तथा उनके स्याद्वादशासनादिका कुछ विशेष कथन सात कारिकाओंमें किया गया है।

(१६) महिं-जिनको जब सकल पदार्थोंका साक्षात् प्रत्यवबोध (केवल-ज्ञान) हुआ था तब ऐसों तथा मर्त्यजनोंके साथ सारे ही जगतने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया था। उनकी शरीराकृति सुवर्ण-निभित-जैसी थी और स्फुरित आभासे परिमण्डल किये हुए थी। वाणी भी यथार्थ वस्तुतत्त्वका कथन करनेवाली और साधुजनोंके रमानेवाली थी। जिनके सामने गलितमान हुए प्रतितीर्थिजन (एकान्तवादमतानुयायी) पृथ्वीपर कहीं विवाद नहीं करते थे। और पृथ्वी भी (उनके बिहारके समय) पद-पदपर विकसित कमलोंसे मुड़-हासको लिये हुए रमणीय हुई थी। उन्हें सब धोरसे (प्रदुरुपरिमाणमें) शिष्य साधुओंका विभव (ऐश्वर्य) प्राप्त हुआ था और उनका तीर्थ (शासन) भी संकार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोंको पार उतारनेके लिये प्रधान मार्ग बना था।

(२०) मुनिसुबत-जिन मुनियोंकी परिषदमें—गणघरादिक ज्ञानियोंकी महत्ती सभा (समवरण)में—उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि नक्षत्रोंके समूहसे परिवेष्टित चन्द्रमा शोभाको प्राप्त होता है। उनका शरीर तपसे उत्तम हुई तरण मोरके कण्ठवर्ण-जैसी आभासे उसी प्रकार शोभित था जिस प्रकार कि चन्द्रमकि परिमण्डलकी दीति शोभती है। साथ ही, वह चन्द्रमाकी दीतिके समान निर्भूत शुक्ल हृषिरसे युक्त, भूति सुगंधित, रजरहित शिवस्वरूप (स्व-पर-कल्याणमय) तथा भूति आश्चर्यको लिए हुए था। उनका यह वचन कि ‘चर और अचर जगत् प्रतिक्षण त्रिति-जनन-निरोध-लक्षणको लिये हुए है’—प्रत्येक समयमें धौध्य, उत्पाद और व्यय (विनाश) स्वरूप है—सर्वज्ञताका शोतक है। वे अनुपम बोगबलसे पापमक्षरूप आठों कलं झौंझौं

(ज्ञानावरणादि कर्मोंको) भस्मीभूत करके सासारमें न पाये जानवाले सौख्यको—
परम अतीन्द्रिय भोक्ता-सौख्यको—प्राप्त हुए थे ।

(२१) नमि-जिनमें विभवकिरणोंके साथ केवलज्ञान-ज्योतिके प्रकाशित होतेपर अन्यमती—एकान्तत्वादी—जन उसी प्रकार हतप्रभ हुए थे जिस प्रकार कि निमंल सूर्यके सामने खड़ोत (जूगनु) होते हैं । उनके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तर्मत्क तत्त्वका गमीर रूप एक ही कारिका 'विघ्नेय वार्य'इत्यादिमें इतने अच्छे ढगसे सूत्ररूपमें दिया है कि उस पर हजारो-लाखो इलोकोंकी व्याख्या लिखी जा सकती है । उन्होने परम करणाभावसे सम्पन्न होकर आहिसा-परमब्रह्मकी सिद्धिके लियेब आहाम्यन्तर दोनो प्रकारके परिव्रहका परित्याग कर उस आश्रमाविष्को ग्रहण किया था जिसमें अणुमात्र भी आरम्भ नहीं है, क्योंकि वहाँ अणुमात्र भी आरम्भ होता है वहाँ ग्रहिसाका वास नहीं अथवा पूर्णत वास नहीं बनता । जो साधु यथाजातलिङ्गके विरोधी विकृत वेषों और उपविषोंमें रहते हैं, उन्होने वस्तुत बाह्याम्यन्तर परिप्रहको नहीं छोड़ा है— और इसलिए ऐसोसे उस परमब्रह्मकी सिद्धि भी नहीं बन सकती । उनका आभूषण वेष तथा व्यवधान (वस्त्र-प्रावरणादि) से रहित और इन्द्रियोंकी शान्तताको लिये हुए (नम दिगम्बर) शरीर काम-क्रोध और मोह पर विजय-का सूचक था ।

(२२) अरिष्टनमि-जिनन परमयोगाभिन्नसे कलमष्ठेष्ठनको—ज्ञानावरणादि-रूप कमकाष्ठको—भस्म किया था और सकल पदार्थोंको जाना था । वे हरितशकेनु थे, विकसित कमलदलके समान दीर्घनेत्रके धारक थे, और निर्दोष विनय तथा दमतीयके नायक हुए हैं । उनके चरणयुगल त्रिद्रशो-द्व-वन्दित थे । उनके चरणयुगलको दोनो लोकनायकों गरुडघ्वज (नारायण) और हलघर (बलभ्र) ने, जो स्वजनभात्तिसे मुदितहृदय थे और वर्म तथा विनयक रसिक थे, बन्धुजनोंके साथ बार-बार प्रणाम किया है । गरुडघ्वजका दीसिमण्डल चतुर्तिमद्रव्याग (सुदर्शनचक्र) रूप रविविम्बकी किरणोंवे जटिल थे, और शरीर नीले कमलदलोंकी राशिके अवना सजलमेघवके समान श्यामवण था । इन्द्र-द्वारा लिखे गये नेमिजिनके लक्षणों (चिह्नों) को वह लोकप्रसिद्ध ऊर्जयन्तरिगिरि (पिरनार) पर्वत चारण करता है जो पृथ्वीका कुद है, विद्वावरोंकी स्त्रियोंसे

सेवित-शिल्पोंसे अलगूत है, भेषपटलोंसे व्यास तटोंको लिये हुए है, तीर्थस्थान है और आज भी भक्तिसे उल्लःसितचित्त-कृषियोंके द्वारा सब औरसे निरन्तर अतिसेवित है। उन्होंने उस अखिल विश्वको सदा करतलस्थित स्फटिकमणियोंके समान युगपत् जाना था और उनके इम जाननेमें बाह्यकरण-चक्षुरादिक और अन्त करण—मन ये अलग-अलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते थे और न किसी प्रकारका उपकार ही सम्भव करते थे।

(२३) पादर्व जिन महामना थे, वे वैरीके वशवर्ती—कमठशत्रुके इशारेपर नाचनवाले—उन भयकर भेघोंमें उपद्रवित होनेपर भी अपने योगस (शुक्ल-ध्यानसे) चलायमान नहीं हुए थे, जो नीले-श्यामवरणके धारक, इन्द्रघनुष तथा विष्णु गुणोंसे युक्त और भयकर वज्र वायु तथा वर्णको चारों ओर बखरनेवाले थे। इस उपसर्गके समय धरण नागने उन्हें अपने बृहत्करणामोंके मण्डलरूप मण्डपसे बेहित किया था और वे अपने योगरूप खड़की तीक्षण धारसे दुर्जय मोहशत्रुको जीत कर उस आहंत्यपदको प्राप्त हुए थे जो अचिन्त्य है, अद्भुत है और त्रिलोककी सतिशय-पूजाका स्थान है। उन्हे विघृतकल्मष (धानिकमं-चतुष्यरूप पापमलसे रहित), शमोपदेशक (मोक्षमार्गके उपदेष्टा) और ईश्वर (सकल-लोकप्रभु) के रूपमें देवकर वे बनवासी तपस्वी भी शरणमें प्राप्त हुए थे जो अपने अमको—पचासिं-साधनादिरूप प्रयासको—विफल समझ गये थे और भगवान पाश्वं-जैसे विघृतकल्मष ईश्वर होनेकी इच्छा रखते थे। पाश्वप्रभु समग्रबुद्धि थे सच्ची विद्यामो तथा तपस्यायोंके प्रणेता थे, उद्गुलरूप आकाशके चन्द्रमा थे और उन्होंने मिथ्यामार्गोंकी दृष्टियोंमें उत्पन्न होनेवाले विच्छिन्नोंको त्रिनट किया था।

(२४) दीर-जिन अपनी गुण-समूल्य-निर्मलकीर्ति अथवा दिव्यवाणीसे पृथ्वी (समवरणभूमि) पर उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए थे जिस प्रकार कि चन्द्रमा आकाशमें नक्षत्र सभास्थित उस प्रभासे शोभता है जो सब औरसे अवश्य है। उनका ज्ञानसंविभव कलिकालमें भी जयको प्राप्त है और उसकी वे निर्दोष साधु (भणवरादिकदेव) स्तुति करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञानादि-तेजसे आकाश-विमुद्रोंको—सोकके प्रसिद्ध नायकोंको—निस्तेज किया है। उनका

स्माद्वादरूप प्रवचन दृष्टि और इहके साथ विरोध न रखनेके कारण निरोध है, जब कि दूसरों का—प्रस्याद्वादियोका—प्रवचन उभय विरोधको लिए हुए होनेसे बसा नहीं है। वे सुराज्ञुरोंसे पूजित होने हुए भी प्राण्यक सत्त्वोंके—मिथ्यात्वादिपरिग्रहमें युक्त प्रणियोके—(अभक्त) हृदयसे प्राप्त होनेवाले प्रणामोंसे पूजित नहीं हैं। और अनावरण-ज्योतियोनि होकर उस धामको—मुक्तिस्थान प्रथवा सिद्धिशिलाको—प्राप्त हुए हैं जो अनावरण-ज्योतियोंसे प्रकाशमान है। वे उस मुण्डभूषणको—मर्वंज-बीनरागतादि-मुण्डरूप आभूषण-समूहको—धारण किए हुए थे जो सम्बन्धना प्रथवा समवस्तरण-समा स्थित भूष्यजनोंको चिकित्सा और श्रीमे—मधुप्रातिहार्यादरूप विभन्निस—ऐसे रूपमें पुष्ट या जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। साथ ही उनके शरीरका सौन्दर्य और आकर्षण पूण्यचन्द्रमासे भी बढ़ा चढ़ा था। उन्हींन निरुपट यम और दमका—महाव्रतादि-के अनुष्ठान और कवायों तथा इन्द्रियोंके जयका—उपदश दिया है। उनका उदार विहार उस महाशक्ति सम्पन्न गजराजके समान हुआ है जो भरते हुए मदका दान देते हुए और माममें बाधक गिरिभित्तियोंका विदारण करते हुए (फलत जो बाबक नहीं उन्हें स्थिर रखते हुए) स्वाधीन चला जाता है। वीरजित द्रन अपन विहारके समय सबको प्रहिसाका—प्रभयका—दान दिया है, शमवादाकी-रागादिक दोषोंकी उपशान्तिके प्रतिपादक आगमोकी—रक्षा की है और वैवर्म्यस्थापक हिसाविधायक एव सर्वदा एकान्त-प्रतिपादक उन सभी बादोंका—भतोका—झण्डन किया है जो गिरिभित्तियोंकी तरह सन्मार्गमें बाधक बने हुए थे। उनका शासन नयोंके भञ्ज्जे प्रथवा भक्तिरूप अलञ्ज्जारोंसे अचकृत है—अनकान्तवादका आश्रय लेकर नयोंके सामेश्वर्यव्यवहारकी सुन्दर शिक्षा देता है—और उसतरह यथार्थ वस्तुतत्त्वके निरूपण और परहिन-प्रतिपादनादि में समय होता हुआ बहुगुण सम्पत्तिसे युक्त है, पूर्ण है और समन्तभद्र है—सब और से भद्ररूप, निर्बाचितादि-विशिष्ट-शोभासे सम्पन्न एव जगत् के लिये कल्याणकारी है, जब कि दूसरोंका—एकान्तवादियोका—शासन मधुर वचनोंके विभ्याससे मनोज्ज्ञ होता हुआ भी बहुगुणोंकी सम्पत्तिसे विकल है—सत्यकासनके योग्य और यथार्थवादिता, और 'परहित-प्रतिपादनादिरूप अहृतसे गुण है उनकी शोभासे रोहत है।

स्तवनोंके इस परिचय-समुच्चय-परसे यह साफ़ जाना जाता है कि सभी जैन तीर्थकूर स्वावलम्बी हुए हैं। उन्होंने अपने आत्मदोषों और उनके कारणों-को स्वयं समझा है, और समझकर अपने ही पुरुषार्थसे—अपने ही ज्ञानबल और योगबलसे—उन्हें दूर एवं निमूँल किया है। अपने आत्मदोषोंको स्वयं दूर तथा निमूँलकरके और इस तरह अपना आत्म-विकास स्वयं सिद्ध करके वे मोह, माया, ममता और तृष्णादिसे रहित 'स्वयम्भू' बने हैं—पूर्ण दर्शन ज्ञान एवं मुख-शक्तिको लिये हुए 'अर्हत्पदको' प्राप्त हुए हैं। और इस पदको प्राप्त करनेके बाद ही वे दूसरोंको उपदेश देनेमें प्रवृत्त हुए हैं। उपदेशके लिये परम-करणा-मावसे प्रेरित होकर उन्होंने जगह-जगह विहार किया है और उस विहारके अवसर पर उनके उपदेशके लिये बड़ी बड़ी सभाएं जुड़ी हैं, जिन्हें 'समवसरण' कहा जाता है। उन सभाका उपदेश, शासन अथवा प्रवचन अनेकान्त और अहिंसाके आधारपर प्रतिष्ठित था और इसलिये यथार्थ वस्तुतस्तके अनुकूल और सबके लिये हितरूप होता था। उन उपदेशोंसे विश्वमें तत्त्वज्ञान-की जो धारा प्रवाहित हुई है उसके ठीक सम्पर्कमें आनेवाले असंख्य प्राणियोंके अज्ञान तथा पापमल बुल गए हैं और उनकी मूल-ज्ञानियां मिटकर तथा असत्य-प्रवृत्तियां दूर होकर उन्हें यथेष्ट मुख-ज्ञानित्की प्राप्ति हुई है। उन प्रवचनोंसे ही उस समय लक्षीयकी स्थापना हुई है और वे संसारसमुद्र अथवा दुःखसागरसे पार उतारनेके साथ बने हैं। उन्हींके कारण उनके उपदेशों 'तीर्थकूर' कहलाते हैं और वे लोकमें सातिशय-पूजाको प्राप्त हुए हैं तथा आज भी उन पुराणों और अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा पूजे जाते हैं जिन्हें उनका यथेष्ट परिचय प्राप्त है।

अर्हदिशेषण-पद—

स्वामी समन्तभद्रने, अपने इसस्तोत्रमें तीर्थकूर अर्हन्तोंके लिये जिन विशेषणपदोंका प्रयोग किया है उनसे अर्हत्स्वरूपपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह नय-विवक्षाके साथ अर्थपर हटि रखते हुए उनका पाठ करनेपर सहजमें ही अवगत हो जाता है। अतः यहाँ पर उन विशेषणपदोंका स्तवनक्रमसे एकत्र संप्रह किया जाता है। जिन पदोंका मूलप्रयोग सम्बोधन तथा

हितीयादि विभक्तियों और बहुवचनादिके रूपमें हुआ है उन्हें अर्थात् वोषकी सुविधा एवं एकरूपताकी हिंडिसे यहां प्रथमाके एक वचनमें ही रखा गया है, साथमें स्थान-सूचक पद्माङ्क भी पद्म-सम्बन्धी विशेषणोंके अन्तमें दे दिये गये हैं। और जो एक विशेषण अनेक स्तवनोंमें प्रयुक्त हुआ है उसे एक ही जगह— प्रथम प्रयोगके स्थानपर— प्राहण किया गया है, अन्यत्र प्रयोगकी सूचना उसके आगे ब्रेकटके भीतर पद्माङ्क देकर कर दी गई है:—

(१) स्वम्भूः, भूतहितः, समज्जस-ज्ञान-विभूति-बक्षः, तमो विषुन्वन् १; प्रबुद्धतत्त्वः, अद्भूतोदयः, विदांवरः २; मुमुक्षः (८८), आत्मवान् (८२), प्रभुः (२०, २८, ६६), सहिष्णुः, अच्युतः ३; अंहापदामृतेश्वरः ४; विश्वबक्षः, वृथभः, सतामर्चितः, समग्रविद्यात्मवपुः, निरञ्जनः, जिनः (३६, ४५, ५०, ५१, ५७, ८०, ८१, ११२, ११४, १३०, १३७, १४१), अजित-सुल्लक्षणादि-शासनः ५।

(२) अजितशासनः, प्रणेता ७; महामुनिः (७०) मुक्तवनोपदेहः ८; पृष्ठज्येष्ठ-घर्मतीर्थ-प्रणेता ९; ब्रह्मनिष्ठः, सम-मित्र-शत्रुः, विद्वा-विनिर्वान्त-कथाय-दोषः लब्धात्म-लक्ष्मीः, अजितः, अजितात्मा, भगवान् (१८, ३१ ४०, ६६, ८०, ११७, १२१) १०।

(३) शम्भवः, आकस्मिकवैद्यः ११; स्याद्वादी, नायः (२५, ५७, ७५, ८६, १२६), शास्ता १४; पुण्यकीर्तिः (८७), भार्यः (४८, ६८) १५।

(४) अभिनन्दनः, समाधितन्त्रः १६; सर्तं गतिः २०।

(५) सुमतिः, मुनिः (४६, ६१, ७४, ७६) २१।

(६) पदप्रभः, पथालयालिङ्गित-चाहसूतिः, भव्यपयोरुहाणां पथवन्वुः २६; विभुक्तः, २७; पातिल-मार-दर्पः २८; गुणामुषिः अजः (५०, ८५), अहिः (६०, १२१) ३०।

(७) सुपाश्वः ३१; सर्व-तत्त्व-प्रमाता, हितानुशास्ता, गुणावलोकस्य जनस्य नेता ३५।

(८) चन्द्रप्रभः, चन्द्रमरीचि-गौरः, महात्मभिवन्दा:, शूषीनदः, जितस्वान्त-कथाय-बन्धः ३६; सर्वलोक-परमेष्ठी, अद्भूत-कर्म-तेजाः, अनन्तधामाक्षर-विश्व-

चमुः; समन्त-दुःख-कथ-शासनः ३६; विपञ्च-दोषाऽभ-कलङ्क-सेपः; व्याकोष-
वाह-न्याय-मयूर-मालः; पवित्रः ४०।

(६) सुविधि: ४१, जगदीश्वराणामभिवन्धः; सामुः ४५।

(१०) अनवः (११) ४६; नक्तदिविमप्रमत्तवान् ४८; समवीः ४६; उत्तम-
ज्योतिः; निर्वृतः; शीतलः ५०।

(११) श्रेयान्, अजेयवाक्यः ५१; कंवल्यविभूतिसञ्चाट, भर्हन्, स्तवार्ह ५५।

(१२) विवास्वन्मुदय-क्रियासु पूज्यः; त्रिदशोऽप्न-पूज्यः; मुनीन्द्रः (६५) ५६;
बीतरागः; विवान्त-वैरः ५७; पूज्यः ५८; तुधानामभिवन्धः ६०।

(१३) विमतः ६१; आर्य-प्रणुतः ६५।

(१४) तत्त्वरूपे प्रसीदन्, अनन्तजित् ६६; अशेषवित् ६७; उदासीन-
तमः ६६।

(१५) अनष्ट-घमंतीर्थ-प्रवर्तयिता, घमः; शङ्करः ७१; देव-भानव-निकाय-
सत्तमैः परिवृतः, चुर्वृतः ७२; प्रातिहार्य-विभवैः परिष्कृतः, देहतोऽपि विरतः;
शासन-फलेषणाऽनातुरः ७३; धीरः (६०, ६१, ६४) ७४; मानुषीं प्रकृतिमम्य-
तीतवान्, देवतास्वपि देवता, परमदेवता, जिनवृषः ७५।

(१६) दयामूर्तिः ७६; महोदयः ७७; आत्मतन्त्रः ७८; स्वदोषशान्त्या
विहितात्म-शान्तिः; शरणं गनानां शान्तेविधाता, शान्तिः; शरण्यः ८०।

(१७) कुन्तु-प्रभृत्यखिल-सत्त्व-दयैकतानः; कुन्तुः, घमं-चक्रवर्तयिता ८१;
विषय-सीख्य-पराइमुखः ८२; रत्नत्रयाऽतिशयतेजसि जातवीर्यः; सकल-
वेद-विधेविनेता ८४; प्रप्रतिमेयः; स्तुत्यः (११६) ८५।

(१८) भूषा-वैष्णाऽऽग्नुच-त्यागी, विद्या-दम-दयापरः, दोष-विनिग्रहः ९४;
सर्वज्ञयोतिषोद्गृह-महिमोदयः ९६; अनेकान्तात्महृष्टिः ९८; निरूपम-युक्त-
शामनः, प्रियहित-योग-गुणाऽनुशासनः, अर-जिनः, दम-तीर्थनायकः १०४;
वरदः १०५।

(१९) महार्षिः १०६; जिन-शिशिरांशुः १०६; जिनसिंहः, कृतकरणीयः;
मङ्गिः; अशल्यः ११०

(२०) अधिगत-मुनि-सुचत-स्थितिः; मुनिवृषभः; मुनिसुव्रतः १११; कृत-मद

निश्चह-विप्रहः ११२; शशि-हचि-शुचि-शुक्ल-लोहित-वपुः, सुरभितर-विरजवनुः, यतिः ११३; बदतंबरः ११४; अमवस्तीत्यंवान् ११५।

(२१) सततमभिपूज्यः, नमि-जिनः ११६; शीमान्, ब्रह्म-प्रणिषिद्धिमनः, विदुषां मोक्ष-पदवी ११७; सकल-भुवन-ज्येष्ठ-गुरुः ११८; परमकशणः ११९; शूषा-वैष-त्र्यवधि-रहित-वपुः, शान्तकरणः, निर्मोहः, शान्तिनिलयः १२०।

(२२) परम-योग-दहन-हृत-कल्मषेन्धनः १२१; अनवद्य-विनय-दम-तीर्थ-नायकः, शीलजलधिः, विभवः, अरिष्टनेमिः, जिनकुर्जरः, अजरः १२२; बुधनुतः १३०।

(२३) महामना १३१; ईश्वरः, विधूत-कल्मषः, शमोपदेशः १३४; सत्य-विद्या-तपसां प्रणायकः, समयधीः, पाश्वजिनः, विलीनमिद्ध्यापथ-हष्टि-विभ्रमः १३५।

(२४) वीरः १३६; मुनीश्वरः १३८; सुराज्ञुर-महितः, ग्रन्थिक-सत्वा-ज्ञायप्रणामाऽमहितः, लोक-त्र्य-परम-हितः, अनावरण-ज्योतिः, उज्जचल-धामहितः १३९; गत-मृत्युमायः, गुमुक्ष-कामद' १४१, शम-वादानवन्, अपगत-प्रमा-दानवान् १४२; देवः, समन्तभद्र-मतः १४३।

इन विशेषण-पदोंको आठ समूहों अथवा विभागोंमें विभाजित किया जा सकता है; जैसे १ कर्मकलंक और दोवां पर विजयके सूचक, २ ज्ञानादि-गुणो-त्वयं-व्यवक, ३ परहिन-प्रतिवादनादिरूप लोकहितैषितामूलक, ४ पूज्यताऽभिव्यञ्जक, ५ शासनकी महत्ताके प्रदर्शक, ६ शारीरिक स्थिति और अभ्युदयके निदर्शक, ७ साधनाकी प्रधानताके प्रकाशक, और ८ मिथित-गुणोंके वाचक।

ये सब विशेषणपद एक प्रकारसे भ्रह्मन्तोंके नाम हैं जो उनके किसी-किसी गुण अथवा गुणसमूहकी अपेक्षाको साथमें लिये हुए हैं। यद्यपि इन विशेषण-पदोंमें कितने ही विशेषणपद—जैसे साधुः, मुनिः, यतिः आदिक—साधारण अथवा सामान्य जान पड़ते हैं; क्योंकि वे अर्हत्पदसे रहित दूसरोंके लिए भी प्रयुक्त होते हैं। परन्तु उन्हे यहाँ साधारण नहीं समझना चाहिये; क्योंकि असाधारण व्यक्तित्वको लिये हुए महान् पुरुषोंके लिए जब साधारण विशेषण प्रयुक्त होते हैं तब वे 'आश्रयाज्ञायते लोके निःप्रभोऽपि महाच्छुतिः' की उक्तिके अनुसार आश्रयके माहात्म्यसे असाधारण अर्थके द्वातक होते हैं—उनका अर्थ अपनी

चरमसीमाको पहुँचा हुआ ही नहीं होता बल्कि दूसरे अर्थोंकी प्रमाको भी अपने साथमें लिये हुए होता है।

जैनतीर्थकर अहंतरगुणोंकी दृष्टिसे प्रायः समान होते हैं, इसलिए वयस्त्व-विशेषकी कुछ बातोंको छोड़कर अहंतरदकी दृष्टिसे एक तीर्थकरके जो गुण अथवा विशेषण हैं वे ही दूसरेके हैं—भले ही उनके साथमें उन विशेषणोंका प्रयोग न हुआ हो या प्रयोगको अवसर न मिला हो। और इस तरह अन्तिम तीर्थकर श्रीबीरजिनेन्द्रमें उन सभी गुणोंकी परिसमाप्ति एवं पूरणता समझनी चाहिये जिनका अन्य वृषभादि तीर्थकरोंके स्तरनोंमें उल्लेख हुआ अथवा प्रदर्शन किया गया है। और उनका शासनतीर्थ उन सब गुणोंसे विशिष्ट है जो अन्य जैन तीर्थकरोंके शासनमें निर्दिष्ट हुए हैं। तीर्थकर नामोंके साथकं, अन्वयार्थकं अथवा गुणार्थकं होनेसे एक तीर्थकरका जो नाम है वह दूसरोंका विशेषण अथवा गुणार्थकं पद हो जाता है ॥ और इसलिए उन्हें भी विशेषणपदोंमें संगृहीत किया गया है।

* इसी दृष्टिको लेकर द्विसंधानादि चतुर्विशतिसंधान-जैसे काव्य रचे गए हैं। चतुर्विशतिसंधानको १० जगन्नाथने एक ही पद्ममें रचा है, जिसमें २४ तीर्थकरोंके नाम आ गए हैं, और एक-एक तीर्थकरकी अलग-अलग स्तुतिके रूप-में उसकी २४ व्याख्याएँ की गई हैं और २५ वीं व्याख्या समुच्चय-स्तुतिके रूपमें है (देखो, बीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित 'जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह पृ० ७८) । हालमें 'पंचवटी' नामका एक ऐसा ही अन्य मुझे जयपुरसे उपलब्ध हुआ है जिसके प्रथम स्तुतिपद्ममें २४ तीर्थकरोंके नाम आ गए हैं और मंस्कृत व्याख्यान-में उन नामोंके अर्थको दुष्प्रजिनके सम्बन्धमें स्पष्ट करते हुए अजितादिशेष तीर्थकरोंके सम्बन्धमें भी घटित करलेनेकी बात कही गई है। वह पद्म इस प्रकार है—

श्रीधर्मोद्योगभिनन्दन धरः पद्मप्रभः शीतलः

शान्तिः संभव वासुपूज्य अजितशब्दन्द्रप्रभः सुव्रतः ।

विद्यान् कुम्भरनांतवीरविमलः श्रीपृष्ठदन्तो नमिः

श्रीनेमिः सुमतिः सुपार्श्वजिनराद् पाश्वो मलिः पातु वः ॥१॥

भक्तियोग और स्तुति-प्रार्थनादि-रहस्य—

जैनधर्मके अनुसार, सब जीव द्रव्यहृष्टिसे अथवा शुद्ध निष्चयनयकी अपेक्षा परस्पर समान हैं—कोई भेद नहीं—सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। प्रत्येक स्वभावसे ही अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यादि अनन्तशक्तियोंका आधार है—पिण्ड है। परन्तु अनादिकालसे जीवोंके साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ आठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकसी अड़तालीक्ष और उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं। इस कर्म-मलके कारण जीवोंका असती स्वभाव आङ्गादिन है, उनकी वे शक्तियाँ अविकृत हैं और वे परतंत्र हुए नाना प्रकारकी पर्याय धारण करते हुए नजर आते हैं। अनेक अवस्थाओंको लिए हुए संसारका जितना भी प्राणिगर्व है वह सब उसी कर्म-मलका परिणाम है—उसीके भेदसे यह सब जीवजगत् भेदरूप है; और जीवकी इस अवस्थाको ‘विभाव-परिणामिति’ कहते हैं। जबतक किसी जीवकी यह विभाव-परिणामिति बनी रहती है तब तक वह ‘संसारी’ कहलाता है और तभी तक उसे संसारमें कर्मनुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके परिभ्रमण करना तथा दुःख उठाना होता है। जब योग्य-साधनोंके बलपर यह विभाव-परिणामिति मिट जाती है—आत्मामें कर्म-मलका सम्बन्ध नहीं रहता—और उसका निज स्वभाव सर्वज्ञरूपसे अथवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमणसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक जीव-मुक्त और दूसरी विदेहमुक्त। इस प्रकार पर्यायहृष्टिये जीवोंके ‘संसारी’ और ‘सिद्ध’ ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं; अथवा अविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्ण-विकसित ऐसे चार भागोंमें भी उन्हें बांटा जा सकता है। और इसलिये जो अधिकाधिक विकसित है वे स्वरूपसे ही उनके पूज्य एवं प्राराघ्य हैं जो अविकसित या अल्पविकसित हैं; क्योंकि आत्मगुणोंका विकास सबके लिये इष्ट है।

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसारी जीवोंका हित इसीमें है कि वे अपनी विभाव-परिणामितिको छोड़कर स्वभावमें स्थिर होने अर्थात् सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करें। इसके लिये आत्म-गुणोंका परिचय चाहिये गुणोंमें

वर्धमान अनुराग चाहिये और विकासमार्गकी हड़ अदा चाहिए। बिना अनुराग-के किसी भी गुणकी प्राप्ति नहीं होती—अनुरागी अथवा अभक्त-हृदय गुण-ग्रहणका पात्र ही नहीं, बिना परिचयके अनुराग बढ़ाया नहीं जा सकता और बिना विकासमार्गकी हड़ अदा-के गुणोंके विकासकी ओर यथेष्ट प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती। और इसलिये अपना हित एवं विकास चाहेनेवालोंको उन पूज्य महापुरुषों अथवा सिद्धात्माओंकी वरणमें जाना चाहिये, उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणोंमें अनुराग बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपना मार्ग-प्रदर्शक मानकर उनके नक्षे क्रदमपर—प्रदर्शनहोंपर—चलना चाहिये, अथवा उनकी शिक्षाओंपर अमल करना चाहिये, जिनमें आत्माके गुणोंका अधिकाधिक रूपमें अथवा पूर्णरूपसे विकास हुआ हो; यही उनके लिये कल्याणका मुगम मार्ग है। वास्तवमें ऐसे महान् आत्माओंके विकसित आत्मस्वरूपका भजन और कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने आत्माका अनुभव और भवन है; हम ‘सोऽह’ की भावना-द्वारा उसे अपने जीवनमें उतार सकते हैं और उन्हींके—अथवा परमात्मस्वरूपके—प्रादर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आत्मीय-गुणोंका विकास सिद्ध करके तद्रूप हो सकते हैं। इस सब अनुष्ठानमें उन सिद्धात्माओंकी कुछ भी गरज नहीं होती और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है—यह सब साधना अपने ही उत्थानके लिए की जाती है। इसीसे सिद्धि (स्वात्मोपलक्षित) के साधनोंमें ‘भक्ति-योग’ को एक मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे ‘भक्ति-मार्ग’ भी कहते हैं।

सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्तिद्वारा आत्मोत्कर्षं साधनेका नाम ही ‘भक्तियोग’ अथवा भक्ति-मार्ग है और ‘भक्ति’ उनके गुणोंमें अनुरागको, तदनुकूल वर्तनको अथवा उनके प्रति गुणानुरागपूर्वक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है। स्तुति, प्राथना, बन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, अदा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा नामान्तर हैं। स्तुति-पूजा-बद्धनादिके रूपमें इस भक्तिक्रिया को ‘सम्यक्त्ववर्द्धनी किया’ बतलाया है, ‘शुभोपयोगिचारित्र’ लिखा है और साथ ही ‘कृतिकर्म’ भी लिखा है, जिसका अभिप्राय है ‘पापकर्म-छोड़न-

का मनुष्यान् । सद्गुर्किंके द्वारा श्रीदत्य तथा अहंकारके त्यागपूर्वक गुणा-
मुराग बढ़नेसे प्रशस्त अध्यवसायकी अथवा परिणामोंकी विशुद्धिसे सचित
कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होना है जिस तरह काष्ठके एक सिरेमें
अग्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है । इधर सचित कर्मोंके
नाशसे अथवा उनकी शक्तिके शमनसे गुणवरोधक कर्मोंकी निर्जंर होती या
उनका बल क्षय होता है तो उचर उन अभिलिखित गुणोंका उदय होता है,
जिससे आत्माका विकास सघनता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्र-जैसे महान्
आचार्योंने परमात्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल-परिणामकी हेतु
बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गको मुलभ और स्वाधीन बतलाया है ^५
अपने देवस्त्री तथा सुकृति आदि होनेका कारण भी इसीको ^६ निविष्ट किया
है और इसीलिये स्तुति-बन्दनादिके रूपसे यह भक्ति अनेक नैमित्तिक क्रियाओंमें
ही नहीं, किन्तु नित्यकी पट्ट आवश्यक क्रियाओंमें भी शामिल की गई है, जो
कि सब आध्यत्मिक क्रियाएँ हैं और अन्तर्हृष्टपुरुषों (मुनियों तथा श्रावकों)
के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको लक्ष्यमें रखकर ही नित्य की जाती है और तभी
वे आत्मोत्कर्षकी साधक होती हैं । अन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिष्ठा, यश,
भय, रुढ़ि आदिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन
सकता और न प्रशस्त अध्यवसायके बिना सचित पार्थों अथवा कर्मोंका नाश
होकर आत्मीय-गुणोंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है । अतः इस विषय-
में लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर हृष्टि रखनेकी खास ज़रूरत है, जिसका सम्बन्ध
विवेकसे है । बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलवायक नहीं होती और
न बिना विवेककी भक्ति सद्गुर्कि ही कहलाती है ।

स्वामी समन्तभद्रका यह स्वयम्भू ग्रन्थ 'स्तोत्र' होनेसे स्तुतिपरक है और
इसलिए भक्तियोगकी प्रधानताको लिये हुए है, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान
नहीं है । सच पूछिये तो जब तक किसी मनुष्यका अहंकार नहीं मरता तब तक
उसके विकासकी भूमिका ही तम्यार नहीं होती । बल्कि पहलेसे यदि कुछ

^५ देखो, स्वयम्भूस्तोत्रकी कारिका नं० ११६

^६ देखो, स्तुतिवचनाका पद नं० ११४

विकास हुआ भी होता है तो वह भी ‘किया कराया सब गया जब आवा हुंकार’ की लोकोक्तिके अनुसार जाता रहता भववा दूषित हो जाता है। भक्तियोगसे अहंकार मरता है, इसीसे विकास-मरणमें सबसे पहले भक्तियोग-को अपनाया गया है और इसीसे स्तोत्रग्रन्थोंके रचनेमें समन्वयभव प्राप्तः प्रदृश हुए जान पड़ते हैं। आत्मरुद्धों भववा विकासको प्राप्त शुद्धात्माओंके प्रति आकार्य समन्वयभव किन्तने विनम्र ये और उनके गुणोंमें किन्तने अनुरागी ये यह उनके स्तुति-ग्रन्थोंसे भले प्रकार जाना जाता है। उन्होंने स्वयं ‘स्तुतिविद्या’में अपने विकासका प्रधान श्रेय ‘भक्तियोग’को दिया है (पद ११४); भगवान जिनदेवके स्तबनको भव-बनको भस्म करने वाली अग्नि लिखा है; उनके स्मरणको बैलों-समुद्रसे पार करनेवाली नौका बनलाया है (प० ११५) और उनके भजनको लोहसे पारसमणिके स्पर्श-समान बतलाते हुए यह घोषित किया है कि उसके प्रभावसे मनुष्य विशदातानी होता हुआ तेजको धारण करता है और उसका बन भी सारभूत हो जाता है (६०) ।

अब देखना यह है कि प्रस्तुत स्वयम्भूप्रत्यमें भक्तियोगके अङ्गस्वरूप ‘स्तुति’ आदिके विषयमें क्या कुछ कहा है और उनका क्या चर्देश्य, सक्य भववा हेतु अकट किया है:—

लोकमें ‘स्तुति’ का जो रूप प्रचलित है उसे बतलाते हुए और वैसी स्तुति करनेमें अपनी अवमर्यादा व्यक्त करते हुए, स्वामीजी लिखते हैं—

गुण-स्तोकं सदुल्लंघ्य तद्वहुत्व-कथा स्तुतिः ।

आनन्द्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥८६॥

तथाऽपि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कीर्तिंतम् ।

पुनाति पुण्यकीर्तेनस्ततो ब्रूयाम किञ्चन ॥८७॥

प्रथमतः—विद्यमान गुणोंकी अल्पताको उल्लङ्घन करके जो उनके बहुत्वकी कथा की जाती है—उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है—उसे लोकमें ‘स्तुति’ कहते हैं। वह स्तुति (हे जिन !) आपमें कैसे बन सकती है ?—नहीं बन सकती। क्योंकि आपके गुण अनन्त होनेसे पूरे तौर पर कहे ही नहीं जा सकते—बढ़ा-चढ़ाकर कहनेकी तो बात ही दूर है। किर भी आप पुण्यकीर्ति मुनीन्द्रका

चूंकि नाम-कीर्तन भी—भक्ति-पूर्वक नामका उच्चारण भी—हमें पवित्र करता है, इस लिए हम आपके गुणोंका कुछ—लेशमात्र—कथन (यहाँ) करते हैं।

इससे प्रकट है कि समन्वयभद्रकी जिन-स्तुति व्याख्याताका उल्लंघन करके गुणोंको बड़ा-बड़ाकर कहनेवाली लोकप्रसिद्ध स्तुति-जैसी नहीं है, उसका रूप जिनेन्द्रके अनन्त गुणोंमें से कुछ गुणोंका अपनी शक्तिके अनुसार आशिक कीर्तन करना है + और उसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य है आत्माको पवित्र करना। आत्मा-का पवित्रीकरण पापोंके नाशसे—मोह, कथाय तथा राग-द्वेषादिके अभावसे—होता है। जिनेन्द्रके पुण्य-गुणोंका स्मरण एवं कीर्तन आत्माकी पाप-परिणति-को मुड़ाकर उसे पवित्र करता है, इस बातको निम्न कारिकामें व्यक्त किया गया है—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ ! विवान्त-वैरे ।

तथाऽपि ते पुण्य-गुण-स्मृतिर्नः पुनाति चिच्चं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥

इसी कारिकामें यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुतिसे जिनदेवका कोई प्रयोजन नहीं है; क्योंकि वे वीतराग हैं—रागका अंश भी उनके आत्मामें विद्यमान नहीं है, जिससे किसीकी पूजा, भक्ति या स्तुतिपर वे प्रसन्न होते। वे तो सच्चिदानन्दमय होनेसे सदा ही प्रसन्नस्त्वरूप हैं, किसीकी पूजा आदिके उनमें नवीन प्रसन्नताका कोई संचार नहीं होता और इसलिये उनकी पूजा भक्ति या स्तुतिका लक्ष्य उन्हें प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता-द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध करना नहीं है और न वे पूजादिकसे प्रसन्न होकर या स्वेच्छासे किसीके पापोंको दूर करके उसे पवित्र करनेमें प्रवृत्त होते हैं, बल्कि उनके पुण्य-गुणोंके स्मरणादिसे पाप स्वयं दूर भागते हैं और फलतः पूजक या स्तुतिकर्ताके आत्मामें

+ इसी आशयको 'युक्त्यनुशासन' की निम्न दो कारिकाओंमें भी व्यक्त किया गया है:—

यात्म्यमुल्लंभ्य गुणोदयास्या लोके स्तुतिभूरिगुणोदयेस्ते ।

प्रणिष्ठमप्यंशमशक्तुवन्तो बक्तुं जिन ! त्वां किमिव स्तुयाम ॥२॥

तथापि वैद्यात्म्यमुपेत्य भक्त्या स्त्रोऽप्यक्षिम ते शक्यतुरूप-वाक्यः ।

इष्टे प्रदेवेऽपि यथास्त्वशक्तिं किञ्चोत्पहृते पुरुषः कियामिः ॥३॥

पवित्रताका संचार होता है। इसी बातको और अच्छे शब्दोंमें निम्नकारिकां द्वारा स्पष्ट किया गया है—

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तत्य च सत् ।
किमेवं स्वाधीन्याजगति सुलभे आयसपथे
स्तुयान् त्वा विद्वान्सततमभिषूज्य नमिजिनम् ॥१६॥

इसमें बतलाया है कि—‘स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी (Direct) उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु आत्मसाधनामें तत्पर साधुस्तोताकी—विवेकके साथ भक्तिभावपूर्वक स्तुति करनेवालेकी—स्तुति कुशलपरिणामकी—पुण्यप्रसाधक या पवित्रता-विधायक शुभभावोंकी—कारण जरूर होती है; और वह कुशल-परिणाम अथवा तज्जन्य पुण्यविशेष थ्रेय फलका दाता है। जब जगतमें इस तरह स्वाधीनतासे थ्रेयोमार्ग मुलेम है—स्वयं प्रस्तुत की गई अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है—तब है सर्वदा अभिषूज्य नमि-जिन ! ऐसा कौन विद्वान्—परीक्षा-पूर्वकारी अथवा विवेकी जन—है जो आपकी स्तुति न करे ? करे ही करे ।

अनेक स्थानोंपर समन्वयभूते जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें अपनी असमर्पिता व्यक्त करते हुए अपनेको अज्ञ (१५), बालक (३०) तथा अल्पवयी (५६) के रूपमें उल्लिखित किया है; परन्तु एक स्थानपर तो उन्हीने अपनी भक्ति तथा विनम्रताकी पराकाष्ठा ही कर दी है, जब इन्हे महान् ज्ञानी होते हुए और इतनी प्रोढ़ स्तुति रचते हुए भी वे लिखते हैं—

त्वमीदरशस्तादृश इत्यर्थं मम प्रलाप-लेशोऽल्प-मतेर्महामुने !

अशेष-माहास्म्यमनीरयन्पि शिवाय संसर्श्च इवा ऽसृतास्मुद्ये ॥७०॥

‘(है भगवन् !) आप ऐसे हैं, वैसे हैं—आपके ये गुण हैं, वे गुण हैं—इस प्रकार स्तुतिरूपमें मुझ अल्पमतिका—यथावत् गुणोंके परिक्षोनसे रहित स्तोताका—यह घोड़ासा प्रलाप है। (तब क्या यह निष्फल होगा ? नहीं ।) अमृतसमुद्रके अशेष माहात्म्यको न जानते और न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका संरूपकृति कल्पाणकारक होतों है उसी प्रकार है महार्मुने ! आपके

अशेष माहात्म्यको न जानते और न कथन करते हुए भी मेरा यह थोड़ासा प्रलाप आपके गुणोंके सम्बन्धपूर्ण होनेसे कल्पाणका ही हेतु है।

इससे जिनेन्द्र-गुणोंका स्वर्वाचार थोड़ासा अधूरा कीर्तन भी कितना महस्त रखता है यह स्पष्ट जाना जाता है।

जब स्तुत्य पवित्रात्मा, पुण्य गुणोंकी मूर्ति और पुण्यकीर्ति हो तब उसका नाम भी, जो प्राय गुण प्रत्यय होना है, पवित्र होता है और इसीलिये ऊपर उद्धृत ८७ वी कारिकामें जिनेन्द्रके नाम कीर्तनको भी पवित्र करनेवाला लिखा है तथा नीचेकी कारिकामें, अजितजिनकी स्तुति करते हुए, उनके नामको 'परमपवित्र' बतलाया है और लिखा है कि शाज भी अपनी सिद्धि चाहनेवाले लोग उनके परमपवित्र नामको मगलके लिये—पापको गालने अथवा विघ्न-बाधाओंका टालनेके लिये—बड़े आदर्शके साथ लेते हैं—

अद्यापि यस्याऽजित-शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम् ।

प्रगृह्णते नाम परम-पवित्र स्वसिद्धि-कामेन जनेन लोके ॥५॥

जिन अर्हन् दोका नाम-कीर्तन तक पापोंको दूर करके आत्माको पवित्र करता है उनके शरणमें पूर्ण हृदयसे प्राप्त होनेका तो किर कहना ही क्या है—वह तो पाप-नापको और भी अधिक शान्त करके आत्माको पूर्ण निर्दोष एव सुख-शान्तिमय बनानेमें समर्प है। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने अनेक स्थानोपर ततस्वं निर्मोहः शरणमसि न् शान्ति-निलय।' (१२०) जैसे वाक्योंके साथ अपनेको अहंताकी शरणमें अपर्णा किया है। यहा इस विषयका एक लास वाक्य उद्धृत किया जाना है, जो शरण-प्राप्तिमें कारण के भी स्पष्ट उल्लेखको लिये हुएहै—

स्वदोष-शान्त्या विहितात्म-शान्तिः शान्तेर्धिताता शरणं गतानाम् ।

भूयाद्व-क्लेश भयोपशान्त्यै शान्तिर्जितो मे भगवान् शरणः ॥६॥

इसमें बतलाया है कि 'मे भगवान् शान्तिजित मेरे शरण्य है—मै उनकी शरण लेता हूँ—जिन्होंने अपने दो शोकी—शक्तान, भीह तथा राध-द्वेष-क्लेश-फोटादि-विकारोंकी—शान्ति करके आत्मामें परमशान्ति स्थापित की है—पूर्ण सुखस्वरूपा स्वामाकी स्थिति प्राप्त की है—प्रौढ़ इसीलिये जो शरणागतोंको शान्तिके दिशातः है—उनमें अपने-आत्मप्रभवसे छोड़ें भी शान्ति करके शान्ति-

मुखका संचार करने अथवा उन्हें शान्ति-मुखरूप परिणाम करनेमें सहायक एवं निमित्तभूत है। भ्रतः (इस चरणागतिके फलस्वरूप) वे शान्तिजिन मेरे संसार-परिभ्रमणका धन्त और सांसारिक क्लेशों तथा भयोंकी समाप्तिमें कारणी-भूत होते हैं।

यहाँ शान्तिजिनों शरणागतोंकी शान्तिका जो विधाता (कर्ता) नहा है उसके लिये उनमें किसी इच्छा या तदनुकूल प्रयत्नके आरोपकी जरूरत नहीं है, वह कायं उनके 'चिह्नितात्म-शान्ति' होनेसे स्वयं ही उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कि अग्निके पाम जानसे गर्भका और हिमालय या शीतप्रधान प्रदेशके पास पहुँचनेसे सर्दीका संचार अथवा तट्रूप परिणाम स्वयं हुआ करता है और उसमें उस प्रगति या हिममय पदार्थकी इच्छादिक-जीसा कोई कारण नहीं पड़ता। इच्छा तो स्वयं एक दोष है और वह उस मोहका परिणाम है जिसे स्वयं स्वामी-जीने इस ग्रन्थमें 'अहंतदोषाश्रय-विघ्रह' (६६) बतलाया है। दोषोंकी शान्ति हो जानेसे उसका अहंतत्व ही नहीं बनता। और इसलिए अहंतदेवमें विना इच्छा तथा प्रयत्नवाला कर्तृत्व सुविट्ठि है। इसी कर्तृत्वको लक्ष्यमें रखकर उन्हें 'शान्तिके विधाता' कहा गया है—इच्छा तथा प्रयत्नवाले कर्तृत्वकी हृषिसे वे उसके विधाता नहीं हैं। और इस तरह कर्तृत्व-विधयमें अनेकान्त चलता है—सर्वथा एकान्तपक्ष जैनशासनमें प्राप्त ही नहीं है।

यहाँ प्रसंगवश इतना और भी बतना देना उचित जान पड़ता है कि उक्त पद्धतेके तृनीय चरणमें सांसारिक क्लेशों तथा भयोंकी शान्तिमें कारणीभूत होनेकी जो प्रार्थना की गई है व जैनी प्रार्थनाका मूलरूप है, जिसका और भी स्पष्ट दर्शन नित्यकी प्रार्थनामें प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथामें पाया जाता है—

दुःख-स्वच्छो कम्म-स्वच्छो समाहि-मरणं च बोहिलाहो य ।

मम होउ तिजगवंधव ! तव जिणुवर चरण-सरणेण ॥

इसमें जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह है कि— हे त्रिजगतके (निनिमित्त) बन्धु जिनदेव ! आपके चरण-शरणके प्रसादसे मेरे दुःखोंका क्षय, कर्मोंका क्षय, समाधिपूर्वक मरण और बोधिका—सम्यद्वल्लादिकका—लाभ होवे।' इससे यह प्रार्थना एक प्रकारसे आत्मोत्कर्षकी भावना है और इस भावको सुनित करती है कि जिनदेवकी शरण प्राप्त होनेसे—प्रसन्नतापूर्वक जिनदेवके चरणोंका

आराधन करनसे—दुखोंका शय और कर्मोंका क्षयादिक सुख साध्य होता है। यही भाव समात्मद्रकी प्राथनाका है। इसी भावको लिए हुए यथम दूसरी प्राथनाएँ इस प्रकार हैं—

‘मति प्रबेक स्तुवतोऽस्तु नाथ । (२५)

‘मम भवताद् दुरितासनोऽन्तम् ।’ (१०५)

भवतु ममाऽपि भवोपशान्तये ।’ (११५)

पर तु ये ही प्राथनाएँ जब जिन द्वेदेवको साक्षात्रूपम कुछ करन करानके लिये प्ररित करती हुई जन पठती हैं तो वे अलकृतरूपको धारण किये हुए होती हैं। प्राथनाके इस अलकृतरूपको लिये हुए जो वाक्य प्रस्तुत ग्राम पाये जाते हैं वे निम्न प्रकार हैं—

१ पुनातु चेतो मम नाभिनन्दन (५)

२ जिन श्रिय मे भगवान् विघ्नाम् (१०)

३ ममाऽर्य देया शिवतातिमुच्च (१५)

४ पूर्या पवित्रो भगवान् मनो मे (४०)

५ श्रेयसे जिनवृष्टि । प्रसीद न (७२)

ये सब प्राथनाएँ चित्तको पवित्र करन जिनकी तथा शिवस्मृतिका ऐन और कल्याण करनकी याचनाको लिये हुए हैं आत्मो क्ष एव आ॑मविक सको लक्ष्य करके की गई हैं इनम असगतता तथा असमांग जसी बोई बात नहीं है—सभी जिन द्वेदेवके सम्पर्क तथा शरण्यम आनसे स्वय सफल होनवाली अथवा भक्ति उपासनाके द्वारा सहजसाध्य ह—और इसलिये अलकारकी भाषाम की गई एक प्रकारकी भावनाए ही है। इनके ममको यथके अनुवादम स्पष्ट किया गया है। वास्तवमें परम बीतरागदेवसे विर्वकी जनकी प्राथनाका अब देवके समक्ष अपनी भावनाको व्यक्त करना है अथात यह प्रकट करना है कि वह आपके चरण शरण एव प्रभावम रह कड़ और कुँड़ पदार्थपाठ लेकर आत्म शांतिको जागृत एव विकसित करता भृत्यां अपनैं उस इच्छा, कामना भा भावनाको पूरा करनीमें समर्प होना चाहत है। उसका यह भाषय कदापि

नहीं होता कि वीतरागदेव भक्तकी प्रार्थना से द्वीपूष्ट होकर अपनी इच्छाशक्ति एव प्रयत्नादिको काममे लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे अथवा दूसरोंसे प्रेरणादिके द्वारा करा देंगे । ऐसा आशय असम्भाव्यको समाव्य बनाने-जसा है और देवके स्वरूपसे अनभिज्ञता व्यक्त करता है । अस्तु, प्रार्थनाविषयक विशेष ऊहापोह स्तुतिविद्याकी प्रस्तावना या तद्विषयक निबन्धमें 'वीतराग-से प्रार्थना क्यों ?' इस शीर्षकके नीचे किया गया है और इसीलिए उसे बहीसे जानना चाहिये ।

इस तरह भक्तियोग, जिसके स्तुति, पूजा, बन्दना, आराधना, शरणागति, भजन स्मरण और नामकीर्तनादिक आग है, आत्मविकासमे सहायक है । और इसलिए जो विवेकी जन अथवा बुद्धिमान पुरुष आत्मविकासके इच्छुक तथा अपना हितसाधनमे साधनान हैं वे भक्तिये गवा आश्रय लेते हैं । इसी बातको प्रदर्जित करनवाले ग्रन्थके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

- १. इति प्रभो ! लोक-हित यतो मत
ततो भवानेव गतिः सता मत्. (२०) ।
- २. तत्. स्वनिश्चयस-भावना-पौर-
बुधप्रवेकैर्जिन ! शीतलेड-यसे (५०) ।
- ३. ततो, भवन्तमार्या प्रणता हितैपिणः (६५) ।
- ४. तस्माद्वन्तमजमप्रतिमेयमार्याः
स्तुत्य स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानाः (८५) ।
- ५. स्वार्थ-नियत-मनसः सुधियः
प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः (१२४) ।

स्तुतिविद्यामें तो बुद्ध उसीको कहा है जो जिनेन्द्रका स्मरण करती है, मस्तक उसीको बरलाया है जो जिनेन्द्रके पदोंमें नत रहता है, सफलज्ञम उसीको चोखित किया है जिसमें सप्तर-परिभ्रमणको नष्ट करकेवाले जिन-चरणोंका आश्रय लिया जाता है, वस्तो उसीको मन्त्र है जो जिनेन्द्रका स्तबन (घुणकीर्तन) करती है, पवित्र उसीको लोक्तर किया है जो जिनेन्द्रके महुमे रत है और पक्षितमन लग्नहीको अवीकार किया है जो किन्तुके कृदस्त्रमें

सदा नशीमूल रहते हैं ॥ (११३) ।

इन्ही सब बातोंकी लेकर स्त्रामी समन्तभद्रने प्रपनेको भ्रह्मजिनेन्द्रकी भक्तिके लिए अपरंण कर दिया था । उनकी इस भक्तिके जबलन्त सूपका दशन स्तुतिविद्याके निम्न पथमें होता है, जिसमें वे वीरजिनेन्द्रको लक्ष्य करके लिखते हैं 'हे भगवन् आपके मतमें अथवा आपके विषयमें मेरी सुश्रद्धा है—अन्व अद्वा नहीं; मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है—सदा आपका ही स्मरण किया करती है; मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्राणामांजलि करनेके विमित्त हैं, मेरे कान अपवकी ही गुण-कवाको सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें आपके ही सुन्दर सूतियोंके रचने का हैं और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है । इस प्रकारारी चूंकि मेरी सेवा है—मैं निरन्तर ही आपका इस तरह आराधन किया करता हूँ—इसीलिए हे तेजःपते ! (केवलज्ञानस्वामिन्) मैं सेन्नस्ती हूँ, सुजन हूँ प्रीर सुकृति (पुर्यवान्) हूँ—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरापं त्वद्यर्चनं चाऽपि ते
हस्तावङ्गलये वथा-श्रुति-रतः कर्णोऽच्चि संप्रेक्षते ।
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशी येन ते
तेजस्थी सुजनोऽहमेव सुकृती येनैव तेजःपते ॥ ११४॥

यहाँ सबसे पहले 'सुश्र.' की जो बात कही गई है वह बड़े महत्वकी है— और अगली सब बातों अथवा प्रवृत्तियोंकी जान-प्राण जान पड़ती है । इससे जहाँ यह मालूम होता है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रदेव तथा उनके शासन (गत)के विषयमें अन्धश्रद्धातु नहीं ये वहाँ भी जाना जाता है कि भक्तियोगमें अन्ध-श्रद्धाका ग्रहण नहीं है—उसके लिये सुश्रद्धा चाहिये, जिसका सम्बन्ध विवेकसे

१. प्रजा सा स्परदीति या तव विरक्तश्वन्तरं ते पदे
जन्मादः स्पृष्टं परं भृत्यमिदी यत्प्राप्तिते ते पदे ।
सांश्ल्यं त्रयो इत्स्तम भ्रते श्रीः सैव या त्वा लुते
ते जा ये प्रणता अवाः कृमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥ ११५॥

है। समन्तभद्र ऐसी ही विवेकवती सुश्रद्धासे सम्पन्न थे। अन्वी भक्ति बास्तवमें उस फलको फल ही नहीं सकती जो भक्तियोगका लक्ष्य और उद्देश्य है।

इसी भक्त्यर्थंणाकी बातको प्रस्तुत ग्रन्थमें एक दूसरे ही ढंगसे व्यक्त किया गया है और वह इस प्रकार है—

अतएव ते बुधनुतस्य चरित-गुणमद्वृतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥

इस वाक्यमें स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते हैं कि 'हे बुधजनस्तुत-जिनेन्द्र ! आपके चरित-गुण और अद्भुत उदयको न्यायविहित—युक्तियुक्त—निश्चय करके ही हम बड़े प्रसन्नचित्तसे आपमें स्थित हुए हैं—आपके भक्त बने हैं और हमने आपका आश्रय लिया है।'

इससे साफ़ जाना जाता है कि समन्तभद्रने जिनेन्द्रके चरितगुणकी और केवलज्ञान तथा समवसरणादि-विभूतिके प्रादुर्भाविको लिये हुए अद्भुत उदयकी जाँच की है—परीक्षा की है—और उन्हें न्यायकी कालौटीपर कसकर ठीक एवं युक्तियुक्त पाया है तथा अपने आत्मविकासके मार्गमें परम-सहायक समझा है, इसीलिये वे पूर्ण-दृढ़दयसे जिनेन्द्रके भक्त बने हैं और उन्होंने अपनेको उनके चरण-शरणमें प्रर्णाण कर दिया है। अतः उनका भक्तिमें कुलपरम्परा, छंडि-पालन और कृतिमता (बनावट-दिल्लावट) —जैसी कोई बात नहीं थी—वह एक दम शुद्ध विवेकसे संचालित थी और ऐसा ही भक्तियोगमें होना चाहिये।

हाँ, समन्तभद्रका भक्तिमार्ग, जो उनके स्तुति-ग्रन्थोंसे भले प्रकार जाना जाता है, भक्तिके सर्वथा एकान्तको लिये हुए नहीं है। स्वयं समन्तभद्र भक्ति-योग, ज्ञानयोग और कर्मयोग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे—इनमेंसे किसी एक ही योगके वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे। निरी या कोरी एकान्तता* तो उनके

* जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवहारको लिए हुए होती है उसे 'निरी' 'कोरी' भवता 'मिथ्या' एकान्तता कहते हैं। समन्तभद्र इस मिथ्याएकान्ततासे रहित थे; इसीसे 'देवागममें, एक आवश्यिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिखा है—'न मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः । निरपेक्षा नया मिथ्या: सापेक्षा वस्तु तेऽप्यकृत ॥'

पास तक भी नहीं फटकती थी वे सर्वेषा एकान्तवादके सुल्त विरोधी थे और उसे बस्तुतत्त्व नहीं मानते थे। उन्होंने जिन ज्ञात कारणोंसे अहंजिज्ञनेन्द्रको अपनी स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तुतिका विचार बनाया है उनमें, उनके द्वारा एकान्तहृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धिरूप न्यायवारण भी एक कारण है। अहंत-देव अपने इन एकान्तहृष्टि-प्रतिषेधक अभोष न्यायवाणोंसे—तत्त्वज्ञानके सम्बूद्ध प्रहारोंसे—मोहशत्रुका अथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए ज्ञानावरणादिरूप शत्रु-समूहका नाश करके कैवल्य-विभूतिके—कैवल्यज्ञानके साथ-साथ समवसर-णादि-विभूतिके—सञ्चाट हुए हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके प्रस्तुत ग्रन्थके निम्नवाक्यमें कहते हैं कि 'प्राप मेरी स्तुतिके योग्य है—पात्र है' ।

एकान्तहृष्टि-प्रतिषेध-सिद्धि-न्यायेषुभिर्मोहरिपुं निरस्य ।

असिस्म कैवल्य-विभूति-सञ्चाट् तत्त्वमर्हज्ञसि मे स्तवार्हः ॥

इससे समन्तभद्रकी परीक्षा-प्रधानता, गुणज्ञता और परीक्षा करके सुश्रद्धाके साथ भक्तिमें प्रवृत्त होनेकी बात और भी स्पष्ट हो जाती है। साथ ही, यह भी मालूम हो जाता है कि जब तक एकान्तहृष्टि बनी रहती है तब तक भोह नहीं जीता जाता, जब तक भोह नहीं जीता जाता तब तक आत्म-विकास नहीं बनता और न पूज्यनामकी ही प्राप्ति होती है। भोहको उन न्याय-वाणोंसे जीता जाता है जो एकान्तहृष्टिके प्रतिरोधको सिद्ध करनेवाले हैं—सर्वेषा एकान्तरूप हृष्टिदोषको मिटाकर अनेकान्तहृष्टिकी प्रतिष्ठारूप सम्बन्धित्वका आत्मामें संचार करनेवाले हैं। इससे तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानका महत्व सामने आयाता है, जो अनेकान्तहृष्टिके आश्रित है, और इसीसे समन्तभद्र भक्तियोगके एकान्त-पक्षपाती नहीं थे। इसी तरह ज्ञानयोग तथा कर्मयोगके भी वे एकान्त-पक्षपाती नहीं थे—एकका दूसरेके साथ अकाटप सम्बन्ध मानते थे।

ज्ञान-योग—

जिस समीक्षीन ज्ञानाभ्यासके द्वारा इस संसारी जीवात्माको अपने मुद्द-स्वरूपका, पररूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे होनेवाले विकारका—दोषका अथवा विभावपरिणामिका—विकारके विशिष्ट कारणोंका और उन्हें दूर करने, निरिकार (निर्दोष) बनाये, बन्धनरहित (मुक्त) होने तथा अपने निजकपमें

तुस्थित हीनेके साधनीकों परिज्ञान कराया जाता है, और इस तरह हृदयोन्ध-कोरको दूरकर—भूल-भ्रान्तियोंकी मिटाकर—आत्मविकास सिद्ध किया जाता है, उसे 'ज्ञानयोग' कहते हैं। इस ज्ञानयोगके विषयमें स्वामी समन्तभद्रने कथा कुछ कहो है उसका पूरा परिचय तो उनके देवागम, युक्त्येनुशासन आदि सभी ग्रन्थोंके गहरे अध्ययनसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँपर प्रस्तुत ग्रन्थमें स्पष्टतया सूत्ररूपसे, सक्रितिक रूपमें अथवा सूचनाके रूपमें जो कुछ कहा गया है उसे, एक स्वतंत्र निवन्धनमें संकलित न कर, स्तवन-क्रमसे नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंको वह मालूम करनेमें सुविधा रहे कि किस स्तवनमें कितना और क्या कुछ तत्त्वज्ञान सूत्रादिरूपसे समाविष्ट किया गया है। विज्ञन अपने बुद्धिबलसे उसके विशेष रूपको स्वयं समझ सकेंगे—व्याख्या करके यह बतलानेका यहाँ अवसर नहीं कि उसमें और क्या-क्या तत्त्वज्ञान छिपा हुआ है अथवा उसके साथमें अविनाभावरूपसे सम्बद्ध है। उसे व्याख्या करके बतलानेसे प्रस्तुतनिवन्धन-का विस्तार बहुत बढ़ जाता है, जो अपनेको इष्ट नहीं है। तत्त्वज्ञान-विषयक जो कथन जिस कारिकार्यमें प्राप्ता है उस कारिकार्यका नम्बर भी साथमें नोट कर दिया गया है।

(१) पूर्ण विकासके लिये प्रबुद्धतत्त्व होकर ममत्वसे विरक्त होना, वच्छ-वित्तादि-परिषहका त्याग करके जिनदीका लेना—महावतादिको प्रहण करना, दीक्षा लेकर भाए हुए उपसर्ग-परिषहोंको समाभावसे सहना और प्रतिज्ञात सद्वत्त-नियमोंसे चलायमान नहीं होना आवश्यक है (२, ३)। अपने दोषोंके मूल कारणोंको अपने ही समाधि-तेजसे भस्म किया जाता है और तभी ब्रह्मपदरूप अमृतका स्वामी बना जाता है (४)।

(२) जो महामुनि घनोपदेश—धातिया कर्मोंके आवरणादिरूप उपलेपसे—रहित होते हैं वे भव्यजनोंके हृदयोंमें संलग्न हुए कलहोंकी—अज्ञानादि दोषों तथा उनके कारणीमूल ज्ञानावरणादि कर्मोंकी—शान्तिके लिये उसी प्रकार निमित्तशूत होते हैं जिस प्रकार कि कर्मलोंके प्रमुदयके लिये सूर्य (८) [यह ज्ञान भक्तियोगमें संहायक होता है]। उत्तम और महान् वर्मतीर्थको पाकर भव्यजन दुर्लभ ही प्रकार विजय प्राप्त करते हैं जिस प्रकार कि धार्मसे संतत हुए हाँचीं धीतल गंगाद्वारमें प्रवेश करके अपना सब आत्माप निटा बालते

है (६)। जो ब्रह्मनिष्ठ (अहिंसातत्पर), सम-मित्र-शत्रु और कषाय-दोषोंसे रहित होते हैं वे ही आत्मलक्ष्मीको—प्रनन्तज्ञानादिरूप जिनश्रीको—प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं (१०)।

(३) यह जगत अनित्य है, मध्यरण है, अहंकार-ममकारकी क्रियाओंके द्वारा संलग्न हुए मिथ्याभिनवेशके दोषसे दूखित है और जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित है, उसे निरञ्जना शान्तिकी जरूरत है (१२)। इन्द्रिय-विषय-सुख विजलीकी चमकके समान चंचल है—मध्यरण भी स्थिर रहनेवाला नहीं है—और तृष्णा-रूपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र हेतु है—इन्द्रिय विषयोंके अधिकाधिक सेवनसे तृष्णा न होकर उलटी तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि ताप उत्तरन करती है और वह ताप जगतको (कृषिकार्यादि क्लेशकमोर्में प्रबृत्त कराकर) अनेक दुःख-परम्परासे पीड़ित करता रहता है (१३)। बन्ध, मोक्ष, दोनोंके कारण, बढ़, मुक्त और मुक्तिका फल, इन सबकी व्यवस्था स्याद्वादी—अनेकान्तर्हृष्टिके मतमें ही ठीक बैठती है—एकान्तर्हृष्टियों अथवा सर्वथा एकान्तवादियोंके मतोंमें नहीं—प्रीत 'शास्त्र' (तत्त्वोपदेश) पदके योग्य स्याद्वादी अर्हन्त-जिन ही होते हैं—उन्हींका उपदेश मानना चाहिये (१४)।

(४) समाधिकी सिद्धिके लिये उभयप्रकारके नैश्चन्य-गुणसे—बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहके त्यागसे—युक्त होना आवश्यक है—विना इसके समाधि-की सिद्धि नहीं होती; परन्तु क्षमा सखीबाली दयावधूका त्याग न करके दोनोंको अपने आश्रयमें रखना जरूरी है (१६)। अवेतन शरीरमें और शरीर-सम्बन्धसे अथवा शरीरके साथ किया गया आत्माका जो कर्मवश बन्धन है उससे उत्तम होनेवाले सुख-दुःखादि तथा स्त्री-पुत्रादिमें 'यह मेरा है' इस प्रकारके अभिनवेशको लिये हुए होनेसे तथा क्षणभंगुर पदार्थोंमें स्थायित्वका निष्पत्य कर देनेके कारण यह जगत नष्ट ही रहा है—आत्महित-साधनसे विमुक्त होकर अपना अकल्पाणु कर रहा है (१७)। क्षुषादि दुःखोंके प्रतिकारसे और इन्द्रिय-विषय-जयं स्वल्प सुखके अनुभवसे देह और बैहृषारीका सुखपूर्वक अवस्थान नहीं बनता। ऐसी हालतमें क्षुषादि-दुःखोंके इस क्षणस्थायी प्रतीकार (इलाज) और इन्द्रिय-विषय-जयं स्वल्प सुखके सेवनसे न तो बास्तवमें इस शरीरका कोई उपकार बनता है और न शरीरबारी आत्माका ही कुछ भक्ता होता है भ्रतः इन-

के प्रतीकारादिमें आसक्ति (अतीव रागकी प्रवृत्ति) व्यर्थ है (१८) जो मनुष्य आसक्तिके इस लोक तथा परलोक-सम्बन्धी दोषोंको समझ लेता है वह इन्द्रिय-विषयसुखोंमें आसक्त नहीं होता; अतः आसक्तिके दोषको भले प्रकार समझ लेना चाहिये (१९)। आसक्तिसे तुष्णा की अभिवृद्धि होती है और इस प्राणी-की स्थिति मुख्यपूर्वक नहीं बनती, इसीसे वह तापकारी है। (चौथे स्तवनमें वर्णित) ये सब लोक-हितकी बातें हैं (२०)।

(५) अनेकान्त-मतसे भिन्न शेष सब भर्तोंमें सम्पूर्ण क्रियाओं तथा कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंके तत्त्वकी सिद्धि—उनके स्वरूपकी उत्तर्ति अथवा ज्ञातिके रूपमें प्रतिष्ठा—नहीं बनती, इसीसे अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व ही मुशुक्ति-नीत है (२१)। वह सुधुक्ति-नीत वस्तुतत्त्वमेदाऽभेद-ज्ञानका विषय है और अनेक तथा एकरूप है, और यह वस्तुको भेद-अभेदके रूपमें घटणा करनेवाला ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमेंसे एकको ही सत्य मानकर दूसरेमें उपचारका व्यवहार करते हैं वह मिथ्या है; क्योंकि परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध होनेसे दोनोंमेंसे एकका अभाव हो जानेसे वस्तुतत्त्व अनुपाल्य-निःस्वभाव हो जाता है (२२)। जो सत् है उसके कथञ्चित् असत्त्व-ज्ञाति भी होती है; जैसे पुष्प वृक्षोंपर तो अस्तित्वको लिए हुए प्रसिद्ध है परन्तु आकाशपर उसका अस्तित्व नहीं है, आकाशकी अपेक्षा वह असतरूप है। यदि वस्तुतत्त्वको सर्वथा स्वभावच्युत माना जाय तो वह अप्रमाण छहरता है। इसीसे सर्वजीवादितत्त्व कथञ्चित् सत्-असतरूप अनेकान्तात्मक हैं। इस मत-से भिन्न जो एकान्त मत है वह स्ववचन-विरुद्ध है (२३)। यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो वह उदय-प्रस्तको प्राप्त नहीं हो सकती और न उसमें क्रिया-कारककी योजना ही बन सकती है। (इसी तरह) जो सर्वथा असत् है उसका कभी जन्म नहीं होता और जो सर्वथा सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। दीरक भी कुक्क जानेपर सर्वथा नाशको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय अन्ध-काररूप पुदगल पर्यायिको भारण किये हुए अपना अस्तित्व रखता है (२४)। (वास्तव में) विष और निवेष दोनों कथञ्चित् इष्ट हैं। विषकासे उनमें मुख्य-गोण की व्यवस्था होती है (२५)। इस तत्त्वज्ञानकी कुछ विशेष व्याख्या अनुवादपरसे जानने योग्य है।

(६) जो केवलज्ञानादि सद्गमीसे आलिङ्गित चाल्मूर्ति होता है वही भव्य-जीवरूप कमलोको विकसित करनेके लिये सूर्यका काम देता है (२६) ।

(७) आत्मनितक स्वास्थ्य—विभावपरिणामे रहित अपने अनन्तज्ञानादि-स्वरूपमे अविनश्वरी रिष्टि—ही जीवात्माओंका स्वार्थ है—अरणभगुर और स्वार्थ न होकर अस्वार्थ है । इन्द्रियविषय-सुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी—भोगाकाक्षाकी—बृद्धि होती है और उससे तापकी—शारीरिक तथा मानसिक दुखकी—शान्ति नहीं होने पाती (३१) । जीवके द्वारा वारण किया हुआ शरीर अजगम, जगम-नेय-यन्त्र, बीभत्सु, पूति, क्षयि, और तापक है और इसलिये इसमे अनुराग व्यर्थ है, यह हितकी बात है (३२) । हेनुद्वयसे आविष्कृत-कार्य लिङ्गा भवितव्यता अलध्यशक्ति है, इस भवितव्याकी अपेक्षा न रखनेवाला अहकारसे पीड़ित हुआ ससारी प्राणी (यत्र-मन्त्र-तत्त्वादि) अनेक सहकारी कारणोंको मिलाकर भी सुखादिक कार्योंको वस्तुत सम्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता (३३) । यह ससारी प्राणी मृत्युसे डरता है परन्तु (भलध्य-शक्ति-भवितव्यता-वश) उस मृत्युसे कुटकारा नहीं, नित्य ही कल्याण चाहता है परन्तु (भावीकी उसी अलध्यशक्तिवश) उसका लाभ नहीं होता, किर भी यह मृदप्राणी भय तथा इच्छाके वशीभूत हुआ स्वय ही बृथा तस्यामान होता है भयवा भवितव्यता-निरपेक्ष प्राणी नृथा ही भय और इच्छाके वश हुआ दुख उठाता है (३४) ।

(८) जिन्होन अपने अन्त वरणके कथाय-वन्धनको जीता है—सम्पूर्ण-क्रोधादि-कथायोंका नाश कर अकथाय-पद प्राप्त किया है—वे 'जिन' होते हैं (३५) । ध्यान-प्रदीपके अतिशयसे—परमशुक्लध्यानके तेज-द्वारा—प्रचुर मानसअध्यकार—ज्ञानावरणादि-कमजून्य आत्माका समस्त अज्ञानात्मकार—दूर होता है (३६)

(९) तत्त्व वह है जो सद-प्रसद् आदिरूप विविक्षिताऽविवाक्षित स्वभावको लिये हुए है और एकान्तहृष्टिका प्रतिषेषक है तथा प्रमाण-सिद्ध है (४१) । वह तत्त्व कथचित् तदूप और कथचित् अतदूप है, क्योंकि वैसी ही सद-प्रसद् आदि रूपकी प्रतीति होती है । स्वरूपादि-चतुर्हृष्टरूप विषि और पररूपादि-चतुर्हृष्टरूप निषेषके परस्परमें असम्बन्ध (सर्वथा) भिजता तथा अभिभृता नहीं

है; क्योंकि सर्वथा विज्ञता या अभिज्ञता माननेपर जून्य-दोष आता है—वस्तुके सर्वथा लोपका प्रसंग उपस्थित होता है (४२)। यह वही है, इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे वस्तुत्व नित्य है और यह वह नहीं—अन्य है, इस प्रकारकी प्रतीतिकी सिद्धि से वस्तुत्व नित्य नहीं—अनित्य है। वस्तुत्वका नित्य और अनित्य दोनों रूप होना विशद्द नहीं है; क्योंकि वह बहिरंग निमित्त—सहकारी कारण—अन्तरंग निमित्त—उपादान कारण—और नैमित्तिक—निमित्तोंसे उत्पन्न होनेवाले कार्य—के सम्बन्धको लिये हुए है (४३)। पदका वाच्य प्रकृति (स्वभाव) से एक और ग्रनेक रूप है, 'वृक्षाः' इस पदज्ञानकी तरह। अनेकान्तात्मक वस्तुके 'अस्तित्वादि' किसी एक घर्मका प्रतिपादन करनेपर उस समय गौणमूल नास्तित्वादि दूषरे घर्मके प्रतिपादनमें जिसकी आकांक्षा रहती है ऐसे आकांक्षी—सापेक्षवादी अथवा स्याद्वादीका 'स्यात्' यह निपात—स्यात् शब्दका साथमें प्रयोग—गौणकी अपेक्षा न रखनेवाले नियममें—सर्वथा एकान्तमतमें—बाधक होता है (४४)। 'स्यात्' पदरूपसे प्रतीयमान वाच्य मुख्य और गौणकी व्यवस्थाको लिये हुए है और इसलिये अनेकान्तवादसे द्वेष रखनेवालोंको अपद्यरूपसे अनिष्ट है—उनकी सैद्धान्तिक प्रकृतिके विहङ्ग है (४५)। इस स्तवनमें तत्त्वज्ञानकी भी कुछ विशेष व्याख्या अनुवाचपरसे जानने योग्य है।

(१०) सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूर्छित हुआ मन ज्ञानमय अमृतजलोंके सिद्धबनसे मूर्छा-रहित होता है (४६)। भात्मविशुद्धिके मार्गमें दिन रात जागृत रहनेकी—पूर्ण सावधानर हनेकी—जारूरत है, तभी वह विशुद्धि सम्भव हो सकती है (४८)। मन-बचन-कायकी प्रवृत्तिको पूर्णतया रोक-नेसे पुनर्जन्मका अभाव होता है और साथ ही जरा भी टल जाती है (४६)।

(११) वह विधि—स्वरूपादि-चतुष्टयसे अस्तित्वरूप—प्रमाण है जो कथंचित् तावात्म्य-सम्बन्धोंको लिए हुए प्रतिवेषरूप है—पररूपादि-चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्वरूप भी है। इन विधिप्रतिवेष दोनोंमेंसे कोई प्रधान होता है (वक्ताके अभिप्रायानुसार, न कि स्वरूपसे)। मुख्यके नियामका—'स्वरूपादि चतुष्टयसे विधि और पररूपादि चतुष्टयसे ही 'निवेद' इस नियमका—जो हेतु है वह नय है और वह नव दृष्टान्त समर्थन—हृष्टान्तसे समर्थित अथवा हृष्टान्त-

समर्थक—होता है । (५२) विविक्षित मुख्य हीता है और अविविक्षित गौण । जो अविविक्षित होता है वह निरात्मक (अभावरूप) नहीं होता । मुख्य-गौणकी लघुवस्थासे एक ही वस्तु शब्द, यिन्हे तथा उभय अनुभव-लक्ष्मीको लिये रहती है । वास्तवमें वस्तु दो अवधियों(मर्यादाओं)से ही कार्यकारी होती है—विधि-निषेध, सामान्य-विवेच, द्रव्य-पर्यायरूप दो दो घमोंका आश्रय लेकर ही अवधिकार करनेमें प्रवृत्त होती है और अपने यथार्थ स्वरूपकी प्रतिक्रापक बनती है (५३) । वादी-प्रतिवादी दोनोंके विवादमें हृष्टान्तकी सिद्धि होनेपर साध्य प्रसिद्ध होता है; परन्तु वैसी कोई हृष्टान्तभूत वस्तु है नहीं जो सर्वथा एकान्तकी नियामक दिक्षाई देती हो । अनेकान्तहृष्टि सबमें—साध्य, साधन और हृष्टान्तादिमें—अपना प्रभाव ढाले हुए है—वस्तुमात्र अनेकान्तत्वसे व्याप्त है । इसीसे सर्वथा एकान्तवादियोंके मतमें ऐसा कोई हृष्टान्त ही नहीं बन सकता जो उनके सर्वथा एकान्तका नियामक हो और इसलिये उनके सर्वथा नित्यत्वादि साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती (५४) एकान्तहृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धिरूप न्याय-बाणोंसे—तत्त्वज्ञानके सम्बन्धके प्रहारोंसे—मोहणश्रुका अथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए शत्रुसमूहका—नाश किया जाता है (५५) ।

(१२) जो राग और दोषसे रहित होते हैं उन्हें यथापि पूजा तथा निन्दासे कोई प्रयोगन नहीं होता, फिर भी उनके पुष्पमुण्डोंका स्मरण चित्तको पाप-मलोंसे पवित्र करता है (५६) । पूज्य-जिनकी पूजा करते हुए जो (सराग-परिणित अथवा भावमादि-द्वारा) लेखमात्र पापका उपायन होता है वह (भावपूर्वक की हुई पूजासे उत्पन्न होनेवाली) वहुपुण्यराशिमें उसी प्रकारसे दोषका कारण नहीं बनता जिस प्रकार कि विषकी एक कणिका शीत-विवादम्बुराशिको—ठडे कल्याण-कारी जलसे भरे हुए समुद्रको—दूषित करनेमें समर्थ नहीं होती (५८) । जो बाहु वस्तु गुण-दोषकी उत्पत्तिका विमित होती है वह अन्तर्रंगमें बर्तनेवाले गुण-दोषोंकी उत्पत्तिके अभ्यन्तर मूलहेतुकी अंगमूल होती है । बाहु वस्तुकी अपेक्षा न रखता हुआ केवल अभ्यन्तर कारण भी गुण-दोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं है (५९) । बाहु-और अभ्यन्तर दोनों कारणोंकी यह पूर्णता ही द्रव्यगत स्वभाव है, अन्यथा पुरुषोंमें मोक्षकी विधि भी नहीं बन सकती (६०) ।

(१३) जो नित्य-परिणितादिकं नय परस्परमें अनपैत (स्वतंत्र) होनेसे

स्व-पर-प्रणाली (स्व-पर-वैरी) है (और इसलिये 'मुर्नय' है) वे ही नय परस्परापेक्ष (परस्परतंत्र) होनेसे स्व-परोपकारी हैं और इसलिये तत्त्वरूप सम्यक् नय है (६१)। जिस प्रकार एक-एक कारक विशेष अन्वयको अपना सहायक-रूप कारक अपेक्षित करके अचंकी सिद्धिके लिए समर्थ होता है उसी प्रकार सामान्य और विशेषसे उत्पन्न होनेवाले अथवा सामान्य और विशेषको विषय करनेवाले (द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक आदिरूप) जो नय हैं वे मुख्य और गोण-की कल्पनासे इष्ट (अभिप्रेत) हैं (६२)। परस्परमे एक-दूसरेकी अपेक्षाको लिए हुए जो अभेद और भेदका—अन्वय तथा व्यतिरेकका—ज्ञान होता है उससे प्रसिद्ध होनेवाले सामान्य और विशेषकी उसी तरह पूर्णता है जिस तरह कि ज्ञान-लक्षण-प्रमाण स्व-पर-प्रकाशक रूपमें पूर्ण है। सामान्यके विना विशेष और विशेषके विना सामान्य अपूर्ण है अथवा यों कहिये कि बनता ही नहीं (६३)। वाच्यभूत विशेष्यका—सामान्य अथवा विशेषका—वह वचन जिससे विशेष्यको नियमित किया जाता है 'विशेषण' कहलाता है और जिसे नियमित किया जाता है वह 'विशेष्य' है। विशेषण और विशेष्य दोनोंके सामान्यरूपताका जो प्रतिप्रसंग आता है वह स्पादादमतमे नहीं बनता; क्योंकि विवक्षित विशेषण-विशेष्यसे अन्य अविवक्षित विशेषण-विशेष्यका 'स्यात्' शब्दसे परिहार हो जाता है जिसकी उक्त मतमें वर्दन प्रतिष्ठा रहती है (६४)। जो नय स्यात्पद-रूप सत्यसे विहित है वे रसोपविद्ध लोह-धातुओंकी तरह अभिप्रेत फलको फलते हैं—यथास्थित बस्तुतत्त्वके प्ररूपणमें समर्थ होकर सन्मानंपर ले जाते हैं (६५)।

(१४) मोह पिशाच, जिसका शरीर अनन्त दोयोका आधार है और जो चिरकालसे आत्माके साथ सम्बद्ध होकर उसपर अपना आतङ्क जमाए हुए है, तत्त्वश्रद्धामें प्रसन्नता आरण करनेसे जीता जाता है (६६)। कथाय पीडनशील शत्रु हैं, उनका नाम निःशेष करनेसे—आत्माके साथ उनका सम्बन्ध पूर्णतः विच्छेद कर देनेसे—मनुष्य अशेषवित् (सर्वज्ञ) होता है। कामदेव विशेष रूपसे शोषक-संतापक एक रोग है, जिसे समाधिरूप शोषणके मुण्डोंसे त्रिलीन किया जाता है (६७), तृष्णा नदी परिश्रम-जलसे भरी है और उसमें भयरूप तरंग-मालाएं उठती हैं। वह नदी अपरिश्रहरूप श्रीधरकालीन सूर्यकी किरणोंसे

'सुखाई जाती है—परिश्रहके संघोगसे वह उत्तरोत्तर बढ़ा करती है (६८)।

(१५) तपश्चरणरूप अभिनवोंसे कर्मचन जलाया जाता है और वाश्वत सुख प्राप्त किया जाता है (७१)।

(१६) दयासूर्ति बननेपर पापकी शान्ति होती है ७६; समाधिचक्रसे दुर्जय भोहचक्र—भोहनीय कर्मका मूलोत्तर-प्रकृति-प्रपञ्च—जीता जाता है ७७; कर्म-परतंत्र न रहकर आत्मतन्त्र बननेपर आहंत्य-लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ७८; व्यानोन्मुख होनेपर कृतान्व(कर्म)-चक्र जीता जाता है ७९; अपने राग-द्वेष-काम-कोषादि दोष-विकार ही आत्मामें अशान्तिके कारण हैं, जो अपने दोषोंको शान्त कर आत्मामें शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेवाला होता है वही शरणागतोंके लिये शान्तिका विधाता होता है और इसलिये जिसके आत्मामें स्वयं शान्ति नहीं वह शरणागतके लिये शान्तिका विधाता भी नहीं हो सकता ८०।

(१७) जिनदेव कुन्त्यादि सत्र प्राणियोंपर दयाके अनन्त विस्तारको लिये हुए होते हैं और उनका धर्मचक्र ज्वर-जरा-मरणकी उपशान्तिके लिए प्रबतित होता है (८१)। तुष्णा (विषयाकांक्षा) रूप अभिन-ज्वालाएं स्वभावसे ही संतुष्टिपूर्ति करती हैं। इनकी शान्ति अभिलेखित इन्द्रिय-विषयोंकी सम्पत्तिसे—प्रदुर धरिमाणमें सम्प्राप्तिसे—नहीं होती, उलटी वृद्धि ही होती है, ऐसी ही वस्तु-स्थिति है। सेवन किये हुए इन्द्रिय-विषय (मात्र कुछ समयके लिये) शरीरके ऊंतापको भिटानेमें निमित्तमात्र है—तुष्णा रूप अग्निज्वालाओंको शान्त करनेमें समर्थ नहीं होते (८२)। बाह्य दुर्दं तप आध्यात्मिक (अन्तरंग) तपकी वृद्धि-के लिये विषेष है। चार व्यानोंमेंसे आदिके दो कलुषित व्यान (आर्त-रौद्र) हेष (ताज्य) हैं और उत्तरवर्ती दो सातिशय व्यान (चम्प, शुक्ल) उपादेय हैं (८३)। कमौकी (आठ मूल प्रकृतियोंमेंसे) चार मूल प्रकृतियाँ (ज्ञानावरण, वर्णनावरण, भोहनीय अन्तराय) कटुक (चातिया) हैं और वे सम्यग्दर्शनादि-रूप सातिशय रत्नशयानिसे भस्म की जाती हैं, उनके भस्म होनेपर ही आत्मा आत्मवीर्य—शक्तिसम्पद अथवा विकसित—होता है और सकल-वेद-विषिका विनेता बनता है (८४)।

(१८) पुण्यसूर्ति मुनीन्द्र (जिनेन्द्र) का नाम-कीर्तन भी पवित्र करता है (८५)। मुमुक्षु होनेपर अक्षयतंत्रिका साता विनव और साम्राज्य भी जीर्ण तुलुके

समान ति सार कान पड़ता है (८८)। कथाय-भटोंकी सेनासे युक्त जो बोहृष्ट शत्रु है वह पापात्मक है, उसे सम्यदशंन, सम्यज्ञान और उपेक्षा (परमौदासीन्य-लक्षण सम्यक्चारित्र) रूप भस्त्र-शस्त्रोंसे जीता जाता है (६०)। जो शीर द्वीर भोहृष्टपर विजय प्राप्त किये होते हैं उनके सामने निलोकविजयी दुर्दंर काम-देव भी हतप्रभ हो जाता है (६१)। तुष्णा-नदी इस लोक तथा परलोकमें दुःखों की योनि है, उसे निर्दोषज्ञान-नीकासे पार किया जाता है (६२)। रोग और पुनर्जन्म जिसके साथी हैं वह प्रन्तक (यम) मनुष्योंको रुलानेवाला है, परन्तु भोहृष्टविजयीके सन्मुख उसकी एक भी नहीं चलती (६३)। आभूषणों, वेषों तथा आयुधोंका त्यागी और ज्ञान, कथायेन्द्रिय-जय तथा दयाकी उत्कृष्टताको लिये हुए जो रूप है वह दोषोंके विनिग्रहका सूचक है (६४)। ध्यान-तेजसे आध्यात्मिक (ज्ञानावरणादिरूप भीतरी) प्रन्तकार दूर होता है। (६५)। सर्वज्ञत्यानिये उत्पन्न हुआ महिमोदय सभी विवेकी प्राणियोंको नतमस्तक करता है (६६)। सबज्ञकी वाणी सबभावाश्रीम परिणाम होनेके स्वभावको लिये हुए होती है और अमृतके समान प्राणियोंको सन्तुष्ट करती है (६७)।

प्रनकान्तहृष्टि सती है—सत्स्वरूप सच्ची है—और उसके विपरीत एकान्त-हृष्टि शून्यरूप असती है—सच्ची नहीं है। अत जो कथन अनेकान्तहृष्टिसे रहित है वह सब मिथ्या कथन है, क्योंकि वह अपना ही—सत् या असत् आदिरूप एकान्तका ही—यातक है—अनेकान्तके विना एकान्तकी स्वरूप प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती (६८)।

जो आत्मवाती एकान्तवादी अपने स्वचाति-दोषको दूर करनेमें असमर्थ है, स्पादादसे द्रुप रखते हैं और यथावत् वस्तु-स्वरूपसे अनभिज्ञ है उन्हींने तस्वरी अवकृष्टाको आविष्ट किया है—वस्तुतस्व सर्वथा अवकृष्ट है ऐसा प्रतिपादन किया है (१००)।

सत् असत् एक, अनेक, निश्च, अनिश्च, वक्तव्य और अवकृष्टरूपमें जो वयपक्ष है वे सर्वथा रूपमें तो अतिदूषित है—मिथ्या नय है—स्वेष्टमें बाधक है—और स्यात् रूपमें पुष्टिको प्रति स होते हैं—सम्यक्नय है अवर्त् स्वकीय अर्थात् निर्वाचकासे प्रतिपादन करनेमें समर्थ है (१०१)।

‘स्यस्त् यद्य शर्वथारूपसे प्रतिपादनके नियमकम् इथायी शीतु यथाहृष्टको—

जिस प्रकार सत् असत् धारि रूपमें वस्तु प्रमाणा-प्रतिपत्ति है उसको—अपेक्षामें रखनेवाला है। यह शब्द एकान्तवादियोंके व्यावरमें नहीं है। एकान्तवादी अपने बैरी आप हैं (१०२)।

स्थाद्वादरूप आहंत-मतमें सम्यक् एकान्त ही नहीं किन्तु अनेकान्त भी प्रमाण और नय-साधनों (हिटियों) को लिये हुए अनेकान्तस्वरूप है, प्रमाणाएकी हिटिसे अनेकान्तरूप और विवित-नयकी हिटिसे अनेकान्तमें एकान्तरूप—प्रतिनियत-धर्मरूप—सिद्ध होता है (१०३)।

(१४) अहंतप्रतिपादित धर्मतीर्थं संसार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोंके लिये पार उत्तरनेका प्रधान मार्ग है (१०६)। शुक्लध्यानरूप परमतपोग्नि (परम्परा-से चले आनेवाले) अनन्त-दुरितरूप कर्माधिको भस्म करनेके लिए समर्थ है (११०)।

(२८) 'चर और अचर जगत् प्रत्येक क्षणमें छौब्य उत्पाद और व्यय-लक्षणको लिए हुए है' यह वचन जिनेन्द्रकी सर्वज्ञताका चिह्न है (११४)। आठों पापमलरूप कलशोंको (जिन्होंने जीवात्माके वास्तविक स्वरूपको आच्छादित कर रखा है) अनुपम योगबलसे—परमशुक्लध्यानग्निके तेजसे—भस्म किया जाता है और ऐसा करके ही अभश-सौर्यको—संसारमें न पाए जानेवाले अतीन्द्रिय मोक्ष-सुखको—प्राप्त किया जाता है (११५)।

(२१) सांखु स्तोतकी स्तुति कुशल-परिणामकी कारण होती है और उसके द्वारा श्रेयोमार्ग सुनभ होता है (११६)। परमात्म-स्वरूप अथवा शुद्धात्मस्वरूपमें वित्तको एकाग्र करनेसे जन्म निगड़को समूल नष्ट किया जाता है (११७)।

वस्तुतस्य बहुत नयोंकी विवक्षाके वशसे विषेष, प्रतिषेध्य, उभय, अनुभय तथा पिश्चभंग—विषेयात्मुभय, प्रतिषेध्यात्मुभय और उभयात्मुभय—रूप है, उसके अपरिमित विशेषों (धर्मों) मेसे प्रत्येक विशेष सदा एक दूसरेकी अपेक्षाको लिए रहना है और सत्त्वभृत्यके नियमको अपना विषय किये रहता है (११८)। अहिंसा परमशहद है। जिस आश्रमविधिमें अखुमात्र भी आरम्भ न हो वहीं अहिंसाकी पूरणप्रतिष्ठा होती है—अन्यत नहीं। अहिंसा परमशहदकी सिद्धिके लिए उभय प्रकारके परिप्रहका त्याग आवश्यक है। जो स्वाभाविक वेषको क्षेप-कर विकृतवेश देता उपरिमें रुत होता है उसके परिप्रहका तद्द व्याप्त नहीं बनता

(११६)। मनुष्यके शरीरका इन्द्रियोंकी शान्तताको लिये हुए आभूषण, वेष तथा (वस्त्र प्रावरणादिरूप) व्यवधानसे रहित अपने प्राकृतिक (दिगम्बर) रूपमें होना और कलतः काम-क्रोषका पासमें न फटकना निर्मोही होनेका सूचक है और जो निर्मोही होता है वही ज्ञान्ति-सुखका स्थान होता है (१२०)।

(२२) परमयोगरूप सुकलध्यानाभिन्से कल्पयेन्द्रनको—ज्ञानावरणादिरूप कर्मकाढ्टको—भस्म किया जाता है, उसके भस्म होते ही ज्ञानकी विपुलकिरणों प्रकट होती है, जिनसे सकल जगतको प्रतिबुद्ध किया जाता है (१२१)। और ऐसा करके ही अनवद्य (निर्दोष) विनय और दमरूप तीर्थका नायकत्व प्राप्त होता है (१२३)। केवलज्ञान-द्वारा अखिल विश्वको युगपत् करतलाभलकबृत् ज्ञानमें बाह्यकरण चक्षुरादिक इन्द्रियाँ और अन्तःकरण भन ये अलग-अलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते हैं और न किसी प्रकार-का उपकार ही सम्भवन करते हैं (१३०)।

(२३) जो योगनिष्ठ महामना होते हैं वे घोर उपद्रव आनेपर भी पादवं-जिनके समान अपने उस योगमें चलायमान नहीं होते (१३१)। अपने योग-(शुक्लध्यान) रूप लड़गकी तीकणधारसे दुर्जय मोहशत्रुका धात करके वह आहंत्यपद प्राप्त किया जाता है जो अद्भुत है और त्रिलोककी पूजातिशयका स्थान है (१३३)। जो समप्रधी (सर्वज्ञ) सच्ची विद्याओं तथा तपस्याओंका प्रणायक और मिद्यादर्शनादिरूप कुमारोंकी हस्तियोंसे उत्पन्न होनेवाले विभ्रमोंका विनाशक होता है वह सदा बन्दनीय होता है (१३४)।

(२४) युण-समुत्थ-कीर्ति योगाका कारण होती है (१३६)। जिनेन्द्र-गुणोंमें जो अनुशासन प्राप्त करते हैं—उन्हें अपने आत्मामें विकसित करनेके लिये आत्मीय दोषोंको दूर करनेका पूर्ण प्रयत्न करते हैं—वे विगत-भव होते हैं—संसार परिभ्रमणसे सदाके लिए छूट जाते हैं। दोष चाकुककी तरह पीड़न-शील है (१३७)।

‘स्यात्’ शब्द-पुरस्सर कथनको लिए हुए जो ‘स्याद्वाद’ है—अनेकान्तात्मक प्रवचन है—वह निर्दोष है; क्योंकि हृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (आगमादिक) प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध नहीं है। ‘स्यात्’ शब्द-यूक्तक ‘कथनसे रहित जो सर्वथा एकान्तवाद है वह निर्दोष प्रवचन नहीं है; क्योंकि हृष्ट और इष्ट

दोनोंके विरोधको लिए हुआ है—प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधिन ही नहीं किन्तु अपन इष्ट अभिमन्त्रको भी बाधा पहुँचाता है और उसे किसी तरह भी सिद्ध एवं प्रभासित करनमें समय नहीं होता (१३८)।

बीरजिन द्वाका स्पादादरूप शासन (प्रबन्धन तीय) श्रीसम्पन्न है—हेयोपा देय तत्त्व परिज्ञान लक्षण लक्षणीसे विभूषित है—निष्कपट यम (अहिंसादि महाभूतोंके अनुष्ठान) और दम (इद्विय जय तथा कषाय निग्रह) की शिक्षाको लिए हुए है नयोंके भज्जरूप अथवा भक्तिरूप अलङ्घारोंसे अलकृत है यथाथवादिता एवं परहिन प्रतिपादनत दिक बहुगुण सम्पत्तिसे युक्त है पूरण है और सब औरसे भद्रकृप है—कल्याणकारी है (१४१, १४३) ।

तत्त्वज्ञान विषयक ज्ञानयोगकी इन सब बातोंके अलावा २४ स्तवनोम तीक्ष्णकर मह गोके गणोंका जो परिचय पाया जाता है और जिसे प्राय अहंद्वि शशरण पदोंम समाविष्ट किया गया है वह सब भी ज्ञानयोगमें सम्बन्ध रखता है । उन अहद्युगणोंका तात्त्विक परिचय प्राप्त करना उ हे आत्मगुण समझना और अपन आ माम उनके विकासको शक्य जानना, वह सब ज्ञानाभ्यास भी ज्ञानयोगमें भी न नहीं है । भक्तियोग द्वारा उन गुणोंम अनुराग बढ़ाया जाना ह और उनकी सम्प्राप्तिकी इच्छा एवं इच्छाको अपन आ माम एक पूरा आनंद को सामन रखकर जागृत और पुष्ट किया जाता है । यही दोनोंम भद्र है । ज्ञान और इच्छाके बाद जब प्रयत्न चलता है और तदनुकूल आचरणादिके द्वारा उन गुणोंको आ म म विकसित किया जाता है तो वह कमयोगका विषय बन जाता है ।

इस प्रकार ग्रंयगत चौबीस स्तवनोम अलग रूपसे जो ज्ञानयोग विषयक तत्त्वज्ञान भरा हुआ है वह सब अहद्युगणोंकी तरह बीरजिन द्वाका तत्त्वज्ञान है एसा समझना चाहिये । बीरवाणीम ही वह प्रकट हुआ है और बीरका ही प्रबन्धन तीय इस समय प्रवर्तित है । इससे बीर शासन और बीरके तत्त्वज्ञानकी किननी ही सार बातोंका परिचय सामन आजाता है जिनसे उनकी महत्ताको भले प्रकार अंका जा सकता है साथ ही आत्मविकासकी तथ्यारीके लिए एक सम्पुष्टित प्रावार भी मिल जाता है ।

वस्तुत ज्ञानयोग भक्तियोग और कर्मयोग दोनोंमें सहायक है और सामान्य-

विशेषादिकी हृषिसे कभी उनका साधक होता है तो कभी उनके द्वारा साध्य भी बन जाता है। जैसे सामान्यज्ञानसे मत्कियोगादिक यदि प्रारम्भ होते हैं तो विशेषज्ञानका उनके द्वारा उपार्जन भी किया जाता है। ऐसी ही स्थिति दूसरे योगोंकी है, और इसीसे एक को दूसरे योगके साथ सम्बन्धित बतलाया गया है—मुहूर्य-गौणकी अवस्थासे ही उनका अवहार चलता है। एक योग जिस समय मुख्य होता है उस समय दूसरे योग गौण होते हैं—उन्हें सर्वथा छोड़ा नहीं जाता। तीनोंके परस्पर सहयोगसे ही आत्माका पूर्ण विकास संधता अथवा सिद्ध होता है।

कर्म-योग—

मन-बचन-काय-सम्बन्धी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से आत्म-विकास संधता है उसके लिये तदनुरूप जो भी पुरुषार्थ किया जाना है उसे 'कर्मयोग' कहते हैं। और इसलिये कर्मयोग दो प्रकारका है—एक क्रियाकी निवृत्तिरूप पुरुषार्थको लिये हुए और दूसरा क्रियाकी प्रवृत्तिरूप पुरुषार्थको लिये हुए। निवृत्ति-प्रधान कर्मयोगमें मन-बचन-कायमेंसे किसीकी भी क्रियाका, तीनोंकी क्रियाका अथवा अशुभक्रियाका निरोध होता है। और प्रवृत्ति-प्रधान कर्मयोगमें शुभकर्मोंमें क्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति होती है—अशुभमें नहीं; क्योंकि अशुभकर्म विकासमें साधक न होकर बाधक होते हैं। राग-द्वेषादिसे रहित शुद्धभावरूप प्रवृत्ति भी इसीके अन्तर्गत है। सच पूछिये तो प्रवृत्ति बिना निवृत्तिके और निवृत्ति बिना प्रवृत्तिके होती ही नहीं—एकका दूसरेके साथ बनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों मुहूर्य-गौणकी वृद्धिवालों निये हुए हैं। निवृत्ति रोगमें प्रवृत्तिकी और प्रवृत्तियोगमें निवृत्तिकी गौणता है। सर्वथा प्रवृत्ति या सर्वथा निवृत्तिका एकान्त नहीं बनता। और इसलिये ज्ञानयोगमें जो बातें किसी-न-किसी रूपसे विवेय ठहराई गई हैं, उचित तथा आवश्यक बतलाई गई हैं अथवा जिनका किसी भी तीर्थकुरके द्वारा स्वविकासके लिये किया जाना विद्युत हुआ है उन सबका विचान एवं अनुष्ठान कर्मयोगमें गमित है। इसी तरह जिन बातोंको दोषादिकके रूपमें हेय बतलाया गया है, अविवेय तथा प्रकरणीय सूचित किया गया है अथवा किसी भी तीर्थ-कुरके द्वारा जिनका छोड़ना-उजाना या उनसे स्वरक्ष लारें करना आदि कहा

गया है उन सबका त्याग एवं परिहार भी कर्मयोगमें दाखिल(श मिल) है। और इसलिये कर्मयोग-सम्बन्धी उन सब बातोंको पूर्णोलिलिखित ज्ञानयोगसे ही ज्ञान लेना और समझ लेना चाहिये। उदाहरणके तौरपर प्रथम जिन-स्तब्दनके ज्ञान-योगमें ममत्वमें विरक्त होना, वधु वित्तादि परिप्रहका त्याग करके जिन-दीक्षा लेना, उपसर्ग-परीषहोका समभावसे सहना और सदृक्षत-नियमोंसे चलायमान न होना-जैसी जिन बातोंको पूर्णविकासके लिये आवश्यक बतलाया गया है उनका और उनकी इस आवश्यकताका परिज्ञान ज्ञानयोगसे सम्बन्ध रखता है और उनपर अमल करना तथा उन्हे अपने जीवनमें उतारना यह कर्मयोगका विषय है। साथ ही, 'अपने दोषोंके मूलकारणों, समाधितेजसे भस्म किया जाता है' यह जो विधिवाक्य दिया गया है इसके मर्मको समझना, इसमें उल्हिनखिल दाषो, उनके मूलकारणों, समाधितेज और उसकी प्रक्रियाओं मालूम करके अनुभवमें लाना, यह सब ज्ञानयोगका विषय है और उन दोषों तथा उनके कारणोंको उस प्रकारसे भरम करनेका जो प्रयत्न, अमल अथवा अनुष्ठान है वह सब कर्मयोग है। इसी तरह अन्य स्तब्दनोंके ज्ञानयोगमेंसे भी कर्मयोग-सम्बन्धी बातोंका विवेचण करके उन्हे अलगसे समझ लेना चाहिये, और यह बहुत कुछ सुख-साध्य है। इसीसे उन्हे फिरसे यहाँ देकर निबन्धको विरतार देनेकी ज़रूरत नहीं समझी गई। हा, स्तब्दन कर्मको छोड़कर, कर्मयोगका उसके आदि अन्त और मध्यकी दृष्टिसे एक सक्षित सार यहाँ दे दना उचित ज्ञान पढ़ता है और वह पाठकोके लिए विशेष हितकर तथा हचिकर होगा। अत सारे अन्यके स्थलोंकी यथावश्यक सूचना ज्ञे कटके भीतर पक्षाकोमे रहेगी।

कर्मयोगका आद्य और अन्त

कर्मयोगका चरम लक्ष्य है आत्माका पूर्णत, विकास। आत्माके इस पूर्ण विकासको ग्रन्थवें—ब्रह्मपदग्राहि (४), ब्रह्मनिष्ठावस्था, आत्मलक्ष्मीकी लक्ष्मि, जिनओ तथा आर्हन्त्यनुकूलीकी प्राप्ति (१०, ७८), आर्हन्त्य-पदावासि (१३३), आत्मनित्क स्वास्थ्य=स्वात्मस्विर्यत (३१), अप्सर-विशुद्धि (४८), कैवल्यो-पलिष्ठि (५५), मुक्ति, विमुक्ति (५५), किञ्चित् (५०, ६८), मोक्ष (६०, ७ ३

११७), आयस (११६), अयस् (५१, ७५), निःअयस (५०), निरंजना शान्ति (१२), उच्चशिवताति (१५), शाश्वतशमाविति (७१), भवकलेश-भयोपशान्ति (८०) और भवोपशान्ति तथा अभव-सौख्य-संप्राप्ति (११५) जैसे पदबाक्यों अथवा नामोंके द्वारा उल्लिखित किया है। इनमेंसे कुछ नाम तो शुद्धस्वरूपमें स्थितिपरक अथवा प्रवृत्तिपरक हैं, कुछ पररूपसे निवृत्तिके द्योतक हैं और कुछ उस विकासावस्था में होनेवाले परम शान्ति-सुखके सूखक हैं। 'जिनश्री' पद उपमालंकारकी हाँग्रिसे 'आत्मलक्ष्मी' का ही वाचक है; क्योंकि घातिकम्बसे रहित शुद्धात्माको अथवा आत्मलक्ष्मीके सातिशय विकासको प्राप्त आत्माको ही 'जिन' कहते हैं। 'जिनश्री' का ही दूसरा नाम 'निजश्री' है। ए 'जिन' और आहंतपद समानार्थक होनेसे आहंत्यलक्ष्मीपद भी आत्मलक्ष्मीकाही वाचक है। इसी स्वात्मोपलब्धिको पूज्यपाद आचार्यने, सिद्धभक्तिमें, 'सिद्धि' के नामसे उल्लेखित किया है †।

अपने शुद्धस्वरूपमें स्थितिरूप यह आत्माका विकास ही मनुष्योंका स्वार्थ है—प्रसली स्वप्रयोजन है—क्षणभगुरभोग—इन्द्रिय-विषयोका सेवन—उनका स्वार्थ नहीं है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रगट है—

स्वास्थ्यं यदात्यान्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा
तृष्णोऽनुषंगान्म च तापशान्तिरितीदमास्त्वद्वगवान्सुपार्श्वः ॥३१॥

और इसलिये इन्द्रिय-विषयोंको भोगनेके लिये—उनसे तुति प्राप्त करनेके लिए—जो भी पुरुषार्थ किया जाता है वह इस ग्रन्थके कर्मयोगका विषय नहीं है। उक्त वाक्यमें ही इन भोगोंको उत्तरोत्तर तृष्णा ही—भोगाकांक्षाकी—वृद्धि-के कारण बनलाया है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक तापकी शान्ति होने नहीं पाती। अन्यथ भी ग्रन्थमें इन्हें तृष्णाकी अभिवृद्धि पर्व दुःख-संतापके कारण बनलाया है तथा यह भी बतलाया है कि इन विषयोंमें आसक्त होनेसे मनुष्योंकी सुखपूर्वक स्थिति नहीं बनती और न देह अथवा देही (आत्मा) का

॥ स्तुतिविद्वाके पाइर्वज्ञन-स्तवनमें 'पुरुनिजश्रियं' पदके द्वारा इसी नामका उल्लेख किया गया है।

† 'सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः प्रमुणाणुगरुणोच्छादि-दोषापहरात्।'

कोई उपकार ही बनता है (१३, १८, २०, ३१, ८२)। मनुष्य प्रायः विषय-
सुखकी तृष्णाके बश हुए दिन भर अप्से पीड़ित रहते हैं और रातको सो जाते
हैं—उन्हें आत्महितकी कोई सुधि ही नहीं रहती (४८)। उनका मन विषय-
सुखकी अभिलाषाहृष्ट अग्निके दाहमे मूर्छित-जैसा हो जाता है (५७)। इस
तरह इन्द्रिय-विषयको हेतु बतलाकर उनमें आसक्षिका निषेध किया है, जिससे
स्वप्न है कि वे उस कर्मयोगके विषय ही नहीं जिसका चरम लक्ष्य है आत्माका
पूरण विकास।

पूर्णत आत्मविकासके अभिव्यञ्जक जो नाम ऊपर दिये हैं उनमें मुक्ति
और मात्र ये दो नाम अधिक लोकप्रसिद्ध हैं और दोनों बन्धनसे छूटनेके एक ही
आशयको लिये हुए हैं। मुक्ति अथवा मोक्षका जो इच्छुक है उसे 'मुमुक्षु' कहते
हैं। मुमुक्षु होनेसे कर्मयोगका प्रारम्भ होता है—यही कर्मयोगकी आदि अथवा
पहली सीढ़ी है। मुमुक्षु बननेसे पहले उस मोक्षका जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा
हृदयमें जागृत हुई है, उस बन्धनका जिससे छूटनेका नाम मोक्ष है, उस वस्तु या
वस्तु-मूर्हका जिससे बन्धनके उपायोंका और बन्धनसे छूटनेमें जो
लाभ है उसका अर्थात् मोक्षकनका सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है—उस ज्ञानके
बिना कोई मुमुक्षु बन ही नहीं सकता। यह ज्ञान जितना यथार्थ विस्तृत एवं
निर्मल होगा अथवा होता जायगा और उसके अनुसार बन्धनसे छूटनेके समी-
चीन उपायोंको जितना अधिक तत्परता और सावधानीके साथ काममें लाया
जायगा उतना ही अधिक कर्मयोग सफल होगा, इसमें विवादके लिये कोई स्थान
नहीं है। बन्ध, मोक्ष तथा दोनोंके कारण, बद्ध, मुक्त और मुक्तिका फल इन
सब बातोंका कथन यत्परि अनेक मतोंमें पाया जाता है परन्तु इनकी समुचित
व्यवधा स्याहादी अहंतोके मतमें ही ठीक बैठती है, जो अनेकान्तहृष्टिको लिये
होता है। सर्वथा एकान्तहृष्टिको लिये हुए नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्वादि
एकान्तपक्षोंके प्रतिपादक जो भी मत हैं, उनमेंसे किसीमें भी इनकी समुचित व्य-
वस्था नहीं बनती। इसी बातको अन्यकी निम्न कारिकामें व्यक्त किया गया है—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु,

बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः।

स्थाद्वादिनो नाथ ! तवैव युक्त
नैकान्तर्षेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥१४॥

और यह बात बिल्कुल ठीक है। इसको विशेषरूपमें सुमति-जिन आदिके स्तबनमें पाये जानेवाले तत्त्वज्ञानसे, जिसे ऊपर ज्ञानयोगमें उद्घृत किया गया है, और स्वामी समन्तभद्रके देवागम तथा युक्त्यनुशासन-जैसे ग्रन्थोंके अध्ययनमें और दूसरे भी जैनाग्रन्थोंके स्वाध्यायसे भले प्रकार यनुभूत किया जा सकता है। अस्तु ।

प्रस्तुत ग्रन्थमें बन्धन को 'अचेतनकृत' (१७) बतलाया है और उस अचेतनको जिससे चेतन (जीव) बँधा है 'कर्म' (७१, ८४) कहा है, 'कृनान्त' (७६) नाम भी दिया है और दुरित (१०५, ११०), दुरिताभ्यन्त (५७) दुरितमल (१५), कलमण (१२१), तथा 'दोषमूल' (४) जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया है। वह कर्म ग्रन्थवा दुरितमल आठ प्रकारका (१५) है— आठ उसकी मूल प्रकृतियाँ हैं, जिनके नाम हैं—१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ मोहनीय (मोह), ४ अन्तराय, ५ वेदनीय, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ आपु । इनमें-से प्रथम चार प्रकृतियाँ कटुक (८४) हैं—बड़ी ही कड़ी हैं, आत्माके स्वरूपकी धात करनेवाली हैं और इसलिये उन्हे 'धातिया' कहा जाता है, शेष चार प्रकृतियाँ 'अधातिया' कहलाती हैं। इन आठों जड़ कर्ममलोंके अनादि-सम्बन्धसे यह जीवात्मा मलिन, अपवित्र, कलंकित, विकृत और स्वभावसे च्युत होकर विभावपरिणतिरूप परिणाम रहा है; अशान, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभादिक असंरूप-अनन्त दोषोंका कीड़ास्थल बना हुआ है, जो तरह तरह के नाच नचा रहे हैं; और इन दोषोंके नियमके ताण्डव एवं उपद्रवसे सदा अशान्त, उद्विग्न अथवा वेचन बना रहता है और उसे कभी सच्ची सुख-शान्ति नहीं मिल पाती। इन दोषोंकी उत्पत्तिका प्रधान कारण उक्त कर्ममल है, और इसीसे उसे 'दोषमूल' कहा गया है। वह पुरुणलद्रव्य होनेसे 'इव्यकर्म' भी कहा जाता है और उसके नियमित्तसे होनेवाले दोषोंको 'भावकर्म' कहते हैं। इन इव्य-भाव-रूप उभय प्रकारके कर्मोंका सम्बन्ध जब आत्मासे नहीं रहता—उसका पूर्णतः विच्छेद हो जाता है—तभी आत्माको

असली सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है और उसके प्राप्तः सभी गुण विकसित हो उठते हैं। यह सुख-शान्ति आत्मामें बाहरसे नहीं आती और न गुणोंका कोई प्रवेश हीं बाहरसे होता है, आत्माकी यह सब निजी सम्पत्ति है जो कर्ममलके कारण आच्छादित और विखुतसी रहती है और उस कर्ममलके दूर होते ही स्वतः अपने असली रूपमें विकासको प्राप्त हो जाती है। अतः इस कर्ममलको दूर करना अथवा जना कर भस्म करदेना ही कर्मयोगका परम-पुरुषार्थ है। वह परमपुरुषार्थ योगबलका सातिशय प्रयोग है, जिसे 'निरुपम-योगबल' लिखा है और जिसके उस प्रयोगसे समूचे कर्ममलको भस्म करके उस अभव-सौख्यको प्राप्त करनेकी घोषणा भी गई है जो सकारमें नहीं पाया जाता (११५)। इस योगके दूसरे प्रसिद्ध नाम प्रशस्त (सातिशय) ध्यान (८२), शुक्लध्यान (११०) और समाधि (४,७७) हैं। कर्म-दहन-गुण-सम्पन्न होनेसे इस योग-ध्यान अथवा समाधिको, जो कि एक प्रकारका तप है, अग्नि (तेज) कहा गया है^८। इसी अग्निमें उक्त पुरुषार्थ-द्वारा कर्ममलको जलाया जाता है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाच्योंसे प्रकट है—

स्व-दोष-मूलं स्व-समाधि-तेजसा
निनाय यो निर्दयभस्मसाक्रियाम् (४)।
कर्म-कहमदत्तपोऽग्निभिः (६१)।
ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम् (७६)।
यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्नि�-
ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षीत् (११०)।

^८ कर्म-छेदनकी शक्तिसे भी सम्पन्न होनेके कारण इन योगादिको कही कही खड़ग तथा चक्रकी भी उपमा दी गई है। यथा:—

“समाधि-चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय-मोह-चक्रम् (७७)।”

“स्व-योग-निस्त्रिश-निशात-धारया निशात्य यो दुर्जय-मोह-विद्विषम् (१३३)।”

एक स्थान पर समाधिको कर्मरोग-निमूलनके लिये ‘मंषज्य’ (अमोव-शीषधि) की भी उपमा दी गई है—

‘विशोवसुं मन्मव-दुर्मदाऽऽमयं समाधि-मंषज्य-गुणैर्व्यतीनयत् (६७)’

परमयोग-दहन-हुत-कल्मषेन्धनः (१२१) ।

यह योगाग्नि क्या वस्तु है ? इसका उत्तर ग्रन्थके निम्न वाक्यपरसे ही यह फलित होता है कि ‘योग वह सातिशय अग्नि है जो रत्नत्रयकी एकाग्रता-के योगसे सम्पन्न होती है और जिसमें सबसे पहले कर्मोंकी कटुक प्रकृतियोंकी आहूति दी जाती है’ —

हुत्वा स्व-कर्म-कुटुंभ-प्रकृतीश्चतस्रो
रत्नत्रयातिशय-तेजसि-जात-वीर्यः । (८४)

‘रत्नत्रय’ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको कहते हैं; जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके ‘रत्नकरण्ड’ ग्रन्थसे प्रकट है। इस ग्रन्थमें भी उसके तीनों अंगोंका उल्लेख है और वह हृष्टि, संविद् एवं उपेक्षा-जैसे शब्दोंके द्वारा किया गया है (६०) †, जिनका आग्रह सम्यग्दर्शनादिकसे ही है। इन तीनोंकी एकाग्रता जब आत्माकी ओर होती है—प्रात्माका ही दर्शन, आत्माका ही ज्ञान, आत्मामें ही रमण होने लगता है—और परमे आसक्ति छूटकर उपेक्षाभाव आजाता है तब यह अग्नि सातिशयरूपमें प्रज्वलित हो उठती है और कर्म-प्रकृतियोंको सविशेष रूपसे भस्म करने लगती है। यह भस्म-क्रिया इन विरत्न-किरणोंकी एकाग्रतासे उसी प्रकार सम्पन्न होती है जिस प्रकार कि सूर्यरशिम-योंको शीशे या कौच-विशेषमें एकाग्र कर शरीरके किसी अंग अथवा वस्त्रादिक पर ढाला जाता है तो उनसे वह अङ्गादिक जलने लगता है। सचमुच एकाग्रता-में बड़ी शक्ति है। इधर उधर बिलरी हुई तथा भिन्नाभिन्न मुख-शक्तियों वह काम नहीं देती जो कि एकञ्च और एकाग्र (एकमुख) होकर देती है। चिन्ताके एकाग्रनिरोधका नाम ही ध्यान तथा समाधि है। आत्म-विषयमें यह चिन्ता जितनी एकाग्र होती जाती है सिद्धि अथवा स्वात्मोपलब्धि भी उतनी ही समीप आती जाती है। जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एवं प्रज्वलित

† ‘हृष्टि-संविदुपेक्षाऽस्त्रैस्त्वया धीर पराजितः’ इस वाक्यके द्वारा इन्हें ‘अ.त्र’ भी लिखा है, जो आमेय अस्त्र हो सकते हैं अथवा कर्मछेदनकी शक्तिसे सम्पन्न होने के कारण लड़ादि-जैसे आयुष भी हो सकते हैं।

योगानलमें कर्मोंकी चारों मूल कटुक प्रकृतियां अपनी उत्तर और उत्तरोत्तर शाक्षा-प्रकृतियोंके साथ भस्म हो जाती हैं अथवा यों कहिए कि सारा धाति-कर्ममल जलकर आत्मासे अलग हो जाता है उस समय आत्मा जातवीर्य (परमशक्ति-सम्पन्न) होता है—उसकी अनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य नामकी चारों शक्ति गौणं: विकसित हो जाती हैं और सबको देखने-जाननेके साथ साथ पूर्ण-सुख-शान्तिका अनुभव होने लगता है। ये शक्तियाँ ही आत्माकी श्री हैं, लक्ष्मी हैं, शोभा हैं और मह विकास उसी प्रकारका होता है जिस प्रकारका कि सुवर्ण-पापाणसे सुवर्णका होता है। पापाणस्तिथ सुवर्णं जिस तरह अग्नि-प्रयोगादिके योग्य साधनोंको पाकर कटू-कालिमादि पापाणमलसे अलग होता हुमा अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी तरह यह संसारी जीव उक्त कर्ममलके भस्म होकर पृथक् होजानेपर अपने शुद्धात्मस्वरूपमें परिणत हो जाता है । धातिकर्ममलके अभावके साथ प्रादुर्भूत होनेवाले इस विकासका नाम ही ‘आर्हत्यपद’ है, जो बड़ा ही अचिन्त्य है, अद्भुत है और त्रिलोककी पूजाके अतिशय (परमप्रकर्ष)-का स्थान है (१३३)। इसीको जिनपद, कैवल्यपद तथा ब्रह्मपदादि नामोंसे उल्लेखित किया जाता है।

ब्रह्मपद आत्माकी परमविशुद्ध अवस्थाके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थमें ‘अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं’ (११६) इस वाक्यके द्वारा अहिंसाको ‘परमब्रह्म’ बतलाया है और यह ठीक ही है; क्योंकि अहिंसा आत्मामें राग-द्वेष-काम-क्रोधादि दोषोंकी निवृत्ति अथवा अप्रादुर्भूतिको कहते हैं ॥ १ ॥ जब आत्मामें रागादि-दोषोंका समूलनाश

† मिद्दिः स्वात्मोपलभिः प्रगुण-गुणगणोच्छादि-दोषापहारात् ।

योग्योपादान-गुच्छ्या दृष्ट इह यथा हेमभावोपलभिः ॥१॥

—पूज्यपाद-सिद्ध भक्ति

॥ अप्रादुर्भावः सत्तु रागादीनां भवत्यहिसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिन्सेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥

—पुष्पार्चसिद्धुपाये, अमृतचन्द्रः ।

होकर उसकी विभाव-परिणति मिट जाती है और अपने शुद्धस्वरूपमें चर्या होने लगती है तभी उसमें अहिंसाकी पूण्यप्रतिष्ठा कही जाती है, और इसलिए शुद्धात्म-चर्यारूप अहिंसा ही परमब्रह्म है—किसी व्यक्ति-विशेषका नाम ब्रह्म या परमब्रह्म नहीं है । इसीसे जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वह आत्मलक्ष्मीकी सम्प्राप्तिके साथ साथ 'सम-मित्र-शत्रु' होता तथा 'कथाय-दोषोंसे रहित' होना है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

सत्राद्यनिष्ठः सम-मित्र-शत्रु-र्दिष्या-विनिर्वान्त-कथायदोषः ।

लब्धात्मलद्मीरजितोऽजितात्मा जिनश्रियं मे भगवान्वित्ताम् ॥

यहाँ 'ब्रह्मनिष्ठ' अजित भगवान्से 'जिनश्री' की जो प्रार्थना की गई है उसे स्पष्ट है कि 'ब्रह्म' और 'जिन' एक ही हैं, और इसलिये जो 'जिनश्री' है वही 'ब्रह्मश्री' है—दोनोंमें तात्त्विकहृषिसे कोई अन्तर नहीं है । यदि अन्तर होता तो ब्रह्मनिष्ठसे ब्रह्मश्रीकी प्रार्थना की जाती, न कि जिनश्रीकी । अन्यथा भी, वृषभनीवंच्छूरके स्तवन (४) में, जहाँ 'ब्रह्मपद' का उल्लेख है वहाँ उसे 'जिनपद' के आधिभ्रायसे सर्वथा भिन्न न समझना चाहिये । वहाँ अगले ही पद (५) में उन्हे स्पष्टतया 'जिन' रूपसे उल्लेखित भी किया है । दोनों पदोंमें थोड़ा-सा हृषिमेद है—'जिन' पद कमंके निषेधकी हृषिको लिए हुए हैं और 'ब्रह्म' पद स्वरूपमें अवस्थिति अथवा प्रवृत्तिकी हृषिको प्रधान किये हुए हैं । कमंके निषेध-विना स्वरूपमें प्रवृत्ति नहीं बनती और स्वरूपमें प्रवृत्तिके विना कमंका निषेध कोई अर्थ नहीं रखता । विधि और निषेध दोनोंमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है—एकके विना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बनता, यह बात प्रस्तुत ग्रन्थमें लूट स्पष्ट करके समझाई गई है । अतः संज्ञा अथवा शब्द-भेदके कारण सर्वथा भेदकी कल्पना करना न्याय-संगत नहीं है । प्रस्तु ।

जब आति-कर्ममल जलकर अथवा शक्तिहीन होकर आत्मसे बिल्कुल अलग हो जाता है तब शेष रहे चारों अधातियाकर्म, जो पहले ही आत्माके स्वरूपको आतनेमें समर्थ नहीं थे, पृष्ठबलके न रहनेपर भी भी अधिक अधातिया हो जाते एवं निर्बंल पड़ जाते हैं और विकसित आत्माके सुखोपभोग एवं ज्ञानादिकी प्रवृत्तिमें जरा भी अद्वचन नहीं ढालते । उनके द्वारा निर्मित, स्थित और संचालित शरीर भी अपने बाह्यकरण-स्पर्शनादिक इन्द्रियों और

अन्तःकरण— मनके साथ उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करता और न अपने उभयकरणोंके द्वारा कोई उपकार ही सम्भव करता है*। उन अधातिया प्रकृतियोंका नाश उसी पर्यायमें अवश्यंमात्र होता है—आयुकर्मकी स्थिति पूरी होते होते अथवा पूरी होने के साथ साथ ही वेदनीय, नाम और गोत्र-कर्मोंकी प्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं अथवा योग-निरोधादिके द्वारा सहज ही नष्ट कर दी जाती हैं। और इसलिये जो धातिया कर्मप्रकृतियोंका नाश कर आत्मलक्ष्मीको प्राप्त होता है उसका आत्मविकास प्राप्तः पूरा ही हो जाता है, वह शारीर-सम्बन्धको छोड़कर अन्य सब प्रकारसे मुक्त होता है और इसीसे उसे ‘जीवन्मुक्त’ या ‘सदेहमुक्त’ कहते हैं—सकलपरमात्मा! भी उसका नाम इसी शारीरिक हृषिको लेकर है—उसके लिये उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना, विदेहमुक्त होना और निष्कल परमात्मा बनना असन्दिग्ध तथा अनिवार्य हो जाता है—उसकी इस सिद्धपद-प्राप्तिको फिर कोई रोक नहीं सकता। ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट है कि धाति-कर्मवलको आत्मामें सदाके लिये पृथक् कर देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसलिये कर्मयोगमें सबसे अधिक महत्व इसीको प्राप्त है। इसके बाद जिस अन्तिम समाधि अथवा शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट अधातिया कर्मप्रकृतियोंका मूलतः विनाश किया जाता है और सकलकर्ममें विमुक्तिरूप मोक्षपदको प्राप्त किया जाता है उसके साथ ही कर्मयोगकी समाप्ति हो जाती है और इसलिये उक्त अन्तिम समाधि ही कर्मयोगका अन्त है, जिसका प्रारम्भ ‘मुमुक्षु’ बननेके साथ होता है।

कर्मयोगका मध्य—

अब कर्मयोगके ‘मध्य’ पर विचार करना है जिसके आश्रय-विना कर्मयोग-की अन्तिम तथा अन्तसे पूर्वकी अवस्थाको कोई अवसर ही नहीं मिल सकता और न आत्माका उक्त विकास ही सध सकता है।

मोक्ष-प्राप्तिकी सदिच्छाको लेकर जब कोई सच्चा मुमुक्षु बनता है तब उसमें

* जैसाकि ग्रन्थगत स्वाभी समन्तभद्रके निम्न दाक्षसे प्रकट है—

बहिरन्तरपूर्यमयथा च करणमविद्याति नाऽपञ्चत् ।

नाथ ! गुणपदविलं च संदा त्वमिदं तत्त्वामलकविद्वेदिष्य ॥१२६॥

बन्धके कारणोंके प्रति असुचिका होना स्वाभाविक हो जाता है । मोक्षप्राप्तिकी इच्छा जितनी तीव्र होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति असुचि भी उसकी उतनी ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंको तोड़ने, कम करने, घटाने एवं बन्ध-कारणोंको मिटानेके समुचित प्रयत्नमें लग जायगा, यह भी स्वाभाविक है । सबसे बड़ा बन्धन और दूसरे बन्धनोंका प्रधान कारण 'मोह' है । इस मोहका बहुत बड़ा परिवार है । हृषि-विकार (मिथ्यात्व), ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय और धूणा (चुगुप्सा) ये सब उस परिवारके प्रमुख अंग हैं अथवा मोहके परिणाम-विशेष हैं, जिनके उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार असंख्य हैं । इन्हें अन्तरंग तथा आनन्दर परिश्रद्ध भी कहते हैं । इन्होंने भीतरसे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रखा है । ये ग्रहकी तरह उसे चिपटे हुए हैं और अनन्त दोषों, विकारों एवं आपदाओंका कारण बने हुए हैं । इसीसे ग्रन्थमें मोहको अनन्त दोषोंका घर बतलाते हुए उस ग्राहकी उपमा दी गई है जो चिरकालसे आत्माके साथ संलग्न है—चिपटा हुआ है ॥ ६५ ॥ साथ ही उसे वह पारी शत्रु बतलाया है जिसके क्रोधादि कषय सुभट है ॥ ६५ ॥ इस मोहसे पिण्ड छुड़ानेके लिये उसके अंगोंको जैसे-तैसे भग करना, उन्हें निर्बल-कमजूर बनाना, उनकी आज्ञामें न चलना अथवा उनके अनुकूल परिणामन न करना ज़रूरी है ।

सबसे पहले हृषिविकारको दूर करनेकी ज़रूरत है । यह महा-बन्धन है, सर्वोपरि बन्धन है और इसके नीचे दूसरे-बन्धन छिपे रहते हैं । हृषिविकारकी मीजूदगीमें यथार्थ वस्तुतत्त्वका परिज्ञान ही नहीं हो पाता—बन्धन बन्धनरूपमें नज़र नहीं आता और न शत्रु शत्रुके रूपमें दिखाई देता है । नतीजा यह होता है कि हम बन्धनको बन्धन न समझकर उसे अपनाए रहते हैं, शत्रुको मिळ मानकर उसकी आज्ञामें चलते रहते हैं और हानिकरको हितकर समझनेकी भूल करके निरन्तर दुखों तथा कष्टोंके चक्करमें पड़े रहते हैं—कभी निराकूल एवं सच्चे शान्तिसुखके उपभोक्ता नहीं हो पाते । इस हृषि-विकारको दूर करनेके लिये 'अनेकान्त' का आश्रय लेना परम आवश्यक है । अनेकान्त ही इस महा-

रोगकी अमोब आवधि है। अनेकान्त ही इस हिंदिकारके जनक तिमिर-जालको स्फेदनेकी पैनी छैनी है। जब हिंदिमें अनेकान्त समाता है—अनेकान्तमय अंजना-दिक अपना काम करता है—तब सब कुछ ठीक-ठीक नजर आने लगता है। हिंदिमें अनेकान्तके संस्कार बिना जो कुछ नजर आता है वह सब प्रायः मिथ्या, भ्रमरूप तथा अवास्तविक होता है। इसीसे प्रस्तुत ग्रन्थमें हिंदिकारको मिटानेके लिये अनेकान्तकी ज्ञास तौरसे योजना की गई है—उसके स्वरूपादिको स्पष्ट करके बतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगादिकमें सुविधा हो सके। साथ ही, यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिस हिंटिका आत्मा अनेकान्त है—जो हिंट अनेकान्तसे संस्कारित अथवा युक्तहै—वह सती सभी अथवा सभीचीन हिंट है, उसीके द्वारा सत्यका दर्शन होता है; और जो हिंटअनेकान्तात्मक न हो कर सर्वथा एकान्तात्मक है वह असती भूठी अथवा मिथ्याहिंट है और इसलिये उसके द्वारा सत्यका दर्शन न होकर असत्यका ही दर्शन होता है। बस्तुतत्त्वके अनेकान्तात्मक होनेसे अनेकान्तके बिना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती ॥ । अतः सबसे पहले हिंदिकारपर प्रहार कर उसका मुघार करना चाहिये और तदनन्तर मोहके द्वारे अंगोंपर, जिन्हें हिंट-विकारके कारण अभी तक अपना सगा समझकर अपना रक्खा था, प्रतिपक्ष भावनाओंके बलपर अधिकार करना चाहिये—उनसे शत्रु-जैसा व्यवहार कर उन्हें अपने प्रात्मनगरसे निकाल बाहर करना चाहिए अथवा यों कहिये कि क्लोधादिरूप न परिणामनेका हड संकल्प करके उनके बहिष्कारका प्रयत्न करना चाहिये। इसीको अन्तरंग परिप्रहण त्याग कहते हैं ।

अन्तरंग परिप्रहणको जिसके द्वारा पोषण मिलता है वह बाह्य परिप्रह है और उसमें संसारकी सभी कुछ सम्पत्ति और विभूति शामिल है। इस बाह्य-सम्पत्ति एवं विभूतिके सम्पर्कमें अधिक रहनेसे रागादिको उत्पत्ति होती है, अमत्त-परिणामको अवसर मिलता है, रक्षण-बढ़न और विश्वनादि-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी चिन्ताएं तथा आकुलताएं बेरे रहती है, भय बना रहता है, जिन

॥ अनेकान्तात्महिंटस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।

ततः सर्वं मूषोक्तं स्पातव्युक्तं स्वचाततः ॥ ६८॥

सबके प्रतिकारमें काफी शक्ति लगानी पड़ती है तथा आरम्भ जैसे सावध कर्म करने पड़ते हैं और इस तरह उक्त सम्पत्ति एवं विभूतिका मोह बढ़ता रहता है। इसीसे इस सम्पत्ति एवं विभूतिको बाह्यपरिग्रह कहा गया है। मोहके बढ़नेका निमित्त होनेसे इन बाह्यपदार्थोंके साथ अधिक सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये, आवश्यकतासे अधिक इनका संचय नहीं करना चाहिये। आवश्यकतार्थोंको भी बराबर घटाते रखना चाहिये। आवश्यकतार्थोंकी तुदि बन्धनोंकी ही तुदि है ऐसा समझना चाहिये और आवश्यतानुसार जिन बाह्य चेतन-प्रचेतन पदार्थोंके साथ सम्पर्क रखना पड़े उनमें भी आसक्तिका भाव तथा ममत्व-परिणाम नहीं रखना चाहिये। यही सब बाह्यपरिग्रहका एकदेश और सर्वदेश त्याग है। एकदेश त्याग गृहस्थियोंके लिये और सर्वदेश त्याग मुनियोंके लिये होता है।

इन दोनो प्रकारके परिग्रहोंके पूर्ण त्याग-विना वह समाचित नहीं बनती जिसमें चारों वातिया कर्मप्रकृतियोंको भस्म किया जाता है* और न उस प्रहिसाकी सिद्धि ही होती है जिसे 'परमबहु' बतलाया गया है †। अतः समाचित और अहिंसा परमबहु दोनोंकी सिद्धिके लिये—दोनों प्रकारके परिग्रहका, जिन्हें 'ग्रन्थ' नामसे उल्लेखित किया जाता है, त्याग करके नैश्चन्द्र-शुण अथवा अपरिग्रह-द्रवत्को अपनानेकी बड़ी ज़रूरत होती है। इसी भावको निम्न दो

* इसी भावको लेकर विप्रबंधाग्रणी श्रीपात्रकेसरी स्वामीने, जो स्वामी समन्तभद्रके 'देवागम' को प्राप्त करके जैनधर्ममें दीक्षित हुए थे, अपने स्तोत्रके निम्न पद्ममें परिग्रही जीवोंकी दशाका कुछ दिग्दर्शन कराते हुए, लिखा है कि 'ऐपे परिग्रहवशवति—कलुषात्मार्थोंके शुक्लरूप सदृश्यानता बनती कहां है?'—

परिग्रहवतां स ता भयमवश्यमापद्धते

प्रकोप-परिर्हिसने च पश्याज्ञूत-व्याहृती ।

ममत्वमय चोरतः स्वप्रनसद्व-विभ्रान्तता

कुतो हि कलुषात्मना परमशुक्लसदृश्यानता ॥४२॥ (पात्रकेसरी) ४२।

— † उभय-परिग्रह-वर्जनमात्रार्थः सूचयन्त्यहिसेति ।

द्विविष-परिग्रह-वहने हिसेति जिन-प्रदचनताः ॥११८॥

— पुरुषार्थसिद्ध्युराये, अमृतचन्द्रसूरिः

कारिकाप्रोमेव्यक्त किया गया है—

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्दयावधूं चान्तिसलीमशिखियत् ।
समाधितत्रस्तुपोपपत्तये द्वयेन नैर्प्रन्द्यगुणेन चाऽयुजत् ॥१६॥

अहिसा भूताना जगति विदितं ब्रह्म परमं
न सा तत्राऽस्मोऽस्त्यगुरुपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तसिद्धयर्थं परमकरुणो प्रन्द्यमुभयं ।

भवानेवाऽत्याक्षीम च विकृत-वेषोपघिरतः ॥१७॥

यह परिप्रह त्याग उन साधुओंमें नहीं बनता जो प्राकृतिक वेषके विरुद्ध विकृत वेष तथा उपविष्टे रत रहते हैं। और यह त्याग उस तृष्णा-नदीको सुमानेके लिये गैरमकालीन सूर्यके समान है, जिसमें परिश्रमरूपी जल भरा रहता है और अपनेक प्रकारके भयोकी लहरे उठा करती हैं।

हृषिकारके मिटनेपर जब बन्धनोंका ठीक मान हो जाता है, शत्रु मित्र एवं हितकर-प्रहितकरका भेद साफ नजर पाने लगता है और बन्धनोंके प्रति अरुचि बढ़ जाती है तथा मोक्षात्रांसिकी इच्छा तीव्रसे तीव्रतर हो उठती है तब उस मुमुक्षुके सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जीर्णं तृणके समान हो जाता है, उसे उसमें कुछ भी रस अथवा सार मालूम नहीं होता, और इसलिए वह उससे उपेक्षा धारण कर—वधू-विसादि सभी सुखरूप समझी जानेवाली सामग्री एवं विभूतिका परित्याग कर—जगलका रास्ता लेता है और अपने घ्येयकी लिद्धि-के लिये अपरिप्रहादि-नृतस्वरूप ‘दैगम्बरी’ जिनदीकाको अपनाता है—मोक्षकी साधनाके लिये निर्वन्य साधु बनता है। परममुमुक्षुके इसी माव एवं कर्तव्यको श्रीकृष्णजिन और प्ररजिनकी स्तुतिके निम्न पदोंमें समाविष्ट किया गया है—

विहाय यः सागर-वारिवाससं वधूमिवेमां वसुधा-वधूं सर्तीम् ।

मुमुक्षुरिच्चवाङ्कुलादिरामवान् प्रभुः प्रवद्राज सहिष्णुरच्युतः ॥१॥

कल्मी-विभव-सर्वस्वं मुमुक्षोश्चकल्पंक्लनम् ।

साम्राज्य सार्वभौम ते जरत्तृष्णमिवाऽभवत् ॥ ८८ ॥

समात बाह्य परिप्रह और गृहस्थ-जीवनकी सारी सुख-सुविधाओंको त्याग कर साधु-मुनि बनाना वह मोक्षके मार्गमें एक “अहुत बड़ा कवच उठाना

४१६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश

होता है। इस कदमको उठानेसे पहले मुमुक्षु कमयोगी अपनी शक्ति और विचार-सम्पत्तिका लूब सन्तुलन करता है और जब यह देखता है कि वह सब प्रकारके कष्टों तथा उपसर्ग-परिष्ठहोको समझावसे सह लेगा तभी उक्त कदम उठाता है और कदम उठानेके बाद बराबर अपने लक्ष्यकी ओर सावधान रहता एवं बढ़ता जाता है, ऐसा होनेपर ही वह तृतीय-कारिकामे उल्लेखित उत र्द्धि तथा 'अच्युत' पदोको प्राप्त होता है जिहे ऋषभदेवने प्राप्त किया था, जबकि दूसरे राजा, जो अपनी शक्ति एवं सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके बजाए उनके साथ दीक्षित हो गये थे, कष्ट-परिष्ठहोके सहनेमे असमर्थ होकर लक्ष्यभृष्ट पत्र बतच्युत हो गये थे।

एमा हालतमे इस बाह्य-परिग्रहके त्यागसे पहले और बादको भी मन-सहित पाँचो इन्द्रियों तथा लोभादिक कपायोंके दमनकी—उन्हे जीतने अथवा स्वास्थ्याधीन रखनेकी—बहुत बड़ी ज़रूरत है। इनपर अपना (Control) होनेसे उपसर्ग-परिष्ठहादि कष्टके भ्रवसरोपर मुमुक्षु अडोल रहता है, इतना ही नहीं बल्कि उसका त्याग भी भले प्रकार बनता है और उस त्यागका निर्वाह भी भले प्रकार सधता है। सच पूछिये नो इन्द्रियादिके दमन-विना—उनपर अपना काढ़ु किये बगैर—सच्चा त्याग बनता ही नहीं, और यदि भावुकताके बजाए भी जाये तो उसका निर्वाह नहीं हो सकता। इसीसे ग्रन्थमे इस दमनका महत्व स्थापित करते हुए उसे 'तीथ' बताया है—सकारसे पार उत्तरनेका उपाय सुभाया है—और 'दम तीर्थनायक' तथा 'ग्रनवद्य-विनय-दमतीर्थ-नायक' जैसे पदो-द्वारा जैनतीर्थकरों उस तीर्थका नायक बतलाकर यह घोषित किया है कि जैनतीर्थकरोंका शासन इन्द्रिय-व्याय-निप्रहृपरक है (१०४, १२२)। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया है कि वह दम (दमन) मायाचार रहित निछकपट एवं निर्दोष होना चाहिए—दम्भके रूपमें नहीं (१४१)। इस दम-के साथी—सहयोगी एवं सखा (मित्र) है यम-नियम, विनय, तप और दया। अहिंसादि ब्रतानुषानका नाम 'यम' है। कोई ब्रतानुषान जब यावज्जीवके लिये न होकर परमित कालके लिए होता है तब वह नियम कहलाता है। यमको

ग्रन्थमें 'तप्रयामदमायः' (१४१) पदके द्वारा 'याम' उद्देशे उल्लेखित किया है जो स्वाधिक 'धरण' प्रत्यके कारण यंत्रका ही बाचक है और 'प्र' उपसर्गके साथमें रहनेसे महायम (महाब्रतानुष्ठान) का सूचक हो जाता है । इस यम अथवा महायमको ग्रन्थमें 'अधिगत-मुनि-सुव्रत-स्थितिः' (१११)^१ पदके द्वारा 'सुव्रत' भी सूचित किया है और वे सुव्रत अहिंसादिक महाब्रत ही हैं, जिन्हें कर्मयोगीको भले प्रकार अधिगत और अधिकृत करना होता है । विनयमें अहंकारका त्याग और दूसरा भी कितना ही सदाचार शामिल है । तपमें सांसारिक इच्छायोंके निरोधकी प्रमुखता है और वह बाह्य तथा अन्तरंगके भेदसे दो प्रकारका है । बाह्यतप अनशनादिक-रूप^२ है और वह अन्तरंग तपकी वृद्धिके लिए हीं विया जाता है (८३) — वही उसका लक्ष्य और घेय है; मन्त्र शरीर को सुखाना, कृश करना अथवा कष्ट पहुँचाना उसका उद्देश्य नहीं है । अन्तरंग तप प्रायशिच्छादिरूप^३ है । जिसमें ज्ञानाराधन और ध्यान-साधनकी प्रधानता है—प्रायशिच्छादि प्रायः उन्हींकी वृद्धि और सिद्धिको लक्ष्यमें लेकर किये जाते हैं । ध्यान आत्म, रोद्र, धर्म और शुक्लके भेदसे चार प्रकारका होता है, जिनमें पहले दो भेद अप्रशस्त (कलुपित) और दूसरे दो प्रशस्त (सातिशय) ध्यान कहलाते हैं । दोनों अप्रशस्त ध्यानोंको छोड़कर प्रशस्त ध्यानोंमें प्रवृत्ति करना ही इस कर्मयोगीके लिये चिह्नित है (८३) । यह योगी तप साधनाकी प्रधानताके कारण 'तपस्वी' भी कहलाता है; परन्तु इसका तप दूसरे कुछ तपस्त्रियोंकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी तथा परलोकमें इन्द्रासनादि-प्राप्तिकी आशा-तृष्णाको लेकर नहीं होता बल्कि उसका शुद्ध लक्ष्य स्वात्मोपलक्ष्य होता है—वह जन्म-जरा-मरणरूप, ससार-परिअमण्डे-सूक्ष्मनेके लिये ही अपने मन-बचन और काशकी प्रवृत्तियोंको तपश्चरण-द्वारा स्वाधीन करता है (४८) इन्द्रिय-विषय-सौख्यसे पराङ्मुख रहता है (८१) और इतना

* अनशनाऽवमोदयं-तत्परिसंस्थान-रसपरित्याग-विविक्षयमासन-काय-
क्लेशा बाह्यतपः ।—तत्त्वार्थसूत्र ६-१६ ॥

[†] प्रायशिच्छ-विनय-वैष्णवृत्त्य-स्वाध्यायव्युत्सर्ग-ध्यानानुसंतरम् ।

—तत्त्वार्थसूत्र ६-२०॥

४१८ जैनसाहित्य और इतिहास ग्रंथ प्रकाश

निस्तुह ही जाता है कि अपने देहमें भी विरक्त रहता है (७३) — उसे बोना, माँजना, तेल सजाना, कोमल-शम्भापर सुलाना, पीठिक भोजन करना, शृङ्खारित करना और सर्दी-गर्मी भावित की परीष्ठहोने से आवश्यकरूपमें बचाना— जैसे कायीमें वह कोई चबि नहीं रखता। उठका शरीर आशूषणों, वेणों, आयुरों और वस्त्र प्रावरणः दिल्लप व्यवषानोंसे रहित होता है और इन्द्रियोंकी शान्तता-को लिये रहता है (४६, १२०)। ऐसे तपस्वीका एक मुन्द्र संक्षिप्तलक्षण ग्रन्थकार-महोदयने अपने दूसरे ग्रन्थ 'सभीवीनवर्मवास्त्र' (रत्नकरण) में निम्न प्रकार दिया है:—

विषयाशा-वशातीतो निरारम्भोऽपरियंहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्त्री स प्रशस्तते ॥१०॥

'जो इन्द्रिय-विषयोंकी प्राशानकके वशवर्ती नहीं हैं, आरम्भोंसे—कृषि-बाणिज्यादिरूप सावधानकमोंसे—रहित हैं, बाह्याभ्यन्तर परिष्ठहसे मुक्त हैं और ज्ञान-ध्यानकी प्रधानताको लिये हुए तास्यामें लीन रहता है वह तपस्त्री प्रशंसनीय है।'

अब रही दयाकी बात, वह तो सारे वर्मानुष्टानका प्राण ही है। इसी-से 'मुदी दया-दीवित-वर्मचक' वाक्यके द्वारा योगी साक्षुके सारे धर्म-समूहको दयाकी किरणोंवाला बतलाया है (५८) और सच्चे मुनिको दयामूर्तिके रूपमें पापोंकी शान्ति करतेवाला (५६) और अखिल प्राणियोंके प्रति अपनी-दयाका विस्तार करनेवाला (८१) लिया है। उसका रूप शरीरकी उक्त स्थितिके साथ विद्या, दम और दयाकी तत्परताको लिए हुए होता है (६४)। दया के बिना न दम बनता है, न यम-नियमादिक और न परिष्ठहका त्याग ही सुचित होता है; यिर समाधि और उसके द्वारा कर्मवर्त्तनोंको काटने प्रथवा भस्म करनेकी तो बात ही दूर है। इसी-समाविती सिद्धके लिये वही उभय प्रकारके परिष्ठह-त्यागको आवश्यक बतलाया है वहां अमा-सखीवाली दया-वधु-को अपने आश्रयमें रखनेकी बात भी कही गई है (१६) और अहिंसा-परमद्वाहा-की सिद्धिके लिये जहाँ उस आश्रमविविको अपनानेकी बात करते हुए विसमें अगुमात्र भी आरम्भ न हो, द्विषष-परिष्ठहके त्यागका विचान किया है वहां उस परिष्ठह-त्यागको 'परमकरणः' पदके द्वारा 'परमकरणाभावसे—प्रसाधारण

दया-सम्पत्तिसे—सम्पत्त भी सूचित किया है। इस तरह दम, त्याग, और समाधि (तथा उनसे सम्बन्धित यम-निवादिह) सबमें दयाकी प्रवानता है। इसीसे मुमुक्षुके लिये कर्मयोगके अगोमें 'दया' को अलग ही रक्खा गया है और पहला स्थान दिया गया है।

स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे महान् प्रन्थ 'युक्त्यनुशासन' में कर्मयोगके इन चार भ्रजों दया, दम, त्याग और समाधिका इसी क्रमसे उल्लेख किया है। और साथ ही वह निर्विष्ट किया है कि वीर जिनेन्द्रका शोषन (मत) नय-प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्वको स्पष्ट करने के साथ साथ इन चारोंकी तत्त्वरता-को लिये हुए है, ये सब उसकी आत्म विशेषताएँ हैं और हन्दीके कारण वह प्रद्वितीय है तथा अखिन प्रवादियों के द्वारा अवृद्ध है—प्रज्ञव्य है। जैसा कि उक्त प्रन्थकी निम्न कारिका से प्रकट है:—

दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ नय प्रमाण-प्रकृताऽन्तसार्थम् ।

अधृष्यमन्यैरस्तिलैः प्रवादैर्जिन ! त्वदीय मतमद्वितीयम् ॥६॥

यह कारिका बड़े महत्वकी है। इसमें वीरजिनेन्द्रके शासनका बीज-पदोमे सूक्ष्रलूपसे सार सकलन करते हुए भक्तियोग और कर्मयोग तीनोंका सुन्दर समावेश किया गया है। इसका पहला चरण कर्मयोगकी, दूसरा चरण ज्ञानयोगकी और तीसरों चरण प्रायः भक्तियोगकी समूचनाको लिये हुए है। और इससे वह स्पष्ट जाना जाता है कि दया, दम, त्याग और समाधि इन चारोंमें वीरजासनका सारा कर्मयोग समाविष्ट है। यम, नियम, सदम, व्रत, विनय, शील, तप, ध्यान, आरित्र, इन्द्रियजय, कषायजय, परीषहजय, मोहविजय, कर्मविजय, गुर्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, त्रिदण्ड, हिन्दिविरित और क्षमादिकके रूपमें जो भी कर्मयोग अव्यय पाया जाता है वह सब इन चारोंमें

त्रु श्री विद्यानन्दाचार्य इस क्रमकी सर्वकर्ता बतलाते हुए टीकामें लिखते हैं—निमित्त नैवितिक-भाव-निवन्धनः पूर्वोत्तर-वचन क्रमः । दया हि निमित्त दमस्य तस्या सत्या तदुत्तरते । दमस्य त्यागस्य (निमित्त) तस्मिन्स्तिति तदवटनात् । त्यागस्य समाधेस्तस्मिन्स्तपेव विशेषादिनिवृत्ति-सिद्धेरेकाप्रस्त्य समाधिविशेषस्योत्तरते: अन्यथा तदनुपपत्ते ।"

प्रन्तभूत है—इन्हींकी व्याख्यामें उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चुनौते प्रस्तुत ग्रन्थमें भी इन चारोंका अपने कुछ अभिन्न सभी-साधियोंके साथ इधर उधर प्रसृत निर्देश है, जैसा कि ऊपरके सचयन और विवेचनसे स्पष्ट है।

इस प्रकार यह ग्रन्थके सारे शरीरमें व्याप्त कमयोग-रसका निचोड़ है— सत है धर्मवा सार है, जो अपन कुछ उपयोग प्रयोगको भी साधम लिए हुए है।

तीनों योगोंके इस भारी कथनको लिये हुए प्रस्तुत स्तोत्रपरसे यह स्पष्ट जाना जाना है कि स्वामी मम तभद्ध कैसे और कितन उच्चकोटिके भक्तियाँगी, ज्ञानयोगी और कमयोगी थ और इसलिये उनके पद चिह्नोपर चतनके लिये हमारा आचार-विचार किस प्रकारका होना चाहिए और कैसे हम उनके पथका पर्याप्त बनना धर्मवा आत्महृतकी साधनाके साथ साथ लोक हितकी साधनामें तत्पर रहता चाहिये।



२२

समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम ‘युक्त्यनुशासन’ है। यद्यपि ग्रन्थके आदि तथा अन्तके पदोंमें इस नामका कोई उल्लेख नहीं है—उनमें स्पष्टतया वीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिज्ञा और उसीकी परिसमाप्तिका उल्लेख है फिर भी इससे ग्रन्थका मूल ग्रन्थवा प्रथम नाम ‘वीरजिनस्तोत्र’ जान पड़ता है—फिर भी ग्रन्थकी उपलब्ध प्रतियो तथा शास्त्र-भण्डारीकी सूचियोमें ‘युक्त्यनुशासन’ नामसे ही इसका प्रायः उल्लेख मिलता है। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने तो बहुत स्पष्ट शब्दोमें टीकाके मगलपद्म, मध्यपद्म और अन्त्यपद्ममें इसको समन्तभद्रका ‘युक्त्यनुशासन’ नामका स्तोत्रग्रन्थ उद्घोषित किया है; जैसा कि उन पदोंके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

‘जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्र युक्त्यनुशासनम्’ (१)

‘स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः (२)

‘श्रीमद्वीरजिनेश्वराऽमलगुणस्तोत्र परीच्छणैः

साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्वं समीक्ष्याऽस्तिलम् ।

प्रोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः स्याद्वादमार्गानुगौः’ (३)

‡ “स्तुनियोचरत्वं निनीष्वः स्मो वयमद्य वीर” (१);

“नरागम्भः स्तोत्र भवति भवपाशच्छिदि मुनौ” (६३);

“इति...स्तुतः शक्त्या श्रेयः पदमधिगतस्त्वं जिन मया ।

महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये...” (६४) ।

यहां मध्य और अन्यके पदोंसे यह भी मालूम होता है कि ग्रन्थ श्रीरजिन-का स्तोत्र होते हुए भी 'युक्त्यनुशासन' नामको लिये हुए है अर्बाद इसके दो नाम हैं—एक 'श्रीरजिनस्तोत्र' और दूसरा 'युक्त्यनुशासन'। समन्तभद्रके अन्य उप-लब्ध ग्रन्थ भी दो-दो नामोंको लिये हुए हैं; जैसा कि मैंने 'स्वयम्भूस्तोत्र' की प्रस्तावनामें व्यक्त किया है पर स्वयम्भूस्तोत्रादि अन्य चार ग्रन्थोंमें ग्रन्थका पहला नाम प्रथम पद्म-द्वारा और दूसरा नाम अन्तिम पद्म द्वारा सूचित किया गया है और वहां आदि-अन्तके दोनों ही पदोंमें एक ही नामकी सूचना की गई है; तब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या 'युक्त्यनुशासन' यह नाम बादको श्री विद्यानन्द या दूसरे किसी आचार्यके द्वारा दिया गया है अथवा ग्रन्थके अन्य किसी पद्मसे इसकी भी उपलब्धि होती है? श्रीविद्यानन्दाचार्यके द्वारा यह नाम दिया हुआ मालूम नहीं होता; क्योंकि वे टीकाके आदिम मंगल पद्ममें 'युक्त्यनुशासन'का जयचोषण करते हुए उसे स्पष्ट रूपमें समन्तभद्रकृत बतला रहे हैं और अन्तिम पद्ममें यह साफ घोषणा कर रहे हैं कि स्वामी समन्तभद्रने प्रखिल तत्त्वकी समीक्षा करके श्रीश्रीरजिनेन्द्रके निर्मल शुणोंके स्तोत्ररूपमें यह 'युक्त्यनुशासन' ग्रन्थ कहा है। ऐसी स्थितिमें उनके द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके सिवाय, शकसंवत् ७०५ (वि० सं० ८४०) में हरिवंशपुराणको बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने 'जीवसिद्धिविद्यायीह कृन्युक्त्यनुशासनम्, वचः समन्तभद्रस्य' इन पदोंके द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दोंमें समन्तभद्रको 'जीवसिद्धि' ग्रन्थका विधाता भीर 'युक्त्यनुशासन' का कर्ता बतलाया है। इससे भी यह साफ जाना जाता है कि 'युक्त्यनुशासन' नाम श्रीविद्यानन्द अथवा श्री-जिनसेनके द्वारा बादको दिया हुआ नाम नहीं है, बल्कि ग्रन्थकार-द्वारा स्वयंका ही विनियोजित नाम है।

अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थके किसी दूसरे पद्मसे इस नामकी कोई सूचना मिलती है? सूचना जहर मिलती है। स्वामीजीने स्वयं ग्रन्थकी ४८ वीं कारिकामें 'युक्त्यनुशासन' का निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

‘नटागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्रसूपणो युक्त्यनुशासनं ते।’

इसमें बतलाया है कि 'प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधक' जो अर्थहा अर्थसे प्रसूपण है उसे 'युक्त्यनुशासन' कहते हैं और कही (हे श्री गवान् !) आपको

अधिमत है—‘भाषीहै है।’” ग्रन्थकार सारा प्रथं प्रस्तुत युक्त्यनुशासनके इसी लक्षण से लक्षित है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण हुआ है और इसलिये ‘युक्त्यनुशासन’ यह नाम ग्रन्थकी प्रकृतिके भनुरूप उसका प्रमुख नाम है। बुनिये ग्रन्थ-कार-महोदय, ६३ वीं कारिकामे ग्रन्थके निर्माणका उद्देश्य व्यक्त करते हुए, लिखते हैं कि ‘हे वीर भगवन् ! यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावको अथवा दूसरोंके प्रति द्वेषभावको लेकर नहीं रखा गया है, बल्कि जो लोग न्याय-ग्रन्थाय-को पहचानना चाहते हैं और किसी प्रकृतविधयके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह हितान्वेषणके उपायस्वरूप आपकी गुण-कथाके साथ कहा गया है। इससे साफ जाना जाता है कि ग्रन्थका प्रधान लक्ष्य भूने-भट्टे की जीवोंको न्याय-ग्रन्थाय, गुण-दोष और हित-प्रहितका विवेक कराकर उन्हे वीर-जिन-प्रदर्शित सम्भागंपर लगाना है और वह युक्ति रोंके अनुशासन-द्वारा ही साध्य होता है, अतः ग्रन्थका मूलतः प्रधान नाम ‘युक्त्यनुशासन’ ठीक जान पड़ता है। यही वजह है कि वह इसी नामसे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त हुया है। ‘वीरजिन-स्तोत्र’ यह उसका दूसरा नाम है, जो स्तुतिपात्रकी हृषिसे है, जिसका और जिसके जासनका भृत्य इस ग्रन्थमें स्पापित किया गया है। ग्रन्थके मध्यमे प्रयुक्त हुए किसी पदपरसे भी ग्रन्थका नाम रखनेकी प्रथा है, जिसका एक उदाहरण घनं जय कविका ‘विषापहार’ स्तोत्र है, जो कि न तो ‘विषापहार’ शब्दसे प्रारम्भ होता है और न आशि-ग्रन्थके पदोंमें ही उसके ‘विषापहार’ नामको कोई सूचना की गई है, किर भी मध्यमे प्रयुक्त हुए ‘विषापहार भणिमीयधानि’ इत्यादि वाक्यपरसे वह ‘विषापहार’ नामको धारण करता है। उसी तरह यह स्तोत्र भी ‘युक्त्यनुशासन’ नामको धारण करता हुया जान पड़ता है।

इस तरह ग्रन्थके दोनों ही नाम युक्तियुक्त हैं और वे ग्रन्थकार-द्वारा ही प्रयुक्त हुए सिद्ध होते हैं। जिमे जैवी रुचि हो उसके अनुमार वह इन दोनों नामोंमेंसे किसीका भी उत्थोग कर सकता है।

ग्रन्थका संचित परिचय और महत्व—

यह ग्रन्थ उन आर्ती प्रथवा ‘सर्वज्ञ’ कहे जानेवालोंकी परीक्षाके बाद रखा गया है, जिमे आवश्यकी-न-क्षमी रूपमें उपलब्ध है और जिनमें बुद्ध-कषि-

लादि के साथ और जिनेन्द्र भी शामिल हैं। परीक्षा 'युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्त्वं' हेतुसे की गई है अर्थात् जिनके बचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधरूप पाये गये उन्हें ही आस्तरूपमे स्वीकार विद्या गया है—सेषका आस होना लाखिन ठहराया गया है। ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी इस परीक्षामे, जिसे उन्होने अपने 'आस-भीमासा' (देवागम) ग्रन्थमें निबद्ध किया है, स्याद्वादानायक श्रीबीरजिनेन्द्र, जो अनेकान्तवादिं-आसीना प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूपसे समुत्तीर्ण रहे हैं और इसलिये स्वामीजीने उन्हे तिर्योष्य आस (सर्वज्ञ) घोषित करते हुए और उनके अधिमत अनेकान्तशासनको प्रमाणाऽवाचित बतलाने हुए लिखा है कि आपके आसनाऽमृतसे बाहु जो सर्वथा एकान्तवादी हैं वे आस नहीं आप्ताभिमानस दाव है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष-प्रमाणसे बाधित हैं—

स त्वमेवाऽसि निर्दृष्टो युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक् ।

अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ ६ ॥

त्वम्भूताऽमृत-वाह्याना सर्वथैकान्तवादिनाम् ।

आप्ताभिमान-दग्धानां स्वेष्ट हृष्टेन बाध्यते ॥ ७ ॥

—आसमीमासा

इस तरह बीरजिनेन्द्रके गतेमें आप्त-विषयक जयगाल ढालकर और उन दोनों कारिकाओंमें वरिंगत अपने कथनका स्पष्टीकरण करनेके अनन्तर आचार्य म्बामी समन्तभद्र इस स्नोत्रद्वारा बीरजिनेन्द्रका स्तवन करते बैठे हैं, जिसकी मृचना इस ग्रन्थकी प्रथम कारिकामे प्रयुक्त हुए 'अद्य' शब्दके द्वारा की गई है। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने भी 'अद्य' शब्दका अर्थ 'अद्याऽस्मिन् काले परीक्षावसानसमये' दिया है। साथ ही, कारिकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा यह भी सूचित किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ आप्तमीमासाके बाद रचा गया है—

‘श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगडश्वच्छेदाद् व्य-
वस्थापितेन भगवता श्रीमत्तार्हतान्त्यतीर्थक्षरपरमदेवेन मां परीक्ष कि
चिकीष्वो भवन्तः ? इति ते पृष्ठा इव प्राप्तु ।’

स्वामी समन्वयभद्र एक बहुत बड़े परीक्षा-प्रघानी आचार्य थे, वे यों ही किसीके ग्रामे मस्तक टेकनेवाले प्रथवा किसीकी स्तुतिमें प्रवृत्त होनेवाले नहीं थे। इसीसे वीरजिनेन्द्रकी महानता-विषयक जब ये बातें उनके सामने आईं कि ‘उनके पास देव आते हैं, आकाशमें बिना किसी विमानादिकी सहायताके उनका गमन होता है और चॅवर-छादादि भृष्ट प्रातिहायोंके रूपमें तथा समवसरणादि-के रूपमें अन्य विभूतियोंका भी उनके निर्मित प्रादुर्भाव होता है तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ‘ये बातें तो मायाविद्योंमें—इन्द्रजालियोंमें—भी पाई जाती हैं, इनके कारण प्राप्त हमारे महान्-पूज्य प्रधवा आप्त-मुख्य नहीं हैं ॥१॥’ और जब शरीरादिके अन्तर्बाह्य महान् उदयकी बात बतलाकर महानता जतलाई गई तो उसे भी अस्तीकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि शरीराका यह महान् उदय रागादिके वशीभूत देवताओंमें भी पाया जाता है। अतः यह हेतु भी व्यभिचारी है, इससे महानता (आप्तता) तिद्ध नहीं होती ॥२॥ इसी तरह तीर्थकर होनेसे महानताकी बात जब सामने लाई गई तो आपने साफ़ कह दिया कि ‘तीर्थकर’ तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं और वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निवृत्ति प्राप्त करनेके उपायरूप आगमतीर्थके प्रवतंक माने जाते हैं तब वे सब भी आप्त-सर्वंश ठहरते हैं, और यह बात बनती नहीं; क्योंकि तीर्थकुरोंके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है। अतः उनमें कोई एक ही महान् हो सकता है जिसका ज्ञापक तीर्थकरत्व हेतु नहीं, कोई दूसरा ही हेतु होना चाहिए ॥३॥

ऐसी हालतमें पाठकजन यह जाननेके लिये जारूर उत्सुक होगे कि स्वामीजी ने इस स्तोत्रमें वीरजिनकी महानताका किस रूपमें सम्बोधन किया है। वीर-

॥१॥ देवागम-नमोशान-कामरादि-विभूतयः ।

मायाविष्वपि हृश्यन्ते-नाऽतस्त्वमसि नो महान् ॥१॥

† अध्यात्मं बहिरप्येष विप्रहादिमहोदयः ।

दिव्यः सत्यो दिवोकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्यु सः ॥२॥

* तीर्थकृत्समयानां च परस्पर-विरोधतः ।

सर्वेष्वप्तता नास्ति किञ्चिदेव भवेद्युरुः ॥३॥—आप्तमीर्त्सा

विनकी महानताका संबोधन जिस रूपमें किया गया है, उसका पूर्ण परिचय तो पूरे अन्यको बहुत दत्तव्यस्थलके साथ भ्रनेक बार पढ़ने-पर ही ज्ञात हो सकेगा, यहाँ पर संक्षेपमें कुछ ओड़ा-सा ही परिचय कराया जाता है और उसके लिये अन्यकी निम्न दो कारिकाएँ खास तौरसे उल्लेखनीय हैं—

त्वं शुद्धि-शक्त्योरुद्यस्य काष्ठां तुलो-व्यतीतां जिन ! शान्तिरूपाम् ।
अवाप्यथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयव्यातिवक्तुमोशाः ॥ ४ ॥
द्य-दम-त्याग-समाधि-निष्ठं नय-प्रमाण - प्रकृताऽऽङ्गजसार्थम् ।
अधृत्यमन्यैरस्त्विलैः प्रवादै-जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥ ६ ॥

इनमेंसे पहली कारिकामें श्रीबीरकी महानताका और दूसरीमें उनके शासनकी महानताका उल्लेख है। श्रीबीरकी महानताको इस रूपमें प्रदर्शित किया है कि ‘वे भ्रतुलित शान्तिके माध्य शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए हैं—उन्होंने मोहनीयकर्मका अभाव कर भ्रनुपम सुख-शान्तिकी, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोंका नाश कर अनन्त ज्ञानदर्शनरूप शुद्धिके उदयकी और अन्तराय कर्मका विनाश कर अनन्तवीर्यरूप शक्तिके उत्कर्षकी चरम-सीमाको प्राप्त किया है—और साथ ही ब्रह्मपथके—प्राह्लादामक आत्मविकासपद्धति अथवा मोक्षमार्गके वे नेता बने हैं—उन्होंने अपने आदर्श एवं उपरोक्षादि-द्वारा दूसरोंको उस सन्मार्ग पर लगाया है जो शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिके परमोदयरूपमें आत्मविकासका परम सहायक है’ और उनके शासनकी महानताके विषयमें बतलाया है कि ‘वह दया (अर्हित), दम (संयम), त्याग (परिग्रह-त्यजन) और समाधि (प्रशस्तव्यान) की निष्ठा-तत्परताको लिये हुए है, नयों तथा प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत्वको विल्कुल स्पष्ट-सुनिश्चित करनेवाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्न) दूसरे सभी प्रवादोंके द्वारा अवश्य है—कोई भी उसके विषयको संदित अथवा दूषित करनेमें समर्थ नहीं है। यही सब उसकी विशेषता है और इसलिये वह प्रद्वितीय है।

अगली कारिकाओंमें सूचरूपवे वर्णित इस बीरजिनसनके महत्वको और उसके द्वारा बीरजिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ट करके बतलाया गया है—खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि बीरजिन-द्वारा इस शासनमें वर्णित

वस्तुतस्य कैसे नय-प्रभालुके द्वारा निर्बाचि सिद्ध होगा है और इसरे सर्ववैकान्त-शासनोंमें निर्दिष्ट हुआ वस्तुतस्य किस प्रकारसे प्रभाणवाचित् तथा अपने अस्तित्वको सिद्ध करनेमें प्रसमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विज्ञ पाठकोंके लिये बड़ा ही रोचक है और वीरजिनेंद्रकी कीतिको दिविगन्त-व्यापिनी बनाने-वाला है। इसमें प्रधान-प्रधान दर्शनों और उनके अवान्तर कितने ही वादोंका सूत्र अथवा संकेतादिके रूपमें दहुत कुछ निर्देश और विवेक आ गया है। यह विषय ३६ वीं कारिका तक चलता रहा है। श्री विद्यानन्दाचार्यने इस कारिकाकी टीकाके अन्तमें वहाँ तकके बर्णित विषयकी संक्षेपमें सूचना करते हुए लिखा है—

स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वर्त्तस्य निःशेषतः
सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शक्ति-पद्धती काष्ठां परामाश्रिताम् ।
निर्णातं मतमद्वितीयममलं संक्षेपतोऽपाकृतं
तद्वाह्यं वितथं भर्त च सकलं सद्गीथनैर्बुद्ध्यताम् ॥

अर्थात्—यहाँतके इस युक्त्यनुशासन स्तोत्रमें शुद्ध और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीरजिनेंद्रके अनेकान्तरात्मक स्थाद्वादमत (शासन) को पूर्णतः निर्देश और अद्वितीय निर्विचित किया गया है और उससे बाह्य जो सर्ववा एकान्तके आप्रहको लिये हुए भिन्नामतोंका समूह है उस सबका संक्षेपसे निराकरण किया गया है, यह बात सद्बुद्धिशालियोंको भले प्रकार समझ लेनी चाहिए।

इसके बागे, ग्रंथके उत्तराधिमें, वीर-शासन-बर्णित तत्त्वज्ञानके मर्मकी कुछ ऐसी शुद्ध तथा सूक्ष्म बातोंको स्पष्ट करके बतलाया गया है जो ग्रंथकार-महोदय स्वामी समन्वयनुशासनसे पूर्वके ग्रंथमें प्रायः नहीं पायी जातीं, जिनमें 'एव' तथा 'स्यात्' शब्दके प्रयोग-प्रप्रयोगके रहन्यकी बातें भी शामिल हैं और जिन सबसे वीरके तत्त्वज्ञानको समझने तथा परस्परोंकी निर्मल हृष्टि अवश्य करसीटी प्राप्त होती है। वीरके इस अनेकान्तरात्मक शासन (प्रबन्धन) को ही ग्रंथमें 'सद्वौद्यतीर्थं' बतलाया है—लंसार समृद्धसे पार उत्तरनेके लिये वह समीचीन घाट अवश्य मार्ग सूचित किया है जिसका आवश्य लेकर सभी

पार उत्तर जाते हैं। और सबोंके उदय-उत्कर्षमें अथवा भातमाके पूणि विकास-में सहायक है—और यह भी ^१ बतलाया है कि वह सर्वान्तरान् है—सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेध और एकत्व-प्रानेकत्वादि अशेष घर्मोंको अपनाये हुए हैं—, मुख्य-गौणकी अवस्थासे सुव्यवस्थित है और सब दुखोंका अन्त करने वाला तथा स्वयं निरन्त है—अविनाशी तथा अलंडनीय है। साथ ही, यह भी घोषित किया है कि जो शासन घर्मोंमें पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता है—उन्हें सर्वधा निरपेक्ष बतलाता है—वह सर्वघर्मोंसे शून्य होता है—उसमें किसी भी घर्मका अस्तित्व नहीं बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक बैठ सकती है; ऐसी हालतमें सर्वधा एकान्त-शासन 'सर्वोदयतीर्थ' पदके योग्य हो ही नहीं सकता। जैसा कि ग्रंथके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सर्वान्तरवत्तदगुण-मुख्य-कल्पं सर्वान्त-शून्यं च मिथोऽनपेक्षम् ।

सर्वोपदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदय तीर्थमिदं तवैव ॥६१॥

वीरके इस शासनमें बहुत बड़ी खूबी यह है कि 'इस शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समहृष्टि हुआ उपणति-चक्षुसे—मात्सर्यके त्यागपूर्वक समाधानकी हृषिसे—वीरवासनका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मानभृंग खड़ित हो जाता है—सर्वधा एकान्तरूप मिथ्यामतका आग्रह छूट जाता है—और वह अभद्र अथवा मिथ्या-हृष्टि होता हुआ भी सब औरसे भद्ररूप एव सम्यग्हृष्टि बनजाता है।' ऐसी इस ग्रन्थके निम्न वाक्यमें स्वामी समन्तभद्रने जोरों के साथ घोषणा की है—

कामं द्विष्वाप्युपपत्तिचल्लुः समीक्षतां ते समहृष्टिरिष्टम् ।

त्वयि ध्रु वं खण्डित-मान-शृङ्गां भवत्वमद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥६२॥

इस घोषणामें सत्यका कितना अधिक साक्षात्कार और भात्म-विश्वास संनिहित है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं, जरूरत है यह कहने और बतलानेकी कि एक समर्थ आचार्यकी ऐसी प्रबल घोषणाके होते हुए और वीर शासनको 'सर्वोदयतीर्थ' का पद प्राप्त होते हुए भी आज वे लोग क्या कर रहे हैं। जो तीर्थके उपासक कहलाते हैं, पण्डे-पुजारी बते हुए हैं और जिनके हाथों

यह तीर्थं पड़ा हुआ है। क्या वे इस तीर्थंके सञ्चे उपासक हैं? इसकी मुण्डगरिमा एवं शक्तिसे भले प्रकार परिचित हैं? और लोकहितकी हृषिसे इसे प्रचारमें लाना चाहते हैं? उत्तरमें यही कहना होगा कि 'नहीं'। यदि ऐसा न होता तो आज इसके प्रचार और प्रसारकी दिशामें कोई खास प्रयत्न होता हुआ देखनेमें आता, जो नहीं देखा जा रहा है। खेद है कि ऐसे महान् प्रभावक अन्धोंको हिन्दी आदिके विशिष्ट अनुवादादिके साथ प्रचारमें लानेका कोई खास प्रयत्न भी आज तक नहीं हो सका है, जो वीरज्ञासनका सिङ्गा लोक हृदयोंपर अंकित कर उन्हें सम्मार्गकी ओर लगानेवाले हैं।

प्रस्तुत धंथ कितना प्रभावशाली और महिमामय है, इसका विशेष अनुभव तो विज्ञप्ताठक इसके गहरे अध्ययनसे ही कर सकेंगे। यहापर सिर्फ इतना ही बतला देना उचित जान पड़ता है कि श्रीविज्ञानन्द आचार्यने युक्त्यनुशासनका जयचोप करते हुए उसे 'प्रमाण-नय-निर्णय-वस्तु-तत्त्वमवाचितं' (१) विशेषण-के द्वारा प्रमाण-नयके आधार पर वस्तुनन्दका अबाचित रूपसे निरण्यिक बतलाया है। साय ही, टीकाके अन्तिम पदमें यह भी बतलाया है कि 'स्वामी समन्तभद्र-ने अख्खिल तत्त्वसमूहकी साक्षात् समीक्षा कर इसकी रचना की है।' और श्री-विज्ञप्तेनाचार्यने, अपने हरिविश्वपुराणमें, 'कृतयुक्त्यनुशासनं' पदके साथ 'वचः' समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजूभ्वते' इस वाच्यकी योजना कर यह धोषित किया है कि समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन ग्रन्थ वीरभगवानके वचन (आगम) के समान प्रकाशमान् एवं प्रभावादिकसे युक्त है।' और इससे साफ जाना जाता है कि यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक है, आगमकी कोटिमें रिधत है और इसका निर्मणी वीजपदों अथवा गम्भीरार्थक और बहुर्थक सूत्रों द्वारा हुआ है। सचमुच इस अन्धकी कारिकाएं प्रायः ओक गद्यसूत्रोंसे निर्मित हुई जान पड़ती हैं, जो बहुत ही शास्त्रीय तथा अर्थ-गौरवको लिये हुए हैं। उदाहरणके लिए उच्ची कारिकाएं को लीजिये, इसमें निम्न चार सूत्रोंका समावेश है—

१ अभेद-भेदात्मकमर्थतत्त्वम् । २ स्वतन्त्राऽन्यतरत्त्वपुण्यम् ।

३ अवृत्तिमत्वात्समवायवृत्तेः (संसर्गहानिः) ।

४ संसर्गहानेः सकलाऽर्थ-हानिः ।

इमी वरह दूसरी कारिकाशोंका भी हाल है। मैं आहता था कि कारिका-
शोंपरसे कलित होनेवाले गच्छसूत्रोंकी एक सूची ग्रन्थके प्रथम संस्करणके साथ
अलगमे दी जाती, परन्तु उसके तंयार करने योग्य मुझे स्वयं अवकाश नहीं
मिल सका और दूसरे एक विद्वान्‌म जो उसके लिये निवेदन किया गया तो
उनसे उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। और इसलिए वह सूची फिर
किसी दूसरे संस्करणके अवसरपर ही दी जा सकी।

आशा है ग्रन्थके इस संक्षिप्त परिचय और १२ पेजी विषयसूची परसे पाठक
ग्रन्थके गौरव और उसकी उपादेष्टाको समझ कर सविशेषरूपसे उसके अध्ययन
और मननमें प्रवृत्त होंगे।



रत्नकरण्डके कर्तृत्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय

रत्नकरण्ड श्रावकाचारके कर्तृत्व-विषयकी बतामान चर्चाको उठे हुए चार बष हो चुने—प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए० ने 'जैनइतिहासका विलुप्त अध्याय' नामक निबन्धमें इसे उठाया था, जो जनवरी सन् १९४४ में होनवाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य इन्स्टीट्यूट के १२ वे अधिवेशनपर बनारस में पढ़ा गया था। उस निबन्धमें प्रो० सा० ने, अनेक प्रस्तुत प्रभालोगे पृष्ठ होती हुई प्रचलित मान्यताके विरुद्ध अपने नये मतकी घोषणा करते हुए, यह बताया था कि रत्नकरण्ड उन्हीं ग्रन्थकार (स्वामी समन्तभद्र) की रचना कदाचि नहीं हो सकती जिन्होने आप्तमीमासा लिखी थी, क्योंकि उसके 'कृतिप्राप्तासा' नामक पदमें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्त-मीमासाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता।' साथ ही यह भी सुझाया था कि इस ग्रन्थके बर्ता रत्नमालाका बर्ता शिवकाटिका युह भी ही सकता है। इसी घोषणाके प्रतिवादरूपमें यथाचाय प० दरशारीलालजी कोटियाने जुलाई सन् १९४४ में 'बया रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है नामका एक लेख लिखकर अनेकान्तमें इस चर्चाका प्रारम्भ किया था और तबसे यह चर्चा देनो विद्वानोंके उत्तर-प्रत्युत्तररूपमें बराबर चली आ रही है। कोटियाजीने अपनी लेखमालाका उपस्थार अनेक तत्की दर्शकी किरण १०-११ में किया है और प्राफेसर साहब अपनी लेखमालाका उपस्थार इवे वर्षकी पहली किरणमें प्रकाशित 'रत्नकरण्ड और आप्तमीमासाका मिथककर्तृत्व' लेखमें कर रहे हैं। दोनों ही पक्षके लेखोंमें यद्यपि कही कही कुछ पिछपेयज्ञ तथा स्त्रीजीतानसे भी काम लिया गया है और एक जूसरेके प्रति आजेपरक भावाका भी प्रयोग हुआ है, जिसे कुछ कटूताको अवसर

मिला। यह सब यदि न हो पाता तो ज्यादह अच्छा रहता। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि दोनों विद्वानोंने प्रकृत विषयको सुनभानेमें काफी दिलचस्पी-से काम लिया है और उनके अन्वेषणात्मक परिश्रम एवं विवेचनात्मक प्रयत्न-के फलस्वरूप कितनी ही नई बातें पाठकोंके सामने आई हैं। अच्छा होता यदि प्रोफेसर साहब न्यायाचार्यजीके पिछ्ले लेखकी नवोदयावित-युक्तियोका उत्तर उत्ते हुए अपनी लेखमालाओंका उपसहार करते, जिससे पाठकोंको यह जाननेका अवसर मिलता कि प्रोफेसर साहब उन विशेष युक्तियोंके सम्बन्धमें भी क्या कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रो० साँ० के सामने उन युक्तियोंके सम्बन्धमें अपनी पिछली बातोंके पिछुपेषणके सिवाय अन्य कुछ विशेष एवं समुचित कहनेके लिए अवशिष्ट न हो और इसलिए उन्होंने उनके उत्तरमें न पड़कर अपनी उन चार आपत्तियोंको ही स्थिर घोषित करना उचित समझा हो, जिन्हें उन्होंने अपने पिछ्ले लेख (अनेकान्त वर्ष ८ किरण ३) के अन्तमें अपनी युक्तियोंके उपसहाररूपमें प्रकट किया था। और संभवत, इसी बातको उपर्युक्तमें रखते हुए उन्होंने अपने वर्तमान लेखमें निम्न बाक्योंका प्रयोग किया हो:—

“इस विषयपर मेरे ‘जैन इतिहासका एक विलुप्त अध्याय’ शीर्षक निबन्धमें लगाकर अभीतक मेरे और प० दरबारीलालजी कोठियाके द्वाह लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें उपलब्ध साधक-बाधक प्रमाणोंका विवेचन किया जा चुका है। अब कोई नई बात सन्मुख आनेकी अपेक्षा पिछलपेषण ही अधिक होना प्रारम्भ हो गया है मौलिकता के बल कठु शब्दोंके प्रयोगमें शोग रह गई है।”

(आपत्तियोंके पुनरुत्तरलेखानन्तर) “इस प्रकार रत्नकरणदशावनाचार और आपत्तिमीमांसाके एक कठुत्वके विरुद्ध पूर्वोक्त चारों आपत्तियां ज्योंकी स्थों आज भी खड़ी हैं, और शो कुछ ऊहापोह अब तक हुआ है इससे वे और भी प्रबल व प्रकाट्य तिद्ध होती हैं।

कुछ भी हो और दूसरे कुछ ही समझते रहें, परन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रो० साहब अपनी उक्त चार आपत्तियोंमें किसीका भी अब तक समाधान अथवा समुचित प्रतिवार हुआ नहीं मानते; बल्कि वर्तमान ऊहापोहके फलस्वरूप उहें वे और भी प्रबल एवं अकाट्य समझने लगे हैं। अस्तु।

अपने बत्तेयान लेखमें प्रो० साहबने मेरे दो पत्रों और मुझे भेजे हुए अपने एक पत्रको उद्धृत किया है। इन पत्रोंको प्रकाशित देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई—उन्हेंसे किसीके भी प्रकाशनसे मेरे कृद होने जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी, जिसकी प्रोफेसर साहबने अपने लेखमें कल्पना की है; वर्तोंकि उनमें प्राइवेट जैसी कोई बात नहीं है, ये तो स्वयं ही उन्हें 'सभी-चीनप्रमंशास्त्र' की अपनी प्रस्तावनामें प्रकाशित करना चाहता था—जुनावे लेखके साथ भेजे हुए पत्रके उत्तरमें भी ऐसे प्रो० साहबको इस बातकी सूचता करदी थी। येरे प्रथम पत्र को, जो कि रत्नकरण्डके 'कुत्पिपासा' नामक छठे पत्रके सम्बन्धमें उसके ब्रांथका गौलिक धंग होने-न-होने-विषयक रामीर प्रश्नको लिये हुए है, उद्धृत करते हुए प्रोफेसर साहबने उसे अपनी 'प्रथम आपत्तिके परिहारका एक विशेष प्रयत्न' बतलाया है। उसमें जो प्रश्न उठाया है उसे 'बहुत ही महत्वपूर्ण' तथा रत्नकरण्डके कर्तृत्वविषयसे-बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाला घोषित किया है और 'तीनों ही पत्रोंको अपने लेखमें प्रस्तुत करना बत्तेयान विषयके निर्णयार्थ अत्यन्त आवश्यक सूचित किया है। साथ ही मुझसे यह जानना चाहा है कि मैंने अपने प्रथम पत्रके उत्तरमें प्राप्त विद्वानोंके पत्रों आदिके आधारपर उक्त पत्रके विषयमें मूलका धंग होने-न-होनेकी बाबत और समूचे ग्रन्थ (रत्नकरण्ड) के कर्तृत्व-विषयमें क्या कुछ निर्णय किया है। इसी विज्ञासाको, विसका प्रो० सा० के शब्दोंमें प्रकृत-विषयसे रुचि रखनेवाले दूसरे हृदयोंमें भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, प्रधानतः लेकर ही मैं इस लेखके लिखनेमें प्रवृत्त हो रहा हूँ।

सबसे पहले मैं अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत चर्चाके बादी-प्रतिबादी रूपमें स्थित दोनों विद्वानोंका निमित्त पाकर मेरी प्रवृत्ति रत्नकरण्डके उक्त छठे पत्रपर संविषेषणगृह्यसे विचार करने एव उसकी स्थितिको जाँचनेकी ओर हुई और उसके फलस्वरूप ही मुझे वह हृषि प्राप्त हुई जिसे मैंने अपने उक्त पत्रमें अकर किया है जो कुछ विद्वानोंको उनका विचार भासून करतेरे किये थे। यथा या और जिसे प्रोफेसर साहबने विशेष युत्पत्तिपूर्ण एवं विर्णयार्थ आवैश्यक अमरकृतं प्राप्तने बत्तेयान लेखमें ज्ञाप्त किया है। विद्वानोंको उक्त पत्रका भेजा जाना भीकेवृत्त शाहूबड़ी प्रथम आपत्तिके

परिहारका कोई खास प्रयत्न नहीं था, जैसा कि प्रो॰ साहबने समझा है; बल्कि उसका प्रधान लक्ष्य अपने लिये इस बातका निर्णय करना था कि 'सभीचीन धर्मशास्त्र' में जो कि प्रकाशनके लिये प्रस्तुत है, उसके प्रति किस प्रकारका व्यवहार किया जाय—उसे मूलका अङ्ग मान लिया जाय या प्रक्षिप्त। क्योंकि रत्नकरण्डमें 'उत्तमन्दोष आप्त' के लक्षणरूपमें उसकी स्थितिके स्पष्ट होनेपर अथवा 'प्रकीर्त्यते' के स्थानपर 'प्रदोषमुक्' जैसे किसी पाठका आविर्भाव होनेपर मैं आप्तमीमांसाके साथ उसका कोई विरोध नहीं देखता हूँ। और इसी लिये तत्सम्बन्धी अपने निर्णयादिको उम्मेसमय पत्रोंमें प्रकाशित करनेकी कोई जरूरत नहीं समझी गई, वह सब सभीचीनधर्मशास्त्रकी अपनी प्रस्तावनाके लिये सुरक्षित रखा गया था। हाँ, यह बात दूसरी है कि उक्त 'क्षुत्पिपासा' नामक पत्रके प्रक्षिप्त होने प्रथवा मूल ग्रन्थका वास्तविक अंग सिद्ध न होनेपर प्रोफेसर साहबकी प्रकृत-चर्चाका मूलाधार ही समाप्त हो जाता है; क्योंकि रत्नकरण्डके इस एक पत्रको लेकर ही उन्होंने आप्तमीमांसा-गत दीष-स्वरूपके साथ उसके विरोधकी कल्पना करके दोनों ग्रन्थोंके भिन्न-बहुत्वकी चर्चाको उठाया था— शेष तीन आपत्तियाँ तो उसमें बादको पुष्टि प्रदान करनेके लिये शामिल होती रही हैं। और इस पुष्टिसे प्रोफेसर साहबने मेरे उस पत्र-प्रेषणादिको यदि अपनी प्रथम आपत्तिके परिहारका एक विशेष प्रयत्न समझ लिया है तो वह स्वाभाविक है, उसके लिये मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता। मैंने अपनी हट्टि और हितिका स्पष्टीकरण कर दिया है।

मेरा उक्त पत्र जिन विद्वानोंकी भेजा गया था उनमेंसे कुछका तो कोई उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ, कुछने अनवकाशादिके कारण उत्तर देनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की, कुछने अपनी सहमति प्रकट की और शेषने असहमति। जिन्होंने महमति प्रकट की उन्होंने मेरे कथनको 'बुद्धिगम्य तर्कपूर्णं तथा युक्ति-बादको 'अतिप्रबलं' बतलाते हुए उक्त छठे पत्रको संदर्भरूपमें तो स्वीकार किया है; परन्तु जब तक किसी भी प्रत्येक प्रतिमें 'उसका अभाव' न पाया जाय तब तक उसे 'प्रक्षिप्त' कहनेमें अपना संकोच अपरु किया है। और जिन्होंनु असहमति प्रकट की है। उन्होंने उक्त पत्रको 'मूल्यका भौतिक अंग' बतलाते हुए उसके विवरमें भोग्यः इतनी ही सूखना की है कि वह पूर्व-पत्रमें

वर्णित आसके तीन विशेषणोंमें से 'उत्सङ्घ-दोष' विशेषणके स्पष्टोकरण अथवा व्याख्यादिको लिये हुए हैं। और उस सूचनादि परसे यह पाया जाता है कि वह उनके सरसरी विचारका परिणाम है—प्रश्नके अनुरूप विशेष ऊहा-पोहसे काम नहीं लिया गया अथवा उसके लिये उन्हें यथेष्ट अवसर नहीं मिल सका। चुनावे कुछ विद्वानोंने उसकी सूचना भी अपने पत्रोंमें की है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं—

"रत्नकरण्डवाकाचारके जिस इलोककी ओर आपने ध्यान दिलाया है, उसपर मैंने विचार किया मगर मैं अभी किसी नतीजेपर नहीं पहुंच सका। इलोक २ में उच्छ्वसदोष, सर्वज्ञ और आगमेशीको आस कहा है, मेरी हृष्टियें उच्छ्वसदोषनी व्याख्या एवं पुष्टि इलोक ६ करता है और आगमेशीकी व्याख्या इनोक ३ करता है। रही सर्वज्ञता, उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है इसका कारण यह जान पड़ता है कि आसमीमासामें उसकी पृथक् विस्तारसे चर्चा की है इसनिये उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा। इलोक ६ में यद्यपि सब दोष नहीं आते, किन्तु दोषोंकी सख्त्या प्राचीन परम्परामें कितनी थी यह स्वाजना चाहिये। इनोककी शब्दरचना भी समन्वयभवके अनुकूल है, अभी और विचार करना चाहिये।" (यह पूरा उत्तर पत्र है) ।

"इस समय बिल्कुल फुरसतमें नहीं हूँ यहाँ तक कि दो तीन दिन बाद आपके पत्रको पूरा पढ़ सका।पद्यके बारेमें अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, जो समस्याये आपने उसके बारेमें उपस्थित की है वे आपके पत्रको देखनेके बाद ही मेरे सामने आई हैं, इसलिये इसके विषयमें जितनी गहराईके साथ आप सोच सकते हैं मैं नहीं, और किर मुझे इस समय गहराईके साथ निश्चित होकर सोचनेका अवकाश नहीं इसलिये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसमें कितनी छढ़ता होगी यह मैं नहीं कह सकता किर भी आशा है कि आप मेरे विचारों पर ध्यान देंगे।"

हाँ, इन्हीं विद्वानोंमें से तीनने छठे पद्यको सदिग्द अथवा प्रक्रियत करार दिये जाने पर अपनी कुछ शब्दका अथवा चिन्ता भी व्यक्त की है, जो इस प्रकार है—

“(छठे पद्मके सदिग्द होनेपर) ७वे पद्मकी सगति आप किस तरह विठ्ठलाएँसे और यदि ७ वें की स्थिति सदिग्द होजाती है तो ८वाँ पद्म भी अपने आप सदिग्दताकी कोटिमें पहुँच जाता है।”

“यदि पद्म न० ६ प्रकरणके विरुद्ध है, तो ७ और ८ भी सकटमें भ्रस्त हो जायेगे।”

“न० ६ के पद्मको टिप्पणीकारकृत स्वीकार किया जाय तो मूलग्रन्थकार-द्वारा लक्षणमें ३ विशेषण देखकर भी ७-८ में दोका ही समर्थन या स्पष्टी-करण किया गया पूर्व विशेषणके समर्थनमें कोई स्पष्टीकरण नहीं किया यह दोषापत्ति होगी।”

इन तीनों आकृतियों आधारा आपत्तियोका आशय प्रायः एक ही है और वह यह कि यदि छठे पद्मको असगत कहा जावेगा तो ७ वें तथा ८ वें पद्मको भी असगत कहना होगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। छठा पद्म ग्रन्थका अग न रहने पर भी ७ वें तथा ८ वें पद्मको असगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ७वे पद्ममें सर्वज्ञकी, आममेसीकी अथवा दोनों विशेषणोंकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, जैसाकि अनेक विद्वानोंने भिन्न-भिन्न रूपमें उसे समझ लिया है। उसमें तो उपलक्षणरूपसे आसकी नाम-मालाका उल्लेख है, जिसे ‘उपलाप्यते’ पदके द्वारा स्पष्ट घोषित भी किया गया है, और उसमें आसके तीनों ही विशेषणोंको लक्षणमें रखकर नामोका अथावदक मूलतन किया गया है। इस प्रकारकी नाम-माला देनेकी प्राचीन समयमें कुछ पढ़ति जान पड़ती है, जिसका एक उदाहरण पूर्ववर्ती आचार्य कुन्दकुन्दके ‘मावखणाहृद मे और दूसरा उत्तरवर्ती आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के ‘समाधितन’ में पाया जाता है। इन दोनों ग्रन्थमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी नाममालाका जो कुछ उल्लेख किया है वह ग्रन्थ क्रमसे इस प्रकार है—

“मलरहितो कलचत्तो अणिदित्तो केवलो विसुद्धप्पा ।

परमेष्ठी धर्मजित्तो सिवकरो सासद्दो सिद्धां ॥६॥”

“निर्वलः केवलः शुद्धो विविक्तः भ्रमुस्त्वयः ।

परमेष्ठी परस्तमेति परमात्मेश्वरो जिमः ॥६।”

इन पद्धोंमें कुछ नाम तो समान अथवा समानावंक है और कुछ एक दूसरे-से भिन्न है, और इससे यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि परमात्माको उपलक्षित करनेवाले नाम तो बहुत हैं, अन्यकारोंने अपनी-अपनी इवि तथा आवश्यकताके अनुपार उन्हें अपने-प्रपने ग्रन्थमें यथास्वान ग्रहण किया है। समाधितं-प्रन्थके टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रने, 'तद्वाचिकां नाममालां दर्शयन्नाह' इस प्रस्तावना-बाक्यके द्वारा यह सूचित भी किया है कि इस छठे इनोकर्में परमात्माके नामकी वाचिका नाममालाका निदर्शन है। रत्नकरण्डकी टीकाओं भी प्रभाचन्द्राचार्यने 'आत्मस्य वाचिकां नाममालां प्ररूपयन्नाह' इस प्रस्तावना-बाक्यके द्वारा यह सूचना की है कि ७२वें पद्ममें आत्मकी नाममालाका निरूपण है। परन्तु उन्होंने साथमें आत्मका एक विशेषण 'उत्तदोवैविविजितस्य' भी दिया है, जिसका कारण पूर्वमें उत्सन्धशेषकी हड्डिसे आत्मके लक्षणात्मक पद्मका होना कहा जा सकता है; अन्यथा वह नाममाला एकमात्र 'उत्सन्धदोषात्म' की नहीं कही जा सकती; वर्योंकि उसमें 'परंज्योति' और 'सर्वज्ञ' जैसे नाम सर्वज्ञ आत्मके, 'सावंः' और 'शास्ता' जैसे नाम आत्मेती (परमहिनोपदेशक) आत्मके स्पष्ट वाचक भी भीजूद हैं। वास्तवमें वह आत्मके तीनों विशेषणोंको लक्ष्यमें रखकर ही संकलित की गई है, और इसलिये ७२वें पद्मकी स्थिति ५वें पद्मके अनन्तर ठीक बैठ जाती है, उसमें असंगति जैसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी स्थितिमें ७२वें पद्मका नम्बर ६ होजाता है और तब पाठकोंको यह जानकर कुछ आश्चर्यसा होगा कि इन नाममालावाले पद्धोंका तीनों ही ग्रन्थोंमें छठा नम्बर पड़ता है, जो किनी आकस्मिक अथवा रहस्यमय-घटनाका ही परिणाम कहा जा सकता है।

इस तरह छठे पद्मके अवादमें जब ७ वां पद्म असंगत नहीं रहता तब ८वाँ पद्म असंगत हो ही नहीं सकता; युरोंकि वह ७२वें पद्ममें प्रयुक्त हुए 'विराग, और 'शास्ता' जैसे विशेषण-पदोंके विरोधकी शंकाके समाचानरूपमें हैं।

इसके सिवाय, प्रयत्न करने वर भी रत्नकरण्डकी देखी कोई आवीं प्रतिवर्द्धुके अभी उक्त उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, जो प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहलेकी अथवा विकल्पी ११ वीं पाठाद्युकी या उससे भी पहलेकी लिखी हुई हों। अनेकवार कोस्त्वापुरके शारीनसास्वक्षण्डारको दृष्टेवालेके लिये ३० एवं

उपाध्येयीसे निवेदन किया गया; परन्तु हरवार यही उत्तर मिलता रहा कि अद्वारकजी मठमें भौजूद नहीं हैं, बाहर गये हुए हैं—वे अक्सर बाहर ही चूमा करते हैं—और बिना उनकी मौजूदगीके मठके शास्त्रभण्डारको देखा नहीं जा सकता।

ऐसी हालतमें रत्नकरण्डका छठा पद्म अभी तक मेरे विचाराधीन ही चला जाता है। फिलहाल, वर्तमान चर्चाके लिये, मैं उसे मूलग्रन्थका अंग मानकर ही प्रोफेसरमाहबकी चारों आपत्तियोंपर अपना विचार और निरांय प्रकट कर देना चाहता हूँ। और वह निम्न प्रकार है:—

(१) रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील है वह यह है कि 'रत्नकरण्डके क्षुत्पिपासा' नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता—अर्थात् आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विवरमें जो प्रभिमत है वह रत्नकरण्डके उत्तर पद्ममें वर्णित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता—विशद पढ़ता है, और इसलिये दोनों ग्रन्थ एक ही आचार्यकी कृति नहीं हो सकते। इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह मालूम होनेकी जरूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विवरमें क्या अभिमत अथवा अभिप्राय है और उसे प्रोफेसर साहबने कहांसे अवगत किया है?—मूल आप्तमीमांसापरसे? आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे? अथवा आप्तमीमांसाकारके दूसरे ग्रन्थोंपरसे? और उसके बाद यह देखना होगा कि वह रत्नकरण्डके 'क्षुत्पिपासा' नामक पद्मके साथ मेल खाता अथवा संगत बैठता है या कि नहीं।

प्रोफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके स्वरूपका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया—अपने अभिप्रायानुसार उसका केवल कुछ सकेत ही किया है। उसका प्रधान कारण यह मालूम होता है कि मूल आप्तमीमांसामें कहीं भी दोषका कोई स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष' शब्दका प्रयोग कुल पाँच कारिकाओं नं० ४, ६, ५६, ६२, ८० में हुआ है जिनमेंसे पिछली तीन कारिकाओंमें बुद्धपशंचरदोष, बृत्तिदोष और प्रतिज्ञा तथा हेतु-दोषका अमरणः उल्लेख है, आप्तदोषसे सम्बन्ध रखनेवाली केवल ४ और ६ठी कारिकाएँ ही

है और वे दोनों ही 'दोष' के स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। और इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप बाननेके लिये आप्तमीमासाकी टीकाधो तथा आप्तमीमासाकार-की दूसरी कृतियोंका आश्रय लेना होगा। साथ ही प्रन्थके सन्दर्भमें अवश्वा पूर्वापि-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा।

टीकाओंका विचार—

प्रोफेसर साहबने प्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते हुए, अष्ट-सहस्रीटीकाके आधारपर, जिसमें अकलज्ञदेवकी अष्टशती टीका भी शामिल है, यह प्रतिपादित किया है कि 'दोषावरण्योहर्फनि' इस चतुर्थ-कारिकाण्डत वाक्य और 'स त्वमेवासि निर्देवः' इस छठी कारिकाण्डत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोष' शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-द्वेषादिक ऐ वृत्तियोंसे है जो ज्ञाना-वरणादि घातिया कर्मोंमें उत्पन्न होती हैं और केवलीमें उनका अभाव होनेपर नष्ट हो जाती है । इस हृष्टिसे रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यमें उल्लेखित भय, स्मय, राग, द्वेष और मोह ये पाच दोष तो आपको असङ्गत अवश्वा विरुद्ध मालूम नहीं पड़ते, शेष सुधा, पिपासा, जरा, आतङ्क (रोग), जन्म और अन्तक (मरण) इन छह दोषोंको आप असरगत समझते हैं—उन्हे सर्वंया असाता वैदनीयादि अघातिया कर्मजन्य मानते हैं और उनका आप्त-केवलीमें अभाव बतलानेपर अघातिया कर्मोंका सत्त्व तथा उदय बतंमान रहनेके कारण संद्वानिक कठिनाई महसूस करते हैं । परन्तु अष्टसहस्रीमें ही द्वितीया कारिकाके अन्तर्गत 'विग्रहादिमहोदयः' पदका जो अर्थ 'शशवन्निस्वेदत्वादि' किया है और उसे 'घातिक्षयजः' बतलाया है उसपर प्रो० साहबने पूरीतीरपर ध्यान दिया असूम नहीं होता । 'शशवन्नि स्वेदत्वादि' पदमें उन ३४ अघितयों तथा ८ अघितहार्यों का समावेश है जो श्रीपूज्यपादके 'नित्य नि स्वेदत्वं इस भक्तिपाठगत अर्हत्स्तोत्रमें वर्णित है । इन अघितयोंमें अर्हत-स्वयम्भूकी देह-

॥ 'दोषास्ताववज्ञान- राग-द्वेषावय उक्ताः' ।

(अष्टसहस्री का० ६, प० ६२)

† अनेकान्त वर्ष ७, किं० ७-८, प० ६२

‡ अनेकान्त वर्ष ७, किं० ३-४, प० ३१

सम्बन्धी जो १० अंतिशय है उन्हे देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान नहीं रहता और जो जन तथा उपसर्गके अभावरूप (मुक्त्युपसर्गाभावः) जो दो अंतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें कुछ भी और पिण्डासाके लिये कोई अवकाश नहीं मिलता। जो वे 'जन्म' का अभिप्राय पुनर्जन्मसे और 'मरण' का अभिप्राय अप-मृत्यु अथवा उस मरणमें है जिसके अनन्तर दूसरा भव (सप्तरपर्याय) घारण किया जाता है। चातिया कर्मके काय हो जानेपर इन दोनोंकी सम्भावनाभी नष्ट हो जाती है। इस तरह चातिया कर्मके काय होनेपर कुत्पिण्डादि जो वे छहों दोषोंका अभाव होना भी अष्टसहस्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। बसुनन्दि-कृतिमें तो दूसरी कारिकाका अर्थ देते हुए, “कुत्पिण्डाजराज्ञाय-मृत्युवाच्यभाव इत्यर्थ” इस वाक्यके द्वारा कुछ-पिण्डादिके अभावको साफ तौर पर विश्रहादिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विश्रहादि-महोदयको अमानुषातिशय लिखा है तथा अंतिशयको पूर्वविष्याका अंतिरेक बतलाया है। और छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए 'निर्दोष' शब्दके अर्थमें अविद्या-रागादिके साथ कुछादिके अभावको भी सूचित किया है। यथा—

“निर्दोष अविद्यारागादिविरहितः जुदादिविरहितो वा अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन इत्यर्थः।”

इस वाक्यमें 'अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन' पद 'जुदादिविरहित' पदके साथ अपनी खास विशेषता एव महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी प्राविभूति होती है तब उसके सम्बन्धसे कुछादि दोषोंकी स्वतः—“अभाव-हो जाता है अर्थात् उनका अभाव होजाना उसका आनुषङ्गिक फल है—उसके लिये वेदनीयकर्मका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती। और यह ठीक ही है, क्योंकि भोहनीयकर्मके साहचर्य अथवा सहायके विना वेदनीयकर्म अपना कार्य करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह जानावरण—कर्मके कायोपशमसे उत्पन्न हुआ जान वीर्यातरावर्षका अनुकूल अयोपशम साथमें न होनेसे अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता है, अथवा चारों चातिया कर्मोंका अभाव होजानेपर वेदनीयकर्म अपना दुःखोत्पन्नादि कार्य करनेमें उसी-प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार कि भिट्ठी और पानी आदिके विना बीज

अपना अंगुरोत्तरादन कार्य करनेमें असमर्थ होता है। मोहादिके अभावमें वेद-नीयकी वित्ति जीवितशरीर-जैसीन रहकर मृतशरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता अथवा जली रसीनके समान अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं रहती। इस विषयके समर्थनमें किंतने ही शास्त्रीय प्रमाण माप्तस्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, इलोकवातिक, आविपुराण और जयधवला-जैसे ग्रन्थोंपरसे पण्डित दरबारीलालजीके लेखोंमें उद्घृत किये गये हैं कि, जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी ज़रूरत मालूम नहीं होती। ऐसी वित्तिमें क्षुत्पिण्यासा-जैसे दोषोंको सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता—वेदनीयकर्म उहें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। और कोई भी कार्य किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादन कारणके साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ करती है, उन सबका संयोग नहीं बिल्कुल तो कार्य भी नहीं हुआ करता। और इसलिये केवलीमें क्षुधादिका अभाव माननेपर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वेदनीयका सत्त्व और उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामें अनन्तज्ञान-सुख वीर्यादिका सम्बन्ध स्वापित होनेसे वेदनीयकर्मका पुदगल-परमाणुपूद्ज क्षुधादि दोषोंको उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह कि कोई विषद्वय, जिसकी मारण शक्तिको मन्त्र तथा शौषधादिके बलपर प्रक्षीण कर दिया गया हो, मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता है। निःसत्त्व हुए विषद्वयके परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्वयके ही परमाणु कहा जाता है उसी प्रकार निःसत्त्व हुए वेदनीयकर्मके ही परमाणु कहा जाता है इस हृषिसे ही आगममें उनके वेदनीयकर्म-के परमाणुओंको उदयादिकीं वैदेवतस्त्री की नहीं है। उसमें कोई भी वासा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती—और इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि ‘क्षुधादि दोषोंका अभाव माननेपर केवलीमें अधातियाकर्मोंके भी नाशका प्रसङ्ग आता है’^१ उसी प्रकार मुक्तिसङ्कृत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अथवा किसी शौषध-प्रयोगमें विषद्वयकी

॥ अनेकान्त वर्ष ८, किरण ४-५, पृ० १५६-१६।

† अनेकान्त वर्ष ८, किरण ७-८, पृ० ३२।

मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जान पर विषद्वद्वके परमाणुओंका ही अभाव प्रति-पादन करना । प्रत्युत इसके, धातिया कर्मोंका अभाव होनेपर भी यदि वेद-नीकमके उदयादिवश केवलीमे क्षुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनार्थ भोजनादिके ग्रहणकी प्रवृत्तियोंको माना जाता है तो उससे कितनी ही दुर्निवार संदानितक बठिनाइया एवं बाधाएँ उपस्थित होती हैं, जिनमें से दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं—

(क) असातावेदनीयक उदय वश केवलीको यदिभूत्य-प्यासकी वेदनाएँ सताती हैं, जोकि सबलेश परिणामकी प्रविनाभाविनी हैं ६३, नो कवलीमे अनन्तसुखका होना बाधित ठहरता है । और उस दुखको न सह सकनक कारण जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो अनन्तवीय भी बाधित हो जाता है—उसका काई मूल्य नहीं रहता—प्रथवा वीयन्तरायकमका अभाव उसके विरुद्ध पड़ता है ।

(ख) यदि क्षुधादि वेदनाओंके उदय-वश केवलीमे भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमका अभाव हुआ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है और मोहके सदभावमे केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर विशद् हैं ।

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न ढानपर केवलीमे नित्य-ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्यज्ञानोपयोगके न बन सकनेपर उसका ज्ञान छ्यापस्थो (प्रसर्वज्ञो) के समान क्षायोपशमिक ठहरता है—क्षायिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके साथी दशनावरण नामके धातियाकर्मोंका अभाव भी नहीं बनता ।

(घ) वेदनीयकमके उदयजन्य जो सुख-दुख होता है वह सब इन्द्रियजन्य होता है और कवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति रहती नहीं । यदि केवलीमें क्षुधा-तृष्णादिकी वेदनाएँ मानी जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध उपस्थित होगा क्योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादि युगपत् नहीं होते ।

(ङ) क्षुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथास्थानत्वारित्रकी विरोधनी है । भोजनके समय क्षुनिको प्रमत्त (छठा) गुणस्थान होता है और केवली भगवान् १३वें गुणस्थानवर्ती होते हैं जिससे फिर छठेमें लौटना नहीं

बनता। इससे यथास्यातचारित्रको प्राप्त केवली भगवान्‌के भोजनका होना उनकी चर्चा और पदस्थके विशद् पड़ता है।

इस तरह क्षुधादिकी बेदनाएँ और उनकी प्रतिक्रिया मानने पर केवलीमें धातियाकर्मोंका अभाव ही घटित नहीं हो सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सौंदान्तिक बाधा होगी। इसीसे क्षुधादिके अभावको 'धातिकर्मशयजः' तथा 'धनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्य' बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सौंदान्तिक बाधा नहीं रहती। और इसलिये टीकाओंपरसे क्षुधादिका उन दोषों-के रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान्‌में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको क्षुत्पिपासादि दोषोंकी हष्टिसे भी आसमीमांसाके साथ असंगत अश्वा विशद् नहीं कहा जा सकता।

ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच—

अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ विशद् पड़ता है? जहाँ तक मैंने ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच की है और उसके पूर्वाभिप्र-कथन-सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधारपर केवलीमें क्षुत्पिपासादिके सदभावको स्वामी सुमन्तभद्रकी मान्यता कहा जा सके। प्रत्युत इसके; ग्रन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओंमें जिन अतिशयोंका देवागम-नभोयान-चामरादि विभूतियोंके तथा अन्तर्बाह्य-विप्रहादि महोदयोंके रूपमें उल्लेख एव सकेत किया गया है और जिनमें धातिक्षय-जन्य होनेसे क्षुत्पिपासादिके अभावका भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द ग्रन्थमें ऐसा नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी हष्टिमें उन अतिशयोंका केवली भगवान्‌में होना अमान्य समझा जाय। ग्रन्थकारमहोदयने 'मायाविष्वपि हृश्यन्ते' तथा 'दिव्यौऽस्त्वप्यस्ति' इन बाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'अपि' शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित कर दिया है कि वे अहूत्केवलीमें उन विभूतियों तथा विप्रहादिमहोदय-रूप अतिशयोंका सदभाव मानते हैं परन्तु हठनेसे ही वे उन्हें महान् (पूज्य) नहीं समझते; क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र मायाविष्यों (इन्द्रजालियों) तथा रायादि-बुद्ध देवोंमें भी पाये जाते हैं—

भले ही उनमें वे वास्तविक धर्मा उस सत्त्वरूपमें न हों जिसमें कि वे श्रीख-कथाय अहंत्केवलीमें पाये जाते हैं। और इसलिये उनकी मान्यताका आचार केवल आगमाधिन श्रद्धा ही नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुण-ज्ञता धर्मा परीक्षाकी कसीटी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आसाँकी जीव की है और फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे बीर-जिनेन्द्रके प्रति यह कहनेमें समर्थ हुए हैं कि 'वह निर्दर्श आस प्राप ही है'। (सत्त्वमेवासि निर्दोषः)। साथ ही 'युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्' इस पदके द्वारा उस कसीटीको भी व्यक्त कर दिया है जिसके द्वारा उन्होंने आत्मोंके बीतरागता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी परीक्षा की है जिनके कारण उनके बचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधरूप यथार्थ होते हैं, और आगे संक्षेपमें परीक्षाकी तफ़तील भी दे दी है। इस परीक्षामें जिनके आगम-बचन युक्ति-शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वथा एकान्तवादियोंको आस न मान कर 'आत्माभिमानदग्धः' घोषित किया है। इस तरह निर्दर्श-बचन-प्रणयनके साथ सर्वज्ञता और बीतरागता-जैसे गुणोंको आसका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु इसका यह ग्रन्थ नहीं कि आसमें दूसरे गुण नहीं होते, गुण तो बहुत होते हैं किन्तु वे लक्षणात्मक धर्मा इन तीन गुणोंकी तरह ज्ञास तौरसे व्यावर्तात्मक नहीं, और इसलिये आसके लक्षणमें वे भले ही ग्राह्य न हों परन्तु आसके स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें ग्राह्य नहीं कहा जासकता। लक्षण और स्वरूपमें बड़ा अन्तर है—लक्षण-निर्देशमें जहाँ कुछ ग्रसाधारण गुणोंको ही ग्रहण किया जाता है वहाँ स्वरूपके निर्देश धर्मा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिए गुडाइश रहती है। अतः अष्टसहस्रीकारने 'विग्रहादिभूदेवः' का जो ग्रन्थ 'शशवज्जिस्त्वै-दत्त्वादिः' किया है और जिसका विवेचन ऊपर 'किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए श्री० सा०ने जो यह लिखा है कि "शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोंका प्रकट होना न-होना आसके स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्व नहीं रखता" * वह ठीक नहीं है। क्योंकि स्वर्य स्वामी सवन्तभद्रने अपने स्ववाच्मू-स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें शरीर-

सम्बन्धी गुण-घटोंके साथ अन्य भौतिकीय भी जाग्रत है *। और इससे वह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी समन्तबद्ध भौतिकीयोंके मानते थे और उनके स्मरण-चिन्तनको महत्व भी देते थे ।

ऐसी हालतमें आत्मीयांसा अन्यके सन्दर्भकी हालिसे भी आत्ममें सुत्पिपा-सादिकके भ्राताओंको विशद नहीं कहा जा सकता और तब रत्नकरणका उक्त छठ पद्म भी विशद नहीं ठहरता । ही, प्रोफेसर साहबने आप्तमीयांसाकी ६३वीं चाषाको विरोधमें उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है—

पुण्यं भृत्यं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि ।

वीतरागो मुनिविद्वांस्ताम्यां शुच्याभिमित्तः ॥६३॥

इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० सा० का कहना है कि ‘इसमें वीतराग सदंशके दुःखकी वेदना स्वीकार की गई है जो कि कर्मसिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरणके उक्त छठे पद्ममें सुर्जिपाशादिका भ्राताय बताकर दुःखकी वेदना भ्रस्वीकार की गई है जिसकी संगति कर्मसिद्धान्तकी उन

* इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

(क) शारीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते बालकरश्मच्छविरालिलेप २८ । वस्त्याङ्गुलकमीपरिवेषभिन्नं तमस्तमोरेत्रिव रश्मिभिन्नं, ननाश बाह्यं बहुमानसे च ३७ । समन्ततोऽङ्गुलभासां ते परिवेषण मूर्यसा, तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मं ध्यानदेवजसा ६५ । यस्य च मूर्तिः कनकघयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा १०७ । शशिश्चित्पुष्पित्पुष्पिलोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः । तत्र शिवमतिविश्मयं बते यदपि च बाङ्मनसीयमीहितम् ११३ ।

(क) नभकृत्वं पर्स्तवदयज्ञिव त्वं सहस्रपत्राम्बुदगर्भं चारेः पादांम्बुजैः पातित-आरदर्पो भूमो प्रजातां विजहर्षं भूत्ये २६ प्रातिहायविभवैः परिकृतो देहतोऽपि खिल्लो भवानभूत ७३ । मानुषीं प्रकृतिमम्बतीतवान् देवतास्वपि च देवता यतः ७५ । भूत्ये भुवुः प्राङ्मतिविद्यक्षम्भूतस्ताम्बको महि-ओदयः कं न कुर्यात्प्रणाम्भं ते सत्वं नाय सदेवत्यम् ६६ । तत्र वायमृतं शीक्षत्सर्व-आचारास्थभावकं प्रीत्यमर्त्यमूलं बहुतास्तिव्याप्तिः व्यापि संक्षिप्ति ६७ । भूरपि रम्या प्रतिपदमार्दीनवतविकृताम्बुदपुष्पासा १०८ ।

अवस्थाओंके साथ नहीं बैठती जिनके अनुसार केवलीकरण-जन्म वेदनाएँ होती हैं, और इसलिये रत्नकरणका उक्त पद इस कारिकाके सर्वंशा विहृष्ट पड़ता है—दोनों ग्रन्थोंका एककर्त्त्व स्वीकार करनेमें यह विरोध वाधक है* । जहां तक मैंने इस कारिकाके अर्थपर उसके पूर्वापर-सम्बन्धकी विष्णुसे और दोनों विद्वानोंके ऊहापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे इसमें सर्वंशका कही कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्र० साहबका जो यह कहना है कि ‘कारिकागत’ ‘बीतरागः’ और ‘विद्वान्’ पद दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके बाचक हैं और वह व्यक्ति ‘सर्वंश’ है, जिसका दोतक विद्वान् पद साथ में लगा है† वह ठीक नहीं है । क्योंकि पूर्वकारिकामें × जिस प्रकार अचेतन और अक्षय (बीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित करके परमें दुःखःसुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप-पुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष सूचित किया है उसी प्रकार इस कारिकामें भी बीतराग मुनि और विद्वान् ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित करके स्व (निज) में दुःखःसुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्रीकार श्रीविद्यानन्द-धाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है:—

“स्वस्मिन् दुःखोत्पादनात् पुण्यं सुखोत्पादनात् पापमिति यदीत्यते सदा बीतरागो विद्वांश्च मुनिस्ताभ्यां पुण्यपापाभ्यामात्मान् युद्ध्यान्निमित्तसद्भावान्, बीतरागस्य कायवलेशादिरूपदुःखोत्पत्तेविदुपस्तर्व-शानसन्तोषलक्षणसुखोत्पत्तेस्तन्निमित्तत्वान् ।”

इसमें बीतरागके कायवलेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिको और विद्वान्के तत्त्व-शान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिको अलग-अलग बतलाकर दोनों (बीतराग और विद्वान्) के व्यक्तित्वको साफ तीरपर अलग घोषित कर दिया है । और

* अनेकान्त वर्ष ८, किरण ३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि० १, पृ० ६

† अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३४

× पारं पूर्वं परे दुःखात् पुण्यं च सुखस्तो यदि ।

अचेतनाऽक्षयायौ च बध्ययतो निमित्ततः नैर्दृढः ।

इसनिये वीतरागका अभिप्राय यहीं उस छृश्चस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राम-द्वेषकी निवृत्तिरूप सम्यक्हचारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता है—केवलीसे नहीं—और अपनी उस चारित्र-वरिण्यतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं होता। और विद्वान् का अभिप्राय उस सम्यग्हटि अन्तरात्मा के से है जो तत्प्राप्तके अन्यास-द्वारा सन्ताप-सुखका अनुभव करता है और अपनी उस सम्यग्जात-वरिण्यतिके निमित्त-से बन्धको प्राप्त नहीं होता। वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता और शृहस्थ भी परन्तु परमात्मस्वरूप सबज्ञ अथवा आप्त नहीं ।

अत इस कारिकामें जब केवली आप्त या सर्वज्ञका कोई उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन प्राणियोंका उल्लेख है तब रत्नकरण्डके उक्त छठ पद्मके साथ इस कारिकाका सबथा विरोध कैमें घटित किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता—सासकर उस हालतमें जबकि मोहादिकका अभाव और अनन्त-ज्ञानादिकका सदभाव होनसे केवलीमें दुखादिक्की वेदनाएं वस्तुत बननी ही नहीं और जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मोहवीयादि कर्मोंक अभावम सात अमाता वेदनीय जन्य सुख दुखकी स्थिति उस आधारके समान ओपवारिक होती है—वास्तविक नहीं—जो दूसरे प्रकाशके सामने आत ही विसृष्ट हो जाती है और अपना काय करनमें समर्थ नहीं होती। और इसनिये प्राकृतर साहस्रका यह लिखना कि यथायत वेदनीयकम अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य अधातिया कर्मोंक समान सबथा स्वतन्त्र है^{३३} समुचित नहीं है। वस्तुत अधातिया क्या, कोई भी कम अप्रतिहतरूपसे अपनी स्थिति तथा अनुभागादिक अनुरूप फलदान कायकरनमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। किसी भी कमकलिये अनेक कारणोंकी जरूरत पड़ती है और अनक निमित्तोंको पाकर

^{३३} अन्तरात्माके लिये 'विद्वान्' शब्दका प्रयोग आचार्य पूज्यपादने अपने समाधितन्त्रके 'त्यक्त्वारोप पुनविद्वान् प्राप्नोति परम पदम्' इस वाक्यमें किया है और स्वामी समन्नभद्रने 'द्युत्प्राप्तता विद्वान् सततमभिनूज्य नमिजिनम्' तथा 'त्वमसि विदुषा मोक्षपदबी' इन स्वयम्भूस्तोत्रके वाक्योद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही हो सकते हैं।

कर्मोमें संकरण-व्यतिक्रमणादि कार्य हुआ करता है, सभ्यते पहले उनकी निर्जरा भी हो जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको बदला भी जा सकता है। अतः कर्मोंको सर्वथा स्वतन्त्र कहना एकान्त है। विष्यात्व है और मुक्तिका भी निरोधक है।

यहाँ 'बदला' परसे एक उर्ध्योगी शक्ता-समाधान उद्घृत किया जाता है, जिपसे केवलीमें शुचा-तृष्णाके अभावका सकारण प्रदर्शन होनेके साथ साथ प्रोफेसर साहबकी इस शक्ताका भी समाधान हो जाता है कि 'यदि केवली-के मुख-दूःखकी वेदना माननेपर उनके अनन्तमुख नहीं बन सकता तो फिर कर्म सिद्धान्तमें केवलीके साथ और असाधा वेदनीय कर्मका उदय माना ही क्यों जाता है' और वह इस प्रकार है—

"सगसहाय-घादिकम्माभावेण गिस्सत्तिमावण्ण-असादावेदणीय-उदयादो मुक्त्वा तिसाणमणु यत्तोपै णिष्पत्तस्स परमाणुपुञ्जस्स समयं पदि परिसदं (ड) तस्स कष्मुदम्भन्वप्सोऽप्यु, जीव-कम्म-विवेग-मेत्त-फलं दट्टूण उद्यस्स फलत्तमद्भुवगमादो ।"

—तीरसेवामन्दिर प्रति पृ० ३७५, आरा प्रति पृ० ७४१

शक्ता—अपने सहायक वातिथा कर्मोंका अभाव होनेके कारण निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेदनीयकर्मके उदयसे जब (केवलीमें) शुचा-तृष्णाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्पत्त परमाणु पुरुषका कैसे उदय कहा जाता है ?

समाधान—यह शक्ता ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कर्मका विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है।

ऐसी हालतमें ओफेसर साहबक वीतरण सर्वज्ञके दुःखकी वेदनाके स्वीकार-को कर्मसिद्धान्तके मनुकूल और अस्वीकारको प्रतिकूल अथवा असंगत बदलाना किसी तरह भी मुक्त-संगत नहीं ठहर सकता और इस तरह अन्यसन्दर्भके अन्यगत उक्त ६३वीं कारिकारी हिन्दिसे भी रत्नकरणके उक्त छठे पद्मको विशद नहीं कहा जा सकता।

समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंकी छानबीन—

अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्थमें ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त 'क्षुत्पिपासा' पदका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त-केवली या अहंतरमेहुंमें क्षुधादि दोषोंके सद्भावको सूचिन करती हो। जहाँतक मैंने स्वयम्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य ग्रन्थोंकी छानबीन की है, मुझे उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पदके विरुद्ध जाती हो अथवा किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत इमके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेमें आती हैं जिनसे अहंतकेवलीमें क्षुधादि-वेदनाओं अथवा दोषोंके अभावकी सूचना मिलती है। यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं—

(क) 'स्वदोप-शान्त्या विहितात्मशान्तिः' इत्यादि शान्ति-जिनके स्नोत्रमें यह बतलाया है कि शान्ति-जिनेन्द्रने अपने दोषोंकी शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है और इसीमें वे शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चूँकि क्षुधादिक भी दोष हैं और वे आत्मामें अधान्तिके कारण होते हैं—कहा भी है कि "क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना"। अतः आत्मामें शान्तिकी पूण-प्रि-ष्टाके लिये उनको भी शान्ति दिया गया है, तभी जान्तजिन शान्तिके विधाता बने हैं और तभी सारा-सम्बन्धी कलेशों तथा भयोंमें शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनमें प्रार्थना की गई है। और यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा क्षुधादि वेदनाओंसे पीड़ित है—अशान्त है—वह दूसरोंके लिये शान्तिका विधाता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।

(ख) 'त्वं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीता जिन-शान्ति-रूपामवापिथ' इस युक्तपुण्यासनके वाक्यमें बीरजिनेन्द्रको शुद्धि, शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ बतलाया है जो शान्तिकी पराकाष्ठा (अरम-सीमा) क्षेत्र पहुँचा हुआ हो उसमें क्षुधादि वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती।

(ग) 'शर्म शश्वतमवाप शङ्करः' इस धर्म-जिनके श्लोकमें यह बतलाया है कि धर्मनामके अहंतरमेष्ठीने शश्वत सुखकी प्राप्ति की है और इसीमें वे शङ्कर-सुखके करनेवाले हैं शश्वतसुखकी अवस्थावें एक सालके लिये भी क्षुधादि

दुखोका उद्भव सम्भव नहीं। इसीमें श्रीविद्यानन्दाचार्यने दुखोकवार्तिकमें निखा है कि “क्षुधादिवेदनोद्भूती नाहंतोऽनन्तशर्मता” मर्यादित् क्षुधादि वेदनाकी उद्भूति होनेपर अर्हन्तके अनन्तमुख नहीं बनता।

(घ) ‘त्वं शम्भव सम्भवतर्थं’ गौ. सन्तप्त्यमानस्य जनस्य लोके’ इत्यादि स्तवनमें शम्भवजिनको सासारिक तृष्णा-रोगोसे प्रीडित प्राणियोके लिये उन रोगोकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वैद्य बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि अहंज्ञन स्वय-तृष्णा रोगोसे पीडित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तृष्णा-रोगोंको दूर करनेमें समर्थ होते हैं। इसी तरह ‘इदं जगडजन्म-जराज्ञतकार्ता निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्व’ इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे पीडित जगतको निरञ्जना शांतिकी प्राप्ति करनेवाला लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वे स्वय-जन्म-मरणसे पीडित न होकर निरञ्जना शान्तिको प्राप्त थे। निरञ्जना शान्तिमें क्षुधादि वेदनाओंके लिए अवकाश नहीं रहता।

(ङ) ‘अनन्तदायाशय-विप्रहो-प्रहो विषङ्गवान्मोहमयिरचर हृदि’ इत्यादि अनन्तजित्-जितके स्तोत्रमें जिस मोहृपशाचको पराजित करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोका आवारभूत बताया है। इससे स्पष्ट है कि दोषोकी मर्यादा कुछ इनीधिनी ही नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी चढ़ी है—अनन्तदोष तो मोहनीय कमके ही आश्रित रहते हैं। अधिकाश दोषोम मोहकी पुट ही काम किया करनी है। जिन्होने मोहकमका नाश कर दिया है उन्होने अनन्तदोषोका नाश कर दिया है। उन दोषोमेमाहके सहकारसे होनेवाली क्षुधादिकी वेदनाएँ भी यामिल हैं, इसीसे मोहनीयके अभाव होजानपर वेदनीय वर्मको क्षुधादि वेदनाओंके उत्पन्न करनेमें असमर्थ बतलाया है।

इस तरह मूल आप्तमीमासा द्रव्य, उसके हृदी कारिका-सहित ग्रन्थ-संदर्भ, अष्टसहस्री आदि टीकाओं और ग्रन्थकारके दूसरे ग्रन्थोंके उपर्युक्त विवेचनपरसे यह भने प्रकार स्पष्ट है कि रत्नकरण्डका उक्त क्षुत्पिपासादि-पद्धति स्वामी समन्तभद्रके किसी भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता। मर्यादित् उसमें दोषका क्षुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमासाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमासाकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है, बल्कि उन सबके साथ सङ्ग्रह है। और इसलिये

उक्त पद्धको लेकर आपतमीमासा और रत्नकरण्डका मिल-कर्तृत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः इस विषयमे प्रोफेसर साहबकी प्रथम आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता—वह किसी तरह भी समुचित प्रतीत नहीं होती।

अब मैं प्रो० हीरालालजीकी ओष्ठ तीनों आपत्तियोपर भी अपना विचार और निर्णय प्रकट कर देना चाहता हूँ; परन्तु उसे प्रकट कर देनेके पूर्व यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रो० साहबने, अपनी प्रथम मूल आपत्तिको ‘जैन-साहित्यका एक विलुप्त अध्याय’ नामक निबन्धमे प्रस्तुत करते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि ‘रत्नकरण्डशावकाचार कुन्दकुन्दाचारके उपदेशोके पश्चात् उन्होंके समर्थनमे लिखा गया है, और इसलिये इसके कर्ता वे समन्त-भद्र हो सकते हैं जिनका उल्लेख शिलालेख व पट्टावनियोमे कुन्दकुन्दके पश्चात् पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय वीरनिवासियों से लगभग ६५० वर्ष पश्चात् (वि० सं० १८०) सिद्ध होता है—फलत रत्न-करण्डशावकाचार और उसके कर्ता समन्तभद्रका समय विक्रमीकी दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमे आमतौर पर माना भी जाता है)।’ साथ ही यह भी बतलाया था कि ‘रत्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके मुह भी हो सकते हैं जो रत्नमालाके कर्ता हैं’^४। इस पिछली बातपर आपत्ति करते हुए प० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोके आधारपर जब यह प्रदर्शित किया कि रत्नमाला एक आधुनिक ग्रन्थ है, रत्नकरण्डशावकाचारसे शताब्दियों बादकी रचना है, विक्रमी ११ वीं शताब्दीके पूर्वार्धी तो वह ही नहीं सकती और न रत्नकरण्डशावकाचारके कर्ता समन्तभद्रके साक्षात् शिष्यकी हृति हो सकती है^५। तब प्रो० साहबने उत्तरकी धूममे कुछ कल्पित युक्तियोके आधारपर यह तो लिख दिया कि “रत्नकरण्डका समय विद्यानन्दके समय (ईसवी सन् ८१६ के लगभग) के पश्चात् और बादिराजके समय अर्थात् शक सं० ६४३ (ई० सन् १०२५) के पूर्व सिद्ध होता है। इस समयावधिके प्रकाशमें रत्नकरण्डशावकाचार

^४ जैन-इतिहासकार एक विलुप्त अध्याय प० १८, २०

^५ अनेकानन्द-बृहदी०, किरण १२, प० ३८०-३८२

और रत्नमालाका रचनाकाल समीप आजाते हैं और उनके बीच क्षताभियोंका अन्तराल नहीं रहता”*। साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप भी दे दिया †; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब प्रयत्न और कथन उनके पूर्वकथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध जाता है। उन्हें या तो अपने पूर्व-कथनको बापिस ले लेना चाहिये या और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आपत्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये या। दोनों परस्पर विरुद्ध वातें एक साथ नहीं चल सकती।

अब यदि प्रोफेसर साहब अपने उस पूर्वं कथनको बापिस लेते हैं तो उनकी वह विषयोरी (Theory) अथवा मत-मान्यता ही बिगड़ जाती है जिसे लेकर वे ‘जैन-साहित्यका एक विलुप्त अध्याय’ लिखनेमें प्रवृत्त हुए हैं और यहाँ नक लिख गये हैं कि ‘बोडिक-मह्मूके संस्थापक शिवभूति, स्थविरालीमें उल्लिखित आर्य शिवभूति, भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्य और उमास्वातिके गुरुके गुरु शिवश्री ये चारों एक ही व्यक्ति हैं। इसी तरह शिवभूतिके शिव्य एवं उत्तराधिकारी भद्र, नियुक्तियोंके कर्ता भद्रबाहु, द्वादश-वर्णीय दुर्भिक्षकी भविष्यवाणीके कर्ता व दक्षिणापथको विहार करने वाले भद्रबाहु, कुन्दकुन्दाचार्यके गुरु भद्रबाहु, बनवासी सङ्घके प्रस्थापक समन्तभद्र और आत्मीयांसाके कर्ता समन्तभद्र ये सब भी एक ही व्यक्ति हैं।’

और यदि प्रोफेसर साहब अपने उस पूर्वकथनको बापिस न लेकर विद्धली तीन युक्तियोंको ही बापिस लेते हैं तो फिर उनपर विचारकी चरूरत ही नहीं रहती—प्रथम भूल आपत्ति ही विचारके योग्य रह जाती है और उसपर ऊपर विचार किया ही जा सकता है।

यह भी हो सकता है कि प्रो० साहबके उक्त विलुप्त अध्यायके विरोधमें जो दो लेख (१ क्या नियुक्तिकार भद्रबाहु और स्वामी समन्तभद्र एक हैं ?, २ शिवभूति, शिवार्य और शिवकुमार) वीरसेवामन्दिर के विद्वानों द्वारा लिखे

* अनेकान्त वर्ष ७, किंरण ५-६, पृ० ५४

† अनेकान्त वर्ष ८, किं० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ८, किं० १ पृ० ६, १०

जाकर अनेकान्तमें प्रकाशित हुए हैं। और जिनमें विभिन्न आचार्योंके एकीकरण-की मान्यताका ग्रन्तिपुरस्सर खण्डन किया गया है तथा जिनका अभीतक कोई भी उत्तर साढ़े तीन वर्षोंका समय बीत जानेपर भी प्रो० साहबकी तरफसे प्रकाशमें नहीं आया, उनपरसे प्रो० साहबका विलुप्त-ग्रन्थाय-सम्बन्धी अपना अधिकांश विचार ही बदल गया हो और इसीसे वे विश्व कथन-द्वारा शेष तीन आपत्तियोंको खड़ा करनेमें प्रवृत्त हुए हों। परन्तु कुछ भी हो, ऐसी अनिश्चित दशामें मुझे तो शेष तीनों आपत्तियोंपर भी अपना विचार एवं निर्णय प्रकट कर देना ही चाहिये। तदनुसार ही उसे आगे प्रकट किया जाता है।

(२) रत्नकरण्ड और आत्मीमांसाका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध करनेके लिये प्रो० साहबकी जो दूसरी दलील (युक्ति) है वह यह है कि “रत्नकरण्डका कोई उल्लेख शक संतत ६४७ (बादिराजके पार्वत्यनाथचरितके रचनाकाल) से पूर्वका उपलब्ध नहीं है तथा उसका आत्मीमांसाके साथ एककर्तृत्व बतलानेवाला कोई भी सुप्राचीन उल्लेख नहीं पाया जाता।” यह दलील वास्तवमें कोई दलील नहीं है; क्योंकि उल्लेखाभ्युपलब्धिका भिन्नकर्तृत्वके साथ कोई भविनाभावी सम्बन्ध नहीं है—उल्लेखके न मिलने पर भी दोनोंका एक कर्ता होनेमें स्वरूप-से कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। इसके सिवाय, यह प्रश्न पैदा होता है कि रत्नकरण्डका वह पूर्ववर्ती उल्लेख प्रो० सा० को उपलब्ध नहीं है या किसीको भी उपलब्ध नहीं है अथवा वर्तमानमें कहीं उसका अस्तित्व ही नहीं और पहले भी उसका अस्तित्व नहीं था? यदि प्रो० साहबको वह उल्लेख उपलब्ध नहीं और किसी दूसरेको उपलब्ध हो तो उसे अनुपलब्ध नहीं कहा जासकता—भले ही वह उसके द्वारा अभी तक प्रकाशमें न लाया गया हो। और यदि किसीके द्वारा प्रकाशमें न लाये जानेके कारण ही उसे दूसरोंके द्वारा भी अनुपलब्ध कहा जाय और वर्तमान साहित्यमें उसका अस्तित्व हो तो उसे सर्वथा अनुपलब्ध अथवा उस उल्लेखका अस्तित्वका अभाव तभी कहा जा सकता। और वर्तमान साहित्यमें उस उल्लेखके अस्तित्वका अभाव तभी कहा जा सकता है जब सारे साहित्यका भले प्रकार अवलोकन करने पर वह उनमें न पाया

जाता हो। सारे बतमान जैनसाहित्यका प्रबलोकन न तो प्र० साहबने किया है और न किसी दूसरे विद्वान्‌के द्वारा ही वह अभी तक हो पाया है। और जो साहित्य सुन्त हो चुका है उसमें वैसा कोई उल्लेख नहीं था इसे तो कोई भी हड़ताके साथ नहीं कह सकता। प्रत्युत इसके, वादिराजके सामने शक सं० ६४७ में जब रत्नकरण्ड-सूब प्रसिद्धिको प्राप्त था और उससे कोई ३० या ३५ वर्ष बाद ही प्रभाचन्द्राचार्यने उसपर संस्कृत टीका लिखी है और उसमें उसे साफ़ तौरपर स्वामी समन्तभद्रकी कृति घोषित किया है, तब उसका पूर्व साहित्यमें उल्लेख होना बहुत कुछ स्वाभाविक जान पड़ता है। वादिराजके सामने कितना ही जैनसाहित्य ऐसा उपस्थित था जो आज हमरे सामने उपस्थित नहीं है और जिसका उल्लेख उनके ग्रन्थोंमें मिलता है। ऐसी हालतमें पूर्ववर्ती उल्लेखका उपलब्ध न होना कोई खास महत्व नहीं रखता और न उसके उपलब्ध न होने मात्रसे रत्नकरण्डकी रचनाको वादिराज के सम सामयिक ही कहा जा सकता है, जिसके कारण आप्तमीमांसा और रत्नकरण्डके भिन्न कर्तृत्वकी कल्पनाको बल मिलता।

दूसरी बात यह है कि उल्लेख दो प्रकार का होता है—एक ग्रन्थनामका और दूसरा ग्रन्थके साहित्य तथा उपके किसी विषय-विशेषका। वादिराजसे पूर्वक जो साहित्य अभीतक अपनेको उपलब्ध है उसमें यदि ग्रन्थका नाम 'रत्नकरण्ड' उपलब्ध नहीं होता तो उससे क्या? रत्नकरण्डका पद-वाक्यादिके रूपमें साहित्य और उसका विषय विजेय तो उपलब्ध हो रहा है; तब यह कैसे कहा जा सकता है कि रत्नकरण्डका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है? नहीं कहा जा जा सकता। प्र० पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थोंपर-से उनके द्वारा प्रतिशादित अर्थको कहीं शब्द। नुसरणके, कहीं पदानुसरणके, कहीं वाक्यानुसरणके, कहीं प्रथानुसरणके, कहीं भावानुसरणके, कहीं उदाहरणके, कहीं पर्यायशब्दप्रयोगके और कहीं ध्यारूपान-विवेचनादिके रूपमें पूर्णतः अथवा अंशतः अपनाया है—प्रहरण किया है—और जिसका प्रदर्शन मैंने 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव' नामक अपने लेखमें किया है। उसमें

आपतमीमांसा, स्वयंभूस्तोत्र और युक्त्यनुशासनके अलावा रत्नकरण्डशाबकाचार्यके भी कितने ही पद-वाक्योंको तुलना करके रखा गया है जिन्हें सर्वार्थ-सिद्धिकारने अपनाया है, और इस तरह जिनका सर्वार्थसिद्धिमें उल्लेख पाया जाता है। अकलकूदवेके तत्त्वार्थराजवातिक और विद्यानन्दके श्लोकवातिकमें भी ऐसे उल्लेखोंकी कमी नहीं है। उदाहरणके तौरपर तत्त्वार्थ-सूत्रगत उद्दे अध्यायके 'दिग्देशाज्ञयंदण्ड' नामक २१ वें सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले "भोग-परिभोग-संख्यानं पञ्चविधं त्रसघात-प्रमाद-बहुवधाऽनिष्टाऽनुपसेव्य-विषयमेदात्" इस उभय-वातिक-गत वाक्य और इसकी व्याख्याओंको रत्नकरण्डके 'त्रसहतिपरिहरणार्थं,' 'अल्पफलबहुविधातात्,' 'यदनिष्टं तद् ब्रतयेत्' इन तीन पद्यों (नं० ८४, ८५, ८६) के साथ तुलना करके देखना चाहिए, जो इस विषयमें अपनी स्खास विशेषता रखते हैं।

परन्तु मेरे उक्त लेखपरसे जब रत्नकरण्ड और सर्वार्थसिद्धिके कुछ तुलनात्मक अंश उदाहरणके तौरपर प्रो० साहबके सामने बतलानेके लिए रखे गये कि 'रत्नकरण्ड सर्वार्थसिद्धिके कर्ता पूज्यपादसे भी पूर्वकी कृति है और इसलिये रत्नमालाके कर्ता शिवकोटिके गुरु उसके कर्ता नहीं हो सकते' तो उन्होंने उत्तर देते हुए लिख दिया कि "सर्वार्थसिद्धिकारने उन्हें रत्नकरण्ड से नहीं लिया, किन्तु सम्भव है रत्नकरण्डकारने ही अपनी रचना सर्वार्थसिद्धि-के आधारसे की हो"। साथ ही, रत्नकरण्डके उपान्यपद्म 'येन स्वयं वीतकलकूविद्या' को लेकर एक नई कल्पना भी कर डाली और उसके आधारपर यह घोषित कर दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना न केवल पूज्यपादसे पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलकू और विद्यानन्दसे भी पीछे की है'। और इसीको आगे रत्नकरण्डकी वीथी आपत्तिका रूप दे दिया। यहाँ भी प्रोफेसर साहबने इस बातको भुला दिया कि 'शिलालेखोंके उल्लेखानुसार कुन्दकुन्दा-चार्यके उत्तरवर्ती जिन समन्तभृतको रत्नकरण्डका कर्ता बतला आए हैं उन्हें तो शिलालेखोंमें भी पूज्यपाद, अकलकू और विद्यानन्दके पूर्ववर्ती लिखा है, तब उनके रत्नकरण्डकी रचना अपने उत्तरवर्ती पूज्यपादादिके बाद-की अथवा सर्वार्थसिद्धिके आधारपर की हुई कैसे हो सकती है?' अस्तु; इस विषयमें विशेष विचार चौथी आपत्तिके विचारात्वसंरपर ही किया जायगा।

महां पर में साहित्यिक उल्लेखका एक दूसरा स्पष्ट उदाहरण ऐसा उपस्थित कर देना चाहता हूँ जो ईसाकी ७वीं शताब्दीके ग्रन्थमें पाया जाता है और वह है स्तनकरण्डशावकाचारके निम्न पद्धका सिद्धेनके न्यायावतारमें ज्योंका द्यों उद्घृत होना—

आपोपञ्चमनुज्ञांच्यमद्वटेष्ट-विरोधकम् ।
तत्त्वोपदेशकृत्सवं शास्त्रं कापथ-घट्नम् ॥६॥

यह पद्ध रत्नकरण्डका एक बहुत ही आवश्यक अंग है और उसमें यथास्थान-यथाक्रम भूलभूपसे पाया जाता है । यदि इस पद्धको उक्त ग्रन्थसे अलग कर दिया जाय तो उसके कथनका सिलसिला ही बिगड़ जाय । क्योंकि ग्रन्थमें, जिन आस आगम (शास्त्र) और तपोभूत (तपस्त्री) के अष्ट अगसहित और त्रिमूढतादि-रहित श्रद्धानको सम्यगदर्शन बतलाया गया है उनका क्रमशः स्वरूप-निर्देश करते हुए, इस पद्धसे पहले 'आस' का और इसके अनन्तर 'तपोभूत' का स्वरूप दिया है; यह पद्ध यहीं दोनोंके मध्यमें अपने स्थानपर स्थित है, और अपने विषयका एक ही पद्ध है । प्रत्युत इसके, न्यायावतारमें, जहाँ भी यह नम्बर ६ पर स्थित है, इस पद्धकी स्थिति मीलिकताकी हृषिसे बहुत ही सन्दिग्ध जान पड़ती है— यह उसका कोई आवश्यक अञ्ज मालूम नहीं होता और न इसको निकाल देनेसे वहीं ग्रन्थके सिलसिलेमें अथवा उसके प्रतिपाद्य विषयमें ही कोई बाधा आती है । न्यायावतारमें परोक्ष प्रमाणके 'अनुमान' और 'शाब्द' ऐसे दो भेदोंका कथन करते हुए, स्वार्थानुमानका प्रतिपादन और समर्थन करनेके बाद इस पद्धसे ठीक पहले 'शाब्द' प्रमाणके लक्षणका यह पद्ध दिया हुआ है—

* दृष्टेष्टाव्याहृताद्वाक्यात् परमार्थाभिधायिनः ।

तत्त्वप्राहितयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तिकृष्टम् ॥६॥

इस पद्धकी उपस्थितिमें इसके बादका उपयुक्त पद्ध, जिसमें शास्त्र (आगम) का लक्षण दिया हुआ है, कई कारणोंसे व्यवहृत है । प्रब्रह्म तो उसमें शास्त्र-

* सिद्धधिकी टीकामें इसु पद्धसे पहले यह प्रस्तावना-वाक्य दिया हुआ है—
‘तदेवं स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्वत् भान्तताविप्रतिपर्ति च निराकृत्य
अपुना प्रतिपादितपरार्थानुमानलक्षणं एवाल्पवक्तव्यत्वात् तावच्छान्दसक्षणमाह’ ।

का लक्षण आगम-प्रमाणरूपसे नहीं दिया—यह नहीं बतलाया कि ऐसे शास्त्रसे उत्पन्न हुआ ज्ञान † आगमप्रमाण अथवा शाब्दप्रमाण कहलाता है, बल्कि सामान्यतया आगमपदार्थके रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे 'रत्नकरण्डमें सम्यगदर्शन-' का विषय बतलाया गया है। इसरे, शाब्दप्रमाणसे शास्त्रप्रमाण कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्दप्रमाणके बाद पृथक् रूपसे उल्लेख करनेकी जरूरत होती, बल्कि उसीमें अन्तर्भूत है। टीकाकारने भी, शाब्दके 'लौकिक' और 'शास्त्रज' ऐसे दो भेदोकी कल्पना करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोंका ही लक्षण इस आठवें पदमें आगया है ‡। इससे ह वे पदमें शाब्दके 'शास्त्रज' भेदका उल्लेख नहीं, यह और भी स्पष्ट होजाता है। तीसरे, ग्रन्थभर-में, इससे पहले, 'शास्त्र या 'आगम-शब्दका कही प्रयोग नहीं हुआ जिसके स्वरूपका प्रतिपादक ही यह ह वाँ पद समझ लिया जाता, और न 'शास्त्रज' नामके भेदका ही मूलग्रन्थमें कोई निर्देश है, जिसके एक भवयव (शास्त्र) का लक्षण-प्रतिपादक यह पद हो सकता। चौथे, यदि यह कहा जाय कि द्वे पदमें 'शाब्द' प्रमाणको जिस बाक्यसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया है उसीका 'शास्त्र नामसे अगले पदमें स्वरूप दिया गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि द्वे पदमें ही 'हृष्टेष्टाव्याहती' आदि विशेषणोंके द्वारा बाक्यका स्वरूप दे दिया गया है और वह स्वरूप अगले पदमें दिये हए शास्त्रके स्वरूपसे प्रायः मिलता-जुलता है—उसके 'हृष्टेष्टाव्याहत' का 'अहृष्टेष्टाविरोधक'के साथ साम्य है और उसमें 'अनुल्लङ्घ' तथा 'प्रातोपज्ञ' विशेषणोंका भी समावेश हो सकता है, 'परमार्थाभिधायि' विशेषण 'कापथधट्ट' और 'सावं' विशेषणोंके भावका छोतक है, और शाब्दप्रमाणको 'तत्त्वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट छवनित है कि वह बाक्य 'तत्त्वोपदेशकृत' माना गया है—इस तरह दोनों पदोंमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। ऐसी हालतमें समर्थनमें उद्धरणके सिवाय

[†] स्व-परावभासी निर्बाध ज्ञानको ही न्यायावतारके प्रथम पदमें प्रमाणका लक्षण बतलाया है, इसलिये प्रमाणके प्रत्येक भेदमें उसकी व्याप्ति होनी चाहिये।

[‡] "शाब्द च द्विषा भवति—सौकिक शास्त्रज चेति। तत्रेद द्व्योरपि साधारण लक्षण प्रतिपादितम्"।

ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ उसकी दूसरी कोई गति नहीं; उसका विवर पुनरुक्त ठहरता है। पांचवें, ग्रन्थकारने स्वयं अगले पद्धतें वाक्यको उपचारसे 'परायनिमान' बतलाया है। यथा—

स्व-निश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः ।
परार्थं मानमाख्यात वाक्यं तदुपचारतः ॥१०॥

इन सब बातों अथवा कारणोंसे यह स्पष्ट है कि न्यायावतारमें 'भासी-पञ्ज' नामका ६ वें पद्धति बहुत ही सन्दिग्ध है, वह मूल ग्रन्थका पद्धति भालूम नहीं होता। उसे मूलग्रन्थकार-विवरचित ग्रन्थका आवश्यक अङ्ग भानने-से पूर्वोत्तर पद्धतोंके मध्यमें उसकी स्थिति अर्थं पढ़ जाती है, ग्रन्थकी प्रति-पादन-क्षीली भी उसे स्वीकार नहीं करती, और इसलिये वह अवश्य ही वहां एक उद्धृत पद्धति जान पड़ता है, जिसे 'वाक्य' के स्वरूपका समर्थन करनेके लिये रत्नकरण्डपरसे 'उक्तञ्च' आदिके रूपमें उद्धृत किया गया है। उद्धरणका यह कार्य यदि मूलग्रन्थकारके द्वारा नहीं हुआ है तो वह; अधिक समय बादका भी नहीं है, क्षेत्रोंकि विकल्पकी १० वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य सिद्धार्थकी टीकामें यह मूलरूपसे परिणीत है, जिससे यह मालूम होता है कि उन्हें अपने समर्थमें न्यायावतारकी जो प्रतियां उपलब्ध थी उनमें यह पद्धति मूलका अङ्ग बना हुआ था। और जबतक सिद्धार्थसे पूर्वकी किसी प्राचीन प्रतियों उक्त पद्धति अनुग्रालब्ध न हो तबतक प्रो० साहब तो अपनी विचार-पद्धति' के अनुसार यह कह ही नहीं सकते कि वह ग्रन्थका अङ्ग नहीं—ग्रन्थकारके द्वारा योजित नहीं हुआ अथवा ग्रन्थकार-से कुछ प्रथिक समय बाद उसमें प्रविष्ट या प्रक्षिप्त हुआ है। चुनौती प्रो० साहबने वैसा कुछ कहा भी नहीं और न उस पद्धतेके न्यायावतारमें उद्धृत होने-

क्षेत्रो० साहबकी इस विचारपद्धतिका दर्शन उस पत्रपरसे भले प्रकार होसकता है जिसे उन्होंने मेरे उस पत्रके उत्तरमें लिखा था जिसमें उन्हें रत्नकरण्डके उन सात पद्धतों की बाबत संयुक्तक राय मांगी गई थी जिन्हें मैंने रत्नकरण्डकी प्रस्तावनामें सन्दिग्ध करार दिया था और जिस पत्रको उन्होंने मेरे पत्र-सहित अपने पिछले लेख (अनेकान्त वर्ष ६ कि० १ पृ० १२) में प्रकाशित किया है।

की बातका स्पष्ट शब्दोंमें कोई युक्तिपुरस्सर विरोध ही प्रस्तुत किया है—वे उसपर एकदम भौत हो रहे हैं।

अतः ऐसे प्रबल साहित्यिक उल्लेखोंकी भौत्तिकीमें रत्नकरण्डको विक्रमकी ११वीं शताब्दीकी रचना अथवा रत्नमालाकारके गुरुकी कृति नहीं बतलाया जा सकता और न इस कल्पित समयके आधार पर उसका आत्मीयांसासे भिन्नकर्तृत्व ही प्रतिपादित किया जा सकता है। यदि प्रो० साहब साहित्यके उल्लेखादिको कोई महत्व न देकर प्रन्थके नामोल्लेखको ही उसका उल्लेख समझते हों तो वे आत्मीयांसाको कुन्दकुन्दाचार्यसे पूर्वकी तो क्या, अकलङ्क-के समयसे पूर्वकी भयवा कुछ अधिक पूर्वकी भी नहीं कह सकेंगे; वर्णोंकि अकलङ्कसे पूर्वके साहित्यमें उसका नामोल्लेख नहीं मिल रहा है। ऐसी हालतमें प्रो० साहबकी दूसरी आपत्तिका कोई महत्व नहीं रहता, वह भी समुचित नहीं कही जा सकती और न उसके द्वारा उनका अभिमत ही मिछ किया जा सकता है।

(३) रत्नकरण्ड और आत्मीयांसाका भिन्नकर्तृत्व सिढ़ करनेके लिये प्रोफेसर हीरालालजीकी जो तीसरी दलील (युक्ति) है उसका सार यह है कि ‘वादिराज-सूरिके पाश्वनाथचरितमें आत्मीयासाको तो ‘इवागम’ नामसे उल्लेख करते हुए ‘स्वामि-कृत’ कहा गया है और रत्नकरण्डको स्वामिकृत न कहकर ‘योगीन्द्रकृत’ बतलाया है। ‘स्वामी’ का अभिप्राय स्वामी समन्तभद्रसे और ‘योगीन्द्र’ का अभिप्राय उस नामके किसी आचार्यसे अथवा आत्मीयांसाकारसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रसे है। दोनों प्रन्थोंके कर्ता एक ही समन्तभद्र नहीं हो सकते अथवा यों कहिये कि वादिराज-सम्मत नहीं हो सकते; वर्णोंकि दोनों प्रन्थोंके उल्लेख-सम्बन्धी दोनों पदोंके अध्ययमें ‘अविन्द्य-महिमादेवः’ नामका एक पद पड़ा हुआ है जिसके ‘देव’ शब्दका अभिप्राय देवनन्दी पूज्यपादसे है और जो उनके शब्दशास्त्र (जीनेन्) की सूचनाको साथमें लिए हुए हैं। जिन पदों-परसे इस युक्तिवाद अथवा रत्नकरण्ड और आत्मीयांसाके एकर्तृत्वपर आपत्तिका जन्म हुआ है वे इस प्रकार हैं:—

“स्वामिनिश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वाङ्गो येनाऽश्यापि प्रदर्शयते ॥ १७ ॥

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवन्धो हितैषिणा ।
शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्वं प्रतिलभ्मिताः ॥१८॥
त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाऽह्यसुखावहः ।
अर्थिने भव्यसार्थीय द्विष्टो रत्नकरण्डकः ॥१९॥

इन पद्मोंमें जिन प्रथम और तृतीय पद्मोंमें ग्रन्थोंका नामोल्लेख है उनका विषय स्पष्ट है और जिसमें किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नहीं है उस द्वितीय पद्मका विषय मस्तक है, इस बातको प्रोफेसर साहबने स्वयं स्वीकार किया है। और इसीलिये द्वितीय पद्मके आशय तथा अर्थ-विषयमें विवाद है—एक उसे स्वामी समन्तभद्रके साथ सम्बन्धित करते हैं तो दूसरे देवनन्दी पूज्यपादके साथ। यह पद्म यदि कममें तीसरा हो और तीसरा दूसरे के स्थानपर हो, और ऐसा होना लेखकोंकी कृपासे कुछ भी असम्भव या अस्वाभाविक नहीं है, तो फिर विवादके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता; तब देवागम (प्राप्तमीमांसा) और रत्नकरण्डदोनों निविवादरूपमें प्रचलित मान्यताके अनुरूप स्वामी समन्तभद्रके साथ सम्बन्धित हो जाते हैं और योष पद्मका सम्बन्ध देवनन्दी पूज्यपाद और उनके शब्द-शास्त्रसे लगाया जा सकता है। चूंकि उक्त पाश्वनाथवर्चित-सम्बन्धी प्राचीन प्रतियोंकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे पद्मोंकी क्रमभिन्नताका पता चलता और जिसकी कितनी ही सम्भावना जान पड़ती है, अतः उपलब्ध क्रमको लेकर ही इन पद्मोंके प्रतिपाद्य विषय अथवा फलितार्थपर विचार किया जाता है:—

पद्मोंके उपलब्ध क्रमपरसे दो बाते फलित होती हैं—एक तो यह कि तीनों पद्म स्वामी समन्तभद्रकी स्तुतिको लिये हुए हैं और उनमें उनकी तीन कृतियोंका उल्लेख है; और दूसरी यह कि तीनों पद्मोंमें क्रमशः तीन आचार्यों और उनकी तीन कृतियोंका उल्लेख है। इन दोनोंमेंसे कोई एक बात ही अन्यकारके द्वारा अभिमत और प्रतिपादित हो सकती है—दोनों नहीं। वह एक बात कौनसी हो सकती है, यही यहीं पर विचारणीय है। तीसरे पद्ममें उल्लिखित ‘रत्नकरण्डक’ यदि वह रत्नकरण्ड या रत्नकरण्डश्रावकाचार नहीं है जो स्वामी समन्तभद्रकी कृतिरूप से प्रसिद्ध और प्रचलित है, तिक्क ‘योगीन्द्र’ नामके आचार्य-द्वारा रचा हुआ उसी नमा-

का कोई दूसरा ही मन्त्र है, तब तो यह कहा जा सकता है कि तीनों पद्मोंमें तीन आचार्य और उनकी कृतियोंका उल्लेख है— भले ही वह दूसरा रत्नकरण्ड कहीं पर उपलब्ध न हो अथवा उसके अस्तित्वको प्रमाणित न किया जा सके । और तब इन पद्मोंको लेकर जो विवाद सड़ा किया गया है वही स्थिर नहीं रहता— समाप्त हो जाता है अथवा यों कहिये कि प्रोफेसर शाहबकी तीसरी आपत्ति निराधार होकर बेकार हो जाती है । परन्तु प्रो० साहबको दूसरा रत्नकरण्ड इष्ट नहीं, तभी उन्होंने प्रचलित रत्नकरण्डके ही छठे पद्म ‘कृत्पिपासा’ को आत्ममांसाके विरोधमें उपस्थित किया था, जिसका ऊपर परिहार किया जा चुका है । और इसलिये तीसरे पद्ममें उल्लिखित ‘रत्नकरण्डक’ यदि प्रचलित रत्नकरण्डशावकाचार ही है तो तीनों पद्मोंको स्वामी समन्तभद्रके साथ ही सम्बन्धित कहना होगा, जबतक कि कोई स्पष्टबाधा इसके विरोधमें उपस्थित न की जाय । इसके सिवाय, दूसरी कोई गति नहीं; क्योंकि प्रचलित रत्नकरण्डको आत्ममांसाकार स्वामी समन्तभद्रकृत माननेमें कोई बाधा नहीं है, जो बाधा उपस्थित की गई थी उसका ऊपर दो आपत्तियोंका विचार करते हुए भले प्रकार निरसन किया जा चुका है और यह तीसरी आपत्ति अपने स्वरूपमें ही स्थिर न होकर प्रसिद्ध तथा सदिगम बनी हुई है । और इसलिये प्रो० साहबके अभिमतको सिद्ध करनेमें असमर्थ है । जब आदि-अन्तके दोनों पद्म स्वामी समन्तभद्रसे सम्बन्धित हों तब मध्यके पद्मको दूसरेके साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । उदाहरणके तौरपर कल्पना कीजिये कि रत्नकरण्डके उल्लेख बाले तीसरे पद्मके स्थानपर स्वामी समन्तभद्र-प्रणीत स्वयंभूस्तोत्रके उल्लेखको लिये हुए निम्न प्रकारके आशयका कोई पद्म है:—

‘स्वयम्भूम्तुतिकर्तारं भस्मव्याघि-विनाशनम् ।
विराग-द्वेष-वादादिमनेकान्तमर्तं नुमः ॥’

ऐसे पद्मकी मौजूदवरीमें क्या द्वितीय पद्ममें उल्लिखित ‘देव’ शब्दको देवनन्दी पूज्यपादका बाचक कहा जा सकता है ? यदि नहीं कहा जा सकता तो रत्नकरण्डके उल्लेखवाले पद्मकी मौजूदवरीमें भी उसे देवनन्दी पूज्यपादका बाचक नहीं कहा जा सकता, उस बरत तक जब तक कि यह सिद्ध न

कर दिया जाय कि रत्नकरण्ड स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है। क्योंकि असिद्ध साधनोंके द्वारा कोई भी बात सिद्ध नहीं की जा सकती।

इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, आजसे कोई २३ वर्ष पहले रत्न-करण्डस्वामीका प्रस्तावनाके साथमें दिये हुए स्वामी समन्तभद्रके विस्तृत परिचय (इतिहास) में जब मैंने 'स्वामिनश्चरितं तस्य' और 'स्थागी स एव योगीन्द्रो' इन दो पदोंको पाइवनाथचरितसे एक साथ उद्घृत किया था तब मैंने फुटनोट (पादटिप्पणी) में यह बतला दिया था कि इनके मध्यमें 'अचिन्त्य-महिमा देवः' नामका एक तीसरा पद मुद्रित प्रतियोंमें और पाया जाता है जो मेरी रायमें इन दोनों पदोंके बाद होना चाहिये—तभी वह देवनन्दी आचार्यका बाचक हो सकता है। साथ ही, यह भी प्रकट कर दिया था कि "यदि यह तीसरा पद सचमुच ही ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पदोंके मध्यमें ही पाया जाता है और मध्यका ही पद है तो यह कहता पड़ेगा कि बादिराजने समन्तभद्रको अपना हित चाहने वालोंके द्वारा बन्दनीय और अचिन्त्य महिमावाला देव प्रतिपादन किया है साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके किसी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है"। अपनी इस ट्यूटिंग और रायके मनुरूप ही मेरी 'अचिन्त्यमहिमा देवः' पदोंको प्रधानतः 'देवागम' और 'रत्नकरण्ड' के उल्लेखवाले पदोंके 'उत्तरवर्ती तीसरा पद मानना आरहा हैं और तदनुसार ही उसके 'देव' पदका देवनन्दी अर्थ करनेमें प्रवृत्त हुआ है। अतः इन तीनों पदोंके क्रमविषयमें मेरी हट्टिंग और मान्यताको छोड़कर किसीको भी भेरे उस अर्थका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो समाधितन्त्रकी प्रस्तावना तथा सत्साधु-स्मरण-मञ्जुल-पाठमें दिया हुआ है। क्योंकि मुद्रितप्रतिका पद-क्रम ही ठीक होनेपर मैं उस पदोंके 'देव'पदको समन्त-भद्रका ही बाचक मानता हूँ और इस तरह तीनों पदोंको समन्तभद्रके स्तुति-विषयक समझता हूँ। अस्तु।

अब देखना यह है कि क्या उक्त तीनों पदोंको स्वामी समन्तभद्रके साथ

† प्रो० साहबने अपने मतकी पुष्टिमें उसे पेश करके सचमुच ही उसका दुरुपयोग किया है।

सम्बन्धित करने अथवा रत्नकरण्डके स्वामी समन्तभद्रकी हृति बतलानेमें कोई दूसरी बाधा आती है ? जहाँ तक मैंने इस विषय पर गभीरताके साथ विचार किया है मुझे उसमें कोई बाधा प्रतीत नहीं होनी। तीनों पद्मोंके क्रमशः तीन विशेषणों स्वामी, देव और योगीन्द्रके द्वारा समन्तभद्रका स्मरण किया गया है। उक्त क्रममें रखे हुए तीनों पद्मों का अर्थ निम्न प्रकार है—

'उन स्वामी (समन्तभद्र) का चरित्र किसके लिये विम्मयकारक (आश्चर्यजनक) नहीं है जिन्होंने 'देवागम' (आसमीमासा) नामके अपने प्रबचन-द्वारा आज भी सबको प्रदर्शित कर रखा है। वे अविन्त्यमहिमा युक्त देव (समन्तभद्र) अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा सदा बन्दनीय हैं, जिनके द्वारा (सर्वज्ञ ही नहीं किन्तु) शब्द भी * भले प्रकार सिद्ध होते हैं। वे ही योगीन्द्र (समन्तभद्र) सच्चे अर्थोंमें त्यागी (त्यागभावमें यत्क अथवा दाता) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी भव्यसमूनके लिए ग्रस्तसुखका कारणमूल धर्मरत्नोंका पिटारा—'रत्नकरण्ड' नामका धर्मशास्त्र—दान किया है।

इम अथपरसे स्पष्ट है कि दूसरे तथा तीसरे पद्ममें ऐसी कोई बात नहीं जो स्वामी समन्तभद्रके साथ सञ्ज्ञित न बैठती हो। समन्तभद्रके लिए 'देव' विशेषणका प्रयोग कोई अनोखी अथवा उनके पदमें कोई अधिक चीज़ नहीं है। देवागमकी बसुन्दि-दृति, पण्डित आशाघरकी सामारघर्मामूर्ति-टीका, आचार्य जयसेनकी समयसार-टीका, नरेन्द्रमेन आचार्यके सिद्धान्तसार-सप्राह और आसमीमासामूलकी एक वि० सवत् १७५२ की प्रतिकी अन्तिम पुणिकामे समन्तभद्रके साथ 'देव' पदका खुला प्रयोग पाया जाता है, जिन सबके अवतरण प० दरबारीलालजी कोठियाके लखमें उद्घृत हो चुके हैं †। इसके सिवाय बादिराजके पार्वनाथचरितमें ४७ वर्ष पूर्व शक स०६०० में लिखे गये चामुण्डराजके द्विष्ठिशलाका-महापुराणमें भी 'देव' उपपदके साथ समन्त-भद्रका स्मरण किया गया है और उन्हें तत्कार्यभाष्यादिका कर्ता लिखा है ‡।

* मूल में प्रयुक्त हुए 'च' शब्दका अर्थ ।

† अनेकान्त वर्ष ८ कि० १०-११, पृ० ४१०-४१

‡ अनेकान्त वर्ष ६ कि० १ पृ० ३३

ऐसी हालतमें प्रो० साहबका समन्तभद्रके साथ 'देव' पदकी असङ्गतिकी कल्पना करना ठीक नहीं है—वे साहित्यिकोमें 'देव' विशेषणके साथ भी प्रसिद्धिको प्राप्त रहे हैं।

और अब प्रो० साहबका अपने अन्तिम लेखमें यह लिखना तो कुछ भी अर्थ नहीं रखता कि 'जो उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं उन सबमें 'देव' पद समन्त-भद्रके साथ-साथ पाया जाता है।' ऐसा कोई एक भी उल्लेख नहीं जहाँ केवल 'देव' शब्दसे समन्तभद्रका अभिप्राय प्रकट किया गया हो।' यह वास्तवमें कोई उत्तर नहीं, इसे केवल उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है; क्योंकि जब कोई विशेषण किसीके साथ जुड़ा होता है तभी तो वह किसी प्रसंगपर संकेतादिके रूपमें अलगसे भी कहा जा सकता है, जो विशेषण कभी साथमें जुड़ा ही न हो वह न तो अलगसे कहा जा सकता है और न उसका वाचक ही हो सकता है। प्रो० साहब ऐसा कोई भी उल्लेख प्रस्तुत नहीं कर सकेगे जिसमें समन्तभद्रके साथ स्वामी पद जुड़नेसे पहले उन्हें केवल 'स्वामी' पदके द्वारा उल्लेखित किया गया हो। अतः मूल बात समन्तभद्रके साथ 'देव' विशेषणका पाया जाना है, जिसके उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं और जिनके आधारपर द्वितीय पदमें प्रयुक्त हुए 'देव' विशेषण अथवा उपपदको समन्तभद्रके साथ संगत कहा जा सकता है। प्रो० साहब वादिराजके इसी उल्लेखको बैसा एक उल्लेख समझ सकते हैं जिसमें 'देव' शब्दसे समन्तभद्रका अभिप्राय प्रगट किया गया है; क्योंकि वादिराजके सामने अनेक प्राचीन उल्लेखोंके रूपमें समन्तभद्रको भी 'देव' पद के द्वारा उल्लेखित करनेके कारण मौजूद थे। इसके सिवाय, प्रो० साहबने इलेवार्थको लिये हुए जो एक पद 'देवं स्वामिनममलं विद्यानन्दं प्रणम्य निजमक्त्या' इत्यादि उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है उसका अर्थ जब स्वामी समन्तभद्र-परक किया जाता है तब 'देव पद स्वामी समन्तभद्रका, अकलङ्घ-परक अर्थ करने से अकलंकका और विद्यानन्द परक अर्थ करने से विद्यानन्दका ही वाचक होता है। इससे समन्तभद्र नाम साथमें न रहते हुए भी समन्तभद्रके लिये 'देव' पदका अलगसे प्रयोग अवृत्त नहीं है, यह प्रो० साहब-द्वारा प्रस्तुत किये गये पदसे भी जाना जाता है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वादिराज 'देव' शब्दको एकान्ततः

'देवनन्दी' का बाचक समझते थे और वैमा समझनेके कारण ही उन्होंने उक्त पद्ममें देवनन्दीके लिये उसका प्रयोग किया है, क्योंकि वादिराजने अपने व्याय-विनिश्चय-विवरणमें अकलंकके लिये 'देव' पदका बहुत प्रयोग किया है, इतना ही नहीं बल्कि पाद्मनाथचरितमें भी वे 'तक्षभूवल्लभो देवः स जयत्यकलधीः' इस वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'देव' पदके द्वारा अकलंकका उल्लेख कर रहे हैं। और जब अकलंकके लिये वे 'देव' पदका उल्लेख कर रहे हैं तब अकलंकसे भी बड़े और उनके भी पूज्यमुख समन्तभद्रके लिये 'देव' पदका प्रयोग करना कुछ भी अस्वाभाविक अथवा अनहोनी बात नहीं है। इसके सिवाय, उन्होंने न्यायविनिश्चयविवरणके अन्तिम भागमें पूज्यपादका देवनन्दी नामसे उल्लेख न करके पूज्यपाद नामसे ही उल्लेख किया है, जिससे मालूम होता है कि यही नाम उनको अधिक इष्ट था।

ऐसी स्थितिमें यदि वादिराजका अपने द्वितीय पद्मसे देवनन्द-विषयक अभिप्राय होता तो वे या तो पूरा देवनन्दी नाम देते या उनके 'जैनेन्द्र' व्याकरणका साथमें स्पष्ट नामोल्लेख करते अथवा इस पद्मको रत्नकरण्डके उल्लेखवाले पद्मके बादमें रखते, जिसमें समन्तभद्रका स्मरण-विषयक प्रकरण समाप्त होकर दूसरे प्रकरणका प्रारम्भ समझा जाता। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तब यही कहना ठीक होगा कि इस पद्ममें 'देव' विशेषणके द्वारा समन्तभद्र-का ही उल्लेख किया गया है। उनका अविन्यस्य महिमासे मुक्त होना और उनके

† जैसा कि नीचेके उदाहरणोंमें प्रकट है:—

‘देवस्तार्किकचकचूडामणिभूयात्स वः श्रेयसे’ । पृ० ३

‘भूयो भेदनयावगाहृगहन देवस्य यद्वाढ्मयम्’ ।

‘तथा च देवस्यान्यत्र वचनं ‘ध्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षं स्वत एव नः’ । प्रस्ताव १

“ देवस्य शासनमतीवगभीरमेन्तात्पर्यतः क इव बोद्धुमतीव दक्षः । ”

प्रस्ताव २

॥ “विज्ञानन्दमनन्तवीर्यसुखादं श्रीपूज्यपादं दयापालं सम्पत्तिसामर्त्यं.....
वन्दे जैनेन्द्रं बृदा” ।

द्वारा शब्दोंका सिद्ध होना भी कोई असंगत नहीं है। वे पूज्यपादसे भी अधिक महान् थे, प्रकलंक और विद्यानन्दादिक बड़े-बड़े आचार्योंने उनकी महानता-का खुला गान किया है, उन्हें सर्वपदार्थतत्त्वविषयक स्यादाद-तीर्थको कलिकाल-में भी प्रभावित करनेवाला, और वीरकामनकी हक्कारुणी बृद्धिकरनेवाला, 'जैनशासनका प्रणेता' तक लिखा है। उनके असाधारण गुणोंके कीलंगों और-महिमाओंके बरांगोंसे जैनसाहित्य भरा हुआ है, जिसका कुछ परिचय पाठक 'सत्साधु स्मरण-मंगलपाठ' में दिये हुए समन्तभद्रके स्मरणोंपरसे सहजमेंही प्राप्त कर सकते हैं। समन्तभद्रके एक परिचय-पद्धति मालूम होता है कि वे 'सिद्धसार-स्वत' क्षि थे—सरस्वती उन्हें सिद्ध थी; वादीभासिह जैसे आचार्य उन्हें 'सरस्वतीकी स्वच्छन्द-विहारभूमि' बतलाते हैं और एक दूसरे ग्रन्थकार समन्तभद्र-द्वारा रखे हुए ग्रन्थमूहरूपी निर्मलकमल-सरोवरमें,जो भावरूप हंसोंसे परिपूर्ण है, सरस्वती-को क्लीडा करती हुई उल्लेखित करते हैं *। इससे समन्तभद्रके द्वारा शब्दोंका सिद्ध होना कोई अनोखी बात नहीं कही जा सकती। उनका 'जिनशतक' उनके अपूर्व व्याकरण पाण्डित्य और शब्दोंके एकाधिपत्यको सूचित करता है। पूज्यपादने तो अपने जैनेन्द्रव्याकरण में 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' यह सूत्र रखकर समन्तभद्र-द्वारा होनेवाली शब्दसिद्धिको स्पष्ट सूचित भी किया है, जिसपरसे उनके व्याकरण-शास्त्रकी भी सूचना मिलती है। और श्रीप्रभानन्दाचार्यने अपने ग्रन्थकथाकोशमें उन्हें तर्कशास्त्रकी तरह व्याकरण-शास्त्रका भी व्याख्याता (निर्माता)† लिखा है ‡। इतने पर भी प्रो. साहबका अपने पिक्ले लेखमें वह लिखना कि "उनका बनाया हुआ न तो कोई शब्दशास्त्र उपलब्ध है और न उसके कोई प्राचीन प्रामाणिक उल्लेख पाये जाते हैं" व्यर्थकी

*३ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ३-४ पृ० २६

** सत्साधुस्मरणमंगलपाठ, पृ० ३४, ४१

† अनेकान्त वर्ष ८ किरण १०-११ पृ० ४१६

‡ 'जैनग्रन्थावली'में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी रिपोर्टके आधारपर समन्तभद्रके एक प्राकृत व्याकरणका नामोलेख है और उसे १२०० इलाकपरिमाण मूचित किया है।

खीचतानके सिवाय और कुछ भी अर्थ नहीं रखता। यदि आज कोई अन्य उपलब्ध नहीं है तो उसका यह आवश्य तो नहीं लिया जा सकता कि वह कभी था ही नहीं। बादिराजके ही द्वारा पाश्वनाथचरितमें उल्लिखित 'सम्मतिसूत्र' की वह विवृति और विशेषवादीकी वह कृति आज कहाँ मिल रही है? यदि उनके न मिलने मात्रसे बादिराजके उल्लेख विषयमें अन्यथा कल्पना नहीं को जा सकती तो किर समन्तभद्रके शब्दशास्त्रके उपलब्ध न होने मात्रसे ही वैसी कल्पना क्यों की जाती है? उसमें कुछ भी औचित्य मालूम नहीं होता। अतः बादिराजके उक्त द्वितीय पद्म नं० १८ का यथावस्थित क्रमकी इष्टिसे समन्तभद्र-विषयक अर्थ लेनेमें किसी भी बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है।

रही तीसरे पद्मकी बात, उसमें 'योगीन्द्रः' पदको लेकर जो बाद-विवाद अथवा भग्नेला खड़ा किया गया है उसमें कुछ भी सार नहीं है। कोई भी बुद्धिमान् ऐसा नहीं हो सकता जो समन्तभद्रको योगी अथवा योगीन्द्र माननेके लिये तैयार न हो, खासकर उस हालतमें जब कि वे धर्मचार्य थे—सम्बद्धर्णन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यरूप पञ्च आचारोंका स्वयं आचार करनेवाले और दूसरोंको आचरण करानेवाले दीक्षागुरुके रूपमें थे—'पर्द्धिक' थे—तपके बलपर चारणकृद्धिको प्राप्त थे—और उन्होंने अपने मंत्ररूप बचनबलसे शिव-पिण्डीमें चन्द्रप्रभकी प्रतिमाको बुला लिया था ('स्वमन्त्रवचन-दशहृतचन्द्रप्रभः')। योग-साधना जैनमुनिका पहला कार्य होता है और इसलिये जैनमुनिको 'योगी' कहना एक सामान्य-सी बात है, किर धर्मचार्य अथवा दीक्षागुरु मुनीन्द्रका तो योगी अथवा योगीन्द्र होना और भी अवश्यंभावी तथा अनिवार्य हो जाता है। इसीले जिस बीरशासनके स्वामी समन्तभद्र अनन्य उपासक थे उसका स्वरूप बतलाते हुए, मुक्त्यनुशासन (का० ६) में उन्होंने दया, दम और त्यागके साथ समाधि (योगसाधना) को भी उसका प्रधान ग्रंथ बतलाया है। तब यह कैसे हो सकता है कि बीरशासनके अनन्यउपासक भी योग-साधना न करते हों और इसलिये योगी न कहे जाते हों?

सबसे पहले मुहूर्दर पं० नाशूरामजी प्रेमीने इस योगीन्द्र-विषयक चर्चाको 'क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही है?' इस शीर्षकके अपने लेखमें उठाया था और यहाँ तक लिख दिया था कि 'योगीन्द्र-जैसा विशेषण तो उन्हें

(समन्तभद्रको) कहीं भी नहीं दिया गया ॥^१’ इसके उत्तरमें जब मैंने ‘हवाएँ समन्तभद्र घर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे’ इस शीर्षकका लेखा^२ लिखा और उसमें अनेक प्रमाणोंके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि समन्तभद्र योगीन्द्र थे तथा ‘योगी’ और ‘योगीन्द्र’ विशेषणोंहा उनके नामके साथ स्पष्ट उल्लेख भी बतलाया गया तब प्रेमीजी तो उस विषयमें मौन हो रहे, परन्तु प्रो० साहबने इस चर्चाको यह लिखकर लम्बा किया कि —

“मुख्तार माहब तथा न्यायाचार्यजीने जिस आधार पर ‘योगीन्द्र’ शब्द-का उल्लेख प्रभाचन्द्र-कृत स्वीकार कर लिया है वह भी बहुत कच्चा है। उन्होंने जो कुछ उसके लिये प्रमाण दिये हैं उनसे जान पड़ता है कि उक्त दोनों विद्वानोंमें किसी भी अभी तक न प्रभाचन्द्रका कथाकोष स्वयं देखा है और न कही यह स्पष्ट पढ़ा या किसीसे सुना कि प्रभाचन्द्रकृत कथाकोषमें समन्तभद्रके लिये ‘योगीन्द्र’ शब्द आया है। केवल प्रेमीजीने कोई बीस वर्ष पूर्व यह लिख भेजा था कि ‘दोनों कथाग्रोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है, नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गच्छकथाका प्रायः पूर्ण अनुवाद है’। उसीके आधारपर आप उक्त दोनों विद्वानोंको ‘यह कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि प्रभाचन्द्रने भी अपने गद्य-कथाकोषमें स्वामी समन्तभद्रको ‘योगीन्द्र’ रूपमें उल्लेखित किया है।’

इसपर प्रभाचन्द्रके गच्छकथाकोषको मङ्गाकर देखा गया और उपरसे समन्त-भद्रको ‘योगी’ तथा ‘योगीन्द्र’ बतलानेवाले जब डेढ़ दर्जनके क्ररीढ़ प्रमाण न्यायाचार्यजीने अपने अन्तिम लेखमें ^३ उद्धृत किये तब उसके उत्तरमें प्रो० साहब अब अपने पिछले लेखमें यह कहने बैठे हैं, जिसे वे नेमिदत्त-कथाकोषके अनुकूल पहले भी कह सकते थे, कि “कथानकमें समन्तभद्रको केवल उनके कपट-वेषमें ही योगी या योगीन्द्र कहा है, उनके जैनवेषमें कहीं भी उक्त शब्दका प्रयोग नहीं पाया जाता”। यह उत्तर भी बास्तवमें कोई उत्तर नहीं है। इसे भी केवल

* अनेकान्त वर्ष ७ किरण ३-४, पृ० २६, ३०

^१ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६, पृ० ४२, ४८

^२ अनेकान्त वर्ष ८, किरण १०-११ पृ० ४२८-२२

उत्तरके लिय ही उत्तर कहा जा सकता है। क्योंकि समन्तभद्रके योग-चमत्कार-को देखकर जब शिवकोटिराजा, उनका भाई शिवायन और प्रजाके बहुतसे जन जैनधर्ममें दीक्षित होगये तब योगरूपमें समन्तभद्रकी स्थाति तो और भी बढ़ गई होगी और वे आम तौरपर योगिराज बहलाने लगे होंगे, इसे हर कोई समझ सकता है, क्योंकि वह योगचमत्कार समन्तभद्रके साथ सम्बद्ध था न कि उनके पाण्डुराङ्ग-नपस्त्वीवाले वेषके साथ। ऐसा भी नहीं कि पाण्डुराङ्गनपस्तीके वेष-वाले ही 'योगी' कहे जाते हों जैनवेषवाने मुनियोंको योगी न कहा जाता हो। यदि ऐसा होना तो रत्नकरण्डके कठीनोंको भी 'योगीन्द्र' विशेषणसे उत्तेजित न किया जाता। वास्तवमें 'योगी' एक सामान्य शब्द है जो ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी आदिका वाचक है, जैसा कि घनञ्जय-नाममालाके निम्न वाचनसे प्रकट है—

ऋषिर्यतिर्मुनिभिर्जुत्तापसः संयतो ब्रती ।
तपस्वी संयमी योगी वर्णो साधुश्च पातु वः ॥३॥

जैनसाहित्यमें योगीकी अपेक्षा यति-मुनि तपस्वी जैसे शब्दोंका प्रयोग अधिक पाया जाता है, जो उसके पर्याय नाम है। रत्नकरण्डमें भी यति, मुनि और तपस्वी शब्द योगीके लिये व्यवहृत हुए हैं। तपस्वीको आस तथा आगमकी तरह समग्रदर्शनका विषयभूत पदार्थ बनलाते हुए उसका जो स्वरूप एक पद्म में दिया है वह खासतौरसे ध्यान देने योग्य है। उसम लिखा है कि—‘जो इन्द्रिय-विषयों तथा इच्छाओंके वशीभूत नहीं है, आरम्भों तथा परिप्रहोंसे रहित है और ज्ञान, ध्यान एव तपश्चरणोंमें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशमनीय है’। इस लक्षणमें भिन्न योगीके और कोई सींग नहीं होते। एक स्थानपर सामायिकमें स्थित गृहस्थको ‘चेतोपसृष्टमुनि’ की तरह यतिभावको प्राप्त हुआ लिखा है। चेतोपसृष्टमुनिका अभिप्राय उस नम्न दिगम्बर जैन योगीसे है जो मौन-पूर्वक

६५ विषयाऽङ्गाः-वक्षाऽनीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥

† सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेतोपसृष्टमुनिरिव गृही तथा याति यतिभवाम् ॥१०२॥

योग-साधना करता हुआ ध्यानमन्त हो और उस समय किसीने उसको बस्त्र घोड़ा दिया हो, जिसे वह अपने लिये उपर्युक्त समझता है। सामाधिकमें स्थित बस्त्रसहित गृहस्थको उस मुनिकी उपमा देते हुए उसे जो यतिभाव-योगीके भाव-को प्राप्त हुआ लिखा है और अगले पदमे उसे 'अचलयोग' भी बतलाया है उससे स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्डमें भी योगीके लिये 'यति' शब्दका प्रयोग किया गया है। इसके सिवाय, अकलकदेवने अष्टशती (देवागम-भाष्य)के मगल-पद्ममें आसमीमासाकार स्वामी समन्तभद्रको 'यति' लिखा है^१ जो सन्मार्ग-में यत्नशील अथवा मन बचन-बायके नियन्त्रणरूप योगकी साधनामें तत्पर योगीका बाचक है, और श्रीविद्यानन्दाचार्यने अपनी अष्ट-सहस्रीमें उन्हें 'यतिभूत' और 'यतीश तक लिखा है^२, जो दोनों ही 'योगिराज' अथवा 'योगीन्द्र' अर्थ-के द्वोतक हैं, और 'यतीश' के साथ 'प्रथितनर' विशेषण लगाकर तो यह भी सूचित किया गया है कि वे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध योगिराज थे। ऐसे ही उल्लेखों-को हठिमें रखकर बादिराजने उक्त पदमे समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' विशेषण-का प्रयोग किया जान पड़ना है। और इसलिये यह कहना कि 'समन्तभद्र योगी नहीं थे अथवा योगीरूपसे उनका कहीं उल्लेख नहीं' किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता। रत्नकरण्डकी अब तक गोमी कोई प्राचीन प्रति भी प्रो० साहबकी तरफसे उपस्थित नहीं की गई जिसमें ग्रन्थकर्ता 'योगीन्द्र'बो नामका कोई विद्वान् लिखा हो अथवा स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न दूसरा कोई समन्तभद्र उसका कर्ता है ऐसी स्पष्ट सूचना साथमें की गई हो।

समन्तभद्र नामके दूसरे छह विद्वानोंकी लोज करके मैने उसे रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी अपनी प्रस्तावनामें आजसे कोई २३ वर्ष पहले प्रकट किया था— उसके बादसे और किसी समन्तभद्रका अब तक कोई पता नहीं चला। उनमेंसे एक 'बुद्ध', दूसरे 'विक्र', तीसरे 'गेल्सोप्पे', चौथे 'अभिनव', पाँचवें 'भट्टारक', छठे 'गृहस्थ'विशेषणसे विशिष्ट पारे जाते हैं। उनमेंसे कोई भी अपने समयादिक-

^१ 'येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः सततम् ।'

^२ 'स श्रीस्वाभिसमन्तभद्र-यतिभूद-भूयाद्विभुर्मनुमान् ।'

'स्वामी जीवात्स शब्दप्रथिततरयतीशोऽकलकूलकीर्तिः ।'

की हाईसे 'रत्नकरण्ड' का कर्ता नहीं हो सकता । और इस लिये जब तक जैनसाहित्यपरसे किसी ऐसे दूसरे समन्तभद्रका पता न बतलाया जाय जो इस रत्नकरण्डका कर्ता हो सके तब तक 'रत्नकरण्ड' के कर्ताके लिये 'योगीन्द्र' विशेषणके प्रयोग-मात्रसे उसे कोरी कल्पनाके आधारपर स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रकी कृति नहीं कहा जा सकता ।

ऐसी वस्तुस्थितिमें वादिराजके उत्तर दोनों पदोंको प्रथम पद्मके साथ स्वामी-समन्तभद्र-विषयक समझने और बतलानेमें कोई भी बाधा प्रतीत नहीं होती * । प्रत्युत इसके, वादिराजके प्रायः समकालीन विदान् आचार्य प्रभाचन्द्रका अपनी टीकामें 'रत्नकरण्ड' उपासकाध्ययनको साफ़ तौरपर स्वामी समन्तभद्रकी कृति घोषित करना उसे पुष्ट करता है । उन्होंने अपनी टीकाके केवल संधि-वाक्योंमें ही 'समन्तभद्रस्वामी-विरचित' जैसे विशेषणों-द्वारा दूसी घोषणा नहीं की बल्कि टीकाकी आदिमें निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा भी उसकी स्पष्ट सूचना की है—

'श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकप्रख्यं सम्य-
मद्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कर्तुं कामो नि-
विच्छन्तः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषज्ज्ञदेवताविशेषं नमस्कु-
र्वन्नाह ।'

हाँ, यहाँपर एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि प्रो० साहृ-

† देखो, माणिकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्डशावकावार, प्रस्तावना पृ० ५ से ६ ।

* सन् १९१२में तंजोरसे प्रकाशित होनेवाले वादिराजके 'यशोधर-चरित' की प्रस्तावनामें, टी० ए० गोपीनाथराव एम० ए० ने भी इन तीनों पदोंको इसी क्रमके साथ समन्तभद्रविषयक सूचित किया है । इसके सिवाय, प्रस्तुत चरितपर शुभचन्दकृत जो 'पंजिका' है उसे देखकर पं० नाथूरायजी प्रेमीने बादको यह सूचित किया है कि उसमें भी ये तीनों पद समन्तभद्रविषयक माने गये हैं । और तीसरे पदमें प्रयुक्त हुए 'योगीन्द्रः' पदका ग्रन्थ 'समन्तभद्र' ही लिखा है । इससे बाधाकी जगह सावकप्रमाणकी बात और भी हामें आ जाती है ।

ने अपने 'विलुप्त अध्याय'में यह लिखा था कि "दिगम्बरजैन साहित्यमें जों आचार्यं स्वामीकी उपाधिसे विशेषतः विभूषित किये गये हैं वे आसमीमांसाके कर्ता समन्तभद्र ही हैं।" और आगे अवणगेलगोलके एक शिलालेखमें भद्रबाहु द्वितीयके साथ 'स्वामी' पद जुड़ा हुआ देखकर यह बतलाते हुए कि 'भद्रबाहुकी' उपाधि स्वामी थी जो कि साहित्यमें प्रायः एकान्ततः समन्तभद्रके लिये ही प्रयुक्त हुई है"

"समन्तभद्र और भद्रबाहु द्वितीयको 'एक ही व्यक्ति' प्रतिपादन किया था। इस परसे कोई भी यह फलित कर सकता है कि जिन समन्तभद्रके साथ 'स्वामी' पद लगा हुआ हो उन्हें प्रो० साहबके मतानुसार आसमीमांसाका कर्ता समझना चाहिये। तदनुसार ही प्रो०साहबके सामने रत्नकरण्डकी टीकाका उत्त प्रमाणण यह प्रशंशित करनेके लिये रखा गया कि जब प्रभाचन्द्राचार्य भी रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकृत लिख रहे हैं और प्रो० साहब 'स्वामी' पदका असाधारण सम्बन्ध आसमीमांसाकारके साथ लोड रहे हैं तब वह उसे आसमीमांसाकारसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रकी कृति कैसे बतलाते हैं? इसके उत्तरमें प्रो०साहबने लिखा है कि 'प्रभाचन्द्रका उल्लेख केवल इतना ही तो है कि रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र है उन्होने यह तो प्रकट किया ही नहीं कि ये ही रत्नकरण्डके कर्ता आसमीमांसाके भी रचयिता हैं न्।' परन्तु साथमें लगा हुआ 'स्वामी' पद तो उन्हीके मन्तव्यानुसार उसे प्रकट कर रहा है यह देखकर उन्होने यह भी कह दिया है कि 'रत्नकरण्डके कर्ता समन्तभद्रके साथ 'स्वामी' पद बादको जुड़ गया है—चाहे उसका कारण भान्ति हो या जान-बूझकर ऐसा किया गया हो।' परन्तु अपने प्रयोजनके लिये इस कह देने मात्रसे कोई कम नहीं चल सकता जबतक कि उसका कोई प्राचीन आधार व्यक्त न किया जाय—कमसे कम प्रभाचन्द्राचार्यसे पहलेकी लिखी हुई रत्नकरण्डकी कोई ऐसी प्राचीन मूल-प्रति पेश होनी चाहिये थी जिसमें समन्तभद्रके साथ स्वामी पद लगा हुआ न हो। लेकिन प्रो० साहबने पहलेकी ऐसी कोई भी प्रति पेश नहीं की तब वे बादको आन्मि आदिके बश स्वामी पदके जुड़नेकी बात कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसी तरह जिस तरह कि मेरे द्वारा सम्बिध करार दिये हुए रत्नकरण्ड-

के सात पदोंको प्रभाचन्द्रीय टीकासे पहलेकी ऐसी प्राचीन प्रतियोंके न मिलनेके कारण प्रक्षिप्त नहीं कह सकते कि जिनमें वे पद सम्मिलित न हों।

इस तरह प्रो० साहबकी तीसरी आपत्तिमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता। युक्तिके पूर्णतः सिद्ध न होनेके कारण वह रत्नकरण्ड और आसमीभासाके एक-कर्तृत्वमें बाधक नहीं हो सकती, और इसलिये उसे भी समुचित नहीं कहा जा सकता।

(४) अब रही चौथी आपत्तिकी बात, जिसे प्रो० साहबने रत्नकरण्डके निम्न उपान्त्य पद्यपरसे कल्पित करके रखा है—

येन स्वयं वीतकलङ्ग-विद्या-हृष्टि-क्रिया-रत्नकरण्डभावं ।

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिरित्रिषु विष्टपेषु ॥

इस पदमें ग्रन्थका उपस्थान करते हुए यह बतलाया गया है कि ‘जिस (भव्यजीव) ने आत्माको निर्दोष-विद्या, निर्दोष-हृष्टि और निर्दोष-क्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया है—अपने आत्मामें सम्प्रदर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय-धर्मका आविभवि किया है—उसे तीनों लोकोंमें सर्वार्थसिद्धि—धर्म-धर्म-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धि—स्वयंवरा कन्पाकी तरह स्वयं प्राप्त हो जाती है, अर्थात् उक्त सर्वार्थसिद्धि उसे स्वेच्छासे अपना पति बनाती है, जिससे वह चारों पुरुषार्थोंका स्वामी होता है और उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध हुए बिना नहीं रहता।’

इस अर्थको स्वीकार करते हुए प्रो० साहबका जो कुछ विशेष कहना है वह यह है—

“यहीं टीकाकार प्रभाचन्द्रके द्वारा बतलाये गये वाच्यार्थके अतिरिक्त दलेश्वरसे यह अर्थ भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि “जिसने अपनेको अकलङ्ग और विद्यानन्दके द्वारा प्रतिपादित निर्मल ज्ञान, दशन और चारित्ररूपी रत्नोंकी पिटारी बना लिया है उसे तीनों स्थलोंपर सर्व अर्थोंकी सिद्धिरूप सर्वार्थसिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती है, जैसे इच्छामात्रसे पतिको अपनी पत्नी।” यहीं निःसन्देश

कि अनेकान्त वर्ष ६, किरण १ पृ० १२ पर प्रकाशित प्रोफेसर साहबका उत्तर पत्र ।

हतः रत्नकरण्डकारने तत्त्वार्थसूत्रपर लिखी गई तीनों टीकाओंका उल्लेख किया है। सर्वार्थसिद्धि कहीं शब्दः और कहीं अर्थतः अकलच्छुक्त राजवार्तिक एवं विद्यानन्दिकृत श्लोकवार्तिकमें प्रायः पूरी ही प्रधित है। अतः जिसने अकल-छुक्त और विद्यानन्दिकी रचनामोंको हृदयञ्जलि कर लिया उसे सर्वार्थसिद्धि स्वयं आजाती है। रत्नकरण्डके इस उल्लेखपरसे निविवादतः सिद्ध होजाता है कि यह रचना न केवल पूज्यपादसे पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलच्छुक्त और विद्यानन्दिसे भी पीछेकी है ^५।” ऐसी हालतमें रत्नकरण्डकारका आत्ममासाके कन्सि एकत्र सिद्ध नहीं होता ^६।”

यहाँ प्रो॰ साहब-द्वारा कलिपत इस इलेषार्थके सुघटित होनेमें दो प्रबल बाधाएँ हैं—एक तो यह कि जब ‘बीतकलक’ से अकलंकका और विद्यासे विद्यानन्दका अर्थ लेलिया गया तब ‘हाटि’ और ‘किया’ दो ही रत्न शेष रह जाते हैं और वे भी अपने निर्मल-निर्दोष अथवा सम्यक् जैसे मौलिक विशेषणमें शून्य। ऐसी हालतमें इलेषार्थके साथ जो ‘निर्मल ज्ञान’ अर्थं भी जोड़ा गया है वह नहीं बन सकेगा और उसके न जोडनेपर वह इलेषार्थ ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ असञ्जुत हो जायगा; क्योंकि ग्रन्थभरमें तुनीय पद्मसे प्रारम्भ करके इस पद्मके पूर्व तक सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप तीन रत्नोंका ही घर्मरूपसे बर्णन है, जिसका उपर्युक्त हार करते हुए ही इस उपर्युक्त पद्ममें उनको अपनानेवालेके लिये सर्व अर्थकी सिद्धिरूप फलकी व्यवस्था की गई है, इसकी तरफ किसीका भी ध्यान नहीं गया। दूसरी बाधा यह है कि ‘विषु विष्टपेषु’ पदोका अर्थ जो ‘तीनों स्थलोंपर’ किया गया है वह सञ्जुत नहीं बैठना; क्योंकि अकलंकदेवका राजवार्तिक और विद्यानन्दका इनोकवार्तिक ग्रन्थ में दो ही स्थल ऐसे हैं जहाँपर पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि (तत्त्वार्थवृत्ति) शब्दः तथा अर्थतः पाई जाती है तीसरे स्थलकी बात मूलके किसी भी शब्दपरसे उसका आवश्य व्यक्त न करनेके कारण नहीं बनती। यह बाधा जब प्रो॰ साहबके सामने उपस्थित की गई और पूछा गया कि ‘विषु विष्टपेषु’ का इलेषार्थ जो ‘तीनों स्थलोंपर’ किया गया

^५ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५०-६ पृ० ५३

^६ अनेकान्त वर्ष ८ किरण ३ पृ० १३२

है वे तीन स्थल कौनसे हैं जहाँपर सबं अर्थकी सिद्धिरूप 'सर्वार्थसिद्धि' स्वयं प्राप्त हो जाती है ? तब प्रोफेसर साहब उत्तर देते हुए लिखते हैं—

"मेरा ख्याल था कि वहाँ तो किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता ही नहीं क्योंकि वहाँ उन्हीं तीन स्थलोंकी सङ्गति सुस्पष्ट है जो टीकाकारने बतला दिये हैं अर्थात् दर्शन, ज्ञान और चारित्र; क्योंकि वे तत्त्वार्थसूत्रके विषय होनेमें सर्वार्थ-सिद्धिमें तथा अकलकुदेव और विद्यानन्दिकी टीकाओंमें विवेचित हैं और उनका ही प्रकृपण रत्नकरण्डकारने किया है ।"

यह उत्तर कुछ भी संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि टीकाकार प्रभाचन्द्रने 'त्रिवृ विष्टपेतु' का स्पष्ट अर्थ 'त्रिभुवनेषु' पदके द्वारा 'तीनों लोकमें' दिया है । उसके स्वीकारकी घोषणा करते हुए और यह आश्वासन देते हुए भी कि उस विषयमें टीकाकारसे भिन्न "किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता नहीं" टीकाकारका अर्थ न देकर 'अर्थात्' शब्दके साथ उसके अर्थकी निजी नई कल्पनाको लिये हुए प्रभिव्यक्ति करना और इस तरह 'त्रिभुवनेषु' पदका अर्थ "दर्शन, ज्ञान और चारित्र" बतलाना अर्थका अनर्थ करना अथवा खींचतानकी पराकाष्ठा है । इससे उत्तरकी संगति और भी बिगड़ जाती है; क्योंकि तब यह कहना नहीं बनता कि सर्वार्थसिद्धि आदि टीकाओंमें दर्शन ज्ञान और चारित्र विवेचित है—प्रतिपादित है; बल्कि यह कहना होगा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रमें सर्वार्थ-सिद्धि आदि टीकाएँ विवेचित है—प्रतिपादित है, जो कि एक बिलकुल ही उल्टी बात होगी । और इस तरह आधार-आधेय सम्बन्धादिकी सारी स्थिति बिगड़ जायगी; और तब इलेखरूपमें यह भी कलित नहीं किया जा सकेगा कि अकलकृ और विद्यानन्दिकी टीकाएँ ऐसे कोई स्थल या स्थानविशेष हैं जहाँपर पूज्यपादकी टीका सर्वार्थसिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती है ।

इन दोनों बाधाओंके सिवाय इलेखकी यह कल्पना अप्राप्यिक भी जान पड़ती है; क्योंकि रत्नकरण्डके साथ उसका कोई मेन नहीं मिलता, रत्नकरण्ड तत्त्वार्थसूत्रकी कोई टीका भी नहीं जिससे किसी तरह खींचतान कर उसके साथ कुछ मेल बिठलाया जाता, वह तो आगमकी स्थानिको प्राप्त एक स्वतन्त्र

मौलिक ग्रन्थ है, जिसे पूज्यपादादिकी उक्त टीकाओंका कोई आधार प्राप्त नहीं है और न हो सकता है। और हमलिये उसके साथ उक्त श्लेषका आयोजन एक प्रकारका असम्बद्ध प्रलाप ठहरता है अथवा यों कहिये कि 'विवाह तो किसीका और गीत किसीके' इस उक्तिको चरितार्थ करता है। यदि विना सम्बन्धविशेष-के केवल शब्दश्लोकों लेकर ही श्लेषकी कल्पना अपने किसी प्रयोजनके बाहे की जाय और उसे उचित समझा जाय तब बहुत कुछ अन्योंके सहृदायित होनेकी सम्भावना है। उदाहरणके लिये स्वामिसमन्तभद्र-प्रणीत 'जिनशतक' के उपान्त्य पद्य (नं० १५) में भी 'प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा' इस वाक्यके अन्तर्गत 'सर्वार्थसिद्धि' पदका प्रयोग पाया जाता है और ६१ वें पद्यमें तो 'प्राय सर्वार्थसिद्धि ग' इस वाक्यके साथ उसका रूप और स्पष्ट होजाता है। उसके साथ-वाले 'गां' पदका अर्थ वाणी लगा लेनेसे वह वचनात्मिका 'सर्वार्थसिद्धि' हो-जानी है। इस 'सर्वार्थसिद्धि' का वाच्यार्थ यदि उक्त श्लेषार्थकी तरह पूज्य-पादकी 'सर्वार्थसिद्धि' लगाया जायगा तो स्वामी समन्तभद्रको भी पूज्यपादके बादका विद्वान् कहना होगा और तब पूज्यपादके 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' इस व्याकरणसूत्रमें उल्लिखित समन्तभद्र विन्ताके विषय बन जायेंगे तथा और भी शिलालेखों, प्रशस्तियों तथा पट्टाबन्लियो आदिकी कितनी ही गड़बड़ उपस्थित हो जायगी। अतः सम्बन्धविषयकी निर्धारित किये विना केवल शब्दोंके समानार्थ-को लंकर ही इनेष्टार्थ की कल्पना व्यर्थ है।

इस तरह जब श्लेषार्थ ही सुधारित न होकर बाधित ठहरता है तब उसके आधारपर यह कहना कि 'रत्नकरण्डके इस उत्तरतपरसे निर्विवादतः सिद्ध हो-जाता है कि वह रचना न केवल पूज्यपादके पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलंक और विद्यानन्दिसे भी पीछे की है' कोरी कल्पनाके तिवाय और कुछ भी नहीं है। उसे किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता—रत्नकरण्डके 'अप्तोरकमनुल्लंघ्य' पद्यका न्यायावतारमें पाया जाना भी इसमें बाधक है। वह केवल उत्तरके लिये किया गया प्रयासमात्र है और इसीसे उसको प्रस्तुत करते हुए प्रो० साहबको अपने पूर्वकथनके विरोधका भी गुच्छ ख्याल नहीं रहा; जसा कि मैं इससे पहले द्वितीयादि भाष्यतियोंके विचारकी भूमिकामें प्रकट कर चुका हूँ।

यहांपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि प्रो० साहब इलेपकी कल्पनाके बिना उक्त पद्मकी रचनाको अटपटी और अस्वाभविक समझने हैं; परन्तु पद्मका जो अर्थ ऊपर दिया गया है और जो आचार्य प्रभाचन्द्र-सम्मत है उसमें पद्मकी रचनामें कहीं भी कुछ अटपटापन या अस्वाभाविकता-का दर्शन नहीं होता है। वह बिना किसी इलेपकल्पनाके अन्यके पूर्वकथनके साथ भले प्रकार सम्बद्ध होता हुआ ठीक उसके उपसंहाररूपमें स्थित है। उसमें प्रयुक्त हुए विद्या, दृष्टि जैसे शब्द पहले भी अन्यमें ज्ञान-दर्शन जैसे अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं, उनके अर्थमें प्रो० साहबको कोई विवाद भी नहीं है। हाँ, 'विद्या' से इलेपरूपमें 'विद्यानन्द' अर्थ लेना यह उनकी निजी कल्पना है, जिसके समर्थनमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, केवल नामका एक देश कहकर उसे मान्य कर निया है ६। तब प्रो० साहबकी दृष्टिमें पद्मकी रचनाका अटपटापन या अस्वाभाविकपन एकमात्र 'वीतकलंक' शब्दके साथ केन्द्रित ज्ञान पड़ता है, उसे ही सीधे वाच्य-वाचक-सम्बन्धका दोषक न समझकर आपने उदाहरणमें प्रस्तुत किया है। परन्तु सम्यक् शब्दके लिये अथवा उसके स्थान-पर 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग छन्द तथा स्पष्टार्थकी दृष्टिसे कुछ भी अटपटा, असंगत या अस्वाभाविक नहीं है; क्योंकि 'कलंक' का सुप्रसिद्ध अर्थ 'दोष' है ७ और उसके साथमें 'वीत' विलेपण विगत, मुक्त, त्यक्त, विनष्ट अथवा

६ जहाँतक मुझे मालूम है सस्तुत साहित्यमें इलेपरूपसे नामका एकदेश प्रहण करते हुए पुरुषके लिये उसका पुलिंग अंश और स्त्रीके लिये स्त्रीलिंग अंश प्रहण किया जाता है; जैसे 'सत्यभामा' नामकी स्त्रीके लिये 'भामा' अंशका प्रयोग होता है न कि सत्य अंशका। इसी तरह 'विद्यानन्द' नामका 'विद्या' अंश, जोकि स्त्रीलिंग है, पुरुषके लिये अवहृत नहीं होता। चुनावे प्रो० साहबने इलेपके उदाहरणरूपमें जो 'देव स्वामिनमस्तं विद्यानन्दं प्रणाम्य निवमत्त्वा' नामका पद्म उद्धृत किया है उसमें विद्यानन्दका 'विद्या' नामसे उल्लेख न करके पूरा ही नाम दिया है। विद्यानन्दका 'विद्या' नामसे उल्लेखका दूसरा कोई भी उदाहरण देखनेमें नहीं आता।

७ 'कलंकोऽन्ते कालायसमले देवापद्मयोः ।' विश्व० कोश । दोषके अर्थमें

रहित जैसे अर्थका वाचक है, जिसका प्रयोग समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोमें भी ऐसे स्थलोंपर पाया जाता है जहाँ इलेवार्थका कोई काम नहीं, जैसे पात्समीमीमा के 'वीतराग,' तथा 'वीतमोहत' पदोंमें, स्वयम्भूस्तोत्रके 'वीतधनः' तथा 'वीतरागे' पदोंमें, युक्त्यनुशासनके 'वीतविकल्पधी' और जिनशतकके 'वीतचेतोविकाराभिः' पदमें। जिसमें दोष याकलक निकल गया अथवा जो उससे मुक्त है उस वीतदोष, निर्दोष निकलक, अकलक तथा वीतकलक जैसे नामोंसे अभिहित किया जाता है, जो सब एक ही अर्थके वाचक पर्याय नाम है। बास्तवमें जो निर्दोष है वही सम्यक् (यथार्थ) कहे जानेके योग्य है—दोषोंसे युक्त अथवा पूर्णको सम्यक् नहीं कह सकते। रत्नकरण्डमें सत्, सम्यक्, समीचीन, शुद्ध और वीतकलक इन पाँचों शब्दोंको एक ही अर्थमें प्रयुक्त किया है और वह है यथार्थता—निर्दोषना, जिसके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 'समञ्जस शब्दका भी प्रयोग किया गया है। इनमें 'वीतकलक' शब्द सबसे अधिक—शुद्धसे भी अधिक—स्पष्टार्थका लिये हुए है और वह अन्तमें स्थित हुआ अनन्दीपकवी तरह पूर्वमें प्रयुक्त हुए 'सत्' आदि सभी शब्दोंकी अर्थहृष्टि पर प्रकाश डालता है, जिसको जरूरत थी, क्योंकि 'सत्' सम्यक् जैसे शब्द प्रशासादिके भी वाचक हैं। प्रशासादि किस चीजमें है? दोषाके दूर होनेमें है। उम्मी वीतकलक' शब्द व्यक्त कर रहा है। दर्शनमें दाष शास्त्र-मूहनादिक, ज्ञानमें सशय-विपययादिक और चारित्रमें राग-द्वेषादि होनेमें है। इन दोपाँग रहि। जो दशन-ज्ञान और चारित्र है, वे ही वीतकलक अथवा निर्दोष दशन-ज्ञान-चारित्र हैं, उन्हीं रूप जो अपन आत्माको परिणात करता है उसे ही लाक परलाकके सर्व अर्थकी सिद्धि प्राप्त होती है। यही उक्त उपान्त्य पदाकार फलितार्थ है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पदामें 'सम्यक्'के स्थानपर 'वीतकलक' शब्दका प्रयोग बहुत सौच-ममझकर गहरी दूरहृष्टिके साथ किया गया है। छन्दकी हृष्टिने भी वहाँ सत्, सम्यक् समीचीन, शुद्ध या समझुस जैसे

कलंक शब्दके द्योगका एक सुस्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है—

अपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय-वाक् चित्त-सम्भवम् ।

कलंकभग्निवा सोऽय देवेनन्दी नमस्पते ॥—ज्ञानार्थक ॥

शब्दोंमें से किसीका प्रयोग नहीं बनता और इसलिये 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग इलेखार्थके लिये अथवा द्वाविदी प्राणायामके रूपमें नहीं है जैसा कि प्रोफेसर साहब समझते हैं। यह बिना किसी इलेखार्थकी कल्पनाके प्रन्यसन्दर्भके साथ मुसम्बद्ध और अपने स्थानपर सुप्रयुक्त है।

अब मैं इतना भी बतला देना चाहता हूँ कि ग्रन्थका अन्तःपरीक्षण करनेपर उसमें कितनी ही बातें ऐसी पाई जाती हैं जो उसकी अति प्राचीनताकी छोटक हैं, उसके कितने ही उपांशों-भाचारों, विधि-विधानों अथवा क्रियाकार्डों की तो परम्परा भी टीकाकार प्रभाचन्द्रके समयमें लुप्त-हुई-सी जान पड़ती है, इसीमें वे उनपर यथेष्ट प्रकाश नहीं ढाल सके और न बादको ही किसीके द्वारा वह ढाला जा सकता है; जैसे 'मूर्ध्वरह-मुष्टि-जासो-बन्ध' और 'चतुरावतंत्रितय' नामक पदोंमें वर्णित आचारकी बात। अष्ट-मूलगुणोंमें पञ्च अणुवत्तोंका समावेश भी प्राचीन परम्पराका छोटक है, जिसमें समन्तभद्रसे शताब्दियों बाद भारी परिवर्तन हुआ और उसके अणुवत्तोंका स्थान पञ्चउद्भवफलोंने ले लिया ॥ । एक चाण्डालपुत्रको 'देव' अर्थात् आराध्य बतलाने और एक गृहस्थको मुनिसे भी थ्रेषु बतलाने जैसे उदार उपदेश भी बहुत प्राचीनकालके संसूचक हैं, जब कि देश और भमाजका वातावरण काफी उदार और सत्यको ग्रहण करनेमें सक्षम था। परन्तु यहाँ उन सब बातोंके विचार एवं विवेचनका अवसर नहीं है—वे तो स्वतन्त्र लेखके विषय हैं, अथवा अवसर मिलनेपर 'समीक्षी-धर्मशास्त्र' की प्रस्तावनामें उनपर यथेष्ट प्रकाश ढाला जायगा। यहाँ मैं उदाहरणके तीरपर सिर्फ दो बातें ही निवेदन कर देना चाहता हूँ और वे इस प्रकार हैं—

(क) रत्नकरण्डमें सम्बद्धनको तीन मूढताओंसे रहित बतलाया है और उन मूढताओंमें पाल्पिडमूढताका भी समावेश करते हुए उसका जो स्वरूप दिया है

॥ इस विषयको विशेषतः जाननेके लिये देखो लेखकका 'जैनाचार्योंका शासन भेद' नामक ग्रन्थ पृष्ठ ७ से १५। उसमें दिये हुए 'रत्नमाला' के प्रभाणपरसे यह भी जाना जाता है कि इत्यमालाकी रचना उसके बाद हुई है जबकि मूलगुणोंमें अणुवत्तोंके स्थानपर पञ्चुद्भवरकी कल्पना डुक होकरी भी और इस लिये भी वह रत्नकरण्डसे शताब्दियों बादकी रचना है।

वह इस प्रकार है—

समन्धाऽम्भ-हिंसानां समाराऽवर्त-वर्तिनाम् ।

पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्ड-मोहनम् ॥२४॥

‘जो समन्ध है—धन-धान्यादि परियहसे युक्त है,—आरम्भ सर्वात है—कृषि-वाणिज्यादि सावधकम करते हैं—, हिमामे रत है और समारके आवनोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं—भवभ्रमणमे कारणीयूत विवाहादि कर्मोद्धारा दुनियाके चक्रर अथवा गोरखधन्वेमे फँसे हुए हैं, ऐसे पाखण्डियोका—वस्तुनः पापके खण्डनमें प्रवृत्त न होनेवाले लियी साधुप्रोका जो (पाखण्डीके रूपमें अथवा माधु-गुरु बुद्धिसे) आदर-सत्कार है उसे ‘पाखण्डमूढ़’ समझना चाहिए ।’

इसपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्ड इन्धकी रचना उस समय हुई है जबकि ‘पाखण्डी’ शब्द अपने मूल अर्थमें—‘पाप खण्डयतीति पाखण्डी’ इस निर्युक्तिके अनुसार—पापका खण्डन करनेके लिए प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुप्रो-के लिये आमतौरपर व्यवहृत होना था, चाहे व साधु स्वमनके हो या परमतके चुनावे मूलचार (प्र० ५) मे ‘रत्नगड वरग तारस-परिहन्तादीयश्चरणपासडा’ वाक्यके द्वारा रत्नपटादिक साधुप्रोको अन्यमतके पाखण्डी बतलाया है, जिसमे साक छवनिन है कि तब स्वमत (जैनो) के तपस्वी साधु भी ‘पाखण्डी’ कह-लाते थे । और इसका समर्थन कुन्दकुन्दाचार्यके समयसार ग्रन्थकी ‘पाखण्डी-निगाणि व गिर्लिंगाणि व बहुप्रयारगि इत्यादि गाथा न० ४०८ आदिमे भी होता है, जिनमे पाखण्डीलिङ्गको अनगार-साधुप्रो (निर्ग्रन्थादि मुनियो) का लिंग बनलाया है । परन्तु ‘पाखण्डी’ शब्दके अर्थकी यह स्थिति आजसे कोई दशो शताब्दियो पहलेसे बदल चुकी है । और तबसे यह ‘शब्द प्रायः धूर्तं’ अथवा ‘दम्भी-कपटी’ जैसे विकृत अर्थमें व्यहर होना आरहा है । इस अर्थका रत्नकरण्डके उक्त पद्ममें प्रयुक्त हुए ‘पाखण्डन्’ शब्दके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यहा ‘पाखण्डी’ शब्दके प्रयोगको यदि धूर्तं, दम्भी, कपटी अथवा भूठे (मिथ्यादृष्टि) साधु जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा कि कुछ अनु-वादकोने अमवश्य अमुनिक हृष्टिसे ले लिया है, तो अर्थका अर्थ हो जाएग और ‘पाखण्ड-मोहनम्’ पदमें पहा हुआ ‘पाखण्डन्’ शब्द अनर्थक और असम्बद्ध ठहरे । कोकि इस पदका अर्थ है—‘पाखण्डियोके

विषयमें मूढ़ होना' अर्थात् पाखण्डीके वास्तविक + स्वरूपको न समझकर अपाखण्डयो अथवा पाखण्डधाभासोको पाखण्डी मान लेना और वैसा मानकर उनके साथ तदरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका विन्यास ग्रन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'उत्तामूढम्' पदके समान ही है, जिसका आशय है कि 'जो देवता नहीं हैं—रागद्वेषसे मलीन देवताभ स हैं—उन्हें देवता समझना और वैसा समझकर उनकी उपासना करना। ऐसी हालतमें 'पाखडिन्' शब्दका अर्थ 'धूतं' जैसा करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि धूर्तोंके विषयमें मूढ़ होना अर्थात् जो धूतं नहीं है उन्हें धूतं समझना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना' और यह अर्थ किसी तरह भी सगत नहीं कहा जा सकता। अतः रत्नकरण्डमें 'पाखडिन्' शब्द अपन मूल पुरातन अर्थमें ही व्यवहृत हुआ है, इसमें जरा भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। इस अर्थकी विकृति विक्रम स० ७३४ से पहले हो चुकी थी और वह धूतं जैसे अर्थम व्यवहृत होने लगा था इसका पता उक्त सबत् अथवा वीरनिर्बाग स० १२०४ में बनकर समाप्त हुए श्रीर-विषेणाचाय कृत पश्चचरितके निम्न वाक्यसे चलता है—जिसमें भरत चक्रवर्तीके प्रति यह कहा गया है कि जि । आहुणोकी सृष्टि आपने की है वे वद्धमान जिनेवक्ते निवाणिके बाद कलियुगमें महाउद्धत 'पाखडी' हो जायेगे। और अगले पदमें छह्वे 'सदा पापक्रियोदाता' विशेषण भी दिया गया है—

वर्द्धन्मान-जिनस्याऽन्ते भविष्यन्ति बुलौ युगे ।

१ ते ये भवता मृष्टा. पाखण्डिनो महाउद्धता ॥४-८६॥

ऐसी हालतमें रत्नकरण्डकी रचना उन विद्यानन्द आचार्यके बादकी नहीं हो सकती जिनका समय प्र० साहबने ई० सन् ८१५ (वि० सबत् ८७३) के नग-भग बतलाया है।

+ पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकार मद्वादयन 'तपस्वी' के निम्न लक्षणमें समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी साक्षु पापोका खण्डन करनेमें समर्थ होते हैं—

विषयाशा-वशाज्ञीनो निरारम्भोऽपरिग्रह ।

ज्ञान घ्यान तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥

(ख) रत्नकरण्डमे एक पश्च निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपक्ष्टे ब्रतानि परिगृह्ण।
भैश्वारशनस्तपस्यनुलूप्त्वेल-खण्ड-धरं ॥१४७॥

इसमे, ११ वीं प्रतिमा (कक्षा) स्थित उत्कृष्ट आवकका स्वरूप बतलाते हुए, घरसे 'मुनिवन' को जाकर गुरुके निकट ब्रतोको प्रहण करनेकी जो बात कही गई है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि यह प्रत्य उस समय बना है जब कि जैन मुनिजन आमतौरपर बनोमे रहा करते थे—बनोमें ही यत्यात्र म प्रतिष्ठित थे—और वही जाकर गुरु (आचार्य) के पास उत्कृष्ट आवकपदकी दीक्षा ली जाती थी । और यह स्थिति उस समयकी है जबकि चैत्यवास—मन्दिर-मठोमे मुनियोका आमतौर पर निवास—प्रारम्भ नहीं हुआ था । चैत्यवास विकल्प-की ४३३ ५३३ जनाब्दीमे प्रतिष्ठित हो चुका था—यथापि उसका प्रारम्भ उससे भी कुछ पहले हुआ था—ऐसा तद्विषयक इतिहाससे जाना जाता है । ५० नाशूराम-जी प्रेमीके 'बनवासी और चैत्यवासी सम्रदाय' नामक निबन्धसे भी इस विषय-पर किनाना ही प्रकाश पड़ना है * और इस लिये भी रत्नकरण्डकी रचना विद्यानन्द आचार्यके बादकी नहीं हो सकती और न उस रत्नमालाकारके सम-सामविक अथवा उसके गुरुकी कृति हो सकती है जो स्पष्ट शब्दोमें जैन मुनियोके लिये बनवासका निषेध कर रहा है—उसे उत्तम मुनियोके द्वारा बर्जित बतला रहा है—और चैत्यवासका खुला पोषण कर रहा है † वह तो उन्हीं स्वामी समन्वयभद्रकी कृति होनी चाहिए जो प्रसिद्ध बनवासी थे, जिन्हें प्रोफेसर साहवने द्वेताम्बर पट्टावलियोके आधारपर 'बनवासी' गच्छ अथवा सङ्क्षेके प्रस्थापक 'सामन्तभद्र' लिखा है जिनका द्वेताम्बर-मान्य समय भी दिगम्बर-मान्य समय (विकल्पकी दूसरी जनाब्दी)के अनुकूल है और जिनका आसमीमासाकारके साथ एकत्र माननेमे प्रो० सा० को कोई आपत्ति भी नहीं है ।

रत्नकरण्डके इन सब उल्लेखोकी रोशनीमे प्रो० साहवकी चौथी आपत्ति

* जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३४७ से ३६६

† कली काने वने वासो बज्यते मुनिसत्तमे ।

स्थगितं च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषत ॥२२॥—रत्नमाला

और भी निःसार एवं निस्तेत्र हौं' जाती है और उनके द्वारा प्रन्थके उपान्त्य पद्ममें की गई इलेपार्वती उत्त कल्पना बिल्कुल ही निमूँल ठहरनी है—उसका कहीसे भी कोई समर्वन नहीं होता। रत्नकरण्डके समयको जाने-अनजाने रत्नमालाके रचनाकाल (विक्रमकी ११ वी शताब्दीके उत्तरार्द्ध या उसके भी बाद) के सभीप लानेका आग्रह करनेपर यशस्तित्तकके अन्तर्गत सोमदेवसूरिका ४६ कल्पोंमें वर्णित उपासकाध्ययन (वि० सं० १०१६) और शीघ्रामुण्डरावका चारित्रसार (वि० सं० १०३५ के लगभग) दोनों रत्नकरण्डके पूर्ववर्ती ठहरें, जिन्हें किसी तरह भी रत्नकरण्डके पूर्ववर्ती सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि दोनों रत्नकरण्डके कितने ही शब्दादिके अनुसरणको लिये हुए हैं—‘चारित्रसारमें तो रत्नकरण्डका ‘सम्यग्दर्शनशुद्धा’ नामका एक पूरा पद भी ‘उक्तं च’ रूपसे उद्धृत है। और तब प्रो० साहबका यह कथन भी कि ‘शावकाचार-विषयका सबसे प्रधान और प्राचीन ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डशावकाचार है’ उनके विश्वद जायगा, जिसे उन्होंने घबलाकी चतुर्थ पुस्तक (क्षेत्रस्पर्शन अनु०) की प्रस्तावनामें व्यक्त किया है और जिसका उन्हें उत्तरके चक्ररमें पढ़कर कुछ ध्यान रहा मालूम नहीं होता और वे यहाँ तक लिख गये हैं कि “रत्नकरण्डकी रचना-का समय इस (विचानन्दसमय वि० सं० ८७३) के पश्चात् और वादिराजके समय अर्थात् शक सं० ६४७ (वि० सं० १०५२) से पूर्व सिद्ध होता है। इस समयावधिके प्रकाशमें रत्नकरण्डशावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल सभीप आजाते हैं और उनके बीच शातान्त्रियोंका अन्तराल नहीं रहता है।”

इस तरह गम्भी० गवेषणा और उदार पर्यालोकनके साथ विचार करनेपर प्रो० साहबकी चारों दसीलों ग्रन्थवा आपत्तियोंमेंसे एक भी इस योग्य नहीं ठहरती जो रत्नकरण्डशावकाचार और आसमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध करने ग्रन्थवा दोनोंके एककर्तृत्वमें कोई बाधा उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सके और इसलिये बाधक प्रमाणोंके अभाव एवं साधक प्रमाणोंके सद्भावमें यह कहना न्याय-प्राप्त है कि रत्नकरण्डशावकाचार उन्हीं समन्तभद्र आचार्यकी कृति है जो आसमीमांसा (देवागम)के रचयिता हैं। और यही मेरा निर्णय है।

५ अनेकान्त वर्ष ७, किरण ५०६, पृ० ५४ :

२४

भगवती आराधना

यह सम्यगदर्शन सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपष्टि कार आराधनाओं पर, जो मुक्तिको प्राप्त करनेवाली हैं, एक बड़ा ही अधिकारपूरण प्राचीन प्रन्थ है, जैनसमाजमें सर्वत्र प्रभिद्व है और प्रायः मुनिघर्में सम्बन्ध रखता है। जैरधर्ममें समाधिपूर्वक मरणकी मर्वोंपरि विशेषता है—मुनि हो या आवक सबका लक्ष्य उसकी और रहना है, नित्यकी प्राप्तनागें उसके लिये भावना की जाती है और उसकी सफलतापर जीवनकी सफलतातथा सुन्दर भविष्यकी आशा निर्भर रहती है। इस प्रथपरसे समाधिपूर्वक मरणकी पर्याप्त शिक्षासामग्री तथा व्यवस्था मिलती है—सारा प्रथ मरणके भेद-प्रभेदों और तत्सम्बन्धी शिक्षाओं तथा व्यवस्थाओंसे भरा हुआ है। इसमें मरणके मुख्य पात्र भेद किये हैं—१ पडितपडित, २ पडिन, ३ बालपडित, ४ बाल और ५ बाल-बाल। इनमें पहले तीन प्रशस्त और शप अप्रशस्त हैं। बाल-बालमरण मिद्याहृष्टि जीवोंहा, बालमरण अविरत-सम्यग्भृष्टियोंका, बालपडितमरण विरताऽविरत (देशन नी, आवकोंका, पण्डितमरण सहस्रमी साधुयोंका और पडित पण्डितमरण क्षीणकाय के इलियोंका होता है। साथ ही, पडितमरणके १ भक्तप्रत्याख्यान, २ इङ्गिनी और ३ प्रायोपयमन ऐसे तीन भेद करके भक्तप्रत्याख्यानके सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान और अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान ऐसे दो भेद किये हैं और किर सविचारभक्तप्रत्याख्यानका ‘अहं आदि चालीस अधिकारोंमें विस्तारके साथ वर्णन दिया है। तदनन्तर अविचार-भक्तप्रत्याख्यान, इङ्गिनी, प्रायोपयमनमरण बालपडितमरण और पडित पडितमरणका सक्षेपत निरूपण किया है। इस विषयके इनने अधिक विस्तृत प्रोग्राम्यवस्थित विवेचनको लिए हुए दूसरा छोई भी

प्रथं जैनसमाजमें उपलब्ध नहीं है। अपने विषयका भ्राताकारण मूलग्रन्थ होनेसे जैनसमाजमें यह सूत्र ख्यातिको प्राप्त हुआ है। इसकी गाथासूत्रा सब मिलाकर २१७० है, तिनमें ५ गाथाएँ 'उत्तं च' आदि रूपसे दी हुई हैं।

भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्थं अथवा शिवकोटि नामके आचार्य हैं, जिन्होंने प्रथके अन्तमें आर्यजिननन्दिगणी सर्वशुसंगणी और आर्यमित्रनन्दिका अपने विद्या अथवा शिक्षा-गुरुके रूपमें इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि उनके पादमूलमें बैठकर 'सम्म' सूत्र और उसके अर्थकी अथवा सूत्र और अर्थकी भले प्रकार जानकारी प्राप्त कीगई और पूर्वार्थार्थं अथवा आचार्योंके डारा निबद्ध हुई आराधनाओंका उपयोग करके यह आराधना स्वरूपिके अनुसार रची गई है। साथ ही, अपनेको 'पाणि-दल-भोजी' (करपात्र-आहारी) लिखकर इवेताम्बर सम्प्रदायसे भिन्न दिगम्बर सम्प्रदायका आचार्य सूचित किया है। इसके सिवाय, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि छ्यापस्थता (ज्ञानकी अपूर्णता) के कारण मुझमें कही कुछ प्रवचन (आगम) के विरुद्ध निबद्ध हो गया हो तो उसे सुगीतार्थं (आगमज्ञानमें निपुण) साधु प्रवचनवत्सलताकी हप्तिसे मुक्त हो जाए। और यह भावना भी की है कि भक्तिसे बरांन की हुई यह भगवती आराधना सधको तथा (मुक्त) शिवार्थको उत्तम समाधि वर प्रदान करे—इसके प्रसादसे मेरा तथा सधके सभी प्रणियोंका समाधिपूर्वक मरण होवें।

इम प्रथपर मस्कुत, प्राकृत और हिन्दी आदिकी कितनी ही टीका टिप्प-

* अज्जजिणणदिगणि-सब्बगुतगणि-अज्जमित्तणदीण ।

अवगमिय पादमूले सम्म सुत च प्रथं च ॥ २१६५ ॥

पुञ्चायरियणिकद्वा उवजीविता इमा ससतीए ।

आराहणा सिवज्जेणा पाणिदलभोहणा रद्दा ॥ २१६६ ॥

छादुमत्थदाए एत्थ दु ज बद्ध होज्ज पवयण-विहृद ।

सोष्ठु सुगीदत्था पवयणा- वच्छलदाए दु ॥ २१६७ ॥

आराहणा भयवदी एव भतीए वणिण दा सती ।

सधस्त सिवज्जस्त य समाहिवरमुत्तम देत ॥२१६८ ॥

ऐसी लिखी गई हैं अनुचाद भी हुए हैं और वे सब ग्रथकी रूपाति, उपयोगिता, प्रचार और महत्त्वके बोतक हैं। प्राकृतकी टीका-टिप्पणियाँ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु सस्कृत टीकाओंमें उनके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। और वे ग्रथकी प्राचीनताको सविशेषरूपसे सूचित करते हैं। ज्यननदी और श्रीचन्द्रके दो टिप्पणी और एक अज्ञातनाम विद्वानका पदानुवाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, जिनका ५० आशाघरकी टीकामें उल्लेख है। और भी कुछ टीका-टिप्पणियाँ अनुपलब्ध हैं। उपलब्ध टीकाओंमें सभवत विक्रमकी ८ वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य अपराजितसूरिकी 'विजयोदया' टीका, १३वीं शताब्दीके विद्वान् ५० आशाघरकी 'मूलाराघनादर्पण' नामकी टीका और ११ वीं शताब्दीके विद्वान् अमितगतिकी पदानुवादरूपमें 'सस्कृत आराघना' ये तीनों कृतिया एक साथ नई हिन्दी टीका सहित मुद्रित हो चुकी हैं। ५० सदामुखजीकी हिन्दी टीका इनसे भी पहले मुद्रित हुई है। और 'आराघनापन्डिका' तथा शिवजीलालकृत 'भावार्थदीपिका' टीका दोनों पूना के भण्डारकर प्राच्य-विद्या सशोधक-मंदिरमें पाई जाती है, ऐसा ५० नायूरामजी प्रेमीने अपने लेखोंमें सूचित किया है।



भ० आराधनाकी दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ

‘अभवती आराधना और उमकी टीकाएँ’ नामका एक विस्तृत लेख ‘अनेकान्त’ के प्रथम बर्षकी किरण ३, ४ मे प्रकाशित हुआ था। उसमे सुहृदर प० नाथूरामजी प्रेमीने शिवाचार्य-प्रणीत ‘भगवती आराधना’ नामक महान् ग्रन्थकी चार संस्कृत टीकाओका परिचय दिया था—१ अपराजितसूरिकी ‘विजयोदया’ २ वं० आशाधरकी ‘मूलाराधना-दर्पण’, ३ अज्ञातकर्त्ता का ‘आराधनापञ्जिका’ और ४ प० शिवजीलालकी ‘भावाद-दीपिका’ टीका। प० सदा-सुखजीकी भाषावचनिकाके अतिरिक्त उस बर्त तक इन्हीं चार टीकाओका पता चला था। हालमे मूलाराधना-दर्पणको देखते हुए मुझे इस ग्रन्थकी कुछ दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियोका भी पता चला है और यह मालूम हुआ है कि इस ग्रन्थ पर दो संस्कृत टिप्पणोके अतिरिक्त प्राकृत भाषाकी भी एक टीका पी, जिसके होनेकी बहुत बड़ी सम्भावना थी, क्योंकि मूलग्रन्थ अधिक प्राचीन है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो गया कि अपराजितसूरिकी टीकाका नाम ‘विजयोदया’ ही है जैसा कि मैंने अपने सम्पादकीय नोटमे जूँ सूचित किया था ‘विनयोदया’ नहीं, जिसके होनेपर प्रेमीजीने जोर दिया था।

एक विशेष बात और भी जात हुई है और वह कि अपराजितसूरिका दूसरा नाम ‘श्रीविजय’ अथवा ‘श्रीविजय’ था। प० आशाधरजीने जगह-जगह उन्हे ‘श्रीविजयाचार्य’ के नामसे उल्लेखित किया है और प्राय इसी नामके माध्य उनकी उत्त संस्कृत टीकाके वाक्योको मतभेदादिके प्रदर्शनरूपमे उद्घृत किया है अथवा किसी गाथाकी अमान्यतादि-विषयमे उनके इस नामको वेश किया है।

और इसलिये टीकाकारने टीका को अपने नामाङ्कित किया है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। स्वयं 'विजयोदया' के एक स्थल परसे यह भी जान पड़ता है कि अपराजितसूरिने दशवेकालिक सूक्ष्मपर भी कोई टीका लिखी है और उसका भी नाम अपने नामानुकूल 'विजयोदया' दिया है। यथा—

“दशवैकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपञ्चिता उद्गमादिदोषा
इति नेह प्रतम्यते ।” —‘उग्रमउपायणादि’ गाथा न० ११६७

धर्मति—इशवेकालिक की 'श्रीविजयोदया' नामकी टीकामे उद्गमादि दोषोंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, इसीसे यहा पर उनका विस्तृत कथन नहीं किया जाता।

हाँ, मूलाराघना दर्पण परसे यह मालूम नहीं हो सका कि प्राकृतटीकाके रचयिता कौन आचार्य हुए हैं—प० आशाधरजीने उनका नाम साथमे नहीं दिया। शायद एक ही प्राकृतटीका होनेके करण उसके रचयिताका नाम देनेकी जरूरत न समझी गई हो। परन्तु कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि प० आशाधरजीने प्राकृतटीकाके रचयिताके विषयमे अपने पाठकोंको अंधेरेमे रखता है। दोनों टिप्पणियोंके कर्ताओंका नाम उन्होंने फूर दिया है, जिनमेंसे एक है 'जयनन्दी' और दूसरे 'श्रीचन्द्र'। श्रीचन्द्राचार्यके दूसरे टिप्पण प्रसिद्ध है—एक पुण्ड्र तक्तविके प्राकृत उत्तरपुराणका टिप्पण है और दूसरा रविवेशके पथचरितका। पहला टिप्पण वि० म० १०८० मे और दूसरा वि० सं० १०८३ मे बनकर समाप्त हुआ है। भगवती आराघनाका टिप्पण भी ममतव:

† “श्रीविक्रमादित्यमवत्सरे वर्णिणामशीत्यधिकमहत्ते महापुराण-विषम
पदविवरणा सागरसेनमैद्वन्नता त्परिज्ञाय मूलटिप्पण चालोक्य कृत्तिर्विद समुच्चय-
टिप्पण अज्ञपातभीनेन श्रीमद्वन्नतकारणरणश्रीमन्द्वाचार्य-सत्कविलिङ्गेण श्रीच-द्व-
मुनिना, निजदोद्दाभिसूतरपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्य (राज्ये) ॥१०२॥
इति उत्तरपुराणटिप्पणकम्”।

“बलात्कारण-श्रीश्रीनन्द्वाचार्यसत्कविलिङ्गेण श्रीचन्द्रमुनिना, श्रीमहिक-
मादित्यसवत्सरे ससाशीत्यधिकवर्णसहत्ते श्रीमद्वाराया श्रीमतो राज्येभोजदेवस्य
पथचरिते। इति पथचरिते १२३ … ”

भगवती आराधनाकी दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ ४८८

इही श्रीचन्द्रका जान पड़ता है, जिसके गुरुका नाम श्रीनन्दी था और जिन्होने वि० स० १०७० में 'पुराणसार' नामका ग्रन्थ भी लिखा है* ।

जयनन्दी नामके यो तो अनेक मुनि हो गये हैं परन्तु प० आशाधरजीसे जो पहले हुए हैं ऐसे एक ही जयनन्दी मुनिका पता मुझे अभी तक चला है, जो कि कन्डी भाषाके प्रधान कवि आदिपम्पसे भी पहले होगये हैं क्योंकि आदिपम्पने अपने 'आदिपुराण और 'भारतचम्पू' मे, जिसका रचनाकाल शक स० ८६३ (वि० स० ६६८) है, उनका स्मरण किया है । बहुत सम्भव है कि ये ही 'जयनन्दी मुनि भगवती आराधनाके टिप्पणीकार होते हैं । यदि एसा हो तो इनका समय वि० की १० वीं शताब्दीके करीबका जान पड़ता है क्योंकि आदिपुराणमें बहुत स आचार्योंके स्मरणानन्तर इनका जिसप्रकारसे स्मरण किया गया है उसपरसे ये आदिपम्पके प्राय समकालीन अथवा थोड़े ही पूवबर्ती जान पड़ते हैं । अस्तु, विद्वानोंको विशेष खोज करके इसविषयमें अपना निश्चित पत प्रकट करना चाहिये । जहरत है प्राकृतीका और दोनों टिप्पणीको शास्त्रभण्डारोंकी कालझोठरियोंसे खाजकर प्रकाशम लान की । ये सब ग्रन्थ प० आशाधरजीके अस्तित्वकाल १३वी-१४वी शताब्दीम मौजूद थे और इसलिये पुराने भण्डारोंकी खोज द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है । देखते हैं, कौन सज्जन इन लुतप्राय ग्रन्थोंकी खोजका अय और यश प्राप्त करते हैं ।

अब मैं मलाराधना दपणके उन वाक्योंमें से कुछको नीचे उद्धृत कर देना चाहता हूँ जिन परसे उक्त टीका-टिप्पणी आदि बातोंका पता चलता है —

टीका-टिप्पणीके उल्लेख—

(१) ‘षट्क्रिंशदूरगुण यथा—अष्टौ ज्ञानाचारा अष्टौ दर्शनाचारा—
इच तपो द्वादश विध पञ्च समित्यस्तिस्रो गुप्रयश्चेति सस्कृतटीकाया,

* चाराया पुरि भोजदेवनृपते राज्ये जयात्युच्चकं

श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेऽन्तिवा पुराण महत् ।

मुक्त्यर्थं भवभीतभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो त्रुष्ठो

कुर्वे चापुराणसारममल श्रीचन्द्रनामा मुनि ॥१॥

श्रीविक्रमादित्यसवत्सरे सतत्प्रिकवर्णसहस्रे पुराणसारमिकान समाप्तम् ।

प्राकृतटीकायां तु अष्टाविंशतिमूलगुणाः अचारवत्वाद्यशब्दौ इति
पट्टिंशत् । यदि वा दश आलोचनागुणा दश प्रायश्चित्तगुणा दशस्थिति-
कल्पाः पठ्जीतगुणाश्चेति पट्टिंशत् ॥—पायारवामादीयाऽगाधा०न० ५२६

(२) “किमिरागकबलस्सव (गा० ५६७) कुमिरुक्ताहारवर्णतंतुभिरुतः
कंबलः कुमिरागकबलस्तस्येति संस्कृतटीकाम्या व्याख्यानं । टिप्पणके तु
कुमिरात्यकरक्ताहाररंजिततंतुनिष्ठादितकबलस्येति (?) । प्राकृतटीकायां पुन-
रिदमुक्तं उत्तरापथे चर्मरंगम्लेच्छविषये म्लेच्छा जलौकाभिर्मानुषरुधिरं
गृहीत्वा भंडवेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपयदिवभोत्पन्न-
विषज्ञकुमिकेणोणांसूत्रं रजयित्वा कंबलं वयन्ति । सोऽयं कुमिरागकबलं
इत्युच्यते । स चातीवरुधिरवरणो भवति । तस्य हि वन्हिना दग्धस्यापि
स कुमिरागो नापगच्छतीति ।”

(३) “कूर भर्त्तं । श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तं । अत्र कथयार्थप्रति-
पत्तिर्यथा—चन्द्रनामा सूपकारः (इत्यादि) ।” —मयतङ्हादो०गा० ५८६

(४) “एव सति द्वादशसूत्री तेन (संस्कृतटीकाकारेण) नेष्ठो ज्ञायते ।
अस्माभिस्तु प्राकृतटीकाकारादिमतेनैव ड्याख्यायते ।”

बमरीबाल०, छगलमुक्त० गा० न० १०५१-१०५२

(५) कम्मेत्यादि (गा० न० १६६६) अत्र स कर्ममलः मिथ्यात्वादि-
स्तोककर्माणि । सिद्धि सर्वार्थसिद्धिमिति जयनन्दि-टिप्पणो व्याख्या ।
प्राकृतटीकायां तु कम्ममलविष्पमुक्तो कम्ममलेण मेल्लिदो । सिद्धि
णिवाण ।” —कम्ममलविष्पमुक्तो सिद्धि० गा० १६६६

(६) “सम्मि समभूमिदेशस्थिते वाण वानोद्भव इति जयनन्दी ।
अन्ये तु वाणविंतरओ इत्यनेन ठ्यंतरमात्रमाहुः ।”

—वेषाणिष्ठो खलगदो० गाधा न० २०००

अपराजितसूरि और श्रीविजयकी एकताके उल्लेख—

(७) श्रीप्रिजयाचार्यस्तु मिथ्यात्वसेवामतिचारं नेच्छति । तथा च

तद्ग्रन्थो—“मिथ्यात्वमशद्वान् तत्सेवायां मिथ्याहृषिरेवासाविति नाति-
चरिता” इति । —सम्मतादीचाराभाष्य ५४६

(८) “एतां (एवमस्मिन्य जं पुढवं० गा० ५६५) श्रीविजयो नेच्छति ।”

(९) एते (सल्लेहणाए० ६८१, एगम्नि भवग्रहणो० ६८२) श्रीविज-
याचार्यो नेच्छति ।”

(१०) “श्रीविजयाचार्योऽत्र आणापायविवागविचयोनामधर्मध्यानं
‘आणापाय’ इत्यस्मिन्प्राठे त्वपायविचयो नामेति व्याख्यत् ।”

—कल्लाणपावगाण० गा० १७१२

(११) “श्रीविजयस्तु ‘दिस्सदि दता व उवरीति’ पाठ मन्त्रमानो
ज्ञायते ।” —जदि तस्स उत्तमग० गा० १६६६

उपर्युक्त उल्लेखोम विजयाचार्यके नामसे जिन वाक्योका अथवा विशेष-
ताप्रोक्ता कथन किया गया है वे सब अपराजितसूरिकी उक्त टीकामें ज्योकी
त्थो पाई जाती हैं । जिन गाथाप्रोक्तो अपराजितसूरि (श्रीविजय) ने न मानकर
उनको टीका नहीं दी है उनके विषयमें प्रायः इस प्रकार के वाक्य दिये हैं—
“अत्रेयं गाथा सूत्रे॑ नुश्चयते”, अत्रेमे गाथे सूत्रे॑ नुश्चयते ।” ऐसी
हालतमें श्रीविजय और अपराजितसूरिकी एकतामें कोई सन्देह नहीं रहता ।

आशा है साहित्य-प्रेमी और जिनवाणीके भक्त महाशय शीघ्र ही उक्त
प्राकृतटीका और दोनों टिप्पणीको अपने यहाँके शास्त्र-मण्डारोमें सौजने-
का पूरा प्रयत्न करेंगे । जो भाई सौजकर इन ग्रन्थोको देखनेके लिये मेरे पास
भेजेंगे उनका मैं बहुत अभारी हूगा और उन ग्रन्थो परसे और नई नई तथा
निहित बातें सौज करके उनके सामने रखकूँगा । अपने पूरातन साहित्यकी
रक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिये । यह इस समय बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य
है । ग्रन्थोके नहु होजाने पर किसी मूल्य पर भी उनकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी
और फिर सिवाय पछतानेके और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहेगा । अत समय रहते
सबको चेत जाना चाहिये ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा और स्वामिकुमार

यह अनुप्रेक्षा अध्युगादि बारह भावनाओपर, जिन्हे भव्यजनोंके लिये आनन्दकी जननी लिखा है (गा० १), एक बड़ा ही मुन्दर, सरल तथा मार्मिक ग्रथ है और ४८६ गाथासंख्याको लिये हुए है। इसके उपदेश बड़े ही हृदय-ग्राही हैं, उक्तियाँ अन्तस्तलको स्पर्श करती हैं और इसीसे यह जैन समाजमें सबत्र प्रचलित है तथा बड़े ही आदर एवं प्रेमकी हृषिसे देखा जाता है।

इसके कर्ता ग्रथकी निम्न गाथा न० ४८७ के अनुसार 'स्वामिकुमार' हैं, जिन्होंने जिनवचनकी भावनाके लिये और चचल मनको रोकनेके लिये परमश्रद्धाके साथ इन भावनाओंकी रचना की है—

जिण-वयण-भावण्डुं सामिकुमारेण परमसद्गाए ।

इया अगुपेक्ष्वाओ चंचलमण्ण-रुभण्डुं च ॥

'कुमार' शब्द पुत्र, बालक, राजकुमार, युवराज, अविवाहित, ब्रह्मचारी आदि अर्थोंकि साथ 'कार्तिकेय' अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, जिसका एक आशय कृतिकाका पुत्र है और दूसरा आशय हिन्दुओंका वह घडानम देवता है जो शिव-जीके उस वीर्यसे उत्पन्न हुआ था जो पहले अग्निदेवताको प्राप्त हुआ, अग्निमें गगामे स्नान करती हुई छह कृतिकाओंके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, जिससे उन्होंने एक एक पुत्र प्रसव किया और वे छहों पुत्र बादकी विचित्र रूपमें मिलकर एक पुत्र कार्तिकेय हो गए, जिसके छह मुख और १२ मुखाएं तथा १२ नेत्र बतलाये जाते हैं। और जो इसीमें शिवपुत्र, अग्निपुत्र, गगापुत्र तथा कृतिका आदिका पुत्र कहा जाता है। कुमारके इस कानिकेय अर्थको लेकर ही यह प्रथ्य स्वामिकार्तिकेय-कृत कहा

बाता है तथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा जैसे नामोंसे इसकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। परन्तु ग्रथ-भरमें कही भी ग्रथकारका नाम कार्तिकेय नहीं दिया और न ग्रथको कार्तिकेया-नुप्रेक्षा ग्रथवा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा जैसे नामोंसे उल्लेखित ही किया है, प्रत्युत इसके, प्रतिज्ञा और समाप्ति-वाक्योंमें ग्रन्थका नाम „समान्वयतः ‘अणुपेहा’ या ‘अणुपेक्षा’ (अनुप्रेक्षा) और विशेषतः ‘बारस अणुपेक्षा’ दिया है ॥ ५ ॥ कुन्दकुन्द-के इस विषयके ग्रथका नाम भी ‘बारस अणुपेक्षा’ है। तब ‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ यह नाम किसने और कब दिया, यह अनुसंधानका विषय है। ग्रथपर एकमात्र सस्कृत टीका जो उपलब्ध है वह भट्टारक शुभचन्द्रकी है और विक्रम-सवत् १६१३ में बनकर समाप्त हुई है। इस टीकामें अनेक स्थानों पर ग्रथका नाम ‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ दिया है और ग्रथवारका नाम ‘कार्तिकेय’ मुनि प्रकट किया है तथा कुमारका अर्थ भी ‘कार्तिकेय’ बतलाया है ॥ ६ ॥ इससे सम्भव है कि शुभ-चन्द्र भट्टारकके द्वारा ही यह नामकरण किया गया हो—टीकासे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमें ग्रन्थकाररूपमें इस नामकी उल्लेखित भी नहीं होती।

‘कोहेण जो ण तप्पदि’ इत्यादि गाथा न० ३६४ की टीकामें निम्नलिखमात्रों उदाहृत करते हुए घोर उपसर्गोंको सहन करनेवाले मन्नजनोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें एक उदाहरण कानिवेम्यमुनिका भी निम्न प्रकार है—

१ बोच्छ अणुपेहामो (गा० १), बारसअणुपेक्षामो भणिया हु जिरागममागु-
सारेणा (गा० ४८८) ।

* यथा — (१) कार्तिकेयानुप्रेक्षायायाष्टीका वक्ष्ये शुभश्चिये । (आदिमगल)

(२) कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचितावरा (प्रशस्ति ८)

(३) स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रो अनुप्रेक्षा व्याख्यातु काम मलगा-
लन-मगलावासि-लक्षण-[मगल] माचष्टे । (गा० १)

(४) केन रचित स्वामिकुमारेण भव्यवर-पुण्डरीक श्रीस्वामि
कार्तिकेयमुनिना आजन्मदीलधारिणा अनुप्रेक्षाः रचिता । (गा० ४८७)

(५) मह श्रीकार्तिकेयसाधुः सस्तुवे (४८६) (दहली नयामन्दिर-प्रति,
विं सवत् १८०६)

‘समिकार्तिकेयमुनि-कर्त्तव्यराज-कृतोपसर्गं सोहृदा साम्यपरिणामेन समाधिमरणेन देवलोक प्राप्य (पत १)।’

इसमें लिखा है कि ‘स्वामीकार्तिकेय मुनि कोवराजकृत उपसर्गको समभावने सहकर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देवलोकको प्राप्त हुए।’

तत्त्वार्थराजवातिकादि ग्रन्थोमें ‘अनुत्तरोपपाददाशाग का बराँन करते हुए बद्धमान तीर्थकरके तीर्थमें दाखण उपसर्गोंको सहकर विजयादिक अनुत्तर किमानो (देवलोक) में उत्पन्न होनेवाले दस अनगार-सामुद्रोके नाम दिये हैं, उनमें कातिक अथवा कार्तिकेयका भी एक नाम है परन्तु किसके द्वारा वे उपसर्गको प्राप्त हुए ऐसा कुछ उल्लेख साथमें नहीं है।

हाँ, भगवती आराधना-जैसे प्राचीनग्रन्थकी निम्नगाथा न० १५४६ में कौचके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका उल्लेख जरूर है—साथमें उपसर्गस्थान ‘रोहेडङ्क’ और ‘शक्ति हथियारका भी उल्लेख है—परन्तु कार्तिकेय नामका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उस व्यक्तिको मात्र ‘अग्निदयित’ लिखा है, जिसका अथ होता है अग्निप्रिय, अग्निका प्रेमी अथवा अग्निका प्यारा-प्रेमणात्र—

रोहेडङ्यम्भि सत्तीण हङ्गो कौचेण अग्निदयिदो वि ।

त वेदण्मधियासिय पदिवशणो दत्तमं अहु ॥

‘मूलाराधनादर्पण’ टीकामें प० आशाधरजीने ‘अग्निदयिदो’ (अग्निदयित) पदका अर्थ, ‘अग्निराजनाम्नो राज्ञ पुत्र’ कार्तिकेयसङ्गः—अग्निनामके राजाका पुत्र कार्तिकेयसन्नक—दिया है। कार्तिकेय मुनिकी एक कथा भी हरिषेण, श्रीचन्द्र और नेमिदत्तके कथाकोबोर्में पाई जाती है और उसमें कार्तिकेयको कृतिका मात्रासे उत्पन्न अग्निराजाका पुत्र बतलाया है। साथ ही, यह भी लिखा है कि क तिकेयने राजकालमें—कुमारावस्थामें—ही मुनिदीक्षा ली थी, जिसका अमुक कारण था, और कार्तिकेयकी बहन रोहेड नगरके उत्तर काँचराजाको ब्याही थी जिसकी शक्तिसे आहत होकर अथवा जिसके किये हुए दाखण उपसर्गको जीतकर कार्तिकेय देवलोक सिधारे हैं। इस कथाके पात्र कार्तिकेय और भगवती आराधनाकी उत्त गाथाके पात्र ‘अग्निदयित’

को एक बतलाकर यह कहा जाता है और आमतौर पर माना जाता है कि यह कार्तिकेयानुप्रेक्षा उन्हीं स्वामी कार्तिकेयकी बनाई हुई है जो क्रौंच राजा-के उपसर्गको समझावसे सहकर देवलोक पथारे थे, और इसलिये इस प्रथका रचनाकाल भगवती आराधना तथा श्री कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंसे भी पहलेका है— भले ही इस ग्रन्थ तथा भ० आराधनाकी उक्त गाथामें कार्तिकेयका स्पष्ट नामोल्लेख न हो और न कथामें इनकी इस ग्रन्थरचनाका ही कोई उल्लेख हो ।

परन्तु डाक्टर ए० एन० उपाध्ये एम० ए० कोल्हापुर इस मतसे सहमत नहीं हैं । यद्यपि वे अभी तक इस ग्रन्थके कर्ता और उसके निर्माणकालके सम्बन्धमें अपना काई निश्चिन एकमन स्थिर नहीं कर सके किंतु भी उनका इतना कहना स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उतना (विकल्पसे दोसौ या तीनसौ वर्ष पहलेका †) प्राचीन नहीं है जितना कि द तकथाओंके आधार पर माना जाता है, जिन्होन ग्रन्थकार कुमारके व्यक्तित्वको अन्धकारमें डाल दिया है और इसके मुख्य दो कारण दिये हैं, जिनका सार इस प्रकार है —

(१) कुमारके इस घनुप्रेक्षा-ग्रन्थमें बारह भावनाओंकी गणनाका जो क्रम स्वीकृत है वह वह नहीं है जो कि वट्टकेर, शिवार्थ और कुन्दकुन्दके ग्रन्थों (मूलाचार, भ० आराधना तथा बारसभगुपेक्षा) में पाया जाता है, बल्कि उससे कुछ भिन्न वह क्रम है जो बादको उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें उपलब्ध होता है ।

(२) कुमारकी यह घनुप्रेक्षा, अपन्न श भावामें नहीं लिखी गई, किंतु भी इसकी २७६ वीं गाथामें 'णिमुणिदि' और 'भावहि' (Preferably हि) वे अपन्न शके दो पद आयुसे हैं जो कि बतमान काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं । यह गाथा जोहन्नु (योगीन्नु) के योगसारके ६५वे दोहेके साथ भिलती जुलती है एक ही आशयको लिये हुए है और उन दोहे परसे परिवर्तित करके रखी गई है । परिवर्तनादिका यह काय किसी बादके प्रतिलेखक-

[†] प० पश्चालजी बाकलीवालकी प्रस्तावना प० १ । Catalogue of SK. and PK. Manuscripts in the C P and Berai p XIV, तथा Winternitz. A History of Indian Literature, Vol. II p. 577.

इतरा सभव मालूम नहीं होता, बल्कि कुमारने ही जान या अवजानमें जोइन्दु-
के दोहेका अनुसरण किया है ऐसा जान पड़ना है। उक्त दोहा और गाथा
इस प्रकार हैं :—

विरला जाणहि तत्तु बहु विरला णिसुणहि तत्तु ।

विरला भायरहि तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु ॥५५॥

—योगसार

विरला णिसुणहि तच्च विरला जाणति तच्चदो तच्च ।

विरला भावहि तच्च विरलाण धारणा ढोडि ॥५६॥

—कातिकेयानुप्रेक्षा

और इसलिये ऐसी स्थितिमें डाँ साहबका यह मत है कि कार्तिकेया-
नुप्रेक्षा उक्त कुन्दकुन्दादिके बादी ही नहीं बल्कि परमात्मप्रकाश तथा
योगसारके कर्ता योगेन्द्र आचार्य के भी बादी बनी हुई है, जिसका समय
उन्होंने पूज्यपादके समाधितत्रमें बादका और चण्डव्याकरणसे पूवका अर्थात्
ईमा की ५वी और ७वी शताब्दीके मध्यका निर्धारित किया है क्योंकि
परमात्मप्रकाशमें समाधितत्रका बहुत कुछ अनुमरण किया गया है और चण्ड-
व्याकरणमें परमात्मप्रकाशके प्रथम अधिकारका ८५वीं दोहा (कानु लहेविणु
जोइया इत्यादि) उदाहरणके रूपमें उद्दृश्य है ।

इसमें सन्देह नहीं कि मूलाचार, भगवनी आराधना और बारमधरणुवेक्षा-
में बारह भावनाओंका क्रम एक है इसमा ही नहीं बल्कि इन भावनाओंके नाम
तथा क्रमकी प्रतिपादकगाथा भी एक ही है और यह एक खास विशेषता है जो
गाथा तथा उसमें वर्णित भावनाओंके क्रमकी अधिक प्राचीनताको सूचित
करती है । वह गाथा इस प्रकार है—

अद्घुवमसरणमेगत्तमण्ण-ससार-लोगममुचित्तं ।

आमय-संवर-णिज्जर-घम्म वोहिं च चिति(ते)ज्जो ॥

† परमात्मप्रकाशकी अप्रेशी प्रस्तावना पृ० ६४-६५, प्रस्तावनाका
हिन्दीसार पृ० ११३-११५ ।

उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें इन भावनाओंका क्रम एक स्थानपर ही नहीं बल्कि तीन स्थानोंपर विभिन्न है। उसमें पश्चारणके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको न देकर ससारभावनाको दिया है और ससारभावनाके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको रखा है लोकभावनाको ससारभावनाके बाद न रखकर निर्जरा।भावनाके बाद रखा है और धर्मभावनाओं बोधि-दुर्लभसे पहले स्थान न देकर उसके अन्तमें स्थापित किया है, जैसाकि निम्न सूत्रसे प्रकट है—

‘अनित्याऽशरण-ससारैकत्वाऽन्यत्वाऽशुच्याऽस्त्रव-सवर निर्जरा-
लोक ब्रोधिदुर्लभ-धर्मस्वाख्याततत्त्वानुचित्तनमनुप्रेक्षा ॥ ६-७ ॥

और इससे ऐसा जाना जाता है कि भावनाओंका यह क्रम, जिसका पूर्व साहित्यपरसे समयन नहीं होता, बादको उमास्वातिके द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षामें इसी क्रमको अपनाया गया है। अत यह अन्य उमास्वातिसे पूर्वका नहीं बनता और जब उमास्वातिसे पूर्वका नहीं बनता तब यह उन स्वामिकार्तिकेयकी कृति भी नहीं हो सकता जो हरिषेणादिकथाकोषकी उक्त कथाके मुख्य पात्र हैं, भगवती आराधनाकी गाथा न० १५४६में ‘अग्निदधित’ (ग्रन्तिपुत्र) के नामसे उल्लेखित है अथवा अनुत्तरोपाददशाङ्गमें वर्णित-दश अनगारामें जिनका नाम है। इससे अधिक अन्यकार और अन्यके समय-सम्बन्धमें इस क्रम-विभिन्नतापरसे और कुछ फलित नहीं होता।

अब रही हूसरे कारणकी बात, जहाँ तक मैंने उसपर विचार किया है और अन्यकी पूर्वापि स्थितिको देखा है उसपरसे भूके यह कहनेमें कोई सकोच नहीं होता कि अन्यमें उक्त गाथा न० २७६ की स्थिति बहुत ही सदिग्द है और वह मूलत अन्यका अग मालूम नहीं होती—बादको किसी तरहपर प्रक्रिया हुई जान पड़ती है। क्योंकि उक्त गाथा ‘लोकभावना’ धर्मिकारके अन्तर्गत है, जिसमें सोकसर्वान्, लोकवर्ती जीवाद छह द्रव्य, जीवके ज्ञानमुण्ड और श्रुतज्ञानके विकल्परूप नैगमादि सात नव, इन सबका संखेपमें बड़ा ही मुन्दर व्यवस्थित बरण गाथा न० ११५ से २७८ तक पाया जाता है। २७८ वीं गाथामें नवोंके कथनका उपराहार इत प्रकार किया गया है—

एवं विविह गणहिं जो वत्थू ववहरेदि लोयम्नि ।

दसण णाण-चरित सो साहदि सग्ना मोक्ष्व च ॥ २७८ ॥

इसके अनन्तर 'विरला णिसुणहि तच्च' इत्यादि गाया न० २७६ है, जो औपदेशिक ढगको लिये हुए है और ग्रन्यकी तथा इस घटिकारकी कथन जैलीके साथ कुछ सगत मालूम नहीं होती—खासकर कमप्राप्त गाया न० २८० की उपस्थितिम्, जो उसकी स्थितिको और भी सदिग्ध कर देती है, और जा निम्न प्रकार है—

तच्च कहिउजमाण णिच्छलभावेण गिहृदे जो हि ।

त चि य भावेइ सया सो वि य तच्च वियाणोई ॥ २८० ॥

इसम् बतलाया है कि 'जो उपयुक्त तत्त्वको—जीवादि विषयक तत्त्वज्ञान-को अथवा उमके भयको—त्विरभावसे—हृदयाके साथ—ग्रहण करता है और सदा उमकी भावना रखता है वह तत्त्वको सविशेषरूपसे जाननेमें समर्थ होता है ।

इसके अनन्तर दो गायाएँ और देकर 'एव लोयसहाव जो झायदि' इत्यादि-रूपमें ग या न० २८३ दी हुई है, जो लोकभावनाके उपसहारको लिये हुए उसकी समाप्तिसूचक है और अपन स्थानपर ठीक रूपसे स्थित है । वे दो गायाएँ इस प्रकार है—

को ग वसो इत्थिजणे कस्स ण मयणेग खडिय माण ।

को इदिणहि ण जिओ को ण कसाणहिं सतत्तो ॥ २८१ ॥

सो ण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इदिणहिं मोहेण ।

जो ण य गिहृदि गथ अद्भुतर बाहिर सठव ॥ २८२ ॥

इनमें पहली गायामें चार प्रश्न किये गए हैं—‘१ कौन स्त्रीजनोके वशम नहीं होता ? २ मदन कामदेवसे किसका मान खडित नहीं होता ? ३ कौन इत्तिथोके द्वारा जीता नहीं जाता ? ४ कौन कपायोसे भत्त नहीं होता ? दूसरी गायामें देवल दो प्रश्नोका ही उत्तर दिया गया है जो कि एक लटकनेवाली बात है और वह उत्तर यह है कि 'स्त्री जनोके वशमें वह नहीं होता, और अहं किन्द्रियोसे जीता नहीं जाता जो भोजने वाल और आन्यन्तर समर्प्त' । अर्थात् ग्रहको ग्रहण नहीं करता है ।’

इन दोनों गाथाओं की लोक भावनाके प्रकरणके साथ कोई संगति नहीं बैठती और न अन्यथा ही कथनकी ऐसी सूलीको अपनाया गया है। इससे ये दोनोंही गाथाएँ स्वरूपसे प्रक्षित जान पड़ती हैं और अपनी इस प्रक्षिप्तताके कारण उक्त विरलाणि मुख्य हि तच्च' नामकी गाथा न० २७६ की प्रक्षिप्तताकी सभावनाको और हठ करती है। मेरी रायमें इन दोनों गाथाओंकी तरह २७६ नम्बरकी गाथा भी प्रक्षित है, जिसे किसीने अपनी अन्यप्रतिमें अपने उपयोगके लिए सभवत गाथा न० २८० के आसपास हांशियेपर, उसके टिप्पणीके रूपमें नोट कर रखा होगा, और जो प्रतिलेखककी असावधानीसे मूलम प्रविष्ट हो गई है। प्रवेशका यह कार्य भ० शुभचन्द्रकी टीकासे पहले ही हुआ है इसीपे इन तीनों गाथाओंपर भी शुभचन्द्रकी टीका उपलब्ध है और उसमें (तदनुमार व० जयचन्द्रजीकी भ वाटाकामें भी) बड़ा खीचातानीके साथ इनका सम्बन्ध जोड़नकी चेष्टा भी गई है, परन्तु सम्बन्ध जुड़ता नहीं है। ऐसी स्थितिमें उक्त गाथाओंकी उपरिक्षितिपूरसे यह क्षिप्त कर लेना कि उसे स्वामिकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है समुचित प्रतीत नहीं होता— सासकर उस हालतमें जब कि अन्यभरमें अपभ्रंश भाषाका और कोई प्रयोग भी न पाया जाता हो। बहुत सम्भव है कि किसी दूसरे विद्वान्‌ने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी अन्यप्रतिमें नोट किया हो। और यह भी सम्भव है कि यह गाथा साधारणसे पाठ-भेदके साथ प्रक्षिप्त प्राचीन हो और योगेन्द्रने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपना उक्त दोहा बनाया हो, क्योंकि योगी-दुके परमात्मप्रकाश आदि प्रथोंमें और भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते हैं जो भावपहुँड तथा समाधित श्रादिके पश्चोपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं और जिसे डाक्टर साहबने स्वयं स्वीकार किया है, जब कि स्वामिकुमारके इस ग्रन्थकी ऐसी कोई 'आते अ' तक सामने नहीं आई—कुछ गाथाएँ ऐसी जरूर देखनेमें आती हैं जो कुन्दकुन्द तथा शिवार्थ-जैसे आचार्योंके प्रथोंमें भी समानरूपसे पाई जाती हैं और वे और भी प्राचीन स्रोतसे सम्बन्ध रखनवाली हो सकती हैं, जिसका एक नमूना भावनाओंके नाम वाली गाथाका ऊपर दिया जा चुका है। अंत, इस विवादापन्न गाथाके सम्बन्धमें उक्त कल्पना करके यह नतीजा निकालना कि, यह ग्रन्थ जोइन्द्रुके योगसारसे—

इसकी प्राय छठी जटाब्दी से—बादका बना हुआ है, ठीक मालूम नहीं देता। मेरी समझम यह यथ उमास्व तिके तत्त्वात्मसूत्र से अधिक बादका नहीं—उसके निकटवर्णी निसी समयका होना चार्पये। और उसक कर्ता वे अग्निपुत्र कार्तिकय मुनि नहीं हैं जो आमतोर पर इसक कर्ता समझ जाते हैं और कोच राजा-के द्वारा उपसग को प्राप्त हुए थे, बल्कि स्वामिकुमारनामक आचार्य ही है जिस नामका उल्लेख उन्होन स्वयं अन्तमगलकी निम्न गाथाम इतेष्वरूपसे भी किया है—

तिद्वयण पहाण सामि कुमार काले वि त वय तवयरण ।
वसुपुञ्जसुये मल्लिं चरम तिय सथुव णिच्चव ॥ ४८६ ॥

इसमें वसपूञ्जसुत वासपूञ्य मल्लिं और अ तके तीन नमि, पाइव तथा कहुमान एसे पाँच कुमार अमरण तीथङ्करोंकी व दना, की गई है, जिन्होन कुमारा-वस्थाम हा जिनदीका लेकर नपश्चरण किया है और जो तीन लोकके प्रधान स्वामी हैं। और इससे एसा ध्वनित होता है कि ग्र यकार भी कुमारस्थमण थे, बालबहाचारी थे और उ होन बाल्यावस्थाम ही जिनदीका लेकर तपश्चरण किया है—जैसाकि उनके विषयम प्रमिद है, और इसीसे उन्होन अपनको विशय-रूपम इष्ट पाच कुमार तीथङ्करोंकी यहा स्तुति की है।

स्वामी शब्दका अवहार दक्षिण देशम अधिक है और वह व्यक्तिविज्ञाके साथ उनकी प्रतिष्ठाका द्योतक होता है। कुमार, कुमारसेन, कुमारनन्दी और कुमारस्वामी जैसे नामोंके आचार्य भी दक्षिणम हुए हैं। दक्षिण देशम बहुत प्राचीन कालसे क्षत्रपालनी पूजाका प्रचार रहा है और इस अन्यकी गाथा न० २५४में क्षत्रपाल' का स्पष्ट नामोल्लेख करके उसके विषयमें फैली हुई रक्षा-सम्बन्धी मिथ्या चारखाका निपत्र भी किया है। इन सब बातोंपरसे ग्रथकार महोदय प्राय, दक्षिण देशके आचार्य यालूम होते हैं, जैसा कि ढाकनर उपाध्येये भी ग्रनुमान किया है।

२८

सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन

‘सन्मतिसूत्र’ जैनवाड़मयमे एक महत्त्वका गोरवपूर्ण प्रन्थरत्न है, जो दिगम्बर और श्वताम्बर दोना सम्प्रदायोमे समानरूपसे माना जाता है। इवेताम्बरोमें यह ‘सम्मतितक’, ‘सम्मतितकप्रकरण’ तथा ‘सम्मतिप्रकरण’ जैसे नामोंसे अधिक प्रसिद्ध है। जिनमे सन्मति’ की जगह ‘सम्मति’ पद अनुच्छुद्ध है और वह प्राकृत ‘सम्मह पदवा गलत सम्भूत रूपान्तर है। ५० सुखलालजी और ५० वैचरदासजीने ग्रन्थका गुजराती अनुच्छाद प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तावनामे इस गलतीपर यथेष्ट प्रकाश ढाला है और यह बतलाया है कि ‘सन्मति’ भगवान् महावीरका नामान्तर है, जो दिगम्बर-परम्परामे प्राचीन-कालसे प्रसिद्ध तथा ‘धनञ्जयनाममाला’ मे भी उल्लेखित है, ग्रन्थ-नामके साथ उसकी योजना होनेसे वह महावीरके सिद्धांतोके साथ जहाँ ग्रन्थके सम्बन्धको दर्शाना है वहा इलेष्टरूपसे श्रेष्ठमति अर्थका सूचन करता हुआ दृढ़कर्तिके योग्य रूपानको भी दृक् दरता है और इसलिये आचित्यकी दृष्टिसे ‘सम्मति’ के स्थानपर ‘सन्मति’ नाम ही ठीक बैठता है। तदनुसार ही उन्होने ग्रन्थका नाम ‘सन्मति-प्रकरण’ प्रकट किया है दिगम्बर-परम्पराके धबलादिक प्राचीन ग्रन्थोमे यह सन्मतिसूत्र (सम्महसूत्र) नामसे ही उल्लेखित मिलता है † और यह नाम सन्मति-प्रकरण नामसे भी अधिक आचित्य रखता

† ‘भणेण सम्महसुतेण सह कथमिद वक्षाणु एव विरुद्धकदे ? इदि ण, तत्य पञ्चायस्स लक्षणं लाइणो भावव्युवगमादो !’ (धबला १)

‘ण च सम्महसुतेण सह विरोहो उद्गुसुद-ण्य-विसय-भावणिकसेवमस्सदूरण तत्पउत्तीदो !’ (ज्यधबला १)

है; क्योंकि इसकी प्रायः प्रत्येक गाथा एक सूत्र है अथवा अनेक सूत्र-वाक्योंको साथमें लिये हुए हैं। पं० सुखलालजी आदिने भी प्रस्तावना (पृ० ६३) में इस बातको स्वीकार किया है कि 'समूर्खं सन्मतिश्चं भूत्रं कहा जाता है और इसकी प्रत्येक गाथाको भी सूत्र कहा गया है।' भावनगरकी इवेताम्बर सभासे सं० १६६५ में प्रकाशित मूलप्रतिमें भी 'श्रीसंमतिसूत्रं समाप्तिभद्रम्' वाक्यके द्वारा इसे सूत्र नामके साथ ही प्रकट किया है—तरं अथवा प्रकरण नामके साथ नहीं।

इसकी गणना जैनशासनके दर्शन-प्रभावक ग्रन्थोंमें है। इवेताम्बरोंके 'जीतकल्पचूर्ण' ग्रन्थकी श्रीचन्द्रसूरि-विरचित 'विषमपदव्याख्या' नामकी टीका-में श्रीशक्तलंकदेवके 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थके साथ इस 'सन्मति' ग्रन्थका भी दर्शनप्रभावक ग्रन्थोंमें नामोल्लेख किया गया है और लिखा है कि 'ऐसे दर्शनप्रभावक शास्त्रोंका अध्ययन करते हुए साधुको अकलिप्त प्रतिसेवनाका दोष भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायशिच्छत नहीं है, वह साधु शुद्ध है।' यथा—

'दंसण चित्त—दंसण-पभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छय-
सम्मत्यादि गिरहंतोऽसंथरमाणो जं अकप्यं पडिसेवदि जयणाए
तत्त्व सो सुद्धोऽपायशिच्छत इत्यर्थः * ।'

इससे प्रथमोल्लेखित सिद्धिविनिश्चयकी तरह यह ग्रन्थ भी कितने असाधारण महत्वका है इसे विज्ञप्ताठक स्वयं समझ सकते हैं। ऐसे ग्रन्थ जैन-दर्शनकी प्रतिष्ठाको स्व-पर-हृदयोंमें अकित करनेवाले होते हैं। तदनुसार यह ग्रन्थ भी अपनी कीर्तिको अक्षुण्ण बनाये हुए है।

इस ग्रन्थके तीन विभाग हैं जिन्हें 'काण्ड' संज्ञा दी गई है। प्रथम काण्डको कुछ हस्तलिखित तथा मुद्रितपत्रियोंमें 'नयकाण्ड' बतलाया है—लिखा है 'नयकाण्डं सम्मतं'—और यह ठीक ही है; क्योंकि सारा काण्ड नयके ही

* इवेताम्बरोंके निशीष ग्रन्थकी चूर्णिमें भी ऐसा ही उल्लेख है:—

'दंसणगाही—दंसणसारणप्यभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छय-संमति-
मादि गेष्ठंतो असंथरमाणो जं अकप्यं पडिसेवदि जयणाए तत्त्व सो सुद्धो
अप्रायशिच्छती भवतीत्यर्थः ।'" (उद्देशक १)

विषयको लिये हुए है और उसमें द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दो नदोंको मूलाधार बनाकर और यह बतलाकर कि 'तीर्थकर-बचनोंके सामान्य और विशेषरूप प्रस्तारके मूलप्रतिपादक ये ही दो नद नहे—शेष सब नद इन्हींके विकल्प हैं' की, उन्हींके भेद-प्रमेदोंतथा विषयका अच्छा सुन्दर विवेचन और समूचन किया गया है। दूसरे काण्डको उन प्रतियोगे 'जीवकाण्ड' बतलाया है—निखा है "जीवकठय सम्पत्त'"। ५० सुखलालजी और ५० बेचरदासजीकी रायमें यह नामकरण ठीक नहीं है, इसके स्थानपर 'ज्ञानकाण्ड' या 'उपदोष-काण्ड' नाम होना चाहिये, क्योंकि इसकाण्डमें, उनके कथानानुसार, जीवनस्वकी चर्चा ही नहीं है—पूरणतया मुख्य चर्चा ज्ञानकी है। यह ठीक है कि इस काण्डमें ज्ञानकी चर्चा एक प्रकारसे मुख्य है परन्तु वह दर्शनकी चर्चाको भी साथमें लिए हुए है—उसीसे चर्चा का प्रारम्भ है—और ज्ञान तथा दर्शन दोनों जीवद्रव्यकी पर्याय हैं, जीवद्रव्यसे भिन्न उनकी कही कोई सत्ता नहीं, और इस लिये उनकी चर्चाको जीवद्रव्यकी ही चर्चा कहा जा सकता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसमें प्रकटरूपसे जीवतत्त्वकी कोई चर्चा ही न हो—इसरी गाथा में 'द्रव्यठिन्हो वि होउण दसरो 'जजवठिन्हो होई' इत्यादिरूपसे जीवद्रव्यका कथन किया गया है, जिसे ५० सुखलालजी आदिने भी अपने अनुवादमें आत्मा दर्शन बख्त' इत्यादिरूपसे स्वीकार किया है। अनेक गाथाओंमें कथन-सम्बन्ध-को लिये हुए सर्वज्ञ, केवली, अर्हन्त तथा जिन जैसे धर्मपदोका भी प्रयोग है जो जीवके ही विशेष हैं। और अन्तकी 'जीवो अणाइणिहणो' से प्रारम्भ होकर 'अप्णो वि य जीवपञ्जाया' पर समाप्त होनेवाली सात गाथाओंमें तो जीवका स्पष्ट ही नामोलेखपूर्वक कथन है—वही चर्चाका विषय बना हुआ है। ऐसी स्थितिमें यह कहना समुचित प्रतीत नहीं होता कि 'इस काण्डमें जीवतत्त्वकी चर्चा ही नहीं है' और न 'जीवकाण्ड' इस नामकरणको सर्वथा अनुचित अथवा अवधारणा ही कहा जा सकता है। कितने ही बन्धोंमें ऐसी परिपाटी देखनेमें आती है कि पर्व तथा अधिकारादिके अन्तमें जो विषय चर्चित होता

^{५०} तित्त्वयर-बयण-संगह-विसेस-पल्लारमूलवायरणी ।

द्रव्यठिन्हो य पञ्चवण्यो य सेता विष्पाति ॥३॥

है उसी परसे उस पर्वादिका नामकरण किया जाता है *, इस हृष्टिसे भी काण्डके अन्तमें चर्चित जीवद्रव्यकी चर्चके कारण उसे 'जीवकाण्ड' कहना अनुचित नहीं कहा जा सकता। अब रही तीसरे काण्डकी बात, उसे काई नाम दिया हुआ नहीं मिलता। जिस किसीने दो काण्डोंका नामकरण किया है उसने तीसरे काण्डका भी नामकरण जरूर किया होगा, सभव है खोज करते हुए किसी प्राचीन प्रनिपरसे वह उपलब्ध हो जाय। डाक्टर पी० एल० बैथ एम० ए० ने, न्यायावलारकी प्रस्नावना (Introduction) में इस काण्डका नाम असदिग्रहणपसे 'अनेकान्तवादकाण्ड' प्रकट किया है। मालूम नहीं यह नाम उहे किम प्रतिपरसे उपलब्ध हुआ है। काण्डके अन्तमें चर्चित विषयादिकदी हृष्टिसे यह नाम भी ठीक हो सकता है। यह काण्ड अनेकान्तहृष्टि-को लेकर अधिकाशमें सामान्य-विशेषरूपसे अर्थकी प्ररूपणा और विवेचनाको लिये हुए हैं, और इसलिये इसका नाम 'सामान्य-विशेषकाण्ड' अथवा 'द्रव्य-पर्याय-काण्ड' जैसा भी कोई हो सकता है। ५० सुखलालजी और ५० बैचर-दासजीने इसे 'जय-काण्ड' सूचित किया है, जो पूर्वकाण्डको 'झानकाण्ड' नाम देने और दोनों काण्डोंके नामोंमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारके ज्ञान-ज्ञेयाधिकारनामोंके साथ समानता लानकी हृष्टिमें सम्बद्ध जान पड़ता है।

इस ग्रन्थकी गाथा-संख्या ५४, ४३, ७० के क्रमसे कुल १६७ है। परन्तु ५० सुखलालजी और ५० बैचरदासजी उसे अब १६६ मानते हैं, क्योंकि तीसरे काण्डमें अन्तिम गाथाके पूर्व जो निम्न गाथा लिखित तथा मुद्रित मूलप्रतियोंमें पाई जानी है उसे वे इसलिए बादको पश्चिप्त हुई समझते हैं कि उसपर अभ्यवदेवसूरिकी टीका नहीं है —

जेण विणा लोगस्स वि वयहारो सव्वहा ण णिव्वकड़ ।

तस्स मुख्योक्तगुरुणो णमो अयोगतवायस्स ॥ ६६ ॥

इसमें बतलाया है कि 'जिसके दिना लोकका व्यवहार भी सर्वथा बन नहीं

* जैसे जिनसेनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गका नाम 'अशिकप्रश्नवर्णन', जब कि प्रश्नके पूर्वमें वीरके विहारादिका और तत्त्वोपदेशका कितना ही विवेच वर्णन है।

सकता उस लोके प्रद्वितीय (प्रसाधारण) तुरु अनेकान्तवादको नमस्कार हो।' इस तरह जो अनकान्तवाद इस सारे प्रन्थकी आधार शिला है और जिसपर उसके कथनोंकी ही पूरी प्राण-प्रतिष्ठा अवलम्बित नहीं है बल्कि उस जिन-वचन, जैनागम अथवा जैनशासनकी भी प्राण-प्रतिष्ठा अवलम्बित है जिसकी अगली (प्रत्तिम) गाथामें मगल-कानना की गई है और प्रन्थकी पहली (आदिम) गाथामें जिसे 'सिद्धशासन' घोषित किया गया है, उसीकी गोरव-गरिमाको इस गाथामें अच्छ युक्तिपूरस्पर ढगसे प्रदर्शित किया गया है। और इस लिये यह गाथा अपनी कथनशीली और कुशल-साहित्य-योजनापरसे प्रन्थका अग होनके योग्य जान पड़ती है तथा प्रन्थकी अन्य मगल कारिका मालूम होती है। इसपर एकमात्र अमुक टीकाके न होनसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह मूलकारके द्वारा योजित न हुई होगी क्योंकि दूसरे प्रन्थोंकी कुछ टीकाएं ऐसी भी पाई जाती हैं जिनमेंसे एक टीकामें कुछ पद्म मूलरूपमें टीका सहित हैं तो दूसरीमें वे नहीं पाये जाते ॥ और इसका कारण प्राय टीकाकारको ऐसी मूल प्रतिका ही उपलब्ध होना कहा जा सकता है जिसमें वे पद्म न पाये जाते हो। द्वेताम्बराचार्य सुमति (सन्मति) देवकी टीका भी इस प्रन्थपर बनी है, जिसका उल्लेख वादिराजन अपन पाइर्वनायचरित (शक स ० ६४७) के निम्न पद्ममें किया है—

नम सन्मनये तस्मै भव-कूप-निपातिनाम् ।
सन्मतिर्विवृता येन सुखधार्म-प्रवेशिनी ॥

यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई—खोजका कोई खास प्रयत्न भी नहीं हो सका। इसके सामने आनेपर उक्त गाथा तथा और भी अनेक बातोंपर प्रकाश पड़ सकता है, क्योंकि यह टीका सुमतिदेवकी कृति होनसे ११वीं शताब्दी के द्वेताम्बरीय आचार्य अभ्यदवकी टीकासे कोई तीन वाताब्दी पहलेकी बनी हुई होनो चाहिये। द्वेताम्बराचार्य मल्लबादीकी भी एक टीका इस प्रन्थपर पहले बनी है, जो आज उपलब्ध नहीं है और जिसका उल्लेख हरिमद्व तथा

॥ जैसे समयसारादि प्रन्थोंकी अमृतचन्द्रसूरिकृत तथा जयसेनाचार्यकृत टीकाएं, जिनमें कृतिपद्म गाथाओंकी न्यूनाधिकता पाई जाती है।

उपाध्याय यशोविजयके शब्दमें मिलता है ।

इस प्रथमे, विचारको हष्टि प्रदान करनेके लिये, प्रारम्भमें ही द्रव्यार्थिक (द्रव्यास्तिक) और पर्यायार्थिक (पर्यायास्तिक) दो मूल नयोंको लेकर नयका जो विषय उठाया गया है वह प्रकारान्तरसे दूसरे तथा तीसरे काण्डमें भी चलता रहा है और उसके द्वारा नयवादपर अच्छा प्रकाश ढाला गया है । यहाँ नयका थोड़ा-सा कथन नमूनेके तौरपर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकोको इस विषयकी कुछ भाँकी मिल सके:—

प्रथम काण्डमें दोनों नयोंके सामान्य-विशेषविषयको मिथिन दिखलाकर उस मिथितपनाकी चर्चाका उपस्थान करते हुए लिखा है—

द्रव्यटुच्छो त्ति तस्मा णत्वि णत्वो नियम सुद्धजाइच्छो ।
ए य पञ्जवटुच्छो णाम कोई भयणाय उ विसेसो ॥६॥

‘अतः कोई द्रव्यार्थिक नय ऐसा नहीं जो नियमसे शुद्धजातीय हो—अपने प्रनि-पक्षी पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा न रखता हुआ उसके विषय-स्पर्शमें मुक्त हो । इसी तरह पर्यायार्थिक नय भी कोई ऐसा नहीं जो शुद्धजातीय हो—अपने विपक्षी द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा न रखता हुआ उसके विषय-स्पर्शमें रहित हो । विवक्षा-को लेकर ही दोनोंका भेद है—विवक्षा मूल्य-गौणके भावको लिये हुए होती है द्रव्यार्थिकमें द्रव्य—सामान्य मूल्य और पर्याय—विशेष गौण होता है और पर्यायार्थिकमें विशेष मूल्य तथा सामान्य गौण होता है ।’

इसके बाद बतलाया है कि—‘पर्यायार्थिकनयकी हष्टिमें द्रव्यार्थिकनयका वक्तव्य (सामान्य) नियमसे भवस्तु है । इसी तरह द्रव्यार्थिकनयकी हष्टिमें पर्यायार्थिकनयका वक्तव्य (विशेष) भवस्तु है । पर्यायार्थिकनयकी हष्टिमें मर्वं पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं । द्रव्यार्थिकनयकी हष्टिमें न कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और न नाशको प्राप्त होता

† “उक्तं च वादिमुख्येन श्रीमल्लवादिना सम्मतौ” (अनेकान्तरज्ञपताका)

“इहार्थे कोटिशा भज्ञा निर्दिष्टा मल्लवादिना ।

मूलसम्मति-टीकायामिद दिडमात्रदर्शनम् ॥”—(अहसहस्री-टिप्पणी)

है। द्रव्य पर्याय (उत्पाद-व्यय) के बिना और पर्याय द्रव्य (भ्रोव्य) के बिना नहीं होते, क्योंकि उत्पाद-व्यय और भ्रोव्य ये तीनों द्रव्य-सत्‌का अद्वितीय लक्षण हैं ॥ १ ॥ ये तीनों एक दूसरेके साथ मिलकर ही रहते हैं, अलग-अलग रूपमें—एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए—मिथ्याहृष्टि है। तीसरा कोई भूलनय अलग-अलग रूपमें—एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए—मिथ्याहृष्टि है। तीसरा कोई भूलनय नहीं है ॥ २ ॥ और ऐसा भी नहीं कि इन दोनों नयोंमें यथार्थपना न समाता हो—वस्तुके यथार्थ स्वरूपको पूर्णतः प्रतिपादन करनेमें ये असमर्थ हो—, क्योंकि दोनों एकान्त (मिथ्याहृष्टियाँ) अपेक्षाविशेषको लेकर ग्रहण किये जाते ही अनेकान्त (सम्यग्हृष्टि) बन जाते हैं। अर्थात् दोनों नयोंमेंसे जब कोई भी नय एक दूसरेकी अपेक्षा न रखता हुआ अपने ही विषयको सत्‌रूप प्रतिपादन करने-का आग्रह करता है तब वह अपने द्वारा ग्राह्य वस्तुके एक अशमें पूर्णताका माननेवाला होनेसे मिथ्या है और जब वह अपने प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षा रखता हुआ प्रवर्तता है—उसके विषयका निरमन न करता हुआ तटस्थरूपसे अपने विषय (वक्तृत्व) का प्रतिपादन करता है—तब वह अपने द्वारा ग्राह्य वस्तुके एक अशको अशरूपमें ही (पूर्णरूपमें नहीं) माननेके कारण सम्यक् व्यपदेशको प्राप्त होता है। इस सब आशयकी पाँच गाथाएं निम्न प्रकार हैं—

दृढवट्ठिय-वत्तद्वं अवत्यु गियमेण पञ्जवण्यस्स ।

तद् पञ्जवत्थ अवत्युमेव दृढवट्ठियण्यस्स ॥ १० ॥

उप्पञ्जति विति य भावा पञ्जवण्यस्स ।

दृढवट्ठियस्स सठ्वं सया अगुण्परण्मविण्डु ॥ ११ ॥

● “पञ्जवविजुर दृढ दृढविजुता य पञ्जवा णत्थि ।

दोष्ण अण्पण्मूद भाव समणा पर्विति ॥ १-१२ ॥”

—पञ्जस्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दः ।

‘सद्वद्वयलक्षणम् ॥ २६ ॥ उत्पादभ्यधोव्ययुक्त सत् ॥ ३० ॥’

—तत्त्वार्थसूत्र अ० ५ ।

† तीसरे काण्डमें गुणात्मिक (गुणास्तिक) नयकी कल्पनाको उठाकर स्वर्य उसका निरसन किया गया है (गा० ६ से १५) ।

दब्बे पड़जब-विडं दब्ब-वि उत्ता य पड़जवा णत्थि ।

उप्पाय-ट्रिं-भंगा हंदि दवियलक्खणं एयं ॥ १२ ॥

एष पुण संगहओ पाडिकमलक्खणं दुवेण्हं पि ।

तम्हा मिच्छादिट्टी पत्तेयं दो वि मूल-णाया ॥ १३ ॥

ण य तइयो अथि णओ ण य सम्मतं ण तेसु पडिपुण्हं ।

जेण दुवे एमंता विभजमाणा अरोगतो ॥ १४ ॥

इन गाथाओंके अनन्तर उत्तर नयोकी चर्चा करते हुए और उन्हे भी मूल-नयोके समान दुर्योग तथा सुनय प्रतिपादन करते हुए और यह बतलाते हुए कि किसी भी नयका एकमात्र पक्ष लेनेपर ससार, सुख, दुःख, बन्ध और मोक्षकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, सभी नयोके मिथ्या नया सम्यक् रूपको स्पष्ट करते हुए लिखा है—

तम्हा सब्बे वि णाया मिच्छादिट्टी सपक्खपडिबद्धा ।

अण्णोण्णणिस्तिचा उण्ह इवति सम्मतसद्भावा ॥ १५ ॥

‘अत’ सभी नय—जाहे के मूल, उत्तर या उत्तरोत्तर कोई भी नय क्यों न हो—जो एकमात्र अपने ही पक्षके साथ प्रतिबद्ध है वे मिथ्याहृष्टि हैं—वस्तुको यथार्थरूपसे देखने—प्रतिपादन करनेमें असमर्थ हैं। परन्तु जो नय परस्परमें अपेक्षाको लिय हुए प्रबत्तंते हैं वे सब सम्यग्हृष्टि हैं—वस्तुको यथार्थरूपसे देखने—प्रतिपादन करनेमें समर्थ हैं।’

तीसरे काण्डमें, नयवादकी चर्चाको एक दूसरे ही हँगसे उठाते हुए नयवाद-के परिशुद्ध और अपरिशुद्ध ऐसे दो भेद सूचित किये हैं, जिनमें परिशुद्ध नयवादको आगममात्र अर्थका—केवल अतप्रमाणके विषयका—साथक बतलाया है और यह ठीक ही है, क्योंकि परिशुद्धनयवाद सापेक्षनयवाद होनेसे अपने पक्षका—अशोका—प्रतिपादन करता हुआ परपक्षका—दूसरे अशोका—निराकरण नहीं करता और इसलिये दूसरे नयवादके साथ विरोध न रखनेके कारण अन्तको श्रुत-प्रमाणके समग्र विषयका ही साथक बनता है और अपरिशुद्ध नयवादको ‘दुर्निकित’ विषेषणके द्वारा उल्लेखित करते हुए स्वपक्ष तथा परपक्ष दोनोंका विषयातक लिखा है और यह भी ठीक ही है, क्योंकि वह निरपेक्षनयवाद होनेसे एकमात्र

अपने ही पक्षका प्रतिपादन करता हुया अपनेसे भिन्न पक्षका सर्वथा निराकरण करता है—विरोधवृत्ति होनेके उसके द्वारा अतप्रमाणका कोई भी विषय नहीं संष्ठाप्त और इस तरह वह अपना भी निराकरण कर बैठना है। दूसरे अब्दोमे यो कहना चाहिये कि वस्तुका पूर्णरूप अनेक सापेक्ष अशो—अर्थोसे निर्मित है, जो परस्पर अविनाभाव-सम्बन्धको लिये हुए हैं, एकके अभावमे दूसरेका अस्तित्व नहीं बनता, और इसलिये जो नयवाद परपक्षका सर्वथा निषेध करता है वह अपना भी निषेधक होता है—परके अभावमें अपने स्वरूपको किमी तरह भी सिद्ध करनमे समय नहीं हो सकता।

नयवादके इन भेदों और उनके स्वरूपनिर्देशके अनन्तर बतलाया है कि “जितने वचनमाग हैं उतने ही नयवाद हैं और जितने (अपरिशुद्ध अथवा परस्पर निरपेक्ष एवं विरोधी) नयवाद हैं उतने ही परसमय—जैनतरदर्शन—हैं। उन दर्शनोमे कपिलका सास्थदर्शन द्रव्याधिकवयका वक्तव्य है। शुद्धोदनके पुत्र चूदका दर्शन परिशुद्ध पर्यावरण का विकल्प है। उत्तूक अवर्ति करणादने अपना शास्त्र (वैशेषिक दर्शन) यद्यपि दोनों नयोके द्वारा प्रहृष्टिकिया है किर भी वह मिथ्यात्व है—अप्रमाण है, क्योंकि ये दोनों नयदृष्टियाँ उक्त दर्शनमे अपने अपने विषयकी प्रधानताके लिये परस्परमें एक-दूसरेकी कोई प्रपेक्षा नहीं रखती। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएँ निम्न प्रकार हैं—

परिसुद्धो णयवादो आगममेतत्त्व साधको होइ ।

सो चेव दुर्णिणगिरणो दोरिणि वि पक्खे विधम्येइ ॥ ४६ ॥

जावइया चयएवहा तावइया चेव होंति णयवाया ।

जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ ४७ ॥

जं काविलं दरिसणे एवं दब्बट्टियस्स वक्तव्यं ।

सुदोअण-तणअम्स उ परिसुद्धो पडजविअप्पो ॥ ४८ ॥

दोहि वि णणहि शीय सत्थमुखण्ण तह वि मिच्छत्तं ।

जं सविसअप्पहाणत्तगेण अरणोलणगिरवेक्त्वा ॥ ४९ ॥

इनके अनन्तर निम्न दो गाथाओमें यह प्रतिपादन किया है कि सास्थयोके कहाद पक्षमें बौद्ध और वैशेषिक बन जो दोष हेते हैं तथा बौद्धों और वैशे-

विकोके असद्वाद पक्षमें सार्थ जन जो दोष देते हैं तथा बोझो और बैशीविको-के असद्वाद पक्षमें सौख्यजन जो दोष देते हैं वे सब सत्य हैं—सर्वथा एकान्तवादमें वैसे दोष आते ही हैं। ये दोनों सद्वाद और असद्वाद हृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हुए सयेजित होजायें—समन्वयपूर्वक अनेकान्त-हृष्टिमें परिणत हो जायें—तो सर्वोत्तम सम्यग्दर्शन बनता है; क्योंकि ये सद्-असद्वाद दोनों हृष्टियाँ अनग्र अलग ससारके हुःखसे छुटकारा दिलानेमें समर्थ नहीं हैं—दोनोंके सापेक्ष सयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर ससारके हुःखोंसे शान्ति मिल सकती है—

जे संतवाय-दोसे सकोलूया भण्टि संत्वायण ।

संत्वा य असञ्चाए तेसि सच्चे वि ते सच्चा ॥ ५० ॥

ते उ भयणोवणीया सम्हर्दसणमणुतरं होति ।

जे भय-दुक्ख-विमोक्षं दो वि ए पूरेति पाढिकं ॥ ५१ ॥

इस सब कथनपरसे निधादर्शनो और सम्यग्दर्शनका तत्त्व सहज हीं सर्वमें आज्ञाता है और यह मालूम हो जाता है कि कैसे सभी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यग्दर्शनके रूपमें परिणत हो जाते हैं। मिथ्यादर्शन अथवा जैनेतरदर्शन जब तक अपने अपने वक्तव्यके प्रतिपादनमें एकान्तताको अपनाकर परिवरोधका लक्ष्य रखते हैं तब उक्त वे सम्यग्दर्शनमें परिणत नहीं होते, और जब विरोधका लक्ष्य छोड़कर पारस्परिक अपेक्षाको लिये हुए समन्वयकी हृष्टिको अपनाते हैं तभी सम्यग्दर्शनमें परिणत हो जाते हैं और जैनदर्शन कहलानेके योग्य होते हैं। जैनदर्शन अपने स्थादावन्याय-द्वारा समन्वयकी हृष्टिको लिये हुए है—समन्वय ही उसका निवामक तत्त्व है, न कि विरोध—और इसलिये सभी मिथ्यादर्शन अपने अपने विरोधको भुलाकर उसमें समा जाते हैं। इसीसे यन्थकी अन्तिम गाथामें जिनवचनरूप जिनशासन अथवा जैनदर्शनकी भगलकामना करते हुए उसे 'मिथ्यादर्शनोका समूहमय' बतलाया है। वह गाथों इस प्रकार है—

भईं मिच्छादंसण-समूहमइयस स्यमवसारस्स ।

जिणवचनसुसं भगवाओ संविभगसुहाहिगम्मस्स ॥ ५० ॥

इसमें जर्नदर्शन (शासन) के तीन खास विशेषणोंको उल्लेख किया गया है—पहला विशेषण मिथ्यादर्शनबूहमय, दूसरा अमृतसोर और तीसरी

सविग्नसुखाविगम्य है। मिथ्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह मिथ्यात्वरूप नहीं है, यही उसकी सर्वोपरि विशेषता है और यह विशेषता उसके सापेक्ष नय-बादमें सनिहित है—सापेक्षनयमिथ्या नहीं होते, निरपेक्ष नय ही मिथ्या होते हैं॥। जब सारी विरोधी हृष्टियाँ एकत्र स्थान पाती हैं तब फिर उनमें विरोध नहीं रहता और वे सहज ही कार्य-साधक बन जाती हैं। इसीपरसे दूसरा विशेषण ठीक घटित होता है, जिसमें उसे अमृतका अर्थात् भवदुःखके अभावरूप अविनाशी मोक्षका प्रदान करनेवाला बतलाया है, क्योंकि वह मुख्य अथवा भवदुःखविनाश मिथ्यादर्शनोंसे प्राप्त नहीं होता, इसे हम ५१की गाथासे जान चुके हैं। तीसरे विशेषणके द्वारा यह सुझाया गया है कि जो लोग ससारके दुखों-चैत्योंसे उत्कृष्ण होकर सबेगको प्राप्त हुए हैं—सच्चे मुमुक्षु बने हैं—उनके लिये जैन-दर्शन अथवा जिनशासन सुखसे समझमें आने योग्य है—कोई कठिन नहीं है। इसमें पहले ६४की गाथामें ‘अत्यगई उण रायवायगहणलीणा तुरभिगम्मा’ वाक्यके द्वारा सूत्रोंकी जिस अर्थातिको नयवादके गहन-बनमें लीन और दुर-मिथ्यम् बतलाया था उसीको ऐसे अधिकारियोंके लिये यहा मुगम बोधित किया गया है, यह सब अनेकान्तर्घटिकी महिमा है। अपने ऐसे मुण्डोंके कारण ही जिनवचन भगवत्पदको प्राप्त है—पूज्य है।

ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें जिस प्रकार जिनशासनका स्मरण किया गया है उसी प्रकार वह आदिम गाथामें किया गया है। आदिम गाथामें किन विशेषणोंके साथ स्मरण किया गया है यह भी पाठकोंके जानने योग्य है और इसलिये उस गाथा को भी यहा उद्वृत्त किया जाता है—

सिद्ध सिद्धत्थार्णं ठाणमण्य बमसुह उवगयार्ण ।

कुसमय-विसासणं सासणं जिणार्णं भव-जिणार्ण ॥१॥

इसमें भवको जीतनेवाले जिनो—प्रहृष्टोंके साशन—प्रागमके चार विशेषण दिये गये हैं—१ सिद्ध, २ सिद्धार्थोंका स्थान, ३ शरणागतोंके लिये अनुपम

* मिथ्यासमूहो मिथ्या चेत्त मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः ।

निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत ॥ १०८ ॥

—देवागमे, स्वामिसमन्तभद्र ।

मुख्यस्वरूप ४ दूसरे विशेषण के द्वारा यह प्रवर्ट किया गया है कि जैनशासन अपने ही बुलों से आप प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा प्रतिपादित सब पदार्थ प्रमाणसिद्ध हैं—कल्पित नहीं है—यह दूसरे विशेषण का अभिप्राय है और वह प्रथम विशेषण सिद्ध-व-का प्रधान कारण भी है। तीसरा विशेषण बहुत कुछ स्पष्ट है और उसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जो लोग वास्तवमें जैनशासन का आश्रय नहीं है उन्हें अनुपम मोक्ष-सुख तक की प्राप्ति होती है। चौथा विशेषण यह बतनाता है कि जैनशासन उन सब कुशासनों—मिथ्यादर्शनों के गवंको चूर चूर करने की क्षक्तिमें सम्पन्न है जो सर्वेषां एकान्तवादका आश्रय लेकर शासनारूढ़ बने हए हैं और मिथ्यातत्त्वों के प्रहरण-द्वारा जगतमें दुखों का जाल फैलाये हुए हैं।

इस तरह आदि-अन्तकी दोनों गाथाओंमें जैनशासन अथवा जिनवचन (जैनागम) के लिये जिन विशेषणोंका प्रयोग किया गया है उनसे इस शासन (दर्शन) का असाधारण महत्व और माहात्म्य स्थापित होता है। और यह केवल कहनेकी ही बात नहीं है बल्कि सारे प्रन्थमें इसे प्रदर्शित करके बतलाया गया है। स्वामी ममन्तभद्रके शब्दोंमें 'अज्ञान अन्धकारकी व्याप्ति (प्रसार) को सद्भूचित रूपसे दूर करके जैनशासनके माहात्म्यको जो प्रकाशित करना है उसका नाम प्रभावना है' १। यह प्रन्थ अपने विषय-बग्नन और विवेचनादिके द्वारा इस प्रभावनाका बहुत कुछ साधक है और इसीलिये इसकी भी गणना प्रभावक-प्रन्थमें की गई है। यह प्रन्थ जैनदर्शनका प्रध्ययन करनेवालों और जैनदर्शनसे जैनेतर दर्शनोंके भेदको ठीक अनुभव करनेकी इच्छा रखनेवालोंके^२लिये बड़े कामकी चीज़ है और उसके द्वारा सास मनोयोगके साथपढ़े जाने तथा मनन किये जानेके योग्य है। इसमें अनेकान्तके अगस्त्यरूप जिस नयवादकी प्रमुख चर्चा है और जिसे एक प्रकारसे 'दुरभिप्रम्य गहन बन' बनलाया गया है—

^१ 'मम न-तिमिर-व्यातिमपाकृत्य यवायषम् ।

जिन-शासन-माहात्म्य-प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥१८॥'

भग्नतचन्द्रसूरिने भी किसे 'गहन' और 'दुरासद लिखा है कि—उसपर जैन बाड़मयमें कितने ही प्रकरण अथवा 'नयचक्र' जैसे स्वतन्त्र ग्रन्थ भी निर्मित हैं, उनका साथमें अध्ययन अथवा पूर्व परिचय भी इस ग्रन्थके समुचित अध्ययनम सहायक है। वास्तवमें यह ग्रन्थ सभी तत्त्वजिज्ञासुओ एवं आत्महितैषियोके लिये उपयोगी है। अभी नक इसका हन्दी अनुवाद नहीं हुआ है। बीरसेन-² दिरका विचार उसे प्रस्तुत करनका है।

(क) ग्रन्थकार सिद्धसेन और उनकी दूसरी कृतियाँ—

इस 'सन्मति' ग्रन्थके कर्ता आचार्य सिद्धसेन हैं, इसमें किसीको भी काई विवाद नहीं है। अनक ग्रन्थमें ग्रन्थनामके साथ मिद्धसेनका नाम उल्लेखित है और इस ग्रन्थके बाक्य भी सिद्धसेन नामके साथ उद्घृत मिलते हैं जैसे जयचबलामें आचार्य बीरसेन 'एगमटुवण्णा दावय' नामकी छठी गायाको 'उक्त च सिद्धसेनेण, इस बाक्यके साथ उद्घृत किया है और पचवस्तुम आचार्य हरिभद्रन 'आयरियसिद्धसेनेण समर्पणं पर्हटुप्रजसेण' बाक्यके द्वारा 'सन्मति' को सिद्धसेनकी कृतिरूपमें निर्दिष्ट किया है, साथ ही कालो सहाव शिर्यई' नामकी एक गाया भी उसकी उद्घृत की है। परन्तु ये सिद्धसेन कौनसे हैं—किस विशेष परिचयको लिये हुए ह? कौनसे हम्रदाय अथवा ग्रन्थामायसे सम्बन्ध रखते ह?, इनके गुण कौन ये?, इनकी दूसरी कृतियाँ कौन-सी हैं? और इनका समय क्या है? ये सब बात एसी ह जो विवादका विषय जरूर है क्योंकि जैनसमाजमें मिद्धसेन नामक अनक आचार्य और प्रखर ताकिक विद्वान् भी हो गये हैं और इस ग्रन्थमें अथकारन अपना कोई परिचय दिया नहीं, न रचनाकाल ही दिया है—ग्रन्थकी आदिम गायामें प्रयुक्त हुए तिद्व पदके द्वारा इलेवन्हम प्रफूल नामका सूचनमात्र किया है, इतना ही समझा जा सकता है। कोई प्रश्नहिन जो किसी दूसरे विद्वान्के द्वारा निर्मित हो कर इन्हके ग्रन्थमें संयोग हुई नहीं है। दूसरे जिन ग्रन्थो—सामकर द्वात्रि-

कृदेखो, पुस्त्यार्चसिद्धपृष्ठाय—

"इति विविष्यभग्न-गहने सुदुस्तरे यार्गमूढदृष्टौ- नाम"। (५८)

"अत्यन्तनिवित्तधार दुरासद विविष्य नवचक्रम्"। (५९)

शिकायों तथा न्यायावतार—को इन्हीं आचार्यकी कृति समझा जाता और प्रतिपादन किया जाता है उनमें भी कोई परिचय-पद तथा प्रशस्ति नहीं है। और न कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण अथवा युक्तिकाद ही सामने लाया गया है जिससे उन सब ग्रन्थोंको एक ही सिद्धसेनकृत माना जासके। और इस लिये अधिकाशमें कल्पनायों तथा कुछ भ्रान्त धारणाओंके आधारपर ही विद्वान् लोग उक्त बातोंके निरांय तथा प्रतिपादकमें प्रवृत्त होते रहे हैं, इसीसे कोई भी ठीक निराय अभी तक नहीं हो पाया—वे विवादापन्न ही चली जाती हैं और सिद्धसेनके विषयमें जो भी परिचय-लेख लिखे गये हैं वे सब प्रायः लिखद्धी बने हुए हैं और कितनी ही गलतफहमियोंको जन्म दे रहे कथा प्रचारमें ला रहे हैं। भ्रत इस विषयमें गहरे अनुमन्वानके साथ गम्भीर विचारको जम्बरत है और उसीका यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है।

दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें सिद्धसेनके नामपर जो ग्रन्थ ढड़े हुए हैं उनमेंसे कितने ही ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो निरिचतरूपमें दूसरे उत्तरवर्ती सिद्धसेनोंकी कृतियां हैं जैसे १ जीनकल्पचूर्णि, २ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी टीका, ३ प्रवचनसारोद्घारकी बृत्ति, ४ एकविशतिस्थानप्रकरण (प्रा०) और ५ सिद्धिश्वेयसमुदय (शक स्तव) नामका मत्रगम्भित ग्रन्थस्तोत्र। कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका सिद्धसेन नामके माथ उल्लेख तो मिलता है परन्तु आज वे उपलब्ध नहीं हैं, जैसे १ बृहत्षब्ददर्शनसमुच्चय (जैनग्रन्थावली पृ० ६४), २ विषो-अग्रहशमनविधि, जिसका उल्लेख उप्रादित्याचाय (विक्रम ६ वीं शताब्दी) के 'कल्पाणकारक' वैद्यक ग्रन्थ (२०-८५) में पाया जाता है^५ और ३ नीतिसार-

^५ हो सकता है कि यह ग्रन्थ हरिभद्रसूरिका 'षड्वर्णनसमुच्चय' ही हो और किसी गलतीसे सूरतके उन सेठ भगवानदास कल्पाणदासकी प्राइवेट रिपोर्टमें, जो पिटसंन साहबकी नौकरीमें थे, दर्ज हो गया हो, जिसपरसे जैनग्रन्थावलीमें लिया गया है? क्योंकि इसके साथमें जिस टीकाका उल्लेख है उसे 'गुणरत्न' की लिखा है और हरिभद्रके षड्वर्णनसमुच्चयपर गुणरत्नकी टीका है।

^६ 'शालाक्ष्य पूज्यपाद-प्रकटितमधिक शाल्यतत्र च पात्रस्वामि-प्रोक्त विषोग्र-अग्रहशमनविधिः सिद्धसेने प्रसिद्धैः।'

पुराण, जिसका उल्लेख केशवसेनसूरि-(वि० स० १६८८) कृत कर्णामृतपुराण-
के निम्न पद्योंमें पाया जाता है और जिनमें उसकी श्लोकसंख्या भी १५६३००
दी हुई है—

सिद्धोक्त-नीतिसारादिपुराणोद्भूत-सन्मति ।

विधास्थामि प्रसन्नार्थं प्रन्थं सन्दर्भगमितम् ॥१६॥

स्वत्वाग्निरसवागोन्दु(१५६३००) श्लोकसंख्या प्रसूत्रिता ।

नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिभि' ॥२०॥

उपलब्ध न होनेके कारण ये तीनों ग्रन्थ विचारमें कोई सहायक नहीं हो सकते । इन आठ ग्रन्थोंके अलावा चार ग्रन्थ और हैं— १ डार्शिवादार्शिका,
२ प्रस्तुत सन्मतिसूत्र, ३ न्यायावतार और ४ कल्याणमन्दिर । 'कल्याण-
मन्दिर' नामका स्तोत्र ऐसा है जिसे इवेताम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनदिवाकरकी
कृति समझा और माना जाता है, जबकि दिगम्बर-परम्परामें वह स्तोत्रके अन्तिम
पद्यमें सूचित किये हुए 'कुमुदचन्द्र नामके अनुसार कुमुदचन्द्रार्थकी कृति माना
जाता है । इस विषयमें इवेताम्बर सम्प्रदायका यह कहना है कि 'सिद्धसेनका
नाम दीक्षाके समय कुमुदचन्द्र रक्खा गया था आचार्यदके समय उनका
पुराना नाम ही उन्हे दे दिया गया था, ऐसा प्रभाचन्द्रसूरिके प्रभावकचरित
(स० १३३४) से जाना जाता है और इसलिये कल्याणमन्दिरमें प्रयुक्त हुआ
'कुमुदचन्द्र' नाम मिद्दसेनका ही नामान्तर है' । दिगम्बर समाज इसे पीछेकी
कल्पना और एक दिगम्बर कृतिको हयियनेकी योजनामात्र समझता है,
क्योंकि प्रभावकचरितके पहले सिद्धसेन-विषयक जो दो प्रबन्ध लिखे गये हैं
उनमें कुमुदचन्द्र नामका कोई उल्लेख नहीं है—प० सुखलामजी और प०
वेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें भी इस बातको व्यक्त किया है । बादके बने
हुए मेरुतुंगाचार्यके प्रबन्धचिन्तामणि (स० १३६१) ग्रन्थमें और विनप्रभूसूरिके
विविधतीर्थकल्प (स० १३८६) में भी उने अपनाया नहीं गया है । राज-
षेष्ठरके प्रबन्धकोश अपरनाम चतुर्विश्लिष्ट-प्रबन्ध (म० १४०५) में कुमुदचन्द्र
नामको अपनाया छारू गया है वरन्तु प्रभावकचरितके विशद कल्याणमन्दिर-
स्तोत्रकी 'पाश्वनाथदार्शिकान्' के रूपमें व्यक्त किया है और यह ही वह भी

लिखा है कि वीरकी द्वाविशद्वात्रिशिका स्तुतिसे जब कोई चमत्कार देखनेमे नहीं आया तब यह पाश्वनाथद्वात्रिशिका रची गई है, जिसके ११वे पद्मसे नहीं किन्तु प्रथम पद्मसे ही चमत्कारका प्रारम्भ हो गया ॥ । ऐसी स्थितिमें पाश्वनाथद्वात्रिशिकाके रूपमें जो कल्याणमन्दिरस्तोत्र रचा गया वह ३२ पद्मोंका कोई दूसरा ही होना चाहिये, न कि बत्तमान कल्याणमन्दिरस्तोत्र, जिसकी रचना ४४ पद्मोंमें हुई है और इससे दोनों कुमुदचन्द्र मी भिन्न होने चाहिये । इसके सिवाय बत्तमान कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें ‘प्राप्तभारमभृतनभाग्नि रजासि शोषात्’ इत्यादि तीन पद्म ऐसे हैं जो पाश्वनाथको दैत्यकृत उपसर्गसे मुक्त प्रकट करते हैं, जो दिगम्बर-मान्यताके अनुकूल और श्वेताम्बर मान्यताके प्रतिकूल हैं, क्योंकि श्वेताम्बरीय आचाराग-नियुक्तिय बद्धमानको छोड़कर शेष २३ तीर्थकरोंके तपःकर्मको निरुपसर्ग बिणत किया है ॥ । इससे भी प्रस्तुत कल्याणमन्दिर दिगम्बर कृति होनी चाहिये ।

प्रमुख श्वेताम्बर विद्वान् ५० सुखलालजी और ५० वेचरदासजीने यन्थकी गुजराती प्रस्तावनामें ८ विविधतीर्थकल्पको छोड़कर शेष प्रबन्धोंका विद्वसेन-विषयक सार बहुआध्रमें साथ दिया है और उसमें किननी ही परस्पर विरोधी तथा भौलिक मतभेदकी बातोंका भी उल्लेख किया है और साथ ही यह निष्कप निकाला है कि सिद्धमेन दिवाकरका नाम मूरमें कुमुदचन्द्र नहीं था, होता तो दिवाकर-विशेषणकी तरह यह थ्रुतिश्य नाम भी किसी-न-नि-नी प्राचीन ग्रन्थ-

* “इत्यादिश्वीरद्वात्रिक्षद्वात्रिशिका कृना । पर तस्मात्ताह्य चमत्कारमना लोक्य गश्चात् श्रीपाश्वनाथद्वात्रिशिकामभिकृतुं कल्याणमन्दिरस्तब चक्रे प्रथमश्लोके एव प्रासादस्थितात् शिलिगिकाप्रादिव लिगाद घूमवर्तिल्दतिष्ठत् ।”

—गाटनकी हेमचन्द्राचार्य ग्राहावलीमें प्रकाशित प्रबन्धकोना ।

† ‘सब्वेति तवो कर्म निरवस्था विष्णुय बिणाण ।

नवर तु बहूमाणस्स सोवसग्म मुण्डेयव्य ॥ २७६ ॥

॥ यह प्रस्तावना ग्रन्थके गुजराती अनुवाद-भावार्थके साथ सन् १६३२में प्रकाशित हुई है और ग्रन्थका यह गुजराती संस्करण बादको अप्रेजीमे अनुवादित शेषकर ‘सन्मतितर्क’ के नामसे सन् १६३६ में प्रकाशित हुआ है ।

में सिद्धसेनकी निष्ठित कृति अथवा उसके उद्घृत वाक्योंके साथ ज़हर उल्लेखित मिलता—प्रभावकवरितसे पहलेके किसी भी ग्रंथमें इसका उल्लेख नहीं है। और यह कि कल्याणमन्दिरको सिद्धसेनकी कृति सिद्ध करनेके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है—वह सन्देहास्पद है।' ऐसी हालतमें कल्याणमन्दिरकी बातको यही छोड़ ही दिया जाता है। प्रकृत-विषयके निर्णयमें कह कोई विशेष साधक-बावजूद भी नहीं है।

अब रही द्वात्रिशद्वात्रिशिका, सन्मतिसूत्र और न्यायावतारकी बात। न्यायावतार एक ३२ इलोकोंका प्रमाणनयविषयक लघुग्रन्थ है, जिसके आदिग्रन्तमें कोई मंगलाचरण तथा प्रशस्ति नहीं है, जो आमतौरपर इतेताम्बराचार्य सिद्धसेन-दिवाकरकी कृति माना जाता है और जिसपर इवे० सिद्धधि (मं० ६६२) की विवृति और उस विवृतिपर देवभद्रकी टिप्पणी उपलब्ध है और ये दोनों टीकाएँ ३० पी० एल० वैद्यके द्वारा सम्पादित होकर सन् १६२८ में प्रकाशित हो चुकी हैं। सन्मतिसूत्र का परिचय ऊपर दिया ही जाचुका है। उसपर अभ्यदेवसूरिकी २५ हजार इलोक-परिमाण जो संस्कृतटीका है वह उक्त दोनों विद्वानोंके द्वारा सम्पादित होकर संवत् १६८७ में प्रकाशित हो चुकी है। द्वात्रिशद्वात्रिशिका ३२-३२ पृष्ठोंकी ३२ कृतिया बतलाई जाती है, जिनमें मे २१ उपलब्ध हैं। उपलब्ध द्वात्रिशिकाएँ भावनगरकी जैनघर्मप्रसारक सभाकी तरफसे विक्रम संवत् १६६५ में प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जिस क्रमसे प्रकाशित हुई हैं उसी क्रमसे निमित्त हुई हो एसा उन्हें देखनेसे मालूम नहीं होता—वे बादको किसी लेखक अथवा पाठक-द्वारा उस क्रमसे संग्रह की अथवा कराई गई जान पड़ती हैं। इस बातको पं० सुखलालजी आदिने भी प्रस्तावनामें व्यक्त किया है। साथ ही यह बतलाया है कि ये सभी द्वात्रिशिकाएँ सिद्धसेनने जैनदीक्षा स्वीकार करनेके पीछे ही रची हों एसा नहीं कहा जा सकता, इनमेंसे कितनी ही द्वात्रिशिकाएँ (बत्तीसियों) उनके पूर्वाश्रममें भी रची हुई हो सकती हैं।' और यह ठीक है, परन्तु ये सभी द्वात्रिशिकाएँ एक ही मिद्दसेनकी रची हुई हों ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; जुनाचे २१ वीं द्वात्रिशिकाके विषयमें पं० सुखलालजी आदिने प्रस्तावनामें यह स्पष्ट स्वीकार भी किया है कि 'उसकी भावावतारना और वर्णित वस्तुकी दूसरी बत्तीसियोंके साथ तुलना करने पर ऐसा मालूम

होता है कि वह बत्तीसी किसी जुडे ही सिद्धसेनकी कृति है और चाहे जिस कारणसे दिवाकर (सिद्धसेन) की मानी जानेवाली द्वात्रिशिकाएँ दाखिल होकर दिवाकरके नामपर चढ गई हैं। इसे महावीरद्वात्रिशिकाएँ लिखा है—महावीर नामका इसमें उल्लेख भी है, जबकि और किसी द्वात्रिशिकामें 'महावीर' नामका उल्लेख नहीं है—प्राय़ 'वीर' या 'वद्धमान' नामका ही उल्लेख पाया जाता है। इसकी पद्धतिस्थापा ३३ है और ३३वें पद्धमे स्तुतिका माहात्म्य दिया हुआ है, ये दोनों बातें दूसरी सभी द्वात्रिशिकामोंसे विलक्षण हैं और उनसे इसके भिन्न-कर्तृत्वकी छोतक हैं। इसपर टीका भी उपलब्ध है जब कि और किसी द्वात्रिशिकापर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। चन्द्रप्रभसुरिने प्रभावकचरितमें न्यायावतारकी, जिसपर टीका उपलब्ध है, गणना भी ३२ द्वात्रिशिकामोंमें की है ऐसा कहा जाता है, परन्तु प्रभावकचरितमें वैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता और न उसका समर्थन पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती अन्य किसी प्रबन्धसे ही होता है। टीकाकारोंने भी उसके द्वात्रिशिद्वात्रिशिकाका अग होनेकी कोई बात सूचित नहीं की, और इसलिये न्यायावनार एक स्वतंत्र ही ग्रन्थ होना चाहिये तथा उसी रूपमें प्रसिद्धिको भी प्राप्त है।

२१वीं द्वात्रिशिकाके भन्तमें 'सिद्धसेन' नाम भी लगा हूपा है, जबकि ५वीं द्वात्रिशिकाको छोड़कर और किसी द्वात्रिशिकामें वह नहीं पाया जाता। हो सकता है कि ये नामवाली दोनों द्वात्रिशिकाएँ अपने स्वरूपपरसे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग सिद्धसेनोंसे सम्बन्ध रखती हो और शेष विना नामवाली द्वात्रिशिकाएँ इनसे भिन्न दूसरे ही सिद्धसेन अथवा मिद्दसेनोंकी कृतिस्वरूप हो। १० मुख्यलालजी और १० वेचरदासजीने पहली पाँच द्वात्रिशिकामोंको, जो वीर भगवानकी स्तुतिपरक हैं, एक मूप (समुदाय)में रखका है और उस मूप (द्वात्रिशिकाएँ) को भी २०

यह द्वात्रिशिका अलग ही है ऐसा ताडपत्रीय प्रतिसे भी जाना जाता है, जिसमें २० ही द्वात्रिशिकाएँ अकित हैं और उनके अन्तमें 'मध्याम ८३० मगलमस्तु' लिखा है, जो ग्रन्थकी समाप्तिके साथ उसकी द्व्योक्षस्थापाका भी छोतक है। जैनग्रन्थावली (पृ० २८१) में उल्लेखित ताडपत्रीयप्रतिमें भी २० द्वात्रिशिकाएँ हैं।

शिकायचक) का स्वामी समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्रके साथ साम्य घोषित करके तुलना करते हुए लिखा है कि 'स्वयम्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जिस प्रकार स्वयम्भू शब्दसे होता है और अन्तिम पद्म (१४३) में ग्रन्थकारन श्लेषरूपसे अपना नाम समन्तभद्र सूचित किया है उसी प्रकार इस द्वात्रिशिकापचकका प्रारम्भ भी स्वयम्भू शब्दसे होता है और उसके अन्तिम पद्म (५, २२) में भी ग्रन्थकारन श्लेषरूपमें अपना नाम सिद्धेन दिया है'। इससे शब्द १५ द्वात्रिशिकाएँ भिन्न ग्रूप अथवा अपोसे सम्बन्ध रखती हैं और उनमें प्रथम ग्रूपकी पद्मतिको न अपनाये जाने अथवा अन्तमें ग्रन्थकारका नामोलेख तक न होनेके कारण वे दूसरे सिद्धेन या सिद्धेनोंकी कृतियाँ भी हो सकती हैं। उनमेंसे ११वीं किसी राजाकी स्तुतिको लिए हुए हैं, छठी तथा आठवीं समीक्षात्मक हैं और शब्द बारह दाशनिक तथा वस्तुचर्चावाली हैं।

इन सब द्वात्रिशिकाओंके सम्बन्धमें यहा दो बातें और भी नोट किये जानेके योग्य हैं—एक यह कि द्वात्रिशिका (बल्लीसी) होनेके कारण जब प्रत्येककी पद्मसंख्या ३२ होनी चाहिये थी तब वह घट बढ़रूपमें पाई जाती है। १०वींमें दो पद्म तथा २१वींमें एक पद्म बढ़ती है, और ८वींमें छह पद्मोंकी, ११वींमें चारकी तथा १५वींमें एक पद्मकी बढ़ती है। यह घट-बड़ भावनगरकी उक्त मुद्रित प्रतिमें ही नहीं पाई जाती बल्कि पूनाके भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट और कलकत्ताकी एशियाटिक सोसाइटीकी हस्तलिखित प्रतियोगीमें भी पाई जाती है। रचना-समयकी तो यह पट-बड़ प्रतीतिका विषय नहीं—प० सुखलालजी आदिने भी लिखा है कि 'बड़-घटकी यह घालमेल रचनाके बाद ही किसी कारणसे होनी चाहिये।' इसका एक कारण लेखकोंकी असावधानी हो सकती है, जैसे ११वीं द्वात्रिशिकामें एक पद्मकी कमी थी वह पूना और कलकत्ताकी प्रतियोगीसे पूरी हो गई। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि किसीन अपने प्रयोजनके बश यह घालमेल की हो। कुछ भी हो, इससे उन द्वात्रिशिकाओंके पूरणरूपको समझने आदिमें बाधा पड़ रही है, जैसे ११वीं द्वात्रिशिकासे यह मान्यम ही नहीं होता कि वह कौनसे राजाकी स्तुति है, और इससे उसके रचयिता तथा रचना-काल-की जाननेमें भारी बाधा उपस्थित है। यह नहीं हो सकता कि किसी विविध राजाकी स्तुति की जाय और उसमें उसका नाम तक भी न हो—दूसरी स्तुत्या-

त्यक द्वात्रिशिकाओमे स्तुत्यका नाम बराबर दिया हुआ है, किर यही उसमे शून्य रही हो यह कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता । अत जरुरत इस बातकी है कि द्वात्रिशिका-विषयक प्राचीन प्रतियोगी पूरी खोज की जाय । इससे अनुपलब्ध द्वात्रिशिकाएँ भी यदि कोई होगी तो उपलब्ध हो सकेगी और उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंसे वे अशुद्धिया भी दूर हो सकेगी जिनके कारण उनका पठन-पाठन कठिन हो रहा है और जिसकी ४० सुखलालजी आदिको भी भारी शिकायत है ।

दूसरी बात यह कि द्वात्रिशिकाओंको स्तुतिया कहा गया है ६० और इनके अवतारका प्रसङ्ग भी स्तुति-विषयका ही है, क्योंकि इवेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनु-सार विक्रमादित्य राजाकी ओरसे शिवलिंगको नमस्कार करनेका अनुरोध होनेपर जब सिद्धेनाचार्यने कहा कि यह देवता मेरा नमस्कार सहन करनेमें समर्थ नहीं है—मेरा नमस्कार सहन करनेवाले दूसरे ही देवता हैं—तब राजाने कौतुकवश, परिणामकी कोई पर्वाह न करते हुए नमस्कारके लिये विशेष आग्रह किया ४५ । इसपर सिद्धेन जिवलिंगके सामने आमन जमाकर बैठ गये और उन्होंने अपने इष्टदेवकी स्तुति उच्चस्थर आदिके माध्य प्रारम्भ करदी; जैसा कि निम्न वाक्योंमें प्रकट है:—

* “सिद्धेनेण पारद्वा बत्तीसियाहि जिणायुई” × ×

—(गद्यप्रबन्ध-कथावली)

‘तस्सागयस्स तेण पारद्वा जिणायुई समताहि ।

बत्तीसाहि बत्तीसियाहि उदामसदेण ॥—(पद्यप्रबन्ध स० प्र० ५० ५६) ।

न्यायावतारसुन्न च श्रीबीरस्तुतिमप्यथ ।

द्वात्रिशच्छलोकमानाश्च त्रिशदन्याः स्तुतीरपि ॥ १४३ ॥

—प्रभावकचरित

५५ ये मत्प्रणामसोडारस्ते देवा अपरे ननु ।

कि भावि प्रणाम त्व द्वाक् प्राह राजेति कौतुकी ॥ १३५ ॥

देवाल्लिजप्रणाम्याश्च दर्शय त्व वदन्निति ।

भूपतिर्ज्ञिष्ठतस्तेनोत्पाते दोषो न मे नृप ॥ १३६ ॥

“अत्वेति पुनरासीनः शिवलिंगस्य स प्रभुः ।

उद्भाजहे स्तुतिश्लोकान् तारस्वरकरस्तदा ॥ १३८ ॥

—प्रभावकचरित

ततः पद्मासनेन भूत्वा द्वात्रिशद्द्वात्रिशिकाभिर्देवं स्तुतिमुपचक्रमे ।”

—विविधतीर्थकल्प, प्रबन्धकोश

परन्तु उपलब्ध २१ द्वात्रिशिकाभ्रोमे स्तुतिपरक द्वात्रिशिकाएँ केवल सात ही हैं, जिनमें भी एक राजा की स्तुति होनसे देवताविषयक स्तुतियोंको कोटिसे निकल जाती है और इस तरह छह द्वात्रिशिकाएँ ही ऐसी रह जाती हैं जिनका श्रीवीर-बद्धमानकी स्तुतिसे सम्बन्ध है और जो उस अवसरपर उच्चरित कही जा सकती है—शेष १४ द्वात्रिशिकाएँ न तो स्तुति विषयक हैं, न उक्त प्रसंगके योग्य हैं और इसलिये उनकी गणना उन द्वात्रिशिकाभ्रोमे नहीं की जा सकती जिनकी रचना अथवा उच्चारणा सिद्धसेनने शिवलिंगके सामने बैठकर की थी ।

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रभावकचरितके अनुसार स्तुति-का प्रारम्भ “प्रकाशित त्वयैकेन यथा सम्यग्बगतयम् ।” इत्यादि इलोकोंसे हुआ है, जिनमेंसे “तथा हि” शब्दके साथ चार इलोकोंको † उद्घृत करके उनके

† चारों इलोक इस प्रकार है—

प्रकाशित त्वयैकेन यथा सम्यग्बगतयम् ।

समस्तैरपि नो नाथ । वरतीर्थाविपैस्तथा ॥ १३६ ॥

विद्योतयति का लोक यर्थकोऽपि निशाकर ।

समुद्गत समप्रोऽपि तथा कि तारकागणः ॥ १४० ॥

त्वद्वाक्यनोऽपि केषाङ्गिदबोध इति मेऽङ्गुतम् ।

भानोर्मीरीचः कस्य नाम नालोकहेतव ॥ १४१ ॥

नो वाङ्गुतमुखकस्य प्रकृतया किलष्टचेतस ।

त्वच्छाभ्यपि तमस्वेन भासन्ते भास्वतः कराः ॥ १४२ ॥

लिखित पद्मप्रबन्धमें भी ये ही चारों इलोक ‘तस्सागयस्य तेणां पारदा

जिराशुर्हि’ इत्यादि पद्मके अनन्तर ‘यथा’ शब्दके साथ दिये हैं ।

—(स० प्र० प० ५४ डि० ५८)

आगे “इत्यादि” लिखा गया है। और किर ‘न्यायावतारसूत्रं च’ इत्यादि इलोक-द्वारा ३२ कृतियोंकी ओर सूचना की गई है, जिनमेंमें एक न्यायावतारसूत्र, दूसरी श्रीबीरस्तुति और ३० बत्तीस-बत्तीस इलोकोंवाली दूसरी स्तुतियाँ हैं।
प्रबन्धचिन्तामणिके प्रनुसार स्तुतिका प्रारम्भ—

“प्रशान्तं दशनं यस्य सर्वभूताऽभयप्रदम् ।
मांगल्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥”

इस इलोकसे होता है, जिसके अनन्तर ‘इति द्वात्रिशद्वात्रिशिका कृता’ लिखकर यह सूचित किया गया है कि वह द्वात्रिशद्वात्रिशिका स्तुतिका प्रथम इलोक है। इस इलोक तथा उक्त चारों इलोकोंमेंसे किसीसे भी प्रस्तृत द्वात्रिशिकाओंका प्रारम्भ नहीं होता है, न ये इलोक किसी द्वात्रिशिकामें पाये जाते हैं और न इनके साहित्यका उपलब्ध प्रथम २० द्वात्रिशिकाओंके साहित्यके साथ कोई मेल ही खाता है। ऐसी हालतमें इन दोनों प्रबन्धों तथा लिखित पद्यप्रबन्धमें उल्लेखित द्वात्रिशिका स्तुतियाँ उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंसे भिन्न कोई दूसरी ही होनी चाहियें। प्रभावकरितके उल्लेखपरसे इसका और भी समर्थन होता है; क्योंकि उसमें ‘श्रीबीरस्तुति’ के बाद जिन ३० द्वात्रिशिकाओंको “मन्याः स्तुतीः” लिखा है वे श्रीबीरसे भिन्न दूसरे ही तीर्थकरादिकी स्तुतियाँ जान पड़नी हैं और इसलिये उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंके प्रथम ग्रूप द्वात्रिशिकापञ्चकमें उनका समवेश नहीं किया जा सकता, जिसमेंकी प्रत्येक द्वात्रिशिका श्रीबीरभगवान्से ही सम्बन्ध रखती है। उक्त तीनों प्रबन्धोंके बाद बने द्वृए विविधतीर्थकल्प और प्रबन्धकोष (चतुर्विशतिप्रबन्ध) में स्तुतिका प्रारम्भ ‘स्वयम्भुवं भूतसहस्रनेत्र’ इत्यादि पद्यसे होता है, जो उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंके प्रथम ग्रूपका प्रथम पद्य है, इसे देकर “इत्यादि श्रीबीरद्वात्रिशद्वात्रिशिका कृता” ऐसा लिखा है। यह पद्य प्रबन्धवर्णित द्वात्रिशिकाओंका सम्बन्ध उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंके साथ जोड़नेके लिये बादको अपनाया गया मालूम होता है; क्योंकि एक तो पूर्वरचित प्रबन्धोंमें इसका कोई समर्थन नहीं होता, और उक्त तीनों प्रबन्धोंसे इसका स्पष्ट विरोध पाया जाता है। दूसरे, इन दोनों ग्रन्थोंमें द्वात्रिशद्वात्रिशिकाको एकमात्र श्रीबीरसे सम्बन्धित किया गया है और उसका विषय भी “देवं स्तोत्रमुपचक्रमे” शब्दोंके द्वारा ‘स्तुति’

ही बतलाया गया है; परन्तु उस स्तुतिको पढ़नेसे शिवलियका विस्फोट होकर उसमेसे वीरभगवान्‌की प्रतिमाका प्रादुर्भूत होना किसी ग्रन्थमें भी प्रकट नहीं किया गया—विविष्टतीर्थकहपका कर्ता आदिनाथकी प्रीर प्रबन्धकोषका कर्ता पाश्वर्वनाथकी प्रतिमाका प्रकट होना बतलाता है। और यह एक असंगत-सी बात जान पड़ती है कि स्तुति तो किसी तीर्थकरकी की जाय और उसे करते हुए प्रतिमा किसी दूसरे ही तीर्थकरकी प्रकट होवे।

इस तरह भी उपलब्ध द्वार्चिशिकाओंमें उक्त १४ द्वार्चिशिकाएँ, जो स्तुतिविषय तथा वीरकी स्तुतिसे सम्बन्ध नहीं रखतीं, प्रबन्धवर्णित द्वार्चिशिकाओंमें परिणयित नहीं की जा सकतीं। और इसलिये पं० सुखलालजी तथा पं० बैचरदासजीका प्रस्तावनामें यह लिखना कि 'शुरुआतमें दिवाकर (सिद्धसेन) के जीवनवृत्तान्तमें स्तुत्यात्मक बत्तीसियों (द्वार्चिशिकाओं)को ही स्थान देनेकी चर्चरत मालूम हुई और इनके साथमें संस्कृत भाषा तथा पद्म-संस्कृतमें समानता रखनेवाली परन्तु स्तुत्यात्मक नहीं ऐसी दूसरी घनी बत्तीसियाँ इनके जीवनवृत्तान्तमें स्तुत्यात्मक कृतिरूपमें ही दाखिल हो गई और पीछे किसीने इस हकीकतको देखा तथा खोजा ही नहीं कि कही जानेवाली बत्तीस अथवा उपलब्ध इक्कीस बत्तीसियोंमें कितनी और कौन स्तुतिरूप हैं और कौन कौन स्तुतिरूप नहीं हैं, और इस तरह सभी प्रबन्धरचयिता आचार्योंको ऐसी भोटी भूलके शिकार बतलाना कुछ भी जीको लगनेवाली बात मालूम नहीं होती। उसे उपलब्ध द्वार्चिशिकाओंकी संगति बिठलानेका प्रयत्नमात्र ही कहा जा सकता है, जो निराधार होनेसे समुचित प्रतीत नहीं होता।

द्वार्चिशिकाओंकी इस सारी छान-झीन परसे निम्न बातें फलित होती हैं—

१. द्वार्चिशिकाएँ जिस क्रमसे खण्डी हैं उसी क्रमसे निर्मित नहीं हुई हैं।
२. उपलब्ध २१ द्वार्चिशिकाएँ एक ही सिद्धसेनके द्वारा निर्मित हुई मालूम नहीं होतीं।
३. न्यायावतारकी गणना प्रबन्धोलिलित द्वार्चिशिकाओंमें नहीं की जा सकती।

४. द्वार्तिशिकाओंकी पद्धतियामें जो घट-बढ़ पाई जाती है वह रचनाके बाद ही है और उसमें कुछ ऐसी घट-बढ़ भी शामिल है जो कि किसीके द्वारा जान बूझकर अपने किसी प्रयोजनके लिये की गई हो ! ऐसी द्वार्तिशिकाओंका पूर्णरूप अभी अनिश्चित है ।

५. उपलब्ध द्वार्तिशिकाओंका प्रबन्धोंमें वर्णित द्वार्तिशिकाओंके साथ, जो सब स्तुत्यात्मक हैं और प्रायः एक ही स्तुतिग्रन्थ 'द्वार्तिशद्वार्तिशिका' की अंग जान पड़ती हैं, सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता । दोनों एक दूसरेसे भिन्न तथा भिन्नकर्तुंके प्रतीत होती हैं ।

ऐसी हालतमें किसी द्वार्तिशिकाका कोई बाब्य यदि कहीं उद्भूत मिलता है तो उसे उसी द्वार्तिशिका तथा उसके कर्ता तक ही सीमित समझना चाहिये, शेष द्वार्तिशिकाओंमेंसे किसी दूसरी द्वार्तिशिकाके विषयके साथ उसे जोड़कर उसपरसे कोई दूसरी बात उस बत्त तक फलित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि वह दूसरी द्वार्तिशिका भी उसी द्वार्तिशिकाकारकी हृति है । अस्तु ।

अब देखना यह है कि इन द्वार्तिशिकाओं और न्यायावतारमेंसे कौन-सी रचना सम्पत्सूत्रके कर्ता सिद्धसेन आचार्यकी हृति है अथवा हो सकती है ? इस विषयमें पं० सुखलालजी और पं० बैचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें यह प्रतिपादन किया है कि २१ वीं द्वार्तिशिकाको छोड़कर शेष २० द्वार्तिशिकाएँ न्यायावतार और सम्मति ये सब एक ही सिद्धसेनकी हृतियाँ हैं और ये सिद्ध-सेन वे हैं जो उक्त श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनुसार बृद्धवादीके शिष्य ये और 'दिवाकर' नामके साथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं । दूसरे श्वेताम्बर विद्वानोंका बिना किसी जाँच-पड़तालके अनुसारण करनेवाले कितने ही जैनेतर विद्वानोंकी भी ऐसीं ही मान्यता है और यह मान्यता ही उस सारी मूल-धारितिका मूल है जिसके कारण सिद्धसेन-विषयक जो भी परिचय-लेख अब तक लिखे गये वे सब प्रायः खिचड़ी बने हुए हैं, कितनी ही गलतफहमियोंको फैला रहे हैं और उनके द्वारा, सिद्धसेनके समयादिका ठीक निर्णय नहीं हो पाता । इसी मान्यताको लेकर विद्वार पं० सुखलालजीकी स्थिति सिद्धसेनके समय-सम्बन्ध-

में बारावर ढाँबाढोल जली जाती है। आप प्रस्तुत सिद्धसेनका समय कभी विक्रमकी छठी शताब्दीसे पूर्व ५ वीं शताब्दीके बतलाते हैं, कभी छठी शताब्दीका भी उत्तरवर्ती समय^X कह डालते हैं, कभी सन्दिग्धरूपमें छठी या सातवीं शताब्दी[†] निर्दिष्ट करते हैं और कभी ५ वीं तथा ६ ठीं शताब्दीका मध्यवर्ती काल[‡] प्रतिपादन करते हैं। और बड़ी मजेकी बात यह है कि जिन प्रबन्धोंके आधारपर सिद्धसेनदिवाकरका परिचय दिया जाता है उनमें 'न्यायवत्तार' का नाम तो किसी तरह एक प्रबन्धमें पाया भी जाता है परन्तु सिद्धसेनकी कृतिरूपमें सन्मतिसूत्रका कोई उल्लेख कही भी उपलब्ध नहीं होता। इतनेपर भी प्रबन्ध-वर्णणत सिद्धसेनकी कृतियोंमें उसे भी शामिल किया जाता है !! यह कितने अश्वार्यकी बात है इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

यन्थकी प्रस्तावनामें प० सुखलालजी आदिने, यह प्रतिपादन करते हुए कि 'उक्त प्रबन्धोंमें द्वात्रिशिकाए'[§] भी जिनमें किसीकी स्तुति नहीं है और जो अन्य दर्शनों तथा स्वदर्शनके मनवयोंके निरूपण तथा समालोचनको लिए हुए हैं स्तुतिरूपमें परिणित हैं और उन्हें दिवाकर (सिद्धसेन) के जीवनमें उनकी कृतिरूपसे स्थान मिला है,' इसे एक 'पहेली' ही बतलाया है जो स्वदर्शनका निरूपण करनेवाले और द्वात्रिशिकायोंसे न उत्तरनेवाले (नीचा दर्जा न रखने-वाले) 'सन्मतिप्रकरण'को दिवाकरके जीवनवृत्तान्त और उनकी कृतियोंमें स्थान क्यों नहीं मिला। परन्तु इस पहेलीका कोई समुचित हल प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रायः इतना कहकर ही सन्तोष धारण किया गया है कि सन्मतिप्रकरण यदि बत्तीस इलोकपरिमाण होता तो वह प्राकृतभाषामें होते हुए भी

॥ सन्मतिप्रकरण-प्रस्तावना प० ३६, ४३, ६४, ६४ ।

^X ज्ञानविन्दु-परिचय प० ६ ।

[†] सन्मतिप्रकरणके अप्रेजी संस्करणका फोरवर्ड (Foreword) प्रोर भारतीयविद्यामें प्रकाशित 'बीसिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रश्न' नामक लेख—भा० वि० तृतीयभाग प० १५२ ।

[‡] 'प्रतिमामूर्ति सिद्धसेन दिवाकर' नामक लेख—भारतीयविद्या तृतीय भाग प० ११ ।

दिवाकरके जीवनबृत्तान्तमें स्थान पाई हुई संस्कृत बलीसियोंके साथमें परिगणित हुए बिना शायद ही रहता।^१ पहेलीका यह हल कुछ भी महत्व नहीं रखता। प्रबन्धोंसे इसका कोई समर्थन नहीं होता और न इस बातका कोई पता ही चलता है कि उपलब्ध जो द्वारिशिकाएँ स्तुत्यात्मक नहीं हैं वे सब दिवाकर सिद्धेनके जीवनबृत्तान्तमें दाखिल हो गई हैं और उन्हें भी उन्हीं सिद्धेनकी कृतिकल्पसे उनमें स्थान मिला है, जिससे उक्त प्रतिपादनका ही समर्थन होता—‘प्रबन्धवर्णित जीवनबृत्तान्तमें उनका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। एकमात्र प्रभावकचरितमें ‘न्यायावतार’ का जो असम्बद्ध, असमर्थित और असमञ्जस उल्लेख मिलता है उसपरसे उसकी गणना उस द्वारिशादद्वारिशिकाके आंगरूपमें नहीं की जा सकती जो सब जिन-स्तुतिप्रकरणीं, वह एक छुडा ही स्वतन्त्र भंग है, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है। और सन्मतिप्रकरणका बतीस द्व्योपरिमाण न होना भी सिद्धेनके जीवनबृत्तान्तसे सम्बद्ध कृतियोंमें उसके परिगणित होनेके लिये कोई बाधक नहीं कहा जा सकता—खासकर उस हालतमें जबकि चबालीस पद्यसंस्थावाले कल्पाणामन्दिरस्तोत्रको उनकी कृतियोंमें परिगणित किया गया है और प्रभावकचरितमें इस पद्यसंस्थाका स्पष्ट उल्लेख भी साथमें भौजूद है॥^२ वास्तवमें प्रबन्धोंपरसे यह गम्य उन सिद्धेनदिवाकरकी कृति मालूम ही नहीं होता, जो बृद्धवादीके शिष्य थे और जिन्हें आगमग्रन्थोंको संस्कृतमें अनुवादित करनेका अभिप्रायमात्र व्यक्त करनेपर परञ्चकप्रायशिच्चत-के रूपमें बारह वर्ष तक इवेताम्बरसंघसे बाहर रहनेका कठोर दण्ड दिया जाना बतलाया जाता है। प्रस्तुत ग्रंथको उन्हीं सिद्धेनकी कृति बतलाना, यह सब बाब-की कल्पन और योजना ही जान पड़ती है।

पं० सुखलालजीने प्रस्तावनामें तथा अन्यत्र भी द्वारिशिकाओं, न्यायावतार और सन्मतिसूत्रका एककर्तुत्व प्रतिपादन करनेके लिये कोई खास हेतु प्रस्तुत नहीं किया, जिससे इन सब कृतियोंको एक ही आचार्यकृत माना जा सके,

^१ ततश्चतुश्चत्वार्द्वृत्तां स्तुतिमसी जगी ।

कस्याणमन्दिरेत्यादिविषयातां जिनशासने ॥ १४४ ॥

प्रस्तावनामें केवल इतना ही सिख दिया है कि 'इन सबके पीछे रहा हुआ प्रतिभाका समान तत्त्व ऐसा बानेके लिए ललचाता है कि ये सब कृतियाँ किसी एक ही प्रतिभाके फल हैं।' यह सब कोई समर्थ गुरुकिवाद न होकर एक प्रकार-से अपनी मान्यताका प्रकाशनमात्र है; यद्योकि इन सभी ग्रन्थोंपरसे प्रतिभाका ऐसा कोई असाधारण समान तत्त्व उपलब्ध नहीं होता जिसका अन्यत्र कहीं भी दर्शायें नहीं होता हो। स्वामी समन्तभद्रके मात्र हैवयम्भूस्तोत्र और आसमीमांसा ग्रन्थोंके साथ इन ग्रन्थोंकी तुलना करते हुए स्वयं प्रस्तावनालेखकोने दोनोंमें 'पुष्कल साम्य' का होना स्वीकार किया है और दोनों आचार्योंकी ग्रन्थ-निर्माणादि-विषयक प्रतिभाका कितना ही चित्रण किया है। और भी अकलंक-विद्यानन्दादि कितने ही आचार्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा इन ग्रन्थोंके पीछे रहने-वाली प्रतिभासे कम नहीं है, तब प्रतिभाकी समानता ऐसी कोई बात नहीं रह जाती जिसकी अन्यत्र उपलब्ध न हो सके और इसलिये एकमात्र उसके आधार-पर इन सब ग्रन्थोंको, जिनके प्रतिपादनमें परस्पर कितनी ही विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, एक ही आचार्यकृत मान लिया गया है; अथवा किसी साम्प्रदायिक मान्यताको प्रश्न दिया गया है जबकि वस्तुस्थिति वैसी मालूम नहीं होती। गम्भीर गवेषणा और इन ग्रन्थोंकी अन्तःपरीकादिपरसे मुझे इस बातका पता चला है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन अनेक द्वार्तिशिकायोंके कर्ता सिद्धसेनसे भिन्न हैं। यदि २१वीं द्वार्तिशिकायोंको छोड़कर ज्ञेय २० द्वार्तिशिकाएँ एक ही सिद्धमेनकी कृतियाँ हों तो वे उनमेंसे किसी भी द्वार्तिशिकायोंके कर्ता नहीं हैं, अन्यथा कुछ द्वार्तिशिकायोंके कर्ता हो सकते हैं। न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनकी भी ऐसी ही स्थिति है वे सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनसे जहाँ भिन्न हैं वहाँ कुछ द्वार्तिशिकायोंके कर्ता सिद्धसेनसे भी भिन्न हैं और उक्त २० द्वार्तिशिकाएँ यदि एकसे अधिक सिद्धसेनोंकी कृतियाँ हों तो वे उनमेंसे कुछके कर्ता हो सकते हैं, अन्यथा किसीके भी कर्ता नहीं बन सकते। इस तरह सन्मतिसूत्रके कर्ता, न्यायावतारके कर्ता और कठिपय द्वार्तिशिकायोंके कर्ता तीन सिद्धसेन अलग अलग हैं—ज्ञेय द्वार्तिशिकायोंके कर्ता इन्हींमेंसे कोई एक या दो ग्रन्थों तीनों हो सकते

हैं और यह भी हो सकता है कि किसी द्वार्चियिकाके कर्ता इन तीनोंसे भिन्न कोई अन्य ही हों। इन तीनों सिद्धसेनोंका अस्तित्वकाल एक दूसरेसे भिन्न अथवा कुछ अन्तरालको लिये हुए हैं और उनमें प्रथम सिद्धसेन कतिपय द्वार्चियिकाओंके कर्ता, द्वितीय सिद्धसेन सन्मतिसूत्रके दृकर्ता और तृतीय सिद्धसेन न्यायावतारके कर्ता हैं। नीचे अपने अनुसन्धान-विषयक इन्हीं सब बातोंको संक्षेप-में स्पष्ट करके बतलाया जाता है:—

(१) सन्मतिसूत्रके द्वितीय काण्डमें केवलीके ज्ञान-दर्शन-उपयोगोंकी क्रम-बादिता और युगपद्धादितामें दोप दिलाते हुए अभेदवादिता अथवा एकोपयोग-बादिताका स्थापन किया है। साथ ही, ज्ञानावरण और दर्शनावरणका युगपत् अथ मानते हुए भी यह बतलाया है कि दो उपयोग एक साथ कही नहीं होते और केवलीमें वे क्रमशः भी नहीं होते। इन ज्ञान और दर्शन उपयोगोंका भेद भन-पर्यंगज्ञान पर्यन्त अथवा धूधस्थावस्था तक ही चलता है, केवलज्ञान हां-जानेपर दोनोंमें कोई भेद नहीं रहता—तब ज्ञान कहो अथवा दर्शन एक ही आत है। दोनोंमें कोई विषय-भेद चरितार्थ नहीं होता। इसके लिए अथवा आगमप्रन्थोंसे अपने इम कथनकी सञ्चाति चिठ्ठानेके लिए दर्शनकी 'अर्थविशेष-रहित निराकार सामान्यप्रहणरूप' जो परिभाषा है उसे भी बदल कर रखता है अर्थात् यह प्रतिपादन किया है कि यस्मृष्ट तथा अविषयरूप पदार्थमें अनुसान-ज्ञानको छोड़कर जो ज्ञान होता है वह दर्शन है।' इस विषयसे सम्बन्ध रखने-वाली कुछ गाथाएं नमूनेके तौरपर इस प्रकार है—

मणपञ्जवणाणंते णाणस्स दरिसणास्स य विसेसो ।

केवलणाणं पुण दंसणं ति णाणं ति य समाणं ॥ ३ ॥

केई भरणंति 'जइया जाणाइ तइया ण पासइ जिखो?' चिँ ।

सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासाण्णाभीरु ॥ ४ ॥

केवलणाणावरणक्लयजायं केवलं जहा णाणं ।

तह दंसणं पि जुउजइ णिय आवरणक्लयस्संते ॥ ५ ॥

सुत्तमिमि चेव 'साइ झापक्जब्जमिल्ल' खि केवलं तुत्तं ।

सुत्तासाण्णाभीरुहि तं च दृढ़व्यं टोइ ॥ ६ ॥

संतमि केवले दंसणम्भ णाणस्स संभवो णत्थि ।
 केवलणाणम्भ य दंसणस्स तम्हा सणिहणाइ ॥ ८ ॥
 दंसणणाणावरणक्षप समाणम्भ क्षस पुछच्छरं ।
 होइज समं उप्पाओ हंदि दुबे णत्थि उबओगा ॥ ९ ॥
 अणणायं पासंतो अहिङ्क च अरहा वियाणंतो ।
 किं जाणइ किं पासइ कह सध्वण्णू त्ति वा होइ ॥ १३ ॥
 णाण अप्पुड्डे अविसए य अथम्भ दसणं होइ ।
 मोत्तूण लिगओ जं अणागार्याईयविसएसु ॥ २५ ॥
 जं अप्पुड्डे भावे जाणइ पासइ य केवली णिथमा ।
 तम्हा तं णाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धा ॥ ३० ॥

इसीसे सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन अभेदवादके पुरस्कर्ता माने जाते हैं ।
 टीकाकार अभयदेवसूरि और ज्ञानविन्दुके कर्ता उपाध्याय यशोविजयने भी ऐसा
 ही प्रतिपादन किया है । ज्ञानविन्दुमें तो एतद्विषयक सन्मति-गाथाओंकी व्याख्या
 करते हुए उनके इस वादको “असिद्धसेनोपक्षनव्यमत” (सिद्धसेनकी अपनी ही
 सूझ-बूझ अथवा उपजरूर नया मत) तक लिखा है । ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक
 प्रस्तावनाके आदिमें प० सुखलालजीने भी ऐसी ही घोषणा की है ।

(२) पहली, दूसरी और पांचवीं द्वारावशाएँ युगपदादकी मान्यताको लिये
 हुए हैं; जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

क—जगन्नैकावस्थं युगपदलिलाऽनन्तविषयं

यद्देतत्पत्यक्षं तव न च भवान् क्षत्यचिदपि ।

अनेनैवाऽनिम्न्य-प्रकृति-रस-सिद्धेस्तु विदुपां

समीक्ष्यैतद्द्वारं तव गुण-क्षयोत्का वयमपि ॥ १-३२ ॥

ख—नाऽर्थान् विवित्ससि न वेत्स्यसि नाऽप्यवेत्सी-

र्न ज्ञातवानसि न सेऽङ्गुतं ! वेदामस्ति ।

त्रैकाल्य-वित्त-विषमं युगपच्च विश्वं

पश्यस्यविन्द्य-चरिताथ नमोऽस्तु तुभ्यम् ॥ २-३० ॥

ग—अनन्तमेकं युगपत् त्रिकाल राम्भादिभिर्निप्रतिघातवृत्तं ॥ ५-२१ ॥

दुरापमाप्तं यदचिन्त्य-भूति-ज्ञानं त्वया जन्म-जराऽन्तकर्त् ।
तेनाऽसि लोकानभिभूय सर्वान्मर्यज्ज ! लोकोत्तमतामुपेतः॥५-२२॥

इन पद्धोंमें ज्ञान और दर्शनके जो भी त्रिकालवर्ती अनन्त विषय हैं उन सबको युगपत् जानने-देखनेकी बात कही गई है अर्थात् त्रिकालगत विश्वके सभी साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, सूक्ष्म-स्थूल, दृष्ट-प्रदृष्ट, ज्ञात-अज्ञात, व्यवहित-अव्यवहित आदि पदार्थ अपनी अनेक-अनन्त अवस्थाओं अथवा पर्यायों-सहित वीरभगवानुके युगपत् प्रत्यक्ष हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यहाँ प्रयुक्त हुआ 'युगपत्' शब्द अपनी खास विशेषता रखता है और वह ज्ञान-दर्शनके योगपद्धका उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार स्वाभी समन्तभद्रप्रणीत आस-मीमांसा (देवागम)के "तत्त्वज्ञानं प्रमाणाण ते युगपत्सर्वभासनम्" (का० १०१) इस वाक्यमें प्रयुक्त हुआ 'युगपत्' शब्द, जिसे ध्यानमें लेकर और पादटिप्पणीमें पूरी कारिकाको उदधून करते हुए पं० सुखलालजीने ज्ञानबिन्दुके परिचयमें लिखा है—“दिग्म्बराचायं समन्तभद्रने भी अपनी 'आसमीमांसा' में एकमात्र योगपद्ध-पक्षका उल्लेख किया है।” साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'भृत् अकलङ्घने इस कारिकागत प्रपनी 'अष्टशती' व्याख्यामें योगपद्ध पक्षका स्थापन करते हुए क्रमिक-पक्षका, संक्षेपमें पर स्पृष्टरूपमें, खण्डन किया है', जिसे पादटिप्पणीमें निम्न प्रकारसे उद्धृत किया है:—

“तज्ज्ञान-दर्शनयोः क्रमवृत्तौ हि सर्वज्ञत्वं कादाचित्कं न्यात् । कुत-स्त्रिसिद्धिरिति चेत् सामान्य-विशेष-विषययोर्विंगतावरण्योरयुगपत्प्रति-भासायोगात् प्रतिबन्धकान्तराऽभावात् ।”

ऐसी हालतमें इन तीन द्वारितिकाओंके कर्ता वे सिद्धसेन प्रतीत नहीं होते जो सन्मतिसूक्ष्मके कर्ता और अमेदवादके प्रस्थापक अथवा पुरस्कर्ता हैं; बल्कि वे सिद्धसेन ज्ञान पड़ते हैं जो केवलीके ज्ञान और दर्शनका युगपत् होना मानते थे। ऐसे एक युगपद्धादी सिद्धसेनका उल्लेख विक्रमकी द्वी-हवी शताब्दीके विद्वान् आचार्य हरिभद्रने अपनी 'नन्दीवृत्ति' में किया है। नन्दीवृत्तिमें 'केइ भणति जुगवं जारणइ पासइ य केवली नियमा' इत्यादि दो गाथाओंको उद्धृत करके, जो कि जिनभद्रकमाश्रमणके 'विक्षेपणवती' ग्रन्थकी हैं, उनकी व्याख्या करते हुए लिखा है:—

“केवन सिद्धसेनाचार्याद्यः भण्णति, किं ? ‘युगपद्’ एकस्मिन्नेव काले जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्यः, नियमात् नियमेन ।”

नन्दीसूत्रके ऊपर मलयगिरिसूरिने जो ठीका लिखी है उसमें उन्होंने भी युगपदाका पुरस्कर्ता सिद्धसेनाचार्यको बतलाया है । परन्तु उपाध्याय यशो-विजयने, जिन्होंने सिद्धसेनको अभेदवादका पुरस्कर्ता बतलाया है, ज्ञानबिन्दुमें यह प्रकट किया है कि ‘नन्दीदृतिमें सिद्धसेनाचार्यका जो युगपत् उपयोगवादित्व कहा गया है वह भ्रम्युपगमवादके अभिप्रायसे है, न कि स्वतन्त्रसिद्धान्तके अभिप्रायसे; क्योंकि क्रमोपयोग और श्रक्रम (युगपत्) उपयोगके पर्यनुयोगजनन्तर ही उन्होंने सन्मतिमें अपने पक्षका उद्भावन किया है †’, जो कि ठीक नहीं है । मात्रूम होता है उपाध्यायजीकी दृष्टिमें सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन ही एकमात्र सिद्धसेनाचार्यके रूपमें रहे हैं और इसीसे उन्होंने सिद्धसेन-विषयक दो विभिन्न वादोंके कथनोंसे उत्पन्न हुई प्रसङ्गनिको दूर करनेका यह प्रयत्न किया है, जो ठीक नहीं है । चुनौति प०मुख्यालजीने उपाध्यायजीके इस कथनको कोई महत्व न देते हुए और हरिभद्र जैसे बहुश्रुत आचार्यके इस प्राचीनतम उल्लेखकी महत्तां-का अनुभव करते हुए ज्ञानबिन्दुके परिचय (प० ६०) में अन्तको यह लिखा है कि “समान नामवाले अनेक आचार्य होते पाए हैं । इसलिये भ्रसम्भव नहीं कि सिद्धसेनदिवाकरसे भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि युगपदवादके समर्थक हुए हों या माने जाते हो ।” वे दूसरे सिद्धसेन अन्य कोई नहीं, उक्त तीनों द्वार्तिगिकाओंमेंसे किसीके भी कर्ता होने चाहिये । अतः इन तीनों द्वार्ति-शिकायोंको सन्मतिसूत्रके कर्ता आचार्य सिद्धसेनकी जो कृति माना जाता है वह ठीक और संगत प्रतीत नहीं होता । इनके कर्ता दूसरे ही सिद्धसेन हैं जो केवली के विषयमें युगपद-उपयोगवादी थे और जिनकी युगपद-उपयोगवादिताका समर्थन हरिभद्राचार्यके उक्त प्राचीन उल्लेखमें भी होता है ।

† ‘यत्तु युगपदुपयोगवादित्वं सिद्धसेनाचार्यणां नन्दिवृत्ताबुक्तं तदभ्युपगम-वादाभिप्रायेण, न तु स्वतन्त्रसिद्धान्ताभिप्रायेण, क्रमाऽङ्करोपमोऽद्वयपर्यनुयोगा-नन्तरमेव स्वपक्षस्य सम्मतौ उद्भावितत्वादिति वृष्टव्यम् ।’^{१०}

(३) १६वीं निश्चयद्वार्तिशिकामें ‘सर्वोपयोगद्वै विद्यमनेनोक्तमनक्षरम्’ इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ‘सब जीवोंके उपयोगका द्वै विद्य अविनश्वर है।’ अर्थात् कोई भी जीव संसारी हो प्रथवा मुक्त, अपस्थकानी हो या केवली सभीके ज्ञान और दर्शन दोनों प्रकारके उपयोगोंका सत्त्व होता है—यह दूसरी बात है कि एकमें वे क्रमसे प्रवृत्त(चरितार्थ)होते हैं और दूसरेमें आवरण।- भावके कारण युगपत्। इससे उस एकोपयोगबादका विरोध आता है जिसका प्रतिपादन सन्मतिसूत्रमें केवलीको लक्ष्यमें लेकर किया गया है और जिसे अमेद- बाद भी कहा जाना है। ऐसी स्थितिमें यह १६वीं द्वार्तिशिका भी सन्मतिसूत्रके कठीं सिद्धसेनकी कृति मालूम नहीं होती।

(४) उक्त निश्चयद्वार्तिशिका(१६)में श्रुतज्ञानको मतिज्ञानसे प्रलग नहीं माना है—लिखा है कि मतिज्ञानसे अधिक प्रथवा भिन्न श्रुतज्ञान कुछ नहीं है, श्रुतज्ञान- को प्रलग मानना व्यर्थ तथा प्रतिप्रसङ्ग दोषको लिये हुए है।’ और इस तरह अवधिज्ञानसे भिन्न मनः पर्यञ्जानकी मान्यताका भी निषेध किया है—लिखा है कि या तो द्वीन्द्रियादिक जीवोंके भी, जो कि प्रार्थना और प्रतिघातके कारण चेष्टा करते हुए देखे जाते हैं, मनःपर्यञ्जानका मानना युक्त होगा अन्यथा मनः- पर्यञ्जान कोई जुदी वस्तु नहीं है। इन दोनों मन्त्रव्योंके प्रतिपादक वाक्य इस प्रकार हैं:—

“वैयर्थ्याऽतिप्रसगाभ्या न मत्यधिकं श्रतम् ।
सर्वेभ्यः केवलं चतुर्मत्तमःक्रम-विवेककृत् ॥१३॥”

“प्रार्थना-प्रतिघाताभ्यां चेष्टन्ते द्वीन्द्रियादयः ।

मनःपर्यञ्ज्यविज्ञानं युक्तं तेषु न वाऽन्यथा ॥१४॥”

यह सब कथन सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उसमें श्रुतज्ञान और मनः पर्यञ्जान दोनोंको प्रलग ज्ञानोंके रूपमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया गया है—जैसा कि उसके द्वितीय † काण्डगत निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“मणुपडजवणाणुंतो णाणुस्स य दरिसणास्स य विसेसो ॥३॥”

“जेणु मणोविसयगयाण दंसणं णारिथ दवजायाण ।

† द्वितीयकाण्डमें भी आगवश्रुतज्ञानको प्रमाणरूपमें स्वीकार किया है।

तो मणपञ्चवणाणं शिवमा णाणं तु शिहिट्ठं ॥१६॥”

“मणपञ्चवणाणं दंसणं ति तेणोह होइ ण य जुचं ।
भरणाइ णाणं णाइदियम्भि ण घडादधा जम्हा ॥२६॥”

“मह-सुय-णाणणिमितो छटुमत्थे होइ अत्थउवलंभो ।
एगथरम्भि वि तेसि ण दंसणं दंसणं कत्तो ? ॥२७॥”

जं पठचक्खगहणं ण ईति सुयणाण-सम्मिग्ना अत्था ।
तम्हा दंसणमहो ण होइ सयले वि सुयणाणे ॥२८॥”

ऐसी हालतमें यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि निदवयद्वार्तिशिका (१६) उन्हीं सिद्धसेनाचार्य की कृति नहीं है जो कि सम्मतिसूत्रके कर्ता है—दोनोंके कर्ता सिद्धसेननामकी समानताको धारण करते हुए भी एक दूसरेसे एकदम भिन्न हैं । साथ ही, यह कहनेमें भी कोई संकोच नहीं होता कि न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेन भी निदवयद्वार्तिशिकाके कर्त्त्वे मिल्न हैं; वयोंकि उन्होंने श्रुतज्ञानके भेदको स्पष्टरूपसे माना है और उसे अपने ग्रन्थमें शब्दप्रमाण अथवा आगम (श्रूत-शास्त्र) प्रमाणके रूपमें रखा है; जैसां कि न्यायावतारके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :—

“हृष्टेष्टाऽऽयाहताद्वाक्यात्परमार्थाऽभिधायिनः ।

तत्त्व-प्राहितयोत्पन्नं मानं शाक्वं प्रकीर्तितम् ॥८॥”

“आप्नोपह्नमनुलंब्यमहृष्टेष्ट-विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथ-घट्टनम् ॥९॥”

“नयानामेकनिष्ठानं प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्मनि ।

सम्पूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुच्यते ॥१०॥”

इस सम्बन्धमें पं० सुखलालजीने ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामें, यह बतलाते हुए कि ‘निदवयद्वार्तिशिका’के कर्ता सिद्धसेनने मति और श्रुतमें ही नहीं हिंगु प्रश्निं और मनः पर्यायमें भी आगमसिद्ध भेद-रेखाके विरुद्ध तर्क

के यह पद्ध मूलमें स्वामी समन्वयभद्रकृत रत्नकरण (समीक्षीनघर्मंशास्त्र)का है, वहींरे उद्दृत किया गया है ।

करके उसे अमान्य किया है' एक फुटनोट-द्वारा जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है:—

‘यद्यपि दिवाकरश्री (सिद्धेन) ने अपनी बत्तीसी (निश्चय० १६) में मति-और शुतके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति-शुतके भेदकी सर्वथा अवगणना नहीं की है। उन्होंने न्यायवतारमें आगमप्रमाण-का स्वतन्त्ररूपसे निर्दिष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्रीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण किया और उक्त बत्तीसीमें अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया। इस तरह दिवाकरश्रीके ग्रन्थोम आगमप्रमाणको स्वतन्त्र अतिरिक्त मान-ने और न माननेवाली दोनो दर्शनान्तरीय धाराए देखी जाती हैं जिनका स्वीकार ज्ञानविद्वुमें उपाध्यायजीने भी किया है।’ (प० २४)

इस फुटनोटमें जो बात निश्चयद्वात्रिशिका और न्यायवतारके मति-शुत-विषयक विरोधके समन्वयमें कही गई है वही उनकी तरफसे निश्चयद्वात्रिशिका और सन्मतिके व्यवधिमन पर्यंत-विषयक विरोधके समन्वयमें भी कही जा सकती है और समझनी चाहिये। परन्तु यह सब कथन एकमात्र तीनों ग्रन्थोंकी एककर्तृत्व-मान्यतापर अवलम्बित है, जिसका साम्प्रदायिक मान्यताको छाड़कर दूसरा कोई भी प्रबल आधार नहीं है और इसलिये जबतक द्वात्रिशिका, न्यायवतार और सन्मतिसूत्र तीनोंको एक ही सिद्धेनद्वय सिद्ध न कर दिया जाय तब तक इस कथनका कुछ भी मूल्य नहीं है। तीनों ग्रन्थोंका एक-कर्तृत्व अभी तक सिद्ध नहीं है, प्रत्युत इसके द्वात्रिशिका और अन्य ग्रन्थोंके परस्पर विरोधी कथनोंके कारण उनका विभिन्नकर्तृक होना पाया जाता है। जान पड़ता है प० सुखलाल-जीके हृदयमें यहाँ विभिन्न सिद्धेनद्वयी कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई और इसी लिये वे उक्त समन्वयकी कल्पना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि सन्मतिके कर्ता सिद्धेन-जैसे स्वतन्त्र विचारक यदि निश्चयद्वात्रिशिकाके कर्ता होते तो उनके लिये कोई वजह नहीं थी कि वे एक ग्रन्थमें प्रदर्शित अपने स्वतन्त्र विचारोंको दबाकर दूसरे ग्रन्थमें अपने विरुद्ध परम्पराके विचारोंका अनुसरण करते, खासकर उस हालतमें जब कि वे सन्मतिमें उपयोग-सम्बन्धी युगपदादाविकी प्राचीन-परम्पराका खण्डन करके अपने अभेदवाद-विषयक नये स्वतन्त्र विचारोंको प्रकट करते हुए देखे जाते हैं—वहीपर वे श्रुतज्ञान और मनःपर्यं-

ज्ञान-विषयक घपने उन स्वतन्त्र विचारोंको भी प्रकट कर सकते थे, जिनके निये ज्ञानोपयोगका प्रकरण होनेके कारण वह स्थल (सन्मतिका द्वितीय काण्ड) उपयुक्त भी था, परन्तु वैसा न करके उन्होंने वहाँ उक्त द्वात्रिशिकाके विशद्ध अपन विचारोंको रखा है और इनमिये उसपरसे यही फलित होता है कि वे उक्त द्वात्रिशिकाके कर्ता नहीं हैं—उसके कर्ता कोई दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहिये। उगाढ़ाय यशोविजयजीने द्वात्रिशिकाका न्यायावतार और सन्मतिके साथ जो उक्त विरोध बैठना है उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा।

यहाँ इनना और भी जान लेना चाहिये कि श्रुतकी प्रमाणनारूप इस द्वात्रिशिकाके कथनका विरोध न्यायावतार और सन्मतिके साथ ही नहीं है बल्कि प्रथम द्वात्रिशिकाके साथ भी है, जिसके 'सुनिश्चत न' इत्यादि ३०वे पद्ममें 'जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुष्' जैसे शब्दोद्धारा अर्द्धत्रिवचनरूप श्रुतको प्रमाण माना गया है।

(५) निश्चयद्वात्रिकाकी दो बातें और भी यहा प्रकट कर देनेकी हैं, जो सन्मतिके साथ स्पष्ट विरोध रखती हैं और वे निम्न प्रकार हैं:—

“ज्ञान-दर्शन चारित्राणयुपायाः शिवहेतवः ।

अन्योऽन्य-प्रतिपक्षत्वाच्छुद्धावगम-शक्तय ॥१॥”

इस पद्ममें ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रको मोक्ष-हेतुओंके रूपमें तीन उपाय (मार्ग) बनलाया है—तीनोंको मिलाकर मोक्षका एक उपाय निर्दिष्ट नहीं किया, जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रके प्रथमसूत्रमें 'मोक्षमार्गं' इस एकवचनात्मक पदके प्रयोग-द्वारा किया गया है। अन ये तीनों यहाँ समस्तरूपमें नहीं किन्तु छठ्न (प्रलग प्रलग) रूपमें मोक्षके मार्ग निर्दिष्ट हुए हैं और उन्हें एक दूसरेके प्रतिपक्षी लिखा है। साथ ही तीनों सम्पर्क विशेषणसे शून्य है और दर्शनको ज्ञानके पूर्व न रख-कर उसके अनन्तर रखा गया है, जो कि समूची द्वात्रिशिकापरसे श्रद्धान अर्थका वाचक भी प्रतीत नहीं होता। यह सब कथन सन्मतिसूत्रके निम्न वाक्योंके विशद्ध जाता है, जिनमें सम्पर्ददर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्रतिपत्तिसे सम्पन्न भव्यजीव-को सासारके दुखोंका अन्तकरणिष्यमें उल्लेखित किया है और कथनको हेतुबाद-सम्मत बतलाया है (३-४४) तथा दर्शन शब्दका अर्थ जिनप्रणीत पदार्थोंका अद्वान ग्रहण किया है। साथ ही सम्पर्ददर्शनके उत्तरवर्ती सम्पर्दज्ञानको सम्पर्ददर्शन-

से युक्त बतलाते हुए वह इस तरह सम्प्रवद्धानश्च भी है, ऐसा प्रतिपादन किया है (२-३२, ३३)—

“एवं जिणपण्णचे सद्गमाणस्स भावओ भावे ।
पुरिस्सामिणिकोहे दंसणसहो हवइ जुत्तो ॥ २-३२ ॥
सम्मध्याणेण गियमेण दंमणे दंसणे उ भयगिज ।
सम्मणणार्ण च इमं ति आत्थओ होइ उववरणे ॥ २-३३ ॥”
“भविओ सम्मदंसण-णाण-चरित्त-पठिवत्ति-सपरणो ।
गियमा दुक्ख्वंतकडो त्ति लक्खणे हेडवायस्स ॥ ३-४४ ॥”

निश्चयात्रिशिकाका यह कथन दूसरी कुछ द्वात्रिशिकाओंके भी विशद् पढ़ता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं—

“क्रियां च संज्ञान-विद्योग-निष्फलां क्रिया-विहीनां च विवोधसंपदम् ।
निरस्यता क्लेश-समूह-शान्तये त्वया शिवायालिखितेव पद्धतिः ॥ १-२६ ॥”
“यथाऽगद-परिज्ञानं नालमाऽस्मय-शान्तये ।
अचारित्रं तथा ज्ञानं न बुद्ध्यध्य(व्य)वसायतः ॥ १७-२७ ॥”

इनमेंसे पहली द्वात्रिशिकाके उद्धरणमें यह सूचित किया है कि ‘बीरजिनेन्द्रने सम्प्रज्ञानसे रहित किया (चारित्र)को और क्रियासे विहीन सम्प्रज्ञानकी सम्पदाको क्लेशसमूहकी शान्ति अथवा शिवप्राप्तिके लिये निष्फल एव असमर्थ बतलाया है और इसलिये ऐसी क्रिया तथा ज्ञानसम्पदाका निषेध करते हुए ही उन्होंने मोक्षपद्धतिका निर्माण किया है।’ और १७वीं द्वात्रिशिकाके उद्धरणमें बतलाया है कि ‘जिस प्रकार रोगनाशक आपविका परिज्ञानमात्र रोगकी शान्तिके लिये समर्थ नहीं होता उसी प्रकार चारित्ररहितज्ञानको समझता चाहिए—वह भी अकेला भवरोगको शान्त करनेमें समर्थ नहीं है।’ ऐसी हालतमें ज्ञान, दशां और चारित्रकी अलग-अलग मोक्षकी प्राप्तिका उपाय बतलाना इन द्वात्रिशिकाओंके भी विरुद्ध ठहरता है।

“प्रयोग-विल्लसाकर्म तदभावस्थितिस्तथा ।
लोकानुभाववृत्तान्तः किं धर्माऽधर्मयोः फलम् ॥ १६-२४ ॥

आकाशमवगाहाय तदनन्या दिग्न्यथा ।
 तावप्येवमनुच्छेदात्ताभ्यां वाऽन्यमुदाहृतव् ॥ १६-२५ ॥
 प्रकाशवदनिष्टं स्यात्साध्ये नार्थस्तु न श्रमः ।
 जीव-पुद्गलयोरेव परिशुद्धः परिप्रहः ॥ १६-२६ ॥'

इन पश्चोंमें द्वयोंकी चर्चा करते हुए घर्म, अघर्म और आकाश द्वयोंकी मान्यताको निरर्थक ठहराया है तथा जीव और पुद्गलका ही परिशुद्ध परिप्रह करना चाहिए अर्थात् इन्हीं दो द्वयोंको मानना चाहिए, ऐसी प्रेरणा की है । यह सब कथन भी सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उसके तुतीय काण्डमें द्वयगत उत्पाद तथा व्यय (नाश)के प्रकारोंको बतलाते हुए उत्पादके जो प्रयोगजनित (प्रयत्नजन्य) तथा वैस्त्रसिक (स्वाभाविक) ऐसे दो भेद किये हैं उनमें वैस्त्रसिक उत्पादके भी समुदायकृत तथा एकत्रिक ऐसे दो भेद निर्दिष्ट किये हैं और किर यह बतलाया है कि एकत्रिक उत्पाद आकाशादिक तीन द्वयों (आकाश, घर्म, अघर्म) में परनिमित्तसे होता है और इसलिये प्रनियमित होता है । नाशकी भी ऐसी ही विधि बतलाई है । इससे सन्मतिकार सिद्धसेनकी इन तीन असूतिक द्वयोंके, जो कि एक एक हैं अस्तित्व-विषयमें मान्यता स्पष्ट है । यथा—

“उप्याओ दुविद्यप्यो पश्चोगजणिओ य विस्ससा चेव ।
 तथ उ पश्चोगजणिओ समुदयवायो अपरिसुद्धो ॥३८॥
 साभाविओ वि समुदयकओ व्य एगतिओ व्य होजाहि ।
 आगासाईआणं तिण्हं परपश्चोऽणियमा ॥ ३९ ॥
 विगमस्स वि एस विही समुदयजणियम्मि सो उ दुविद्यप्यो ।
 समुदयविभागमेत्तं अत्यंतेरभावंगमेणं च ॥ ३४ ॥”

इस तरह यह निश्चयद्वात्रिशिका कतिपय द्वात्रिशिकाओं, न्यायावतार और सन्मतिके विरुद्ध प्रतिपादनोंको लिए हुए हैं । सन्मतिके विरुद्ध तो वह सबसे अधिक जान पड़ती है और इसलिये किसी तरह भी सन्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं कही जा सकती । यही एक द्वात्रिशिका ऐसी है जिसके घन्तमें उसके कर्ता-

सिद्धसेनाचार्यको अनेक प्रतियोंमें श्वेतपट (श्वेताम्बर) विशेषणके साथ 'हेष्य' विशेषणमें भी उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ हेष्योम्य, विरोधी अथवा शब्दका दोता है और यह विशेषण सम्भवतः प्रसिद्ध जैन संद्वान्तिक मान्यताओं-के विरोधके कारण ही उन्हे अपनी ही सम्प्रदायके किसी असहिष्यु विद्वान्-द्वारा दिया गया जान पड़ता है। जिस पुष्टिकावाक्यके साथ इस विशेषण पदका प्रयोग किया गया है वह भाष्डारकर हिन्दू पूना और एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल (कलकत्ता) की प्रतियोंमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है:—

‘हेष्य-श्वेतपटसिद्धसेनाचार्यस्य कृतिः निश्चयद्वात्रिंशिकैकोनविंशतिः।’

दूसरी किसी द्वात्रिंशिकाके अन्तमें ऐसा कोई पुष्टिकावाक्य नहीं है। पूर्वकी १८ और उत्तरवर्ती १ ऐसे १६ द्वात्रिंशिकाओंके अन्तमें तो कर्ताका नाम तक भी नहीं दिया है—द्वात्रिंशिकासी संख्यासूचक एक पंक्ति ‘इति’ शब्दसे युक्त अथवा वियुक्त और कही कहीं द्वात्रिंशिकाके नामके साथ भी दी हुई है।

(६) द्वात्रिंशिकाओंकी उपर्युक्त स्थितिमें यह कहना किसी तरह भी ठीक प्रतीत नहीं होता कि उपलब्ध सभी द्वात्रिंशिकाएँ अथवा २१ वीं को छोड़कर बीस द्वात्रिंशिकाएँ सन्मतिकार सिद्धसेनकी ही कृतियाँ हैं; क्योंकि पहली, दूसरी, पाँचवीं और उन्नीसवीं ऐसी चार द्वात्रिंशिकाओंकी बाबत हम ऊपर देख चुके हैं कि वे सन्मतिके विहृद जानेके कारण सन्मतिकारकी कृतियाँ नहीं बनती। शेष द्वात्रिंशिकाएँ यदि इन्हीं चार द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनोंमेंसे किसी एक या एकसे अधिक सिद्धसेनोंकी रचनाएँ हैं तो भिन्न व्यक्तित्वके कारण उनमेंसे कोई भी सन्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं हो सकती। और यदि ऐसा नहीं है तो उनमेंसे अनेक द्वात्रिंशिकाएँ सन्मतिकार सिद्धसेनकी भी कृति हो सकती हैं; परन्तु हैं और अमुक अमुक हैं यह निश्चितरूपमें उस बाबत तक नहीं कहा जा सकता जब तक इस विषयका कोई स्पष्ट प्रमाण सामने न आजाए।

(७) अब रही न्यायावतारकी बात, यह यथा सन्मतिसूत्रसे कोई एक शताम्बी-से भी अधिक बादका बना हुआ है; क्योंकि इसपर समन्तभद्रस्वामीके उत्तर-कालीन पात्रस्वामी (पात्रकेसरी) जैसे जैनाचार्योंका ही नहीं किन्तु धर्मकीति और अमोत्तर जैसे बौद्धाचार्योंका भी स्पष्ट प्रमाण है। डा० हर्मन जैकोबीके मत-

नुसार † घर्मकीर्तिने दिग्नागके प्रत्यक्षलक्षणम् में ‘कल्पनापोड’ विशेषणके साथ ‘भ्रान्त’ विशेषणकी बुद्धि कर उसे अपने अनुरूप सुधारा या अथवा प्रशस्तरूप दिया था और इसलिये “प्रत्यक्ष” कल्पनापोडमभ्रान्तम्” यह प्रत्यक्षका घर्मकीर्ति-प्रतिपादित प्रसिद्ध लक्षण है जो उनके न्यायबिन्दु यन्त्रमें पाया जाता है और जिस में ‘भ्रान्त’ पद अपनी खास विशेषता रखता है। न्यायावतारके चौथे पदमें प्रत्यक्षका लक्षण, अकलज्ञदेवकी तरह ‘प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं’ न देकर, जो “अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीहृषं प्रत्यक्षम्” दिया है और अगले पदमें, अनुमानका लक्षण देते हुए, ‘तदभ्रान्तं प्रमाणात्वात्समक्षवत्’ बाक्यके द्वारा उसे (प्रत्यक्षको) ‘भ्रान्त’ विशेषणसे विशेषित भी सूचित किया है उससे यह साफ व्यनित होता है कि सिद्धसेनके सामने—उनके लक्षणमें-घर्मकीर्तिकम उक्त लक्षण भी स्थित था और उन्होंने अपने लक्षणमें ‘ग्राहक’ पदके प्रयोग-द्वारा जहाँ प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक ज्ञान बतलाकर घर्मकीर्तिके ‘कल्पनापोड’ विशेषण-का निरसन अथवा वेधन किया है वहाँ उनके ‘भ्रान्त’ विशेषणको प्रकारान्तर-से स्वीकार भी किया है। न्यायावतारके टीकाकार सिद्धिं भी ‘ग्राहक’ पदके द्वारा बोद्धों (घर्मकीर्ति) के उक्त लक्षणका निरसन होना बतलाते हैं। यथा—

“ग्राहकमिति च निर्णायकं हप्तव्यं, निर्णयाभावेऽर्थमहणायोगात् ।
तेन यत् ताथागतैः प्रत्यपादि ‘प्रत्यक्ष’ कल्पनापोडमभ्रान्तम् [न्या. वि.
४] इति, तदपास्तं भवति । तस्य युक्तिरिक्तत्वात् ।”

इसी तरह ‘त्रिरूपालिङ्गाद्यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानं’ यह घर्मकीर्तिके अनुमान-का लक्षण है। इसमें ‘त्रिरूपात्’ पदके द्वारा लिङ्गको त्रिरूपात्मक बतलाकर अनुमानके साधारण लक्षणको एक विशेषरूप दिया गया है। यहाँ इस अनुमानज्ञानको भ्रान्त या भ्रान्त ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया; परन्तु न्यायबिन्दुकी टीकामें घर्मोत्तरने प्रत्यक्ष-लक्षणकी व्याख्या करते और उसमें

† देखो, ‘समराइच्चकहा’ की जैकोवीकृत प्रस्तावना तथा न्यायावतारकी डा. पी. ए.ल. बैचकृत प्रस्तावना।

“प्रत्यक्ष” कल्पनापोडं नामजात्याद्यसंयुतम् ॥” (प्रमाणसमुच्चय) ।

“प्रत्यक्ष” कल्पनापोडं यज्ञानं नामजात्यादिकल्पनारहितम् ॥” (न्यायप्रवेश)।

प्रयुक्त हुए 'अभ्रान्त' विशेषणकी उपयोगिता बतलाते हुए "अभ्रान्तं हनुमानम्" इस वाक्यके द्वारा अनुमानको भ्रान्त प्रतिपादित किया है। जान पड़ता है इस सबको भी लक्ष्यमे रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमान के "साध्याविनाभूनो (वो) लिंगात्साध्यनिश्चयकमनुमान" इस लक्षणका विवाद किया है और इसमें लिंग का 'साध्याविनाभावी' ऐसा एकरूप देकर घर्मकीतिके 'त्रिरूप'का—पक्षषमन्त्व, सपक्षेसत्त्व तथा विपक्षासत्त्वरूपका निरमन किया है। साथ ही, 'तदभ्रान्तं समशब्दत्' इस वाक्यकी योजनाद्वारा अनुमानको प्रत्यक्षकी तरह अभ्रान्त बतलाकर बोढ़ोकी उसे भ्रान्त प्रतिपादन करनेवाली उक्त मान्यताका खण्डन भी किया है। इसी तरह "न प्रत्यक्षमपि भ्रान्तं प्रमाणात्त्वविनिश्चयात्" इत्यादि छठे पद्ममें उन दूसरे बोढ़ोकी सान्यताका खण्डन किया है जो प्रत्यक्षको अभ्रान्त नहीं मानते। यहाँ लिंगके इस एकरूपका और फलतः अनुमानके उक्त लक्षणका आभारी पात्र स्वामीका वह हेतुलक्षण है जिसे न्यायावतारकी २२वीं कारिकामें "अन्यथानुपपञ्चत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्" इस वाक्यके द्वारा उद्दृत भी किया गया है और जिसके आधारपर पात्रस्वामीने बोढ़ोके त्रिलक्षण-हेतुका कदर्थन किया था तथा 'त्रिलक्षणकदर्थः' * नामका एक स्वतन्त्र प्रन्थ ही रच ढाला था, जो आज अनुपलब्ध है परन्तु उसके प्राचीन उल्लेख मिल रहे हैं। विक्रमी ८वी-९वीं शताब्दीके बौद्ध बिद्वान् शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें त्रिलक्षणकदर्थनसम्बन्धी कुछ इलोकोंको उद्धृत किया है और उनके शिष्य कमलशीलने टीकामें उन्हें "अन्यथेत्यादिग पात्रस्वामिमतमाशङ्कते" इत्यादि वाक्योंके साथ दिया है। उनमेंसे तीन दलोक नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं—

अन्यथानुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुहेतुता ।

नाऽसति त्यंशकस्याऽपि तस्मात् क्लीवास्त्रिलक्षणः ॥१३६४॥

अन्यथानुपपन्नत्वं यस्य तस्यैव हेतुता ।

दृष्टान्तौ द्वावपि स्ता वा भा वा तो हि न कारणम् ॥१३६५॥

* महिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्तधासीत् ।

यथावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थनं कर्तुम् ॥

अन्यथानुपपन्नत्वे यत्र त्रयेण किम् ? ।

नान्यथानुपपन्नत्वे यत्र तत्र त्रयेण किम् ? ॥१५६६॥

इनमें से तीसरे पदको विक्रमकी ७वी-८वी शताब्दीके के विद्वान् अकलकदेवने अपने 'न्यायविनिश्चय' (कारिका ३२३) में अपनाया है और सिद्धिविनिश्चय (प्र० ६) में इसे स्वानीका 'अमलालीढ़ पद' प्रकट किया है तथा बादिराजने न्यायविनिश्चय-विवरणमें इस पदको पात्रकेसरीसे सम्बद्ध 'अन्यथानुपपत्तिवातिक' बताया है ।

धर्मकीतिका समय ५० सन् ६२५ से ६५० अर्थात् विक्रमकी ७वी शताब्दीका प्रायः चतुर्थं चरण, धर्मोत्तरका समय ५० सन् ७२५ से ७५० अर्थात् विक्रमकी ८वी शताब्दीका प्रायः चतुर्थं चरण और पात्रस्वामीका समय विक्रमकी ७वी शताब्दीका प्रायः तृतीय चरण पागा जाता है, क्योंकि वे अलककदेवसे कुछ पहने हुए हैं । तब सन्मतिकार सिद्धेनका समय वि० संवत् ६६६ से पूर्वका सुनिश्चित है जैसा कि अगले प्रकरणमें स्पष्ट करके बताया जायगा । ऐसी हालतमें जो सिद्धेन सन्मतिके कर्ता हैं वे ही न्यायावनारके कर्ता नहीं हो सकते—समयकी हृषिसे दोनों ग्रन्थोंके कर्ता एक-दूसरे से भिन्न होने चाहिये ।

इस विषयमें प० सुखलालजी आदिका यह कहना है कि 'प० तुची (Tousi) ने दिग्नागसे पूर्ववर्ती बौद्धन्यायके ऊपर जो एक निबन्ध रचिल एशियाटिक सोसाइटीके जुलाई सन् १६२६ के जर्नलमें प्रकाशित कराया है उसमें बौद्ध-सस्कृत-ग्रन्थोंके चीनी तथा तिब्बती अनुवादके आधारपर यह प्रकट किया है कि 'योगाचार्य भूमिशास्त्र और प्रकरणार्थवाचा नामके ग्रन्थोंमें प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी है उसके अनुसार प्रत्यक्षको अपरोक्ष, कल्पनापोद,

के विक्रमसवत् ७०० में अकलकदेवका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुआ है, जैसा कि अकलकचरितके निम्न पदसे प्रकट है—

विक्रमकै-शकाब्दीय-शतसह-प्रमाणुषि । कालेऽकलक-यतिनो बौद्धवर्दो महानभूत ॥

के देखो, सन्मतिके गुजराती सस्करण की प्रस्तावना प० ४१, ४२, और अंडेबी सस्करण की प्रस्तावना प० १२, १४ ।

निविकल्प और मूल विनाका अभ्रान्त अथवा अव्यभिचारी होना चाहिये। साथ ही अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी शब्दोपर नोट देते हुए बतलाया है कि ये दोनों पर्यायशब्द हैं, और चीज़ी तथा तिज्बती भाषाके जो शब्द अनुवादोंमें प्रयुक्त हैं उनका अनुवाद अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी दोनों प्रकारसे हो सकता है। और फिर स्वयं 'अभ्रान्त' शब्दको ही स्वीकार करते हुए यह अनुमान लगाया है कि धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षकी व्याख्यामें 'अभ्रान्त' शब्दकी जो वृद्धि की है वह उनके द्वारा की गई कोई नई वृद्धि नहीं है बल्कि सौत्रान्तिकोंकी पुरानी व्याख्याको स्वीकार करके उन्होंने दिग्नाग की व्याख्यामें इस प्रकारसे सुधार किया है। योगावायं-भूमिशा/स्त्र असङ्गके युह मैत्रेयकी कृति है, असङ्ग (मैत्रेय ?) का समय ईसा की चौथी शताब्दीका मध्यकाल है, इससे प्रत्यक्षके लक्षणमें 'अभ्रान्त' शब्दका प्रयोग तथा अभ्रान्तपना का विचार विकल्पकी पांचवीं शताब्दीके पहले भले प्रकार ज्ञात था अर्थात् यह (अभ्रान्त) शब्द सुप्रसिद्ध था। अतः सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारमें प्रयुक्त हुए मात्र 'अभ्रान्त' पदपरसे उसे धर्मकीर्तिके बादका बतलाना जरूरी नहीं। उसके कर्ता सिद्धसेनको असङ्गके बाद और धर्मकीर्तिके पहले माननेमें कोई प्रकारका अन्तराय (विघ्न-वाद) नहीं है।'

इस कथनमें प्रो० दुबीके कथनको लेकर जो कुछ फलित किया गया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम तो प्रोफेसर महाशय अपने कथनमें स्वयं भ्रान्त है—वे निश्चयपूर्वक यह नहीं कह रहे हैं कि उक्त दोनों मूल सस्कृत ग्रन्थोंमें प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी अथवा उसके लक्षणका जो निर्देश किया है उसमें 'अभ्रान्त' पदका प्रयोग पाया ही जाता है बल्कि साफ तौरपर यह सूचित कर रहे हैं कि मूल ग्रन्थ उनके सामने नहीं, चीज़ी तथा तिज्बती अनुवाद ही सामने हैं और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी दोनों रूपमें हो सकता है। तीसरा भी कोई अर्थ अथवा सस्कृत शब्द उनका बाच्य हो सकता हो तो उसका निषेध भी नहीं किया। दूसरे, उक्त हिंष्टिमें उन्होंने अपने प्रयोजनके लिये जो अभ्रान्त एवं स्वीकार किया है वह उनकी रुचिकी बात है न कि मूलमें अभ्रान्त 'प्रदके प्रयोगकी कोई गारंटी है और इसनिए उसपरसे निश्चितरूपमें यह कलित कर लेना कि

‘विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके पहले प्रत्यक्षके लक्षणमें अभ्यान्त पदका प्रयोग भले प्रकार ज्ञात तथा सुप्रसिद्ध था’ फलितार्थ तथा कथनका अतिरेक है और किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता। तीसरे, उन मूँन सस्कृत ग्रन्थोमें यदि ‘अश्वभिचारि’ पदका ही प्रयोग हो तब भी उसके स्थानपर घर्मकीर्तिने ‘अभ्यान्त पदकी जो नई योजना की है वह उसीकी योजना कहलाएगी और न्यायावतारमें उसका अनुसरण हानमें उसके कर्ता सिद्धसेन घर्मकीर्तिके बादके ही विद्वान् ठहरेगे। चौथे, पात्रकेसरीस्वामीके हेतु-लक्षणका जो उद्धरण न्यायावतारमें पाया जाता है और जिसका परिहार नहीं किया जा सकता उससे सिद्धसेनका घर्मकीर्तिके बाद होना और भी पुष्ट होता है। ऐसी हालतमें न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनको असङ्गके बादका और घर्मकीर्तिके पूर्वका बतलाना निगपद नहीं है—उसमें अनेक विधन-बाधाएं उपस्थित होती हैं। कलत न्यायावतारके कर्ता की हुति नहीं हो सकता जो मन्मनिमूत्रके कर्ता हैं। जिन अन्य विद्वानोने उसे अधिक प्राचीनरूपमें उल्लेखित किया है वह मात्र द्वात्रिशिकाओं, सन्मति और न्यायावतारका एक ही सिद्धसेनकी कृतिया मानकर चलनेका फल है।

इस तरह यहाँ तकके इस सब विवेचनपरमें स्पष्ट है कि सिद्धमेनके नामपर जो भी ग्रन्थ छढ़ हुए हैं उनमेंसे सन्मतिसूत्रको छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रन्थ सुनिश्चितरूपमें सन्मतिकारकी कृति नहीं कहा जा सकता—धकेला सन्मतिसूत्र ही असपलभावसे अभीतक उनकी कृतिरूपमें स्थित है। कलको अविरोधिनी द्वात्रिशिकाओंमेंसे यदि किसी द्वात्रिशिकाका उनकी कृतिरूपमें सुनिश्चय हो गया तो वह भी सन्मतिके साथ शामिल हो सकेगी।

(ख) सिद्धसेनका समयादिक—

अब देखना यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ ‘सन्मति’ के कर्ता सिद्धसेनाचार्य कब हुए हैं और किस समय अर्थवा समयके लक्षणमें उन्होने इस ग्रन्थकी रचना को है। ग्रन्थमें निर्माणकालका कोई उल्लेख और किसी प्रशस्तिका आयोजन न होनेके कारण दूसरे साधनोपरसे ही इस विषयको जाना जा सकता है और वे दूसरे साधन हैं ग्रन्थका अन्त परीकरण—उसके सन्दर्भ—साहित्यकी जाँच-

द्वारा बाह्य प्रभाव एवं उल्लेखादिका विशेषण—, उसके बावर्यों तथा उसमें चर्चित लास विषयोंका अन्यत्र उल्लेख, आलोचन-प्रत्यालोचन, स्वीकार-अस्वीकार अथवा स्थग्नन-मण्डनादिक और साथ ही सिद्ध सेनके व्यक्तित्व-विषयक महत्त्वके प्राचीन उद्गार। इहीं सब सामग्रों तथा दूसरे विद्वानोंके हस दिशामें किय गये प्रयत्नोंको लेकर मैंने इस विषय में जो कुछ अनुसधान एवं निर्णय किया है उसे ही यहाँर प्रकट किया जाता है:—

(१) सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन केवलीके ज्ञान-दर्शनोपयोग-विषयमें अभेदवादके पुरस्कर्ता हैं यह बात पहले (पिछले प्रकरणमें) बतलाई जा चुकी है। उनके इस अभेदवादका स्थग्नन इधर दिग्म्बर-सम्प्रदायमें सर्वप्रथम अकलंकदेवके राजवार्त्तिकभाष्यमें* और उधर श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सर्वप्रथम जिनभ्रक्षमात्रमणके विशेषावश्यकभाष्य तथा विशेषणवती नामके ग्रन्थोमें† मिलता है। साथ ही तृतीय काण्डकी ‘णात्यि पुढवीक्षिसिद्धो’ और ‘दोहि वि णएहि णीय’ नामकी दो गाथाएं (५२, ४६) विशेषावश्यकभाष्यमें क्रमशः गा० नं० २१०४, २१५ पर उद्घृत पाई जाती है †। इसके लिवाय, विशेषा-वश्यकभाष्यकी स्वोपज्ञटीकामें * ‘णामाइतियं दब्बटियस्स’ इत्यादि गाथा ७५वीं की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकारने स्वयं “द्रव्यास्तिकनयावलम्बिनो संग्रह-व्यवहारो ऋजुसूत्रादयस्तु पर्यायनयमतानुसारिणः आवार्यसिद्धसेनाऽभिप्रायात्” इस वाक्यके द्वारा सिद्ध सेनाचार्यका नामोल्लेखपूर्वक उनके सन्मतिसूत्र-गत मतका उल्लेख किया है, ऐसा मूलि पुष्टविजयजीके मगसिर सुदि १०मी सं० २००५के एक पत्रसे मालूम हुआ है। दोनों ग्रन्थकार विक्रमकी ७वी शताब्दीके प्रायः

* राजवा० भा० अ० ६ सू० १० वा० १४-१६।

† विशेषा० भा० गा० ३०८६ से (कोटधाचार्यकी वृत्तिमें गा० ३७२६से) तथा विशेषणवती गा० १८४ से २८०; सन्मति-प्रस्तावना पृ० ७५।

† उद्गरण-विषयक विशेष ऋहापोहके लिए देखो, सन्मति-प्रस्तावना पृ० ६८, ६६।

* इस टीकाके अस्तित्वका पता हालमें मूलि पुष्टविजयजीको चला है। देखो, श्री आत्मानन्दप्रकाश पुस्तक ४५ अक ८ पृ० १४२ पर उनका तद्विषयक लेख।

उत्तरार्थके विवारण हैं। अकलंकदेवका विकल्प सं० ७०० में बोढ़ोंके साथ महान् बाद हुमा है जिसका उल्लेख पिछले एक फुटनोटमें अकलंकचरितके आधारपर किया जा चुका है, और जिनभद्रकमाश्रमणने अपना विशेषावस्थकमाज्य वाक सं० ५३१ अर्वात् वि० सं० ६६६ में बनाकर समाप्त किया है। प्रन्थका यह रचनाकाल उन्होंने स्वयं ही प्रन्थके अन्तमें दिया है, जिसका पता श्रीजिन-विजयजीको जैसज्ञमें भण्डारकी एक अतिप्राचीन प्रतिको देखते हुए चला है। ऐसी हालनमें सन्मतिकार सिद्धसेनका समय विकल्प सं० ६६६ से पूर्वका मुनि-विवर है परन्तु वह पूर्वका समय कौन-सा है?—कहाँ तक उसकी कममे कम सीमा है?—यही आगे विचारणीय है।

(२) सन्मतिसूत्रमें उपयोग-दृश्यके क्रमवादका जोरोंके साथ स्थृणन किया गया है, यह बात भी पहले बनलाई जा चुकी तथा मूल ग्रन्थके कुछ वाक्योंको उद्धृत करके दर्शाई जा चुकी है। उस क्रमवादका पुरस्कर्ता कौन है और उस का समय क्या है? यह बात यहाँ खाम तौरमें जान लेनेकी है। हरिभद्रसूरिने नन्दिवृत्तिमें तथा श्रभयदेवसूरिने सन्मतिकी टीकामें यथापि जिनभद्रकमाश्रमण-को क्रमवादके पुरस्कर्तालिपमें उल्लेखित किया है परन्तु वह ठीक नहीं है; वर्णोंकि वे तो सन्मतिकारके उत्तरवर्ती हैं, जब कि होना चाहिए कोई पूर्ववर्ती। यह दूसरी बात है कि उन्होंने क्रमवादका जोरोंके साथ समर्थन और व्यवस्थित रूपसे स्थापन किया है, समवतः इसीसे उनको उस वादका पुरस्कर्ता समझ लिया जान पड़ता है। ग्रन्थया, क्षमाश्रमणजी स्वयं विशेषणवतीमें अपने निम्न वाक्यों-द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि उनसे पहले युगपद्माद, क्रमवाद तथा अभेदवादके पुरस्कर्ता हो चुके हैं—

केर्द्ध भण्णति जुगवं जाणइ पासइ य केवली णिथमा ।

अणणे प्यांतरियं इच्छति सुओवयसेण ॥ १८४ ॥

अणणे य चेव बोमु दंसणमिद्धति जिणवर्दिद्स्स ।

जं चिय केवलणाणं तं चिय से दरिसणं विति ॥ ८४॥

पं० सुक्ष्मलालजी ग्रादिने भी कथन-विरोधको महसूस करते हुए प्रस्तावनामें यह स्वीकार किया है कि जिनभद्र और सिद्धसेनके पहले क्रमवादके पुरस्कर्ता-

स्थाने कोई विद्वान् होने ही चाहिये जिनके पक्षका सन्मतिमें खण्डन किया गया है; प्रस्तु उनका कोई नाम उपस्थित नहीं किया। जहाँ तक मुझे मालूम है वे विद्वान् नियुक्तिकार भद्रबाहु होने चाहिये, जिन्होंने प्रावश्यकनियुक्ति के निम्न वाक्य-द्वारा क्रमवादकी प्रतिष्ठा की है—

गणणमि दंसणमि अ इत्तो एग्यरवंभि उवजुच्चा ।

सञ्चवस्स केवलिस्सा (स्स वि) जुगवं दो एत्थि उवच्छोगा ॥६७८॥

ये नियुक्तिकार भद्रबाहु श्रुतकेवली न होकर द्वितीय भद्रबाहु हैं जो अष्टाङ्ग-निमित्त तथा मन्त्र-विद्याके परगामी होनेके कारण 'नैमित्तिक' कहे जाते हैं, जिनकी कृतियोंमें भद्रबाहुसंहिता और उपसमग्रहस्तोत्रके भी नाम लिये जाते हैं और जो ज्योतिर्विद् वराहभिहरके सगे भाई माने जाते हैं। इन्होंने दशाश्रुतस्कन्ध-नियुक्तिमें स्वयं अनितम श्रुतकेवली भद्रबाहुको 'प्राचीन' विशेषणके साथ नमस्कार किया है †, उत्तराध्ययननियुक्तिमें मरणविभक्तिके सभी द्वारोंका क्रमशः वर्णन करनेके अनन्तर लिखा है कि 'पदार्थोंको सम्पूर्णं तथा विशदरीतिसे जिन (केवलज्ञानी) और चतुर्दशपूर्वीं (श्रुतकेवली) ही कहते हैं—कह सकते हैं', और अस्त्रवक्त आदि प्रथाओंपर लिखी गई अनेक नियुक्तियोंमें आर्थवज्ज, आर्य-रक्षित, पादलिताचार्य, कालिकाचार्य और शिवभूति आदि कितने ही ऐसे आचार्योंके नामों, प्रसंगों, मन्त्रव्याप्तियों व्यवहा तत्सम्बन्धी अन्य घटनाव्याप्तिका उल्लेख

‡ पावयणी^१ धम्मकही^२ वाई^३ गोमितिशो^४ तवस्सी^५ य ।

विज्जा^६ सिद्धौ^७ य कई^८ अट्टेव पमावगा भणिया ॥ १ ॥

अजरक्ष^९ नदिसेणो^{१०} सिरिगुत्तविणेय^{११} भद्रबाहु^{१२} य ।

खवग^{१३} उज्जलबुड^{१४} समिया^{१५} दिवायरो^{१६} वा इत्ताऽऽहरणा ॥२॥

—‘छेदसूत्रकार अने नियुक्तिकार’ लेखमें उद्धृत ।

† बंदामि भद्रबाहुं पाईणं चरिमसगलसुयणार्णि ।

सुत्सस्त कासगमिसि दसासु कप्ये य ववहारे ॥१॥

‡ सब्दे एए दारा मरणविभक्तीइ^१ वणिया कमसो ।

सगलणिउरणे पयत्थे जिणाचउदसपुत्रिव भासंते ॥२३३॥

किया गया है जो भद्रबाहु-श्रुतकेवलीके बहुत कुछ बाद हुए हैं—किसी-किसी घटनाका समय तक भी साथमें दिया है; जैसे निह्नवोंकी क्रमशः उत्पत्तिका समय वीरनिवारणसे ६०६ वर्ष बाद तकका बतलाया है। ये सब बारें और इसी प्रकारकी दूसरी बारें भी नियुक्तिकार भद्रबाहुको श्रुतकेवली बतलानेके विरुद्ध पड़ती हैं—भद्रबाहुश्रुतकेवली-द्वारा उनका उस प्रकारसे उल्लेख तथा निरूपण किसी तरह भी नहीं बनता। इस विषयका सप्रभाण विशद एवं विस्तृत विवेचन मुनि पुष्यविजयजीने आजसे कोई सात वर्ष पहले अपने 'छेदसूत्रकार और नियुक्तिकार' नामके उस गुजराती लेखमें किया है जो 'महावीर-जैनविद्यालय-रजत-महोत्सव-ग्रन्थ'में मुद्रित है कि साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'तत्त्वोगालिप्रकीरणक, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक-हारिभद्रीया टीका, परिशिष्टपर्व आदि प्राचीन मान्य ग्रन्थोंमें जहाँ चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु (श्रुतकेवली) का चरित्र वर्णन किया गया है वहाँ द्वादशवर्षीय दुष्काल'..... छेदसूत्रोंकी रचना आदिका वर्णन तो है परन्तु वराहमिहरका माई होना, नियुक्तिग्रन्थों, उपसर्गहरस्तोत्र, भद्रबाहुसंहितादि ग्रन्थोंकी रचनासे तथा नैमित्तिक होनेसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई उल्लेख नहीं है। इससे छेदसूत्रकार भद्रबाहु और नियुक्ति आदिके प्रणेता भद्रबाहु एक दूसरेसे भिन्न व्यक्तियाँ हैं।

इन नियुक्तिकार भद्रबाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः मध्यकाल है; क्योंकि इनके समकालीन सहोदर भ्राता वराहमिहरका यही समय सुनिश्चित है—उन्होंने अपनी 'पञ्चसिद्धान्तिका'के ग्रन्थमें, जोकि उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अन्तिकी कृति भानी जाती है, अपना समय स्वयं निर्दिष्ट किया है और वह है शक संवत् ४२७ अर्थात् विक्रम संवत् ५६२। यथा—

॥ इससे भी कई वर्ष पहले आपके गुरु मुनि श्रीचतुरविजयजीने श्रीविजय-नन्दसूरीश्वररजन्मशताब्दि-स्मारकग्रन्थमें मुद्रित अपने 'श्रीभद्रबाहुस्वामी' नामक गुजराती लेखमें इस विषयको प्रदर्शित किया था और यह सिद्ध किया था कि नियुक्तिकार भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहुसे भिन्न द्वितीये भद्रबाहु हैं और वराहमिहरके सहोदर होनेसे उनके समकक्षीन हैं। उन्हें इस लेखका हिन्दी अनुवाद अनेकान्त वर्ष ३ किरण १२ में प्रकाशित हो चुका है।

‘सप्ताश्विवेदसंख्यं शककालमपास्य चैत्रशुक्लादी ।

अर्धास्तमिते भानी यवनपुरे सौभ्यनिवसादे ॥८॥’

जब नियुक्तिकार भद्रबाहुका उक्त समय सुनिश्चित हो जाता है तब यह कहनेमें कोई आपत्ति नहीं रही कि सन्मतिकार विद्वसेनके समयकी पूर्वसीमा विक्रमकी छठी शताब्दीका तुनीय चरण है और उन्होंने क्रमवादके पुरस्कर्ता उक्त भद्रबाहु अथवा उनके ग्रन्थसर्ता किसी शिष्यादिके क्रमवाद-विषयक कथनको सेकर ही सन्मतिमें उसका स्वाक्षरण किया है ।

इस तरह विद्वसेनके समयकी पूर्वसीमा विक्रमकी छठी शताब्दीका तुनीय चरण और उत्तरसीमा विक्रमकी सातवी शताब्दीका तुनीय चरण (वि० स० ५६२से ६६६) निश्चित होती है । इन प्रायः सौ वर्षके भीतर ही किसी समय विद्वसेनका ग्रन्थकाररूपमें भवतार हुआ और यह ग्रन्थ बना जान पड़ता है ।

(३) विद्वसेनके समय-सम्बन्धमें प० सुखलालजी संघवीकी जो स्थिति रही है उसको ऊपर बतलाया जा चुका है । उन्होंने अपने पिछ्ले लेखमें, जो ‘विद्वसेनदिवाकरना समयनो प्रश्न’ नामसे ‘भारतीयविद्या’के तुतीय भाग (श्रीबहादुरसिंहजी सिंधी स्मृतिप्रन्थ) में प्रकाशित हुआ है, अपनी उस गुवाराती प्रस्तावना-कालीन मान्यताको जो सन्मतिके अधेशी सस्करणके अवसर पर फोरवर्ड (foreword) † निख्ते जानेके पूर्व कुछ नये बोल ग्रन्थोंके सामने आनेके कारण बदल गई थी और जिसकी फोरवर्डमें सूचना की गई है किरणे निश्चितरूप दिया है अर्थात् विक्रमकी पांचवी शताब्दीको ही विद्वसेनका समय निर्धारित किया है और उसीको अधिक सज्जन बतलाया है । अपनी इस मान्यताके समर्थनमें उन्होंने जिन दो प्रमाणोंका बल्लेश किया है उनका सार इस प्रकार है, विसे प्रायः उन्हींके शब्दोंके अनुवादरूपमें सञ्चुलित किया गया है:—

† फोरवर्डके लेखकरूपमें यद्यपि नाम ‘दलसुख मालवणिया’का दिया हुआ है परन्तु उसमें वी हुई उक्त सूचनाको पण्डित सुखलालजीने उक्त लेखमें अपनी ही सूचना और अपना ही विचार-प्रसिद्धता स्वीकार किया है ।

(प्रथम) जिनभद्रकमाश्रमणने अपने महान् प्रन्थ विशेषावशयक-भाष्यमें, जो विक्रम सत्रत् ६६६ में बनकर समाप्त हुआ है और लघुग्रन्थ विशेषणवतीमें सिद्धसेनदिवाकरके उपयोगाभेदवादकी तर्थीव दिवाकरकी कृति सम्मतितकंके टीकाकार मल्लवादीके उपयोग-योग-पद्यावादकी विस्तृत समालोचना की है। इससे तथा मल्लवादीके द्वादशारनयवक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने और जिनभद्रगणिका सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती और सिद्धसेन मल्लवादीसे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। मल्लवादीको यदि विक्रम-की छठी शताब्दीके पूर्वार्धमें मान लिया जाय तो सिद्धसेनदिवाकरका समय जो पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है वह अधिक सङ्गत लगता है।

(द्वितीय) पूज्यपाद देवनन्दीने अपने जैनेन्द्रव्याकरणके ‘वेत्तः सिद्धसेनस्य’ इस सूत्रमें सिद्धसेनके मतविशेषका उल्लेख किया है और वह यह है कि सिद्धसेनके मतानुसार ‘विद्’ धातुके ‘इ’ का आगम होता है, चाहे वह धातु सकर्मक ही क्यों न हो। देवनन्दीका यह उल्लेख बिल्कुल सच्चा है क्योंकि दिवाकरकी जो कुछ घोड़ीसी संस्कृत कृतियाँ बची हैं उनमेंसे उनकी नवमी द्वार्तिशिकाके २२वें पद्ममें ‘विद्रतेः’ ऐसा ‘र्’ आगम वाला प्रयोग मिलता है। अन्य व्याकरण जब ‘सम्’ उपसर्ग पूर्वक और अकर्मक ‘विद्’ धातुके ‘इ’ आगम स्वीकार करते हैं तब सिद्धसेनने अनुपसर्ग और सकर्मक ‘विद्’ धातुका ‘र्’ आगमवाला प्रयोग किया है। इसके सिवाय, देवनन्दी पूज्यपादकी सर्वार्थ-सिद्धि नामकी तत्त्वार्थ-टीकाके सप्तम अध्यायगत १३वें सूत्रकी टीकामें सिद्धसेनदिवाकरके एक पद्मका अंश ‘उत्तं च’ शब्दके साथ उद्धृत पाया जाता है और वह है “वियोजयति चासुभिन्नं च वधेन संयुज्यते।” यह पद्मांश उनकी तीसरी द्वार्तिशिकाके १६वें पद्मका प्रथम चरण है। पूज्यपाद देवनन्दीका समय बतामान मान्यतानुसार विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वार्ध है अर्थात् पाँचवीं शताब्दीके अमुक भागसे छठी शताब्दीके पमुक भाग तक लम्बा है। इससे सिद्धसेनदिवाकरकी पाँचवीं शताब्दीमें होनेकी बात जो अधिक संगत कही गई है उसका खुलासा हो जाता है। दिवाकरको देवनन्दीसे पूर्ववर्ती या देवनन्दीके बुद्ध समकालीनरूपमें मानिये तो भी उनका जीवनसमय पाँचवीं शताब्दीसे अर्बाचीन नहीं ठहरता।

इनमेंसे प्रथम प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण ही नहीं है; क्योंकि वह 'मल्लवादीको यदि विक्रमकी छठी शनाढ़ीके पूर्वार्धमें मान लिया जाय तो इस भ्रान्त कल्पना पर अपना आधार रखता है। परन्तु क्यों मान लिया जाय अथवा क्यों मान लेना चाहिये, इसका कोई स्पष्टीकरण साथमें नहीं है। मल्लवादीका जिनभद्रसे पूर्ववर्ती होना प्रथमतो सिद्ध नहीं है, सिद्ध होता भी तो उन्हें जिनभद्रके समकालीन बृद्ध मानकर अथवा २५ या ५० वर्ष पहले मानकर भी उस पूर्ववर्तित्वको चरितार्थ किया जा सकता है, उसके लिये १०० वर्षसे भी अधिक समय पूर्वकी बात मान लेनेकी कोई जरूरत नहीं रहती। परन्तु वह सिद्ध ही नहीं है; क्योंकि उनके जिस उपयोग-योगपद्धत्वादकी विस्तृत समालोचना जिनभद्रके दो ग्रन्थोंमें बतलाई जाती है उनमें कहीं भी मल्लवादी अथवा उनके किसी ग्रन्थका नामोलेख नहीं है, होता तो पण्डितजी उस उल्लेखाने अंशको उद्धृत करके ही मन्तोष धारण करते, उन्हें यह तर्क करने-की जरूरत ही न रहती और न रहनी चाहिये थी कि 'मल्लवादीके द्वादशारनयचक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने और जिनभद्रका सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती हैं'। यह तर्क भी उनका अभीष्ट-सिद्धिमें कोई सहायक नहीं होना; क्योंकि एक तो किसी विद्वान्के लिये लाभिमी नहीं कि वह अपने ग्रन्थमें पूर्ववर्ती अमुक अमुक विदानोंका उल्लेख करे ही करे। दूसरे, मूल द्वादशारनयचक्रके जब कुछ प्रतीक ही उपलब्ध हैं—वह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है—तब उसके अनुपलब्ध अंशोंमें भी जिनभद्रका अथवा उनके किसी ग्रन्थादिका उल्लेख नहीं इसकी बया गारण्टी ? गारण्टीके न होने और उल्लेखोपलब्धिकी सम्भावना बनी रहनेसे मल्लवादीको जिनभद्रके पूर्ववर्ती बतलाना तकङ्गृहिसे कुछ भी अर्थ नहीं रखता। तीसरे, ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामें पण्डित सुखलालजी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि "अग्र हमने उस सारे सटीक नयचक्रका अवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं भी केवलज्ञान और केवलदर्शन (उपर्योगद्वय)के सम्बन्धमें प्रचलित उपर्युक्त बादों (क्रम, युगपत और अभेद) पर थोड़ी भी चर्चा नहीं मिली। यद्यपि सन्मतितर्क-की मल्लवाद-कृत-टीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादी अभेदसमर्थक दिवाकरके ग्रन्थपर टीका लिखें तब यह कहे माना जा सकता है कि उन्होंने

दिवाकरके ग्रन्थकी व्याख्या करते समय उसीमें उनके विरुद्ध अपना युगपत् पक्ष किसी तरह स्थापित किया हो। इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेवके युगपदवादके पुरस्कर्ताहिसे मल्लवादीके उल्लेखका आधारनयचक्र या उनकी सन्मतिटीकामें से रहा होगा।^१ साथ ही अभयदेवने सन्मतिटीकामें विशेषणावतीकी “केइ भरांति जुगवं जारणइ पासइ य केवली रिणमा” इत्यादि गायाम्रोंको उद्धृत करके उनका अर्थ देते हुए ‘केइ’ पदके बाच्यरूपमें मल्लवादीका जो नामोल्लेख किया है और उन्हें युगपदवादका पुरस्कर्ता बतलाया है उनके उस उल्लेखकी अभान्ततापर सन्देह व्यक्त करते हुए, पण्डित सुखलालजी लिखते हैं—“आगर अभयदेवका उक्त उल्लेखाश अभान्त एवं साधार है तो अधिकस अधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं कि मल्लवादीका कोई अन्य युगपत् पक्ष-समर्थक छोटा बड़ा ग्रन्थ अभयदेवके सामने रहा होगा अथवा ऐसे भन्तव्यवाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा।” और यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है कि अभयदेवमें कई शताब्दी पूर्वके प्राचीन आचार्य हरिभद्रसूरिने उक्त ‘केइ’ पदके बाच्यरूपमें सिद्धसेनाचार्यका नाम उल्लेखित किया है, ५० सुखलालजीने उनके उस उल्लेखको महत्व दिया है तथा सन्मतिकारसे भिन्न दूसरे सिद्धसेनकी सम्भावना व्यक्त की है, और वे दूसरे सिद्धसेन उन द्वात्रिशिकाम्रोंके कर्ता हो सकते हैं जिनमें युगपदवादका समर्थन पाया जाता है, इसे भी ऊपर दर्शाया जा चुका है। इस तरह जब मल्लवादीका जिनभद्रसे पूर्ववर्ती होना सुनिश्चित ही नहीं है तब उक्त प्रमाण और भी निःसार एवं बेकार हो जाता है। साथ ही, अभयदेवका मल्लवादी से युगपदवादका पुरस्कर्ता बतलाना भी आन्त ठहरता है।

यहांपर एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि हालमें मुनि श्रीजम्बूद्विजयजीने मल्लवादीके सटीक नयचक्रका पारायण करके उसका विशेष परिचय ‘श्रीप्रात्मानन्दप्रकाश’ (वर्ष ४५ अंक ७) में प्रकट किया है, उसपर से यह स्पष्ट मालूम होता है कि मल्लवादीने अपने नयचक्रमें पद-पदपर ‘वाक्य-पदीय’ ग्रन्थका उपयोग ही नहीं किया बल्कि उसके कर्ता भर्तृहरिका नामोल्लेख और भर्तृहरिके मतका खण्डन भी किया है। इन भर्तृहरिका समय इतिहासमें चीनी यात्री इतिहासके यात्राविवरणादिके अनुसार ६० सन् ६०० से ६५०

(वि० सं० ६५७ से ७०७) तक माना जाता है; क्योंकि इत्सिङ्गने जब सन् ६६१ में अपना यात्रावृत्तान्त लिखा तब भर्तु हरिका देहावसान हुए ४० वर्ष बीत चुके थे। और वह उस समयका प्रदिन वैयाकरण था। ऐसी हाँतमें भी मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती नहीं कहे जा सकते। उक्त समयादिकी हृष्टिसे वे विक्रमी प्रायः आठवीं-नवमी शताब्दीके विद्वान् हो सकते हैं और तब उनका व्यक्तित्व न्यायबिन्दुकी घर्मोत्तर ८८-टीकापर टिप्पणि लिखनेवाले मल्लवादीके साथ एक भी हो सकता है। इस टिप्पणीमें मल्लवादीने अनेक स्थानोंपर न्याय-बिन्दुकी विनीतदेव-कृत-टीकाका उल्लेख किया है और इस विनीतदेवका समय राहुलसांकृत्यायनने, बादन्यायकी प्रस्तावनामें, घर्मकीतिके उत्तराधिकारियोंकी एक तिब्बती मूचीपरसे ई० सन् ७०५ से ८०० (वि० सं० ८५७) तक निश्चित किया है।

इस सारी वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि विक्रम-की १४वीं शताब्दीके विद्वान् प्रभाचन्द्रने अपने प्रभावकचरितके विजयसिंहसूरि-प्रबन्धमें बोढ़ों और उनके व्यन्तरोंको बादमें जीतनेका जो समय मल्लवादीका श्रीरवत्सरसे ८८४ वर्ष बादका अर्थात् विक्रम सं० ४१४ दिया है † और जिसके कारण ही उन्हे व्येताम्बर समाजमें इतना प्राचीन माना जाता है तथा मुनि जिनविजयने भी जिसका एकवार पल लिया है ‡ उसके उल्लेखमें जरूर कुछ भूल हुई है। पं० सुखलालजीने भी उस भूलको महसूस किया है, तभी उसमें प्रायः १०० वर्षकी तुङ्डि करके उसे विक्रमी छठी शताब्दीका पूर्वार्द्ध (वि० सं० ५५०) तक मान लेनेकी बात अपने इस प्रथम प्रभाणमें कही है। डा० पी० एस० वैद्य एम० ए० ने न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, इस भूल अध्यवा-

* बोढ़ोवार्यं घर्मोत्तरका समय पं० राहुलसांकृत्यायनने वाहून्यायकी प्रस्तावनामें ई० सं० ७२५ से ७५०, (वि० सं० ७८२ से ८०७) तक व्यक्त किया है।

† श्रीश्रीरवत्सरादथ शताष्टके चतुरशीति-संयुक्ते ।

जिये स मल्लवादी बोढ़ास्तदृपन्तरांश्चाऽपि ॥ ८३ ॥

‡ देखो, जैनसाहित्यसंशोधक भाग २ ।

गलतीका कारण 'श्रीबीरविकमात' के स्थानपर 'श्रीबीरवस्सरात्' पाठान्तरका हो जाना सुभावा है। इस प्रकारके पाठान्तरका हो जाना कोई प्रस्वामाविक अथवा असंभाव्य नहीं है किन्तु सहजसाध्य जान पड़ता है। इस सुभावके अनुसार यदि शुद्ध पाठ 'बीरविकमात' हो तो मल्लवादीका समय वि० सं० ८८४ तक पहुँच जाता है और यह समय मल्लवादीके जीवनका प्रायः अन्तिम समय हो सकता है और तब मल्लवादीको हरिभद्रके प्रायः समकालीन कहना होगा; क्योंकि हरिभद्रने 'उक्त' च वादिसुख्येन मल्लवादिना' जैसे शब्दोंके द्वारा अनेकान्त-जयपताकाकी टीकामें मल्लवादीका स्पष्ट उल्लेख किया है। हरिभद्रका समय भी विक्रमी ६वी शताब्दीके तृतीय-चतुर्थ चरण तक पहुँचता है; ६५ क्योंकि वि० सं० ८५७ के लगभग बनी हुई भट्टजयन्तकी न्यायमञ्जरीका 'गम्भीर-गर्जितारम्भ' नामका एक पद्ध हरिभद्रके घट्टवर्णनसमुच्चयमें उद्घृत मिलता है, ऐसा न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्ता-वनामें उद्घोषित किया है। इसके सिवाय, हरिभद्रने स्वयं शास्त्रवातर्तसमुच्चयके चतुर्थस्तवनमें 'एतेनैव प्रतिक्रिप्तं यदुक्त' सूक्ष्मबुद्धिना' इत्यादि वाक्यके द्वारा बीद्वाचार्य शान्तरक्षितके मतका उल्लेख किया है और स्वोपज्ञटीकामें 'सूक्ष्म-बुद्धिना' का 'शान्तरक्षितेन' अर्थ देकर उसे स्पष्ट किया है। शान्तरक्षित घर्मोत्तर तथा विनीतदेवके भी प्रायः उत्तरवर्ती हैं और उनका समय राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायके परिणिष्ठोमें ई० सन् ८४० (वि० सं० ८६७) तक बतलाया है। हरिभद्रको उनके समकालीन समझना चाहिये। इससे हरिभद्रका कथन उक्त समयमें वापक नहीं रहता और सब कथनोंकी सङ्गति ठीक बैठ जाती है।

६६१ शताब्दीके द्वितीय चरण तकका समय तो मुनि जिनविजयजीने भी प्रपने हरिभद्रके समय-निर्णयवाले लेखमें बतलाया है। क्योंकि विक्रमसंवत् ८३५ (शक सं० ७००) में बनी हुई कुबलयमालामें उद्घोतनसूरिने हरिभद्रको न्याय-विद्यामें अपना मुह लिखा है। हरिभद्रके समय, संयतजीवन और उनके साहित्यिक कार्योंकी विशालताको देखते हुए उनकी आयुका अनुमान सौ वर्षके लगभग लगाया जा सकता है और वे मल्लवादीके समकालीन होनेके साथ-साथ कुबलयमालाकी रचनाके कितने ही वर्ष बाद तक जीवित रह सकते हैं।

नयचक्र के उक्त विशेष परिचय से यह भी मालूम होता है कि उस ग्रन्थमें सिद्धेन नामके साथ जो भी उल्लेख मिलते हैं उनमें सिद्धेन को 'आचार्य' और 'सूरि' जैसे पदोंके साथ तो उल्लेखित किया है परन्तु 'दिवाकर' पदके साथ कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है, तभी मुनि श्रीवर्म्मावत्रयजीकी यह लिखनेमें प्रवृत्ति हुई है कि "आ सिद्धेनसूरि सिद्धेनदिवाकरज समवतः होवा जोइये" अर्थात् यह सिद्धेनसूरि समवतः सिद्धेनदिवाकर ही होने चाहिये—भले ही दिवाकर नामके साथ वे उल्लेखित नहीं मिलते। उनका यह लिखना उनकी घारणा और भावनाका ही प्रतीक कहा जा सकता है; क्योंकि 'होना चाहिये'का कोई कारण साथमें व्यक्त नहीं किया गया। १० मुख्लालजीने अपने उक्त प्रमाण-में इन सिद्धेनको 'दिवाकर' नामसे ही उल्लेखित किया है, जो कि वस्तुस्थितिका बड़ा ही गलत निष्पत्ति है (औप अनेक भून-भ्रान्तियोंको जन्म देनेवाला है—किसी विषयको विचारके लिये प्रस्तुत करनेवाले निष्पक्ष विद्वानोंके द्वारा अपनी प्रयोजनादि-सिद्धिके लिये वस्तुस्थितिका ऐसा गलत विचार नहीं होना चाहिये। हाँ, उक्त परिचय से यह भी मालूम होता है कि सिद्धेन नामके साथ जो उल्लेख मिल रहे हैं उनमें से कोई भी उल्लेख सिद्धेनदिवाकरके नामपर चढ़े हुए उपस्थित ग्रन्थोंमें किसीमें भी नहीं मिलता है। नमूनेके तीरपर जो दो उल्लेख उपरिचयमें उद्धृत किये गये हैं उनका विषय प्रायः शब्दशास्त्र (व्याकरण) तथा शब्दनायादिसे सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है। इससे भी सिद्धेनके उन उल्लेखोंको दिवाकरके उल्लेख बतलाना व्यर्थ ठहरता है।

रही द्वितीय प्रमाणकी बात, उससे केवल इन्हा ही सिद्ध होता है कि तीसरी और नवमी द्वात्रिशिकाके कर्ता जो सिद्धेन हैं वे पूज्यपाद देवनन्दीसे पहले हुए हैं—उनका समय विक्रमकी पाँचवीं शताब्दी भी हो सकता है। इससे अधिक यह सिद्ध नहीं होता कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धेन भी पूज्यपाद देव-

के "तथा च आचार्यसिद्धेन आह—

"यत्र ह्यार्थो वाचं व्यभिचरति न (ना) भिचानं तद् ॥" (वि० २७७)

"प्रस्तु-मवति-विद्यति-वर्ततयः सन्मिपातष्टुः सत्तार्था इत्यविशेषणोक्त-
त्वात् सिद्धेनसूरिणा ।" (वि० १६६)

नम्बीने पहले अथवा विक्रमकी ५वीं शताब्दीमें हुए हैं। इसको सिद्ध करनेके लिये पहले यह सिद्ध करना होगा कि सन्मतिसूत्र और तीसरी तथा नवमी द्वात्रिशिकाएं तीनों एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ हैं। और यह सिद्ध नहीं है। पूज्यपादसे पहले उपयोगद्वयके क्रमवाद तथा अभेदवादके कोई पुरस्कर्ता नहीं हुए हैं, होते तो पूज्यपाद अपनी सर्वार्थसिद्धिमें सनातनसे चले आये युगपदवादका प्रतिपादनमात्र करके ही न रह जाते, बल्कि उसके विरोधी वाद अथवा वादोंका खण्डन ज़रूर करते। परन्तु ऐसा नहीं है^६, और इससे यह मालूम होता है कि पूज्यपादके समयमें केवलीके उपयोग-विवरक क्रमवाद तथा अभेदवाद प्रचलित नहीं हुए थे—वे उनके बाद ही सर्वशेषरूपसे घोषित तथा प्रचारको प्राप्त हुए हैं, और इसीसे पूज्यपादके बाद अकलज्ञादिकके साहित्यमें उनका उल्लेख तथा खण्डन पाया जाता है। क्रमवादका प्रस्थापन नियुक्तिकार भद्रबाहुके द्वारा और अभेदवादका प्रस्थापन सन्मतिकार सिद्धसेनके द्वारा हुआ है। उन वादोंके इस विकासक्रमका समर्थन जिनभद्रके विशेषणवती ग्रंथकी उन दो गाथाओं (‘कैई भण्टति त्रुगव’ इत्यादि नम्बर १८४, १८५) से भी होता है जिनमें युगपत्, क्रम और अभेद इन तीनों वादोंके पुरस्कर्ताओंका इसी क्रमसे उल्लेख किया गया है और जिन्हें ऊपर (नं० २मे) उद्घृत किया जा चुका है।

प० सुखलालजीने नियुक्तिकार भद्रबाहुको प्रथम भद्रबाहु और उनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी मान लिया है^५, इसीसे इन वादोंके क्रम-विकासको समझनेमें उन्हें भान्ति हुई है। और वे यह प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं कि पहले क्रमवाद था, युगपतवाद वादको सबसे पहले वाचक उपस्थाति-द्वारा जैन वाढ़मयमें प्रविष्ट हुआ और फिर उसके बाद अभेदवादका प्रवेश मुख्यतः

^६ “स उपयोगो द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चेति ।”.....“साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । तच्छास्येषु क्रमेण वर्तते । निरावरणेषु युगपत् ।”

× ज्ञानविन्दु-परिचय प०५ पादटिप्पणि ।

* “मतिज्ञानादिचतुर्थु पथविस्तुपयोगो भवति, न युगपत् । संभिश्ज्ञानदर्शनस्य तु भगवतः केवलिनो युगपत्स्वर्भावद्वाहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदर्शने चानुसमयमुपयोगो भवति ।” —तत्त्वार्थभाष्य १-३१ ।

सिद्धसेनाचार्यके द्वारा हुआ है। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम तो युग-पत्रवादका प्रतिवाद भद्रबाहुकी आवश्यकनियुक्तिके “सञ्चरण से वलिस्स वि जुगवं दो गतिथ उवधोगा” इस वाक्यमें पाया जाता है जो भद्रबाहुको दूसरी शताब्दी-का विद्वान् माननेके कारण उमास्वातिके पूर्वकांठहरता है और इसलिये उनके विरुद्ध जाता है। दूसरे, श्रीकुन्दकुन्दचार्यके नियमसार-जैसे घंटों और आचार्य भूतबलिके पट्टखण्डागममें भी युगपत्रवादका स्पष्ट विवान पाया जाता है। ये दोनों आचार्य उमास्वातिके पूर्ववर्तीहैं और इनके युगपत्रवाद-विधायक वाक्य नमूनेके तौरपर इस प्रकार हैं:—

‘जुगवं वट्टइ एराणं केवलणाणिस्स दंसरणं च तदा ।
दिणयर-पयास-तावं जह वट्टइ तह मुण्येववं ॥’ (गियम० १५६) ।

‘सर्वं भयवं उप्पणा-णाण-दरिसी सदेवाऽसुर-माणुसस्स लोगस्स
आगदिं गर्दिं चयणोववादं बन्धं मोक्षं इद्धि ठिदिं जुदिं अणुभागं
तकं कलं मणोमाणसियं भुत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं
सञ्चलोए सञ्चजीवे सञ्चभावे सञ्चं समं जाणदि पस्सदि विहर-
दित्ति ॥’—(पट्टखण्डा० ४ पर्यादि अ० सू० ७८) ।

ऐसी हालतमें युगपत्रवादकी सर्वप्रमम उत्पत्ति उमास्वातिसे बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता, जैनवाड़ भयमें इसकी अविकल धारा अतिप्राचीन कालसे चली आई है। यह दूसरी बात है कि क्रम तथा अभेदकी धाराएँ भी उसमें कुछ वादको शामिल हो गई हैं; परन्तु विकास-क्रम युगपत्र-वादसे ही प्रारम्भ होता है, जिसकी सूचना विशेषणवतीकी उक्त गाथाओं (‘केइ भरणति जुगव’ इत्यादि) से भी मिलती है। दिगम्बराचार्य श्रीकुन्दकुन्द, समन्त-भद्र और पूज्यपादके ग्रन्थोंमें कपवाद तथा अभेदवादका कोई अहापोह भ्रष्टवा-

क्ष उमास्वातिवाचकको पं० सुखलालजीने तीसरीसे पाँचवीं शताब्दीके मध्यका विद्वान् बतलाया है। (शा० वि० परि पृ० ५४) ।

६ इस पूर्ववर्तित्वका उल्लेख अवण्डेल्योलादिके शिन्नालेखों तथा ग्रनेक पंथ-प्रशस्तियोंमें पाया जाता है।

खण्डन न होना प० सुखलालजीको कुछ अस्तरा है; परन्तु इसमें अस्तरनेकी कोई बात नहीं है। जब इन आचार्योंके सामने ये दोनों वाद आए ही नहीं तब वे इन वादोंका उद्घापोह अथवा खण्डनादिक कैसे कर सकते थे? अकलचूलके सामने यह ये वाद आए तब उन्होंने उनका खण्डन किया ही है; जुनाचि प० सुखलालजी स्वयं ज्ञानबिन्दुके परिचयमें यह स्वीकार करते हैं कि ‘ऐसा खण्डन हर्ष सबमें पहले अकलचूलकी कृतियोंमें पाते हैं।’ और इसलिये उनसे पूर्वकी—कुन्दकुन्द, समन्तभद्र तथा पूज्यपादकी—कृतियोंमें उन वादोंकी कोई चर्चाका न होना इस बातको और भी साफ तौरपर लूचित करता है कि इन दोनों वादोंकी प्रादुर्भूति उनके समयके बाद हुई है। सिद्धसेनके सामने ये दोनों वाद ये—दोनोंकी चर्चा सन्मतिमें की गई है—अतः ये सिद्धसेन पूज्यपादके पूर्वदर्ती नहीं हो सकते। पूज्यपादने जिन सिद्धसेनका अपने व्याकरणमें नामोल्लेख किया है वे कोई दूसरे छी मिद्दसेन होने चाहिये।

यहांपर एक खास बात नोट किये जानेके योग्य है और वह यह कि प० सुखलालजी सिद्धसेनको पूज्यपादसे पूर्वदर्ती सिद्ध करनेके लिये पूज्यपादीय जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र तो उपस्थित करते हैं परन्तु उसी व्याकरणके दूसरे समकक्ष सूत्र “क्तुष्टवं सन्मतभद्रस्य” को देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं—उसके प्रति गजनिमीलन-जैसा व्यवहार करते हैं—और ज्ञानबिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावना (प० ५५) में विना किसी हेतुके ही यहाँ तक लिखनेका साहस करते हैं कि “पूज्यपादके उत्तरवर्ती दिगम्बराचार्य समन्तभद्र”ने अमुक उल्लेख किया! साथ ही, इस बातको भी भुला जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे स्वयं पूज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला आए हैं और यह लिख आए है कि ‘स्तुतिकारकृपमें प्रसिद्ध इन दोनों जैनाचार्योंका उल्लेख पूज्यपादने अपने व्याकरणके उक्त सूत्रोंमें किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पूज्यपादकी कृतियोंपर होना चाहिये।’ मालूम नहीं किर उनके इस साहसिक कृत्यका क्या रहस्य है! और किस अभिनिवेशके वशवर्ती होकर उन्होंने यह यों ही चलती कलमसे समन्तभद्रको पूज्यपादके उत्तरवर्ती कह डाला है!! इसे अथवा इसके अधीचित्वको वे ही स्वयं समझ सकते हैं। दूसरे विद्वान् तो इसमें कोई अधीचित्य न्याय नहीं देखते कि एक ही व्याकरण शब्दमें उल्लेखित दो विद्वानोंमेंसे

एको उस प्रथकारके पूर्ववर्ती और दूसरेको उत्तरवर्ती बतलाया जाय और जहाँ भी विना किसी युक्तिके। इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित सुखलालजीकी बहुत पहलेसे यह धारणा बनी हुई है कि सिद्धसेन समन्तभद्रके पूर्ववर्ती हैं और वे जैसे तेसे उसे प्रकट करनेके लिये कोई भी अवसर चूकते नहीं हैं। हो सकता है कि उसीकी बुनमें उनसे यह कार्य बन गया हो, जो उस प्रकटीकरणका ही एक प्रकार है; अन्यथा वैसा कहनेके लिए कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं है।

पूज्यपाद समन्तभद्रके पूर्ववर्ती नहीं किन्तु उत्तरवर्ती हैं, यह बात जैनेण्ड्र-व्याकरण के उक्त “बतुष्ट्यं समन्तभद्रस्य” सूत्रसे ही नहीं किन्तु अवण्डेलोलके शिखालेखों आदिसे भी भले प्रकार जानी जाती है।[†] पूज्यपादकी ‘सर्वार्थसिद्धि’ पर समन्तभद्रका स्पष्ट प्रभाव है, इसे ‘सर्वार्थसिद्धि’ पर समन्तभद्रका प्रभाव’ नामक लेखमें स्पष्ट करके बतलाया जा चुका है।[‡] समन्तभद्रके ‘रत्नकरण’ का ‘आसोपङ्गमनुलंध्यम्’ नामका शास्त्रलक्षणवाला पूरा पद्मन्यायावतारमें उद्घृत है, जिसकी रत्नकरणमें स्वाभाविकी और न्यायावतारमें उद्घरण-जैसी स्थितिको सूब सोलकर अनेक युक्तियोंके साथ अन्यत्र दर्शाया जा चुका है—[§] उसके प्रक्षिप्त होनेकी कल्पना-जैसी बात भी अब नहीं रही: क्योंकि एक तो न्यायावतारका समय अधिक दूरका न रह कर टीकाकार सिद्धिके निकट पहुँच गया है, दूसरे उसमें अन्य कुछ बाक्य भी समर्थनादिके रूपमें उद्घृत पाये

[†] देखो, अवण्डेलोल-शिलालेख नं० ४०(६४); १०८ (२५८); ‘स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) पृ० १४१-१४३; तथा ‘जैनजगत्’ वर्ष ६ अङ्क १५-१६ में प्रकाशित ‘समन्तभद्रका समय और ढां० के० बी० पाठक’ शीर्षक लेख पृ० १८-२३, अथवा ‘दि एग्रलस आफ दि भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट पूना बोल्डूम १५ पार्ट १-२ में प्रकाशित Samantabhadra's date and Dr. K. B. Patilak पृ० ८१-८८।

[‡] देखो, अनेकन्त वर्ष ५, किरण १०-११ पृ० ३४६-३५२।

[§] देखो, स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) पृ० १२६-१३१ तथा अनेकास्त वर्ष ६, किं० १से इसे प्रकाशित ‘रत्नकरणके क्रतुंत्वविषयमें भेरा विचार और निराय’ नामक लेख पृ० ५-१४०।

जाते हैं। जैसे “साध्याविनाभुवो हेतोः” जैसे वाक्यमें हेतुका लक्षण आजानेपर भी “अन्ययानुपप्रस्तर्वं हेतोलक्षणमीरितम्” इस वाक्यमें उन पात्रस्वामीके हेतुलक्षणको उद्घृत किया गया है जो समन्तभद्रके देवागमसे प्रभावित होकर जैनधर्ममें दीक्षित हुए थे। इसी तरह “हष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्” इत्यादि आठवें पदमें शब्द (शीघ्रम) प्रमाणका लक्षण आजाने पर भी अगले पदमें समन्तभद्रका “आतोपज्ञमनुलंघ्यमहष्टेष्टविरोधकम्” इत्यादि शास्त्रका लक्षण समर्थनादिके रूपमें उद्घृत हुआ समझना चाहिए। इसके सिवाय, न्यायावतार पर समन्तभद्रके देवागम (प्रात्मीमांसा) का भी स्पष्ट प्रभाव है; जैसा कि दोनों ग्रन्थोंमें प्रमाणके अनन्तर पाये जानेवाले निम्न वाक्योंकी तुलनापरसे जाना जाता है—

“उपेक्षा फलमाऽस्य शेषस्याऽदान-हान-धीः ।

पूर्वाँ(वं) वाऽज्ञान-नाशो वा सर्वस्याऽस्य स्वगोचरे ॥१०६॥”

— देवागम

“प्रमाणस्य फलं माज्ञादज्ञान-विनिवर्तनम् ।

केवलस्य सुखोपेत्तेऽ शेषस्याऽदान-हानधीः ॥२८॥”

— न्यायावतार

ऐसी स्थितिमें व्याकरणादिके कर्ता पूज्यपाद और न्यायवतारके कर्ता सिद्धसेन दोनों ही स्वामी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती हैं, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है। सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन चूर्णि नियुक्तिकार एवं नैमित्तिक भद्रबाहुके बाद हुए हैं—उन्होंने भद्रबाहुके द्वारा पुरस्कृत उपयोग-क्रमवादका खंडन किया है—पौर इन भद्रबाहुका समय विक्रमी की छठी शताब्दीका प्रायः तृतीय चरण पाया जाता है, इसीसे यही समय सन्मतिकार सिद्धसेनके समयकी पूर्वसीमा है, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। पूज्यपाद इस समयसे पहले गंगवंशी राजा अविनीत (ई० सन् ४३०-४८२) तथा उसके उत्तराधिकारी दुर्विनीतके

॥ यहाँ ‘उपेक्षा’के साथ सुखकी बुद्धि की गई है, जिसका भज्ञाननिवृत्ति तथा उपेक्षा (रागादिकी निवृत्तिरूप अनासक्ति)के साथ अविनाभावी सम्बन्ध है।

समयमें हुए हैं और उनके एक शिष्य वचनन्दीने विक्रम संवत् ५२६ में द्वाविड़-संघकी स्थापना की है, जिसका उल्लेख देवसेनसूरिके दर्शनसार (वि० सं० ६६०) ग्रन्थमें मिलता है । अतः सन्मतिकार सिद्धसेन पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं, पूज्यपादके उत्तरवर्ती होनेसे समन्तभद्रके भी उत्तरवर्ती हैं, ऐसा सिद्ध होता है । और इसालिये समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्र तथा आसमीमासा (देवागम) नामक दो ग्रन्थोंकी सिद्धसेनीय सन्मतिसूत्रके साथ तुलना करके पं० सुखलालजीने दोनों आचार्योंके इन ग्रन्थोंमें जिस 'वस्तुगत पुष्कल साम्य' की सूचना सन्मतिकी प्रस्तावना (प० ६६) में की है उसके लिये सन्मतिसूत्रको अधिकांशमें सामन्तभद्रीय ग्रन्थोंके प्रभावादिका आभारी समझना चाहिये । अनेकान्त-शामनके जित्त स्वरूप-प्रदर्शन एवं गौरव-स्थापनकी ओर समन्तभद्रका प्रधान लक्ष्य रहा है उसीको सिद्धसेनने भी अपने ढर्यसे अपनाया है । साथ ही, सामान्य-विशेष-मातृक नयोंके सर्वथा-प्रसर्वथा, सायेक-निरपेक और सम्यक्-मिथ्यादिं-स्वरूपविधयक समन्तभद्रके मौलिक निर्देशोंको भी आत्मसात किया है । सन्मतिका कोई-कोई कथन समन्तभद्रके कथनसे कुछ मतभेद अथवा उसमें कुछ वृद्धि या विशेष आयोजनको भी साथमें लिये हुए जान पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है—

दब्दं स्वित्तं कालं भावं पञ्जाय-देस-संजोरो ।

भेदं च पञ्चचं समा भावाणुं परणवणपञ्जा ॥३-६०॥

इस गाथामें बतलाया है कि पदार्थोंकी प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, सयोग और भेदको आविष्ट करके ठीक होती है; जब कि समन्तभद्रने "सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्" जैसे वाक्योंके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस चतुष्टयको ही पदार्थप्ररूपणका मुख्य साधन बतलाया है । इससे यह साफ जाना जाता है कि समन्तभद्रके उक्त चतुष्टयमें सिद्धसेनने

‡ "सिरिपुज्जपादसीनो दाविडसंघस्स कारगो दुष्टो ।

णामेण वज्जणांदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥

पंचसए छ्वट्वीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्षिणमहूरा जादो दाविडसंधो महामोहो ॥ २५ ॥"

बादको एक दूसरे चतुष्टयकी और वृद्धि की है, जिसका पहलेमे पूर्वके चतुष्टयमें ही अन्तर्भवित था।

रही द्वार्तिशिकायोंके कर्ता सिद्धसेनकी बात, पहली द्वार्तिशिकायमें एक उल्लेख-वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है, जो इस विषयमें अपना खास महत्व रखता है:—

य एष षट् शीव-निकाय-विस्तरः परैरनालीढपथस्त्वयोदितः ।

अनेन सर्वज्ञ-परीक्षण-च्छमास्त्वयि प्रसादं दद्यसोत्सव्याः स्थिताः ॥१३

इसमें बतलाया है कि 'हे वीरजिन ! यह जो पट् प्रकारके जीवोंके निकायों (समूहों) का विस्तार है और जिसका मार्ग दूसरोंके अनुभवमें नहीं आया वह आपके द्वारा ददित हुआ—बतलाया गया अथवा प्रकाशमें लाया गया है । इसी-से जो सर्वज्ञकी परीक्षा करनेमें समर्थ है वे (आपको सर्वज्ञ जानकर) प्रसन्नताके उदयरूप उत्सवके साथ आपमें स्थित हुए हैं—बड़े प्रसन्नचित्तसे आपके आश्रयमें प्राप्त हुए और आपके भक्त बने हैं ।' वे समर्थ-सर्वज्ञ-परीक्षक कौन हैं जिनका यहाँ उल्लेख है और जो आत्मप्रभु वीरजिनेन्द्रकी सर्वज्ञरूपमें परीक्षा करनेके अनन्तर उनके सुहृद भक्त बने हैं? वे हैं स्वामी समन्तभद्र, जिन्होंने आत्मीमासा-द्वारा सबस पहले सर्वज्ञकी परीक्षा की है, जो परीक्षाके अनन्तर वीरकी स्तुतिरूपमें 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्रके रचनमें प्रछृत हुए हैं और जो स्वयम्भू स्तोत्रके निम्न पद्मों सर्वज्ञका उल्लेख करते हुए उसमें अपनी स्थिति एवं भक्ति-

* अकलज्ञदेवने भी 'भृष्टशती' भाष्यमें आत्मीमासाको 'सर्वज्ञविशेष-परीक्षा' निलें है और वादिगत्यमूर्खने पाद्यवनाथचरितमें यह प्रतिपादित किया है कि 'उसी देवागम (आत्मीमासा) के द्वारा स्वामी (समन्तभद्र) ने आज भी सर्वज्ञको प्रदीशित कर रखा है:—

‘स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य न विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो देनाऽप्यापि प्रदद्यन्ते ॥’

† युक्त्यनुशासनकी प्रथमकारिकामें प्रयुक्त हुए 'अथ' पदका अर्थ श्रीविद्या-नन्दने टीकाम 'अस्मिन् काले परीक्षाऽवसानसमये' दिया है और उसके द्वारा आत्मीमासाके बाद युक्त्यनुशासनकी रचनाको मूलित किया है ।

को “त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्” इस वाक्यके द्वारा स्वयं व्यक्त करते हैं, जो कि “त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः” इस वाक्यका स्पष्ट मूलाभार जान पड़ता है:—

बहिरन्तरप्युभयथा च, करणमविधाति नाऽर्थकृत् ।

नाथ ! युगपदस्त्रिलं च सदा, त्वमिदं तलाऽऽमलकवद्विवेदिथ ॥ १२६ ॥

अत एव ते बुध-नुतस्य, चरित-गुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥ १३० ॥

इन्ही स्वामी समन्तभद्रको मुख्यतः लक्ष्य करके उक्त द्वार्चिशिकाके अगले दो पद्य * कहे गये जान पड़ते हैं, जिनमेंसे एकमें उनके द्वारा अहंतमें प्रतिपादित उन दो दो बातोंका उल्लेख है जो सर्वज्ञ-विनिश्चयकी सूचक है और दूसरेमें उनके प्रणित यशकी मात्राका बड़े गौरवके साथ कीर्तन किया गया है । अतः इस द्वार्चिशिकाके कर्ता सिद्धसेन भी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती हैं । समन्तभद्रके स्वयम्भू-स्नोत्रका शैनीगत, शब्दगत और अर्थगत कितना ही साम्य भी इसमें पाया जाता है, जिसे अनुसरण कह सकते हैं और जिसके कारण इस द्वार्चिशिकाको पढ़ते हुए कितनी ही बार इसके पदविन्यासादिपरमे ऐसा भान होता है मानों हम स्वयम्भूस्तोत्र पढ़ रहे हैं । उदाहरणके तौरपर स्वयम्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जैसे उपज्ञातिष्ठदमें ‘स्वयम्भुवा भूत’ शब्दोंसे होता है वैसे ही इस द्वार्चिशिकाका प्रारम्भ भी उपज्ञातिष्ठदमें ‘स्वयम्भुवं भूत’ शब्दोंसे होता है । स्वयम्भूस्तोत्रमें जिस प्रकार समन्त, संहत, गत, उदित, समीक्ष, प्रवादिन, प्रनन्त, अनेकान्त-जैसे कुछ विशेष शब्दोंका; मुने, नाथ, जिन, वीर-जैसे सम्बोधन-पदोंका और १ जित-क्षुलकवादिशासनः, २ स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिसाः, ३ नैतत्समालीडपदं त्वदन्यैः, ४ शोरते प्रजाः, ५ अशोषमाहात्म्यमनीरयन्तपि, ६ नाऽसमीक्ष भवतः प्रवृत्तयः, ७ अचिन्त्यमीहितम्, आहंत्यमविन्त्यमद्भुतं ८ सहस्राक्षः, ९ त्वदद्विषः, १० शशि-

* “वपुः स्वभावस्थमरक्तगोणिणं पराऽनुकूला सकूनं च भाषितम् ।

न यस्य सर्वज्ञ-विनिश्चयस्त्वयि द्वयं करोत्येतदसौ न मानुषः ॥ १४४ ॥

अलब्धनिष्ठुः प्रसमिद्भुत्तेनस्ततः प्रविष्ट्याः प्रथयन्ति यद्वाशः ।

न तावदप्येकसमूहसंहताः प्रकाशयेयुः परवादिपायिवाः ॥ १५५ ॥

हचिमुचिशुकलोहितं...वपुः, ११ स्थितावयं जैसे विशिष्ट पदवाक्योंका प्रयोग पाया जाता है उसी प्रकार पहली द्वार्तिशिकामें भी उक्त शब्दों तथा सम्बोधन पदोंके साथ १ प्रपञ्चितमूल्लकतर्कशासनैः, २ स्वपक्ष एव प्रतिबद्धमस्तराः, ३ परैरनालीढपथस्त्वयोदितः, ४ जगत् “ शेरते, ५त्वदीयमाहात्म्यविशेषसंभली... भारती, ६ समीक्ष्यकारिणाः, ७ अविन्त्यमाहात्म्यं, ८ भूतसहस्रनेत्रं, ९ त्वत्प्रति-चातनोन्मुखैः, १० वपुः स्वभावस्यमरक्षोणितं, ११ स्थितावयं जैसे विशिष्ट पद-वाक्योंका प्रयोग देखा जाता है, जो यथाक्रम स्वयम्भूत्स्तोत्रगत उक्त पदोंके प्रायः समकक्ष है। स्वयम्भूत्स्तोत्रमें जिस तरह जिनस्तवनके साथ जिनशासन-जिनप्रवचन तथा अनेकान्तका प्रशंसन एवं महव स्थापन किया गया है और वीरजिनेन्द्रके शामनमाहात्म्यको ‘नव जिनशासनविभवः जयति कलावपि गुणा-नुशासनविभवः’ जैसे शब्दों-द्वारा कलिकालमें भी जयवन्त बतनाया गया है उसी तरह इस द्वार्तिशिकामें भी जिनस्तुतिके साथ जिनशासनादिका संक्षेपमें कीर्तन किया गया है और वीरभगवानको ‘सच्छासनवद्धमान’ लिखा है।

इस प्रथम द्वार्तिशिकाके कर्ता सिद्धसेन ही यदि भगवानी चार द्वार्तिशिकाओंके भी कर्ता हैं, जैसाकि १० सुखलालजीका अनुमान है, तो पाँचों ही द्वार्तिशिकाएँ, जो वीरस्तुतिसे सम्बन्ध रखती हैं और जिन्हें मुख्यतया लक्ष्य करके ही आचार्य हेमचन्द्रने ‘कव सिद्धसेनस्तुतयो महारथः’ जैसे वाक्यका उच्चारण किया जान पड़ता है, स्वामी समन्तभद्रके उत्तरकालीन रचनाएँ हैं। इन सभीपर समन्त-भद्रके ग्रन्थोंकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है।

इस तरह स्वामी समन्तभद्र व्यायावत१के कर्ता, सम्मतिके कर्ता और उक्त द्वार्तिशिका अथवा द्वार्तिशिकायोंके कर्ता तीनों ही सिद्धसेनोसे पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। उनका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी है, जैसा कि दिग्म्बर पट्टा-बली ८ में शकसंवत् ६० (वि० सं० १६५) के उल्लेखानुसार दिग्म्बर-समाज-में आमतौरपर माना जाता है। इवेताम्बर पट्टाबलियोंमें उन्हे ‘सामन्तभद्र’ नाम-

के देखो, हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विषयक ढा० भाण्डरकर-की सन् १८८३-८४ की रिपोर्ट पृ० ३२०; मिस्टर लेविस राइसकी ‘इस्क्रिप-शन्स ऐट्रिवरणबैलोलकी प्रस्तावना भौर कर्णाटक शब्दानुशासनकी भूमिका।

से उल्लेखित किया है और उनके समयका पट्टाचार्यरूपमें प्रारम्भ बीरनिर्वाण-संवत् ६४३ अर्थात् वि० स० १७३ से बतलाया है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया है कि उनके पट्टशिष्यने बीर नि० स० ६६५ (वि० स० २२५) में एक प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दी के प्रथमचतुर्वर्ष तक पहुँच जाती है । इसमें समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता है और प्रायः एक ही ठहरता है ।

ऐसी वस्तुस्थितिमें प० सुखलालजीका अपने एक दूसरे लेख 'प्रतिभासूति सिद्धेनदिवाकर' में, जो कि 'भारतीयविद्या' के उसी अङ्कु (तृतीय भाग) में प्रकाशित हुआ है, इन तीनों ग्रन्थोंके बार्ता तीन सिद्धेनदिवाकरोंको एक ही सिद्धेनदिवाते हुए यह कहना कि 'यही सिद्धेनदिवाकर "आदि जैनताकिंक" — "जैन परम्परामें तर्कविद्याका और तकंप्रधान स्वरूप बाह्यका आदिप्रणेता", "आदि जैनकवि", "आदि जैनस्तुतिकार", "आद्य जैनवादी" ।' और "आद्य जैनदार्शनिक" है' क्या अर्थ रखता है और कैमे सङ्ग्रह हो सकता है ? इसे विज्ञ साठक स्वयं समझ सकते हैं । सिद्धेनदिवाकरोंके व्यक्तित्व और इन सब विषयोंमें उनकी विद्यायोग्यता एवं प्रतिभाके प्रति बहुमान रखते हुए भी स्वामी समन्तभद्रकी पूर्वस्थिति और उनकी अद्वितीय-अपूर्व साहित्यकी पहलेसे मौजूदजीमें मुझे इन सब उद्गारोंका कुछ भी मूल्य मालूम नहीं होता और न प० सुखलालजीके इन कथनोंमें कोई सार ही जान पड़ता है कि—(क) 'सिद्धेनका सम्मति प्रसरण जैनहष्टि और जैनसन्तव्योंको तर्कशैलीसे स्वष्टि करने तथा स्थापित करनेवाला जैनवाद्यमें सर्वप्रथम ग्रन्थ है' तथा (ख) 'स्वामी समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र और युक्तच-नुशासन नामक ये दो दार्शनिक स्तुतियाँ सिद्धेनकी कृतियोंका अनुकरण हैं ।' तर्कादि-विषयोंमें समन्तभद्रकी योग्यता और प्रतिभा किसीरों भी कम नहीं किन्तु

* कुछ पट्टावलियोंमें यह समय वी० नि० स० ५६५ अथवा विक्रमसंवत् १२५ दिशा है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनि कल्याणविजयने अपने द्वारा सम्पादित 'तपागच्छपट्टावली'में उसके सुधारकी सूचना की है ।

† देखो, मुनि श्रीकल्याणविजयजीके द्वारा सम्पादित 'तपागच्छपट्टावली' प० ७६-८१ ।

सर्वोपरि रही है, इसीसे अकलङ्कुदेव और विद्यानन्दादि-जैसे महान् तार्किकों-दार्शनिकों एवं वादविदारदों आदिने उनके यशका खुला गान किया है; भगव-जिनसेनने आदिपुराणमें उनके यशको कवियो, गमकों, वादियों तथा वादियोंके मस्तकपर चूडामणिकी तरह सुधोभित बतलाया है (इसी यशका पहली द्वार्शिकाके 'तव प्रश्निष्ठाः प्रवद्यन्ति यद्यशः' जैसे शब्दोंमें उल्लेख है) और साथ ही उन्हें कविग्रहा—कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विषयाता—लिखा है तथा उनके वचन-रूपी वज्रपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गये, ऐसा उल्लेख भी किया है । और इसलिये उपलब्ध जैनवाङ्मयमें समयादिककी हृषिसे आच तार्किकादि होनेका यदि किसीको मान आथवा श्रेय प्राप्त है तो वह स्वामी-समन्तभद्रको ही प्राप्त है । उनके देवागम (धारामीमांसा), पुरुषधनुशासन, स्वयम्भू-स्तोत्र और स्तुतिविद्या (जिनशतक) जैसे ग्रन्थ आज भी जैनसमाजमें अपनी जोड़का कोई ग्रन्थ नहीं रखते । इन्हीं ग्रन्थोंको मुनि कल्याणविजयजीने भी उन नियन्त्रणचूडामणि श्रीसमन्तभद्रकी कृतियाँ बतलाया हैं जिनका समय भी इवेताम्बर-मान्यतानुसार विक्रमकी दूसरी-शताब्दी है ॥ । तब सिद्धसेनको विक्रमकी ५वी शताब्दीका मान लेनेपर भी समन्तभद्रकी किसी कृतिको सिद्धसेनकी कृतिका अनुकरण कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ।

इस शब्द विवेचनपरसे स्पष्ट है कि प० सुखलालजीने सन्मतिकार सिद्धसेन को विक्रमकी पांचवीं शताब्दीका विद्वान् सिद्ध करनेके लिये जो प्रमाण उपस्थित किये हैं वे वे उस विषयको सिद्ध करनेके लिये बिल्कुल असमर्थ हैं । उनके दूसरे प्रमाणसे जिन सिद्धसेनका पूज्यपादसे पूर्ववर्तित्व एवं विक्रमकी पांचवीं शताब्दीमें होना पाया जाता है वे कुछ द्वार्शिकाओंके कर्ता हैं न कि सन्मतिसूत्रके, जिसका रचनाकाल नियुक्तिकार भद्रवाहुके समयसे पूर्वका सिद्ध नहीं होता और इन भद्रवाहुका समय प्रसिद्ध द्वेताम्बर विद्वान् मुनि श्रीचतुर-विजयजी और मुनि श्रीपुण्ड्रविजयजीने भी अनेक प्रमाणोंके आधारपर विक्रम-की छठी शताब्दीके प्रायः तृतीय चरण तकका निश्चित किया है । प० सुखलालजी

† विशेषके लिये देखो, 'सत्साधुस्मरण-मंगलपाठ' प० २५. से ५१ ।

॥ तपागच्छपट्टावली भाग पहला प० ८० ।

का उसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। अतः सन्मतिकार सिद्धेनका जो समय विक्रमकीद्धी शताब्दीके तृतीय चरण और सातवी शताब्दीके तृतीय चरणका मध्यवर्ती काल निर्धारित किया गया है वही समुचित प्रतीत होता है, जब तक कि कोई प्रबल प्रमाण उसके विरोध में सामने न लाया जावे। जिन दूसरे विद्वानोंने इस समयसे पूर्वकी अथवा उत्तरसमयकी कल्पना की है वह सब उक्त तीन सिद्धेनोंको एक मानकर उनमें से किसी एकके ग्रन्थको मुख्य करके की गई है प्रथात् पूर्वकी समय कल्पना द्वात्रिविकारोंके उल्लेखोंको लक्ष्यकरके और उत्तरका समय न्यायावतारको लक्ष्य करके कल्पित किया गया है। इस तरह तीन सिद्धेनोंकी एकत्रमान्यता ही सन्मतिसूत्रकारके ठीक समय निर्णयमें प्रबल बाधक रही है, इसीके कारण एक सिद्धेनके विषय अथवा तत्सम्बन्धी घटनाओंको दूसरे सिद्धेनोंके साथ जोड़ दिया गया है, और यही वजह है कि प्रत्येक सिद्धेनका परिचय थोड़ा-बहुत लिचड़ी बना हुआ है।

(ग) सिद्धेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन—

अब विचारणीय यह है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धेन किस सम्प्रदायके आचार्य ये प्रथात् दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं या इवेताम्बर सम्प्रदायसे और किस रूपमें उनका गुण-कीर्तन किया गया है। आचार्य उमास्वाति-(मी) और स्वामी समन्तभद्रकी तरह सिद्धेनाचार्यकी भी मान्यता दोनों सम्प्रदायोंमें पाई जाती है। यह मान्यता केवल विद्वत्ताके नाते सम्प्रदायोंमें आदर-सत्कारके रूपमें नहीं और न उनके किसी मन्तव्य अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित किसी वस्तुतत्त्व या सिद्धान्त-विशेषका ग्रहण करनेके कारण ही है बल्कि उन्हें अपने अपने सम्प्रदायके गुरुरूपमें माना गया है, गुरुविलियों तथा पटाविलियोंमें उनका उल्लेख किया गया है और उसी गुरुहठिसे उनके स्मरण, अपनी गुणज्ञताको साथमें व्यक्त करते हुए, लिखे गये हैं अथवा उन्हें अपनी अदाक्षलियां अपित की गई हैं। दिगम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धेनको सेन-गण (संघ) का आचार्य माना जाता है और सेनगणकी पटावली† में उनका

† देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १ पृ० ३८।

उल्लेख है। हरिवंशपुराण को शक्तसम्बत् ७०५ में बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने, पुराणके अन्तमें दी हुई अपनी गुरुवालीमें, सिद्धसेनके नामका भी उल्लेख किया है * और हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें समन्तभद्रके स्मरणानन्तर सिद्धसेनका जो गौरवपूर्ण स्मरण किया है वह इस प्रकार है—

अगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुष्टः ।

बोधयन्ति सतां बुद्धिं सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥३०॥

इसमें बतलाया है कि 'सिद्धसेनाचार्यकी निमंल सूक्तियाँ (मुन्द्र उक्तियाँ) जगत्प्रसिद्धबोध (केवलज्ञान) के धारक (भगवान्) वृषभदेवकी निर्दोष सूक्तियों- की तरह सत्पुरुषोंकी बुद्धिको बोधित करती है—विकसित करती है।'

यहाँ सूक्तियोंमें सम्मतिके साथ कुछ द्वार्तिशिकायोंकी उक्तियाँ भी शामिल समझी जा सकती हैं।

उक्त जिनसेनके द्वारा प्रशंसित भगवज्जिनसेनने आदिपुराणमें सिद्धसेनको अपनी हार्दिक श्रद्धाङ्गलि अपित दरते हुए उनका जो महत्वका कीर्तन एवं जयचोप किया है वह यहाँ आसतीरसे ध्यान देने योग्य है—

“कवय सिद्धसेनाद्या वयं तु कवयो मताः ।

मण्यः पश्चारागाद्या ननु काचोऽपि मेचकः ।

प्रवादि-करियूथानां केशरी नयकेशरः ।

सिद्धसेन-कविर्जिर्याद्विकल्प-नखरांकुरः ॥’

इन पदोंमेंसे प्रथमपदमें भगवज्जिनसेन, जो स्वयं एक बहुत बड़े कवि हुए है, लिखते हैं कि 'कवि तो (वास्तवमें) सिद्धसेनादिक हैं, हम तो कवि मान लिये गये हैं। (जैसे) मणि तो वास्तवमें पश्चारागादिक हैं किन्तु काच भी (कभी कभी किन्हींके द्वारा) मेचकमणि समझ लिया जाता है।' और दूसरे पदमें यह घोषणा करते हैं कि 'जो प्रवादिरूप हार्दिकोंके समूहके लिये विकल्प रूप-नुकीले नखोंसे युक्त और नयरूप केशरोंको धारण किये हुए केशरी सिंह हैं वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों—अपने प्रवचन-द्वारा मिथ्यावादियोंके मर्तोंका विरसन करते हुए सदा ही लोकहृदयोंमें अपना सिवका जमाए रखते—अपने

* सिद्धसेनोऽभ्य-भीमसेनकी गुरु परी ती जिन-शान्तिसेनकी ॥६६-२६॥

वचन-प्रभावको अद्भुत किये रहें।'

यहाँ सिद्धसेनका कविरूपमें स्मरण किया गया है और उसीमें उनके वादित्यगुणको भी समाविष्ट किया गया है। प्राचीन समयमें कवि साधारणे कविता-सायरी करनेवालोंको नहीं कहते थे बल्कि उस प्रतिभाशाली विडानको कहते थे जो नये नये सन्दर्भ, नई-नई भौलिक रचनाएं तथ्यार करनेमें समर्थ हो अथवा प्रतिभा ही जिसका उड़जीवन हो, जो नाना बण्णनाश्रोंमें निपुण हो, कृती हो, नाना अभ्यासोंमें कुणाग्रबुद्धि हो और व्युत्पत्तिमान (लौकिक व्यवहारोंमें कुशल) हो फँ। दूसरे पदमें सिद्धसेनको केशारी सिंहकी उपमा देते हुए उनके माथ जो 'नय-केशरः' और विकल्प-नखराङ्कुरः' जैसे विशेषण लगाये गए हैं उनके द्वारा खास तीरपर सन्मतिमूल लक्षित किया गया है, जिसमें नयोंका ही मुख्यतः विवेचन है और अनेक विकल्पों द्वारा प्रवादियोंके मन्तव्यों-मान्यसिद्धान्तोंका विदारण (निरसन) किया गया है। इसी सन्मतिसूत्रका जिनसेनने जयधवलामें और उनके गुह वीरसेनने धवलामें उल्लेख किया है और उसके साथ घटिन किये जानेवाले विरोधका परिहार करते हुए उसे अपना एक मान्य ग्रन्थ प्रकट किया है; जैसा कि इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके उन वाक्योंमें प्रगट हैं जो इस लेखके प्रारम्भिक फुटनोटमें उद्घृत किये जा चुके हैं।

नियमसारकी टीकामें पद्धतिम ललधारिदेवने 'सिद्धान्तोद्धशीघ्रं सिद्धसेन...' '...वन्दे' वाक्यके द्वारा सिद्धसेनकी वन्दना करते हुए उन्हें 'सिद्धान्तकी जानकारी एवं प्रतिपादनकौशलरूप उच्चश्रीके स्वामी' सूचित किया है। प्रतापकीर्तिने आचार्यपूजाके प्रारम्भमें दी हुई गुर्वावलीमें 'सिद्धान्तपाठ्योनिविलब्धपारः श्री-सिद्धसेनोऽपि गणस्य सारः' इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनको 'सिद्धान्तसागरके पारागमी' और 'गणके सारभूत' बतलाया है। मुनिकनकामरने, 'करकंहुचरित्त' में, सिद्धसेनको समन्तभद्र तथा अकलज्ञदेवके समकक्ष 'श्रुतजलके समुद्र' के रूपमें

फँ 'कविन् तनसन्दर्भः'।

'प्रतिभोज्जीवनो नाना-बण्णना-निपुणः कविः ।

नानाऽभ्यास-कुशाश्रीयमतिर्बुद्धत्तिमान् कविः ॥' — अलज्ञारचिन्तामणि

फँ 'तो सिद्धसेण सुसमन्तभद्र अकलंकदेव सुमन्तसमुद्र ॥' क० २

उल्लेखित किया है। ये सब अद्वाजलि-भय दिगम्बर उल्लेख भी सन्धानिकार-सिद्धसेनसे सम्बन्ध रखते हैं, जो खास तौरपर सैद्धान्तिक थे और जिनके इस सैद्धान्तिकत्वका अच्छा आभास ग्रन्थके अन्तिम काण्डकी उन गाथाओं (६१ आदि) से भी मिलता है जो श्रुतधर-शब्दसन्तुष्टों, भक्तसिद्धान्तज्ञों और शिष्य-गणपत्रिवृत-वहुश्रुतमन्योंकी आलोचनाको लिए हुए हैं।

इवेताम्बर-सम्प्रदायमें आचार्य सिद्धसेन प्रायः 'दिवाकर' विशेषण अथवा उपपद (उपनाम) के साथ प्रसिद्धिको प्राप्त है। उनके लिये इस विशेषण-पदके प्रयोगका उल्लेख इवेताम्बर-साहित्यमें सबसे पहले हरिभद्रसूरिके 'पञ्चवस्तु' ग्रन्थमें देखनेको मिलता है, जिसमें उन्हें दुःखमाकालरूप रात्रिके लिये दिवाकर (सूर्य) के समान होनेसे 'दिवाकर' की आरूप्याको प्राप्त हुए लिखा है †। इसके बादसे ही यह विशेषण उधर प्रचारमें आया जान पड़ा है; क्योंकि इवेताम्बर चूर्णियों तथा भल्लवादीके नयचक्र-जैसे प्राचीन ग्रन्थोमें जहाँ सिद्धसेनका नामो-ललेख है वहाँ उनके साथमें 'दिवाकर' विशेषणका प्रयोग नहीं पाया जाता है ‡। हरिभद्रके बाद विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान् अभयदेवसूरिने सन्मतिटीकाके प्रारम्भमें उसे उसी दुःखमाकालरात्रिके अन्धकारको दूर करनेवालेके अर्थमें अपनाया है *।

इवेताम्बर-सम्प्रदायकी पट्टावलियोंमें विक्रमकी छठी शताब्दी आदिकी जो प्राचीन पट्टावलियाँ हैं—जैसे कल्यसूत्रस्थविरावली (थेरावली), नन्दीसूत्रपट्टा-वली, दुःखमाकाल-अमरणासघस्तव—उनमें तो सिद्धसेनका कहीं कोई नामोल्लेख

† आयरिदसिद्धसेणेण सम्भइए पइटिप्रजसेणं ।

दूसमणिसा-दिवागर-कप्यन्तरणाऽत तदक्षेणं ॥ १०४८ ।

‡ देखो, सन्मतिसूत्रकी शुक्रराती प्रस्तावना ३०, ३६, ३७ पर निशीथचूर्णि (उद्देश ४) और दशाचूर्णिके उल्लेख तथा पिछले समय-सम्बन्धी प्रकरणमें उद्घृत नयचक्रके उल्लेख ।

* “इति मन्वान आचार्यो दुखमाडसमाव्यामासमयोऽद्वृतसमस्तजनाहादै-सन्तमसविद्वासकत्वेनावावासवयार्थभिवानः सिद्धसेनदिवाकरः तदुपारमूतसम्मत्या-स्यप्रकरणकरणे प्रवर्तयानः”.....स्तवाभिवायिकां गायामाह ।”

ही नहीं है। दुष्माकालशमणसंघकी अवचूरिमें, जो विक्रमकी ६वीं शताब्दीसे बादकी रचना है, सिद्धसेनका नाम ज़रूर है किन्तु उन्हें 'विवाकर' न लिखकर 'प्रभावक' लिखा है और साथ ही वर्माचार्यका शिष्य सूचित किया है—
बृद्धवादीका नहीं—

"अत्रान्तरे घर्माचार्य-शिष्य-श्रीसिद्धसेन-प्रभावकः ॥"

दूसरी विक्रमकी १५वीं शताब्दी आदिकी बनी हुई पट्टावलियोंमें भी कितनी ही पट्टावलियाँ ऐसी हैं जिनमें सिद्धसेनका नाम नहीं है—जैसे कि मुहुरपर्वक्रम-वर्णन, तपागच्छपट्टावलीसूत्र, महावीरपट्टपरम्परा, युगप्रधानसम्बन्ध (लोक-प्रकाश) और सूरिपरम्परा । हाँ, तपागच्छपट्टावलीसूत्रकी वृत्तिमें, जो विक्रमकी १७वीं शताब्दी (सं० १६४८) की रचना है, सिद्धसेनका 'दिवाकर' विशेषण-के साथ उल्लेख ज़रूर पाया जाता है । यह उल्लेख मूल पट्टावलीकी ५वीं गाया-की व्याख्या करते हुए पट्टाचार्य इन्द्रदिव्यन्सूरिके अनन्तर और दिन्दिन्सूरिके पूर्वकी व्याख्यामें स्थित है ॥ इन्द्रदिव्यन्सूरिको सुस्थित और सुप्रतिबुद्धके पट्टपर दसवीं पट्टाचार्य बतलानेके बाद 'अत्रान्तरे' शब्दोंके साथ कालकसूरि आर्यखपट्टाचार्य और आर्यमंगुका नामोङ्गेख समयनिर्देशके साथ किया गया है और फिर लिखा है—

"बृद्धवादी पादलिप्तश्चात्र । तथा सिद्धसेनदिवाकरो येनोउज्जयिन्यां महाकाल-प्रासाद-रुद्रलिंगस्फोटनं विधाय कल्याणमन्दिरस्तवेन श्री-पार्श्वनाथविम्बं प्रकटीकृतं, श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्राज्यं तु श्रीवीरसम्पत्तिवर्षशतचतुष्टये भृ७० संजातं ।"

इसमें बृद्धवादी और पादलिप्तके बाद सिद्धसेनदिवाकरका नामोङ्गेख करते हुए उन्हें उज्जयिनीमें महाकालमन्दिरके रुद्रलिंगका कल्याणमन्दिरस्तोत्रके द्वारा स्फोटन करके श्रीपार्श्वनाथविम्बको प्रकट करनेवाला और विक्रमादित्यराजाको प्रतिबोधित करनेवाला लिखा है । साथ ही विक्रमादित्यका राज्य वीरनिवारणसे ४७० वर्ष बाद हुआ निर्दिष्ट किया है, और इस तरह सिद्धसेन दिवाकरको विक्रमकी प्रथम शताब्दीका विद्वान् बतलाया है, जो कि उल्लेखित विक्रमादित्य-

॥ देखो, मुनि दर्शनविजय-द्वारा सम्पादित 'पट्टावलीसमुच्चय' प्रथम भाग ।

को गलतरूपमें समझनेका परिणाम है। विक्रमादित्य नामके अनेक राजा हुए हैं। यह विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य नहीं है जो प्रचलित संवत्का प्रबत्तक है, इस बातको प० सुखलालजी प्रादिने भी स्वीकार किया है। अस्तु; तपागच्छ-पदावलीकी यह वृत्ति जिन आधारोंपर निर्मित हुई है उनमें प्रधान पद तपागच्छ-की मुनि सुन्दरसूरिकृत गुरुविलीको दिया गया है, जिसका रचनाकाल विक्रम संवत् १४६६ है। परन्तु इस पट्टावलीमें भी सिद्धसेनका नामोल्लेख नहीं है। उक्त वृत्तिसे कोई १०० वर्ष बादके (वि० सं० १७३६ के बादके) बने हुए 'पट्टावलीसारोद्धार' मन्त्रमें सिद्धसेनदिवाकरका उल्लेख प्रायः उन्हीं शब्दोंमें दिया है जो उक्त वृत्तिमें 'तथा' से 'संजातं' तक पाये जाते हैं । और यह उल्लेख इन्द्रदिवस्सूरिके बाद 'ग्रान्तरे' शब्दोंके साथ मात्र कालकसूरिके उल्लेखानन्तर किया गया है—ग्रायंखपुट्ट, ग्रायंमणु, वृद्ध बादी और पादलित नामके ग्राचार्योंका कालकसूरिके अनन्तर और सिद्धसेनके पूर्वमें कोई उल्लेख ही नहीं किया है। वि० स० १७३६ से भी बादकी बनी हुई श्रीगुरुपट्टावलीमें भी सिद्धसेनदिवाकर-का नाम उज्जयिनीकी लिंगस्फोटन-सम्बन्धी घटनाके साथ उल्लेखित है * ।

इस तरह श्वे० पट्टावलियों—गुरुविलियोंमें सिद्धसेनका दिवाकररूपमें उल्लेख विक्रमकी १५वीं शताब्दीके उत्तराधंसे पाया जाता है कतिपय प्रबन्धोंमें उनके इस विशेषणका प्रयोग सौ-दो सौ वर्ष और पहलेसे हुआ जान पड़ता। रही स्मरणोंकी बात, उनकी भी प्रायः ऐसी ही हालत है—कुछ स्मरण दिवाकर-विशेषणको साथमें लिये हुए हैं और कुछ नहीं हैं। श्वेताम्बर-साहित्यसे सिद्धसेनके श्रद्धाल्पिरूप जो भी स्मरण अभी तक प्रकाशमें आये हैं वे प्रायः

† “तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरोपि जातो येनोज्जयिन्यां महाकालप्राप्तादे रुद्र-लिंगस्फोटनं कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्रीपाश्वनाथविम्बं प्रकृटीकृत्य श्री-विक्रमादित्यराजापि प्रतिबोधितः श्रीवीरनिवणित् ससतिवर्षाधिक शतचतुष्टये ४७० इतिकमे श्रीविक्रमादित्यराज्यं संजातं ॥ १० ॥ पट्टावलीसमुच्चय पृ० १५०

* “तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगर्या महाकालप्राप्तादे लिंगस्फोटनं विवाय स्तुत्या ११ काव्ये श्रीपाश्वनाथविम्बं प्रकृटीकृतं, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं कृतं ॥” — पट्टा० स० पृ० १६६

इस प्रकार हैः—

(क) उदितोऽहंमत-व्योम्निं सिद्धसेनदिवाकरः ।

चित्रं गोभिः क्षितौ जहे कविराज-बुध-प्रभा ॥

यह विक्रमकी १३वीं शताब्दी (वि० सं० १२५२) के ग्रन्थ अममचरित्रका पद्धति है। इसमें रत्नसूरि अलङ्कार-भाषाको अपनाते हुए कहते हैं कि ‘अहंमत-रूपी आकाशमें सिद्धसेन-दिवाकरका उदय हुआ है, आश्चर्य है कि उसकी वचनरूप-किरणोंमें पृथ्वीगर कविराजकी—बृहस्पतिरूप ‘शेष’ कविकी—ओर बुधकी—बुधपहरूप विद्वांगंकी—प्रभा लडिजत हो गई—फीकी पढ़ गई है।’

(ख) तमनोम स हन्तु श्रीसिद्धसेनदिवाकरः ।

यस्यांद्ये स्थितं मूकैरुलूकैरिव वादिभिः ॥

यह विक्रमकी १४वीं शताब्दी (सं० १३२४) के ग्रन्थ समरादित्यका वाक्य है, जिसमें प्रचुरमन्सूरिने लिखा है कि ‘वे श्रीसिद्धसेन दिवाकर (अज्ञान) अन्धकारके समूहको नाश करें जिनके उदय होनेपर बादीजन उल्लुओं-की तरह मूक होरहे थे—उन्हें कुछ बोन नहीं आता था।’

(ग) श्रीसिद्धसेन-हरिभद्रमुरवाः प्रसिद्धा-

स्तेसूरयो मयि भवन्तु कृतप्रसादाः ।

येषां विमृश्य सतत विविधात्रिवन्धान्,

शास्त्रं चिकीषति तनुप्रतिभोऽपि माटक् ॥

यह ‘स्पादादरत्नाकर’ का पद्धति है। इसमें १२वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान्-द्वारिद्रदेवमूरि लिखते हैं कि ‘श्रीसिद्धसेन और हरिभद्र जैसे प्रसिद्ध आचार्य मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, जिनके विविध निवन्धोंपर बार-बार विचार करके मेरे जैसा अल्प-प्रतिभाका धारक भी प्रस्तुत शास्त्रके रचनेमें प्रवृत्त होता है।’

(घ) क्व सिद्धसेन-स्तुतयो महार्था अशिक्षितालापकला क्व चैषा ।

तथाऽपि यूथाधिष्ठेः पथस्थः स्वलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्यः ॥

यह विक्रमकी १२वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य हेमचन्द्रकी एक द्वारिशिका-स्तुतिका पद्धति है। इसमें हेमचन्द्रसूरि सिद्धसेनके प्रति अपनी अद्भुतजलि अर्पण करते हुए लिखते हैं कि ‘कहाँ तो सिद्धसेनकी महान् अर्थावसी

गम्भीर स्तुतियाँ और कहीं अधिक्षित मनुष्योंके आलाप-असो भरी वह रचना ? किर भी यूथके अधिपति गजराजके पथपर बलता हुआ उसका बच्चा (जिस प्रकार) स्खलितगति होता हुआ भी शोचकीय नहीं होता—उसी प्रकार मैं भी अपने यूथाधिपति आचार्यके पथका अनुसरण करता हुआ स्खलित होनेपर शोचकीय नहीं हूँ ।

यहीं 'स्तुतयः' 'यूथाधिपते:' और 'तस्य शिशुः' ये पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । 'स्तुतयः' पदके द्वारा सिद्धेनीय मन्थोंके रूपमें उन द्वात्रिशिकाओं-की सूचना की गई है जो स्तुत्यात्मक हैं और शेष पदोंके द्वारा सिद्धेनको अपने सम्प्रदायका प्रमुख आचार्य और अपनेको उनका परम्परा-विविध घोषित किया गया है । इस तरह इवेताम्ब८-सम्प्रदायके आचार्यरूपमें यहाँ वे सिद्धेन विवक्षित हैं जो कर्तिपय स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाओंके कर्ता हैं, न कि वे मिद्देन जो कि स्तुतिभिन्न द्वात्रिशिकाओंके अथवा खासकर सन्मतिसूचके रचयिता हैं । इवेता-म्बरीय प्रबन्धोमें भी, फ॒.नका कितनाही परिचय ऊपर आनुका है, उन्हीं सिद्धेनका उल्लेख मिलता है जो प्रायः द्वात्रिशिकाओं अथवा द्वात्रिशद्वात्रिशिका-स्तुतियोंके कर्तारूपमें विवक्षित है । सन्मतिसूचका उन प्रबन्धोमें कहीं कोई उल्लेख हो नहीं है । ऐसी स्थितिमें सन्मतिकार सिद्धेनके लिये जिस 'दिवाकर' विशेषणका हरि-भद्रसूरिने उल्लेख किया है वह वादको नाम-साम्यादिके कारण द्वात्रिशिकाओंके कर्ता सिद्धेन एवं न्यायावतारके कर्ता सिद्धेनके साथ भी जुड़ गया मालूम होता है और सम्भवतः इस विशेषणके जुड़ जानेके कारण ही तीनों सिद्धेन एक ही समझ लिये गये जान पड़ते हैं । अन्यथा, प० सुखलालजी आदिके शब्दो- (प्र० प० १०३) में 'जिन द्वात्रिशिकाओंका स्वान सिद्धेनके गन्थोंमें चढ़ना हुआ है' उन्हींके द्वारा सिद्धेनको प्रतिष्ठितयश बतलाना चाहिये था, परन्तु हरिभद्रसूरिने वैसा न करके सन्मतिके द्वारा सिद्धेनका प्रतिष्ठितयश होना प्रतिशादित किया है और इससे यह साफ़ घबनि निकलती है कि सन्मतिके द्वारा प्रतिष्ठितयश होनेवाले सिद्धेनसे प्रावः भिन्न हैं जो द्वात्रिशिकाओंको रचकर यशस्वी हुए हैं ।

हरिभद्रसूरिके कथनानुसार जब सन्मतिके कर्ता सिद्धेन 'दिवाकर'की आवश्य-को प्राप्त ये तब वे प्राचीनसाहित्यमें सिद्धेन नामके बिना 'दिवाकर' नामसे भी

उल्लेखित होने चाहिये, उसी प्रकार जिस प्रकार समन्तभद्र 'स्वामी' नाम से उल्लेखित मिलते हैं ॥ ६ ॥ जो ज करनेपर इवेताम्बरसाहित्यमें इसका एक उदाहरण 'अजरक्षनं दिसेणो' नामकी उम गाथामें मिलता है जिसे मूँनि पुष्पविजयजीने अपने 'छेदसूत्रकार और निर्दुक्तिकार' नामकी लेखमें 'पावयणी घम्मकही' नामकी गाथाके साथ उदधृत किया है और जिसमें आठ प्रभावक आचार्योंकी नामाबली देते हुए 'दिवायरो' पदके द्वारा सिद्धसेनदिवाकरका नाम भी सूचित किया है । ये दोनो गाथाएं पिछले समयादिसम्बन्धी प्रकरणके एक फुटनोटमें उक्त लेखकी चर्चा करते हुए उदधृत की जा चुकी है । दिग्म्बर साहित्यमें 'दिवाकर' का यतिरूपसे एक उल्लेख रविषेणाचार्यके पदचरितकी प्रशस्तिके निम्न वाक्यमें पाया जाता है, जिसमें उन्हें इन्द्र-गुरुका शिष्य, अहंमुनिका गुरु और रविषेणके गुरु लक्ष्मणसेनका दादागुरु प्रकट किया है:—

आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकर-यतिः शिष्योऽस्य चार्हन्मुनिः ।

तस्माल्लक्ष्मणसेन-सन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतम् ॥ १२३-१६७ ॥

इस पदमें उल्लेखित दिवाकरयतिका सिद्धसेनदिवाकर होना दो कारणोंसे अधिक सम्भव जान पड़ता है—एक तो समयकी हड्डिसे और दूसरे गुरु-नामकी हड्डिसे । पदचरित वीरनिर्बाणसे १२०३ वर्ष ६ महीने बीतनेपर अर्थात् विक्रम-संवत् ७३४ में बनकर समाप्त हुआ है । इससे रविषेणके पढ़दादा (गुरुके दादा) गुरुका समय लगभग एक शताब्दी पूर्वका अर्थात् विक्रमकी सातवी शताब्दीके द्वितीय चरण (६२६-६५०) के भीतर आता है जो सन्मतिकार सिद्धसेनके लिये ऊपर निश्चित किया गया है । दिवाकरके गुरुका नाम यहाँ इन्द्र दिया है, जो इन्द्रसेन या इन्द्रदत्त आदि किसी नामका संबिल रूप अथवा एक देश मालूम होता है । इवेताम्बर-पट्टावलियोंमें जहाँ सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लेख किया है वहाँ इन्द्रदिन नामक पट्टाचार्यके बाद 'अन्नातरे' जैसे शब्दोंके साथ उस नामकी वृद्धि की गई है । हो सकता है कि सिद्धसेनदिवाकर

६ देखो, माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रसनकरणहप्रावकाचारकी प्रस्तावना पृ० ८ ।

६ द्वितीयाभ्यष्ठिके समाप्तहस्ते समतीतेऽद्यचतुर्थकवर्षयुक्ते ।

जिनभास्कर-वर्द्धमान-सिद्धे चरितं मुनेरिदं निबद्धन् ॥ १२३-१६१ ॥

के गुरुका नाम इन्द्र-जैसा होने और सिद्धसेनका सम्बन्ध आच विक्रमादित्य अथवा संवत्प्रवर्तक विक्रमादित्यके साथ समक्ष लेनेकी भूलके कारण ही सिद्धसेनदिवाकरको इन्द्रदिन आचार्यकी पट्टबाहु-शिष्यपरम्परामें स्थान दिया गया हो । यदि यह कल्पना ठीक है और उक्त पदमें 'दिवाकरयति' पद सिद्धसेनाचार्यका वाचक है तो कहना होगा कि सिद्धसेनदिवाकर रविषेणुचार्य-के पड़दादाशुर होनेसे दिगम्बर-सम्प्रदायके आचार्य थे । अन्यथा यह कहना अनुचित न होगा कि सिद्धसेन प्रपने जीवनमें 'दिवाकर'की आस्थाको प्राप्त नहीं थे, उन्हें यह नाम अथवा विशेषण बादको हरिभद्रसूरि अथवा उनके निकटवर्ती कि-ती पूर्वचार्यने अलङ्कारकी भाषामें दिया है और इसीसे सिद्धसेनके लिए उसका स्वतन्त्र उल्लेख प्राचीन साहित्यमें प्राप्त: देखनेको नहीं मिलता । श्वेताम्बर-साहित्यका जो एक उदाहरण ऊपर दिया गया है वह रत्नशेखर सूरिकृत गुरुभुणष्टिविकासी स्वोपञ्चवृत्तिका एक वाक्य होनेके कारण ५०० वर्षसे अधिक पुराना मालूम नहीं होता और इस लिये वह सिद्धसेनकी दिवाकररूपमें बहुत बादकी प्रसिद्धि से सम्बन्ध रखता है । आजकल तो सिद्धसेनके लिये दिवाकर नामके प्रयोगकी बाइ-सी आरही है; परन्तु अति प्राचीनकालमें वैसा कुछ भी मालूम नहीं होता ।

यहाँपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि उक्त देवताम्बर-प्रबन्धों तथा पट्टावलियोंमें सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीके महाकाल-मन्दिरमें लिङ्गस्फोटनादि-सम्बन्धिनी जिस घटनाका उल्लेख मिलता है उसका वह उल्लेख दिगम्बर-सम्प्रदायमें भी पाया जाता है, जैसा कि सेवणकी पट्ट-वलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

“(स्वस्ति) श्रीमद्वजयिनीमहाकाल-संस्थापन-महाकाललिंगमहीधर-वाग्वज्रदण्डविष्ट्याविष्ट्कृत-श्रीपार्श्वतीर्थेश्वर-प्रतिद्वन्द-श्रीसिद्धसेनभट्टार-काणाम् ॥ १४ ॥”

ऐसी स्थितिमें छात्रिगिकाभ्योंके कर्ता सिद्धसेनके विषयमें भी सहज अथवा निर्दिचतरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे एकान्ततः श्वेताम्बर-सम्प्रदायके थे, सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनकी तो बात ही जुदी है । परन्तु सन्मतिकी प्रस्तावनामें ५० सुखसालजी और पण्डित वैचरदासजीने उन्हें एकान्ततः श्वे-

ताम्बर-सम्प्रदायका आचार्य प्रतिपादित किया है—लिखा है कि ‘वे इवेताम्बर थे, दिगम्बर नहीं’ (पृ० १०४)। परन्तु इस बातको सिद्ध करनेवाला कोई समर्थ कारण नहीं बतलाया, कारण रूपमें केवल ‘इतना ही निर्देश किया है कि ‘महा-’ वीरके गृहस्थाश्रम तथा चमरेन्द्रके शरणागमनकी बात सिद्धसेनने बर्णन की है जो दिगम्बरपरम्परामें मान्य नहीं किन्तु इवेताम्बर, आगमोके द्वारा निर्विवादरूपसे मान्य है’ और इसके लिये फुटनोटमें ५वीं द्वात्रिशिकाके छठे और दूसरी द्वात्रिशिकाके तीसरे पद्मको देखनेकी प्रेरणा की है, जो निम्न प्रकार है—

“अनेकजन्मान्तरभग्नमानः स्मरो यशोदाप्रिय यत्पुरस्ते ।

चचार निर्हीकशारस्तमर्थं त्वमेव विद्यासु नयज्ञ कोऽन्यः ॥५-६॥”

‘कृत्या नवं सुरवधूभयोमहर्षं दैत्याधिपः शतमुख-भ्रकुटीवितानः । रवत्पादशान्तिगृहसश्रयलब्धचेता लड्जातनुशुति हरेः कुलिशं चकार ॥२-३

इनमेंसे प्रथम पद्ममें लिखा है कि ‘हे यशोदाप्रिय ! दूसरे अनेक जन्मोमें भग्नमान हुआ कामदेव निर्लज्जतारूपी बाणको लिये हुए जो आपके सामने कुछ चला है उसके अर्थको आप ही नयके ज्ञाता जानते हैं, दूसरा और कौन जान सकता है ? अर्थात् यशोदाके साथ आपके वैवाहिक सम्बन्ध अथवा रहस्यको समझनेके लिए हम असमर्थ हैं !’ दूसरे पद्ममें देवाम्बुर सद्ग्रामके रूपमें एक घटनाका उल्लेख है, ‘जिसमें दैत्याधिप असुरेन्द्रने सुरवधुयोको भयभीतकर उनके रोंगटे खड़े कर दिये। इससे इन्द्रकी भ्रकुटी तन गई और उसने उसपर वज्र छोड़ा, असुरेन्द्रने भागकर वीरभगवानके चरणोका आश्रय लिया जो कि शान्तिके धार हैं और उनके प्रभावसे वह इन्द्रके वज्रको लड्जासे छीणशुति करनेमें समर्थ हुआ ।’

अलंकृत भाषामें लिखी गई इन दोनों पीराणिक घटनाओंका इवेताम्बर-सिद्धान्तोंके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं है और इसलिये इनके इस रूपमें उल्लेख मात्रपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि इन पद्मोके लेखक सिद्धसेन वास्तवमें यशोदाके साथ भ० महावीरका विवाह होना और असुरेन्द्र (चमरेन्द्र) का सेना सजाकर तथा अपना भयकर रूप बनाकर युद्धके लिये स्वर्गमें जाना आदि मानते थे, और इसलिये इवेताम्बर-सम्प्रदायके आचार्य थे; क्योंकि प्रथम तो इवेताम्बरों-

के आवश्यकनिर्दुर्लिङ्ग शाटि कुछ शाब्दीन आगमोंमें भी हिमन्वर आवज्ञोंकी तरह भगवान् महावीरको कुमारभगवान्के रूपमें अविवाहित प्रतिपादित किया है ॥ और प्रसुरकुमार-जातिविशिष्ट-बनवार्सी देवोंके अधिपति चमरेन्द्रका युद्धकी भावनाको लिये हुए सैन्य सजाकर स्वर्गमें जाना सैद्धान्तिक मान्यताओंके विशद जान पड़ता है । दूसरे, यह कथन परवक्तव्यके रूपमें भी हो सकता है और आग-मसूरोंमें कितना ही कथन परवक्तव्यके रूपमें पाया जाता है इसकी स्पष्ट सूचना सिद्धसेनाचार्यने सन्धितिसूक्ष्ममें की है और लिखा है कि जाता पुरुषको (युक्ति-प्रमाण-द्वारा) अधिकी संगतिके अनुसार ही उनकी व्याख्या करनी चाहिए ॥

यदि किसी तरहपर यह मान लिया जाय कि उक्त दोनों पद्धोंमें जिन घटनाओंका उल्लेख है वे परवक्तव्य या इवेताम्बरोंके रूपमें न होकर शुद्ध इवेताम्बरोंकी मान्यताएँ हैं तो इससे केवल इतना ही फलित हो सकता है कि इन दोनों द्वात्रिशिकायों (२, ५) के कर्ता जो सिद्धसेन हैं वे इवेताम्बर ये । इससे अधिक यह फलित नहीं हो सकता कि दूसरी द्वात्रिशिकायों तथा सन्धितिसूक्ष्मके कर्ता सिद्धसेन भी इवेताम्बर ये, जब तक कि प्रबल युक्तियोंके बलपर इन सब ग्रन्थोंका कर्ता एक ही सिद्धसेन सिद्ध न कर दिया जाय; परन्तु वह सिद्ध नहीं है जैसा कि पिछले एक प्रकरणमें व्यक्त किया जा चुका है । और फिर इस फलित होनेमें भी एक बाधा और आती है और वह यह कि इन द्वात्रिशिकायोंमें कोई कोई बात ऐसी भी पाई जाती है जो इनके शुद्ध इवेताम्बर कृतियाँ होनेपर नहीं बनती, जिसका एक उदाहरण तो इन दोनोंमें उपर्योगद्वयके युगपत्वादका प्रतिपादन है, जिसे पहले प्रकाशित किया जा चुका है और जो दिग्म्बर-परम्परा-का सर्वोत्तम मान्य सिद्धान्त है तथा इवेताम्बर आगमोंकी क्रमवाद-मान्यताके विरुद्ध जाता है । दूसरे उदाहरण पांचवीं द्वात्रिशिकायाका निम्न वाक्य है:—

‘देखो, आवश्यकनिर्दुर्लिङ्ग शाशा २२१, २२२, २२६ तथा अनेकान्त वर्ष ४ किं ११-१२ पृ० ५७६ पर प्रकाशित ‘इवेताम्बरोंमें भी भगवान् महावीरके अविवाहित होनेकी मान्यता’ नामक लेख ।

^१ परवक्तव्यमहत्वा अविसिद्धा सेवु सेवु सुत्तेसु ।

प्रत्यग्रूह्य च तेऽसि वियंजयं बाख्यप्रो कुरुण्ह ॥ २-१८॥

- “नाथ त्वया देशितसत्पथस्थाः स्त्रीचेतसोऽयाशु जयन्ति मोहम् ।
- नैवाऽन्यथा शीघ्रगतिर्था गां प्राची यियासुर्विपरीक्षायी ॥२५॥”

इसके पूर्वार्थमें बतलाया है कि ‘हे नाथ !—बीरजिन !—ओपके बर्तलाये हुए सन्मार्गपर स्थित वे पुरुष भी शीघ्र मोहको जीत लेते हैं—मोहनीयकर्मके सम्बन्धका अपने आत्माने पूर्णत विच्छेद कर देते हैं—जो ‘स्त्रीचेतस’ होते हैं—स्त्रियो-जैसा चित्त (भाव) रखते हैं अर्थात् भावस्त्री होते हैं ।’ और इससे यह साप छवनित है कि स्त्रिया मोहको पूर्णत जीतनेमें समर्थ नहीं होती, तभी स्त्रीचित्तके लिये मोहको जीतनेकी बात गौरवको प्राप्त होती है । इवेताम्बर-सम्प्रदायमें जब स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी तरह मोहपर पूर्ण विजय प्राप्त करके उसी भवसे मुक्तिको प्राप्त कर सकती हैं तब एक इवेताम्बर विद्वान्के इस कथनमें कोई महत्व मालूम नहीं होता कि ‘स्त्रियो-जैसा चित्त रखनेवाले पुरुषों भी शीघ्र मोहको जीत लेते हैं,’ वह निरर्थक जान पड़ता है । इस कथनका महत्व दिग्म्बर विद्वानोंके मुख्यसे उच्चरित होनेमें ही है जो स्त्रीको मुक्तिकी अधिकारिणी नहीं मानते फिर भी स्त्रीचित्तवाले भावस्त्री पुरुषोंके लिये मुक्तिका विधान करते हैं । अतः इस वाक्यके प्रयोग सिद्धसेन दिग्म्बर होने चाहिये, न कि इवेताम्बर और यह समझना चाहिये कि उन्होंने इसी द्वात्रिविशिकाके छठे पद्ममें ‘यशोदाप्रिय’ पदके साथ जिस घटनाका उल्लेख किया है वह अलङ्कारकी प्रधानताको लिये हुए परवक्तव्यके रूपमें उसी प्रवारका कथन है जिस प्रकार कि ईश्वरको कर्ता-हर्ता न माननेवाला एक जैनकवि ईश्वरको उल्लहना अथवा उसकी रचनामें दोष देता हुआ लिखता है—

‘हे विधि ! भूल भई तुमर्ते, समुझे न कहाँ कस्तूरि बनाई !

दीन कुरङ्गनके तनमें, तृन दन्त धरैं करुना नहिं आई ॥

क्यों न रची तिन जीभनि जे रस-कल्प्य करै परको दुखदाई ।

साधु-अनुप्रह दुर्जन-दण्ड, दुर्हृं सधते विसरी चतुराई ॥’

इस तरह सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनको इवेताम्बर सिद्ध करनेके लिये जो द्वात्रिविशिकाओंके उक्त दो पद्म उपस्थित किये नहुँहैं, उनमें सन्मतिकार सिद्धसेनका इवेताम्बर सिद्ध होना तो दूर रहा, उन् द्वात्रिविशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनका भी इवेताम्बर होना प्रमाणित नहीं होता जिनके उक्त दोनों पद

भक्तुकां हैं। इवेताम्बरत्वकी सिद्धि के लिये दूसरा और कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया और इससे यह भी साफ मालूम होता है कि स्वयं सन्मतिसूत्रमें ऐसी कोई जरूर नहीं है जिससे उसे दिगम्बरकृति न कहकर इवेताम्बरकृति कहा जा सके, अन्यथा उसे जरूर उपस्थित किया जाता। सन्मतिमें ज्ञान-दर्शनोपयोगके अभेदवादकी जो खास बात है वह दिगम्बर मान्यताके अधिक निष्ठ है, दिगम्बरोंके शुगपद्मावपरसे ही फलित होती है—न कि इवेताम्बरोंके क्रमवादपरसे, जिसके खण्डनमें युगपद्मावकी दलीलोंको सन्मतिमें अपनाया गया है। और अद्वात्मक दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके अभेदवादकी जो बात सन्मतिके द्विनीयकाण्डकी गाथा ३२-३३में कही गई है उसके बीज श्रीकुन्दकुन्द-चार्यके समयसार ग्रथमें पाये जाते हैं। इन बीजोंकी बातके प० सुखलालजी आदिने भी सन्मतिकी प्रस्तावना (प० ६२) में स्वीकार किया है—लिखा है कि “सन्मतिना (का० २ गाथा ३२) अद्वा-दर्शन अपने ज्ञानना एक्यवादनु” बीज कुन्दकुन्दना समयसार गा० १-१३ मा १ स्पष्ट छ्ये।” इसके सिवाय, समयसार-की जो पत्सदि अप्यरण् नामकी १४वीं गाथामें शुद्धनवयक्त स्वरूप बतलाते हुए जब यह कहा गया है कि वह नय आत्माको अविक्षेपरूपसे देखता है तब उसमें ज्ञान-दर्शनोपयोगकी भेद-कल्पना भी नहीं बनती और इस हितसे उपयोग-इयकी अभेदवादताके बोज भी समयसारमें सन्निहित है ऐसा कहना चाहिये।

हाँ, एक बात यहा और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि प० सुखलालजीने ‘मिद्दसेनदिवाकरना समयनो प्रश्न’ नामक लेखमें उ० देवनन्दी पूज्यपादको ‘दिगम्बरपरम्पराका पञ्चपाती सुविद्वान्’ बतलाते हुए सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनदिवाकरको “इवेताम्बरपरम्पराका समर्थक आचार्य” लिखा

[†] यहाँ जिस गाथाकी सूचना की गई है वह ‘दसणाणार्णुचरिताणि’ नाम की १६वीं गाथा है। इसके अतिरिक्त ‘ववहारेणुविद्येण णाणिस्त चरित झलणं णाणं’ (७), ‘सन्महसणणाणु एसो लहौदि ति णावरि ववदेस (१४४), और ‘णाणु समादिष्ट दुसज्जम सुत्तमगुब्बग्यं’ (४०४) नामकी गाथाओंमें भी अभेदवादके बीज सन्निहित हैं।

है, परन्तु यह नहीं बनलाया कि वे किसरूपमें इवेताम्बरपरम्पराके सबर्णक हैं। दिगम्बर और इवेताम्बरमें भेदकी रेखा स्थितने वाली मुख्यतः तीन बाटे प्रतिष्ठ हैं— १ स्त्रीमुक्ति, २ केवलिमुक्ति (कवलाहार) और ३ सबस्त्रमुक्ति, जिन्हें इवेताम्बर-सम्प्रदाय मान्य करता और दिगम्बर-सम्प्रदाय अमान्य ठहराता है। इन तीनोंमें से एकका भी प्रतिगादन सिद्धसेनने आपने किसी ग्रन्थमें नहीं किया है और न इनके अलावा अलकृत अथवा शृङ्खारित जिन प्रतिमाओंके षुड्गनादि-का ही कोई विवरन किया है, जिसके मण्डनादिकी भी सन्मतिके टीकाकार अभ्युदेवसूरिको जासूरत पढ़ी है और उन्होंने मूलमें वैसा कोई छाप प्रसङ्ग न होते हुए भी उसे यो ही टीकामें लाकर घुसेढा है *। ऐसी स्थितिमें सिद्धसेन-दिवाकरको दिगम्बरपरम्परासे भिन्न एकमात्र इवेताम्बर परम्पराका समर्थक आचार्य कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। सिद्धसेनने तो इवेता-म्बरपरम्पराकी किसी चिन्हाशुद्ध बातका कोई समर्थन न करके उल्टा उसके उपयोग द्वाय विषयक क्रमबादकी मायताका सन्मतिमें जोरोके साथ खण्डन किया है और इसके लिये उन्हें अनेक साम्प्रदायिक कटूरताके शिकार इवेताम्बर आचार्योंका कोपभाजन एवं निरस्कारका पात्र तक बनना पड़ा है। मुनि जिनविजयजीने 'सिद्धसेनदिवाकर और स्वामी समन्तभद्र'नामक लेखमें † उनके इस विचार-भेद का उल्लेख करते हुए लिखा है—

"सिद्धसेनजीके इस विचारभेदके कारण उस समयके सिद्धान्त-ग्रन्थ-पाठी और आगमप्रवण आचार्यगण उनको 'तर्कमन्य' जैमे तिरस्वार व्यञ्जक विशेषणोंसे अलकृत कर उनके प्रति अग्रना सामान्य अनादर-भाव प्रकट किया करते थे।"

"इस (विचेषावस्थक) भाष्यमें अमाश्रमण (जिनभद्र)जीने दिवाकरजीके उन विचारभेदका खूब ही खण्डन किया है और उनको 'आगम-विरुद्ध-भावी'

* देखो, सन्मति-तृतीयकाण्डगत गाया ६५की टीका (पृ० ७५४), जिसमें "मगवत्प्रतिमाया षुड्गनादि वैष्णवोंपर कर्मकारण" इत्यादि रूपसे वर्णन किया गया है।

† जैनसाहित्यसंकोषक, भाग १ पृ० १००, ११।

बतलाकर उनके सिद्धान्तोंको अमान्य बतलाया है ॥'

"सिद्धसेनयणीने 'एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्मयं' (१-३१) इस सूत्रकी व्याख्यामें दिवाकरजीके विवारभेदके ऊपर अपने ठीक वाचाण चलाये हैं । गणीजीके कुछ वाक्य देखिये—“यद्यपि केचित्परिषिद्धत्वमन्याः सूत्रान्यथाकारमर्थमाचक्षते तर्कचलानुविद्वद्बुद्धयो वार्त्वारेणापयोगे नास्ति, तत्तु न प्रमाणयाम्.., यत आम्नाये भूयांसि सूत्राणि वारवारेणापयोग प्रतिपादयन्ति ।”

दिग्म्बर साहित्यमें ऐसा एक भी उल्लेख नहीं जिसमें सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनके प्रति अनादर अधिक तिरस्कारका भाव व्यक्त किया गया हो— सर्वं तन्हे बड़े ही गौरवके साथ स्मरण किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्घृत हरिवशपुराणादिके कुछ वाक्योंमें प्रकट है । अकलकदेवने उनके अभेदवाद-के प्रति अपना भत्तेद व्यक्त करते हुए किसी भी कटु शब्दका प्रयोग नहीं किया, बल्कि बड़े ही आदरके साथ लिखा है कि “यथा हि असद्भूत-भनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतो हीयते”—पर्याति के बली (सर्वज्ञ) जिस प्रकार असद्भूत और भनुपदिष्टको जानता है उसी प्रकार उनको देखता भी है इसके माननेमें प्रापकी क्या हानि होती है?—वास्तविक बाततों प्रायः ज्योकी त्यो एक ही रहती है । अकलकदेवके प्रवान टीकाकार आचार्य शीघ्रनन्तवीयं जीने सिद्धिविनिश्चयकी टीकामें ‘असिद्ध. सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः । द्वेधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ।’ इस कारिकाकी व्याख्या करते हुए सिद्धसेनको महात् आदरसूचक ‘भगवान्’ शब्दके साथ उल्लेखित किया है और जब उनके किसी स्वयूध्यने—स्वसम्प्रदाय-के विद्वान्—यह आपत्ति की कि ‘सिद्धसेनने एकान्तके साधनमें प्रयुक्त हेतुको कही भी असिद्ध नहीं बतलाया है अत एकान्तके साधनमें प्रयुक्त हेतु सिद्धसेन-की हस्तिये असिद्ध है’ यह बचन सूक्ष्म होकर अनुकूल है, तब उन्होंने यह कहते हुए कि ‘क्या उसने कभी सन्मतिसूत्रका यह वाक्य नहीं सुना है, ‘जे सतवस्वदोसे’ इत्यादि कारिका (३-५०) को उद्घृत किया है और उसके द्वारा एकान्त-साधनमें प्रयुक्त हेतुको सिद्धसेनकी हस्तिये ‘असिद्ध’ प्रतिपादन करना इन्दिरित बतलाकर उसका समाधान किया है । यथा:—

‘असिद्ध इत्यादि, स्वकृत्यौकान्तस्य साधने मिद्दावङ्गीक्रियमानार्थी
सर्वो हेतुः सिद्धसेनस्य भगवतोऽसिद्धः । कथमिति चेदुच्यते ॥ ३ ॥ १ ॥
ततः सूक्तं बोकान्तसाधने हेतुरसिद्धः सिद्धसेनस्येति । कश्चित्स्वयूध्यो-
ज्ञाह—सिद्धसेनेन कच्चित्स्याऽसिद्धस्याऽवचनाद्युक्तमेतदिति । तेन
कठाचिदेतत् श्रुतं—‘जे संतवायदोऽसेसकोल्लया भर्णति सखाण ।
संखा य असब्दाए तेसि सव्वे वि ते सचा’ ॥’

इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर प्रसिद्ध इवेताम्बर विद्वान् स्वर्गीय श्रीमोहनलाल दलीचन्द देशाई बी. ए. एल-एल. बी., एडबोकेट हाईकोर्ट बवईने, अपने ‘जैन-माहित्यनो सिद्ध इनिहास’ नामक गुजराती ग्रन्थ(प० ११६) में लिखा है कि ‘‘सिद्धसेनसूरि प्रत्येनो आदर दिगम्बरी विद्वानोमा रहेलो देखाय छे’ अर्थात् (सन्मतिकार) सिद्धसेनाचार्यके प्रति आदर दिगम्बर विद्वानोमें रहा दिखाई पड़ता है—इवेताम्बरोमें नहीं । साथ ही हरिवंशपुराण राजवालिक, सिद्धिविनिश्चय-टीका, रत्नमाला, पाश्वनाथचरित और एकान्त-खण्डन-जैसे दिगम्बर ग्रन्थों तथा उनके रचयिता जिनसेन, अकलक, अनन्तवीर्य, शिवकोटि, वादिराज और लक्ष्मीभद्र (धर) जैसे दिगम्बर विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए यह भी बतलाया है कि ‘इन दिगम्बर विद्वानोन सिद्धसेनसूरि-सुधी और उनके सन्मतिकार सबधी उल्लेख भक्तिभावसे किये हैं, और उन उल्लेखों से यह जाना जाता है कि दिगम्बर ग्रन्थकारोंमें घना समय तक सिद्धसेनके (उक्त, ग्रन्थका प्रचार था और वह प्रचार इतना अधिक था कि उसपर ढन्होने टीका भी रखी है ।

इस सारी परिस्थितिपरमे यह साफ समझा जाता और अनुभवमें आता है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन एक महान् दिगम्बराचार्य थे, और इसलिये उन्हे इवेताम्बर-परम्पराका अधिका इवेताम्बरत्वका समर्थक आचार्य बतलाना कोरी कल्पनाके सिवाय और कुछ भी नहीं है । वे अपने प्रवचन-प्रभाव आदिकै-कारण इवेताम्बर-सम्प्रदायमें भी उसी प्रकारसे अपनाये गये हैं जिस प्रकार कि स्वार्थी समन्तभद्र, जिन्हे इवेताम्बर पट्टावलियोमें पट्टाचार्य तकका एवं प्रदान ‘किया गया है और जिन्हे प० सुखलाल, प० वैष्णवदास और मुनि जिनविजय शोदि बड़े बड़े इवेताम्बर विद्वान् भी एवं इवेताम्बर ने मानकर दिगम्बर मानने लगे हैं ।’

कतिपय द्वात्रिशिकाशीके कर्ता सिद्धेन इन सन्मतिकार सिद्धेनसे भिन्न तथा पूर्ववर्ती दूसरे ही सिद्धेन हैं, जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुक्य है, और सम्बन्धः वे ही उज्ज्वलिनीके महाकालमन्दिरबाली घटनाके नायक जान पड़ते हैं। हो सकता है कि वे शुरूसे श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें ही दीक्षित हुए हो, परन्तु श्वेताम्बर धागमोको सस्कृतमें कर देनेका विचारमात्र प्रकट करनेपर जब उन्हें बारह वर्षके लिये संघबाहु करने-जैसा कठोर दण्ड दिया गया हो तब वे सविशेषरूपसे दिग्म्बर साधुओके सम्पर्कमें आए हो, उनके प्रभावसे प्रभावित तथा उनके स्तकारो एवं विचारोको ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुए हो—जासकर समन्तभद्रस्वामीके जीवनवृत्तान्तो और उनके साहित्यका उनपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हो और इसी लिये वे उन्हीं-जैसे स्तुत्यादिक कार्योंके करनेमें दत्तचित्त हुए हो ।

इस प्रभावादिकी पुष्टि पहली द्वात्रिशिकासे भले प्रकार होती है, उसमें “अनेन सर्वझपरीक्षणात्मास्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ।” जैसे वाक्योके द्वारा समन्तभद्रका सर्वज्ञ-प्राप्तके समर्थ परीक्षक आदिके रूपमें गौरव-पूर्ण शब्दोंमें उल्लेख ही नहीं किया गया बल्कि अन्तके निम्न पद्ममें वही ‘सर्व-ज्ञगतके युगपत् साक्षात्कारी सर्वज्ञ’की बात उठाकर उसकी गुण कथामें समन्तभद्र-के अनुकरणकी स्पष्ट सूचना भी की गई है—लिखा है कि इस सर्वज्ञद्वारकी समीक्षा करके हम भी धापकी गुण-कथाके करनेमें उत्सुक हुए हैं—

“जगन्नैकावस्थ युगपदस्त्रिलाऽनन्तविषयं

यदेतप्रत्यक्षं तव नच भवान्कस्यचिदपि ।

अल्लैनैवाऽचिन्त्य-प्रकृतिरस-सिद्धेस्तु विदुषां

स्त्रीस्यैतदद्वार तवगुण-कथोत्का वयमपि ॥ ३२ ॥

साथ ही यह भी समझ है कि उन्हींके सम्पर्क एवं स्तकारोमें रहते हुए ही सिद्धेनसे उज्ज्वलिनीकी बहु महाकालमन्दिरबाली घटना बन पड़ी हो, जिससे उनका प्रभाव ज्ञारो झोर फैन गया हो और उन्हें भारी राजाश्वय प्राप्त हुआ, हुआ । यह सब देखकर ही श्वेताम्बरसंघको अपनी मूल मालूम पड़ी हो, उसने प्रायविचरणकी ओर स्वाधिको रद कर दिया हो और सिद्धेनको अपना ही साथ

तथा प्रभावक आचार्य घोषित किया गया। अन्यथा, डार्शिंगिकोशीपरसे सिद्धेन गम्भीर विचारक एवं कठोर समालोचक होनेके साथ साथ जिस उदार स्वतन्त्र और निर्भय-प्रकृतिके समर्थ विद्वान् जान पड़ते हैं उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्होंने ऐसे अनुचित एवं अविवेकपूर्ण दण्डको यो ही चुपके-से गर्दन मुक्तकर मान लिया हो, उसका कोई प्रतिरोध न किया हो अबवा अपने सियें कोई दूसरा मार्ग न चुना हो। सम्भवत अपने साथ किये गये ऐसे किसी दुर्ब्यंव-कारके कारण ही उन्होंने पुराणपन्थियों अबवा पुरातनप्रेमी एकान्तियोंकी (द्वा-त्रिशिका ६मे) कड़ी आलोचनाएँ की हैं।

यह भी हो सकता है कि एक सम्प्रदायने दूसरे सम्प्रदायकी इस उज्जयिनी-बाली घटनाको अपने सिद्धेनके लिये अपनाया हो अबवा यह घटना मूलत कीची या काशीमे घटित होनेवाली समन्तभद्रकी घटनाकी ही एक प्रकारसे कापी हो और इसके द्वारा सिद्धेनको भी उसप्रकारका प्रभावक विशेषित करना अभीष्ट रहा हो। कुछ भी हो, उक्त द्वात्रिशिकायोंके कर्ता सिद्धेन अपने उदार विचार एवं प्रभावादिके कारण दोनों सम्प्रदायोंमें समानरूपसे माने जाते हैं—चाहे वे किसी भी सम्प्रशयमें पहले अवया पीछे दीक्षित क्यों न हए हों।

परन्तु न्यायावतारके कर्ता मिद्देनकी दिग्म्बर-सम्प्रदायमें वैसी कोई खास मान्यता मालूम नहीं होती और न उस अन्यपर दिग्म्बरोकी किसी खास टीका-टिप्पणीका ही पता चलता है, इसीसे वे प्राय इवेनाम्बर जान पड़ते हैं। इवेता-म्बरोके इनेक टीका-टिप्पणी भी न्यायावतारपर उपलब्ध होते हैं—उसके 'प्रमाण स्वपराभासि' इत्यादि प्रब्रह्म इलोको लेकर तो विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान् जिनेश्वरसूरिने उस पर 'प्रमालदम' नामका एक सटीक वार्तिक ही रख दाला है, जिसके अन्तमें उसके रचनेमें प्रवृत्त होनेका कारण उन दुर्जनवाक्योंको बतलाया है जिनमें यह कहा गया है कि 'इन इवेताम्बरोके शब्दलक्षण और प्रमाणलक्षण-विषयक कोई स्थूल अपने नहीं है—ये परलक्षणेष्वजीवी हैं—बौद्ध तथा दिग्म्बरादि अन्योंसे अपना निर्बाह करनेवाले हैं—अत ये आदिसे नहीं—किसी निर्मित से नये ही पैदा हुए भवचीन हैं।' साथ ही यह भी बतलाया है कि 'हरिभद्र, मङ्गवादी और अभयदेवसूरि-जैसे महान् आचार्योंके द्वारा इन विषयोंकी उपेक्षा किये जानेपर भी हमने उक्त कारणसे यह 'प्रमालदम' नामका

ग्रन्थ वार्तिकरूपमें अपने पूर्वाचार्यका गीरवप्रदर्शित करनेके लिये (टीका— “पूर्वाच यंगीरव-दर्शनार्थ ”) रचा है और (हमारे भाई) बुद्धिसागराचार्यने सरकुत-प्राकुत-शब्दोकी सिद्धिके लिये पश्चोमे आकरण ग्रन्थकी रचना की है ।

इस तरह सम्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर और न्यायवतार के कर्ता सिद्धसेन द्वेताम्बर जाने जाते हैं । द्वात्रिशिकाओमें से कुछके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर और कुछके कर्ता द्वेताम्बर जान पड़ते हैं और वे उक्त दोनों सिद्धसेनोंसे भिन्न पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती अथवा उनसे अभिन्न भी हो सकते हैं । ऐसा मालूम होता है कि उज्जयिनीकी उस घटनाके साथ जिन सिद्धसेनका सम्बन्ध बतलाया जाता है उन्होने सबसे पहले कुछ द्वात्रिशिकाओकी रचना की है, उनके बाद दूसरे सिद्धसेनोंने भी कुछ “द्वात्रिशिकाए” रची हैं और वे सब रचयिताओके नामसाम्यके कारण परस्परमें मिलजुल गई हैं, अत उपलब्ध द्वात्रिशिकाओमें यह निश्चय करना कि कौन सी द्वात्रिशिका किस सिद्धसेनकी कृति है विशेष अनुसन्धानसे सम्भव रखता है । साधारणतौरपर उपयोग-दृष्टिके युगपृष्ठादाविकी हृषिसे, जिसे पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, प्रथमादि पौँछ द्वात्रिशिकाओको दिगम्बर सिद्धसेनकी और शेष द्वात्रिशिकाओको दोनोंमेंसे किसी भी सम्प्रदायके सिद्धसेनकी अथवा दोनों ही सम्प्रदायोंके सिद्धसेनोंकी अलग अलग कृति कहा जा सकता है । यही इन विभिन्न सिद्धसेनोंके सम्प्रदाय-विषयक विवेचनका सार है ।



मैं देखी, वार्तिक न०४०१ से ४०५ और उनकी टीका अथवा जैनहितीयी भाग १३ अक ६-१०में प्रकाशित बुलिविनविजयबीकी ‘प्रभालक्षण’ नामक लेख ।

२६

तिलोयपण्णती और यतिवृषभ

तिलोयपण्णती (त्रिलोकप्रज्ञति) तीन लोकके स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल और युग-परिवर्तनादि-विषयका निरूपक एक महत्वका प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ है—प्रसगोपात् जैनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय इतिहास-विषयकी भी कितनी ही बातों एव सामग्रीको यह साथमें लिये हुए है। इसमें १. सामान्यजगत्स्वरूप, २. नारकलोक, ३. भवनवासिलोक, ४. मनुष्यलोक, ५. तिर्यक्लोक, ६. अपन्तरलोक, ७. ज्योतिर्लोक, ८. मुरलोक और ९. सिद्धलोक नामके १० महाधिकार हैं। अबान्तर अधिकारोंकी संख्या १८० के लगभग है, क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके अवान्तर अधिकार क्रमशः १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं और चौथे महाधिकारके जम्बूदीप, घातकी खण्डदीप और पुष्टहरदीप नामके अवान्तर अधिकारोंमेंसे प्रत्येकके किर सोलह-सोलह ($16 \times 3 = 48$) अबान्तर अधिकार हैं। इस तरह यह ग्रन्थ अपने विषयके बहुत विस्तारको लिये हुए है। इसका प्रारम्भ निम्न भगलगाढ़ासे होता है, जिसमें सिद्धि-कामनाके साथ सिद्धोंका स्मरण किया गया है:—

अद्विह-कम्म-वियक्ता खिट्टिय-कड़जा पण्डु-संसारा ।

विट्टु-सयलहु-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १ ॥

ग्रन्थका अन्तिम भाग इस प्रकार है:—

— पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तदेव गुण [हर] वसहं ।

कहु ए परिसवसहं (?) जदिवसह घन्मसुचपादगवसहं ॥१४-७८॥

चुरिणसर्वं अत्थ करणसर्वपमाण होदि कि (?) ज त ।

अहुसहस्रपमाणं तिलोयपश्चण्णतिणामाप ॥ ६-५६ ॥

एवं आइरियपरंपरागए तिलोयपण्णतीए सिद्धलोयसर्वयिहवणा-
पण्णत नाम खबमो महाइयारो सम्मतो ॥

भगगप्यभावण्डुं पवयणा-भत्तिप्यचोदिदेषा मया ।

भणिद गंथपचर सोहतु बहुसुदाइरिया ॥ ६-५० ॥

तिलोयपण्णती सम्मता ॥

इमप्रतीन गाथाए हैं, जिनमे पहली गाथा ग्रन्थके घन्तमगलको लिये हुए हैं और उसमे ग्रन्थकार यतिवृषभाचार्यने 'जदिवसह' पदके ढारा, श्लेषरूपमे अपना नाम भी सूचित किया है ४६। इसका दूसरा और तीसरा चरण कुछ अशुद्ध जान पड़ते हैं। दूसरे चरणमे 'गुण' के अनन्तर 'हर' और होना चाहिये—देहलीकी प्रतिमे भी त्रुटित अशके सकेतपूर्वक उपे हाशिमेपर दिया है, जिससे वह उन गुणाचराचायका भी वाचक हो जाता है जिनके 'कसायपाहृण' सिद्धान्त ग्रन्थपर यतिवृषभने चृंगसूत्रोकी रचना की है और उस 'हर' शब्दके सम्बोधसे 'अर्मर्यागीति' छदके लक्षणानुरूप दूसरे चरणमे भी २० मात्राएं हो जाती हैं जैसी कि वे चतुर्थ चरणमे पाई जाती हैं। तीसरे चरणका पाठ ७० नाशूरामजी प्रेमीने पहले यही 'बहु-ए परिसवसह' प्रकट किया था †, जो देहलीकी प्रतिमे भी पाया जाता है और उसका सस्कृतरूप 'हृष्ट्वा परिषदवृषभ' दिया था, जिसका अर्थ होता है—परिषदोमें शेष परिषद (सभा) को देखकर। परन्तु 'परिस' का अर्थ कोषमें परिषद् नहीं मिलता किन्तु 'स्पर्श' उपलब्ध होता है, परिषद्का वाचक परिसा' शब्द स्त्रीलिङ है ‡। शायद यह देखकर अथवा दूसरे किसी कारणके बश, जिसकी बोई सूचना नहीं की गई, हालमें उन्होने

॥ श्लेषरूपसे नाम-सूचनकी पढ़ति अनेक ग्रन्थोमे पाई जाती हैं। देखो, गोमटसार, नीतिवाक्यामृत और प्रभावन्द्रादिके ग्रन्थ ।

† देखो, जैनहितीर्थी भाग १३ अक १२ पृ० ५२८ ।

‡ देखो, 'पाइभसहमहम्पण'कोश ।

‘दट्टूण य रिसिवसह पाठ दिया है ६, जिसका अर्थ होता है—‘ऋषियों में ऐहु ऋषिको देखकर’। परन्तु ‘जदिवसह’ की मौजूदगीमें ‘रिसिवसह’ पद कोई स्नात विशेषता रखता है भालूम नहीं होता—ऋषि, मुनि यति जैसे शब्द प्रायः समान अर्थके बाचक हैं—और इसलिये वह अर्थ पड़ता है। प्रस्तु, इस पिछले पाठको लेकर ५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने उसके स्थानपर ‘दट्टूण अरिसिवसहै’ पाठ सुझाया है * और उसका अर्थ ‘आर्वधन्त्यमें ऐहुको देखकर सूचित किया है। परन्तु ‘अरिस’ का अर्थ कोथमें ‘आर्व’ उपलब्ध नहीं होता किन्तु ‘आर्व’(बवासीर) नामका रोगविशेष पाया जाता है, आर्वके लिये ‘आरिस’ शब्दका प्रयोग होता है †। यदि ‘अरिस’ का अर्थ आर्व भी मान लिया जाय अथवा ‘अ’ के स्थान पर कल्पना किये गए ‘अ’ के लोपपूर्वक इस चरणको ‘दट्टूणारिसिवसह’ ऐसा रूप देकर (जिसकी उपलब्धि कहीसे नहीं होती) सधिके विवेषण द्वारा इसमें आर्वका बाचक ‘आरिस’ शब्द निकाल लिया जावे, फिर भी इस चरणमें ‘दट्टूण’ पद सबमें भ्रष्टिक स्तरकनेबाली चीज मालूम होता है, जिसपर अभी तक किसी-की भी इष्टि गई मालूम नहीं होती। क्योंकि इस पदकी मौजूदगीमें गाथाके अर्थ-की ठीक सगति नहीं बैठती—उसमें प्रयुक्त हृषा ‘पणमह’ (प्रणाम करो) क्रिया-पद कुछ बाधा उत्पन्न करता है और उससे अर्थ सुव्यवस्थित अथवा सुशृङ्खित नहीं हो पाता। ग्रन्थकारने यदि ‘दट्टूण’ (हट्टवा) पदको अपने विवरमें प्रयुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद भी अपने ही विवरका होना चाहिये था अर्थात् वृषभ या ऋषिवृषभ आदिको देखकर मैंने यह कार्य किया या मैं प्रणामादि अमुक कार्य करता हूँ ऐसा कुछ बनलाना चाहिये था, जिसकी गाथापरसे उपलब्धि नहीं होती। और यदि यह पद दूसरोंसे सम्बन्ध रखता है—उन्हींकी प्रेरणाके लिये प्रयुक्त हृषा है—तो ‘दट्टूण’ और ‘पणम्’ दोनों क्रियापदोंके लिये गाथामें अलग अलग कर्मपदोंकी सगति बिठलानी चाहिये, जो नहीं बैठती। गाथाके बसहान्त पदोंमें एकका बाच्य तो देखनेकी ही वस्तु हो और दूसरेका

६ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ६।

* देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ११ किरण १, पृ० ८०।

† देखो, ‘वाइष्णवमहाण्डन’ कोश।

वाच्य प्रणामकी वस्तु, यह बात संदर्भपरसे कुछ संगत मालूम नहीं होती। और इसलिये 'दट्टूण' पदकल अस्तित्व यहाँ बहुत ही प्राप्तिके बोध जान पड़ता है। ऐसी रायमें यह नीसरा चरण 'दट्टूण परिसवसह' के स्थानपर 'बुद्धूपरीसह-विसह' होना चाहिये। इससे गायाके अर्थकी सब संगति ठीक बैठ जाती है। यह गाया जयघबलाके १०वें अधिकारमें बतौर मगलाचरणके अपनाई गई है, वहाँ इसका तीसरा चरण 'दुसहपरीमहविसह' दिया है। परिषहके साथ दुसह (दुसह) और दुष्ठु (दुष्ठु) दोनों शब्द एक ही अर्थके बाचक हैं—दोनोंका आशय परीघहको बहुत बुरी तरा असह्य बतलानेका है। लेखकोकी कृपासे 'दुसह' जी अपेक्षा 'दुष्ठु' के 'दट्टूण' होजानेकी अधिक सभावना है। इसीसे यहाँ 'बुद्धू' पाठ सुझाया गया है, वैसे 'दुसह' पाठ भी ठीक है। यहाँ इतना और भी जान नैवा चाहिये कि जयघबलामें इस गायाके दूसरे चरणमें 'मुणवसह' के स्थानपर 'मुणहरवसह' पाठ ही दिया है, और इस तरह इस गायाके दोनों चरणोंमें जो झलती और शुद्धि सुझाई गई है उसकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है।

दूसरी गायामें इम तिलोयप्रणालीका परिमाण आठ हजार इलोक-जितना बतलाया है। साथ ही, एक महत्वकी बात और सूचित की है और वह यह कि आठ हजारका परिमाण चूर्णिस्वरूप अर्थका और करणस्वरूपका जितना परिमाण है उसके बराबर है। इससे दो बातें फलित होती हैं—एक तो यह कि मुलाघगायार्यके कसायपाद्म ग्रन्थपर यतिदृवभने जो 'चूर्णिसूत्र रचे हैं' वे इस ग्रन्थसे पहले रचे जा चुके हैं; दूसरी यह कि 'करणस्वरूप' नामका भी कोई संघ यतिवृषभके द्वारा रचा गया है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। वह भी इस ग्रन्थसे पहले बन चुका था। बहुत सम्भव है कि वह ग्रन्थ उन करण-सूत्रोंका ही समूह हो जो गणितसूत्र कहलाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोक-प्रक्षति, गोम्यटसार, त्रिलोकसार और घबला-जैसे ग्रन्थोंमें पाया जाता है। चूर्णिसूत्रोंकी—जिन्हें वृत्तिसूत्र भी कहते हैं—संस्था चूं कि यह हजार इलोक-परिमाण है अतः 'करणस्वरूप'-शब्दकी संस्था दो हजार इलोक-परिमाण संबंधी चाहिये; तभी दोनोंकी संस्था मिलकर आठ हजारका परि-माण इस शब्दका बैठना है। तीसरी गायामें यह निवेदन किया गया है कि यह संघ प्रवर्तनभक्तिके विरित होकर शार्मकी प्रथावनाके लिये रचा गया है, इसमें

कही कोई मूल हुई हो लो बहुश्रुत आचार्य उसका संशोधन करें।

(क) ग्रन्थकार यतिवृषभ और उनका समय—

ग्रन्थमे रचना-काल नहीं दिया और न ग्रथकारने अपना कोई परिचय नहीं दिया है—उक्त दूसरी गायापरसे इतना ही छवनित होता है कि 'वे धर्मसूत्रके पाठ-कोमे थेष्ठ थे' और इसलिय ग्रथकार तथा ग्रथके समय-सम्बन्धादिमे निश्चित-रूपसे कुछ कहना सहज नहीं है। चूर्णिसूत्रोको देखनसे मालूम होता है कि यति-वृषभ एक ग्रन्थे प्रीढ़ सूत्रकार थे और प्रस्तुत ग्रन्थ जैनशास्त्रोके विषयमे उनके अच्छ विरतुत अध्ययनको व्यक्त करता है। उनके सामन 'लोकविनिश्चय' 'समाइ-णी' (सम्भरणी ?) और 'लोकविभाग (प्राकृत)' जैसे कितने ही ऐस प्राचीन ग्रन्थ भी मौजूद थे जो आज अपनेको उपलब्ध नहीं हैं और जिनका उन्होने अपने इस ग्रन्थमें उल्लेख किया है। उनका यह ग्रन्थ प्राय प्राचीन व्रथोके आधारपर ही लिखा गया है इसीसे उन्होंने ग्रन्थकी पीठिकाके अन्तमें ग्रथ-रचनकी प्रतिक्रिया करते हुए उसके विषयको 'आयरिय-भरणुक्तमायाद (गा० ८६) बतलाया है और महाधिकारोके सवि-वाक्योमे प्रयुक्त हुए आयरियपरपरागा'पदके द्वारा भी उसी बातको पुष्ट किया है। और इस तरह यह घोषित किया है कि इस ग्रन्थका मूल विषय उनका स्वरूचि-विरचित नहीं है, किन्तु आचार्यपरम्पराके आधारको लिये हुए है। रही उपलब्ध करणसूत्रोकी बात, वे यदि आपके उस 'करणस्त-रूप' ग्रथके ही अग हैं, जिसकी अधिक सम्भावना है, तब तो कहना ही क्या है ? वे सब आपके उस विषयके पाण्डित्य और आपकी बुद्धिकी खूबी तथा उसकी सूक्ष्मताके अच्छे परिचायक हैं।

जयघबलाकी आदिमें मगलाचरण करते हुए श्रीबीरसेनाचार्यन यतिवृषभका जो स्मरण किया है वह इस प्रकार है—

जो अडजमसु-सीसो अतेवासी वि णागहत्यिस्स ।

सो विञ्चिसुत्त-कत्ता जइवसहो भे वर देव ॥८॥

इसमें यतिवृषभको, कसायचाहुडपर लिखे गए उन बृत्ति (चूर्णि) सूत्रोका कृती बतलाते हुए जिन्हें माथमें लेकर ही जयघबला टीका लिखी गई है, आर्यमसुका शिष्य और नाशहस्तिका अन्तेवासी बतलाया है, और इससे यतिवृषभके होम्पुष्ट-भीके नाम सामने आते हैं, जिसके विषयमें ग्रामघबलापरसे इहना और ज्ञाना ज्ञाना

है कि श्रीगुणवराचार्यने कसायपाहुड अपेनाम पेजदीतपाहुडका उत्सहार (संक्षेप) करके जो सूत्रगाथाएँ रखी थीं वे इन दोनोंको आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके अर्थके भले प्रकार जानकार थे, इनसे समीक्षीय अर्थको सुनकर ही यतिवृषभने, प्रबचन वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन सूत्र-गाथाओंपर चणिसूत्रोंकी रचना की है । ये दोनों जैनपरम्पराके प्राचीन आचार्योंमें हैं और इन्हे दिग्मवर तथा इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोन माना है—इवेताम्बर-सम्प्रदायमें आर्य-मक्षुको आर्यमण्डु नाममें उल्लेखित किया है, मण्डु और मक्षु एकाथक हैं । घबला—जयघबलामें इन दोनों आचार्योंको 'क्षमाश्रमण' और 'महावाचक' भी लिखा है । जो उनकी महत्त्वाके बोतक है इन दोनों आचार्योंके सिद्धान्त-विषयक उपदेशोमें कही कही कुछ सूक्ष्म मतभेद भी रहा है जो बीरसेनको उनके ग्रन्थों अथवा गुरुपरम्परासे ज्ञात था, और इसस्लिये उन्होंने घबला और जयघबला टीकाप्रोमें उसका उल्लेख किया है । ऐसे जिस उपदेशको उन्हींने सर्वाचाय-

[†] पुणो तेण गुणहर-भडारएण खाणपवाद पचमपुव्व-दसमवत्यु तदियकसा-यपाहुड महण्णाव पारएण गथोच्छेदभागण वच्छेलपरवसिकपहियएण एव पेज्ज-दोसपाहुड सोलसपदसहस्सपरिमाण होन असिद्धिसदमेतगाहाहिं उपसहारिद । पुणो ताप्रो चेव सुतगाथामो आइरियपरपराए आगच्छमाणामो अज्जमक्षु णागहृत्वीण पतामो । पुणो तेसि दोष्ह पि पादमूले असीदिसदगाहाण गुणहर-मुहुकमलविणिगग्याणमत्व सम्म सोऽमण जइसह-भडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत कय ।—जयघबला ।

॥ 'कम्मटिदि ति भणियोगहारे हि भण्णमाणे वे उवएसा होति । जह-णामुक्तस्तुद्वीण पमाणपरवणा कम्मटिदिपरवणा ति णागहृत्य-समासमणा भण्णति । अज्जमक्षु-समासमणा पुण कम्मटिदिपरवणे ति भण्णति । एव दोहि उवएसेहि कम्मटिदिपरवणा कायव्वा ।' 'एत्य दुवे उवएसा महावाच-याणमज्जमक्षुववणाणमुवएसेण लोगपूरिदे आउगसमाण णामा-गोद वेदणी-याणा ठिविसुतकूम्म ठवेदि । महावाचयाण णागहृत्य-सवण एणमुवएसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद-वेदणीयाण द्विविसुतकूम्म भूतोमुद्दत्तपमाण होदि । १-३
—पट्टस० १ प्र० प० ५७

सम्मठ, अनुच्छान-सम्प्रदाय-कामसे विरक्तासागत और सिष्यपरपरामें प्रचलित तथा प्रशारित समझा है उसे 'पवाइज्जत' 'पवाइज्जमाण', सप्तवेद बतलाया है और जो ऐसा नहीं उसे 'प्रपवाइज्जत' अथवा 'प्रपवाइज्जमाण' नाम दिया है। उल्लेखित मत-भेदोंमें आर्यनागहस्तिके अधिकाक्ष उपदेश 'पवाइज्जत' और आर्यमंसुके 'प्रपवाइज्जत' बतलाये गये हैं। इस तरह यतिवृष्टम दोनोंका शिष्य-स्व प्राप्त करनेके कारण उन सूक्ष्म मतभेदोंकी बातोंसे अवगत हो, यह सहज हीमें जाना जाता है। वीरसेनने यतिवृष्टमको एक बहुत प्रामाणिक आचार्यके रूपमें उल्लेखित किया है और एक प्रसंगपर रागद्वेष-मोहके प्रभावको उनकी बचन-प्रमाणातामें कारण बतलाया है ॥ । इन सब बातोंमें आचार्य यतिवृष्टमका महत्व स्वतं स्थापित हो जाता है ।

अब देखना यह है कि यतिवृष्टम कब हुए हैं और कब उनकी यह तिनोय-पण्णती बनी है, जिसके बाक्योंको घबलादिकमें उढ़त करते हुए अनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे 'तिलोयपण्णातिसुत' सूचित किया है। यतिवृष्टमके गुहम्रोमेंसे यदि किसीका भी समय सुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना ही काम निकल जाता, परन्तु उनका भी समय सुनिश्चित नहीं है। इवेताम्बर पट्टावलियोंमें 'कल्यानस्थविराली' और 'पट्टावलीसारोद्धार' जैसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्टावलियोंमें तो आर्यमनु और आर्यनाग-हस्तिका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेका नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचार्यका और कोई एकसे अधिक आचार्योंका नामोल्लेख करती है। कोई कोई

† "सव्वाइरिय-सम्मठो विरक्तालमबोच्छण्ण संपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्तस्तरराए पवाइज्जत सो पवाइज्जनोवरएसो ति भण्णदे । अथवा अज्ञ मखुमयवताणमुवएसो एत्थाऽपवाइज्जमाणो णाम । णागहस्तिलमणाणमुवएसो पवाइज्जनो ति वेनवो ।"—जयष० प्र० प० ४३ ।

॥ "कुदो णावदे ? एदम्हादो चेव जइवसहाइरियमुहकमलविणिगयचुणिण-सुतादो । चुणिणसूतमणहा कि णा होदि ? णा, रामदोसमौहाभावेण पमाणत-मुवगय-जइवसह-वयणास्स असच्चतविरोहादो ॥"—जयष० प्र० प० ४६

पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती और जो करती है उनमें उन दोनोंके समयोम परस्पर अन्तर भी पाया जाता है—जैसे आधमधुका समय तपागच्छ-पट्टावलीमें बीरनिराएसे ४६७ वषपर और 'सिरिदुसमाकाल-समणासघय' की अवचूर्त्में ४५० पर बतलाया है ॥ १ । और दोनोंका एक समय तो किसी भी श्वे० पट्टावलीसे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंम १५० या १३० वषके करीबका अन्तराल पाया जाता है जब कि दिगम्बर परम्पराका स्पष्ट उल्लेख दोनोंको यतिवृष्टिके गुरुरूपमें प्राय समकालीन बतलाया है । ऐसी स्थितिम श्वे० पट्टावलियोंको उक्त दोनों आचार्योंके समयादिविषयमें विश्वासनीय नहीं कहा जा सकता । और इसलिए यतिवृष्टिमादिक समयका अब तिलोयपरम्परा के उल्लेखोपरसे अथवा उसके अ त परीक्षणपरसे ही अनुसंधान करना होगा । तदनुसार ही नीचे उसका यत्न किया जाता है—

(१) तिलोयपरम्पराकी अनक पद्मामें सगाहणी तथा लोकविनिश्चय ग्रन्थके साथ लोकविभाग नाम के ग्रन्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है ।
यथा—

जलसिंहरे विक्स्वभो जलशिंहिणो जोयणा दससहस्रा ।

एव सगाइणिए लोयविभाए विणिहट् ॥अ०४॥

लोयविणिन्छय-गाथे लायविभागम्भि स०वसिद्धाण् ।

आगाहण परिमाण भणिद मिचूणचरिमदेहसमो ॥अ०६॥

यह 'लोकविभाग गन्थ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रन्थमें भि न मालूम नहीं होता जिसे प्राचीन समयम सबन-भी आच यन लिखा (रचा) था, जो काचीके राजा सिहवर्मके राज्यके २२वें वष—उस समय जबकि उत्तरायाद नक्षत्रम शनिश्चर, बृहत्तराशिम बृहस्पति उत्तराकाल-गुनी नक्षत्रम चात्रमा था, शुक्लपक्ष था—शकसंवद् ३८० म लिखकर पाण्डिराष्ट्रके पाटलिक ग्रामम पूरा किया गया था और जिसका उल्लेख सिहस्रूप के उस सस्कृत लोकविभाग'के निम्न पद्मो

के देखो, पट्टावलासमुच्चय ।

इ 'सिहस्ररूपणा पदपरसे 'मिहसूर नामकी उपलब्धि होती है—विहसूरि की नहीं, विसके 'सूरि' पदको 'आचार्य' पदका वाचक समझकर प० नाशूरामजी

में पाया जाता है, जो कि सर्वनन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तनद्वारा रचा गया है—

वैश्वे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपञ्चमुपेत्य चन्द्रे ।
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्डराष्ट्रे, शास्त्रं पुरा लिखितवान्मुनिसर्वनन्दी॥३
संवत्सरे तु द्वाविशो काङ्क्षीश-सिहर्वर्मणः ।

अशीत्यमे शकाढ्डानां सिद्धमेतच्छ्रुतत्रये ॥४॥

तिलोपवण्ठात्तीकी उक्त दोनों गाथाओंमें जिन विशेष वर्णनोंका उल्लेख 'लोकविभाग' आदि ग्रन्थोंके आधारपर किया गया है वे सब संस्कृत लोकविभाग-में भी पाये जाते हैं † और इससे यह बात भीर मी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत-का उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने रखकर ही लिखा गया है ।

इस सम्बन्धमें एक बात भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि संस्कृत लोकविभागके अन्तमें उक्त दोनों पद्योंके बाद एक पद्य निम्न प्रकार दिया है—

पंचदशशतान्याहुः षट्क्रिशदधिकानि वै ।
शास्त्रस्य संप्रहस्त्वेदं छंदसानुष्टुभेन च ॥५॥

इसमें ग्रन्थकी संख्या १५३६ इलोक-परिमाण बतलाई है, जबकि उपलब्ध

प्रेमीने ('जैन साहित्य और इतिहास पृ० ५ पर) नामके अधूरेपनकी कल्पना की है और 'पूरा नाम शायद सिहनन्दि हो' ऐसा सुझाया है । छंदकी कठिनाईका हेतु कुछ भी समीक्षन मालूम नहीं होता; क्योंकि सिहनन्दि और सिहसेन जैसे नामोंका वहाँ सहज ही समावेश किया जा सकता था ।

† “प्राचार्यवलिकागतं विरचितं तत्सिहसूरविणा ।

भाषायाः परिवर्तनेन निपुणः सम्मानितं साच्चुभिः ॥”

† “दशैवैष सहस्राणि मूलोऽप्रेपि पृष्ठुर्मतः ।” —प्रकरण २

“शन्त्यकाप्रमाणात् किञ्चित्संकुचितात्मकाः ॥” —प्रकरण ११

के देखो, प्राराके जैनसिद्धान्तभवनकी प्रति और उसपरसे उतारी हुई बीर-सेवामन्दिरकी प्रति ।

सस्कृत लोकविभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है। मालूम होता है कि यह १५३६ की इलोकसंवधा उसी पुराने प्राकृत लोकविभागकी है—यहाँ उसके सख्यासूचक पद्यका भी अनुवाद करके रख दिया है। इस सस्कृत ग्रन्थमें जो ५०० इलोक-जितना पाठ अधिक है वह प्राय उन 'उक्त च' पद्योंका परिमाण है जो इस ग्रन्थमें दूसरे ग्रन्थोंसे उद्भूत करके रखले गये हैं—१०० से अधिक गाथाएँ तो तिलोयपण्णतीकी ही हैं, २००के करीब इलोक भगवज्ज्वनसेनके प्रादिपुराण-से उठाकर रखले गये हैं और शेष उपरके पद्य तिलोयसार (त्रिलोकसार) और जबूदीयपण्णती (जम्बूदीपप्रज्ञति) आदि ग्रन्थोंसे लिये गये हैं। इस तरह इस ग्रन्थमें भाषाके परिवर्तन और दूसरे ग्रन्थोंमें कुछ पद्योंके 'उक्त च' रूपमें उद्भरण-के सिवाय सिहस्रकी प्राय और कुछ भी कृति मालूम नहीं होती। बहुत सभव है कि 'उक्त च' रूपसे जो यह पद्योंका सम्राह पाया जाना है वह स्वयं सिहस्र मुनिके द्वारा न किया गया हो, बाल्क बादको किसी दूसरे ही विद्वानके द्वारा अपने तथा दूसरोंके विशेष उपरोक्तके लिये किया गया हो, क्योंकि इही सिहस्र जब एक प्राकृत ग्रन्थका सस्कृतमें—मात्र भाषाके परिवर्तन रूपसे ही—अनुवाद करन बैठे—व्याख्यान नहीं, तब उनके लिये यह सम्भावना बहुत ही कम जान पड़ती है कि वे दूसरे प्राकृतादि ग्रन्थोंपरसे तुलनादिके लिये कुछ वाक्योंको स्वयं उद्भूत करके उन्हे ग्रन्थका ग्रन्थ बनाएँ। यदि किसी तरह उन्हींके द्वारा यह उद्भरण-कार्य सिद्ध किया जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११वी शताब्दीके अन्तमें ग्रथवा उसके बाद हुए हैं, क्योंकि इसमें आवार्य नमिचन्द्रके त्रिलोक-सारकी गाथाएँ भी 'उक्त च त्रैलोक्यसारे' जैस वाक्यके साथ उद्भृत पाई जाती हैं। और इसलिये इस सारी परिस्थिति परसे यह कहनेमें कोई सक्रिय नहीं होता कि तिलोयपण्णतीमें जिस लोकविभागका उल्लेख है वह वही सबनन्दीका प्राकृत-लोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं किन्तु अनुवादितरूप सस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है। चूंकि उस लोकविभागका रचनाकाल शक स० ३८० (वि० स० ५१५) है भ्रतः तिलोयपण्णतीके रचयिता यतिवृष्टभ शक स० ३८० के बाद हुए हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। अब देखना यह है कि किसने बाद हुए हैं।

(२) तिलोयपण्णतीमें अनेक काल-गणनाओंके प्रावररपर 'चतुर्मुख' नामक कल्पि ^३ की मृत्यु वीरनिवाणिसे एक हजार वर्ष बाद बतलाई है, उसका राज्यकाल ४२ वर्ष दिया है, उसके अत्याचारों तथा भारे जानेकी घटनाओंका उल्लेख किया है और मृत्युपार उसके पुत्र अजितजयका दो वर्ष तक वर्षमात्र होना लिखा है। साथ ही, बादको घर्मकी क्रमशः हानि बतलाकर और किसी राजाका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकारकी कुछ गाथाएं निम्न प्रकार हैं, जो कि पालकादिके राज्यकाल ६१८ का उल्लेख करनेके बाद दी गई हैं:—

“तचो कक्की जाडो इन्दसुदो तस्स चउमुहो णामो ।
सत्तरि-वरिसा आऊ विगुण्य-इगबीस-रञ्जन्तो ॥६६॥
आचारागधरादो पणहत्तरि-जुत्त दुसय-वासेसु ।
बोल्लीणेसु बद्धो पटो कक्की स खरवहणो ॥१०६॥”
“अह का वि असुरदेशो ओंहाईदो मुणिगणाण उवसगा ।
णादूण तकड़की मारेदि हु धम्मदोहि त्ति ॥१०३॥
कक्किसुदो अजिदजय-णामो रक्तदि णमदि तवरणे ।
त रक्तदि असुरदेशो धम्मे रज्ज करेज्जति ॥१०४॥”

^३ कल्पि नि सन्देह ऐतिहासिक व्यक्ति हुभा है, इस बातको इतिहासज्ञोंने भी मान्य किया है। ढा० के० बी० पाठक उसे 'मिहिरकुल नामका राजा बतलाते हैं और जैनकालगणनाके साथ उसकी समति बिठलाते हैं, जो बहुत अत्याचारी था और जिसका वर्णन चीनी यात्री हुएन्तसाङ्गने अपने यात्रा-वर्णनमें विस्तारके साथ किया है तथा राजतरणिणीमें भी जिसकी दुष्टताका हाल दिया है। परन्तु ढा० काशीप्रसाद (के०पी०) जायसवाल इस मिहिरकुल-को पराजितकरनेवाले मालवाधिपति विष्णुयशोधमर्को ही हिन्दू पुराणों आदिके अनुसार 'कल्पि' बतलाते हैं जिसका विजयस्तम्भ मन्दसौरमें स्थित है और वह ई० सद् ५३३-३४ में स्थापित हुआ था। (देखो, जैनहितीषी भाग १३ अंक १२में जायसवालजीका 'कल्पिक-प्रबतारकी ऐतिहासिकता' और पाठकजीका 'गुरुराचार्योंका काल, मिहिरकुल और कल्पि' नामक लेख पृ० ५१६ से ५२५।

तचो दो वे वासो सम्म धम्मो पथटुदि जखार्यं ।

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएदे ॥१०५॥”

इस घटनाचक्रमरसे यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णतीकी रचना कल्पि राजाकी मृत्युमे १०-१२ वर्षसे अधिक बादकी नहीं है । यदि अधिक बादकी होती तो ग्रन्थपढ़तिको देखते हुए समव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य अधिकारा राजाका उल्लेख न किया जाता । अस्तु, बीर-निर्वाण शकराजा अधिका शक सवत्से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णतीमें भी पाया जाना है । एक हजार वर्षमेंसे इस सृष्टिको घटानेपर “३६४ वर्ष ७ महीने अवशिष्ट रहते हैं । यहीं (शक सवत ३६५) कल्पि की मृत्युका समय है । और इसलिये तिलोयपण्णतीका रचना काल शक स० ४०५ (वि० स० ५४०) के करीबका जान पड़ता है जबकि लोकविभाग-को बने हुए २५ वर्षके करीब हो चुके थे, और यह प्रसार लोकविभागकी प्रसिद्धि तथा यतिवृष्टम् तक उसकी पहुँचके लिये पर्याप्त है ।

(ख) यतिवृष्टम् और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धमें प्रेमीजीकं मतकी आलोचना—

ये यतिवृष्टम् कुन्दकुन्दाचार्यसे २०० वर्षप भी अधिक समय बाद हुए हैं, इस बातको सिद्ध करनेह लिये मैंने ‘श्रीकुन्दकुन्द और यतिवृष्टमें पूर्ववर्ती कौन ?’ नामका एक लेख आजसे कोई ६ वर्ष पहले लिखा था^५ । उसमें,

* गिर्वाणे वीरजिणे छब्बास-सदेसु पच वरसेसु ।

पण-मासेसु गदेसु सजादो सग-गिग्नो अहवा ॥—तिलोयपण्णती

पण-छस्सय वस्स पणगमासजुद गमिय वीरणिन्दुददो ।

सगराजो तो कबकी चदुणवतियमहियसगमाम ॥—विलोकसार

बीरनिर्वाण और शकसवत्की विशेष जानकारीके लिये, लेखककी ‘भगवान् महाबीर और उनका समय’ नामकी पुस्तक देखनी चाहिये ।

^५ देखो, मनेकान्त वर्ष २, नवम्बर सन् १६३८ की किरण न० १

इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कुछ गलत तथा भ्रान्त उल्लेखोपरमे बनी हुई और श्रोष्ट-श्रुतावतारके उसमे भी अधिक गलत एवं आपत्तिके योग्य उल्लेखोपरसे पुष्ट हुई कुछ विदानोकी गलत घारणाको स्पष्ट करते हुए, मैंने सुहृदर ४० नाथूरामजी प्रभीकी उन युक्तियोपर विचार किया था जिनके आवारपर वे कुन्दकुन्दको यनिवृत्तभके बादका विद्वान् बतलाते हैं। उनमें से एक युक्ति तो इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारपर ही अपना आधार रखती है, दूसरी प्रबचनसारकी 'एस सुरामुर' नामकी आद्य मगल-गाथासे सम्बन्धित है, जो तियोग्यपण्णतीके अन्तिम अधिकारमें भी पाई जाती है और जिसे प्रेमीजीने तिलोयपण्णतीपरसे ही प्रबचनसारमें लीगई लिखा था, और तीसरी कुन्दकुन्दके नियमसारकी निम्न गाथासे सम्बन्ध रखती है, जिसमे प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेसु' पदमे प्रेमीजी सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' प्रन्थका उल्लेख समझते हैं और चूंकि उसकी रचना शक स० ३८० में हुई है अत कुन्दकुन्दाचार्यको शक स० ३८० (वि० स० ५१५) के बादका विद्वान् ठहराते हैं—

चउदसभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउभेदा ।
एदेसि वित्थार लोयविभागेसु णाडब्बे ॥१७॥

'एस सुरामुर' नामकी गाथाको कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिये मैंने जो युक्तियाँ दी थी उनपरमे प्रेमीजीका विचार अपनी दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो बदल गया है, ऐसा उनके 'जैनसाहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थके प्रथम लक्ष 'लोकविभाग और तिलोयपण्णति' परसे जाना जाता है। उसमे उन्होने उक्त गाथाकी स्थितिको प्रबचनसारमें सुहृद स्वीकार किया है, उसके अभावमें प्रबचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयरे' को लटकती हुई माना है और तिलोयपण्णतीके अन्तिम अधिकारके प्रन्थमें पाई जानेवाली कुन्दुनाथसे बढ़मानत हकी स्तुति-विषयक ८ गाथाओके सम्बन्धमें, जिनमें उक्त गाथा भी शामिल है, लिखा है कि—'बहुत समव है कि ये सब गाथाएँ मूलग्रन्थकी न हो, पीछेमे किसीने जोड दी हो और उनमे प्रबचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो ।'

दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके

जिस उल्लेख[†] परसे कुन्दकुन्द (पचनन्दी) को यतिवृषभके बादका विद्वान् समझा जाता है उसका अभिप्राय ‘द्विविध-सिद्धान्त के उल्लेखवारा यदि कसायपाहुड़ (कषायप्राभृत) को उसकी टीकाओं-सहित कुन्दकुन्द तक पहुँचाना है तो वह चरूर गलत है और किसी गलत सूचना अथवा गलतफहमीका परिणाम है। क्योंकि कुन्दकुन्द यतिवृषभसे बहुत पहले हुए हैं, जिसके कुछ प्रमाण भी दिये थे। साथ ही, यह भी बतलाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि गुणधर और घरसेन आचार्यों की गुह-परम्पराका पूर्वाभिरक्तम्, उनके वशका कथन करनेवाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उस समय अभाव होनेसे, उन्हे मालूम नहीं है’ * , परन्तु दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके अवतारका जो कथन दिया है वह भी उन ग्रन्थों तथा उनकी टीकाओंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता —मुना-मुनाया जान पड़ता है। यही बजह है जो उन्होंने आर्यमस्तु और नाग-हस्तिको गुणधराचार्यका साक्षात् शिष्य घोषित कर दिया और लिख दिया है कि गुणधराचार्यने कसायपाहुड़की सूत्रगाथाओंको रचकर उन्हे स्वयं ही उनकी व्याख्या करके आर्यमस्तु और नागहस्तिको पढ़ाया था †, जबकि उनकी टीका जयधवलामे स्पष्ट लिखा है कि ‘गुणधराचार्यकी उक्त सूत्रगाथाएँ आचार्य-परम्परासे चली आती हुई आर्यमस्तु और नागहस्तिको प्राप्त हुई थी—गुणधरा-चार्यमे उन्हे उनका सीधा (direct) आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि

[†] ‘माया-चूष्णु ज्ञारण सुत्रं रूपसहृत कषायारूप—
प्रामृतमेव गुणधर-यतिवृषभोज्ञारणाचार्यैः ॥१५६॥
एव द्विविधा द्रव्य-भाव-पुस्तकगणः समागच्छत् ।
गुणधरिपाटधा ज्ञात सिद्धान्तं कोण्डकुन्दपुरे ॥१६०॥
श्रीकथनन्दी-मुनिना, सोऽपि द्वादशसहस्रपरिमाणः ।
स्नान-परिकर्म-कर्ता वट्खण्डाऽऽश्वत्रिलङ्घन्य’ ॥१६१॥

[‡] ‘गुण धर-घरसेनान्वयगुरुवैं पूर्वाभिरक्तमोऽस्माभि—
नं ज्ञायते तदन्वय-कथकाऽऽगम-मुनिजनाभावात् ॥१५०॥
तु एवं गाथासूत्राणि पञ्चदशमहाधिकाराणि ।
प्रविरच्य व्याचर्य्ये स नागहस्त्यार्यमस्तुम्याद् ॥१५४॥

उसके निम्न संश्लेषण प्रकाश है—

‘पुणो ताओ मुत्तगाहाओ आइरिय परम्पराए आगच्छमाणाओ
अञ्जमस्तु गुणधर्त्यीण पत्ताओ ।’

और इसलिये इद्वन्दि धरतावतारके उक्त कथनकी साथतापर कोई भरोसा अथवा विश्वास नहीं किया जा सकता । परंतु मेरी इन सब बातोंपर प्रभीजी न कोई खास ध्यान दिया म लूम नहीं होता और इसी लिये वे अपन उक्त स्थगत सेखम आयमस्तु और नागहस्तिको गुणधराचायका साक्ष त शिष्य मानकर ही चले हैं और इम मानकर चलनम उ है यह भी खयाल नहीं हुआ कि जो इद्वन्दी गुणधराचायके पूर्वाभिप्राप्ति विषयम् एक जगह अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हैं वे ही दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य परम्पराका उल्लेच करके अपर (बाट्को दोनवाले) गुणधरोंके विषयम् अपनी अभिज्ञता जतला रहे हैं और इस तरह उनके इन दोनों कथनोम परम्पर भारी विरोध है । और व कि यति वषभ आयमस्तु और नागहस्तिके गिर्य थ इसलिये प्रभीजीन उहे गुणधरा चायका समकालीन अथवा २—२५ वष बादका ही विद्वान् सूचित किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि कुदकुद (पद्मनादि) को दोनों सिद्धा नोका जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसम यतिवषभकी चर्चिका अतभाव भले ही न हो किर भी जिस द्वितीय मिद्वा न कथायप्राभतको कुदकुदन प्राप्त किया है उसके कना गुणधर जब यतिवषभके समकालीन अथवा २०—२५ वष पहले हुए थे तब कुदकुद भी यतिवषभके समसामयिक बल्कि कुछ पीछे के ही होगे क्योंकि उहे दोनों सिद्धा नोका जन गुणपरिपाटीमें प्राप्त हुए था । अर्चाहि एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानन होगे । और अतम इद्वन्दि धरतावतारपर अपना आधार व्यक्त करते और उनके विषयम् अपनी अद्वाको कुछ छीनी करते हुए यहा तक लिख निया है— गरज यह कि इद्वन्दि विषयके अतावतारके अनुसार पद्मनादि (कुदकुद) का समय यतिवषभसे बहन पहने नहीं जा सकता । अब यह बात दूसरी है कि इन्दिन जो इनिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनादि कुदकुदके बादके हूसरे ही आचाय हो और जिस तरह कुन्दकुद कोण्ड कुण्डपुरके थे उसी तरह पद्मनादि भी कोण्डकुण्डपुरके हो ।’

बादमें जब प्रेर्मीजीको जयधवलाका बह कथन पूरा मिल गया जिसका एक प्रांशु 'पुणी साम्रो' से आरम्भ करके मैंने अपने उक्त लेखमें दिया था और जो अधिकांशमें ऊपर उद्धृत किया गया है तब प्रान्त रूप चूकनेपर उसके परिचयान्तरमें आपने उस कथनको देते हुए स्पष्ट सूचित किया है कि "नायहृस्ति और भार्य-भंडु गुणधरके साक्षात् विष्य नहीं थे।" परन्तु इस सत्यको स्वीकार करनेपर उनकी उस दूसरी युक्तिका क्या रहेगा, इस विषयमें कोई सूचना नहीं की, जब कि करनी चाहिये थी। स्पष्ट है कि उनकी इस दूसरी युक्तिमें तब कोई सार नहीं रहता और कुन्दकुन्द, द्विविधसिद्धान्तमें चूर्णिका अन्तर्भाव न होनेसे, यतिवृष्टमें बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं।

अब रही प्रेर्मीजीकी तीसरी युक्तिकी बात, उसके विषयमें मैंने अपने उक्त लेखमें यह बतलाया था कि 'नियमसारकी उस गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोय-विभागेसु' पदका अभिप्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभागसे नहीं है और न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक प्रान्तविशेषका भी वाचक नहीं है। वह तो लोकविभाग-विषयक कथन-बाले अनेक ग्रंथों अथवा प्रकरणोंके सेकेतको लिए हुए जान पड़ता है और उसमें कुद कुन्दकुन्दके 'लोयपाहुड'- 'संठाणपाहुड' जैसे ग्रन्थ तथा दूसरे 'लोकानुयोग' अथवा लोकाजलोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल किये जा सकते हैं। और इसलिये 'लोयविभागेसु' इस पदका जो अर्थ कही शताब्दियों पीछेके टीकाकार पथप्रभने 'लोकविभागाभिधानपरमागमे' ऐसा एकवचनान्त किया है वह ठीक नहीं है कि साथ ही यह बतलाया था कि उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि ('उक्त च' वाच्योंको छोड़कर) सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका ही अनुवादित सरकृतरूप है, तियंचोंके उन चौदह मेदों-के विस्तार-कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसारकी उक्त गाथामें किया गया है। और इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी

मेरे इस विवेचनसे, जो 'जैनजगत' वर्ष ८ अंक ६ के एक पूर्ववर्ती लेखमें प्रथमतः प्रकट हुआ था, डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० ने प्रवचनसारकी प्रस्तावना (पृ० २२, २३) में अपनी पूर्ण-सहमति व्यक्त की है।

जयादा पुष्ट होता है। इसके तिवाय, दो प्रमाणण ऐसे उपस्थित किये थे, जिनकी मौजूदगीमें कुन्दकुन्दका समय शक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता। उनमें एक प्रमाणण मर्कराके ताम्रपत्रका था, जो शक ० सं० ३८८ का उत्कीर्ण है और जिसमें देवीगण। त्वर्गत कुन्दकुन्द-के अन्वय (वंश) में होनेवाले गुणचन्द्रादि छह आचार्योंका गुह-शिष्यक्रमसे उल्लेख है। और दूसरा प्रमाणण स्वयं कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सदविद्यारो हूमो' नामकी गाथाका था, जिसमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य सूचित किया है।

प्रथम प्रमाणको उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि 'यदि मोटे रूपसे गुणचन्द्रादि छह आचार्योंका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय, जो उस समयकी आयुक्तायादिकी स्थितिको देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता, तो कुन्दकुन्दके वंशमें होनेवाले गुणचन्द्रका समय शकसंवत् २३८ (वि सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। और चूंकि गुणचन्द्राचार्य कुन्दकुन्दके साक्षात् शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके अन्वय (वंश) में हुए हैं और अन्वयके प्रतिष्ठित होनेके लिये कमसे कम ५० वर्षका समय मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी हालतमें कुन्दकुन्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्रपरसे २०० (१५० + ५०) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता है। और इसलिये कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचार्य यतिवृषभसे २०० वर्षसे भी अधिक पहले हुए हैं। और दूसरे प्रमाणमें गाथाको छु उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि 'जिनेन्द्रने—भगवान् महावीरने—अर्थं रूपसे जो कथन किया है वह भाषा-सूत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ है—अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूंथा गया है—, भद्रबाहुके मुख शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और (जानकर) कथन किया है।' इससे बोधपाहुडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहुके शिष्य मालूम होते हैं। और ये भद्रबाहु श्रुतकेवलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान पड़ते हैं, जिन्हें प्राचीन ग्रन्थकारोंने 'आचाराङ्' नामकं प्रथम अंगके घारियोंमें

* सदविद्यारो हूमो भासासुते सु जं जिगे कहियं ।

'सो तह कहियं गायं सौसेणा य भद्रबाहुस्त ॥ ६१ ॥

तुरीय विद्वान् सूचित किया है और जिनका समय जैन कालगणनाओंके † अनुसार वीरनिवाण-संवत् ६१२ प्रथमत विं सं० १४२ (भद्रबाहु द्वितीयके समाप्तिकाल) से पहले भले ही हो; परन्तु पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें जिन-कथित श्रुतमें ऐसा कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे गाथामें ‘सद्विवारो हृषो भासासुत्तेसु जं जिरो कहियं’ इन शब्दोंद्वारा सूचित किया गया है—वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी—कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था। और इसलिये कुन्दकुन्दका समय विकल्पकी दूसरी शताब्दी तो हो सकता है परन्तु तीसरी या तीसरी शताब्दिके बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता।

परन्तु मेरे इस सब विवेचनको प्रेमीजीकी बढ़मूल हुई धारणाने कबूल नहीं किया, और इसलिये वे अपने उत्तर ग्रन्थगत लेखमें मर्कराके ताङ्पत्रको कुन्दकुन्दके स्वनिर्धारित समय (शक सं० ३८० के बाद) के माननेमें “सबसे बड़ी बाधा” स्वीकार करते हुए और यह बतलाते हुए भी कि “तब कुन्दकुन्दको यतिवृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है।” लिखते हैं—

“पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कौण्ड-कुन्दान्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कौण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुई परम्परा करना चाहिये। जैसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, मरुंगलकी अरुंगलान्वय, कितूरकी कितूरान्वय, मषुराकी माषुरान्वय आदि।”

परन्तु अपने इस संभावित समाधानकी कल्पनाके समर्थनमें आपने एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया, जिससे यह मालूम होता कि श्रीपुरान्वयकी तरह कुन्दकुन्दपुरान्वयका भी कहीं उल्लेख आया है अथवा यह मालूम होता कि जहाँ पद्मनन्द अपरनाम कुन्दकुन्दका उल्लेख आया है वहाँ उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्वय-

† जैन कालगणनाओंका विशेष जाननेके लिये देखो लेखकद्वारा लिखित ‘स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) ना ‘समय-निरांय’ प्रकरण पृ० १८३ से तथा ‘भ० महावीर और उनका समय’ नामक पुस्तक पृ० ३१ से।

का भी उल्लेख आया है और उसी कुन्दकुन्दान्वयमे उन पश्चनन्दि-कुन्दकुन्दको बतलाया है, जिससे ताम्रपत्रके 'कुन्दकुन्दान्वय' का अर्थ 'मुन्दकुन्दपुरान्वय' कर लिया जाता। बिना समर्थनके कोई कल्पनासे काम नहीं चल सकता। बास्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी अन्वयके प्रतिष्ठित अथवा प्रचलित होनेका जैनसाहित्य-में कही कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। प्रन्तु इसके, कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयके प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके सैकड़ों उदाहरणे शिलालेखों तथा ग्रन्थप्रज्ञस्तियों-में उपलब्ध होते हैं और वह देशादिके भेदसे 'इगलेइवर' जूँ आदि अनेक शास्त्राभ्यों (वलियो) में विभक्त रहा है। और जड़ों कही अकुन्दकुदके पूर्वकी गुरुपरम्परा-का कुछ उल्लेख देखनमें आता है वहाँ उन्ह गीतम् गणधरकी सन्ततिमें अथवा श्रुतकेवली भद्रबाहुके शिष्य चन्द्रगुप्तके अन्वय (वश) में बतलाया है †। जिन-का कोणकुन्दपुरके साण कोई सम्बन्ध भी नहीं है। श्रीकुन्दकुन्द मूलसन (नन्दि-सघ भी जिसका नामान्तर है) के अग्रणी गणी ये और दशीगणका उनके अन्वयसे खास सम्बन्ध रहा है, ऐसा श्रवणबल्गोलके ५५ (६६) नम्बरके शिला-लेखके निम्नवाक्योंसे जाना जाता है—

“श्रीमतो वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने ।
श्रीकोण्डकुन्दनामाऽमृग्मूलसधाग्रणी गणी ॥३॥
तस्याऽवयेऽजनि रुयाते देशिके गणे ।
गुणी देवेन्द्रसैद्धान्तटेवो देवेन्द्र-वन्दित ॥४॥”

और इसलिये मर्कंरोके ताम्रपत्रम् देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयका ही उल्लेख है, कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं। और इससे प्रेमीजीकी उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम नहीं होता। इसके सिवाय, प्रेमीजीने बोधपाहुड-गाया-सम्बन्धी भेरे दूसरे प्रमाणका कोई

॥ सिरिमूलसप-देवियगण-पुत्त्यगच्छ-कोडकु दाण ।

परमण्ण-इगलेसर-बलिम्म जादस्स मुणिपहाणस्स ॥

—भाबतिभी ११८, परमाममसार २२६

† देखो, श्रवणबल्गोलके शिलालेख न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८

विरोध नहीं किया, जिससे वह स्वीकृत जान पड़ता है अब उसका विरोध अशक्य प्रतीत होता है। दोनों ही अवस्थाओंमें कौण्डकुन्दपुरान्वयकी उक्त कल्पनासे क्या नतीजा ? क्या वह कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी अपनी आरणाको, प्रबलतर बाधाके उपरिक्षित होनेपर भी, जीवित रखने आदिके उद्देश्यसे की गई है ? कुछ समझमें नहीं आता ॥

नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए ‘लोयविभागेसु’ पदको लेकर मैंने जो उपर्युक्त दो आपत्तिया की थी उनका भी कोई समुचित समाधान प्रेमीजीने नहीं किया है। उन्होंने अपने उक्त मूल लेखमें तो प्राय इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि “बहुवचनका प्रयोग इसलिये भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त भेद देखने चाहियें।” परन्तु ग्रन्थकार कुन्द-कुन्दाचार्यका यदि ऐसा अभिप्राय होता तो वे ‘लोयविभाग विभागेसु’ ऐसा पद रखते, तभी उक्त आशय घटित हो सकता था, परन्तु ऐसा नहीं है, और इस लिये प्रस्तुत पदके ‘विभागेसु’ पदका आशय यदि ग्रन्थके विभागों या अध्यायोंका लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम ‘लोक’ रह जाता है—‘लोकविभाग नहीं— और उससे प्रेमीजीकी सारी युक्ति ही लोट आती है जो ‘लोकविभाग’ ग्रन्थके उल्लेखको मानकर की गई है। इसपर प्रेमीजीका उस समय ध्यान गया मालूम नहीं होता। हाँ, बादको किसी समय उन्हे अपने इस समाधानकी नि सारताका ध्यान आया ज़रूर जान पड़ता है और उसके कलस्वरूप उन्होंने परिशिष्टमें समाधानकी एक नई हृष्टिका आविष्कार किया है और वह इस प्रकार है—

“लोयविभागेसु णादब्ब” पाठ पर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहुवचनान्त पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक ग्रन्थके लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठको ‘लाय-विभागे सुणादब्ब’ इस प्रकार पढ़ना चाहिये, ‘सु’ को ‘णादब्ब’ के साथ मिला देनेसे एकवचनान्त लोयविभागे ही रह जायगा और अगली किया ‘सुणादब्ब’ (सुञ्जातब्ब) हो जायगी। पथप्रभने भी जायद इसी लिये उसका अर्थ ‘लोक-विभागामिधानपरमागमे’ किया है ।”

इसपर मैं इतना ही निवेदन करता चाहता हूँ कि प्रथम तो मूलका पाठ बब्ब ‘लोयविभागेसु णादब्ब’ इस रूपमें स्पष्ट भिल रहा है और दीकामें उसकी

संस्कृत ज्ञाया जो 'लोकविभागेषु ज्ञातव्य' * दी है उससे वह पूछ हो रहा है तथा टीकाकार पश्चप्रभने क्रियापदके साथ 'सु'का 'सम्यक्' आदि कोई अर्थ अय्क्त भी नहीं किया—मात्र विशेषणरहित 'हृष्टव्यः' पदके द्वारा उसका अर्थ अय्क्त किया है, तब मूलके पाठकी, अपने किसी प्रयोजनके लिये अन्यथा कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र और बोधपट्टुडकी गाथा-सम्बन्धी उन दोनों प्रमाणों-का निरसन कर दिया जाय जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है, क्योंकि उनका निरसन अथवा प्रतिवाद न हो सकनेकी हालतमें जब कुन्दकुन्दका समय उक्त प्रमाणों परसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी अथवा उसमें पहलेका निश्चित होता है तब 'लोकविभागे' पदकी कल्पना करके उसमें शक सं० ३८० अर्थात् विक्रमकी छठी शताब्दीमें बने हुए लोकविभाग अर्थके उल्लेखकी कल्पना करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता। इसके सिवाय, मैंने जो यह आपत्ति की थी, कि नियमसारकी उक्त गाथाके अनुसार प्रस्तुत लोकविभागमें तिर्यकोके १४ भेदोका विस्तारके साथ कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है उसका भले प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये अर्थात् लोकविभागमें उस कथाक स्थित्वको स्पष्ट करके बतलाना चाहिये, जिससे 'नोकविभागे' पदका वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग समझा जा सके, परन्तु प्रेमीजीने इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे ढालना चाहा है। इसीसे परिशिष्टमें आपने यह लिखा है कि 'लोकविभागमें चतुर्गतजीव-भेदोका या तिर्यको और देवोके चौदह और चार भेदोका विस्तार नहीं है, यह कहना भी विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही

* मूलमें 'एदेसि वित्यार' पदोके अनन्तर 'लोकविभागेषु णादव्य' पदोका प्रयोग है। चूंकि प्राकृतमें 'वित्यार' शब्द नपु सक लिगमें भी प्रयुक्त होता है इसीसे 'वित्यार' पदके साथ 'णादव्य' क्रियाका प्रयोग हुआ है। परन्तु संस्कृतमें 'विस्तार' शब्द पुलिंग माना गया है अत टीकामें संस्कृत ज्ञाया 'एतेषा विस्तारः नोकविभागेषु ज्ञातव्यः' दी गई है, और इसलिये 'ज्ञातव्य' क्रियापद ठीक है। प्रेमीजीने ऊपर जो 'मुज्ञातव्य' रूप दिया है उसपरसे उसे गलत म समझ लेना चाहिये।

‘तिर्यंक लोकविभाग’ है और चतुर्विषय देवोका वर्णन भी है।’ परन्तु ‘वह कहना’ शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गया है उसे मैंने कब और कहा कहा है ? मेरी आपत्ति तो तिर्यंकोके १४ भेदोंके विस्तार कथन तक ही सीमित है और वह ग्रन्थको देखकर ही की गई है, किर उसने अप्पोंमें ही मेरे कथनको न रखकर प्रतिरिक्षित कथनके साथ उसे ‘विचारणीय’ प्रकट करना तथा ग्रन्थमें ‘तिर्यंकलोकविभाग’ नामका भी एक अध्याय है ऐसी बात कहना, यह सब टलाने के सिवाय और कुछ भी अर्थ रखता हुमा मालूम नहीं होता मैं पूछता हूँ क्या ग्रन्थमें ‘तिर्यंक लोकविभाग’ नामका छठा अध्याय होनेसे ही उसका यह अर्थ हो जाता है कि ‘उसमें तिर्यंकोके १४ भेदोंका विस्तारके साथ वर्णन है ? यदि नहीं तो ऐसे समाधानसे क्या नतीजा ? और वह टलानेकी बात नहीं तो और क्या है ?

जान पड़ता है प्रेमीजी अपने उक्त समाधानकी गहराई को समझते थे— जानते थे कि वह सब एक प्रकारकी खानापूरी ही है—और शायद यह भी अनुभव करने थे कि सस्कृन लोकविभागमें तिर्यंकोके १४ भेदोका विस्तार नहीं है, और इसलिये उन्होंने परिविष्टमें ही, एक कदम आगे, हमाधानका एक दूसरा रूप अस्तिन्यार किया है—जो सब कल्पनात्मक, सन्देहात्मक एवं अनिरांयात्मक है—और वह इस प्रकार है —

“ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा । सिंहसूरिने उसका सक्षेप किया है । ‘व्याघ्रास्थामि समासेन’ पदसे वे इस बात-को स्पष्ट करते हैं । इसके सिवाय आगे ‘शास्त्रस्य सप्तहस्तिवद’ से भी यही छवनित होता है—सप्रहका भी एक अर्थ सक्षेप होता है । जैसे गोमटसगहसुत आदि । इसलिये यदि सस्कृन लोकविभागमें तिर्यंकोके १४ भेदोका विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थमें रहा होगा, सस्कृतमें सक्षेप करनेके कारण नहीं लिखा गया ।”

इस समाधानके द्वारा प्रेमीजीने, सस्कृन लोकविभागमें तिर्यंकोके १४ भेदोका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें, अपने बचावकी और नियमसारकी उक्त गाडामें सर्वनन्दिके लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी अपनी धारणाको बनाये रखने तथा दूसरों पर लादे रखनेकी एक सूरत निकाली है । परन्तु

प्रेमीजी जब स्वयं अपने लेखमें लिखते हैं कि “उपलब्ध ‘लोकविभाग’ जो कि सकृन्तमें है बहुत प्राचीन नहीं है। प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक सबूत ३८० के बने हुए ग्रन्थसे अनुवाद किया गया है” और इस तरह सकृन्तलोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित रूप स्वीकार करते हैं। और यह बात मैं अपने लेखमें पहले भी बतला चुका हूँ कि सकृत लोकविभागके अन्तमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्याका ही सूचक जो पद्धति है और जिसमे श्लोकसंख्याका परिमाण १५३६ दिया है वह प्राकृत लोकविभागकी संख्याका ही सूचक है और उसीके पद्धति का अनुवादित रूप है, ग्रन्थथा उपलब्ध लोकविभागकी श्लोकसंख्या २०३० के करीब पाई जाती है और उसमे जो ५०० श्लोक-जितना पाठ अधिक है वह प्राय उन ‘उक्त च’ पद्धोका परिमाण है जो दूसरे ग्रन्थोपरसे किसी तरह उद्धृत होकर रखले गये हैं। तब किस आधारपर उक्त प्राकृत लोकविभागको ‘बड़ा बतलाया जाता है’? और किस आधारपर यह कल्पना की जाती है कि ‘व्याख्यास्यामि समाप्तेन’ इस वाक्यके द्वारा सिहस्रि स्वयं अपने ग्रथ-निर्माणकी प्रतिज्ञा बर रहे हैं और वह सर्वनन्दीकी ग्रथ-निर्माण-प्रतिज्ञाका अनुवादित रूप नहीं है? इसी तरह ‘शास्त्रस्य सग्रहमित्वद्’ यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका अनुवादित रूप नहीं है? जब सिहस्रि स्वतन्त्र रूपसे किसी ग्रन्थका निर्माण ग्रथवा सग्रह नहीं कर रहे हैं और न किसी ग्रन्थकी व्याख्या ही कर रहे हैं बल्कि एक प्राचीन ग्रथका भाषणके परिवर्तन द्वारा (भाषाया परिवर्तनेन) अनुवाद मात्र कर रहे हैं तब उनके द्वारा ‘व्याख्यास्यामि समाप्तेन’ जैसा प्रतिज्ञा-वाक्य नहीं बन सकता और न श्लोकसंख्याका साथमें दता हुआ ‘शास्त्रस्य सग्रहमित्वद्’ वाक्य ही बन सकता है। इससे दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दीके ही वाक्यों-के अनुवादितरूप जान पड़ते हैं। सिहस्रका इस ग्रन्थकी रचनासे केवल इतना ही सम्बन्ध है कि वे भाषाके परिवर्तन-द्वारा इसके रचयिता हैं— शियके सकलनादिद्वारा नहीं—जैसाकि उन्होने अन्तके चार पद्धोमेसे ग्रथम पद्धमे सूचित किया है और ऐसा ही उनकी ग्रन्थ-प्रकृतिपरसे जाना जाता है। मालूम होता है प्रेमीजीने इन सब बातों पर कोई व्याख्या नहीं दिया और वे वैसे ही अपनी किसी भूत ग्रथवा भारणाके पीछे युक्तियोंको तोड़-मरोड़ कर

अपने अन्नकूल बनानेके प्रयत्नमें समाधानकरने बैठ गये हैं।

ऊपरके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि प्रेमीजीके इस कथन के पीछे कोई युत्तिबल नहीं है कि कुदुन्द यतिवृषभके बाद अथवा सम सामयिक हुए हैं। उनका जो सास प्राधार आयमक्षु और नामहृष्णिका मुगाधराचार्य-के साक्षात् विषय होना था उह स्थिर न हो रह सका—प्राय उसीको मूलाधार मानकर और नियममारकी उन गाथाम सर्वनन्दीके लोकविभागकी आशा लगाकर वे दूसरे प्रमाणोंको खीच-तान-ढारा अपने सहायक बनाना चाहते थे, और वह कार्य भी नहीं हो सका। प्रत्युत इमके ऊपर जो प्रमाण दिये गये हैं उनपरसे यह भये प्रकार फलिन होना है कि कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी तक तो हो सकता है—उमके बादका नहीं, और इसलिये छठी शताब्दीमें होनेवाले यतिवृषभ उनमें कई शताब्दी बाद हुए हैं।

(ग) नई विचार-धारा और उसकी जाँच—

अब 'तिलोयपण्णती' के सम्बन्धमें एक नई विचार-धारादो सामने रखकर उसपर विचार एवं जाँचका काय किया जाता है। यह विचार-धारा ५० फूलचन्दजी शास्त्रीने अपने 'बततान तिलोयपण्णति और उसके रचनाकाल धारिका विचार' नामक सेक्षमे प्रस्तुत को है, जो जैनसदान्तभास्करके ११वे भागकी फृहनी किरणमे प्रकाशित हुआ है। शास्त्रीजीके विचारानुसार बन्मान तिलोयपण्णती विक्रमकी ६वी शत दशी अथवा शक स० ७३८ (वि० स० ८७३) से पहले की बनी हुई नहीं है और उसके कर्ता भी यतिवृषभ नहीं हैं। अपने इम विचारके सम्बन्धमें आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनका सार निम्न प्रकार है। इस सारको देनमें इस बातका सास त्वयाल रक्खा गया है कि वहाँ तक भी हो सके शास्त्रीजीका युकिनवाद अधिकसे अधिक उन्हींके शब्दोंमें रहे:—

(१) वर्तमानमें लोकको उत्तर और दक्षिणमें जो सबन्न सात रातु मानते हैं उसनी स्थापना घबलाके कर्ता वीरसेन स्थामीने की है—वीरसेनस्थामी-से पहले वैसी मान्यता नहीं थी। वीरसेनस्थामीके समय तक जैन धारायं उपमालोकसे पाँच द्वयोंके ग्राधारभूत लोकको भिज मानते थे। जैसा कि

राजवाचिकके निम्न दो उल्लेखोंसे प्रकट है—

“अथ लोकमूले दिग्पिदित्तु विष्कम्भ सातरडजव , तिर्यग्लोके रज्जुरेका ब्रह्मलोके पच, पुनर्लोकामें रज्जुरेका । मध्यलोकाद्धो रज्जु-मवगाह शर्करान्ते अष्ट्रास्त्रपि दिग्पिदित्तु विष्कम्भ रज्जुरेका रज्जवाश्च षट् सप्तभागा ।” —(अ० १ स० २० टीका)

‘ततोऽसर्व्यान् खण्डानपनीयासख्येयमेव भाग बुद्ध्या विरखीकृत्य एकैकरिमन् घनाङ्गुल दत्ता परस्परेण गुणिता जगच्छ्रेणी सापरया जगच्छ्रेण्या अभ्यस्ता प्रतरलाक । स एतापरया जगच्छ्रेण्या सवर्गितो घनलोक ।’ —(अ० ३० स० ३८ टीका)

इनमेंसे प्रथम उल्लेख परसे लोक आठो दिशाओंम समान परिमाणको लिये हुए होनये गोल हुया और उसका परिमाण भी उपमालोकके प्रमाणा-नुसार ३४३ घनराजु नहीं बैठता, जब कि बीरसेनका लोक चौकोर है वह पूर्व-पश्चिम दिशाम ही उक्त क्रमसे बटता है दक्षिण-उत्तर दिशामें नहीं—इन दोनो दिशाओंम वह सबत्र सात राजु बना रहता है । और इसलिये उसका परिमाण उपमालोकके अनुसार ही ३४३ घनराजु बैठता है और वह प्रमाणम पेश की हुई निम्न दो गाथाओपरमे, उक्त आकारके साथ भले प्रकार फलित होता है—

“मुहत्तलसमासच्छ्र बुस्सेधगुण गुण च वेधेण ।

घणगणिद जाणेऽजो वेत्तासणसठिए खेतो ॥१॥

मूल मज्जेण गुण मुहजहिदद्वमुस्सेधकदिगुणिद ।

घणगणिद जाणेऽजो मुहगसठाणखेतान्मि ॥२॥”

—घवला, क्षत्रानुयागद्वार प० २०)

राजवाचिकके दूसरे उल्लेखपरसे उपमालाकका परिमाण ३४३ घनराजु तो फलित होता है, क्योंकि जगथरणीका प्रमाण ७ राजु है और उक्त घन ३४३ होता है । यह उपमालोक है परन्तु इस प्रमेये पाँच द्रव्योंके आशारभूत लोकका आकार आठो दिशाओंमें उक्त क्रममें बटना-बढता हुया ‘गोल’ फलित नहीं होता ।

“बीरसेनस्वामीके सामने राजवातिक आदिमें बतलाये गए आकारके विशद् लोकके आकार को सिद्ध करतेके लिए केवल उपर्युक्त दो गाथाएँ ही चीं। इन्हींके आधारसे वे लोकके आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहने में समर्थ हुए कि ‘जिनां ग्रन्थोमें लोकका प्रमाण अधो-लोकके मूलमें सातराजु, मध्यलोकके पास एक राजु, बहुस्वर्गके पास पाँच राजु और लोकाश्रमें एक राजु बतलाया है वह वहाँ पूर्वं और पश्चिम दिशाकी अपेक्षासे बतलाया है। उत्तर और दक्षिण दिशाकी भौरसे नहीं। इन दोनों दिशाओंकी अपेक्षा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है। यद्यपि इसका विषानम् करणानुयोगके ग्रन्थोमें नहीं है तो भी वहाँ निवेद भी नहीं है अतः लोकको उत्तर और दक्षिणमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये।

बर्तमान तिलोयपण्णतीमें निम्न तीन गाथाएँ भिन्न स्थलोंपर पाई जाती हैं, जो बीरसेनस्वामीके उस मतका अनुसरण करती हैं, जिसे उन्होंने ‘मुहूरत-समाप्त’ इत्यादि गाथाओं और बुद्धिपुरसे स्थिर किया है:—

‘जगसेद्विष्टणपमध्यो लोयायासो स पञ्चदेवरिदी ।

एस अण्टारण्टलोयायासस्त बहुमउके ॥६१॥

सयलो एस य लाओ णिप्पणो संदिविदमाणेण ।

तिवियप्यो णादन्वो हेद्विमजिकमउड्डभेषण ॥१२३॥’

सेद्विपमाणायामं भागेसु दक्षिणगुत्तरेसु पुढे ।

पुव्यावरेसु वासं भूमिमुहे सत्त एकक पञ्चेकका ॥ १४६ ॥”

इन पाँच द्रव्योंसे व्यास लोकाकाशको जगत्तेजीके घनप्रमाण बतलाया है। साय ही, ‘लोकका प्रमाण दक्षिण-उत्तर दिशामें सर्वत्र जाग्नेणो जितना अर्थात् सात राजु और पूर्व-पश्चिमदिशामें अधोलोकके पास सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, बहुलोकके पास पाँच राजु और लोकाश्रमें एक राजु है’ ऐसा

— + ‘ए च तद्याए गाहाए सह विरोहो, एत्य त्वं होमु दिसामु च दक्षिण-विकलं मदं पण्णादो ।’ चवला, क्षेत्रानुयोगद्वार पृ० २१ ।

क्षेत्राण्णियोगद्वार पृ० २२ ।

सूचिन किगा है। इपके निवाय, तिरोऽरण्णुतीका पहला महाविकार सामान्य-सौक अधोलोक व ऊर्ध्वलोकके विविव प्रकारसे निकाले गए चनकनों से भरा पड़ा है जिसमें वीरसेन स्वामीकी मान्यताएँ ही पुष्टि होनी है। तिलोयपञ्चात्तीका यह धर्म यदि वीरसेनस्वामीके सामने मौजूद होता तो 'वे इसका प्रमाण-रूपसे उल्लेख नहीं करते यह कभी सम्भव नहीं था। चूंकि वीरसेनने तिलोय-पञ्चात्तीकी उक्त गाथाएँ यथवा दूसरा धर्म बबलामे अपने दिवारके अवसरपर प्रमाणारूपसे उपस्थित नहीं किया था उनके सामने जो निलोयपञ्चात्ती थी और जिसके अनेक प्रमाण उन्होन बबलामे उद्घृत किये हैं वह वर्तमान निलोय-पञ्चात्ती नहीं थी—इसमें मिन दूपरी ही तिनोयपञ्चात्ती होनी चाहिये, यह निश्चिन होता है।

(२) “तिलोयपञ्चात्तीमें पहले अधिकारकी उच्ची गाथासे नेकर ८३वीं गाथा तक ८१ गाथाओंमें मगल आदि छह अधिकारोंका वरणन है। यह पूराका पूरा वरणन सनपरुवणाकी बबलाटीकामें आये हुए वरणनसे मिलता हुआ है। ये छह अधिकार तिलोयपञ्चात्तीमें अन्यत्रसे सप्रग्रह किये गये हैं इस बातका उल्लेख स्वयं तिलोयपञ्चात्तीकारन पहले अधिकारकी ८५वीं गाथा * में किया है तथा यथामें इन छह अधिकारोंका बरणन करते समय जितनी गाथाएँ या इलोक उद्घृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपञ्चात्तीसे नहीं, इससे मातृम होता है कि तिलोयपञ्चात्तीकारके सामन बबला अवश्य रही है।”

(दोनों अन्योंके कुछ समान उद्घरणोंके अनन्तर) “इसी प्रकारके पचासो उद्घरण दिये जा सकत हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि एक दून्य लिखते समय दूसरा दून्य अवश्य सामन रहा है। यहाँ पाठक एक विशेषता और देखेंगे कि बबलामें जो गाथा या इलोक अन्यत्रसे उद्घृत हैं निलोयपञ्चात्तीमें वे भी मूलमें शामिल कर लिये गए हैं। इसमें तो यही ज्ञात होता है कि तिलोयपञ्चात्ती लिखते समय लेखकके सामने बबला अवश्य रही है।”

(३) “ज्ञान प्रमाणमात्मादेः” इत्यादि इलोक इन(भट्टाकलकदेव) की दुर्देखो, तिलोयपञ्चात्तीके पहले अधिकारकी गाथाएँ २१५ से २५१ तक।
“मनसपद्मदिष्टक बबलास्त्रिय विविहगणजुत्तीर्हि ।”

मौलिक है जो लघीयस्त्रयके छठे अव्यायमें आया है। तिलोयपण्णतिकारने इसे भी नहीं छोड़। लघीयस्त्रयमें जहाँ यह श्लोक आया है वहाँसे इसके अलग कर देने पर प्रकरण ही अधूरा रह जाता है। पर तिलोयपण्णतिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहाँमें उसे अलग भी कर दिया जाय तो भी प्रकरणकी एकरूपता बनी रहती है। वीरसेनस्वामीने घबलामें उक्त श्लोकको उद्धृत किया है। तिलोयपण्णतिका देखनसे ऐसा मालूम होना है कि तिलोयपण्णतिकारने इसे लघीयस्त्रयसे न लेकर घबलासे ही लिया है, क्योंकि घबलामें इसके साथ जो एक दूसरा श्लोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे तिलोयपण्णतिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णतिकी रचना घबलाके बाद हुई है।'

(४) 'घबला द्रव्यप्रमाणानुयोगदारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्णतिका एक गाथाश उद्धृत किया है जो निम्न प्रकार है—

'दुगुणदुगुणो दुवग्गो णिरतरा तिरियलोगो' ति ।

वर्तमान तिलोयपण्णतिमें इसकी पर्याप्त साज की, किन्तु उसमें यह नहीं मिला। ही, इस प्रकारकी एक गाथा स्पशन्तियागमें वीरसेनस्वामीने अवश्य उद्धृत की है, जो इस प्रकार है—

'चदाइचगहेहि चेव णाकलन्ताररुवेहिं ।

दुगुण दुगुणेहि णीरतरेहि दुवग्गो तिरियलोगो ॥'

किन्तु वहाँ यह नहीं बतलाया कि कहाँकी है। मालूम पडता है कि इसीका उक्त गाथाश परिवर्तित रूप है। यदि यह अनुमान ठीक है तो कहना होगा कि तिलोयपण्णतिमें पूरी गाथा इस प्रकार रही होगी। जो कुछ भी हो, पर इतना सच है कि वर्तमान तिलोयपण्णति उससे भिन्न है।'

(५) "तिलोयपण्णतिमें यत्र तत्र गद्य भाग भी पाया जाता है। इसका बहुत कुछ अश घबलामें आये हुए इस विषयके गद्य भागसे मिलता हुआ है। अत यह शका होना स्वाभाविक है कि इस गद्य भागका पूर्ववर्ती लेखक कौन रहा होगा। इस शकाके दूर करनेके लिये हम एक ऐसा गद्याश उपस्थित करते हैं जिससे इसका निरंय करनेमें बड़ी रहायता मिलनी है। वह इस प्रकार है—

‘एसा तप्पाओगासंखेऽजरुवादियजबूदीवच्छेदणयसदिददीवसाथर-
रूपमेत्तरजुच्छेदपमाणपरिक्खाविही ए अणणाइरिओवएसपरपरागु-
सारिणी केवल तु तिलोयपण्णत्तिसुत्तागुसारिजोदिसियदेवभागहारपदु-
प्पाइदसुत्तावलंबिजुत्तिवलेण पयदगच्छसाहण्डमन्देहि परुचिदा ।’

यह गद्यांश घबला स्पर्शनियोगद्वार पृ० १५७ का है। तिलोयपण्णत्तिमें यह उसी प्रकार पाया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि वहाँ ‘अन्हेहि’के स्थानमें ‘एसा परुवणा’ पाठ है। पर विचार करनेसे यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि ‘एसा’ पद गद्यके प्रारम्भमें ही आया हैअतः पुनः उसी पदके देनेकी आवश्यकता नहीं रहती। ‘परिक्खाविही’ यह पद विशेष्य है; अतः ‘परुवणा’ पद भी निष्कल हो जाता है।

“(गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर) इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गद्यभागमें एक राजुके जितने अर्धच्छेद बतलायं हैं वे तिलोयपण्णत्तिमें नहीं बतलाये गये हैं किन्तु तिलोयपण्णत्तिमें जो ज्योतिषी देवोंके भागहारका कथन करनेवाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये गए हैं। अब यदि यह गद्यभाग तिलोयपण्णत्तिका होता तो उसीमें ‘तिलोयपण्णत्तिसुत्तागुसारि’ पद देनेकी और उसीके किसी एक सूत्रके बलपर राजुकी चालू मान्यतासे संस्थात अधिक अर्धच्छेद सिद्ध करनेकी क्या आवश्यकता थी। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्यभाग घबलासे तिलोयपण्णत्तिमें लिया गया है। नहीं तो वीरसेन स्वामी जोर देकर ‘हमने यह परीक्षाविधि कही है’ यह न कहते। कोई भी मनुष्य अपनी मुक्तिको ही अपनी कहता है। उक्त गद्यभागमें आया हुआ ‘अन्हेहि’ पद साफ बतला रहा है कि यह मुक्ति वीरसेनस्वामीकी है। इस प्रकार इस गद्यभागसे भी यही सिद्ध होता है कि बत्तमान तिलोयपण्णत्तिकी रचना घबलाके अनन्तर हुई है।”

इन पांचों प्रमाणोंको देकर शास्त्रीजीने बतलाया है कि ‘घबलाकी समाप्ति चूंकि शक संवत् ७३८ में हुई थी इसलिये बत्तमान तिलोयपण्णत्ति उससे पहले-की बनी हुई नहीं है और चूंकि त्रिलोकसार इसी तिलोयपण्णत्तीके आधारपर बना हुआ है और उसके रचयिता नेमिचन्द्र सिंह चक्रवर्ती शक संवत् ६०० के

लगभग हुए हैं इसलिये मह ग्रन्थ शाक सं० ६०० के बादका बना हुआ नहीं है, फलतः इस तिलोयपण्णतीकी रचना शाक सं० ७३८ से लेकर ६०० के मध्यमें हुई है। अतः इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते।’ इसके रचयिता सम्भवतः वीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं—वे ही होने चाहियें, क्योंकि एक तो वीरसेन स्वामीके साहित्य-कार्यसे वे पञ्चद्वी तरह परिचित थे। तथा उनके शेष कार्योंको इन्होंने पूरा भी किया है। सम्भव है उन शेष कार्योंमें उस समयकी आबद्धकतानुसार तिलोयपण्णतीका संकलन भी एक कार्य हो। दूसरे वीरसेनस्वामीने प्राचीन साहित्यके संकलन, संशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थी वर्तमान तिलोयपण्णतीका संकलन भी उसीके अनुसार हुआ है। तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय ‘जय-धवलाके जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा (‘पणमह जिणावरवस्तुं’ नामकी) कुछ परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णतीके अन्तमें पाई जाती है, और इससे तथा उक्त ग्रन्थमें ‘अस्त्वेहि’ पदके न होनेके कारण वीरसेन स्वामी वर्तमान तिलोयपण्णतीके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो तिलोयपण्णती थी वह संभवतः यतिवृषभाचार्यकी रही होगी।’ वर्तमान तिलोय-पण्णतीके अन्तमें पाई जाने वाली उक्त गाथा (‘पणमह जिणावरवस्तुं’) में जो मौलिक परिवर्तन दिखाई देना है वह कुछ अर्थ भवद्य रखता है और उसपरसे, सुझाए हुए ‘प्ररिस वस्तुं’ पाठके अनुसार, यह अनुमानित होता एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्णतीके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णती आर्थ-ग्रन्थके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिवृषभ स्थविर थे और उसे देखकर इस तिलोयपण्णतीकी रचना की गई है।’

शास्त्रीजीके उक्त प्रमाणों तथा निष्कर्षोंके सम्बन्धमें घबराए अपनी विचरणा एवं जाँच प्रस्तुत करता हूँ और उसमें शास्त्रीजीके प्रमाणोंको क्रम से लेता हूँ—

(१) प्रथम प्रमाणोंको प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है उसपरसे इतना ही फलित होता है कि ‘वर्तमान तिलोयपण्णती वीरसेन स्वामीके बादकी बनी हुई है और उस तिलोयपण्णतीसे भिन्न है जो वीरसेन स्वामीके सामने मौजूद थी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तरद-क्षिण्यमें सर्वत्र सांतं राजूकी उस मान्यताको अपनाया गया है और उसीका अनुसरण करते हुए

घनफलोंको निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन हैं। और वीरसेन इस मान्यताके संस्थापक इसलिये है कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई अस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ घनराजुवाले उपमालोक ('परिमाणलोक') से पांच द्रव्योंके आधारभूतलोकको भिन्न मानते थे। यदि वर्तमान तिलोपवण्णति वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोपवण्णति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संसूचन होता तो यह अस मव था कि वीरसेनस्वामी उसका प्रमाण-रूपसे उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका अभाव ज्ञाना जाता है।'

अब देखना यह है कि क्या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक हैं और उन्होंने कहीं प्रपनेको उसका संस्थापक या आविष्कारक प्रकट किया है। जिस घबला टीकाका शास्त्रीजीने उल्लेख किया है उसके उस स्पलको देख जानेसे वैसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वहाँ वीरसेनने, क्षेत्रानुगम अनुयोगदारके 'प्रोवेण मिच्छादिती केवडि लेतो, सब्बलोगे' इस द्वितीयसूत्रमें स्थित 'लोगे' पदकी व्याख्या करते हुए बतलाया है कि यहाँ 'लोक'से सात राजु घनरूप (३४३ घनराजु प्रमाण) लोक ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाणाधिकारमें पत्त, सत्त्वर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्वेणी, लोक-प्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गए हैं। इससे यहाँ प्रमाण-लोकका ही ग्रहण है—जो कि सात राजुप्रमाण जगश्वेणीका घनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा लोक ग्रहण किया जाता है तो किर पांच द्रव्योंके आवश्यक्षूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता; क्योंकि उसमें सात राजु के घनरूप क्षेत्रका अभाव है। यदि उसका क्षेत्र भी क्षेत्रराजुके घनरूप माना जाता है तो 'हेट्टा मज्जे उर्वारि', 'लोर्णो अकिट्टमो लक्षु' और 'लोयस्स विक्संभो च उप्पयरो' ये तीन सूत्र-गाण्डैं अप्रमाणतङ्के आस होती हैं। इस शंकाका परिहार (समाधान) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः बतलाया है कि यहाँ 'लोगे' पदमें पञ्चद्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही ग्रहण है, अन्य का नहीं। क्योंकि 'लोगपूरणगदो केवली केवडि लेतो, सब्बलोगे' (लोकपूरण सूत्रबचनकी प्राप्त केवली कितने क्षेत्रमें रहता है? सर्वलोकमें रहता है) ऐसा सूत्रबचन पाया जाता है। यदि लोक सात राजु के घनप्रमाण नहीं हैं तो यह

कहना चाहिये कि लोकपूरण समुद्रवातको प्राप्त हुआ केवली लोकके संस्थातवे भागमें रहता है। और शंकाकार जिनका अनुयायी है उन दूसरे आचार्योंके द्वारा प्रस्तुत मृदंगाकार लोकके प्रमाणको दृष्टिसे लोकपूरणसमुद्रवात-गत केवलीका लोकके संस्थातव भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि यणना करनेपर मृदंगाकार लोकका प्रमाण घनलोकके संस्थातवे भाग ही उपलब्ध होता है।

इसके अनन्तर गणित द्वारा घनलोकके संस्थातवे भागको सिद्ध थोषित करके, वीरसेनस्वामीने इतना और बतलाया है कि 'इस पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशसे अतिरिक्त दूसरा सात रातु घनप्रमाण लोकसंज्ञक कोई क्षेत्र नहीं है, जिससे प्रमाणलोक (उपमालोक) छह द्रव्योंके समुदायरूप लोकसे भिन्न होते। और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातरातु घनमात्र आकाश-प्रदेशोंकी प्रमाणरूपसे स्वीकृत 'घनलोक' संज्ञा है। ऐसी संज्ञा स्वीकार करनेपर लोकसंज्ञाके याहचिक्यपनेका प्रसंग आता है और तब संपूर्ण आकाश, जगन्नेत्री, जगप्रतर और घनलोक जैसी संज्ञाओंके याहचिक्यपनेका प्रसंग उपस्थित होगा (और इससे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी)। इसके सिवाय, प्रमाणलोक और घटद्रव्योंके समुदायरूप लोकको भिन्न माननेपर प्रतर-गत केवलीके क्षेत्रका निरूपण करते हुए यह जो कहा गया है कि 'वह केवली लोकके असंस्थातवे भागसे न्यून सर्वलोकमें रहता है और लोकके असंस्थातवे भागसे न्यून सर्वलोकका प्रमाण ऊर्ध्वलोकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है' ० वह नहीं बनता। और इसलिये दोनों लोकोंकी एकता सिद्ध होती है। अतः प्रमाणलोक (उपमालोक) आकाश प्रदेशोंकी यणनाकी अपेक्षा छह द्रव्योंके समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

इसके बाद यह शंका होने पर कि 'किस प्रकार पिण्ड(घन) रूप किया गया लोक सात रातुके घनप्रमाण होता है? वीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया

* 'पद्मरगदो केवली केवडि खेते, लोगे असंख्यजंडिभाग्यते। उड्ढलोगेण दुर्युलोग उड्ढलोगसं तिभागेण देसूणेण सादिरेण।'

६१८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश

है कि 'लोक संपूर्ण आकाशके मध्यभागमें स्थित है', चोहह राजु आयामवाला है दोनों दिशाओंके अर्थात् पूर्व और पश्चिम दिशाके मूल, अवधिभाग, विचतु-भाग और चरम भागमें क्रमसे सात, एक, पांच और एक राजु विस्तारवाला है, तथा सर्वत्र सात राजु मोटा है, बृद्ध और हानिके द्वारा उसके दोनों प्रान्त-भाग स्थित हैं, चौबह राजु लम्बी एकराजुके वर्णप्रमाण मुख्यवाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सात राजुके घन प्रमाण अर्थात् $7 \times 7 \times 7 = 343$ राजु होता है। यदि लोकको ऐसा नहीं माना जाता है तो प्रतर-समुद्रधातुगत केवलीके क्षेत्रके साधनाये जो 'मुहूरतलसमाप्तिरूप' और 'मूर्ख मज्जेण गुण' नामकी दो गाथाएँ कही गई हैं वे निरर्थक हो जायेगी; क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्य प्रकारमें माननेपर संभव नहीं है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'इस (उपर्युक्त आकारवाले) लोकका शंकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम गाथा ('हेटु मज्जे उड़रि वेत्तासनभल्लरीमुहमणिभो') के साथ विरोध नहीं है; क्योंकि एक दिशामें लोक वेत्रासन और मृदंगके आकार दिखाई देता है, और ऐसा नहीं कि उसमें भल्लरीका आकार न हो; क्योंकि मध्यलोक में स्वयंभूरमण समुद्रसे परिक्षित तथा चारों ओरसे असंख्यात योजन विस्तारवाला और एक लाख योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती देवा चन्द्रमण्डलकी तरह भल्लरीके सप्तसन दिखाई देता है। और दृष्टान्त सर्वथा दार्ढ्र्यान्तके समान होता भी नहीं, अन्यथा दोनोंके ही अभावका प्रसग आजायगा। ऐसा भी नहीं कि (द्वितीय सूत्रनाथामें बतलाया हुआ) तालवृक्षके समान आकार इसमें असंभव हो, क्योंकि एक दिशा से देखने पर तालवृक्षके समान आकार दिखाई देता है। और तीसरी गाथा ('लोयस्स विवलंभो चउप्पयारो!') के साथ भी विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओंमें गाथोक्त चारों ही प्रकारके विष्कम्भ दिखाई देते हैं। सात राजुकी मोटाई करणानुयोग सूत्रके विरुद्ध नहीं हैं; क्योंकि उस सूत्रमें उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रतिवेष भी नहीं है —विधि और प्रतिवेष दोनोंका अभाव है। और इसलिये लोकको उपर्युक्त प्रकारका ही ग्रहण करना चाहिये।'

यह सब ध्वनिका वह कथन है जो शास्त्रीजीके प्रथम प्रमाणका मूल

आधार है और जिसमें राजवार्तिकका कोई उल्लेख भी नहीं है। इसमें कही भी न तो यह निर्दिष्ट है और न इसपरसे फलित ही होता है कि वीरसेनस्वामी लोकके उत्तर-दक्षिणमें सर्वत्र सात राजु मोटाईबाली मान्यताके संस्थापक हैं— उनसे पहले दूसरा कोई भी आचार्य इस मान्यताको भाननेवाला नहीं था अथवा नहीं हुआ है। प्रत्युत इसके यह साफ़ जाना जाता है कि वीरसेनने कुछ लोगोंकी गृहतीका समाधानमात्र किया है—स्वयं कोई नहीं स्थापना नहीं की। इसी तरह यह भी फलित नहीं होता कि वीरमेनके सामने 'मुहृत्लसमासघड़' और 'मूल' मञ्ज्ञेण गुणं' नामकी दो गाथाओंके सिवायदूसरा कोई भी प्रमाण उक्त मान्यता-को स्पष्ट करनेके लिए नहीं था। वर्णोंकि प्रकरणको देखते हुए 'अण्णाइरियपूर्व-विदमुदिगायारलोगस्त' पदमें प्रयुक्त हुए 'अण्णाइरिय'(अन्याचार्य)शब्दमें उन दूसरे आचार्योंका ही ग्रहण किया जा सकता है जिनके मतका शकाकार अनुयायी था अथवा जिनके उपदेशको पाकर शकाकार उक्त शका करनेके लिये प्रस्तुत हुआ था, न कि उन आचार्योंका जिनके अनुयायी स्वयं वीरसेन थे और जिनके अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रवृत्तिका वीरमेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस क्षेत्रानुगम अनुयोगदारके मगलाचिरणमें भी वे 'खेतमुन' जहोवपसं पयासेमो' इस वाक्यके द्वारा यथोपदेश (पूर्वाचार्योंके उपदेशानुसार) क्षेत्रसूत्रको प्रकाशित करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दूसरे, जिन दो गाथाओंको वीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती है तब वीरसेनको उक्त मान्यताका संस्थापक कैमे कहा जा सकता है?—वह तो उक्त गाथाओंसे भी पहलेकी स्पष्ट जानी जाती है। और इससे तिलोयपण्ठीको वीरसेनसे बादकी बनी हुई कहनेमें जो प्रधान कारण था वह स्थिर नहीं रहता। तीमरे, वीरसेनने 'मुहृत्लसमास-घड़' आदि उक्त दोनों गाथाएँ शंकाकारको लक्ष्य करके ही प्रस्तुत की हैं और वे सम्भवतः उसी ग्रन्थ अथवा शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थकी जान पड़ती है जिस-परसे तीन सूत्रगाथाएँ शंकाकारने उपस्थित की थीं; इसीसे वीरसेनने उन्हें लोक-का दूसरा शकाकार भानने पर निरर्थक बतलाया है। और इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थके वाक्यों परसे ही उसे निरहत कर दिया है। और अन्तमें जब उसने 'करणानुयोगसूत्र' के विरोधकी कुछ बात उठाई है अर्थात् ऐसा संकेत किया है कि उस ग्रन्थमें सात राजुकी मोटाईकी कोई स्पष्ट विषि नहीं है

तो वीरसेनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहाँ उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है—विधि और निषेध दोनोंके अभावमें विरोधके लिये कोई अवकाश नहीं रहता। इस विविधित ‘करणानुयोगसुत्र’का अर्थ करणानुयोग-विषयके समस्त ग्रन्थ तथा प्रकरण ममभ लेना युक्तियुक्त नहीं है। वह ‘लोकानुयोग की तरह, जिसका उल्लेख सर्वार्थसिद्धि और लोकविभागमें भी पाया जाता है’, एक जुदा ही ग्रन्थ होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वीरमेनके सामने लोकके स्वरूप सम्बन्धमें अपने मान्य ग्रन्थोंके अनेक प्रमाण मौजूद हते हुए भी उन्हें उपस्थित (पेश) करनेकी जरूरत नहीं थी और न किसीके लिये यह लाजिमी है कि जिसने प्रमाण उसके पास हो वह उन सबको ही उपस्थित करे—वह जिन्हे प्रसगानुसार उपयुक्त और जरूरी समझता है उन्हींको उपस्थित करना है और एक ही आशय-के यदि अनेक प्रमाण हो तो उनमें चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनको उपस्थित कर देना काफी हाता है। उदारणके लिये ‘मुहूरतलसमाप्तमद्ध’ नामकी गाथासे मिलती जुलती और उसी आशयकी एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें निम्न प्रकार पाई जाती है—

मुहूर्मिसमासद्विय गुणिदं तु गेन तह य वेदेण ।

घणगणिदं णादव वेत्तासण-सणिणए खेते ॥१६५॥

इस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने ‘मुहूरतलसमाप्तमद्ध’ नामकी उक्त गाथाको उपस्थित किया जो शकाकारके मान्य सूत्रग्रन्थकी थी तो उन्होंने वह प्रसगानुसार उचित ही किया, और उसपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि वीरसेनके सामने तिलोयपण्णत्तीकी यह गाथा नहीं थी, होती तो उसे ज़रूर पेश करने। क्योंकि शकाकार मूलसूत्रोंके व्याख्यानादि-रूपम स्वतत्ररूपसे प्रस्तुत किये गए तिलोयपण्णत्ती-जैसे ग्रन्थोंको माननेवाला मालूम नहीं हाता—माननवाला हाता तो वैमी शका ही न करता—, वह तो कुछ प्राचीन मूलसूत्रोंका पञ्चशती जान पड़ता है और उन्हींपरसे सब कुछ फलित करना चाहता है। उसे वीरसेनने मूलसूत्रोंकी कुछ हठि बतलाई है और उसके द्वारा पेश की हुई सूत्रगाथाओंकी

“इतरो विशेषो लोकानुयोगत वेदितव्य” (३-२) — सर्वार्थसिद्धि

“विन्दुमात्रमिद शेष शाहृ” लोकानुयोगत ” (७-१८) —लोकविभाग

अपने कथनके साथ संयति बिठलाई है। और इस लिये अपने द्वारा सविशेषरूप-से मान्य प्रम्योंके प्रमाणोंको उपस्थित करनेका बहुं प्रसंग ही नहीं था। उनके आधारपर तो वे अपना सारा विवेचन अथवा व्याख्यान लिख ही रहे हैं।

भव मैं तिलोग्रपणातीसे भिन्न दो ऐसे प्राचीन प्रमाणोंको भी पेश कर देना चाहता हूँ जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि बीरसेनकी बबला कृतिसे पूर्व (अथवा शक सं० ७३८ से पहले) छह द्रव्योंका आधारभूत लोक, जो अधः कर्वं तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्रासन, मृदग तथा भल्लरीके सहका आकृतिको लिये हुए हैं अथवा ढेढ मृदग-जैसे आकारवाला है उसे चौकोर (चतुरस्क) माना है। उसके मूल, मध्य, ब्रह्मान्त और लोकान्में जो क्रमशः सात, एक, पाँच, तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है वह पूर्व और पश्चिम दिशाकी अपेक्षाएँ हैं, दक्षिण तथा उत्तर दिशाकी अपेक्षाएँ सर्वत्र सात राजुका प्रमाण माना गया है और इसी लोकको सात राजुको घनप्रमाण निर्दिष्ट किया है:—

(अ) कालः पञ्चास्तिकायाश्च स प्रपक्षा इहाऽत्तिलाः ।

लांक्यते येन तेनाऽयं लोक इत्यभिलिप्यते ॥ ४-५ ॥

वेत्रासन-मृदंगोरु-भल्लरो-सदृशाऽकृतिः ।

अधश्चार्धं च तिथ्यक् च यथायांगमिति त्रिधा ॥ ४-६ ॥

मुर्जार्धमधोभागे तस्योर्ध्वं मुरजो यथा ।

आकारस्तस्य लोकस्य किञ्चेष चतुरस्कः ॥ ४-७ ॥

ये हरिवंशपुस्तकके बाब्य हैं, जो शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) में बनकर समाप्त हुआ है। इसमें उक्त आकृतिवाले छह द्रव्योंके आधारभूत लोकको चौकोर (चतुरस्क) बतलाया है—गोल नहीं, जिसे लम्बा चौकोर समझना चाहिये।

(आ) सत्तेऽकुपं चहक्का मूले मञ्जे तहेव बंधते ।

लांघते रज्जूओं पुञ्चावरदो य वित्यारो ॥ ११८ ॥

दक्षिलग्न-उत्तरदं पुणे सत्त वि रज्जू हवेन्द्रि सञ्चत्य ।

उठांडा चउदस रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोअं ॥ ११९ ॥

ये स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी गाथाएँ हैं, जो एक बूत प्राचीन ग्रन्थ है और बीरसेनसे कई शताब्दी पहलेका बना हुआ है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और

उत्तर-दक्षिणके राजुओंका उक्त प्रमाण बड़त ही स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है और लोकको चौदह राजु उंचा तथा सात राजुके घनरूप (३४३ राजु) भी बतलाया है ।

इन प्रमाणोंके सिवाय, जबूद्वीपप्रज्ञसिमे दो गाथाएं निम्न प्रकारसे पाई जाती हैं—

पञ्चम-पुण्ड्रविद्साए विक्स्तमो होइ तस्स लोगस्स ।

सत्तेग-पंच-एया मूलादो हांति रज्जूणि ॥ ४-१६ ॥

दक्षिण-उत्तरदो पुण विक्स्तमो होइ सक्ष रज्जूणि ।

चदुसु वि दिसासु भागे चउदसरज्जूणि उत्तु गं ॥ ४-१७ ॥

इनमें लोककी पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण चौडाई-मोटाई तथा ऊँचाई-का परिमाण स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी गाथाओंके अनुरूप ही दिया है । जम्बू-द्वीपप्रज्ञसि एक प्राचीन ग्रंथ है और उन पश्चनन्दी आचार्योंकी कृति है जो बल-नन्दिके शिष्य तथा बीरनन्दीके प्रशिष्य वे और आगमोपदेशक महासत्त्व श्रीविजय भी जिनके गुरु थे । श्रीविजयगुरुसे सुपरिच्छुद आगमको सुनकर तथा जिनवचन-विनियंत्र अमृतभूत अर्थपदको धारणा करके उन्हींके माहात्म्य अथवा प्रसादसे उन्होंने यह श्रध उन श्रीनन्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माधवनन्दी मुनीके शिष्य अथवा प्रशिष्य (सकलचन्द्र + शिष्यके शिष्य) थे ऐसा ग्रन्थकी प्रशस्तिपरसे जाना जाता है । अहुन सम्भव है कि वे श्रीविजय वे ही हो जिनका दूसरा नाम ‘अपराजितसूरि’ था, जिन्होंने श्रीनन्दी गणिकी प्रेरणाको पाकर भगवती-आराधनापर ‘विजयोदया’ नामकी टीका लिखी है और जो बलदेवसूरिके शिष्य तथा चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे । और यह भी सम्भव है कि उनके प्रशुरु चन्द्रनन्दी वे ही हो जिनकी एक शिष्यपरम्पराका उल्लेख श्रीपुरुषके दानपत्र अथवा ‘नाग-मगल’ ताम्रपत्रमें पाया जाता है जो श्रीपुरुषके जिनालयके लिये शक स० ६६८ (वि० स० ८३३) में लिखा गया है और जिसमें चन्द्रनन्दीके एक शिष्य कुमार-

[†] सकलचन्द्र-शिष्यके नामोल्लेखद्वाली गाथा आमेरकी वि० स० १५१८ की प्राचीन प्रतिमे नहीं है, बादकी कुछ प्रतिमोंमें है; इसीसे श्रीनन्दीके माधवनन्दीके प्रशिष्य होनेकी कल्पना की गई है ।

नन्दीके शिष्य कीतिनन्दीके और कीर्तिनन्दीके शिष्य विमलबन्दका उल्लेख है। और इससे बन्दनन्दीका समय शक ० सवत् ६३८ से 'कुछ पहलेका ही जान पड़ता है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो श्रोविजयका समय शक सवत् ६५८ के लगभग प्रारम्भ होना है और तब जम्बूदीपप्रशस्तिका समय शक स ० ६७० अवतु वि ० स ० ८०५ के आस-पासका होना चाहिए। ऐसी स्थितिमें जम्बूदीपप्रशस्ति-की रचना भी घबलासे पहलेकी—कोई ६८ वर्ष पूर्वकी—ठहरती है।

ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका यह लिखना कि "बीरसेनस्वामीके सामने राज-वार्तिक आदिमें बतलाए गये आकारके विश्व लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिये केवल उपर्युक्त दो गाथाएं" ही थी। इन्हीके आधारपर वे लोकके आकार-को मिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए इत्यादि' न्यायसंगत मालूम नहीं होता। और न इस आधारपर तिलोयपण्णत्ति-को बीरसेनसे बादकी बनी हुई अथवा उनके मतका अनुमरण करने वाली बतलाना ही न्यायसंसगत अथवा युक्ति-युक्त कहा जा सकता है। बीरसेनके सामने तो उस विषयके न मालूम कितने ग्रथ वे जिनके आधारपर उन्होंने अपने व्याख्या-नादिकी उसी तरह सृष्टि की है जिस तरह कि अकलक और विद्यानन्दादिने अपने राजवार्तिक, लोकवार्तिकादि ग्रथोंमें अनेक विषयोंका वरणन और विवेचन बहुतसे ग्रथोंके नामलेखबंदे बिना भी किया है।

(२) द्विनीय प्रमाणको उपस्थित करते हुए शास्त्रीजीने यह बतलाया है कि 'तिलोयपण्णत्ति'के प्रथम अधिकारकी ७वी गाथासे लेकर ८७ वी गाथा तक ८१ गाथाओंमें मगलादि छह अधिकारोंका जो वरणन है वह पूराका पूरा वरणन सतपूर्वकणाकी घबला टीकामें आए हुए वरणनसे मिलता-जुलता है।' और साथ ही इस साहृदय परसे यह भी कलित करके बतलाया है कि "एक ग्रथ लिखते समय दूसरा ग्रथ अवश्य सामने रहा है।" परन्तु घबलाँकारके सामने तिलोयपण्णत्ति नहीं रही, घबला में उन छह अधिकारोंका वरणन करते हुए जो गाथाएं या इलीक उद्भूत किये गये हैं वे सब अन्वत्रसे निये गये हैं तिलोयपण्णत्तिसे नहीं, इतना ही नहीं बल्कि घबलामें जो गाथाएं या इलोक अन्यत्रसे उद्भूत हैं उन्हें भी तिलोयपण्णत्ति के मूलमें शामिल कर लिया है। इस वेको सिद्ध करनेके लिये कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया।

जान पढ़ता है पहले आनंद प्रमाण परसे बनी दुई गलत धारणाके आधारपर ही यह सब कुछ बिना हेतुके ही कह दिया गया है ॥ अन्यथा शास्त्रीजी कमसे कम एक प्रमाण तो ऐसा उपस्थित करते जिसे यह जाना जाता कि धवलाका अमुक उद्घरण अमुक ग्रन्थके नामोल्लेख-पूर्वक अन्यत्रसे उद्घृत किया गया है और उसे तिलोयपण्ठात्तिका अग बना लिया गया है । ऐसे किसी प्रमाणके अभावमें प्रस्तुत प्रमाण परसे अभीष्टकी कोई सिद्धि नहीं हो सकती और इसलिये वह निरर्थक ठहरता है । क्योंकि वाक्योकी शास्त्रिक यह आधिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि धवलाकारके सामने तिलोयपण्ठात्ति रही है, बल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्ठात्तिके व्यवस्थित मौलिक कथन और धवलाकारके कथनकी व्याख्या-शैलीको देखते हुए, अधिक उपयुक्त जान पड़ना है ।

रही यह बात कि तिलोयपण्ठात्तिकी द४वी गाथामें विविध ग्रन्थ-मुक्तियोंके द्वारा मगलादिक छह अधिकारोंके व्याख्यानका उल्लेख है । तो उससे यह कहा फलित होता है कि उन विविध ग्रन्थोंमें धवला भी शामिल है अथवा धवलापरसे ही इन अधिकारोंका सम्बन्ध किया गया है ?—खासकर ऐसी हालतमें जबकि धवलाकार स्वयं 'मगलणिमित्तहेतु' नामकी एक भिन्न गाथाको कहीसे उद्घृत करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथामें मगलादिक छह बातोंका व्याख्यान करनेके पश्चात् आचार्यके लिये शास्त्रका (मूलश्रवक) व्याख्यान करनेकी बो बात कही गई है वह आचार्य-परम्परासे चला आया न्याय है, उसे हृदयमें धारण करके और पूर्वाकार्योंके आचार (व्यवहार)का अनुसरण करना रत्नशय-का हेतु है ऐसा समझकर, पुष्पदन्त आचार्य मगलादिक छह अधिकारोंका सकारात्म प्ररूपण करनेके लिये मगलसूच कहते हैं । क्योंकि इससे स्पष्ट है कि मगलादिक छह अधिकारोंके कथनकी परिपाटी बहुत प्राचीन है ।—उनके

* “मगलणहृदिष्टात्रिक वशाणिय विविहगपञ्जुतीहि ।”

* “इदि णामभाइरिय-परम्पराशय मणेणावहरिय पुव्वाइरियायाराणु-सरण-तिरयण हेडति पुफवताइरियो मगलादीण छण सकारणाण पर्वणाद्व तुतमाह ।”

विद्यानादिका ब्रेम धबलाको प्राप्त नहीं है। और इसलिये तिलोयपण्णतिकारने यदि इस विषयमें पुरातन आचार्योंकी कृतियों।। अनुसरण किया है तो वह म्याय ही है; परन्तु उतने मात्रसे उसे धबलाका अनुसरण नहीं कहा जा सकता, धबलाका अनुसरण कहनेके लिये पहले यह सिद्ध करना होगा कि धबला तिलोयपण्णतिसे पूर्वकी कृति है, और यह सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके, यह स्वयं धबलाके उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि धबलाकारके सामने तिलोयपण्णति थी, जिसके विषयमें दूसरी तिलोयपण्णति होनेकी तो कल्पना की जाती है परन्तु यह नहीं कहा जाता और न कहा जा सकता है कि उसमें मंगलादिक यह अधिकारोंका वह सब वर्णन नहीं या जो वर्तमान तिलोयपण्णतिमें पाया जाता है; तब धबलाकारके द्वारा तिलोयपण्णतिके अनुसरणकी बात ही अधिक संभव और युक्तियुक्त जान पड़ती है।

ऐसी स्थितिमें शास्त्रीजीका यह दूसरा प्रमाण वस्तुतः कोई प्रमाण ही नहो है और न स्वतन्त्र युक्तिके रूपमें उसका कोई मूल्य जान पड़ता है।

(३) तीसरी प्रमाण अथवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है उसे पहले समय ऐसा मालूम होता है कि 'तिलोयपण्णतिमें धबला-पर से उन दो संस्कृत इलोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ अपना लिया गया है जिन्हे धबलामें कहीसे उद्घृत किया गया था। और जिनमेसे एक इलोक अकलकदेवके लघीयस्त्रयका 'ज्ञान प्रमाणमात्मादेः' नाम का है।' परन्तु दोनों यन्थोंको जब सोलकर देखते हैं तो मालूम होता है कि तिलोयपण्णतिकारने धबलोद्घृत उन दोनों संस्कृत इलोकोंको अपने अथवा अंग नहीं बनाया—वहाँ प्रकरणके साथ कोई संस्कृतइलोक है ही नहीं, दो गाथाएँ हैं जो मौलिक रूपमें स्थित हैं और प्रकरणके साथ संगत हैं। इसी तरह लघीयस्त्रयवाला पद्म धबलामें उसी रूपसे उद्घृत नहीं जिस रूपमें कि वह लघीयस्त्रयमें पाया जाता है—उमका प्रथम चरण 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' के स्थान पर 'ज्ञानं प्रमाणमित्यादुः' के रूपमें उपलब्ध है। और दूसरे चरणमें 'इच्छते' को जगह 'उच्चते' किया-पद है। ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका यह कहना कि " 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' इत्यादि इलोक भट्टाकलंकदेवकी मौलिक कृति है तिलोयपण्णतिकारने इसे भी नहीं छोड़ा" कुछ संभल मालूम नहीं होता। परस्तु; यहाँ दोनों ग्रन्थोंके दोनों

प्रकृत पश्चोको उद्भूत किया जाना है, जिससे पाठक उनके विषयके विचारक्षे
भले प्रकार हृदयङ्गम कर सके,—

जो ए प्रमाणणयेहि णिक्खेवेणं णिरक्खदे अर्थं ।

तस्माऽजुत्तं जुत्तं जुत्तं च (व) पडिहादि ॥८२॥

णाणं हांदि प्रमाण णाओ वि णादुस्स हिद्यभावत्यो ।

णिक्खेवो वि उवाओ जुचीए अर्थपडिगहण ॥८३॥

—तिलोयपण्ण री

प्रमाण-नय-निक्षेपैर्योऽर्थो नाऽभिसमीक्ष्यते ।

युक्तं चाऽयुक्तवद् भाति तस्याऽयुक्तं च युक्तवत् ॥१०॥

ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते ।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तिर्यपरिग्रह ॥११॥

—बबला १, १, पृ० १६, १७,

तिलोयपण्णरी की पहली गाथामे यह बतलाया है कि 'जो प्रमाण, नय
और निक्षेपके द्वारा अर्थका निरीक्षण नहीं करता है उसको अयुक्त (पदार्थ)
युक्तकी तरह और युक्त (पदार्थ) अयुक्त की तरह प्रतिभासित होता है ।'
और दूसरी गाथामे प्रमाण, नय और निक्षेपका उद्देशानुसार कमश लक्षण
दिया है और अन्तमे बतलाया है कि यह सब युक्तिसे अर्थका परिप्रहण है ।
अत ये दोनो गाथाएं परस्पर सगत हैं । और इन्हे बन्धसे अलग कर देने पर
अगली 'इय णाय अवहारिय आहिरियपरम्परागम भणास' (इस प्रकार आचार्य
परम्परासे चले आये हुए न्यायको हृदयमे भारण करके) नाम की गाथा कु
असंगत तथा खटकनेवाली हो जाती है । इसलिये ये तीनो ही गाथाएं तिलोयप-
ण्णतीकी अमभूत हैं ।

बबला (सतपूर्वणा) मे उक्त दोनो इलोकोको देते हुए उन्हे 'उक्त' च
नहीं लिखा और न किसी खास ग्रन्थके बावज्य ही प्रकट किया है । वे इसप्र स्त-

॒ इस गाथाका नम्बर ८४ है । शास्त्रीजीन जो इसका न० ८८ सूचित
किया है वह किसी गलतीका परिणाम जान पड़ता है ।

के उत्तरमें इए गए हैं कि “एत्वं किम्भृतं एवपश्चसुमिदि” ? —यहाँ नय का प्रस्परण किस लिये किया गया है ? —और इन लिए वे ध्वनाकारके द्वारा निर्मित अथवा उद्घृत भी हो सकते हैं। उद्घृत होनेकी हालतमें यह प्रश्नः पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्घृत किये गए हैं या दो स्थानोंसे ? यदि एक स्थानसे उद्घृत किए गए हैं तो वे लघीयस्त्रयसे उद्घृत नहीं किये गए, यह सुनिश्चित है क्योंकि लघीयस्त्रयमें पहला श्लोक नहीं है। और यदि दो स्थानोंमें उद्घृत किये गये हैं तो यह बात कुछ बनती हुई मालूम नहीं होती, क्योंकि दूसरा श्लोक प्रथमे पूर्वमें ऐसे श्लोककी अपेक्षा रखता है जिसमें उद्घृत-दि किसी भी रूपमें प्रमाणण नय और निष्ठेपका उल्लेख हो—लघीयस्त्रयमें भी ‘ज्ञान प्रमाणमात्मादे’ श्लोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पाया जाता है जिसमें प्रमाणण, नय और निष्ठेपका उल्लेख है और उनके आगमानुसार कथनकी प्रतिज्ञा की गई है (‘प्रमाण-नय निष्ठेपानभिधाये यथागम’)—और उसके लिये पहला श्लोक सगत जान पड़ता है। अन्यथा, उसके विषयमें यह बतलाना होगा कि वह दूसरे कौनसे ग्रन्थका स्वतन्त्र वाक्य है। दोनों गाथाओंऔर श्लोकोंकी तुलना करनसे तो ऐसा मालूम होना है कि दोनों श्लोक उक्त गाथाओं परसे अनुवाद रूपमें निर्मित हए हैं। दूसरी गाथामें प्रमाणण, नय और निष्ठेपका उसी क्रमसे लक्षण निर्देश किया गया है जिस क्रमसे उनका उल्लेख प्रथम गाथामें हुआ है। परन्तु अनुवादके छन्द (श्लोक) में जायद वह बात नहीं बन सकी इसीसे उसमें प्रमाणणके बाद निष्ठेपका और फिर नयका लक्षण दिया गया है। इससे तिलायपश्चांतीकी उक्त गाथाओंकी मौलिकताका पता चलता है और एसा जान पड़ता है कि उन्हीं परसे उक्त श्लोक अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं—भले ही यह अनुवाद स्वयं बबलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो या उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा। यदि ध्वनाकारको प्रथम श्लोक कहींसे स्वतन्त्ररूपमें उपलब्ध होता तो वे प्रश्नके उत्तरमें उसीको उद्घृत करदेना काफी समझते—दूसरे लघीयस्त्रय-जैसे ग्रन्थसे दूसरे श्लोकको उद्घृत करके साथमें जोड़नेकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रश्नका उत्तर उस एक ही श्लोकसे हो जाता है। दूसरे श्लोकका साथमें होना इस बातको सूचित करता है कि एक साथ पाई जानेवाली दोनों गाथाओंके अनुवादरूपमें ये श्लोक प्रस्तुत किये गये

है—चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किए गए हों।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलोयपण्णतीकी उक्त दोनों गाथाप्रोक्तोंको ही उद्घृत क्यों न कर दिया, उन्हें इलोकमें अनुवादित करके या उनके अनुवादको रखनेकी क्या जरूरत थी? इसके उत्तरमें मैं सिफँ इतना ही कह देना चाहता हूँ कि यह सब धवलाकार वीरसेनकी रचिकी बात है, वे अनेक प्राकृत-बाक्योंको सस्कृतमें और सस्कृत-बाक्योंको प्राकृतमें अनुवादित करके रखते हुए भी दखे जाते हैं। इसी तरह अन्य ग्रन्थोंके गच्छको पद्ममें और पद्मको गच्छमें परिवर्तित करके अपनी टीकाका अग बनाते हुए भी पाये जाते हैं। तुमने तिलोयपण्णतीकी भी अनेक गाथाप्रोक्तों उन्होंने सस्कृत गच्छमें अनुवादित करके रखा है, जैसे कि मगलकी निरुक्तिपरक गाथाएँ, जिन्हे शास्त्रीजीने अपने द्वितीय प्रमाणमें, समानताकी तुलना करते हुए उद्घृत किया है। और इसलिये यदि ये उनके द्वारा ही अनुवादित होकर रखा गये हैं तो इसमें आपत्तिकी कोई बात नहीं है। इसे उनकी अपनी शैली और पसन्द

आदिकी बात समझना चाहिए।

अब देखना यह है कि शास्त्रीजीने 'ज्ञान प्रमाणमात्मादे' इत्यादि इलोकको जो अकलकदेवकी 'मौलिक कृति' बतलाया है उनके लिये उनके पास क्या आधार है? कोई भी आधार उन्होंने व्यक्त नहीं किया, तब क्या अकलकके ग्रन्थमें पाया जाना ही अकलकी मौलिक कृति होनेका प्रमाण है? यदि ऐसा है तो राजवार्तिकमें पूज्यपादकी सर्वथिसिद्धि के जिन वाक्योंको वार्तिकादिके रूपमें बिना किसी सूचनाके अपनाया गया है अथवा न्यायविनिश्चयमें समन्तभद्रके 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्था' जैसे वाक्योंको अपनाया गया है उन सबको भी अकलक-देवकी 'मौलिक कृति' कहना होगा। यदि नहीं, तो फिर उक्त इलोकोंको अकलक-देवकी मौलिक कृति बतलाना निहंतुक ठहरेगा। प्रत्युत इसके, अकलकदेव नूँ कि यतिवृषभके बाद हुए हैं अतः यतिवृषभकी तिलोयपण्णतीका अनुसरण उनके लिये न्यायप्राप्त है और उसका समावेश उनके द्वारा पूर्वपद्ममें प्रयुक्त हुए 'यथागम' पदसे हो जाता है; क्योंकि तिलोयपण्णती भी एक आगम ग्रन्थ है जैसा कि गाथा न० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विलोपणसे जाना जाता है, धवलाकारने भी जगह जगह उसे 'सूत्र' लिखा है और प्रमाणरूपमें

उपस्थित किया है। एक जगह वे किसी व्याख्यानको व्याख्यानाभास बतलाते हुए तिलोयपण्णतिसूत्रके कथनको भी प्रमाणमें पेश करते हैं और फिर लिखते हैं कि सूत्रके विषद् व्याख्यान नहीं होता है—जो सूत्रविषद् हो उसे व्याख्यानाभास समझना चाहिये—नहीं तो अतिप्रसंग दोष आएगा ॥ ।

इस तरह यह तीसरा प्रमाण असिद्ध ठहरता है। तिलोयपण्णतिकारने चूंकि घबलाके किसी भी पद्मको नहीं अपनाया अतः पद्मोको अपनानेके आधारपर तिलोयपण्णतीको घबलाके बादकी रचना बतलाना युक्तियुक्त नहीं है।

(४) चौथे प्रमाणरूपमें शास्त्रीजीका इतना ही कहना है कि 'दुण्डादुण्डो द्रवग्नो शिरतरो तिरियलोगो' नामका जो वाक्य घबलाकारने इव्यप्रमाणानुयोगद्वार (पृष्ठ ३६) में तिलोयपण्णतीके नामसे उद्घृत किया है वह बत्तमान तिलोयपण्णतीमें पर्यात्स खोज करने पर भी नहीं मिला इसलिये यह तिलोयपण्णती उप तिलोयपण्णतीसे मिलता है जो घबलाकारके सामने थी। परन्तु यह भावूम नहीं होसका कि शास्त्रीजीकी पर्यात्स खोजका क्या रूप रहा है। क्या उन्होने भारतवर्षके विभिन्न स्थानोपर पाई जानेवाली तिलोयपण्णतीकी समस्त प्रतिर्थी पूर्णरूपसे देख ढाली है? यदि नहीं देखी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ समस्त प्रतिर्थी नहीं देखी हैं, तब वे अपनी खोजको 'पर्यात्स खोज कैसे कहते हैं?' वह तो बहुत कुछ अपर्याप्त है। क्या दो प्रतियोगे उक्त वाक्यके न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है कि वह वाक्य किसी प्रतिमें नहीं है? नहीं निकाला जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार-कर्मकाण्ड (प्रथम अधिकार) के वे प्राकृत गच्छसूत्र हैं जो गोम्मटसारकी पचासो प्रतियोगे नहीं पाये जाते; परन्तु मूढबिद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कश्च वित्तमें उपलब्ध हो रहे हैं और जिनका उल्लेख मैंने अपने गोम्मटसार-विषयक निबन्धमें † किया है। इनके सिवाय, तिलोयपण्णति-जैसे बड़े ग्रन्थमें लेखकोके प्रमादसे दो चार गावाभ्रोका छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पुरातन-जैनवाक्य-सूचीके अवसरपर मेरे

॥ ' त वक्षाणाभासमिदि कुदो गोवदे ? जोइसिय-मागहारसुतादो चदा-इच्च विवपमाणप्रवद्य-तिलोयपण्णतिसुतादो च । ए च सुतविषद् वक्षाण्यहोइ, अहपसगादो ।' — घबला १,२,४, पृष्ठ ३६ । † यह निबन्ध दूसरे भागमें छपेगा।

सामने तिलोयपण्ठीतीकी चार प्रतियाँ रहीं हैं—एक बनारसके स्थानावल्मी-विद्यालयकी दूसरी देखलीके नया मन्दिरकी, तीसरी आगराके मोतीकट्टरा-मन्दिर की और चौथी सहारनपुरके लाल प्रद्युम्नकुमारजीके मन्दिरकी। इन प्रतियोंमें जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी ही गाथाएँ ऐसी देखनेको मिली जो एक प्रतिमे है तो दूसरीमें नहीं है, इसीसे जो गाथा किसी एक प्रतिमे ही बढ़ी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ सूचन किया गया है। ऐसी भी गाथाएँ देखनेमें आईं जिनमें किसीका पूर्वार्थ एक प्रतिमें है तो उत्तरार्थ नहीं। और उत्तरार्थ है तो पूर्वार्थ नहीं। और ऐसा तो बहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाओंको बिना नम्बर डाले रखियरूपमें लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर ग्रथका व्यवहार जान पड़ती है। किसी किसी स्थलपर गाथाओंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गई है; जैसे कि 'बीषमहाबिकारकी 'शावणउदिसहस्मारणि' इम गाथा न०२२१३के अनन्तर आगरा और सहारनपुरकी प्रतियोंमें दस गाथाओंके छूटनेकी सूचना की गई है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पड़ती है—दूसरी प्रतियोंपरसे उनकी खूति नहीं हो सकी। क्या आइचर्य है जो ऐसी छूटी अथवा त्रुटित हुई गाथाओंका ही उत्त वाक्य हो। अन्य प्रतियोंकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंको देखकर ही अपनी खोजको पर्याप्त लाज बतलाना और उम्मेद करनेमें निकाल बैठना किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। और इसलिये शास्त्रीजीका यह चतुर्थ प्रमाण भी उनके इष्टको सिद्ध करनके लिये समर्थ नहीं है।

(५) अब रहा शास्त्रीजीका अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह उनकी गलत धारणाका मुख्य आधार बना हुआ है। इसमें जिम गद्याशकी और संकेत किया गया है और जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया है वह क्या स्वयं तिलोयपण्ठीतिकारके द्वारा घबलापरसे 'अम्बेहि' पदके स्थानपर 'ऐसा पूर्व-बणा'पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है अथवाकिसी तरहपर तिलोय-पण्ठीतीमें प्रक्षिप्त हुआ है? इसपर शास्त्रीजीने गम्भीरता के साथ विचार करना शायद आवश्यक नहीं समझा और इसीसे कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया; जब कि इस विषयपर लाल तौरपर विचार करनेकी ज़रूरत थी और तभी कोई

मिर्णय देना था—वे बैसे ही उस गदारको तिलोयपण्णतीका मूल भग भान बैठे हैं, प्रीर इसीसे गदाशमें उल्लिखित तिलोयपण्णतीको बत्तमान लिङ्गोद-पण्णतीसे भिन्न दूसरी तिलोयपण्णतीमें जो यत्र तत्र दूसरे गदाश पाये जाते हैं। इनना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णतीमें जो यत्र तत्र दूसरे गदाश पाये जाते हैं उनका अधिकाश भाग भी बदनापरसे उद्भूत है, ऐसा सुझानेका सकेत भी कर रहे हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता है ऐसा कहते प्रीर सुझाते हुए शास्त्रीजीको यह व्यान नहीं आया कि जिन आचार्य जिनसेनको वे बत्तमान तिलोयपण्णतीका कर्ता बतलाते हैं वे क्या उनकी हृष्टिमें इतने असावधान अधबा अद्योग्य ये कि जो 'अम्हेहि' पदके स्थानपर 'एसा पूरवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते प्रीर ऐसा करनेमें उन साधारण मोटी भूलो एवं ब्रुटियोको भी न समझ पाने जिन्हे शास्त्रीजी बतला रहे हैं? प्रीर ऐसा करके जिनसेनको अपने गुह वीरमेनकी कृपिका लोप करनेकी भी क्या ज़रूरत थी? वे तो बराबर अपने गुरुका कीतंन और उवकी कृतिके साथ उनका नामोलनेसकरते हुए देखे जाते हैं। चुनवि वीरमेन जब जयघबलाको अबूर्ग छोड़ गये प्रीर उसके उत्तरार्थको जिनमेनने पूरा किया तो व प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दो-द्वारा यह सूचित करते हैं कि 'गुरुले पूर्वार्थमें जो भूरि बक्तव्य प्रकट किया था—आगे बढ़नके योग्य बहुत विषयका सम्बन्ध किया था, उमे (नथा तत्सम्बन्धी नोट्स आदिको) देखकर यह अल्पवक्तव्यरूप उत्तरार्थ पूरा किया गया है—

गुरुणाऽर्थात्प्रिमे भ्रुरिवक्तव्ये सप्रकाशितं ।

तन्निरीक्ष्याऽल्पवक्तव्ये पश्चाधस्तेन पूरितं ॥ ३६ ॥

परन्तु बत्तमान तिलोयपण्णतीमें तो वीरसेनका कही नामोलनेस भी नहीं है—ग्रन्थके मगलाचरण तकमें भी उनका स्मरण नहीं किया गया। यदि वीर-सेनके सकेत अधबा आदेशादिके अनुसार जिनसेनके द्वारा बत्तमान तिलोय-पण्णतीका सकलनादि कार्य हृषा होता तो वे ग्रन्थक आदि या अन्तमें किसी न किसी रूपसे उसकी सूचना ज़रूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें ज़रूर प्रकट करते। प्रीर यदि कोई दूसरी तिलोयपण्णती उनकी तिलोयपण्णतीका आचार होती तो वे अपनी पढ़ति प्रीर परिणामिके अनुसार उसका प्रीर उसके रचयिताका स्मरण भी ग्रन्थकी आदियें उसी तरह करते जिस तरह कि भग-

पुराणकी आदिमे ‘कविपरमेश्वर’ और उनके ‘बायर्थसंघ’ पुराणका किया है, जो कि उनके महापुराणका मूलचार रहा है। परन्तु बत्तमान तिलोयपण्ठीमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिये उसे उक्त जिनसेनकी कृति बतलाना और उन्हींके द्वारा उक्त गद्याशका उद्धृत किया जाना प्रतिपादित करना किसी तरह भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। दूसरे भी किसी विद्वान् आचार्यके साथ, जिन्हे बत्तमान तिलोयपण्ठीका कर्ता बतलाया जाय, उक्त भूलभरे गद्याशके उद्धरण-की बात संगत नहीं बैठती, क्योंकि तिलोयपण्ठीकी मौलिक रचना इतनी प्रौढ़ और सुम्बद्धिष्ठित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोष उद्धरणकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिये उक्त गद्याश बादको किसीके द्वारा ध्वला आदि परसे प्रक्षिप्त किया हुआ जान पड़ता है। और भी कुछ गद्याश ऐसे हो सकते हैं जो ध्वलापरसे प्रक्षिप्त किये गये हों, परन्तु जिन गद्याशोंकी तरफ शास्त्रीजीने फुटनीटमें सकेत किया है वे तिलोयपण्ठीमें ध्वलापरसे उद्धृत किये गये मालूम नहीं होते, बल्कि ध्वलामें तिलोयपण्ठीपरसे उद्धृत हुए जान पड़ते हैं। क्योंकि तिलोयपण्ठीमें गद्याशोंके पहले जो एक प्रतिज्ञात्मक गाथा पाई जाती है वह इस प्रकार है—

वादवरुद्धक्षेत्रे विदफल तद्य अदृपुद्वीए ।

सुद्धायासस्त्रिदीण लवमेत्त वत्तइस्सामो ॥ २८२ ॥

इसमें वातवलयोंसे अवहृद क्षत्रों, ग्राठ पृथिवियों और शुद्ध आकाशभूमियों-का धनफल बतलानेकी प्रनिया की गई है और उस धनफलका ‘लवमेत्त (लवमात्र)’ ६६ विशेषणके द्वारा बहुत सक्षेपमें ही कहनेकी सूचना की गई है। नदनुसार तीनों धनफलोंका क्रमशः गद्यमें कथन किया गया है और यह कथन

६६ तिलोयपण्ठीतिकारको जहा विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुई है वही उन्होंने वैसी सूचना कर दी है, जैसाकि प्रथम अधिकार-में लोकके आकारादिका सक्षेपसे वर्णन करनेके अनन्तर ‘वित्तरुद्धबोहृत्य बोच्छ रणाणायियपे वि (७४)’ इस वाक्यके द्वारा विस्तारशब्दिवाले प्रतिपाद्योंको लक्ष्य करके उन्होंने विस्तारसे कथनकी प्रतिज्ञा की है।

मुद्रित प्रतिमे पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घबला (पृ० ५१ से ५५) में इस कथनका पहला भाग सपर्हि ('सपदि') से लेकर 'जगपदर होदि' तक प्राय ज्योका त्यो उपलब्ध है परन्तु शाय भाग, जो आठ पृष्ठवियो आदिके घन-फलसे सम्बन्ध रखता है उपलब्ध नहीं है। और इससे वह तिलोयपण्णतीपरसे उद्धत जान पड़ता है—खासकर उस हालतमें जब कि घबलाकारके सामने तिलोयपण्णती भौजूद थी और उन्होन अनेक विवादप्रस्त स्थलोपर उसके बाक्यो-को बड़े गौरवके साथ प्रमाणमें उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे बाक्योको भी दिना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और अनुवादित करके भी रखा है। ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णतीमें पाये जानवाले गद्याशोके विषयमें यह कल्पना करना कि 'वे घबलापरसे उद्धृत किये गये हैं समुचित नहीं है और न शास्त्रीजीके द्वारा प्रस्तुत किये गये गद्याशसे इस विषयमें कोई सहायता मिलती है क्योंकि उस गद्याशका तिलोयपण्णतिकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं है—वह बादको किसीके द्वारा प्रक्षिप्त हुआ जान पड़ता है।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह इतना ही गद्याश प्रक्षिप्त नहीं है बल्कि इसके पूर्वका 'एस्तो चदाण्य सपरिवाराणामाण्यणविहाण्य वत्ताइस्सामो' से लेकर 'एदम्हादो चेव सुत्तादो' तकका भश, और उत्तरवर्ती 'तदो ए एव्य इदमित्यमेवेति' से लेकर 'त चेद १६५५३६१' तकका भश, जो 'चदस्स सदसहस्र' नामकी गद्याशके पूर्ववर्ती है, वह सब प्रक्षिप्त है। और इसका प्रबलप्रमाण मूलग्रन्थपरसे ही उपलब्ध होता है। मूलग्रन्थमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें मगलाचरण और ज्योतिर्लोकप्रशस्तिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर उत्तरवर्ती तीन गाथाओमें ज्योतिषियोके निवासक्षेत्र आदि १७ महाधिकारोके नाम दिये हैं जो इस 'ज्योतिलोकप्रशस्ति' नामक महाधिकारके अग हैं। वे तीनो गाथाएं इस प्रकार हैं—

जोइसिय-यिवासस्तिदी भेदो सखा तहेव विष्णासो ।

परिमाण चरचारो अचरसरुवाणि आऊ य ॥ २ ॥

आहारो उस्सासो उच्छेहो ओहिण्याण्यसत्तीओ ।

जीवाणु उपत्ती भरणाइ एककसमयमिमि ॥ ३ ॥

आठगवधुभार्वं दृसणगहणस्स कारणं विविहं ।

गुणठाणादि-पवणणग्नमहियारा सन्तरसिमाए ॥ ४ ॥

इन गाथाओंके बाद निवासक्षेत्र, भेद, सख्ता, विन्यास, परिमाण, चरक्तार, प्रचरस्त्वरूप और आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है—क्षेत्र अधिकारोंके विवरमें लिख दिया है कि उनका वर्णन भावनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ('भावणलोक व्य वत्तव्य')—और जिस अधिकारका वर्णन वहाँ समाप्त हुआ है वहाँ उसकी सूचना कर दी है। सूचनाके बे वाक्य इस प्रकार हैं:—

“एिवासखेत्त सम्मतं । भेदो सम्मतो । सख्ता सम्मता । विणणास सम्मत । परिमाणं सम्मत । पव चरगहाण चारो सम्मतो एवं अच-रजोइसगणपरुवणा सम्मता । आऊ सम्मता ।”

अबर ज्योतिषगणकी प्ररूपणाविषयक ७वी अधिकारकी समाप्तिके बाद ही 'एसो चदाण' से लेकर 'त चेद १६५५३६१' तकका वह सब गदाश है, जिसकी क्षेत्र सूचना की गई है। 'आयु अधिकारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आयुका अधिकार उक्त गदाशके अनन्तर 'चदस्स सदसहस्स' इस गाथासे प्रारम्भ होता है और अगली गाथापर समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें उक्त गदाश मूल ग्रन्थके साथ सम्बद्ध न होकर साफ तौरसे प्रक्षिप्त जान पड़ना है। उसका ग्राविका भाग 'एसो चदाण से लेकर 'तदो ण एत्य सम्पदायविरोधो कायव्वो त्ति' तक तो घबला-प्रपत्त खड़के स्पशनानुयोगद्वारमें, योडेसे शब्दनेदेके साथ प्राय ज्योका त्यो पाया जाता है और इसलिये यह उसपरसे उद्भूत हो सकता है परन्तु अन्तका भाग—‘देण विहाणेण परुविदगच्छ विरलिय रूब पठि चत्तारि रूवागिं दादूरा प्रणोप्त्तमत्ये’ के अनन्तरका—घबलाके अगले गदाशक साथ कोई भेद नहीं खाता, और इसलिये वह वहाँसे उद्भूत न होकर अन्यत्रसे लिया गया है। और यह भी हो सकता है कि यह सारा ही गदाश घबलासे न लिया जाकर किसी दूसरे ही ग्रन्थपरमें, जो इस समय अपने सामने नहीं है और जिसमें आदि ग्रन्तके दोनों भागोंका समावेश हो, लिया गया हो और तिलोयपत्त्वात्में किसीके द्वारा अपने उपयोगादिके लिये हाशियेपर नोट किया गया हो और जो बादकौ ग्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रक्षिप्त हो गया हो।

इस गद्याशामे ऋषीतिष्ठ-देवोके जिस भागहार सूत्रका उल्लेख है वह वर्तमान तिलोयपण्णातीके इस महाविकारमे पाया जाता है। उसपरसे फलितार्थ होनेकामे अ्याकृष्णानादिकी चतुर्को किसीने यहाँपर अपनाया है, ऐसा जनन पड़ता है।

इसके सिवय, एक बात यहाँ और भी प्रकट कर देनेकी है और वह वह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णातीको शास्त्रीजी मूलानुसार आठहजार श्लोक-परिमाण बतलाते हैं वह उपलब्ध प्रतियोपरमे उतने ही श्लोकपरिमाण मालूम नहीं होती, बल्कि उसका परिमाण एक हजार श्लोक-जितना बड़ा हुआ है और उससे यह साफ जाना जाता है, कि मूलमे उतना अश बादको प्रक्षिप्त हुआ है। और इस लिए उक्त गद्याशको जो अपनी स्थितिपस्ते प्रक्षिप्त होनेका रणनीतिह उत्पन्न कर रहा है और जो उपरके विवेचनपस्ते मूलकारकी कृति मालूम नहीं होता, प्रक्षिप्त कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रक्षिप्त अशोसे, जिनम कितने ही 'पाठान्तर' वाले अश भी शामिल जान पड़ते हैं ग्रन्थके परिमाणमे बढ़ रही है। और यह निर्विवाद है कि कुछ प्रक्षिप्त अशोके कारण किसी ग्रथको दूसरा ग्रथ नहीं कहा जा सकता। अत शास्त्रीजीने उक्त गद्याशमे तिलोयपण्णातीका नामोलेख देख कर जो यह कल्पना करली है कि 'वर्तमान तिलोयपण्णाती उस तिलायपण्णातीसे भि न है जो घबलाकारके सामन थी' वह ठीक नहीं है।

इस तरह शास्त्रीजीके पाँचो प्रमाणाम कोई भी प्रमाण यह सिद्ध करनके लिए समर्थन नहीं है कि वर्तमान तिलोयपण्णाती आचार्य वीरसेनके बादकी बनी हुई है अथवा उस तिलोयपण्णातीसे मिल्न है जिसका वीरसेन अपनी घबला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं। और तब यह कन्पना करना तो अविसाहसकी बात है कि 'वीरसेनके शिष्य जिनमेन इसके रचयिता हैं, जिनकी स्वतन्त्र रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल भी नहीं खाता। प्रत्युत इसके, उपरके सपूर्ण विवेचन एव ऊहापोहपरसे स्पष्ट है कि 'यह तिलोयपण्णाती यतिवृषभ-चार्यकी कृति है, घबला से कई शताब्दी पूर्वकी रचना है और वही चीज है जिसका वीरसेनस्वामी अपनी घबलामे उद्धरण, अनुवाद तथा आशयप्रहणादि-के रूपमें स्वतन्त्रपूर्वक उपयोग करते रहे हैं।' शास्त्रीजीने ग्रथकी अन्तिम मगल गायामें 'दद्मूण' पदको ठीक मानकर उसके आगे जो 'अरिसवसह' पाठ

की कल्पना की है और उसके द्वारा यह सुझानका यत्न किया है कि इस तिलोयपण्णत्तीमें पहले यतिवयभवा तिलोयपण्णत्ती नामका कोई आर्थिक या जिसे देखकर यह तिलोयपण्णत्ती रची गई है और उसकी सूचना इस गाथामें ‘दहूण भरिसवसह वाक्यके द्वारा की गई है, वह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इस पाठ और उसके प्रकृत घर्थकी समति गाथाके साथ नहीं बँठती, जिसका स्पष्टीकरण इस निबन्धके प्रारम्भमें किया जा चुका है। और इसलिये शास्त्रीजीका यह लिखना कि “इस तिलोयपण्णत्ते का सकलन शक सबत् ७३८ (विं स० द७३) से पहलेका किसी भी हालतमें नहीं है” तथा “इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते” उनके अतिसाहस-का छोतक है। वह पूर्णत वाधित है और उसे किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता।



स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द

एकताके भ्रमका प्रचार—

बहुत बर्ष हुए जब सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रेमीने 'स्पाद्वाद-विद्यापति विद्यानन्द' नामका एक लेख लिखा था और उसे हवें वर्षके जैनहितेशी अंक नं० ६ में प्रकाशित किया था। यह लेख प्रायः तात्या नेमिनाथ पांगलके मराठी लेखके आधार पर, उसे कुछ संशोधित परिवर्तित और परिवर्द्धित करके, लिखा गया था। और उसमें यह सिद्ध किया गया था कि 'पात्रकेसरी' और 'विद्यानन्द' दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जिन प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया गया था उनकी सत्यता पर विश्वास करते हुए, उस बक्तके प्रायः सभी विद्वान् यह मानते थे रहे हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं—मिन्न नाम है। चुनौति उस बक्तसे आसपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, अष्टसहस्री, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, युक्त्यनुज्ञासनटीका, पात्रकेसरिस्तोत्र, श्रीपुरुपाश्वर्वनाथस्तोत्र आदि जो भी ग्रन्थ विद्यानन्द या पात्र-केसरीके नामसे प्रकाशित हुए हैं और जिनके साथमे विद्वानों-द्वारा उनके कर्त्ता-का परिचय दिया गया है उन सबमें पात्रकेसरी और विद्यानन्दको एक घोषित किया गया है—बहुतोंमें प्रेमीजीके लेखका सारांश अथवा संस्कृत अनुवाद तक दिया गया है। डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषण-जैसे अजैन विद्वानोंने भी, बिना किसी विचेष ऊहपोहके, अपने ग्रन्थोंमें दोनोंकी एकताको स्वीकार किया है। इस तरह पर यह विषय विद्वत्समाजमें रुद्ध-सा हो गया है और एक निश्चित विषय समझा जाता है। परन्तु लोज करनेपर मालूम हुआ कि, ऐसा समझना नितान्त भ्रम है। और इसलिये आज इस भ्रमको स्पष्ट करनेके लिये ही यह लेख लिखा जाता है।

प्रमाण-पंचक—

सबसे पहले मैं अपने पाठकोंको उन प्रमाणों—ग्रथवा हेतुओं—का परिचय करा देना चाहता हूँ जो प्रेमीजीने अपने उक्त लेखमें दिये हैं और वे इस प्रकार हैं:—

“विद्यानन्दका नाम पात्रकेसरी भी है। बहुतसे लोगोका स्थाल है कि पात्रकेसरी नामके कोई दूसरे विद्यान् हो गये हैं; परन्तु नीचे लिखे प्रमाणोंसे विद्यानन्द और पात्रकेसरी एक ही मालूम होते हैं—

१. ‘सम्यक्तप्रकाश’ नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि—

“तथा इलोकवार्तिके विद्यानन्दपरनाम पात्रकेसरिस्वामिना यदुकर्तं तद्व
लिख्यते—‘तत्त्वार्थशद्वानं सम्यग्दर्शनं। न तु सम्यग्दर्शनशब्दनिर्बचनसामध्यदिव
सम्यग्दर्शनस्वरूपनिर्णयादशेषतिप्रतिपत्तिनिवृतोः सिद्धत्वात्तदर्थं तद्वक्षणावचनं
न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाकरोति’।”

इसमें श्लोकवार्तिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्रकेसरी बतलाया है।

२. श्रवणबेलोलके ५० ब्रह्मसूरि शास्त्रीके ग्रथसंग्रहमें जो आदिपुराणकी ताडपत्रोंपर लिखित प्रति है उसकी टिप्पणीमें पात्रकेसरीका नामान्तर विद्यानन्द लिखा है।

३. ब्रह्मनेमिदत्तकृत कथाकोषमें जो पात्रकेसरीकी कथा लिखी है उसके विवरमें परम्परागत यही स्थाल चला आता है कि वह विद्यानन्दिकी ही कथा है।

४. बादिचन्दसूरिने अपने ज्ञानसूर्योदय नाटकके चौथे अंकमें ‘अष्टशती’ नामक स्त्रीपात्र से ‘पुरुष’ के प्रति कहलवाया है कि—

“देव, ततोऽमुतालितहृदया श्रीमत्यात्रकेशरिमुखकमलं गता तेन साक्षात्कृ-
तसकलस्याद्वामित्रायेण लालिता पालिताष्टसहस्रीतया पुष्टि नीता। देव, स यदि
नापालयिष्यत् तदा कर्यं त्वामद्राक्षम् ?”

अर्थात्—(जब मैंने एकान्तवादियोंने स्याद्वादका स्वरूप कहा, तब वे कुछ होकर कहने लगे—‘इसे पकड़ो ! मारो ! जाने न पावे !’) “तब है देव, मैंने भयभीत होकर श्रीमत्यात्रकेसरीके मुखकमलमें प्रवेश किया। वे सम्पूर्णस्याद्वादके

अभिप्रायोको अच्छी तरहसे जाननेवाले थे, इसलिये उन्होंने मेरा अच्छी तरह लालन-पालन किया और अष्टसहस्रीके द्वारा मुझे पुष्टि प्रदान की। हे देव, वे (पात्र-केसरी) यदि मुझे न पालते तो आज मैं सुन्हे कैसे देखती ?” इसका अभिप्राय यह है कि अकलचूदेवका बनाया हुया जो ‘अष्टशती’ नामक ग्रन्थ है, उसे पढ़-कर जैनेतर विद्यान् कदम होगये और वे उसपर आक्रमण करनेको तय्यार हुए। यह वेष्टकर पात्रकेसरी स्वामीने ‘अष्टसहस्री’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचकर उसके अभिप्रायोकी पुष्टि की। इससे मालूम होता है कि अष्टसहस्रीके बनानेवाले विद्यानन्द ही पात्रकेसरी हैं।

५. आगे जो हूमचका शिलालेख उद्घृत किया गया है, उसके अन्तिम वाक्यसे भी स्पष्ट होता है कि विद्यानन्द और पात्रकेसरी एक ही थे।

इन पाँच प्रमाणोंसे मेरी समझमें यह बात निस्सन्देह हो जाती है कि पात्र-केसरी और विद्यानन्द दोनों एक ही हैं।”

प्रमाणोंकी जाँच—

इसमेंसे तीसरे नम्बरका प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें कथा कोशान्तर्गत पात्रकेसरीकी जिस कथाका उल्लेख किया गया है उसमें विद्यानन्दकी कही गन्ध तक भी नहीं पाई जाती—और तो क्या, विद्यानन्दके नामसे प्रसिद्ध होनेवाले ढरके ढेर ग्रन्थोंमेंसे किसी ग्रन्थका नाम भी पात्रकेसरी-की कृति रूपसे उसमें उल्लेखित नहीं मिलता, बल्कि पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे ‘जिनेन्द्रगुणस्तुति’ नामके एक ग्रन्थका उल्लेख पाया जाता है *। और यह ग्रन्थ ही ‘पात्रकेसरिस्तोत्र’ (पात्रकेसरीका रचा हुआ स्तोत्र) कहलाता है—विद्यानन्दस्तोत्र नहीं। इस स्तोत्रका प्रारम्भ ‘जिनेन्द्रगुणस्तुति.’ † पदसे होता है—जिनेन्द्रके गुणोंकी ही इसमें स्तुति भी है—और इसलिये भक्तामर तथा

* यथा—हृष्टोऽन्यमत्रविद्यसो जिनेन्द्रगुणस्तुति ।

सत्यव परेवानन्दात्मस्तमुखदायकः ॥

† जिनेन्द्र गुणस्तुतिःत्वं भगवपि प्रस्तुतो ।

मवत्यक्षिलकर्मणा प्रहतये पर कारणम् ॥

स्वयंभूस्तोत्रादिकी तरह यही इसका वास्तविक तथा सार्थक नाम जान पड़ता है ।

इसरे प्रमाणमें जिस टिप्पणीका उल्लेख है वह आविष्युराणके निम्न वांछय में प्रवृक्ष हुए 'पात्रकेसरिणां' पद पर जान पड़ती है, क्योंकि अन्यत्र आदिपुराणमें पात्रतेसरीका कोई उल्लेख नहीं मिलता:—

भट्टाचार्लं-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः ।

विदुषां हृदयारुढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥

इन्हीं यह ग्रन्थ मणिकचन्द्रग्रन्थमालामें एक साधारण टीकाके साथ प्रकाशित हुआ है, जिसके कर्ता आदिका कुछ पता नहीं । टीकाके शुरूमें मंगलाचरणके तीरपर एक श्लोक रखा हुआ है जिसमें 'बृहत्पञ्चनमस्कारपदं विद्रियतेऽधुना' यह एक प्रतिज्ञावाक्य है और इससे ऐसा ध्वनित होता है मानों मूळ ग्रन्थका नाम 'बृहत्पञ्चनमस्कार' है और इस टीकामें उसीके पदोंकी विवृति की गई है । चुनौति पं० बाधूरामजी प्रेमीने अपने ग्रन्थपरिचयमें ऐसा लिख भी दिया है । परन्तु ग्रन्थके संदर्भको देखते हुए यह नाम उसके लिये किसी तरह भी उपयुक्त मालूम नहीं होता । द्रव्यसंग्रहकी ब्रह्मदेवकृत-टीकामें एक स्थानपर बारह हजार श्लोकसंख्यावाले 'पंचनमस्कार' ग्रन्थका उल्लेख मिलता है और उसमें लघु सिद्धचक्र, बृहत् सिद्धचक्र, जैसे कितने ही पाठोंका संग्रह बतलाया है । हो सकता है कि 'बृहत्पञ्चनमस्कार' नामका या तो वही संग्रह हो और या उससे भी बड़ा कोई दूसरा संग्रह तथ्यार हुआ हो और उसमें पात्रकेसरिस्तोत्रको भी संश्लेषित किया हो । और उसीकी वृत्ति परसे पात्रकेसरिस्तोत्रको उतारते हुए उसकी वृत्तिका मंगलाचरण इस स्तोत्रकी वृत्तिके ऊपर दे दिया गया हो । अथवा इसके दिये जानेमें कोई दूसरी ही गड़बड़ हुई हो । परन्तु कुछ भी हो, टीकाका यह मंगलपद 'क्षेपक' जान पड़ता है । और इसलिये इससे स्तोत्रके नामपर कोई असर नहीं पड़ता । साथ ही, इस संस्करणके अन्तमें दिये हुए समाप्तिसूचक गद्यमें को 'विद्यानन्द'का नाम लगाया गया है वह संशोधक महाशयकी कृति जान पड़ती है ।

[इसमें लिखा है कि 'भट्टाकलांक, श्रीपात्र और पात्रकेसरीके अतिनिमंड गुण विद्यानोंके हृदयपर हारकी तरहसे आँख हैं'।]

परन्तु इस टिप्पणीको बाबत यह नहीं बतलाया गया कि, वह कौनसे आचार्य अथवा विद्यानी की हुई है ? कब की गई है ? अन्यत्र भी आदिपुराण-की वह समूची टिप्पणी मिलती है या कि नहीं ? और यदि मिलती है तो उसमें भी प्रकृत पदकी वह टिप्पणी भीजूद है या कि नहीं ? अथवा जिस ग्रन्थप्रति पर टिप्पणी है वह कबकी लिखी हुई है ? और वह टिप्पणी उसी ग्रन्थलिपिका अंग है या बादको की हुई मालूम होती है ? बिना इन सब बातोंका स्पष्टीकरण किये और यह बतलाए कि वह टिप्पणी अधिक प्राचीन है—कमसे कम 'सम्यक्त्व-प्रकाश' और 'ज्ञानसूर्योदय नाटक'की रचनासे पहले की है—अथवा किसी मान्य अविकारी पुरुष-द्वारा की गई है, इस प्रमाणका कोई खास महत्व और बज्जन मालूम नहीं होता । हो सकता है कि टिप्पणी बहुत कुछ आधुनिक हो और वह किसी स्वाध्यायप्रेमीने दन्तकथापर विश्वास करके या सम्यक्त्वप्रकाशादिको देख कर ही लगा दी हो ।

पांचवाँ प्रमाण एक शिलालेख पर आधार रखता है और उस लेखकी जाँचसे वह चिल्कुल निर्मूल जान पड़ता है । मालूम होता है प्रेमीजीके (अथवा तात्या नेमिनाथ पांगलके भी) सामने यह पूरा शिलालेख कभी प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें उसके कुछ खंडोंका सारांशमात्र मिला है और इसीलिये उन्हे इस प्रमाणको प्रस्तुत करने तथा शिलालेखके आधारपर अपने लेखमें विद्यानन्दका कुछ विशेष परिचय देनेमें मारी घोड़ा हुआ है । अस्तु; इस प्रमाणमें प्रेमीजीने शिला-लेखके जिस अन्तिम वाक्यकी ओर इशारा किया है उसे यहाँ दे देने मात्रसे ही काम नहीं चलेगा, पाठकोंके समझनेके लिये अनुवादरूपमें प्रस्तुत किये हुए प्रेमीजीके उस पूरे शिलालेखको ही यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है और वह इस प्रकार है—

"विद्यानन्दस्वामीने नजराज पट्टणके राजा नंजकी सभामें आकर नन्दन-मस्तिष्कसे विवाद करके उसका पराभव किया । शतब्देन्द्र राजाकी सभामें एक काव्यके प्रभावसे समस्त छोताधोंको चकित कर दिया । शाल्वमस्ति राजाकी सभामें पराजित किये हुए वादियों पर विद्यानन्दने क्षमा की ।"

सत्त्वदेव राजा की सभामें परवादियों के मतों को असत्य सिद्ध करके जैनमत की प्रभावना की। विलयी के राजा नरसिंह की सभामें जैनमत का प्रभाव प्रकट किया। कारकल नगरी के भैरवाचार्य की राजसभामें विद्यानन्दने जैनमत का प्रभाव दिलाकर उसका प्रसार किया। विदरी के भव्यजनों को विद्यानन्दने अपने घर्मज्ञान से सम्बन्धित वक्तव्य की प्राप्ति करा दी जिस नरसिंह राजे के दरबार में हड्डारों राजा नम्र होते थे उस राजदरबार में जाकर है विद्यानन्द, तुमने जैनमत का उद्योग किया और परवादियों का परामर्श किया। कोपन तथा अन्य तीर्थस्थलों में विपुल धन खर्च करा के तुमने घर्मप्रभावना की। देलगुल के जैनसंघ को सुवर्णवस्त्रादि दिलाकर मण्डित किया। गेरसो-ध्याके समीप के प्रदेश के मुनिसंघ को अपना शिष्य बनाकर उसे विभूषित किया। जैनशासन का तथा महावीर, गौतम, भद्रबाहु, विशाखाचार्य, उमास्वामी, समन्त-भद्र, अकलंक का विजय हो। अकलंकने समन्तभद्र के देवागम पर भाष्य लिखा। आत्मीयांसा ग्रंथ को समक्षाकर बतलाने वाले विद्यानन्दिको नमोस्तु। इलोक-वातिकाल कारके कर्ता, कविचूडामणि, तार्किकर्तिह, विदान् यति विद्यानन्द जय-बन्त हों। गिरिनिकट निवास करने वाले मोक्षेच्छु ध्यानी मुनि पात्र के सरी ही हो गये.....”

(शिलालेख नं ४६)

अनुवादरूपमें प्रस्तुत इस शिलालेख के अन्तिम वाक्य से भी, यच्चपि, यह नहीं पाया जाता कि विद्यानन्द और पात्र के सरी दोनों एक ही व्यक्ति थे; क्योंकि न तो इसमें ऐसा लिखा है और न और सब कथन अकेले विद्यानन्द से ही संबन्ध रखता है बल्कि गौतम, भद्रबाहु, समन्तभद्र और अकलंकादिक आचार्यों का भी इसमें उल्लेख है और तदनुसार पात्र के सरी का भी एक उल्लेख है। गौतम, भद्रबाहु और समन्तभद्रादिक यदि विद्यानन्द के नामान्तर नहीं हैं तो पात्र के सरी को ही उनका नामान्तर क्यों समझा जाय? फिर भी मैं इस लेख-विषय को कुछ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

यह शिलालेख कनडी और संस्कृत भाषाओं का एक बहुत बड़ा शिलालेख है—उक्त अनुवादरूपमें पाठक जितना देख रहे हैं उतना ही नहीं है। इसका पूर्वभाग कनडी और उत्तरभाग संस्कृत है और यह संस्कृतभाग ही इसमें बड़ा है। पहले कनडी भाषामें वार्दिविद्यानन्दका उल्लेख है और उन राजसभाओं श्राविका उल्लेख है जहाँ

पर उनके द्वारा कोई कोई महत्वका कार्य हुआ है। यह भाग १७पदोमे है। ऊपर जो अनुवाद दिया है उसमे 'जैनशासन' से प्रारम्भ होनेवाले अन्तिम पाँच वाक्यों को छोड़कर शेष भाग इसी कन्डी भागसे सम्बन्ध रखता है और उसमे पहले तीन पदों तथा पाँचवे, आठवे और दसवे पदका कोई अनुवाद नहीं है, जिससे अन्य बृत्तान्तके अतिरिक्त श्रीरामगरकी राजसभा गुरु नृपालकी राजसभा और नगरी राज्यकी राजसभाओं भी हाल रह गया है और शेष पदोंका जो अनुवाद या भाषाय दिया गया है वह बहुत कुछ अधूरा ही नहीं किन्तु कही कही पर गलत भी है, जिसका एक उदाहरण गेरसोप्ये-सम्बन्धी पदका अनुवाद है। इस पदमे कहा गया है कि 'हे विद्यानन्द, आपने गेरसोप्ये में योगाम-विद्ययक वादमे प्रवृत्त मुनिगणकी पालना—अथवा सहायता—के कायको प्रेमके साथ, बतौर एक गुरुके अपने हाथमे लिया है और (इम तरह) अपनेको प्रतिष्ठित किया है। इस परसे पाठक यह सहजमे ही अनुभव कर सकते हैं कि ऊपरका 'गेरसोप्या' से प्रारम्भ होनेवाला अनुवाद कितना गलत और भ्रामक है। अस्तु, शिलालेखके इस कन्डीभागमे जिन राजाधोका उल्लेख है और सस्कृतभागमे भी सगिराच, पद्मान-दत्त कुण्डेव, सालुड कृष्णेव, विरुद्धाक्षराय, साल्वमल्लराय, अच्युतराय विद्यानन्दीके विजयश्रीकृष्णराय आदि जिन राजाधोका विद्यानन्द नवा उनके शिष्योंके सम्बन्धमे उल्लेख है वे सब शककी १५ वी अथवा विक्रम और ईमाकी प्रायः १६ वी शानावदीमे हुए हैं और इसलिये उनकी सभाधो मे प्रसिद्ध होनेवाले ये बादिविद्यानन्द महादय वे विद्यानन्दस्वामी नहीं हैं जो इलोकार्णिकादि ग्रन्थों प्रसिद्ध रचयिता हैं। और यह बात इस शिलालेखके लखक तथा विद्यानन्दक प्रशिष्य और बन्धु मुनिवद्धमान-द्वारा रचित 'दश भक्त्यादिशास्त्र'^१ से भी पाई जाती है जिसमे इन सब पदोंका ही नहीं किन्तु सस्कृत भागके भी बहुतम पदोंका उल्लेख करते हुए विद्यानन्दका मृत्युका समय शक स० १४६३ दिया है। यथा—

शाके बन्धिम्बरा(रमा^२) छिघचट्रकलिते संवत्सरे शार्वरे

॥ यह ग्रन्थ शाराके जैनसिद्धान्तभवनसे देखवेको मिला, जिसके लिये अध्यक्ष महाशय विशेष अन्यवादके पत्र हैं।

शुद्धआवणभाककृतान्तधरणीतुमैत्रमेषे रवौ ।
कर्कस्थे सगुरी जिनस्मरणतो वादीन्द्रवृन्दाचितो
विद्यानन्दमुनीश्वर स गतवान् स्वर्गं चिदानन्दकः ॥

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि एक विद्वान्‌की कीर्तियोंको दूसरे विद्यान्‌के साथ जोड़ देनेमें प्रेमीजी भादिको भारी भ्रम तथा धोखा हुमा है और उन्हे अब उसे मालूम करके तथा यह देखकर कि गलतीका बहुत कुछ प्रचार हो गया है उसके लिये खेद होगा । अन्तु, अब शिलालेखके संस्कृत भागको लीजिये, किसका प्रारम्भ निम्न पद्धोंसे होता है—

वीरश्रीवरदेवराजकृत्सत्कल्याणपूजोत्सवो
विद्यानन्दमहोदयैकनिलय श्रीसगिराजाचितः ।
पद्मानन्दन-कृष्णदेव- बनुतः श्रीवर्दमानो जिनः
पायात्सालुच-कृष्णदेवनृपतिं श्रीशोऽर्द्धनारीश्वरः ॥
श्रीमत्परमगभीरस्याद्वादामोघलांछनम् ।
जीयात् त्रिलोकयनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

इन पदोंके बाद क्रमशः बद्धमानजिन, भद्रबाहु, उमास्वाति, सिद्धान्तकीर्ति, शकलक, श्लोकवार्तिक आदि ग्रन्थोंके कर्ता विद्यानन्दस्वामी, मारणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, पूज्यपाद, होत्यस्लराजगुरु बद्धमान, वासुपूज्य और श्रीपाल नामक गुहधोरों का स्तवन करते हुए ‘पात्रकेसरी’ का स्तोत्र निम्न प्रकारसे विद्या है—

भूमृत्यादानुवर्ती सन् राजसेवापराङ् मुखः ।
सयतोऽपि च मोक्षार्थी भात्यसौ पात्रकेसरी ॥

[इसमें मालूम होता है कि ‘पात्रकेसरी’ पहले किसी राजाकी सेवामें थे और उस राजसेवासे पराहमुख होकर—उसे छोड़ कर—ही वे मोक्षार्थी सुनि जने हैं और उन्होंने भूमृत्यादानुवर्ती होना—तपस्याके लिये गिरिचरणकी कारण में रहना—ही उत्तम समझा है, और इसीसे आप सुक्षोभित हुए हैं ।]

इस स्तोत्रके बाद चामुण्डराय-द्वारा पूजित नेत्रिचन्द्र, माघवचन्द्र, जयकीर्ति, जिनचन्द्र, इननन्दी, वसन्तकीर्ति, विशालकीर्ति, शुभकीर्ति, पथनन्दी, माघनन्दी, सिहनन्दी, चन्द्रप्रभ, वसुनन्दी, मेघचन्द्र, वीरनन्दी, धनजय, वादिराज और

अमंशुवत्तुका स्वतन्त्र देते अथवा उनमेंसे किसी किसीका उल्लेख भाग करते हुए, फिर उन्हीं वादिविद्यानन्दका शिष्य-प्रशिष्यादि-सहित बर्णन और स्वतन्त्र दिया है, जिनका पहले कन्दीभागमें तथा सस्कृतभागके पहले पाँचमें उल्लेख है—उन्हें ही 'बुद्धेशभवन-ठेयाल्यान' का कर्ता लिखा है—और अन्तमें निम्न पदनारा इस सेव कथनकी 'गुरुसंतति' का बर्णन सूचित किया है—

वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्थवद्धुना ।

देवेन्द्रकीर्तिभिता लिखिता गुरुसन्तति ॥

शिलालेखके इस परिचयसे पाठक सहजमें ही यह समझ सकते हैं कि 'पात्रकेसरी' विद्यानन्दस्वामीका कोई नामान्तर नहीं है, वे गुरुसन्ततिमें एक पृष्ठक ही आचार्य हुए हैं—दोनों विद्यानन्दोंके मध्यमे उनका नाम कितने ही आचार्योंके अन्तरसे दिया हुआ है—और इसलिए इस शिलालेखके आधारपर प्रेमीजीका उन्हें तथा विद्यानन्दस्वामीको एक ही व्यक्ति प्रतिपादन करना अभ्यास है—उन्हें जहर इस विषयमें दूसरोंके अपरीक्षित कथन पर विश्वास कर लेनेके कारण घोला हुआ है ।

अब रहे दो प्रमाण, पहला और चौथा । चौथा प्रमाण विकल्पकी १७वीं शताब्दी (स० १६४८) मे बने हुए एक नाटक ग्रन्थके कल्पित पात्रोंकी बात-चीत पर आधार रखता है, जिसे सब औरसे सामजिकी जांच किये जिना कोई सास ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया जा सकता । नाटकों तथा उपन्यासोंमें प्रयोजनादिवश कितनों ही बाते इधरकी उधर हो जाती हैं, उनका प्रधान लक्ष इतिहास नहीं होता किन्तु दिसी बहानेम—किन्तु ही कल्पनाएँ करके—किसी विषयको प्रतिपादन करना अथवा उसे दूसरोंके गले उतारना होता है । और इसलिए उनकी ऐतिहासिकता पर सहमा कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । उनके पांचों अथवा पात्रामोंकी ऐतिहासिकता तो कभी कभी बहुत दूरकी बात हो जाती है उहूतसे नाम तो उनमें यो ही कल्पित किये हुए (फर्जी) होते हैं—वे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं होते—और कितने ही व्यक्तियोंका काम उनके असली नामोंसे प्रकट न करके कल्पित नामोंसे ही प्रकट किया जाता है । इस ज्ञानसूर्योदय नाटकका भी ऐसा ही हाल है । इसमें 'ग्रहशती' के मुखसे जो वाक्य कहलाये गए हैं उनमें नित्यादि परपराओंके

‘बहुनात्मक वाक्य ‘भृष्टशती’ के नहीं किन्तु ‘धातमीमात्सा’ के वाक्य है, जिस को ‘देवागम’ भी कहते हैं। और इस देवागम-स्तोत्रकी वाचत ही यह कथा प्रसिद्ध है कि इसके प्रभावसे पात्रकेसरी विद्वान् अज्ञेयसे जैन हुए थे—समन्त-भद्र-भारतीस्तोत्र’ में भी ‘पात्रकेसरिप्रभावसिद्धकारिणी स्तुते’ वाक्यके द्वारा इसी वाच को सूचित किया गया है। पात्रकेसरीको ‘भृष्टशती’ की प्राप्ति हुई थी और वे उसकी प्राप्तिके पहलेसे ही संपूर्ण स्थावादके अभिप्रायोको अच्छी तरहसे जाननेवाले थे, नाटकदे “य कथनकी कहीसे भी कोई सिद्धि तथा पुष्टि नहीं होती और न भृष्टसहस्रीम हो उसके कर्ताका नाम आवाजा नामान्तर पात्रकेसरी दिया है। जान पड़ता है नाटकके कर्ता भट्टारक वादिचन्द्रको भृष्टशतीका भृष्टसहस्रीके द्वारा पुष्ट होना दिखलाना था और उसके लिये उन्होंने वैमे ही उसके पुष्टकरूप ‘पात्रकेसरी’ नामकी कल्पना कर डाली है। और इसलिये उसपर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा सकता और न इतने परसे ही उसे ऐतिहासिक सत्य माना जा सकता है।

हाँ, पहले प्रमाणमें ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ नामक ग्रन्थकी जो परिक्षयौ उद्भूत की गई है उनसे विद्यानन्द और पात्रकेसरीका एक होना ज़रूर प्रकट होता है। और इस लिए इस प्रमाणपत्रकमें परीक्षा करनेपर यही एक ग्रन्थ रह जाता है जिसके आधारपर प्रकृत-विषयके सम्बन्धमें कुछ जोर दिया जा सकता है। यह ग्रन्थ मेरे सामन नहीं है—प्रमीजीको लिखन पर भी वह मुझे प्राप्त नहीं हो सका और न यही मालूम हो सका है कि वह किसका बनाया हुआ है और कब बना है। प्रेमीजी लिखते हैं—‘मम्यक्त्वप्रकाशके विषयमें मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। (मेरा) वह लेख मुख्यत पागलके मराठी लेखके आधारसे लिखा गया था, और उन्होंने शायद केंद्रीय पाठके अग्रेजी लेखके आधारसे लिखा होगा, ऐसा मेरा धनुभान है।’ अस्तु, डाक्टर शतीचन्द्र विद्यामूर्यणने भी, अपनी इडियन लाजिककी हिस्ट्रीमें, केंद्रीय पाठके अग्रेजी लेखके आधार पर ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ के इस प्रमाणका उल्लेख किया

^५ ‘जैनग्रन्थावली’ से मालूम होता है कि इस नामका एक ग्रन्थ दक्षन कालेज पूनाकी लायब्रेरीमें भौजूद है। सभव है कि वह यही प्रकृत ग्रन्थ हो। और केंद्रीय पाठक महाशयने इसी ग्रन्थप्रति परसे उल्लेख किया हो।

है, और इसके ऐसा मातृप होता है कि शाबद के ०३० पाठक यहाँ परन्तु नहीं ही इस प्रमाणको पहले उपस्थित किया है। परन्तु पहले जाहे जिसने उपस्थित किया हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह अन्य अपने उक्त वाक्यकी लेखन-शैली परसे बहुत कुछ आधुनिक जान पड़ता है—प्राचीन नहीं जो वह उक्त ‘आनसूर्योदय’ नाटकसे भी अवचीन हो—और मुझे इस कहनेमें जरा भी सकोच नहीं होता कि यदि इस ग्रन्थके करनामे “इलोकवार्तिके विद्यानन्द्यपरनामपात्र-केसरिस्वामिना यदुक तद्व लिख्यते” यह वाक्य इसी रूपमें दिया है तो उमे इसके द्वारा विद्यानन्द और पात्रकेसरीस्वामीको एक व्यक्ति प्रतिपादन करनेमें जहर भय हुआ है अबवा उसके समझनेकी किसी गलतीका ही परिणाम है, क्योंकि वास्तवमें पात्रकेसरीस्वामी और विद्यानन्द दोनोंका एक व्यक्तित्व सिद्ध नहीं होता—प्राचीन उल्लेखों अध्यवा घटनासमूह परसे वे दो भिन्न आचार्य जान पड़ते हैं। और यह जात ऊपरके इस सपूर्ण परीक्षण तथा विवेचनको ध्यानमें रखते हुए नीचे दिये स्पष्टीकरणसे पाठकों और स्पष्ट हो जायगी:—

दोनोंकी भिन्नताका स्पष्टीकरण—

(१) विद्यानन्दस्वामीने स्वरचित इलोकवार्तिकादि किसी भी ग्रन्थमें अपना नाम या नामान्तर ‘पात्रकेसरी’नहीं दिया, किन्तु जिस तिस प्रकारसे ‘विद्यानन्द’ का ही उल्लेख किया है। ‘विद्यानन्द’ के अतिरिक्त यदि उन्होंने कहीपर किसी तरहमें अपना कोई लपनाम, उपाधि या विशेषण सूचित किया है तो वह ‘सत्य-वाक्याधिप’ या ‘सत्यवाक्य’ है, जैसा कि निम्न अवतरणों से जान पड़ता है—

विद्यानन्द्युधैरलकुत्पिद्दं श्रीसत्यवाक्याधिपैः ।

—युक्त्यनुशासनटीका

सत्यवाक्याधिपाः शश्वद्विद्यानन्दाः जिनेश्वराः

—प्रमाणपरीक्षा

विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धचै ॥

—आत्मपरीक्षा

(२) विद्यानन्दके बाद होनेवाले प्रभावन्द और बादिराज-जैसे प्राचीन भाषायोंमें भी 'विद्यानन्द' नामसे ही आपका उल्लेख किया है। यथा—

विद्यानन्द-समन्तभद्रगुणतो नित्य मनोनन्दनम्
—प्रसेदकमलमार्त्तम्

ऋजुसूत्र स्फुरद्रल विद्यानन्दस्य विस्मय ।

शृङ्खलामध्यलंकार दीप्तिरगेषु रङ्गति ॥

—पादवनाथचरित

(३) शिलालेखोंमें भी 'विद्यानन्द' नामसे ही आपका उल्लेख मिलता है। और यह कही सूचित नहीं किया कि विद्यानन्दका ही नाम पात्रकेसरी है। प्रत्युत इसके, हुमचाके उक्त शिलालेखमें जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है दोनोंको अलग अलग ग्रुह सूचित किया है। उसमें भट्टाकलके बाद विद्यानन्द-की स्तुतिके तीन पद्म दिये हैं और उनमें आपकी कृतियोंका—आसमीमासालकृति (अष्टसहस्री), प्रमाणपरीक्षा, आसपरीक्षा, पत्रपरीक्षा विद्यानन्दमहोदय और इलोकवार्तिकालकारका—उल्लेख करते हुए सबत्र आपको विद्यानन्द नामसे ही उल्लेखित किया है। यथा—

अलं चकार यस्सार्वमाप्तमीमासित मत ।

स्वामिविद्यादिनन्दाय नमस्तस्मै महात्मने ॥

य प्रमाणाप्तपत्राणां परीक्षा कृतवान्नुम ।

विद्यानन्दस्वामिन च विद्यानन्दमहोदय ॥

विद्यानन्दस्वामी विरचितवानश्लोकवार्तिकालकार ।

जयति कविविकुद्धतार्किंचूडामणिरमलगुणनिलय ॥

(४) विद्यानन्दकी कृतिरूपसे जो ग्रन्थ प्रसिद्ध है उनमेंसे किसीका भी उल्लेख पात्रकेसरीके नामके साथ प्राचीन साहित्यमें नहीं पाया जाता और न पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे प्रसिद्ध होनेवाले ग्रन्थोंका उल्लेख विद्यानन्दके नामके साथ ही पाया जाता है। यह दूसरी बात है कि आज कलके कुछ प्रकाशक अथवा सशोधक महाकाश दोनोंकी एकत्रके अमवश्य एकका नाम दूसरेके साथ जोड़ देते। अस्तु पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे सिफ दो ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता है—

एक 'विनेश्वरुणसंस्तुति' का, जिसे 'पात्रकेसरिस्तोत्र' भी कहते हैं और जो अपने चुकाहे हैं, और दूसरा 'त्रिलक्षणकदर्थन' का, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। इस 'त्रिलक्षणकदर्थन' के साथ ही पात्रकेसरीकी साम्र प्रसिद्धि है। बोढ़ोके डारा प्रतिपादित अनुमान-विषयक हेतुके त्रिलक्षणक लक्षणका विस्तारके साथ खड़न करना ही इस ग्रन्थका अभिप्रैत है। अवरावेलगोलके 'मल्लिष्वेणप्रभस्ति' नामक शिलालेख (न० ५४/६७) में, जो कि शक स० १०५० का 'सिंहा हुआ है, 'त्रिलक्षणकदर्थन' के उल्लेखपूर्वक ही पात्रकेसरीकी स्तुति भी गई है। यथा—

महिमा सपात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् ।

पश्चावती सहाया त्रिलक्षण-कदर्थनं कर्तुम् ॥

इसमें बताया है कि उन 'पात्रकेसरी' गुरुका बड़ा माहात्म्य है जिनकी भक्तिके बास होकर पश्चावती देवीने 'त्रिलक्षणकदर्थन' की कृतिमें उनकी सहायता की थी। कहा जाता है कि पश्चावतीके प्रसादसे आपको नीचे लिखे इलोकको प्राप्ति हुई थी और उसको पाकर ही आप बोढ़ोके अनुमान-विषयक हेतुलक्षणका खण्डन करनेके लिये समर्थ हुए थे—

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥

कथाकोश-बर्गित पात्रकेसरीकी कथामें भी यह इलोक दिया है और बहतसे न्याय-सिद्धान्तादि-विषयक ग्रन्थोंमें यह उद्घृत पाया जाता है। इस इलोककी भी पात्रकेसरीके नामके साथ सास प्रसिद्धि है और यही आपके 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थका मूल मन्त्र जान पड़ता है।

यहाँ, पाठकोको यह जान कर आशर्चर्य होगा कि प्रेमीजी अपने उक्त लेखमें इस ग्रन्थकी सत्तासे ही इनकार करते हैं और लिखते हैं कि "वास्तवमें 'त्रिलक्षणकदर्थन' कोई ग्रन्थ नहीं है। पश्चावतीने 'धन्यथानुपपत्रत्व' आदि इलोक लिख कर पात्रकेसरीके जिस अनुमानादि-विषयक त्रिलक्षणके अमको निराकरण किया था, उसीका यहाँ (मल्लिष्वेणप्रभस्ति) उल्लेख है।" परन्तु आपका यह लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि यह ग्रन्थ ११वीं शताब्दीके विद्वान् वादिराजसूरि-जैसे प्राचीन आधारोंके सामने भौखूद था और उन्होंने 'न्यायविनिवृत्यालक्षण' में

पात्रकेसरीके नामके साथ उसका स्पष्ट उल्लेख किया है और अमुक कथनका उस शास्त्रमें विस्तारके साथ प्रतिपादन होना बताया उसके देखनेकी प्रेरणा की है। जैसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

‘त्रिलङ्घणकदर्थने वा शास्त्रे विस्तरेण ओपात्रकेसरिस्वामिना प्रतिभादनादित्यलमभिनवेशेन ।’

(५) बादिराजसूरिने, ‘न्यायविनिष्वालंकार’ नामक अपने भाष्यमें ‘अन्यथानुपपत्रत्वं’ नामके उक्त श्लोकको नीचे लिखे वाक्यके साथ उद्धृत किया है—

“तदेवं पञ्चर्थमत्वादिमन्तरेणाऽप्यन्यथानुपपत्तिश्लन हेतोर्गमकत्वं तत्र बत्र स्थाने प्रतिपाद्यभेदं स्वबुद्धिपरिकल्पितमपि तृपरागमसिद्धमित्युपदर्शयितुकामः भगवत्सीमवरस्वामितीर्थकरदेवममवसरणादृगणधरदेवप्रसादापादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह—”

और इसके द्वारा इतना विशेष और सूचित किया है कि उक्त श्लोक पश्चात्ती देवीने सीमवरस्वामी तीर्थकरके समवसरणमें जाकर गणधरदेवके प्रसादसे प्राप्त किया था और वह ‘अन्यथानुपपत्ति’ नामक हेतुलक्षणका वार्तिक है। अस्तु; यह श्लोक पात्रकेसरीको पश्चात्तीदेवीने स्वयं दिया हो या गणधरदेवके पाससे लाकर दिया हो अथवा अपने हष्टदेवताका ध्यान करने पर पात्रकेसरीजीको स्वतः ही सूझ पड़ा हो (कुछ भी हो), किन्तु इस प्रकारके उल्लेखोंसे यह निःसन्देह जान पड़ता है कि लोकमें इस श्लोकके आद्य प्रकाशक पात्रकेसरी स्वामी हुए हैं। और इसलिये यह पद्म उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है।

विद्यानन्दस्वामीने प्रमाणपरीक्षा और श्लोकवार्तिक नामक अपने दो ग्रंथोंमें ‘तथोक्त’, ‘तथाह च’ शब्दोंके साथ पात्रकेसरीके उक्त श्लोकको उद्धृत किया है। और इससे यह जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे मिल ही नहीं किन्तु उनसे पहले हुए हैं।

(६) ‘तत्त्वसंग्रह’ नामका एक प्राचीन बौद्धग्रन्थ, पंजिका सहित, बड़ीदाकी ‘गायकवाह-योरियंटल-सिरीज’ में प्रकाशित हुआ है। यह मूल ग्रंथ आचार्य ‘शान्तरक्षित’का बनाया हुआ है और इसकी पंजिकाके कर्ता उनके हित्य ‘कमल-

शील' आचार्य हैं। इस बन्द में पात्रकेसरी स्वामी के गतवा उल्लेख उन्हीं के वाक्यों-द्वारा निम्न प्रकार से किया गया हैः—

“अन्यथेत्यादिना पात्रस्वाभिमतमाशाङ्कुते—
 अन्यथानुपपत्त्वे ननु हट्टा सुहेतुता ।
 नासति च्यशकस्थापि तस्मात्कलीवस्त्रिलक्षणः ॥१३६४॥
 अन्यथानुपपत्त्वं यस्यासौ हेतुरिष्यते ।
 एकलक्षणकः सोऽर्थश्चतुलेक्षणको न वा ॥१६६५॥
 यथा लोके त्रिपुत्रः सन्नैकपुत्रक उच्यते ।
 तस्यैकस्य सुपुत्रत्वात्त्वेणापि च दृश्यताम् ॥१३६६॥
 अविनाभावसम्बन्धस्त्रिलक्षणे न जातुचित् ।
 अन्यथाऽसंभवैकल्पकेतुष्वेकोपलभ्यते ॥१६३७॥
 अन्यथानुपपत्त्वं यस्य तस्यैव हेतुता ।
 हट्टान्ती द्वावपि स्तां वा मा वा तौ हि न करणम् ॥१३६८॥
 ◎ अन्यथानुपपत्त्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।
 नान्यथानुपपत्त्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥१३६९॥
 सश्यामस्तस्य पुत्रत्वाद् हट्टाः स्यामा यथेतरे ।
 इति त्रिलक्षणो हेतुर्न निश्चित्यै प्रवर्तते ॥१३७०॥
 तत्रैकलक्षणो हेतुर्द्विट्टान्तद्वयवर्जितः ।
 कर्थंचिदुपलभ्यत्वाद् भावाभावौ सदात्मकौ ॥१३७१॥
 चन्द्रलक्षणापदिष्टत्वाभावन्द्रः शशालांक्षनः ।
 इति द्विलक्षणो हेतुर्यं चापर उच्यते ॥१३७२॥
 पतत्कीटकुत्तेयं मे वेदनेत्यवसीयते ।
 तत्कीटकसंस्पर्शप्रतिलक्ष्योदयत्वतः ॥१३७३॥
 चक्षु रूपप्रहे कार्यं सदाऽविशयशक्तिमन् ।
 तस्मिन्म्यापार्यमानिन्वाशादि वा तस्य दर्शनाम् ॥१३७४॥

● यह पात्रकेसरीका वही शसिद्ध रसोक है।

कथचिदसदात्मानो च वि वाऽऽलमघटादयः ।
 कथंचिदुपलभ्यत्वात्सरसम्बोधिष्ठृगवत् ॥१३७५॥
 कथंचन सदात्मानः शश्ट्रं गादयोपि च ।
 कथचिदुपलभ्यत्वाश्वैवात्मघटादयः ॥१३७६॥
 त्वदीयो वापि तत्रास्ति वेशमनीत्यवगम्यते ।
 भावत्कपिनुशङ्कस्य श्रवणादिवह सद्गनि ॥ १३७७ ॥
 अन्यथानुपपत्यैव शब्ददीपादिवस्तुषु ।
 अपक्षार्थमभावेऽपि हङ्का छापकताऽपि च ॥ १३७८ ॥
 तेनैकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद् गमकास्तु नः ।
 पञ्चधर्मादिभिस्त्वन्यैः किं व्यर्थैः परिकल्पितैः ॥ १३७९ ॥

इन वाक्योंका विषय प्राय विरूपात्मक हेतुलक्षण का कदर्थन करना है, और इससे ये पात्रकेसरीके 'क्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थसे ही उदृष्ट किये गये जान पहते हैं। अस्तु; शान्तरक्षितका समय ई० सन् ७०५ से ७६२ तक और कमल-शीलका ७१३ से ७६३ तक पाया जाता है । ये दोनो आचार्य विद्यानन्दमे पहने हुए हैं; क्योंकि विद्यानन्द प्रायः ६ वीं शताब्दी के विद्वान् हैं । और इस लिये इनके प्रथमें पात्रकेसरी स्वामी और उनके वाक्योंका उल्लेख होनेसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे बहुत पहले ही गये हैं ।

कृ देखो, श्रीयुत बी० महाचार्यद्वारा लिखित ग्रन्थकी भूमिका [Foreword] । ये दोनो आचार्य नालन्दाके विश्वविद्यालय मे अध्यापक रहे हैं और वहीसे यथा-बसर तिब्बतके राजा द्वारा निर्मित होकर तिब्बत भी गये हैं । तिब्बतके राजा Khri-sron-deutsan (ख्रिस्तोन्तर्लक्ष्मन) ने शान्तरक्षितकी सहायतासे ई० सन् ७४६ में एक विहार (मठ) बनाया जिसका नाम 'महायानहोशग' नामक चीनी सांचुको परास्त तथा निर्बासित करके अपने गुरु पथसम्बन्ध और शान्तरक्षितके धार्मिक विचारोकी तिब्बतमें रक्षा की थी; ऐसा डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषणकी 'हिस्टरी आफ दि मिडियालन स्कूल आफ इन्डियन लाइक' मे जाना जाता है ।

(७) अकलकदेवके ग्रन्थोंके प्रधान टीकाकार श्रीमन्तवीर्यने आशावं जिनका आविमवि अकलकदेवके ग्रन्तिम जीवनमें अवशा उनसे कुछ ही वर्णों द्वारा हुआ जान यडता है और जिनकी उक्तियोंके प्रति प्रभावनदाचार्यने अपने 'न्याय-कुमुदचन्द्रोदय' में बड़े ही महत्व तथा कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है, अकलक-देवकृत 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थकी टीका[†]के 'हेतुलक्षणसिद्धि'नामक छठे प्रस्ताव-में पात्रकेसरी स्वामी, उनके त्रिलक्षणकदर्थन् प्रथ और उनके 'अन्यथानुपन्नत्व' नामके उस प्रसिद्ध इलोकका उल्लेख करते हुए, जो महत्वकी चर्चा तथा सूचना की है वह इस प्रकार है—

'ननु सदोषं तदनस्तदुपरि ज्ञानमदोषायेति चेदत्राह—‘अमलालीढ़’ अमलौगण्ठरप्रभृतिभिरालीढ़मास्वादित न हि ते सदोषमालिहस्य-मलत्वहानेः । कस्य तदित्यत्राह—‘स्वामिन’ पात्रकेसरिण । इत्येके । कृत एतचेन तद्विषयत्रिलक्षणकदर्थनमुत्तरभाष्य यतः कृतमिति चेत् नन्वेवं (तहि) सौमधरभट्टारकस्याशेषार्थसाक्षात्कारिणस्तीयकरस्य स्याचेन हि प्रथमं ‘अन्यथानुपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किं । नान्यथा-नुपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किं’ इत्येतत्कृत । कथमिदभवगम्यत इति चेत् पात्रकेसरिणा त्रिलक्षणकदर्थन कृतमितिवथमवगम्यत इति, समानमा-चार्यप्रसिद्धेत्रित्यपि समानमुभयत्र कथा च महती सुप्रसिद्धा तस्य तत्कृतत्वे प्रमाणप्राप्तामाण्ये तप्रिसिद्धौ कः समाश्वासः । तदर्थं करणात्तस्येति चेत्तद्द्वि-सर्वं शास्त्र तदविधेय चात पव शिष्याणामेव न तत्कृतमिति व्यपदिश्यन्ते

[†] 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थकी खोज होने पर डालमे यह उसकी सोलह-खतरह हजार इलोकपरिमाण टीका गुजरात-पुरातत्त्व-मन्दिर अहमदाबादको प्राप्त है और मुझे गतवर्ष बही पर इसके पन्ने दबानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह टीका बड़े महत्वकी है परन्तु यह जानकर खेद हुआ कि इसमें मूलसूत्र पूरे नहीं दिये— आशाक्षरोंकी सूचना रूपसे पाये जाते हैं । मूल ग्रन्थकी खोज होनेकी बहुत बड़ी चर्करत है । क्या ही अच्छा हो यदि कोई समर्थ जिनवारणी-भक्त इसका मूल-सहित उद्धार करा कर अपनी जिनवारणी-मत्किका सच्चा परिचय देये ।

पात्रकेसरिणोऽपि वा न भवेत्तेनाप्यन्यार्थं सत्करणात्तेनाप्यन्यार्थमिति
न कस्यचित्स्यादेन तद्विषयप्रबधकरणात्त्रकेसरिणस्तदिति चिन्तित
मूलसूत्रकारेण कस्यचिद्ब्यपदेशाभावप्रसंगात् । तस्मात्साक्लयेनसाज्ञा-
कृत्योपदिशत एवायं भगवतस्तीर्थकरस्य हेतुरिति निश्चीयते एतच्चाभ-
लालीढ़त्वे कारणमुक्तं ।

यह सारी चर्चा वास्तवमें अकलकदेवके मूलसूत्र (कारिका) में प्रयुक्त हुए
'अमलालीढ़ और स्वामिनः' ऐसे दो पदोकी टीका हैं । और इसे ऐसा
जान पड़ता है कि, अकलदृष्टदेवने हेतुके 'अन्यथानुपपत्तेकलक्षण' का 'अमलालीढ़'
विशेषण देकर उसे अमलो (निर्दोषो)—गणघरादिको—द्वारा आस्वादित
बतलाया है और साथ ही 'स्वामिन' पदके द्वारा प्रतिपादित किया है कि वह
'स्वामिकृत' है । इसपर टीकाकारने यह चर्चा की है कि—यहाँ 'स्वामी' शब्दसे
कृद्य विद्वान् लोग पात्रकेसरी स्वामीका अभिप्राय लेते हैं—उस हेतुलक्षणको
पात्रकसरिकृत बतलाते हैं—और उसका हेतु यह देते हैं कि पात्रकेसरीने चूँकि
हेतुविषयक त्रिलक्षणकदर्थं' नामके उत्तरभाष्यकी रचना की है इसीसे यह
हेतुलक्षण उन्हींका है । यदि ऐसा ही है—ऐसा ही हेतुप्रयोग है—तब तो वह
अशेष विषयको साक्षात् करनेवाले सीमधरस्वामि-तीर्थकर-कृत होना चाहिय,
क्योंकि उन्होंने ही पहले 'अन्यथानुपपत्तेत्वं यत्र तत्र ग्रयेण किं । नान्यथानु-
पपत्तेत्वं यत्र तत्र ग्रयेण ईँ' इस वाक्यकी सृष्टि की है । यदि यह कहा जाय
कि सीमधरस्वामीने ऐसा किया इसके जाननेका क्या साधन है? तो फिर पात्र-
केसरीने त्रिलक्षणका कदर्थं किया इसके जाननेका भी क्या साधन है? यदि
इसे आचार्यपरम्परासे प्रभिष्ठ माना जाय तो सीमधर स्वामीका कर्तृत्व भी उक्त
द्वोषके विषयमें आचार्यपरम्परासे प्रसिद्ध है । दोनों ओर क्या समानरूपसे
इसके कर्तृत्वविषयमें सुप्रसिद्ध हैं? यदि यह कहा जाय कि सीमधर स्वामीने
चूँकि पात्रकेसरीके लिये इसकी सृष्टि की है इसनिये यह पात्रकेसरिकृत है तब
तो सर्वेशास्त्रसमूह तीर्थकरके द्वारा अविषेय छहरेणा और इसलिये यह कहना
होगा कि वह विषयोका किया हुआ ही है, तीर्थकरकृत नहीं है । ऐसी हालतमें
पात्रकेसरीका कर्तृत्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने दूसरोंके लिये इसकी रचना
की । और इसी तरह दूसरोंने और दूसरोंके लिये रचना की, तब किसीका भी

कर्तुं स्व इस विषयमें नहीं छहरेगा। इससे तदृष्टियक प्रभावकी उचित कारण यह पात्रकेमरिकृत है, इसपर मूलसूत्रकारने—शीघ्रकल कदेवने—विचार किया है और इसलिये (वास्तवमें तो) पूर्ण रूपसे साक्षात् करके उपदेश देनेवाले तीर्थकर भगवानका ही यह हेतु निश्चित होता है और यही अमलालीढ़त्वमें कारण कहा गया है।'

इस पुरातन-चर्चा परसे कई बातें स्पष्ट जानी जाती हैं—एक तो यह कि अनन्तवीर्य आचार्यके समयमें पात्रकेसरी स्वामी एक बहुत प्राचीन आचार्य समझे जाते थे, इतने प्राचीन कि उनकी कथा आचार्य-परम्पराकी कथा होगई थी, दूसरे यह कि, 'विलक्षणकदर्थन' नामका उनका कोई ग्रन्थ बहुर था, तीसरे यह कि, 'अन्यथानुपस्थित्व' नामके उक्त इलोकको पात्रकेसरीकी कृति समझने—बाले तथा सीमधरस्वामीकी कृति बतलानेवाले दोनों ही उस समय मौजूद थे और जो सीमधरस्वामीकी कृति बतलाते थे वे भी उसका अवतार पात्रकेसरीके लिये समझते थे, चौथे यह कि मूलसूत्रकार शीघ्रकलकदेवके सामन भी पात्र-केसरिविषयक यह सब लोकस्थिरत मौजूद थी और उन्होंने उसपर विचार किया था और उस विचारका ही यह परिणाम है जो उन्होंने सीमधर या पात्रकेसरी दोनोंमें विस्ती एक का नाम न देकर दोनोंके लिये समानरूपसे व्यवहृत होने—बाले स्वामिन्' शब्दका प्रयोग किया है। ऐसी हालतमें पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे भिन्न व्यक्ति थे और वे उनमें बहुत पहले हो गए हैं इस विषयमें सन्देहको कोई अवकाश नहीं रहता; बल्कि साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि पात्रकेसरी उन अकलकदेवसे भी पहले हुए हैं जिनकी अष्टशतीको लेकर विद्यानन्दने अष्टसहस्री लिखी है।

(८) बेलूर तालुकेके शिलालेख न० १७ में भी पात्रकेसरीका उल्लेख है। यह शिलालेख रामानुजाचार्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरके छानके एक पत्थरपर उक्तीर्ण है और शक सवत् १०५६ का लिखा हुआ है ॥। इसमें समन्तभद्रस्वामीके बाद पात्रकेसरीका होना लिखा है और उन्हे समन्तभद्र-के द्रमिलसंघका अवसर सूचित किया है। साथ ही, यह प्रकट किया है कि पात्र-

देखो, 'ऐप्रेसिका कोर्टाइका' जिन्हें ५ भागे १८।

केषुरीके बाद कमश वक्तव्यीय, वज्रनन्दी, सुमति भट्टारक (वेद) और समय-
शीपक अकलक नामके प्रशान आचार्य हुए हैं । यथा—

“तत् ... थेर्थम् सहस्रगुण माडि समन्तभूस्थानिगतु सन्दर
अवरि बलिक तदीय श्रीमद्भूमिलसंघाप्रेसरर् अप्पात्रकेसरि-स्थामि
गलि वक्तव्यीवाभि रिन्द्र अनन्तर ।

यस्य दि न् कीर्तिस्त्रैलोक्यमध्यगात् ।

येव भात्येको वज्रनन्दी गुणाप्रणीः ॥

अवरि बलिक सुमति-भट्टारक अवरि बलिक समयदीपक
रम् उमीलित-दोष-क रजनीचर बल उद्धोधित भन्धकमलम्
आयन् ऊर्जितम् अकलक प्रमाण-तपन स्फु ॥

इससे पात्रकेसरीकी प्राचीनताका कितना ही पता चलता है और इस
बातका और भी समर्थन होता है कि वे अकलकदेवसे पहले ही नहीं किन्तु
बहुत पहले हुए हैं । अकलकदेव विक्रमकी ७वी-८वी शताब्दीके विद्वान् हैं, वे
औद्धताकिंक 'धर्मकीर्ति और सीमासक विद्वान् कुमारिल'के प्राय समकालीन
ये और विक्रम सवत् ७०० मे आपका बौद्धोक साथ महान् बाद हुया था,
जिसका उल्लेख 'अकलकचरित के निम्न वाक्यम पाया जाता है—

विक्रमाक शकाढोय शतसम-प्रमाणुषि ।

कालुकलु यतिना बोद्धैर्वादा महानभूत् ॥

और वज्रनन्दी विक्रमकी छठी शताब्दीमे हुए हैं । उन्होन विद्वन् स० ५२६मे
'द्वाविह सघवी स्थापना की है, ऐसा देवतनके 'दशनसार' ग्रन्थमे जाना
जाता है । इसे पात्रकेसरीका समय छठी शताब्दीसे पहले पाँचवी या चौथी
शताब्दीके करीब जान पड़ता है, जब कि विद्यानन्दका समय प्राय ६ वी
शताब्दीका हा है ।

अत इस सपूर्ण परीक्षण, विवेचन और स्पष्टीकरण परमे यह बिल्कुल स्पष्ट
हो जाता है कि स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द दा भिन्न आचार्य हुए हैं—
दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, ग्रन्थसमूह भिन्न है और समय भी भिन्न है, और इसलिये

‘सम्यक्त्वप्रकाश’ के लेखकने यदि बोलोको एक लिख दिया है तो वह उसकी स्पष्ट मूल है। पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे कई शताब्दी पहले हुए हैं। वे आहुणाकुलमें उत्पन्न हुए थे ।, राज्यमें किसी अच्छे पद पर प्रवृत्तिहुत थे और एक बहुत बड़े अर्जन विद्वान् थे । स्वामी समन्तभद्रके देवागम^१ स्तोत्रको सुनकर आपकी श्रद्धा पलट गई थी, आप जैनधर्ममें दीक्षित हो गये थे और राज-सेवाको भी छोड़ कर जैनमुनि बन गये थे । आपका आचार पवित्र और ज्ञान निर्मल था । इसीसे भगवज्ज्वनसेनाचाय जैसे आचार्योंने आपकी स्तुति की है और आपके प्रतिनिर्मल गुणोंके विद्वानोंके हृदय पर हारकी तरह-से आरूढ़ बतलाया है । आपने नहीं मालूम और किसने प्रन्थोंकी रचना की है । पात्रकेसरिस्तोत्र आदि परसे आपके यथ बड़े महत्वके मालूम होते हैं । उनका पठन-पाठन उठ जानेसे ही वे लुप्त हो गये हैं । उनकी जरूर खोज होनी चाहिए । ‘विलक्षणकदर्शन’ यथ ११वीं शताब्दीमें मौजूद था, खोज करने पर वह जैनभद्रारोंसे नहीं तो बौद्धशास्त्रभद्रारोंसे—तिष्ठत, चीन, जापान, लकादिके बौद्धबिहारोंसे—अबवा पवित्रमी लायब्रेरियोंसे जरूर मिल जायगा । जैन समाजमें अपने प्राचीन साहित्यके उद्घारका कुछ भी उत्सेलनीय प्रयत्न नहीं हो रहा है—खाली जिनवाणीकी भक्तिके रीते-फौंके शीत गाए जाते हैं—और इसीसे जैनियोंका सारा इतिहास अधिकारमें पड़ा हुआ है । और उसके विषयमें संकेडो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं । जिनके हृदय पर राहित्य और इतिहासकी इस दुष्काशाको देख सुनकर चोट पहुँचती है और जो जिनवाणीके सच्चे भक्त, पूर्वाचार्योंके सच्चे उपासक अबवा समाजके सच्चे शुभचिन्तक है उनका इस समय यह खास कर्तव्य है कि वे साहित्य और इतिहास दोनोंके उद्धारके लिये खास तौरसे अप्रसर हो, उद्घार-कायको अवधि-यत स्तरमें चलाएं और उसमें सहायता पहुँचानेके लिये अपनी शक्तिभर कोई भी बात उठा न रखें ।

^१ पात्रकेसरीकी कथाके अतिरिक्त विद्यानश्विकृत^२ सुदृशनचरित्र^३ के निम्न वाक्यसे भी वह मालूम होता है कि पात्रकेसरी आहुणाकुलमें उत्पन्न हुए थे—
विश्वशाश्रणीः सूर्दिः पवित्रः पात्रकेसरी । स्वीयाज्ञिनपदाम्भसेष्वैकम्युवतः ॥२

(द्वितीय लेख)

ज्ञानेकानन्दके प्रबन्ध बर्चकी द्वितीय किरणमें १६ विसंवर सन् १९२६ को जैन 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामका एक लेख लिखा था, जिसमें पात्र-केसरी और विद्यानन्दकी एकता-विषयक उस भ्रमको दूर करनेका प्रयत्न किया गया था जो विद्वानोंमें उस समय फैला हुआ था और उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि स्वामी-पात्रकेसरी और विद्यानन्द दो मिथ्या आचार्य हुए हैं—दोनोंका व्यक्तित्व मिथ्या है, प्राच्यसमूह मिथ्या है और समय भी मिथ्या है। पात्रकेसरी विकल्पकी उच्ची शताब्दीके विद्वान् आचार्य अकलसङ्कृदेवसे भी पहले हुए हैं—अकलके ग्रन्थोंमें उनके बाक्यादिका उल्लेख है—और उनके तथा विद्यानन्दके ग्रन्थमें कई शताब्दियोंका अन्तर है। हर्षका विषय है कि मेरा वह लेख विद्वानोंको प्रसन्न आया और उसे बराबर विद्वानोंका उक्त भ्रम दूर होता चला जा रहा है। अनेक विद्वान् मेरे उस लेखको प्रमाणमें पेश करते हुए भी देखे जाते हैं कि ।

मेरे उस लेखमें दोनोंकी एकता-विषयक जिन पाँच प्रमाणोंकी जांच की गई थी और जिन्हे निःसार व्यक्त किया गया था उनमें एक प्रमाण 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थका भी निम्न प्रकार था—

"सम्यक्त्वप्रकाश नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि—

'तथा इलोकवार्तिके विद्यानन्दिक्षपरनामपात्रकेसरिस्वामिना यदुकं तत्त्वं त्रिस्तुयते—'तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनं । न तु सम्यग्दर्शनशब्द-निर्वचनसामर्थ्यादेव सम्यग्दर्शनस्वरूपनिख्यादशोशतद्विप्रतिपत्तिनिष्ठृतेः सिद्धत्वात्तदर्थे_ तत्त्वात्तदर्थे न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाक-रोति ।'

इसमें इलोकवार्तिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्रकेसरी बताया है ।"

यह प्रमाण सबसे पहले डाक्टर के० बी० पाठकने ग्रन्थे 'भर्तु हरि और

६ हालमें प्रकाशित 'न्यायकुमुख्यवन्दन'में ५० कैलाल्लवन्दशास्त्री भी लिखते हैं—“इस ग्रन्थकाहीनीकी दूर करनेके लिये, अनेकान्त वर्ष १९०७३ वर मुद्रितीं 'स्वामीपात्रकेसरी और विद्यानन्द' शीर्षक निर्णय देखना चाहिये”

‘कुमारित’ नामके उस लेखमे उपस्थित किया था जो सत् १८९२मे रायल एंजिनियरिंग सोसाइटी बम्हि बाबके जनल (J. B.-B. R. A. S. For 1892 PP 222,223)मे प्रकाशित हुआ था। इसके साथमे दो प्रमाण और भी उपस्थित किये थे—एक आदिपुराणकी टिप्पणीकाला और दूसरा ज्ञान-सूर्योदय नाटकमें ‘भ्रष्टशती’ नामक खोपात्रसे पुश्वके प्रति कहलाये हुए बाब्यनाला, जो मेरे उक्त लेखमे क्रमशः न० २, ४ पर दर्शन है। डा० शतीहचन्द्र विद्यामूर्खराने, अपनी इण्डियन लॉजिककी हिस्ट्रीमे, के० बी० पाठकके दूसरे दो प्रमाणोंकी अवगणना करते हुए और उन्हे कोई महत्त्व न देते हुए, सम्यक्त्व-प्रकाशवाले प्रमाणोंको ही पाठकजीके उक्त लेखके हावालेसे अपनाया था और उसीके आधारपर, बिना किसी विशेष ऊहापोहके, पाठकेसरी और विद्यानन्दको एक व्यक्ति प्रतिपादित किया था। और इसलिये ब्रह्मनिदित्तके कथाकोश तथा द्वृमचावाले शिलालेखके शोष दो प्रमाणोंको, पाठक महाशयक न समझकर तात्पा नेमिनाथ पांगलके समझने चाहिय, जिन्हे प०नाष्टुरामजी प्रेमीने अपने ‘स्पाद्धाद-विद्यापति विद्यानन्द’ नामक उस लेखमे अपनाया था जिसकी मैंने अपने उस लेखमे आलाचना की थी। भस्तु ।

उक्त लेख लिखते समय मेरे सामने ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ भूम्य नहीं था—प्रयत्न करनेवर भी मैं उसे उस समय तक प्राप्त नहीं कर सका था—और इसलिये दूसरे सब प्रमाणोंकी आलोचना करके उन्हे नि सार प्रतिपादित करनेके बाद मैंने सम्यक्त्वप्रकाशके “श्लोकवार्तिके विद्यानन्दअष्टमामध्यप्रकाशकेसरिस्वामिना यदुक्त तच्च लिख्यते” इस प्रस्तावना-बाब्यनीकी जागरूकी घरसे इतना ही अनुमतन किया था कि वह ग्रन्थ बहुत कुछ आधुनिक ज्ञान प्रदाता है, और दूसरे स्पष्ट प्रमाणोंकी रोशनीमे यह स्थिर किया था कि “सुसके लेखकको दोनों आचार्योंकी एकत्रके प्रतिपादन क्रममे जरूर अम हुआ है अथवा वह उसके समझने की किसी शलतीका परिणाम है ।” कुछ घरसे बाद मिश्रवर प्रोफेसर ए० ए० उपाध्यायजी कोल्हापुरके सत्प्रयत्नसे ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ की बाँ है न० ७७७ की पूनावाली भूले प्रति ही मुझे लेखनके लिये मिल आई, जिसका पाठक ऐहायोथने अपने उसे तन् १८९२ श्रोते लेखमे उल्लेख किया था । [इसके लिये उपाध्यायजीका खाप तौरसे आमारी है और वे विश्वर्व अध्यवादके प्रियजन हैं ।]

ग्रन्थप्रतिको लिखने और परीक्षा करनेसे मुझे मालूम हो गया कि इस ग्रन्थके सम्बन्धमें जो आनुभाव किया गया था वह बिल्कुल ठीक है—यह ग्रन्थ आनुभावसे भी कहीं भ्रष्टिक आधुनिक है और उरा भी प्रभालामें पेश किये जानेके योग्य नहीं है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये आज मैं इस ग्रन्थकी परीक्षा एवं परिचयको अपने पाठकोंके सामने रखता हूँ।

सम्प्रक्षणप्रकाश-परीक्षा—

यह ग्रन्थ एक छोटासा संग्रह ग्रन्थ है, जिसकी पत्र-संख्या ३७ है—३७वें पत्रका कुछ पहला पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ पूरा खाली है—और जो प्रायः प्रत्येक पृ० पर ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पत्रिके ४५ के नीचे अक्षरोंको लिखे हुए हैं। ग्रन्थ-पर लेखक अथवा संघकारको कोई नाम नहीं है और न लिखनेका कोई सन्-संबंधादिक ही दिया है। परन्तु ग्रन्थ प्रायः उसीका लिखा हुआ अथवा लिखाया हुआ जान पड़ता है जिसने संग्रह किया है और ६०-७० वर्षोंसे अधिक समय पहलेका लिखा हुआ मालूम नहीं होना। लायब्रेरीके चिटपर Comes From Sura॑t शब्दोंके द्वारा सूरतसे आया हुआ लिखा है और इसने दक्षनकालिज-लायब्रेरीके सन् १८७५-७६ के संग्रहमें स्थान पाया है।

इसमें मंगलाचरणादि-विषयक पदोंके बाद “तत्वार्थशब्दानं सम्पदशंनं-भित्तिसूत्र ॥१॥” ऐसा लिखकर इस मुत्रकी व्याख्यादिके रूपमें सम्पदशंनके विषयेपर क्रमशः सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक, इलोकवार्तिक, दर्शनपाहुड, सूत्रपाहुड, चारित्रपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, पंचास्तिकाय, समयसार और बृहत् आदि-पुराणके कुछ वाक्योंका संग्रह किया गया है। वार्तिकोंको उनके भाष्यसहित, दर्शनपाहुडकी सम्पूर्ण ३६ गाथाओंको (जिनमें मंगलाचरणकी गोष्ठी भी शामिल है!) उनकी आया सहित, शेष पाहुडोंकी कुछ कुछ गाथाओंको आया सहित, पंचास्तिकाय और समयसारकी कठिपय गाथाओंको आया तथा अमूचन्द्राचार्यकी टीकासहित उद्घृत किया गया है। इन ग्रन्थ-वाक्योंको उद्घृत करते हुए जो प्रस्तावनावाक्य लिये गये हैं और उद्घरणके अनन्तर जो समाप्तिमूलक वाक्य दिये हैं उन्हें तथा अमूचन्द्राचरणादिके ३-४ पदोंको छोड़कर इस ग्रन्थमें इन्ध-कारक अपना और कुछ भी नहीं है।

मन्यकारकी इस निजी पूँजी और उसके उद्घृत करनेके ढंग आदिको देखनेसे सीधी मालूम होता है कि वह एक बहुत थोड़ी सी समझ-बूझका साधारण आदमी था, संस्कृतादिका उसे यथेष्ट बोध नहीं था और न ब्रह्म-रचनाकी कोई ठीक कला ही वह जानता था। तब नहीं मालूम किस प्रकारकी बासना अथवा प्रेरणासे प्रेरित होकर वह इस मन्यके लिखनेमें प्रवृत्त हुआ है !! यस्तु; पाठकोंको इस विषयका स्पष्ट अनुभव करानेके लिये मन्यकारकी इस निजी पूँजी आदिको कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है—

(१) मन्यका मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञावाक्योंको लिये हुए प्रारंभिक अंश इस प्रकार है—

“ॐः सिद्धेभ्यः ॥ अथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते ॥

प्रणम्य परमं देवं परमानन्दविधायकं ।

सम्यक्त्वलक्षणं वच्ये पूर्वाचार्यकृतं शुभम् ॥१॥

मोहमार्गे जिनैरुक्तं प्रथमं दर्शनं हितं ।

तद्विना सर्वधर्मेषु चरितं निष्फलं भवेत् ॥२॥

तस्मादर्शनशुद्धचर्थं लक्ष्यलक्षणसंयुतं ।

सम्यक्त्वप्रकाशकं प्रथं करोमि हितकारकम् ॥३॥ युम्मम् ॥

सद्वार्थाधिगमे सुत्रे पूर्वं दर्शनलक्षणं ।

मोहमार्गे समुहिष्टं तदहं चात्र लिख्यते ॥४॥”

न० ३ के इलोकको अंक तीनतक काली स्याहीसे काट रखा है परन्तु ‘युम्मम्’ को नहीं काटा है ! ‘युम्मम्’ पदका प्रयोग पहले ही व्यर्थ-सा था तीसरे इलोकके निकल जानेपर वह और भी व्यर्थ हो गया है; क्योंकि प्रथम दो इलोकों-के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं बैठता, वे दोनों अपने अपने विषयमें स्वतंत्र हैं—दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं बनाते—इसलिये ‘युम्मम्’ का यहाँ न काटा जाना चिन्तनीय है ! हो सकता है ग्रन्थकारको किसी तरह पर तीसरा इलोक अशुद्ध जान पड़ा हो, जो बास्तवमें अशुद्ध है भी; क्योंकि उसके तीसरे चरण-में दकी जगह ह अक्षर है और पञ्चवाँ अक्षर लघु न होकर गुह पड़ा है जो छंदकी हष्टिसे ठीक नहीं; और इस लिये उसने इसे निकालन दिया हो और ‘युम्मम्’ पद का निकालना वह भूल गया हो ! यह भी संभव है कि एवह

जैनशायके कई प्रतिज्ञावाक्य हों जग्नेके कारण फ़ूं उसे इस श्लोकका रखना उचित न जैवा हो, वह इसके स्वानपर कोई दूसरा ही श्लोक रखना चाहता हो और इसीसे उसने 'धूर्घमम्' तथा चौथे श्लोकके अक '४' के काव्यम् रखकर हो, परन्तु बादकी किसी परिस्थितिके कारण पहकर वह उस श्लोकको बना न सका हो । परन्तु तुच्छ भी हो, ग्रन्थकी इस स्थितिपरसे इतनी सूचना। खरुर मिलती है कि यह धैर्यत्रिन स्थय ग्रन्थकारकी लिखी हुई प्रबन्धा लिखाई हुई है ।

'अथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते' इस वाक्यमें 'सम्यक्त्वप्रकाश' विभक्ति-से शून्य प्रयुक्त हुआ है जो एक मोटी व्याकरण-सम्बन्धी अज्ञुदि है । कहा जा सकता है कि यह कापी किसी दूसरेन लिखी होगी और वही सम्यक्त्व-प्रकाशके आगे विसर्णी(, लगाना भूल गया होगा । परन्तु जब आगे रचना-सम्बन्धी अनेक मोटी मोटी अज्ञुदियोको देखा जाता है तब यह कहनेका साहस नहीं होता । चेदाहरणके लिये चौथे श्लोकमें प्रयुक्त हुए 'तदह चात्र लिख्यते' वाक्यको ही लीजिए, जो ग्रन्थकारकी अच्छी खासी अज्ञताका द्योतक है और इस वातको स्पष्ट बतला रहा है कि उसका सर्कृत व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान कितना तुच्छ था । इस वाक्यका अर्थ होता है 'वह (दर्शनलक्षण) में यहा लिखा जाता है' जब कि होना चाहिये था यह कि 'वह दर्शनलक्षण मेरे द्वारा यहाँ लिखा जाता है' भूमध्या 'मैं उसे यहाँ लिखता हूँ । और इसलिये यह वाक्य-प्रयोग बेहूदा जान पड़ता है । इसमें 'तदह की जगह 'तन्मया' होना चाहिये था—'अह' के साथ 'लिख्यते' का प्रयोग नहीं बनता, 'लिखामि' का प्रयोग बन सकता है । जान पड़ता है ग्रन्थकार लिख्यते और 'लिखामि' के भेदको भी ठीक नहीं समझता था ।

(२) इसी प्रकारकी अज्ञता और बेहूदगी उसके निम्न प्रस्तावनावाक्यसे भी पाई जाती है, जो 'तश्वार्थ-अद्वान सम्यग्दर्शन' सूत्र पर श्लोकवातिके २१ वातिकोको माव्यसहित उद्धृत करनेके बाद 'इति श्लोकवातिके ॥३॥'

फ़ूं के प्रतिज्ञा-वाक्य इस प्रकार है—१ सम्यक्त्वलक्षण वल्ये, २ सम्यक्त्व-प्रकाशक ग्रन्थ करोमि, ३ तदह चात्र लिख्यते ।

“अथ अष्टपाहुदमध्ये देशोनपाहुडे कुण्डकुण्डस्वामिना सम्बवत्वहर्षं प्रतिपादयति ॥”

इसमें तृतीयान्त 'स्वामिना' पदके साथ 'प्रतिपादयति' का प्रयोग नहीं बनता—वह व्याकरणकी हितिसे महा अशुद्ध है—उसका प्रयोग प्रथमान्ते 'स्वामी' पदके साथ लोना चाहिये था ।

यही पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि दर्शनपाहुडकी पूरी शै गाथाओंको छायासहित + उद्घृत करते हुए, २६ की गाथाके स्वान पर उस की छाया और छाकाके स्थान पर गाथां उद्घृत की गई है । और पौँछबीं गाथाकी छायाके धन्तर अस्मिन् ढौंण शब्द उत्पाकुते अव्यय वाक्यर्थालकारार्थं वर्तते’ यह किसी टीकाका फल भी यो ही उद्घृत कर दिया गया है जब कि दूसरी गाथाओंके साथ उनकी टीकाका कोई फल नहीं है । मोक्षपाहुडकी चार गाथाओंको छायासहित उद्घृत करनेके बाद “इति मोक्षपाहुडे” लिखकर मोक्षपाहुडके कथनको समाप्त किया गया है । इसके बाद ग्रन्थकारको फिर कुछ छायाल धाया और उसने ‘तथा’ शब्द लिखकर ६ गाथाएँ और भी छायासहित उद्घृत की हैं और उनके धन्तर ‘इति मोक्षपाहुडे’ यह समाप्तिसूचक वाक्य पुन दिया है । इससे ग्रन्थकारके उद्घृत करनेके दोग और उसकी असाक्षात्तानीका कितना ही बता चलता है ।

(३) अब उद्घृत करनेमें उसकी अभज्ञान सम्बन्धी विषयता और समझनेके भी कुछ नमूने लीजिए ।

(क) इसोक्वातिकमें द्वितीय सूत्रके प्रथम दो वातिकोका जो भाव्य दिया हैं उसका एक अङ्क इस प्रकार है—

“न अनेकाश्वत्वाद्वातुना दृशे अद्वानार्थत्वगते । कथमनेकस्मिन्नर्थं सम्बवत्यपि अद्वान्द्वर्थस्यैव गतिरिति चेत्, प्रकरणविशेषात् । मोक्षकारणत्वं हि प्रकृत तत्त्वार्थमद्वानस्य युद्यते नालोचनादेरर्थातस्य ।”

ग्रन्थकारने, उक्त वातिकोके भाव्यको उद्घृत करते हुए, इस प्रकारो निम्न

+ छाया प्राय श्रुतसामरकी छायासे मिलती-जुलती है—कहीं-कहीं सापारणका कुछ नेव है ।

प्रकारम उद्भूत किया है, जो अर्थके सम्बन्धादिकी दृष्टिसे बड़ा ही बेंगा जान पड़ता है—

“नानेकार्थत्वाद्वातुना दशो अद्वानार्थभद्रानस्य युत्पद्वते नालोचना-
देरर्थात्तरस्य ।”

हो सकता है कि जिस ग्रन्थप्रतिपरसे उद्धरण-कार्य किया गया हो उसमें लेखककी असाधारणीमें यह अर्थ इसी अचुद रूपमें लिखा हो; परन्तु फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि सग्रहकारमें इतनी भी योग्यता नहीं थी कि वह ऐसे वाक्यके अध्युरेपन और बेंगेपनको समझ सके। होती तो वह उक्त वाक्यको इस रूपमें कर्दापि उद्भूत न करता ।

(ब) श्रीजिनसेन-प्रणीत आदिपुराणका एक इलोक इस प्रकार है—

शमादृशनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादित ।

अन्तोरनादिमिथ्यात्वकलकक्षिलात्मन ॥११७॥

इसमें अनादि-मिथ्यादृष्टिके प्रथम सम्यक्त्वका प्रहरण दर्शनमोहके उप-कामसे बतलाया है। ‘सम्यक्त्वप्रकाश’में, इसइलोकको आदिपुराणके दूसरे इलोकोके साथ उद्भूत करते हुए, इसके ‘शमादृदर्शनमोहस्य’ चरणके स्थानपर ‘सम्यक्त्वदर्शनमाहस्य’ पाठ दिया है, जिससे उक्त इलोक बेंगेगा तथा दे-मानीसा होगया है और इस बातको सूचित करता है कि सग्रहकार उसके इस बेंगेपन तथा दे-मानीपनको ठीक समझ नहीं सका है ।

(ग) अथमे “इति मोक्षपाहुडे ॥” के बाद “अथ पचास्तिकायनाम-
प्रथे कुन्दकुन्दाचार्य (?) मोक्षमार्ग-प्रपचसूचिका चूलिका वर्णिता सा
लिख्यते ।” इस प्रस्तावना-वाक्यके साथ पचास्तिकायकी १६ गायाएँ सस्कृत-
गाया तथा टीकासहित उद्भूत की हैं और उनपर गाया नम्बर १६२ से १७८
तक डाले हैं, जब कि वे १८० तक होन चाहिये थे। १७१ और १७२ नम्बर
दोबार गलतीसे पढ़ गये हैं अथवा जिस ग्रन्थप्रतिपरसे नकल की गई है उसमें
ऐसे ही गलत नम्बर पढ़े होगे और सग्रहकार ऐसी मोटी गलतीको भी ‘नकलराचे
-घ्राकल’की लोकोत्तिके अनुसार महसूस नहो कर सका । अस्तु, इन गायाओं
मेंसे १६८, १६९ नम्बरकी दो गायाओंको छोड़ कर लेष गायाएँ वे ही हैं जो
बन्वई रायचन्द्र जैनशास्त्रमालामें दो सस्कृत टीकाओं और एक हिन्दी टीकाके

साथ प्रकाशित 'पंचास्तिकाद' में क्रमशः न० १५४ से १७० तक पाई जाती है। १६८ और १६९ नम्बरवाली गाथाएँ वास्तवमें पञ्चास्तिकायक 'नवपदार्थविकार' की गाथाएँ हैं और उसमें नम्बर १०६, १०७ पर इज है। उन्हे 'मोक्षमागप्रपञ्चसूचिका चुलिका' अधिकारकी बताना सरासर गलती है। परन्तु इन गलतीयों तथा नाममिक्रियों को छोड़िये और इन दोनों गाथाओंकी टीकापर ध्यान दीजिये। १६९ (१०७) नम्बरवाली 'सम्मत सहहरणो' गाथा टीकामें तो "सुगम" लिख दिया है जब कि अमृतचन्द्र-चायन उसकी बड़ी अच्छी टीका दे रखती है और उसे 'सुगम' पढ़के योग्य नहीं समझा है। और १६८ (१०६) नम्बरवाली गाथाकी जो टीका दी है वह गाथा सहित इस प्रकार है—

सम्मत गणणजुद चारित्त रागदोसपरिहीण ।

मोक्षस्स हवदि ममो भव्याण लद्धुदीदरण ॥

टीका—"पूर्वमुहिष्ट तत्स्वपरप्रत्ययपर्यायान्वित भिन्नसाध्यसाधन-भाव व्यवहारनयमान्वित्य प्रस्तुपितम् । न चैतद्विप्रतिषिद्ध निश्चयव्यवहार-यो साध्यसाधनभावत्वात् सुवर्णं सुवर्णं पाषाणवत् । अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनेति ॥'

यह टीका उक्त गाथाकी टीका नहीं है और न हो सकती है, इसे घोड़ी भी समझूँक तथा सस्कृतका ज्ञान रखनवाला व्यक्ति समझ सकता है। तब ये महत्वकी असम्बद्ध पक्षियाँ यहाँ कहांसे आई? इस रहस्यको जाननके लिये पाठक जहर उत्सुक होंगे अत उसे नीचे प्रकट किया जाता है—

श्रीममृतचन्द्राचायन 'चरिय चरदि सग सा०' इस गाथा न० १५६ की टीकाके अनन्तर अगली गाथाकी प्रस्तावनाको स्पष्ट करनके लिये 'चतु' शब्द से प्रारम्भ करके उक्त टीकाकित सब पत्तिय दी है, तदनन्तर निश्चयमोक्ष-मागसाधनभावेन पूर्वोहिष्टव्यवहारमोक्षमार्गोऽयम् इस प्रस्तावनावाक्यके

† देखो, बम्बईकी वि० तवत् १६७२की छपी हुई उक्त प्रति पृष्ठ १६८, १६९

† बम्बईकी पूर्वोल्लखित प्रतिमें प्रथम चरणका रूप ममतनरणाणजुत ' दिया है और सस्कृत टीकाएँ भी उसीके अनुरूप पाई जाती हैं।

साथ आगली, गाथा नं० १६० दी है, और इस दृश्य उक्त पंक्तियोंके द्वारा पूर्वों-
द्वितीय—पूर्ववर्ती नवपदार्थाविकारमें ‘सम्मत’ आदि दो गाथाओंके द्वारा कहे हुए
—व्यवहारमोक्षमार्गकी पर्यायित्विको स्पष्ट करते हुए उसे सर्वथा विषिद्ध नहीं
ठहराया है; बल्कि निश्चय-व्यवहारनमें साध्य-साधन-भावको व्यक्त करते हुए
दोनों नयोंके आश्रित पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनाका होना स्थिर किया है। इससे
उक्त पंक्तियाँ दूसरी गाथाके साथ सम्बन्ध रखती हैं और वही पर मुसंगत है।
सम्यक्त्वप्रकाशके विचाराने “‘यत्तु’” शब्दको तो उक्त गाथा १५६ (१६७)
की टीकाके अन्तमें रहने दिया है, जो उक्त पंक्तियोंके दिना वहाँ संहुरासा जान
पड़ता है ! और उन पंक्तियोंको वों ही बीचमें घुसेड़ी हुई अपनी उक्त गाथा नं०
१६८ (१०६) की टीकाके रूपमें घर दिया है !! ऐसा करते हुए उसे यह समझ
ही नहीं पड़ा कि इसमें आए हुए “‘पूर्वमुद्दिष्ट’” पदोंका सम्बन्ध पहलेके कौनसे
कथनके साथ लगाया जायगा !! और न यह ही जान पड़ा कि इन पंक्तियोंका
इस गाथाकी टीका तथा विषयके साथ क्या बास्ता है !!!

इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकारको उद्धृत करनेकी भी कोई अच्छी
तमीज नहीं थी और वह विषयको ठीक नहीं समझना था ।

(ब) पंचास्तिकायकी उक्त गाथाओं आदिको उद्धृत करनेके बाद “‘इति
पंचास्तिकायेषु’” (!) यह समाप्तिसूचक वाक्य दक्षर ग्रन्थमें “‘अथ समय-
सारे यदुर्क्त तल्लिख्यते’” हुस प्रस्तावना अथवा प्रतिज्ञा-वाक्यके साथ समय-
सारकी ११ गाथाएँ” नं० २२८ से २३८ तक, संस्कृताङ्गाया और असूतचन्द्रा-
चार्यकी आत्मरूपाति टीकाके साथ, उद्धृत की गई है। ये गाथाएँ वे ही हैं
जो रायचन्द्रजैन ग्रंथमालामें प्रकाशित समयसारमें क्रमाः नं० २२६ से २३६
तक पाई जाती हैं। आत्मरूपातिमें २२४ से २२७ तक बार गाथाओंकी टीका
एक साथ दी है और उसके बाद कलशरूपसे दो पदा दिये हैं। सम्यक्त्वप्रकाश-
के लेखकने इनमेंसे प्रथम दो गाथाओंको तो उद्धृत ही नहीं किया, दूसरी दो
गाथाओंको अलग अलग उद्धृत किया है, और ऐसा करते हुए गाथा नं०
२२८ (२२६) के नीचे वह सब टीका दे दी है जो २२८, २२९ (२२६,
२२७) दोनों गाथाओंकी थी ! साथमें “‘त्वक्तु’ येन फलं” नामका एक
कलशपद्म भी दे दिया है और दूसरे “‘सुस्वगृष्टय एव’” नामके कलशपद्मको

दूसरी गाथा न०२२६ (२२७) की टीका के रूप में इस दिया है ॥ इस विषयनासे गम्यकारकी महामूर्खता पाई जाती है और इस कहनेमें बरा भी सकोच नहीं होता कि वह कोई पागल-सा सनकी मनुष्य था, उसे अपने धरकी कुछ भी समझ-बूझ नहीं थी और न इस बातका ही पता था कि प्रवरचना किसे कहते हैं ।

इस तरह सम्यक्क्षेपकाश ग्रथ एक बहुत ही आधुनिक तथा अप्रामाणिक ग्रन्थ है । उसमें पात्रकेसरी तथा विद्यानन्दको जो एक व्यक्ति प्रकट किया गया है वह यो ही सुना-सुनाया आश्वाया किसी दन्तकथाके आधार पर अवलम्बित है । और इसलिये उसे रचमात्र भी कोई महत्व नहीं दिया जा सकता और न किसी अमाणमें पेश ही किया जासकता है । सेव है कि डाक्टर के० बी० पाठकने विद्या जीव-पठातके ही ऐसे आधुनिक, अप्रामाणिक तथा नगर्य ग्रन्थको प्रमाणमें पेश करके लोकमें भारी भ्रमका सर्जन किया है ॥ यह उनकी उस भारी असाव-धानीका ज्वलन्त हृष्टान्त है, जो उनके पदको शोभा नहीं देता । बास्तवमें पाठक-महाक्षयके जिस एक अमने बहुतसे भ्रमोको जन्म दिया—बहुतोंको भूलके चक्कर-में डाला, जो उनकी अनेक भूलोंका आधार-स्तम्भ है और जिसने उनके अकल-कादि-विषयक दूसरे भी कितवे ही निरांयोंको सदोष बनाया है वह उनका स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्दको, विना किसी गहरे अनुसन्धानके, एक मात्र लेना है ।

मुझे यह देखकर कुछ होता है कि आज डाक्टर साहब इस समाजमें भौजूद नहीं हैं । यदि होते तो वे जरूर अपने भ्रमका सकोचन कर डालते और अपने निरांयको बदल देते । मैंने अपने पूर्वलेखकी कापी उनके पास भिजवादी थी । सम्भवतः वह उन्हे उनकी रस्तावस्थामें भिली थी और इसीसे उन्हे उम पर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर नहीं मिल सका था ।



कदम्बवंशीय राजाओंके तीन दानपत्र

इस लेख-द्वारा कदम्ब-राजाओंके तीन दानपत्र पाठकोंके सामने रखे जाते हैं, जो कि ऐतिहासिकहृष्टिसे बहुत कुछ पुराने और बड़े महस्तके हैं। ये तीनों दानपत्र, कुछ प्रसारी हुआ, देवगिरि तासुका करजघी (जिंधारवाड़)का तालाब खोदते समय भिले थे और इन्हें मिस्टर काशीनाथ चिम्बक तेलग, एम० ए०, एलएल० बी० ने, रायल एशियाटिक सोसायटीकी बम्बईशाखाके जर्नल नं० ३४ की १२वीं जिल्दमें, अपने अनुसंधानोंके साथ प्रकाशित कराया था। इनमेंसे पहला पत्र (Plate) समकोण तीन पत्रों (Rectangular sheets) से, दूसरा चार पत्रोंसे और तीसरा तीन पत्रोंसे बना हुआ है। अर्थात् ये तीनों दानपत्र, जिनमें जैनसंस्थाओंको, दान दिया गया है, क्रमशः तीबिके तीन, चार और तीन पत्रोंपर खुदे हुए हैं। परन्तु प्रत्येक दानपत्रके पहले और अन्तिम पत्र-का बाहिरी भाग छाली है और भीतरी पत्र दोनों ओरसे खुदे हुए हैं। इस तरह दानपत्रोंकी पृष्ठसंरूपा क्रमशः ४, ६ और ४ है। प्रत्येक दानपत्रके पत्रोंमें एक एक मालूली छल्ला (Ring) सुराखमें होकर पड़ा हुआ है जिसके द्वारा वे पत्र नस्थी किये गये हैं। छल्लोंपर मुहर मालूम होती है, परन्तु वह अब मुश्किलसे पढ़ी जाती है। उक्त जर्नलमें इन तीनों दानपत्रोंके प्रत्येक पृष्ठका फोटो भी दिया है, और उस परमें ये पत्र गुरु-राजाओंकी लिपिमें लिखे हुए मालूम होते हैं। मिस्टर काशीनाथजी, अपने अनुसंधानविषयक नोट्समें, लिखते हैं कि ‘कृष्णवर्मा, जिसका उल्लेख यहाँ तीसरे दानपत्रमें है, वही कृष्णवर्मा मालूम होता है जिसका उल्लेख चेरा (chera) के दानपत्रोंमें पाया जाता है। क्यों-कि उन पत्रोंमें जिस प्रकार कृष्णवर्माकी महाराजा और अरबमेघका कर्ता लिखा

है उसी प्रकार उक्त तीसरे दानपत्रमें भी लिखा है। वेरा दानपत्रोंके कृष्णवर्मा-का समय इसी सन् ४६६ के लगभग निश्चित है। इसलिये वह तीसरा दान-पत्र भी उसी समयके लगभगका होना चाहिये। लेख दोनों दानपत्र इससे पहलेके हैं या पीछेके, यह पूरी तौरसे नहीं कहा जासकता। संभवतः इनका समय ईसा-की पौच्छी शताब्दीके लगभग है।” इसके सिवाय आपने अपने प्रत्युसंधानके अन्तमें ये पंक्तियाँ दी हैं:—

We may now sum up the result of our investigations. We find, then, that there were two branches of the Kadamba family, one of which may be described as Goa branch, and the other as the Vanvasi branch. It is just possible that there was some connection between the two branches, but we have not at present the materials for settling the question. We find, too, that the princes mentioned in our plates belong to the Vanvasi branch, and that there is not sufficient ground for referring them to a different division from the Vanvasi Kadambas enumerated in Sir W. Elliot's paper. We find, further, that these princes appear from their recorded grants to have been independent sovereigns, and not under subordination to the Chalukya kings, as their successors were, and that they flourished, in all probability, before the fifth century after Christ. Lastly we find that there is great reason for believing that these early Kadambas were of the Jain persuasion, as we find some of the latter Kadambas to have been from their recorded grants.

इन पंक्तियोंके द्वारा, काषीनाथजीने आपने प्रत्युसंधानका नतीजा निकाला है, और वह इस प्रकार है:—

‘हमें ऐसा निश्चित हमा है कि कदम्बवशकी दो शासाएँ थीं, जिनमें से एक को ‘शोधा’ शासा और दूसरीको ‘बनवासी’ शासा के तौर पर निरूपण किया जा सकता है। यह विकृत सम्भव है कि इन दोनों शासाओं के मरण में कुछ सम्बन्ध था, परन्तु इस समय उस विषयका निर्णय करने के लिये हमारे पास सावधी नहीं है। हमारा यह भी निश्चय है कि जिन राजाओं का हमारे इन पत्रोंमें उल्लेख है वे ‘बनवासी’ शासाएँ थे, और यह कि उन्हे सर डबल्यू एसियट्स के पत्रमें गिनाये गये बनवासी कदम्बोंसे एक भिन्न विभागमें स्थापित करनेकी कोई काफी बजह नहीं है। इसके सिवाय, हमारा निर्णय यह है कि ये राजा अपने पत्रांडू दानोंसे स्वतन्त्र सम्राट् मालूम होते हैं, न कि चालुक्य राजाओंके मातहत (भ्रष्ट-काराधीन), जैसा कि उनके उत्तराधिकारी थे। और यह कि वे, सम्पूर्ण सम्भावनाओंको ध्यानमें लेने पर भी ईसाके बाद पाचवी शताब्दीसे पहले हुए जान पड़ते हैं। अन्तमें हमारी यह तजीज है कि यहाँ इस बातके विश्वास करनेकी बहुत बड़ी बजह है कि ये प्राचीन कदम्ब जैनमतानुयायी थे, जैसा कि हम कुछ बादके कदम्बोंको उनके दानपत्रों परसे पाते हैं।’

इन तीनों दानपत्रोंकी बहुतसी शब्दरचना परस्पर कुछ ऐसी भिन्नती-कुल्हती है कि जिससे एक दूसरेको देखकर लिखा गया है, यह कहनेमें कुछ भी सकेव नहीं होता। परन्तु सबसे पहले कौनसा पत्र लिखा गया है, यह अभी निश्चित नहीं हा सका। सम्भव है कि ये पत्र इसी क्रमसे लिखे गये हो जिस क्रमसे इनपर प्रकाशनके समय नम्बर डाले गये हैं। तीनों पत्रोंमें ‘स्वामिमहासेन’ और ‘मालुगणु’ का उल्लेख पाया जाता है जिनके अनुध्यानपूर्वक कदम्ब-राजा अभिधिक होते थे। जान पड़ता है ‘स्वामिमहासेन’ कदम्बवशके कोई कुलगुरु थे। इसीसे राज्याभिषेकादिके समयमें उनका बराबर स्मरण किया जाता था। परन्तु स्वामिमहासेन कब हुए हैं और उनका विशेष परिचय क्या है, ये सब बातें अभी अधिकाराच्छब्द हैं। मालुगणुसे अभिप्राय उत्तर स्वर्गीय माताप्तोंके समूह-का मालूम होता है जिनकी मृत्यु कुछ लंबे सात, कुछ आठ और कुछ

८३ यथा—“आहु आहेवरी चैव कीवारी वैष्णवी तथा ।

माहेद्वी चैव वाराही चामु ढा सत्यमोत्तर ॥”

इससे भी अधिक मानते हैं । जान पड़ता है कदम्बवंशके राजवरानेमें इन वैदियोंकी भी बहुत बड़ी मान्यता थी । जिन कदम्ब राजाओंकी घोरसे ये दानपत्र लिखे गये हैं वे सभी 'मानवास' गोत्रके थे, ऐसा तीनों पत्रोंमें उल्लेख है । साथ ही, पहले दो पत्रोंमें उन्हें 'हारितीपुत्र'भी लिखा है । परन्तु 'हारिती'इन कदम्बवंशी राजाओंकी साक्षात् माता मालूम नहीं होती, बल्कि उनके बरानेकी कोई प्रसिद्ध और पूजनीय स्त्री जान पड़ती है जिसके पुत्रके तौरपर ये सभी कदम्ब पुकारे जाते थे, जैसा कि आजकल खुजेंके सेठोंको 'रानीबाले' कहते हैं ।

अब मैं इस समुद्घय कथनके अनन्तर प्रत्येक दानपत्रका कुछ विशद परिचय अथवा सारांश देकर मूलपत्रोंको ज्योका त्वयो उद्घृत करता हूँ ।

पत्र नम्बर १—यह पत्र 'श्रीशातिवर्मा' के पुत्र महाराज श्री 'मृगेश्वर-वर्मा' की तरफसे लिखा है, जिसे पत्रमें काकुस्था(त्स्था)न्वयी प्रकट किया है, और इससे ये कदम्बराजा, भारतके सुप्रसिद्ध वशोंकी हृषिसे, सूयवशी अथवा इक्षवाकुवशी थे, ऐसा मालूम हाता है । यह पत्र उक्त मृगेश्वरवर्माके राज्यके तीमरे वर्ष, पौष * (?) नामके सवत्सरमें, कार्तिक कृष्णा दशमीको, जब कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र था लिखा गया है । इसके द्वारा अभिषेक, उपलेपन, पूजन, भग्नसस्कार (भरम्मत) और महिमा (प्रभावना) इन कामोंके लिये कुछ भूमि, जिसका परिमाण दिया है, अरहत देवके निमित्त दान की गई है । भूमि-की तपसीलमें एक निवतनभूमि लालिस पुष्पोंके लिये निर्दिष्ट की गई है । ग्राम-का नाम कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, 'वृहत्परबूरे' ऐसा पाठ पढ़ा जाता है । अन्तमें लिखा है कि जो कोई लोभ या अधमसे इस दानका अपहरण करेगा वह पत्र महा पापोंसे युक्त होगा और जो इसकी रक्षा करेगा वह इस दानके पुण्यफलका भागी होगा । साथ ही इसके समर्थनमें चार लोक भी 'उक्त च' रूपसे दिये

"शाही माहेश्वरी बड़ी बाराही वैष्णवी तथा ।

कौमारी चैव चामुड़ा चचिकेत्यष्टमातर ॥

देखो, वामन विष्णुराम आमटेकी 'सस्कृत इन्दिश दिव्यानन्दी' ।

* साठ संक्षेपस्त्रोंमें इस मापका कोई सवत्सर नहीं है । संभव है कि यह किसीका पर्याय नाम हो या उसे संभव दूसरे नामोंके भी सवत्सर अचरित हों ।

है, जिनमें से एक इलोकमें यह बतलाया है कि जो अपनी दा दूसरेकी दान की हुई भूमिका अपहरण करता है वह माठ हजार वर्षतक नरकमें पकाया जाता है, अर्थात् कठट भोगता है। और दूसरेमें यह सूचित किया है कि स्वयं दान देना आसान है परन्तु अन्यके दानार्थका पालन करना कठिन है, अतः दानकी अपेक्षा दानका अनुपालन अधिक है। इन 'उक्त च' इलोकोके बाद इस पत्रके लेखकका नाम "दानकीर्ति भोजक" दिया है और उसे परम धार्मिक प्रकट किया है। इस पत्रके शुरूमें अहंतकी स्तुतिविषयक एक सुन्दर पद्म भी दिया हुआ है जो दूसरे पत्रोंके शुरूमें नहीं है, परन्तु तीसरे पत्रके बिल्कुल अन्तमें जारासे परिवर्तनके साथ उक्तर पाया जाता है।

पत्र न० २—यह दानपत्र कदम्बोके धर्म महाराज 'श्रीविजयशिवमृगेश वर्मा' की तरफसे लिखा गया है और इसके लेखक हैं 'नरवर' नामके सेनापति। लिखे जाने का समय चतुर्थ सवत्सर वर्षा (ऋतु) का आठवाँ पक्ष और पूर्णमासी तिथि है। इस पत्रके द्वारा 'कालबङ्ग' नामके शामको तीत भागोमें विभाजित करके इस तरह पर दान दिया है कि पहला एक भाग तो अहंचक्षाला परम पुण्ड्रलस्थानी वासी भगवान् मर्हनमहाजिनेन्द्रेवताके लिये, दूसरा भाग अहंत्रोत्त सद्धर्मचिरणमें तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिये और तीसरा भाग निर्घन्य अर्थात् दिग्म्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिये। साथ ही, देवभागके सम्बन्धमें यह विधान किया है कि वह धान्य, देवपूजा, बलि, चह, देवकर्म, कर, भग्नक्रिया प्रवर्तनादि अर्थोपभोगके लिये है और यह सब ग्रामलब्ध है। अन्तमें इस दानके अभिरक्षकको वही दानके फलका भागी और विनाशकको पच महापापोंसे युक्त होना बतलाया है, जैसा कि न० १ के पत्रमें उल्लेख किया गया है। परन्तु यहाँ उन चार 'उक्त च' इलोकोमें सिफं पहलेका एक इनोक दिया है जिसका यह अर्थ होता है कि 'पुच्छी-को सगरादि बहुतसे राजाओंने भोगा है, जिस समय जिस जिसकी भूमि होती है उससमय उसी उसीको फल लगता है।' इस पत्रमें 'चतुर्थ'सवत्सरके उल्लेखसे यस्तपि ऐसा भ्रम होता है कि यह दानपत्र भी उन्हीं मूरेवरवर्माका है जिनका उल्लेख पहले नम्बरके पत्रमें है अर्थात् जिन्होंने पत्र न० १ लिखाया था और जो उनके राज्यके तीसरे वर्षमें लिखा गया था, परन्तु एक तो 'श्रीमृगेश्वर-

बर्मा और 'श्रीविजयशिवमुगेशवर्मा' इन दोनों नामोंमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है। दूसरे, पहले नम्बरके पत्रमें 'आत्मन राज्यस्य तृतीये वर्षे पौष सवत्सरे' त्यादि पर्वोंके द्वारा जैसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है जैसा इस पत्र में नहीं है, इस पत्रके समय-निर्णयका ठग बिलकुल उससे विलक्षण है। 'सवत्सर चतुर्थ, वर्षायिक अष्टम, तिथि पौषमासी,' इस कथनमें चतुर्थ' सभवत ६० सवत्सरोमध्ये चौथे नम्बरके प्रमोद नामक भवत्सरका छोतक मालूम होता है। तीसरे, पत्र नं० १ में दातारने बड़े गौरवके साथ अनेक विशेषणोंसे युक्त जो अपन 'काकुत्स्थान्य' का उल्लेख किया है और साथ ही अपने पिता का नाम भी दिया है वे दोनों बात इस पत्रमें नहीं हैं जिनके, एक ही दातार होने की हालतम, छाड जानकी कोई बजह मालूम नहीं होती। चौथ इस पत्रमें अहन्तकी स्तुतिविवरण भगवान्नरण भी नहीं है, जैसा कि प्रथम पत्रम पाया जाता है। इन सब बातोंसे ये दोनों पत्र एक ही राजाके पत्र मालूम नहो होते। इस पत्र नं० २ में विजयशिवमुगेशवर्मके जा विशेषण दिये हैं उनसे यह भी पाया जाता है कि 'यह राजा उभय-लोककी हृषिसे प्रिय और हितकर ऐसे अनक शास्त्रीय अथ तथा तत्त्वविज्ञानके विवेचनम बड़ा ही उदारमति था, नवविनयमें कुशल था और ऊचे दर्जेके बुद्धि, धैर्य, वीय तथा त्यागसे युक्त था। इसने व्यायामकी भूमियोग यथावत् परिश्रम किया था, अपने मुजबल तथा पराक्रमसे किसी बड़े भारी स ग्रामम विपुल एश्वर्यसी प्राप्ति की थी यह देव, द्विज, गुरु और साधुजनोंको नित्य ही गो भूमि, हिरण्य, शमन (शश्या), भान्धारन (वस्त्र) आदि अनक प्रकारका दान दिया करता था, इसका महाविभव विद्वानो सुहृदो और स्वजनाके द्वारा सामान्यरूपसे उपस्थुक होता था और यह आदिकालके राजा (सभवत् भरतचक्रवर्ती) के कृतानुसारी घमका महाराजा था।' दिग्म्बर और एवेताम्बर दोनों ही सप्रवायोंके जैन-साधुओंको यह राजा समानहृषिसे देखता था, यह बात इस दानपत्रसे बहुत ही स्पष्ट है।

पत्र न ३—यह दानपत्र कदम्बोंके धर्मभाराज श्रीकृष्णान्दर्मके श्रियपत्र 'देवघर्म' नामके युवराजकी तरफमें लिखा गया है और इसके द्वारा 'श्रिपर्वत' के ऊपरका कुछ सोन अर्हन्त भगवान्नके चैत्यालयकी भरमस्त, पूजा और महिमा-

के लिये 'यापनीय' संघको दान किया गया है। पत्रके अन्तमें इस दानको अपहरण करनवालेके बास्ते वही कसम दी है अथवा वही विधान किया है जैसा कि पहले नम्बरके पत्रसब्बमे ऊपर बतलाया गया है। 'उक्तं च' पत्र भी वे ही चारों कुछ नम्बरके साथ दिये हुए हैं। और उनके बाद दो पत्रोंमें इस दानका फिरसे खुलासा दिया है, जिसमें देववर्माको रणप्रिय, दयामृतसुखास्वादनसे पवित्र, पुण्यगुणोदा इच्छुक और एक वीर प्रकट किया है। अन्तमें अहंनकी स्तुतिविषयक प्राय वही पत्र है जो पहले नम्बरके पत्रके मुख्यमें दिया है। इस पत्रमें श्रीकृष्ण वर्माको 'अश्वमेघ' यज्ञका कर्ता और शरदऋतुके निर्भल आकाशमें उदित हुए चन्द्रमाके समान एक छत्रका धारक, अर्थात् एक छत्र पृथ्वीका राज्य करनेवाला लिखा है।

मूल (Text)

सिद्धम् जयत्यर्हस्तिलोकेशः सर्वभूतहिते रत

रागाद्यरिहरोनन्तोनन्तज्ञानहर्मीश्वरः

स्वरित विजयवैजनत्यां[†] स्वाभिमहासेनमालगणानुद्धाताभिविक्तानां
मानव्यसमोत्त्राणां हारितिपुत्राणां अङ्गिरसां प्रतिकृतस्वाद्यायचर्चकाना
सद्गृह्मसदस्यानां कदम्बानां अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुरुषस्कंधः
आहवार्जितपरमरुचिरहट्टसत्वः[‡] विशुद्धान्वयप्रकृत्यानेकपुरुषपरम्परागते
जगत्रदीपभूते महत्यदितोदितं काकुस्थान्वये श्रीशान्तिवस्मतनयः श्रीमृगे-
शावरवस्मी आत्मनः राज्यस्य तृतीये वर्षे पौषसंवत्सरे कार्तिकमासे बहुले
पक्षे दशम्या तिथौ उत्तराभाद्रपदे नक्षत्रे शृहत्परल्लूरे^(१) त्रिवशमुकुटपरि-
वृष्टचारचरणेभ्यः[§] परमार्हदेवेभ्यः समार्जनोपलेपनाभ्यर्च्छनभग्नस-
स्कारमहिमार्थं प्रामापरदिविभागसीमाभ्यन्तरे राजमानेन चत्वारिंशभि-

[†] मूलमें ऐसा ही है, यह 'वैजयन्त्या' होना चाहिये।

[‡] इनपत्रोंमें यह एक सास बात है कि जहाँ द्विवाकरोका इतना अधिक प्रयोग किया गया है वही 'सत्त्व' और 'तत्त्व' में 'त' अक्षरको द्वित नहीं किया गया है।

[§] मूलमें ऐसा ही है।

वर्तन कुष्णभूमिन्नेप्र चत्वारिंच्च विवरन च चैत्याह्यपत्त्वं कहि ॥ पर्क
निवर्तन पुष्पार्थं देवकुलस्याङ्गनश्च एकनिवर्तनमेव सर्वपरिहारयुक्त
दत्तबान् महाराज लोभादधर्माद्वा योस्याभिहृत्वा स पचमहापातकस-
युक्तेभवति योस्याभिरक्षिता स तत्पुरुषफलभागभवति उक्तश्च बहुभिर्व-
सुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि यस्य यस्य यदा भूमित्वस्यतस्य तदा फलैः
स्वदत्ता परदत्ता वा यो हरेत वसुन्धरा ॥ षष्ठिवषसहस्राणि नरके पच्यते
तु स अद्विद्वत् त्रिभिर्मुक्ति सद्विश्च परिपालित एतानि न निवर्तये
पूवराजकृतानि च स्वन्दातु सुमहन्त्क्षय दुखमन्यार्थपालन दानं वा
पालन वति दानाच्छ्रुयोनुपालन

परमवार्मिकेण दामकीर्तिभोजवन लिखितेय पट्टिका इति सिद्धि-
रस्तु ॥—

(२)

सिद्धम् ॥ विजयवैजयन्त्याम् स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धयाता-
भिषिक्तस्य मानव्यसगात्रस्य हारितोपुत्रस्य प्रतिकृतचच्चापारस्य विवृष-
प्रतिविभ्वाना कदम्बाना धर्ममहाराजस्य श्रीविजयशिवसृगेशवर्मणे वि-
जयायुक्तारोग्यैर्शर्वर्यप्रवर्द्धनकर सञ्चत्सर चतुर्थ वर्षापक्ष अष्टम तिथि
पौरणमासी अनयानुपूर्व्या अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुरुषस्कंब
सुविशुद्धपितृमातृपत्न उभयलोकप्रियहितकरानेकशास्त्रार्थतत्त्वविहान
विवेच्च (?) ने विनिविष्टविशालोदारमति हस्यश्वरोहणभरणादिषु
व्यायामिकीषु भूमिषु यथावकृतश्रम दक्षो दक्षिण नयविनयकुराल
अनेकाहवार्जितपरमहृषसत्त्व उदाचुद्विष्टैर्यवीर्यत्यागसम्पन्न सुमहति
समरसङ्कटे स्वभुवलपराक्रमावाप्रविपुलैर्वय सम्बद्धजापालनपर
स्वजनकुमुदवनप्रबोधनशशाङ्कु देवद्विजगुरुसाधु अनेभ्य गोभूमिहिरण्य-
शयनाच्छ्रादनाभादि अनेकनिधदाननित्य विहसुहृत्स्वजनसामन्योप-

* व्याकरणकी दृष्टिसे यह वाक्य बिलकुल शुद्ध याकूप नहीं होता ।

* यह पद मिस्टर फ्लीटके लिलालेक त्र० ५ में सुनकर लहराया गया है ।
आम तौरपर यह व्यासका भाना जाता है ।

भुज्जमानमहाविषयः: आदिकालराजवृत्तमनुसारी धर्ममहारत्यः के कद-
म्बाना श्रीविष्वशिवसूर्योश्चरम्भा कालवक्त्रप्रार्थं त्रिधा विष्वल्य दत्तवान्
अत्र पूर्वमहेच्छाकालपरमपुष्टकलस्यानियासिभ्यः भगवद्हन्महाजिनेन्द्र-
देवतान्य एकोभाना: द्वितीयोर्हत्प्रोक्तसद्वर्णकरणापरस्यश्वेतपटमहाअमस्य-
सधोपभोगाय तृतीयो निर्जन्मयमहाअमणासधोपभोगायेति अत्र देवमान
धान्यदेवपूजावक्षिप्तस्वेवकम्भकरभग्नक्रियाप्रवत्तेनाश्वर्णोपभोगाय एतदेवं
न्यायलक्ष्यं देवमोगासमयेन योभिरहति सतत्फलभाग्भवति यो विनाश-
येत्स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवति उक्तद्वच बहुभिर्वसुधामुक्ता राजभिस्स-
गरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाकर्त्त नरवरसेनापतिना
सिस्तिता

(३)

विजयत्रिपञ्चते स्वामिमहासेनमातृगणानुष्ठाताभिषिक्तस्य मान-
ठ्यसगोत्रस्य प्रतिकृतस्वाध्यायचर्च्या * पारगस्य आदिकालराजर्विष्वम्बा-
नां आश्रितजनाम्बानां कदम्बानां धर्ममहाराजस्य अश्वमेधवाजिनः
समरार्जितविपुलैस्वर्वर्यस्य सामन्तराजविशेषरत्नसुनागजिनाकम्पदायानु-
भूतस्य (?) शरदमलनभम्युवितशशिसद्वैकातपत्रस्य धर्ममहाराजस्य
श्रीकृष्णवर्मणः शिवतनथो देववर्मयुवराजः स्वपुष्यफलाभिकाल्या
त्रिलोकभूनहितदेशिनः वर्मप्रवर्त्तनस्य अहंतः भगवतः चैत्यालग्नस्य भग्न-
सस्काराचर्चनमहिमार्थं यापनीयसदैर्भ्यः सिद्धकेदारे राजमानेन ढादश
निवर्त्तनानि चेत्र दत्तवान् योस्य अपृहत्ता स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवति
योस्याभिरक्षिता † (?) स पुण्यफलमस्तुते उक्त ऋ बहुभिर्वसुधा मुक्ता

वह काठ एक बार सर्वदाके लिये बतला देनेकी है यि इन प्रतिलिपियोमे
विद्यन्ते उस विल्हके स्पर्शमें लिखा गया है जो कंठ्यवरणों [gutturals] से पहले
विल्हनकी जगह भूतुक हुआ है ।

* सूतमें ऐसा ही है । कुछ पाठ 'चर्चा' हीना जाहिये ।

† यह 'भग्नर' भूतन्ते नहीं है, जो नि. सन्धेह कोरनेसे रह गया है ।

‡ सूतमें यह 'रन्धिला' सा मानूक हीत है ।

राजभिस्सगरादिमि: यस्य यस्य यदाभूमिस्तस्व तस्य तथा (?) पर्वा
अद्विद्वितं त्रिभिर्युक्त सद्विश्च परिपालित पतानि न विकर्त्तन्ते पूर्वराज-
कुतानि च स्व इतुं सुमहच्छक्यं दु (?) : स (म) न्यात्वपाहनं दान वा
पालनं वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनं स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां
षष्ठिवर्षसहस्राणि नरके पद्यते तु सः श्रीकृष्णनृपपुत्रेण कदम्बकुलकेतुना
रणप्रियेण देवेन दत्ता भू (?) मित्रिपञ्चवते दद्यास्तुतसुखास्वादप्रूपुण्य-
गुणेषुना देववर्मांकवीरेण दत्ता जैनाय भूरिय जयत्यहस्त्रिलोकेशः
सर्वभूतहितकरः रागाद्यरिहोनन्तोनन्तज्ञानहर्योश्वरः

इन तीनो दामपत्रोपरसे निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियोंका पता
चलता है —

१. स्वामिश्वरसेन—शुरु । २. हारिसी—शुरु और प्रबिद्ध स्त्री । ३. शा-
न्तिवर्मा—राजा । ४. मृगेश्वरवर्मा—राजा । ५. विजयकिष्किष्मृगेश्वर्मा—महा-
राजा । ६. कृष्णवर्मा—महाराजा । ७. देववर्मा—युवराज । ८. दामकीटि—
घोजक । ९. नरवर—सेनापति ।

इन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें यदि किसी विद्वान् भाईको दूसरे पत्रो, शिलालेखो
मध्यवा ग्रन्थप्रश्नस्तियो आदि परसे, कुछ विशेष हृत् मालूम् हो तो वे कुमाकर
उससे सूचित करनेका कहु उठावें, जिससे एक कमबद्ध जैन इतिहास तम्हार
करनेमें कुछ सहायता मिले ।



आर्य और म्लेच्छ

श्रीगृहपिञ्चाचार्य उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ग्रन्थमें, सब मनु-योको दो भागोमें बांटा है—एक ‘आर्य’ और दूसरा ‘म्लेच्छ’, जैसा कि उनके निम्न दो सूत्रोंसे प्रकट है—

“प्राङ्‌मातुषोत्तराम्बनुद्याः ।” “आर्या म्लेच्छाश्च च । अ० ३ ॥

परन्तु ‘आर्य’ किसे कहते हैं और ‘म्लेच्छ’ किसे ?—दोनोंका पृथक् पृथक् क्या लक्षण है ? ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया । मूलसूत्र इस विषयमें मौत है । हाँ, इवेताम्बरोके यहीं तत्त्वार्थसूत्र पर एक भाव्य है, जिसे स्वोपनिषद्भाष्य कहा जाता है—पर्यात् स्वय उमास्वातिकृत बतलाया जाता है । यद्यपि उस भाष्यका स्वोपनिषद्भाष्य होना अभी बहुत कुछ विवादापन्न है, फिर भी यदि थोड़ी देरके लिए—विषयको आगे सरकानेके बास्ते—यह मान लिया जाय कि वह उमास्वातिकृत ही है, तब देखना चाहिये कि उसमें भी ‘आर्य’ और ‘म्लेच्छ’ का कोई स्पष्ट लक्षण दिया है या कि नहीं । देखनेसे मालूम होता है कि दोनोंकी पूरी और ठीक पहचान बतलायीकाला बैसा कोई लक्षण उसमें भी नहीं है, मात्र मेवपरक कुछ स्वरूप बहुर दिया हूँदा है और वह सब इस प्रकार है—

“हिविधा मनुद्या भवन्ति । आर्या म्लिशश्च । तत्रार्या षड्विधा: चेत्रार्याः जात्यार्था कुलार्थाः शिल्पार्थाः कर्मार्था भाषार्था इति । तत्र चेत्रार्या

॥ इवेताम्बरोके यहीं ‘म्लेच्छाश्च’ के स्थानपर ‘म्लिशश्च’ पाठ भी उपस्थित होता है, जिससे कोई अर्थ नहीं होता ।

पठचदसमु कर्मभूमिषु जावाः । तथा । भरतेन्द्रधर्वद्विंशतिषु
जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवर्तिविजयेषु । जात्यार्या इच्छाकवो
विदेहा हरयोऽन्वष्टाः ज्ञाता । कुरवो दुर्वनाला उपा मोगा राज-
न्या हृत्येवमादयः । कुलार्याः कुलकराशचक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा
ये चान्ये आत्मीयादापञ्चमादासममाद्वा कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्यय-
प्रकृतयः । कर्मार्या यजनयाजनाभ्ययनाभ्यापनप्रयोगकृषिलिपि-वाणिज्य-
योनिपोषणवृत्तयः । शिल्पार्यास्तन्तुवायकुलालनापिततुल्यवायदेवटादयो-
ऽन्यसावदा अगर्हिताजीवाः । भाषार्या नाम ये शिष्टभाषानियत-
वर्णं लोक-रूढस्पष्टशब्दं पञ्चविधानामप्यार्याणां संव्यवहार भाषन्ते ।

अतो विपरीता स्त्तिः । तथा । हिमवतश्चतसृषु विदिक्षु त्रीणि-
योजनशतानि लवणसमुद्रमवगाह चतसृणां मनुज्यविजातीनां चत्वा-
रोऽन्तरद्वीपा भवन्ति त्रियोजनशतविष्कम्भायामा । तथा । एकोरुकाणा-
माभापकाणां लाङ्गूलिकानां वैषाणिकानामिति । चत्वारियोजनशतान्यव-
गाह चतुर्योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तथा । हयकर्णानां
गजकर्णानां गोकर्णानां शष्कुलीकर्णानामिति । पञ्चशतान्यवगाह पञ्च-
योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तथा । गजमुखाना व्याघ-
मुखानामादर्शमुखाना गोमुखानामिति । पठ्योजनशतान्यवगाह ताव-
दायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तथा । अश्वमुखानां हस्तिमुखाना
सिंहमुखानां व्याघ्रमुखानामिति । सप्तयोजनशतान्यवगाह तावदाया-
मविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तथा । अश्वकर्णिंहकर्णिंहस्तिकर्णिंप्रा-
वरणामानः । अष्टौ योजनशतान्यवगाहाष्टयोजनशतायामविष्कम्भा
एवान्तरद्वीपाः । तथा । उल्कामुखविद्युजिन्हर्मेषमुखविद्युहन्तनामानः॥
नवयोजनशतान्यवगाह नवयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा भव-

न्ति । उथा । अनवन्तगृहदन्विशिष्टदन्तहुद्वदन्तनामानः ॥ एकोरुक्ष-
णामेकोरुकहीपः । एवं शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्याः ॥
शिखरिणोऽव्येवमेवेत्येवं घटपञ्चाशादिति ॥'

इस भाष्यमे मनुष्योके आर्य और म्लेच्छ ऐसे दो भेद करके आयोके क्षेत्रादिकी हृषिसे छह भेद किए हैं—पर्याति पव्रह कर्मभूमियो (५ भरत, ५ ऐरावत और ५ विदेहक्षेत्रो) मे उत्पन्न होनेवालोको 'क्षत्रार्यं', इत्याकु, विदेह, हरि, अन्वष्ट जात, कुरु, बु बुनाल, उग्र, भोग, राजन्य इत्यादि क्षेत्रवालो को 'जात्यार्यं'; कुलकर-चक्रवर्ति-बलदेव-वासुदेवोको तथा तीसरे पाचवें अथवा सातवें कुलकरसे प्रारम्भ करके कुलकरोसे उत्पन्न होनेवाले दूसरे भी विशुद्धान्वय-प्रकृतिवालोको 'कुलार्यं', यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, प्रयोग, कृषि, लिपि, वाणिज्य और योनिपोषणमे आजीविका करनेवालोको 'कर्मपि', अत्यसावद्यकर्म तथा अनिन्दित आजीविका करने वाले बुनकरो, कुम्हारो, नाइयो, दर्जियो और टवटो (artisans = बढ़ई आदि दूसरे कारीगरो) को 'शिल्पकर्मपि'; और शिष्ट पुरुषोके भाषाओके नियतवणोंका, लोकरूद स्पष्ट शब्दोका तथा उक्त क्षेत्रार्यादि पच प्रकारके आयोके सम्बवहारका भले प्रकार उच्चारण-भाषण करनेवालोको 'भाषार्यं' बतलाया है । साथ ही, क्षेत्रायेका कुछ स्पष्टीकरण करते हुए उदाहरणकृपसे यह भी बतलाया है कि भरतक्षेत्रोके साथेपच्चीस साढे पच्चीस जनपदोमे और क्षेत्र जनपदोमेसे उन जनपदोमे जहाँ तक चक्रवर्तीकी विजय पहुँचती है, उत्पन्न होनेवालोको 'क्षेत्रार्यं' समझना चाहिए । और इससे यह कथन ऐरावत तथा विदेहक्षेत्रोके साथ भी लागू होता है—१५ कर्मभूमियोमे उनका भी प्रहण है, उनके भी २५॥, २५॥ यद्यपि उन जनपदोमें रहते हुए क्षेत्रोंके उन जनपदोमे उत्पन्न होनेवालोको 'क्षेत्रार्यं' समझना चाहिए, जहाँ तक चक्रवर्तीकी विजय पहुँचती है ।

इस सरह आयोका स्वरूप देकर, इससे विपरीत लक्षणवाले सब मनुष्योंको 'म्लेच्छ' बतलाया है और उदाहरणमें अन्तर्रक्षीपज मनुष्योका कुछ विस्तारके साथ उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट है कि जो लोग उन दूरबर्ती कुछ बचे-कुचे प्रैरक्षेमें रहते हैं वहाँ चक्रवर्तीकी विजय नहीं पहुँच पाती अथवा चक्रवर्ती-

की सेना विजयके लिए नहीं जाती है तथा जिसमें आत्मार्थ, कुलार्थ, कर्मार्थ, शिल्पार्थ और भाषार्थके भी कोई लक्षण नहीं हैं वे ही सब ‘म्लेच्छ’ हैं।

भाष्यविनिविष्ट हस लक्षणसे, यद्यपि, आजकलकी जानी हुई पृथ्वीके सभी मनुष्य क्षेत्रादि किसी-न-किसी हृषिके ‘आर्द्ध’ ही ठहरते हैं—शक-यवनादि भी म्लेच्छ नहीं रहते—परन्तु साथ ही भोगभूमिया—हैमवत आदि अकर्मभूमिक्षेत्रों-में उत्पन्न होनेवाले—मनुष्य ‘म्लेच्छ’ हो जाते हैं; क्योंकि उनमें उक्त लक्षण प्रकारके आर्योंका कोई लक्षण बटित नहीं होता। इसीसे शब्द० विद्वान् पं० सुख-लालजीने भी, तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी गुजराती टीकामें, म्लेच्छके उक्त लक्षण पर निम्न फुटनोट देते हुए उन्हें ‘म्लेच्छ’ ही लिखा है—

“शा व्यास्या प्रमाणे हैमवत शादि श्रीक भोगभूमिओमां शर्याति अकर्म भूमिओमां रहेनारा म्लेच्छो ज छे ।”

पण्णवणा (प्रशापन) आदि श्वेताम्बरीय आगम-सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें मनुष्यके सम्मूच्छ्वामी और गम्भव्युत्कान्तिक ऐसे दो भेद करके गम्भव्युत्कान्तिकके तीन भेद किये हैं—कर्मभूमक, अकर्मभूमक, अन्तरद्वीपज और इस तरह मनुष्योंके मुख्य चार भेद बतलाए हैं *। इन चारों भेदोंका समावेश आर्य और म्लेच्छ नामके उक्त दोनों श्रेदोंमें होना चाहिये था; क्योंकि सब मनुष्योंको इन दो भेदों-में बांटा गया है। परन्तु उक्त स्वरूपकथनपरसे सम्मूच्छ्वाम मनुष्योंको—जो कि अंगुलके असंख्यातबैं भाग अवगाहनाके धारक, असक्षी, अपर्यातिक और अन्त-मुहूर्तकी आयुषाने होते हैं—न तो ‘आर्य’ ही कह सकते हैं और न म्लेच्छ ही; क्योंकि क्षेत्रकी हृषिके यदि वे आर्य क्षेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मूत्रादिक अशुचित स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं तो म्लेच्छक्षेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मूत्रादिकमें भी उत्पन्न होते हैं और इसी तरह अकर्मभूमक तथा अन्तरद्वीपज मनुष्योंके मल-मूत्रादिकमें भी वे उत्पन्न होते हैं †।

* मणुस्सा दुविहा पञ्चता तं जहा—संमुच्छ्वामस्युस्सा य ।
गव्यवक्तुं तियमणुस्सा तिविहा पञ्चता, तं जहा—कर्मभूमगा, अकर्मभूमगा, अन्तरद्वीपगा । —प्रशापना सूत्र ३६, जीवाज्ञनमेऽपि

† देखो, प्रशापना सूत्र नं० ३६ का वह धंश जो “गव्यवक्तुं तियमणुस्सा य” के बाद “से किं संमुच्छ्वाम-स्युस्सा !” से प्रारम्भ होता है।

इसके सिवाय, उत्कृष्ट-कथन-द्वारा यद्यपि अकर्मभूमक (भोगभूमिया) मनुष्योंको म्लेच्छोंमें शामिलकर दिया गया है, जिससे भोगभूमियोंकी सन्तान कुल-करादिक भी म्लेच्छ ठहरते हैं, और कुलार्थं तथा जात्यायकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती। परन्तु इवें आगम प्रथा (जीवाभिगम तथा प्रज्ञापना-जैसे प्रथा) उन्हें म्लेच्छ नहीं बतलाते—अन्तर्द्वार्पणों तकको उनमें म्लेच्छ नहीं लिखा, बल्कि आर्यं और म्लेच्छ ये दो भेद कर्मभूमिज मनुष्योंके ही किये हैं—मब मनुष्योंके नहीं, जैसा कि प्रज्ञापना-सूत्र न० ३७ के निम्न अवासे प्रकट है:—

“से किं कर्मभूमगा ? कर्मभूगा पण्णरसविदा परण्णता, त जहा—
पचहि भरहेहि पचहि एरावणहि पचहि महाविदेहेहि; ते समासओ दुविहा
परण्णता, त जहा—आयरिया य मिलिकखू य कि ।”

ऐसी हालतमें उक्त भाष्य कितना अपर्याप्त, कितना अधूरा, कितना विपरीत और कितना सिद्धान्तागमके विशद है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं—सहृदय विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं। उसकी ऐसी भोटी भोटी त्रुटिया ही उसे स्वोपज्ञभाष्य माननसे इनकार करती है और स्वोपज्ञभाष्य माननेवालोंकी ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं होने देती कि ‘वाचकमुख्य उमात्वातिके लिए सूत्रका उल्लंघन करके कथन करना असम्भव है ।’ अस्तु ।

अब प्रज्ञापनसूत्रको लीजिए, जिसमें कर्मभूमिज मनुष्योंके ही आर्यं और म्लेच्छ ऐसे दो भेद किए हैं। इसमें भी आर्यं तथा म्लेच्छका कोई विशद एवं व्यावतक लक्षण नहीं दिया। आर्योंके तो ऋद्धिप्राप्त अनुद्धिप्राप्त ऐसे दो मूलभेद करके ऋद्धि-प्राप्तोंके अह भेद किये हैं—अरहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण विच्चाघर। और अनुद्धिप्राप्त आर्योंके नव भेद बतलाए हैं, जिनमें छह भेद तो क्षेत्रार्थं आदि वे ही हैं जो उक्त तत्त्वार्थाभिगमभाष्यमें दिए हैं, शेष तीन भेद ज्ञानार्थं, दर्शनार्थं और चारित्रार्थं हैं, जिनके कुछ भेद प्रभेदोंका भी कथन किया है। साथ ही,

कि जीवाभिगममें भी यही पाठ प्राय ज्यों का त्यो पाया जाता है—
‘मिलिकखू’ की जगह ‘मिलेच्छा’ जैसा पाठभेद दिया है।

† “नावि वाचकमुख्या सूत्रोल्लब्धेनामिलिकधर्षत्यसभाष्य-मानत्वात् ।”

म्लेच्छ-विषयक प्रश्न (से कि त मिलिक्सू ?) का उत्तर देते हुए इतना ही लिखा है—

“मिलिक्सू अणेगचिह्ना पणणाच्चा, तं जहा—सगा जवणा चिलाया सबर-बब्वर-मुरुडोड-भडग-णिणणग-पळणिया कुलक्स-गोड-सिंहल-पारसगोधा कोंच-आम्बड-इदमिल-चिल्लाल-पुलिंद-हारोस-दोवबोकाण-गन्धा हारवा पहिलय-अजमतरोम-पासपउसा मलया य वंधुया य सूयलि-कोंकण-गमेय-पल्हव-मालव-मग्गर आभासिच्चा कणवीर-लहसिय-त्वसा लासिय ऐदूर-मोंढ डोंबिल गलओस पाओस कक्षेय अक्साग हण-रोमग-हुणरोमग भरुमरुय चिलाय वियवासी य एवमाह खेतमिलिक्सू ।”

इसमें ‘म्लेच्छ अनेक प्रकारके हैं’ ऐसा लिख कर शक, यवन, (यूनान) किरात, शबर, बब्बर, मुरुण्ड, घोड (उडीसा), भटक, णिणणग, पळणिय, कुलक्स, गोड, सिंहल (लका), फारस, (ईरान), गोध, कोंच आदि देश-विशेष-निवासियोंको ‘म्लेच्छ’ बतलाया है। टीकाकार मलयगिरि सूरिने भी इनका कोई विशेष परिचय नहीं दिया—सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि म्लेच्छोंकी यह अनेक प्रकारता शक-यवन-चिलात-शबर-बब्बरादि देशभेदके कारण है। शाकदेश निवासियोंको ‘शक’ यवनदेश-निवासियोंको ‘यवन’ समझता, इसी तरह सबंत्र सगालेना और इन देशोंका परिचय लोकसे—लोकशास्त्रोंके आधार पर प्राप्त करना ॥

इन देशोंमें कितने ही तो हिन्दुस्तानके भीतरके प्रदेश हैं, कुछ हिमालय आदिके पहाड़ी मुकाम हैं और कुछ सरहद्दी इलाके हैं। इन देशोंके सभी निवासियोंको म्लेच्छ कहना म्लेच्छत्वका कोई ठीक परिचयक नहीं है; क्योंकि इन देशोंमें आर्य लोग भी बसते हैं—अर्थात् ऐसे जन भी निवास करते हैं जो ज्ञेन, जाति तथा कुलकी दृष्टिको छोड़ देने पर भी कर्मकी हृषिसे, शिल्पकी

॥ ‘तज्ज्वानेकविवत्व शक-यवन-चिलात-शबर-बब्बरादिदेशभेदात्, तथा चाह—न जहा सगा, इत्यादि, शकदेशनिवासिनः शका, यवनदेशनिवासिनो यवनाः पूर्व, नवरमभी नानादेशा. लोकतो विजेयाः ।’

हृषिके, भाषणकी हृषिके आर्य हैं तथा अतिज्ञान-सुलभतावदी हृषिके और स्तुत-दर्शनकी हृषिके भी आर्य हैं, उदाहरणके लिये मालवा, उडीसा, लक्ष्मीको कोकण आदि प्रदेशोंको ले सकते हैं जहाँ उन्हें हृषियोंको लिये हुए अग्रणित आर्य बसते हैं।

हो सकता है कि किसी समय किसी हृषिविशेषके कारण इन देशोंके निवासियोंको म्लेच्छ कहा गया हो, परन्तु ऐसी हृषि सदा स्थिर रहने-वाली नहीं होती। आज तो किजी जैसे टापुओंके निवासी भी, जो बिल्कुल जगली तथा असम्य ये और मनुष्यों तक को मारकर खा जाते थे, आर्य पुरुषोंके मर्सर्ग एवं सत्प्रयत्नके द्वारा अच्छे सम्य, शिक्षित तथा कर्मादिक हृषिके आर्य बन गये हैं, वहाँ कितने ही स्कूल तथा विद्यालय जारी हो गये हैं और जेती दस्तकारी तथा व्यापारादिके कार्य होने लगे हैं। और इसलिय यह नहीं कहा जा सकता है कि किजी देशके निवासी म्लेच्छ होते हैं। इसी तरह दूसरे देशके निवासियोंको भी जिन की अवस्था आज बदल गई है म्लेच्छ नहीं कहा जा सकता। जो म्लेच्छ हजारों वर्षोंसे आर्योंके सम्पर्कमें आ रहे हो और आर्योंके कर्म कर रहे हो उन्हें म्लेच्छ कहना तो आर्योंके उक्त लक्षण अथवा स्वरूपको सदौष बतलाना है। अत वर्तमानम उक्त देशनिवासियों तथा उन्हीं जैम दूसरे देशनिवासियोंको भी, जिनका उल्लेख 'एवमाह' शब्दोंके भीतर सन्ति हिन है, म्लेच्छ कहना समुचित प्रतीत नहीं होता और न वह म्लेच्छत्वका कोई पूरा परिचायक अथवा लक्षण ही हो सकता है।

श्रीमलयगिरिसूरिने उक्त प्रजापनासूत्रकी टीकामें लिखा है—

‘म्लेच्छा अव्यक्तभाषाममाचारा ,’

‘शिष्टासम्बतसक्त्वयवहारा म्लेच्छा ।’

अधर्ति—म्लेच्छ वे हैं जो अव्यक्त भाषा बोलते हैं—ऐसी अस्पष्ट भाषा बोलते हैं जो अपनी समझमें न आवे। अथवा लिष्ट (सम्य) पुरुष जिन भाषादिकके व्यवहारोंको वही मानते उनका व्यवहार करनेवाले सब म्लेच्छ हैं।

ये लक्षण भी ठीक मालूम नहीं होते, क्योंकि प्रथम तो जो भाषा आर्योंके लिये अव्यक्त हो वही उक्त भाषाभाषी अनार्योंके लिए व्यक्त होती है तथा

आर्योंके लिए जो आधा व्यक्त हो वह अनार्योंके लिए अव्यक्त होती है और इस तरह अनार्य लोग परस्परमें अव्यक्त भाषा न बोलनेके कारण आर्य हो जावेगे तथा आर्य लोग ऐसी भाषा बोलनेके कारण जो अनार्योंके लिए अव्यक्त है—उनकी समझमें नहीं आती—म्लेच्छ ठहरेगे। दूसरे, परस्परके सहवास और अभ्यासके द्वारा जब एक वर्ण दूसरे वर्णकी भाषासे परिचित हो जावेगा तो इन्हें परसे ही जो लोग पहले म्लेच्छ समझके जाते थे वे म्लेच्छ नहीं रहेगे—क्षुक-यज्ञादिक भी म्लेच्छत्वकी कोटिसे निकल जाएंगे, आर्य हो जावेगे। इस के सिवाय, ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँके आर्योंकी बोली-भाषा दूसरे देशके आय लोग नहीं समझते हैं, जैसे कश्मीर-नामील-तेलगु भाषाओंको इधर यू० पी० संस्कृत-पञ्चाबके लोग नहीं समझते। अतः इधरकी हिन्दिसे कश्मीर-तामील-तेलगु भाषाओंके बोलनेवालों तथा उन भाषाओंमें जैन धर्मोंकी रचना करनेवालोंका भी म्लेच्छ कहना पड़ेगा और यो परम्परमें बहुत ही व्याचार उपस्थित होगा—न म्लेच्छत्वका ही कोई ठीक निर्णय एव व्यवहार बन सकेगा और न आय-त्वका ही।

रही शिष्ट-सम्मत-भाषादिकन्के व्यवहारोंकी बात, जब केवली भगवान-की बारीको अठारह महाभाषाओं तथा सातसी लघुभाषाओंमें अनुवादित किया जाता है तब ये प्रचलित सब भाषाएँ तो शिष्ट-सम्मत-भाषाएँ ही समझी जावेगी, जिनमें अरबी, फारसी, लेटिन, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी और जापानी आदि सभी प्रधान प्रधान विदेशी भाषाओंका समावेश हो जाता है। इनसे भिन्न तथा बाहर दूसरी और कौनसी भाषा रह जाती है जिसे म्लेच्छोंकी भाषा कहा जाय ? बाकी दूसरे शिष्ट-सम्मत-व्यवहारोंकी बात भी ऐसी ही है—कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हे हिन्दुस्तानी असम्य समझते हैं और कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हे विदेशी लोग असम्य बतलाते हैं और उनके कारण हिन्दुस्तानियोंको ‘असम्य’—अशिष्ट एव Uncivilized समझते हैं। साथ ही, कुछ व्यवहार हिन्दुस्तानियोंके ऐसे भी हैं जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी हिन्दिमें असम्य हैं और इसी तरह कुछ विदेशियोंके व्यवहार दूसरे विदेशियोंकी हिन्दिमें भी असम्य हैं। इस तरह शिष्टपुरुषों तथा शिष्टसम्मत व्यवहारोंकी बात विवादा-पत्त होनेके कारण इतना काह देने मांगते ही आर्य और म्लेच्छकी कोई

व्यावृति नहीं होती—ठीक पहचान नहीं बनती। और इसलिये उक्त सब लक्षण सदोष जान पड़ते हैं।

अब दिगम्बर ग्राथोंको भी लीजिए। तत्त्वाप्तसुन्नपर दिगम्बराकी सबसे प्रधान टीकाएं सर्वाधिसिद्धि राजवार्तिक तथा श्लोकवार्तिक हैं। इनमें किसीम भी म्लेच्छाको कोई लक्षण नहीं दिया—मात्र म्लेच्छोंके अतरद्वीपज और कम भूमिज ऐसे दो भद्र बतलाकर अत तरद्वीपजोंका कुछ पता बतलाया है और कम भूमिज म्लेच्छोंके विषयम इन्हाँ ही लिख दिया है कि कमभूमिजा शक्यवनश्च वरपुलिन्दादय (सर्वा० राजा०)—अर्थात् शक्य यवन शबर और पुलिन्दादिक लोगोंको कमभूमिजम्लेच्छ समझना चाहिए। श्लोकवार्तिकम थोड़ासा विशेष किया है—अर्थात् यवनादिकों म्लेच्छ बतलानके अतिरिक्त उन लोगोंको भी म्लेच्छ बतला दिया है जो यवनादिकोंके आचारका पालन करते हो। यथा—

कर्मभूमिभवा म्लेच्छा प्रसिद्धा यवनादय ।

स्यु परे च तदाचारपालनादबहुधा जना ॥

पर त यह नहीं बतलाया कि यवनादिकोंका वह कौनसा आचार व्यवहार है जिस लक्ष्य करके ही किसी समय उहे म्लेच्छ नाम दिया गया है जिससे यह पता चल सकता कि वह आचार इस समय भी उनम अवशिष्ट है या कि नहीं और दूसरे आय कहलानवाले मनुष्योंमें वह नहीं पाया जाता हाँ इससे इतना आभास जरूर मिलता है कि जिन कमभूमिजोंको म्लेच्छ नाम दिया गया है वह उनके किसी आचारमें कारण ही दिया गया है—देशमदके कारण नहीं। एसी हालतम उस आचार विशेषका स्पष्टीकरण होना और भी ज्यादा जरूरी या तभी आय म्लेच्छोंकी कुछ व्यावृति अथवा ठीक पहचान बन सकती थी। पर तु एसा नहीं किया गया और इसलिए आय म्लेच्छोंकी समस्या ज्योंकी त्यो जड़ी रहती है—यह मासूम नहीं होता कि निश्चितरूपसे किसे ‘आय’ कहा जाए और किसे म्लेच्छ !

श्लोकवार्तिकमें वीविद्यान दाचार्यन इतना और भी लिखा है—

‘ उच्चैरोंग्रोदयादेरार्या , नीचैरोंग्रोदयादेरेच म्लेच्छा । ’

अर्थात्—उच्चगोत्रके उदयादिक कारणसे आयं होते हैं और जो नीचगोत्रके उदय आदिको लिये हुए होते हैं उन्हें म्लेच्छ समझना चाहिये ।

यह परिभाषा भी आर्य-म्लेच्छकी कोई व्यावर्तक नहीं है; क्योंकि उच्च-नीचगोत्रका उदय तो अतिसूक्ष्म है—वह अपश्योके ज्ञानगोचर नहीं, उसके आधारपर कोई व्यवहार चल नहीं सकता—और ‘आदि’ शब्दका कोई वाक्य बतलाया नहीं गया, जिससे दूसरे व्यावर्तक कारणोंका कुछ बोध हो सकता ।

शेष रही आयोंकी बात, आर्यमात्रका कोई खास व्यावर्तक लक्षण भी इन ग्रन्थोंमें नहीं है—आयोंके ऋद्धिप्राप्त अनुरुद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद करके ऋद्धिप्राप्तोंके सात तथा आठ और अनुरुद्धिप्राप्तोंके क्षेत्रायं, जात्यायं, कर्मायं, चारित्रायं, दशानायं ऐसे पाँच भेद किये गये हैं । राजवार्तिकमें इन भेदोंका कुछ विस्तारके साथ वर्णन चरूर दिया है; परन्तु क्षेत्रायं तथा जात्यायंके विषयको बहुत कुछ गोल-मोल कर दिया है—“क्षेत्रायाः काशीकौशलादिषु जाताः । इच्चाकुजाति-भोजादिकुलषु जाता जात्यायाः” इतना ही लिखकर छोड़ दिया है ! और कर्मायिके सावद्यकर्मायिं, अल्पसावद्यकर्मायिं, असावद्यकर्मायिं ऐसे तीन भेद करके उनका जो स्वरूप दिया है उससे दोनोंकी पहचानमें उस प्रकारकी वह सब गठबड़ प्रायः ज्योकी त्यों उपस्थित हो जाती है, जो उक्त भाष्य तथा प्रजापना-सूत्रके कथनपरमे उत्पन्न होती है । जब असि, मणि, कृषि, विद्या, विल्य और वाणिङ्कमेंसे आजीविका करनेवाले, श्रावकका कोई वत धारण करनेवाले और मुनि होनेवाले (म्लेच्छ भी मुनि हो सकते हैं) सभी ‘आयं’ होते हैं तब शक-यवन-दिक्को म्लेच्छ कहने पर काफ़ी आपत्ति खड़ी होजाती है और आर्य-म्लेच्छकी ठीक व्यावृति होने नहीं पाती ।

हाँ, सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिकमें ‘गुणैर्गुणवदिभवां अर्यन्त इत्यार्याः’ ऐसी आर्यकी निष्कृति और दी है और राजवार्तिकमें ‘अर्यन्ते’ का भर्त्य ‘सेव्यन्ते’ भी दिया है । यद्यपि यह आर्य शब्दकी निष्कृति है—लक्षण नहीं । फिर भी इसके द्वारा इतना प्रकट किया गया है कि जो गुणोंके द्वारा तथा गुणियोंके

कृदेखो, जयघवलाका वह प्रमाण जो ‘भगवान् महाबीर और उनका समय’ शीर्षक निष्कृतके पुष्ट २२ परके फुटनोटमें दिया गया है ।

६८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद् प्रकाश

द्वारा सेवा किए जाएं, प्राप्त हो वा अपनाए जावें वे सब 'आय' हैं। और इस तरह गुणीजन तथा गुणीजन जिन्हे अपनालें वे अगुणी भी सब आय छहरते हैं। जैक यक्षादिकोमें भी काफ़ी गुणीजन होते हैं—बड़े-बड़े विद्वान् राजा तथा राजर तथा चलानवाले मन्त्री आदिक भी होते हैं—वे सब आय छहरते हैं। और जिन गुणहीनों तथा अनकार म्लेच्छोंको आदिपुराणके निम्न वाक्यनुसार कुल-शुद्धि आदिके द्वारा आय लोग अपनालगे, वे भी आय हो जावें—

स्वदेशेऽनक्षरम्लेच्छान् प्रजावावाविधायिन ।

कुलशुद्धिप्रदानाचै र्वसात्कुर्यादुपक्रमै ॥

इससे आय म्लेच्छकी समस्या सुलभनके बजाय और भी व्यादा उलझ जाती है। अत विद्वानोंमें निवेदन है कि वे इस समस्याको हल करनका पूरा प्रयत्न कर—इस बातको खोज निकाल कि 'वास्तवम आय' किमे कहते हैं? और 'म्लेच्छ किसे ? दोनोंका व्यावतक लक्षण जैनसाहित्यपरसे क्या ठीक बैठता है ? जिस सब गडबड मिटकर सहज ही सबको आय और म्लेच्छका परिज्ञान हो सके ।



समन्तभद्रका समय-निर्णय

शताम्बर जैनसमाजमें स्वामी समन्तभद्रका समय आम तौरपर किंकमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है। एक 'पट्टावली' [†] में शक सं ६० (वि० सं १६५) का जो उनके विषयमें उल्लेख है वह किसी घटना-विशेषकी हड्डिको लिये हुए जान पड़ता है। उनका जीवन-काल अधिकांशमें उससे पहले तथा कुछ बादको भी रहा हो सकता है। इवेताम्बर जैनसमाजने भी समन्तभद्रको अपनाया है और अपनी पट्टावलियोंमें उन्हे 'सामन्तभद्र' नामसे उल्लेखित करते हुए उनके समयका पट्टावली-रूपमें प्रारम्भ बीरनिर्बाण-संवत् ६४३ (वि० सं १७३) से हुआ बतलाया है। साथ ही, यह भी उल्लेखित किया है कि उनके पट्टावलियने बीरनि० सं ६६५ (वि० सं २२५) [‡] में एक प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरारबिं विक्रमकी तीसरी शताब्दीके प्रथमचतुरण तक पहुँच जाती है [§]। इसमें समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका क्यन मिल जाता है और प्राय एक ही ठहरता है।

उक्त जैन पट्टावली-मान्य शक सं ६० (ई० सं १३८) वाले समय-को डाक्टर आर० जी० भाण्डारकरने अपनी 'गर्ली हिस्टरी आफ डेक्कन में, मिस्टर लेविस राइसने अपनी 'इस्क्रिप्शन्स ऐट श्रवणबेलगोल नामक पुस्तककी प्रस्तावना तथा 'कर्णाटक-शब्दानुशासन की भूमिकामें मेसर्स आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचायन अपन 'कर्णाटक कविचरिते' ग्रथमें और मिस्टर एडवर्ड पी०

[†] यह पट्टावली हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विषयक डा० भाण्डार-करकी संन् १८८३-८४ की अपेजी रिपोर्टके पृष्ठ ३२० पर प्रकाशित हुई है।

[‡] कुछ पट्टावलियोंमें यह समय बीर नि० सं ५६५ अर्थात् वि० संवत् १२५ - दिया है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनिकल्याणविजयन अपन द्वारा सम्पादित 'तपागच्छ-पट्टावली'में उसके सुधारकी सूचना भी की है।

[§] देखो, मुनिकल्याणविजय-द्वारा संगवित 'तपागच्छ-पट्टावली' पृष्ठ ७६ व १५।

राइसने घप गो 'हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर'में मान्य किया है। और भी अनेक ऐतिहासिक विद्वानोंने समन्तभद्रके इस समयको मान्यता प्रदान की है। अब देखना यह है कि इस समयका समर्थन शिलालेखादि दूसरे कुछ साधनों या आधारोंसे भी होता है या कि नहीं और ठीक समय क्या कुछ निश्चित होता है। नीचे इसी विषयको प्रदर्शित एवं विवेचित किया जाता है:—

मिस्टर लेविस राइसने, समन्तभद्रको ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी का विद्वान् अनुमान करते हुए, जहाँ उसकी पुष्टिमें उक्त पट्टावलीको देखनेकी प्रेरणा की है वहा अवरणबेलगालके शिलालेख न० ५४(६७) को भी प्रमाण-में उपस्थित किया है, जिसमें मल्लिषेणप्रशस्तिको उत्कीर्ण करते हुए समन्तभद्रका स्मरण सिहनन्दीसे पहले किया गया है। शिलालेखकी स्थिनिको देखते हुए उन्होंने इस पूर्व-स्मरणको इस बातके लिये अत्यन्त स्वाभाविक अनुमान माना है कि समन्तभद्र सिहनन्दीसे अदिक या कम समय पहले हुए हैं। जूँकि उक्त निहनन्दी मुनि गगराज्य (गगवाडि) की स्थापनामें सविशेषरूपसे कारणीमूर्त एवं सहायक थे, गगवशके प्रथम राजा कोगणिवर्मकि मुरु थे, और इसप्रियेन्नेमुहोस्तजाक्षन (तामिल क्रानिकल) आदिसे कोगणिवर्मकि जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग (A. D. 188) पाया जाता है वही पिहनन्दीका अस्तित्व-समय है ऐसा मानकर उनके द्वारा समन्तभद्रका अस्तित्व-काल ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी अनुमान किया गया है। अवण-बेलगालके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तकको सन् १८८१ में प्रकाशित करनेके बाद राइस साहबको कोगणिवर्मकि एक शिलालेख मिला, जो शक सवत् २५ (वि० सन् १६०, ई० सन् १०३) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने सन् १८८४ में, नजनघूड ताल्लुके (मैसूर)के शिलालेखोंमें न० ११० पर प्रकाशित कराया है* (E. C III)। उहमें कोगणिवर्मकि स्पष्ट समय ईसाकी दूसरी शताब्दी का प्रारम्भिक अधवा पूर्वभाग पाया जाता है, और इसलिये उनके मतानुसार

* इस शिलालेखका आश अश निम्न प्रकार है—

"स्वरित श्रीमत्कोगुणिवर्मन्मध्यमहाधिराजप्रथमगगस्य दत्त शकवर्षंगतेषु पञ्चवि-काति २५ नैय शुभकिनुसवस्तरमु फाल्युनशुद्धपञ्चमी शनि रोहिणि ।।।"

यही समय सिहनन्दीका होनेसे समन्तभद्रका समय निर्वित रूपसे ईताकी पहली लानाड़ी ठहरता है—दूसरी नहीं।

अबण्डेल्योलके उक्त शिलालेखमें, जो शक सवत् १०५० का लिखा हुआ है, यद्यपि 'तत्' या 'तदन्वय' जैसे लाङ्डोके प्रयोग-द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं की गई जिससे यह निश्चितरूपमें कहा जासके कि उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गुरुओका स्मरण कालक्रमकी हड्डिसे किया गया है परन्तु उसमें पूर्ववर्ती शकसवत् ६६४ के लिखे हुए दो शिलालेखों और उत्तरवर्ती शक स० १०६६ के लिखे एक शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद जो उन सिहनन्दी आचार्य-का उल्लेख है वह स्थगृह्यपते यह बताना रहा है कि गगराज्यके सम्पादक आचार्य सिहनन्दी स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं। ये तीनों शिलालेख जिमोगा जिन्हेके नगरताल्लुकेमें हुमच स्थानमें प्राप्त हुए हैं, क्रमज न० ३५ ३६, ३७ को लिये हुए हैं और एपिप्रिकाता कण्ठिकाकी आठवीं जिल्दम प्रकाशित हुए हैं। यहाँ उनके प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध रखनवाले इशोको उद्घृत किया जाता है, जो कनडी भाषा में है। इनमेंसे ३६ और ३७ नम्बरके शिला-लेखोंवे प्रस्तुत अथ प्राय समान हैं इसीसे ३६वें शिलालेखसे ३७वेंमें जहा कही कुछ भेद है उसे लेकटमें नम्बर ३७ के साथ दे दिया गया है—

“ ...भद्रबाहुस्वामीगलिन्द् इत्त कलिकालवर्तनेयिं गणभेद
पुढिदुद् अवर अन्वयकमदि॑ कलिकालगणधरु॑ शास्त्रकर्तु॑ गलुम् एनि-
सिदु॑ समन्तभद्रस्वामीगल् अवरशिष्यस्त्रीन् शिवकूट आच व्यर् अवरि॑
वरदत्ताचार्यर् अवरि॑ तत्त्वार्थसत्रकर्तु॑ गल् एनिसिदु॑ आर्यदेवर् अवरि॑
गगराज्यम माडिद सिहनन्दाचार्यर् अवरिन्द् एकसधि॑-सुमतिभद्रारकर
अवरि॑... ।” (न० ३५)

“ ...भ्रुनकेवलिगल् एनिसिद (एनिय३७) भद्रबाहुस्वामिगल्
(गलग३७) मोडलागि पलम्बर (हलम्बर ३७) आचार्यर् पोदिम्बलिर्य
समन्तभद्रस्वामिगल् उदयिसिदर अवरान्वयदोल (अनम्लर ३७)
गगराज्यम माडिद सिहनन्दाचार्यर् अवरि॑ ... ।” (न० ३६,७३)

३५वें शिलालेखमें यह उल्लेख है कि भद्रबाहुस्वामीके बाद यहीं कलिकालका प्रवेश हुआ—उसका बताना आरम्भ हुआ, गणभेद उत्पन्न हुआ और

उनके बश-ब्रह्ममें समन्तभद्रस्वामी उदयको प्राप्त हुए, जो 'कलिकालगण्ठघर' और 'शास्त्रकार' थे, समन्तभद्री क्षिण्य-सन्तानमें सबसे पहले 'शिवकोटि' आचार्य हुए, उनके बाद वरदत्ताचार्य, फिर तत्त्वार्थसूत्र † के कर्ता 'आर्यदेव,' आर्यदेवके पश्चात् गगराजका निर्माण करनेवाले 'सिंहनन्दी' आचार्य, और सिंहनन्दीके पश्चात् एकसंविष्ट-सुमति भट्टारक हुए। और ३६वे-३७वे शिला-लेखोमें समन्तभद्रके बाद सिंहनन्दीका उल्लेख करते हुए सिंहनन्दीका समन्तभद्र-की बशपरम्परामें होना लिखा है, जो बशपरम्परा वही है जिसका ३५वे शिला-लेखमें शिवकोटि, वरदत्त और आर्यदेव नामक आचार्योंके रूपमें उल्लेख है।

इन तीनों या चारों शिलालेखोंसे भिन्न दूसरा कोई भी शिलालेख ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें समन्तभद्र और मिहननन्दी दोनोंका नाम देते हुए उक्त सिंहनन्दीको समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् सूचित किया हो या कम-से-कम समन्तभद्रसे पहले सिंहनन्दीके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी हालतमें मिस्टर लेविस राइस साहबके उस अनुमानका समर्थन होता है कि जिसे उन्होंने केवल 'मल्लिवेण-प्रशासित' नामक शिलालेख (न० ५४) में इन विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लेखको देखकर ही लगावा था। इन बादको कु मिले हुए शिला-लेखोमें 'अवरि', 'अवरचन्वयदोल' और 'अवर अनन्तर' शब्दोंके प्रयोग-द्वारा इस बातकी स्पष्ट धोषणा की गई है कि सिंहनन्दी आचार्य समन्तभद्राचार्य-के बाद हुए हैं। अस्तु; ये सिंहनन्दी गणवशके प्रथम राजा को गुणिवमकि सम-कालीन थे, इन्होंने गणवशकी स्थापनामें खास भाग लिया है, जिसका उल्लेख तीनों शिलालेखोंमें "गगराज्यम मार्डिद" इस विशेषण-पदके द्वारा किया गया

† मल्लिवेण-प्रशास्ति में आर्यदेवको 'रादान्न-कर्ता' लिखा है और यहाँ 'तत्त्वार्थसूत्र-कर्ता।' इससे 'रादान्न' और 'तत्त्वार्थसूत्र'दोनों एक ही ग्रन्थक नाम आकूम होते हैं और वह गृध्रपिच्छाचार्य उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रसे भिन्न जान पड़ता है।

' कु श्रवणबेलगोक्षका उक्त ५४वाँ शिलालेख सन् १८८६ में प्रकाशित हुया था और चगराजात्म्कके उक्त तीनों शिलालेख सन् १९०४ में प्रकाशित हुए हैं। ये सन् १८८६ में लेविस राइस साहबके साथने मौजूद नहीं थे।

है, जिसका प्रथं लेविस राइसने who made the Gang kingdom दिया है—प्रवर्त् यह बतलाया है ‘कि जिन्होंने गंगराज्यका निर्माण किया’ (वे सिहनन्दी आचार्य) । सिहनन्दीने गंगराजकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, इसका कितना ही उल्लेख धनेक शिलालेखमें पाया जाता है, जिसे यहा पर उद्घृत करनेकी ज़रूरत मालूम नहीं होती—श्रवणबेल्लोलका वह ५४(६७)वीं शिलालेख भी सिहनन्दी और उनके छात्र (कोणुणिवर्मा) के साथ बटित-चटनाकी कुछ सूचनाको लिये हुए है ।

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर चाहता देना हूँ कि सन् १६२५ (वि० स० १६८२) मेर मणिकचन्द जैनग्रन्थमालासे प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके ‘समय-निरांय’ प्रकरणमें (पृ० १७) मैंने थी लेविस राइस साहबके उक्त मनुमान पर इस आशयकी आपत्ति की थी कि उक्त शिलालेखमें ‘ततः’ या ‘तद्वन्वय’ आदि शब्दोके द्वारा सिहनन्दीका समन्वयभद्रके बादमें होना ही नहीं सूचित किया बल्कि कुछ गुरुवोका स्मरण भी क्रमरहित आगे पीछे पाया जाता है, जिससे शिलालेख कालक्रमसे स्मरण या क्रमोल्लेखकी प्रकृतिका मालूम नहीं होता, और इसके लिए उदाहरणरूपमें पात्रकेसरीका श्रीविकलदेव और श्रीवर्द्धदेवसे भी पूर्व स्मरण किया जाना सूचित किया था । मेरी यह आपत्ति स्वामी पात्रकेसरी और उन श्रीविद्यानन्दको एक मानकर की गई थी जो कि अष्टमहस्ती आदि ग्रन्थोके कर्ता हैं, और उनके इस एक-व्यक्तित्वके लिये ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ ग्रन्थ तथा वादिचन्दसूरिका ‘ज्ञानसूर्योदय’ नाटक और ‘जैनहितंसी’ भाग६, अक ६, पृ० ४३६-४४० को देखनेकी प्रेरणा की गई थी; क्योंकि उस समय प्रायः इन्ही आधारोपर समाजमें दोनोका व्यक्तित्व एक माना जाता था, जो कि एक भारी भ्रम था । परन्तु बादको मैंने ‘स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द’ नामक अपने खोजपूर्ण निबन्धके दो लेखो-

१ यथा:—योऽस्ती धातिमल द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-स्तम्भन-

ध्यानासिः पट्टुरहंतो भगवत्सोऽस्य प्रसादीकृतः ।

छात्रस्वापि स मिहनन्दि-मुनिना नो चेतक्य वा शिला-

स्तम्भोराज्य-रमागमाज्ज्व-परिषस्तेनासिलाङ्गोधनः ॥६॥

द्वारा १ इस फैल हुए भ्रमको दूर करने हुए यह स्पष्ट करके बतला दिया कि स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्दका व्यक्तित्व ही नहीं, किन्तु अन्यसमूह और समय भी मिल है—पात्रकेसरी विद्यानन्दसे कई शताब्दी पहले हुए हैं, अकलकदेवसे भी कोई दो शताब्दी पहले के विद्वान् हैं, और इसलिये उनका अस्तित्व श्रीवद्गदेवसे भी पहल का है। और इसीसे अब, जब कि सम्बन्ध-प्रकाश-जैसे ग्रन्थकी पोल खुल चुकी है, मैंने उक्त तीनों शिलालेखोंकी मौजूदगीको लकर यह प्रतिपादा किया है कि उनसे श्री राहस साहबके अनुमानका समयन होता है, वह ठीक पाया गया और इसीसे उसपर की गई अपनी आपत्तिको मैंन कभीका वापिस ल लिया है।

जब स्वय कोशुणिवर्माका एक प्राचीन शिलालेख शक सवत् २५ का उपलब्ध है और उससे मालूम होना है कि कोशुणिवर्मा वि. स. १६० (ई० सन् १०३) म राज्यासन पर आरूढ़ थे तब प्राय यही समय उनके गुरु एवं राज्यके प्रतिष्ठापक सिहनन्दी आचार्यका समझना चाहिये, और इसलिये कहना चाहिये कि सिहनन्दीकी गुरु परम्परामे स्थित स्वामी समन्तभद्राचार्य अवश्य ही वि० सवत् १६० से पहल हुए हैं, परन्तु कितन पहले, यह आभी अप्रकट है। किर भी पूर्वीवर्ती होन पर कम से कम ३० वर्ष पहले तो समन्त-भद्रका होना मान ही निया जा सकता है, क्योंकि ३५ वे शिलालेखमे सिहनन्दीसे पहले आर्यदेव, वरदत्त और शिवकोटि नामके तीन आचार्योंका और भी उल्लेख पाया जाता है जो समन्तभद्रकी शिष्यसम्पादनमे हुए हैं और जिनके लिये १०—१० वर्षका औसत समय मान लेना कुछ अधिक नहीं है। इससे समन्तभद्र निविचितरूपसे विक्रमकी प्राय दूसरी शताब्दीके पूर्वाधिके विद्वान् छहरते हैं। और यह भी हो सकता है कि उनका अस्तित्वकाल उत्तराधमे भी वि० स० १६५ (शक म० ६०) तक चलता रहा हो, क्योंकि उस समयकी स्थितिका ऐसा बोध होता है कि जब कोई मुनि आचार्य-पदके योग्य होता था तभी उसको आचार्यपद दे दिया जाता था और इस तरह एक आचार्यके समयमें उनके कई

* ये दोनों लेख इस निबन्धमध्यमे अन्यत्र पृ० ६३७ स ६६७ तक प्रकाशित हो रहे हैं।

शिष्य भी आचार्य हो जाते थे और पूष्करूपसे अनेक मुनि सधोंका शासन करते थे, अथवा कोई कोई आचार्य अपने जीवनकालमें ही आचार्य-पदको छोड़ देते थे और सधका शासन अपने किसी योग्य शिष्यके सुपुर्द करके स्वयं उपाध्याय या सानु परमेष्ठीका जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी स्थितिमें उक्त तीनों आचार्य समन्तभद्रके जीवन-कालमें भी उनकी सन्तानके रूपमें हो सकते हैं। शिलालेखोंमें प्रयुक्त अवृर्त्त शब्द 'ततः' वा 'तदनन्तर' जैसे अर्थका बाचक है और उसके द्वारा एकको दूसरेमें बादका जो विद्वान् सूचित किया गया है उसका ग्रभिप्राय केवल एकके मरण और दूसरेके जन्मसे नहीं बल्कि शिष्यत्व-प्रग्रहण तथा आचार्य-पदकी प्रति आदिकी हृष्टिको लिये हुए भी होता है और इस लिये उस शब्द-प्रयोगसे उक्त तीनों आचार्योंका समन्तभद्रके जीवन-कालमें होना आवित नहीं ठहरता। प्रत्युत इसके, समन्तभद्रके समयका जो एक उल्लेख शक सबत ६०(वि.स १६५)का—समवत्.उनके निघनका—मिलता है उसकी सगति भी ठीक बैठ जाती है। स्वामी समन्तभद्र जिनशासनके एक बहुत बड़े प्रचारक और प्रसारक हुए हैं, उन्होंने अपने समयमें श्रीबीरजिनके शासनकी हजार गुणी वृद्धि की है, ऐसा एक शिलालेखमें उल्लेख है, अपने मिशनको सफल बनानके लिये उनके द्वारा अनेक शिष्योंको अनेक विषयोंमें खास तौरसे सुशिक्षित करके उन्हें अपने जीवनकालमें ही शासन-प्रचारके कार्यमें लगाया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, और इससे चिह्नन्दी जैसे धर्म-प्रचारकी मनोवृत्तिके उदारमना आचार्यके अस्तित्वकी समावना समन्तभद्रके जीवनकालमें ही अधिक जान पड़ती है। अस्तु ।

ऊपरके इन सब प्रमाणों एवं विवेचनकी रोशनीमें यह बात असन्दर्भ-रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान् थे—भले ही वे इस शताब्दीके उत्तराधार्ममें भी रहे हो या न रहे हो। और इस लिये जिन विद्वानोंमें उनका समय विक्रम या ईसाकी तीसरी शताब्दीसे भी बादका अनुमान किया है वह सब भ्रम-मूलक है। डाक्टर केंवी० पाठकने अपने एक लेखमें समन्तभद्रके समयका अनुमान ईसाकी आठवीं शताब्दीका पूर्वाधार्मिक द्वारा किया था, जिसका युक्ति-पुरस्तर निराकरण 'समन्तभद्रका समय और डा० केंवी० पाठक' नामके निबन्ध (न १८) में विस्तारके साथ

किया जा चुका है और उसमें उनके सभी हेतुधोको असिद्धादि दोषोंसे दूषित सिद्ध करके निःसार ठहराया गया है (पृ० २६७-३२२)।

डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने, अपनी 'हिंस्टरी आफ दि बिडियावले स्कूल आफ इन्डियन लॉगिक'में, यह अनुमान प्रकट किया था कि समन्तभद्र ईसवी सन् ६०० के लगभग हुए हैं। परन्तु आपके इस अनुमानका कथा आधार है अथवा किन युक्तियोंके बलपर आप ऐसा अनुमान करनके लिये बाध्य हुए हैं यह कुछ भी सूचित नहीं किया। हाँ, इससे पहले इतना ज़रूर सूचित किया है कि समन्तभद्रका उल्लेख हिन्दू तत्त्ववेत्ता 'कुमारिल'ने भी किया है और उसके लिये डा० भाण्डारकरकी सस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान विषयक उस रिपोर्टके पृ० ११८ को देखनेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख इस लेखके शुरूमें एक फुटनोट-ढारा किया जा चुका है। साथ ही यह प्रकट किया है कि 'कुमारिल' बोद्ध तार्किक विद्वान् 'धमकीर्ति' का समकालीन था और उसका जीवनकाल आम तौर पर ईसाई ७वी शताब्दी (६३५से ६५०) माना गया है। शायद इतने परसे ही—कुमारिलके ग्रन्थमें समन्तभद्रका उल्लेख मिल जाने मात्रसे ही—आपने समन्तभद्रको कुमारिलसे कुछ ही पहलेका अथवा प्रायः समकालीन विद्वान् मान लिया है, जो किसी तरह भी युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। कुमारिल-ने अपने इलोक्वानिकमें, अकलकदेवके 'अष्टृशती' ग्रन्थपर, उसके 'आङ्गाप्रधाना-हि ...' इत्यादि वाक्योंको लेकर, कुछ कटाक्ष किये हैं कि, जिससे अकलक-के 'अष्टृशती' ग्रन्थका कुमारिलके सामने मौजूद होना पाया जाता है। और यह अष्टृशती ग्रन्थ समन्तभद्रके 'देवागम' स्तोत्रका भाष्य है, जो समन्तभद्रसे कही शताब्दी बादका बना हुआ है। इससे विद्याभूषणजीके अनुमानकी निःसारता सहज ही व्यक्त हो जाती है।

इन दोनों विद्वानोंके अनुमानोंके सिवाय ५० सुखलालजीका, 'ज्ञानविन्दु' की परिचयात्मक प्रस्तावनामें, समन्तभद्रको जिना किसी हेतुके ही पूज्यपाद (विक्रम छठी शताब्दी)का उत्तरवर्ती बतलाना और भी अधिक नि सारताको लिये हुए है—वे पूज्यपादके 'जैनन्द्र' व्याकरणमें 'चतुष्टुयं समन्तभद्रस्य' और कुछ दस्तावेजों के प्रोफेसर के ० बी० पाठकका 'दिग्म्बर जैनसाहित्यम् कुमारिल-का स्थान' नामक निबन्ध।

'बेच्चे: सिद्धसेनस्य' इन दो सूत्रोंके द्वारा समन्तभद्र और सिद्धसेनके उल्लेखको जानते-मानते हुए भी सिद्धसेनको तो एक सूत्रके आधार पर पूज्यपादका पूर्ववर्ती बतला देते हैं परन्तु दूसरे सूत्रके प्रति गज-निमीलन-जसा व्यवहार करके उसे देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं और समन्तभद्रको यो ही चलती कलमसे पूज्यपादका उत्तरवर्ती कह डालते हैं। साथ ही, इस बातको भी मुला जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामे वे पूज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला भाए हैं और यह लिख भाए हैं कि 'स्तुतिकाररूपमे प्रसिद्ध इन दोनों आचार्योंका उल्लेख पूज्यपादने स्पष्टने व्याकरणके उत्त सूत्रोंमे किया है उनका कोई भी प्रकार-का प्रभाव पूज्यपादकी कृतियों पर होना चाहिये, जो कि उनके उत्त उत्तरवर्ती कथनके विरुद्ध पड़ता है। उनके इस उत्तरवर्ती कथनका विशेष ऊहापोह एव उसकी नि सारताका व्यक्तीकरण 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामक निबन्धके 'सिद्धसेनका समयादिक' प्रकरण (पृ० ५४३-५६६) मे किया गया है और उसमें तथा सिद्धसेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन' नामक प्रकरण- (पृ० ५६६-५८५) मे यह भी स्पष्ट करके बतलाया गया है कि समन्तभद्र न्यायावलार और सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनोंसे ही नहीं, किन्तु प्रथमादि द्वा त्रिशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनोंसे भी पहले हुए हैं। 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथमद्वात्रिशिकामे सिद्धसेनने 'अनेन सर्वज्ञपरीक्षणात्मास्त्रविय प्रसादाद्यसोत्सवा रिथतः' जैसे वाक्योंके द्वारा सर्वज्ञपरीक्षकके रूपमे स्वय समन्तभद्रका स्मरण किया है और अन्तिम पद्ममें 'तथ गुणकथोक्ता वयमपि' जैसे वाक्योंका साथमें प्रयोग करके वीरस्तुतिके रचनेमें समन्तभद्रके अनुकरणकी साक्ष सूचना भी की है—लिखा है कि इस सर्वज्ञ-द्वारकी परीक्षा करके हम भी आपकी गुणकथा करमें उत्सुक हुए हैं।

समयका अन्यथा प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंके अनुभानादिककी ऐसी स्थितिके समन्तभद्रका विकल्पकी दूसरी अथवा इसाकी पहली शताब्दीका समय और भी अधिक निर्णीत और निविवाद हो जाता है।

परिशिष्ट

१. काव्यचित्रोंका सोदाहरण परिचय

समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या (ले० २०) से सम्बद्ध काव्य-चित्रोंके कुछ उदाहरण अपने-आपने काव्यके साथ यहाँ दिये जाते हैं, जिससे उनके विषयका यथेष्ट परिज्ञान हो सके । साथमें चित्रोंका ठीक परिचय प्राप्त करनेके लिये चर्चारी सूचनाएँ भी दी जा रही हैं । इन सबको देनेसे पहले वित्राऽलङ्घार-सम्बन्धी कठिपय सामान्य नियमोंका उल्लेख कर देना प्रावश्यक है, जिससे किसी प्रकारके अमको अथवा चित्रभङ्ग की कल्पनाको कही कोई ग्रबकाश न रहे—

(१) “नाऽनुस्वार-विसर्गौ च चित्रभङ्गायसंमतौ ।”

‘अनुस्वार और विसर्गका अन्तर होनेसे वित्राऽलङ्घार भग नहीं होता ।’

(२) “यमकादौ भवेदैक्यं डलो रलो वृवांस्तथा ।”

‘यमकादि अलङ्घारोमे ढ-ल, र-ल, और व-बमें अभेद होता है ।’

(३) यमकादि वित्रालङ्घारोमें अन्य अभेदोंकी तरह कही कही श-ष और न-ण में भी अभेद होता है, जैसा कि निम्न संग्रह इलोकसे जाना जाता है—

“यमकादौ भवेदैक्यं डलयो रलयोर्वबोः ।


शषयोर्णणयोर्च्छान्ते सविसर्गाऽविसर्गयोः ।


सविन्दुकाऽविन्दुकयोः स्यादभेद-प्रकल्पनम् ॥”

(१) मुरजबन्धः

श्रीमदिजनपदाभ्याशां प्रतिपदागसां जये ।

कामस्थानप्रदानेशां स्तुतिविद्यां प्रसाधये ॥ १ ॥





ये सामान्य मुरजबन्धके दो चित्र हैं। इनमें पूर्वार्धके विषमसंख्याक (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५) अक्षरोंको उत्तरार्धके समसंख्याक (२, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६) अक्षरोंके साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे इलोकका पूर्वार्ध और उत्तरार्धके विषमसंख्याक अक्षरोंको पूर्वार्धके सम संख्याक अक्षरोंके साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे उत्तरार्ध बन जाता है। इस प्रकार के अन्य इलोक ग्रन्थमें निम्नप्रकार हैं—

२, ६, ७, ८, ९, २१, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४५, ४६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, ८४, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५।

(२) अर्धभ्रम-गृद्धपश्चार्द्धः

विद्या ये श्रितयेतात्म्या यानुपायान्वरानताः।

येपापा यातपारा ये श्रियायातानतन्वत् ॥ ३ ॥

१	धि	या	ये	श्रि	त	ये	ता	त्व्या	८
२	या	तु	पा	या	न्व	रा	न	ता	७
३	ये	पा	पा	या	त	पा	रा	ये	६
४	श्रि	या	या	ता	न	त	न्व	त	५

इसी प्रकार ४, १८, १६, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४, ५६, ६०, ६२,
इलोकोंको जानना । (३) गतप्रत्यागतादः

भासते विभुवास्तोना ना स्तोता भुवि ते समाः ।

याः श्रिताः स्तुत गीत्या तु नुत्या गीतस्तुताः श्रिया ॥ १० ॥


भा	स	ते	चि	भु	ता	स्तो	ना
याः	श्रि	ताः	स्तु	त	गी	त्या	तु

इस कोष्ठकमे स्थित इलोकके प्रथम-तृतीय चरणोंको उलटा पढ़नेसे क्रमशः
द्वितीय-चतुर्थ चरण बन जाते हैं । इसी प्रकारके इलोक न० ८३, ८८, ९५ हैं ।

(४) गर्भे महादिशि चैकाक्षरश्चतुरक्षरश्चकर्शलोकः

नन्द्यनन्तद्वयनन्तन नन्तेनन्तेभिनन्दन ।

नन्दनर्द्धिनम्रो न नम्रो नष्टोभिनन्द्य न ॥२२॥




यह इलोकके प्रथमाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुया चार आरोहाला वह चक्रवृत्त है जिसकी चार महादिशाओंमें स्थित चारों आरोके गन्तमें भी वही अक्षर पड़ता है । अन्त और उपान्तके अक्षर दो दो बार पढ़े जाते हैं । २३, २४ नम्बरके इलोक भी ऐसे ही चक्रवृत्त हैं ।

(५) चक्रश्लोकः

वरगोरतनुन्देव वन्दे तु त्वाञ्याञ्जर्जव ।

वञ्जर्यार्ति त्वमार्याव वर्यामानोरुगौरव ॥२६॥




एव ५३, ५४ इलोकों

यह इलोकके प्रथमाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुया चार आरोहाला चक्रवृत्त है । इसके प्रथमादि कोई कोई अक्षर चक्रमें एक बार लिखे जाकर भी अनेक बार पढ़नेमें आते हैं । ५३, ५४ नम्बरके इलोक भी ऐसे ही चक्रवृत्त हैं ।

(६) अनन्तरपाद-मुरजबन्धः

अभिषित्त सुरैर्लोकैस्त्रिभिर्भक्त परैर्न कै ।

वासुपूज्य मयीशोशस्त्व सुपूज्य कयीदृश ॥४८॥




इस चित्रमें श्लोकका एक चरण आपने उत्तरवर्ती चरणके साथ मुरजबन्ध-
को लिये हुए है । ऐसे दूसरे श्लोक न० ६४, ६६, १०० पर स्थित हैं ।

(७) यथेष्टैकाक्षरान्तरित-मुरजबन्धः

क्रमतामक्रम चेम धीमतामच्यमश्मम् ।

श्रीमद्विमलमर्चेमं वामकाम नम ज्ञमम् ॥ ५० ॥



मुरजबन्धके इस चित्रमें ऊपरके चित्रसे पह विशेषता है कि इसमें अपना-
हृष्ट अक्षर (३८) एक एक अक्षरके अंतरहै पदके नारो ही चरणोंमें वर्णाकर-

प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। इस प्रकारके दूसरे श्लोक ८६ और ६१ हैं।

(८) अनुलोमप्रतिलोमेकश्लोकः

नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर।
रक्ष मामतनुगामी जराहा मलपातन ॥ ५७ ॥

न	त	पा	ल	म	हा	रा	ज	भा	त्या	नु	त	म	मा	क्ष	र
---	---	----	---	---	----	----	---	----	------	----	---	---	----	-----	---

इस कोष्ठकमे स्थित पूर्वांश्चो उल्टा पढ़नसे उत्तराद्दं बन जाता है। इसी प्रकार श्लोक न ० ६६, ६८ भी अनुलोम-प्रतिलोम क्रमको लिये हुए हैं।

(९) बहुक्रियापद द्वितीयपादमध्य-यमकाऽतालुव्यञ्जनाऽवर्णस्त्वर-
गृद्वितीयपाद सर्वतोभद्रः

पारावाररवारापारा ल्लमाक्ष ल्लमाक्षरा ।
वामानाममनामावारक्षे मर्द्द्वर्द्दमक्षर ॥ ५८ ॥

पा	रा	वा	र	त	वा	रा	पा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
र	क्ष	म	दं	दं	म	क्ष	र
र	क्ष	म	दं	दं	म	क्ष	र
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
पा	रा	वा	र	द	वा	रा	पा

इस कोष्ठकमे ऊपरका श्लोक चारों ओरसे पढ़ा जाता है।

(१०) गतप्रत्यागतपाद पादाभ्यास-

यमकश्लोक

वीरावारर वारावी वररोहरुरोख ।

वीरावाररवारावी वारिवारिवारि वारि वा ॥ ८५ ॥

इस कोष्ठकम स्थित प्रत्येक वरणोके पूर्वांचको उल्टा पढ़ने से उसका उत्तरांश बन जाता है । यह इलोक दो अक्षरों (व र) से बना है । इसी प्रकारके इलोक नं० ६३ ६४ है ।

बी	रा	वा	र
व	र	रो	स
बी	रा	वा	र
वा	रि	वा	रि

(११) अनुलोम प्रतिलोम इलोकयुगलम्

रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुरुचानुत ।

भा विभानशनाजोरुनश्चेन विजरामय ॥ ८६ ॥

र	क्ष	मा	क्ष	र	वा	मे	रा	श	मो	चा	रु	चा	तु	त
मा	वि	भा	न	रा	ना	जो	रु	न	श्चे	न	वि	ज	रा	मय

इस कोष्ठकम स्थित इलोकको उल्टा पढ़नसे नीचे लिखा ८७ वा इलोक बन जाना है —

यमराज विनश्चेन रुजानाशन भो विमो ।

तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर ॥ ८७ ॥


य	म	रा	ज	वि	न	श्चे	न	रु	जा	ना	श	न	भा	वि	भो
त	नु	चा	रु	रु	चा	मी	शा	श	मे	या	रु	क्ष	मा	क्ष	र

इस कोष्ठकम स्थित इलोकको उल्टा पढ़नसे पूरका ८६ वाँ इलोक बन जाता है । इसीसे इलोकका यह ज्ञेय अनुलोम प्रतिलोम कहलात है ।

(२) इष्टपादवलय-प्रथमचतुर्थसंसाम


वलयैकाक्षर-चक्रवृत्तम्

नष्टाहान मलोन शासनगुरो नम्न जनं पानिन
नष्टस्त्वान सुमान पावन रिपुनप्यात्मुनन्धासन ।
नत्येकेन रुजोन सज्जनपतं नन्दज्ञनन्तावज
नन्दहन्हानविहीनघामनयनो नः स्तात्पुनम्सज्जिन ॥१११॥



इस चक्रवृत्तके गर्भमें जो अक्षर है वही छहो आरोके प्रथमचतुर्थ और क्षत्रम् वलयमें भी स्थित है अत १६ वार लिखा जाकर २८ वार पढ़ा जाता है । ११२ वाँ पद्म भी ऐसा ही है ।

(१३) कवि-काव्य-नामगम्भीर-चक्रवृत्तम्
 गत्वैकस्तुतमेव बासमधुना तं येच्छुतं स्वीशते
 यज्ञान्यैति सुशार्म पूर्णमधिका शान्तिं ब्रजित्वाभ्वना ।
 यद्वक्त्या शमिताकृशाघमर्जुं तिष्ठेज्जनः स्वालये
 ये सद्गोगकडायतीव यजते ते मे जिनाः सुश्रिये ॥११६॥



इस चक्रवृत्तके बाहरसे ७ वें वलयमें 'शान्तिवर्मकृत' और चौथे वलयमें 'चिनस्तुतिशत पदोकी उपलक्षित होती है, जो कवि और काव्यके नामको लिये हुए हैं। कवि और काव्यके नाम विना इस प्रकारके हूसरे चक्रवृत्त ११०, ११३, ११५, ११५ नं. के हैं।

२ स्वयम्भू-स्तवन-छन्द सूची

२१वे निबन्धसे सम्बद्ध स्वयम्भूस्तोत्रके हनवन-क्रमसे छन्दोंके नाम और लक्षण निम्न प्रकार हैं—एक स्तवनके पश्च यदि एकसे अधिक छन्दोंमें है तो उन पदोंके क्रमानुसार छन्द-नामके पूर्वमें वे दिये गये हैं। और जिस छन्दका लक्षण एक बार किसी स्तवनमें आचुका है उसकी सूचना ‘उपर्युक्त’ शब्दके साथ उस स्तवन-नम्बरको वे किट के भीतर देकर की गई है—

१. वशस्थ—प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण, रगणके क्रमको लिये हुए द्वादशाक्षर (५,७) वृत्तका नाम ‘वशस्थ’ है।
२. उपजाति—इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवज्ञाके चरण-मिशणमें बना हुआ छन्द ‘उपजाति’ कहलाता है।
३. १,४ इन्द्रवज्ञा, २ उपेन्द्रवज्ञा, ३,५ उपजाति—प्रतिचरण तगण, तगण, जगण और अन्तमें दो गुणके क्रमको लिये हुए एकादशावण्ठीत्यक वृत्तको ‘इन्द्र-वज्ञा’ कहते हैं और यदि चरणारम्भमें गुणके स्थान पर लघुप्रक्षर (जगण) हो तो वही ‘उपेन्द्रवज्ञा’ हो जाता है। दोनोंके मिशणसे बना ‘उपजाति’।
४. वशस्थ—उपर्युक्त (१)
- ५ १-४ उपजाति, ५ उपेन्द्रवज्ञा—उपर्युक्त (२), (३)
- ६-६. उपजाति—उपर्युक्त (२)
१०. वशस्थ—उपर्युक्त (१)
- ११ १,४,५ उपजाति, २, ३ उपेन्द्रवज्ञा—उपर्युक्त (२) उपर्युक्त (३)
१२. १,३,४ उपजाति, २, उपेन्द्रवज्ञा, ५ इन्द्रवज्ञा—उपर्युक्त (२), (३)
- १३-१४. वशस्थ—उपर्युक्त (१)
१५. रथोद्घता—रगण, नगण, रगण और लघु-गुण क्रमको लिये हुए एकादश-वण्ठीत्यक-चरण-वृत्तका नाम ‘रथोद्घता’ है।
१६. उपजाति—उपर्युक्त (२)

१७. वसन्ततिलका—तगण, भगण, जगण, जगण और मन्त्रमें दो गुरुके क्रमको लिये हुए चतुर्दश-वर्णार्तिमक(६,६) चरणावृत्त का नाम 'वसन्ततिलका' है।

१८ १,१८ पथ्यावक्त्रशत्रुघ्नुप्—शत्रुघ्नुपके प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर होते हैं, जिनमें ५वाँ लघु, ६ठा गुरु और ७वा अक्षर समचरणों (२,४) में लघु तथा विषमचरणों (१,३) में गुरु होता है। और जिसके समचरणों में चार अक्षरोंके बाद 'जगण' हो उसे 'पथ्यावक्त्र-शत्रुघ्नुप्' कहते हैं।

१९, २० सुभद्रिकामालती-मिश्र-यमक—नगण, नगण, रगण और लघु-गुरुके क्रमको लिये हुए एकादशवर्णार्तिमक चरणावृत्तका नाम सुभद्रिका है और नगण, जगण, जगण, रगणके क्रमको लिये हुए द्वादशाक्षरात्मक चरणावृत्तका नाम 'मालती' है। इन दानोंके चरण-मिश्रणसे बना हुआ छन्द 'सुभद्रिका-मालती-मिश्र-यमक' कहा जाता है।

१६. वानवासिना—जिसके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राएँ और उनमें ६वीं तथा १२वीं मात्रा लघु हो उसे 'वानवासिना' त्रृण्ड कहते हैं।

२० वैतालीय—जिसके प्रथम तृतीय (विषम) चरणोंमें १४ और द्वितीय चतुर्थ सम) चरणमें १६ मात्राएँ हाती है तथा विषम चरणोंमें ६ मात्राएँ और अन्य समचरणोंमें ८ मात्राओंके बाद क्रमशः 'रगण' तथा लघु गुरु होते हैं उसे वैतालीय यवत्त भक्ति है।

२१. गङ्गारिणी—प्रत्येक चरणमें यगण, भगण, तगण, सगण, भगण और ८२ गुरु भ्रमको लिये हुए भसदश (६,११) वर्णार्तिमक वल्का नाम 'गङ्गारिणी' है।

२२. उद्गता—जिसके प्रथम चरणमें क्रमशः सगण, जगण, सगण और लघु, द्वितीय चरणमें नगण, सगण, जगण और गुरु, तृतीय चरणमें भगण, नगण, जगण और लघु गुरु तथा चौथे चरणमें सगण, जगण, सगण, जगण और गुरु हो उसे 'उद्गता' वृत्त कहते हैं।

२३. वैरास—वैरास (१)

२४. विष्वामित्र/विष्वामित्र—जिसके विषम चरणोंमें १२-१२ भ्रमके लघु

चरणोंमें २०-२० मात्राएँ होती हैं उसे 'आव्यागीति' अथवा 'स्फक्षक' बुला कहते हैं।

गण-जगण—ग्राढगणोमें सिसके आदिमे मुरु वह 'भगण,' जिसके मध्यमें गुरु वह 'जगण,' जिसके अन्तमें मुरु वह 'सगण,' जिसके आदिमे लघु वह 'यगण,' जिसके मध्यमें लघु वह 'रगण,' जिसके अन्तमें लघु वह 'तगण' जिसके तीनों वर्ण मुरु वह 'मगण' और जिसके तीनों वर्ण लघु वह 'नगण' कहलाता है। लघु एकमात्रिक और गुरु द्विमात्रिक होता है।

३. अर्हत्सम्बोधन पदावली

स्वामी समन्तभद्रन अपने स्वयम्भूष्टोत्रमें तीथद्वार अर्हन्तोऽ लिये जिन विशेषणपदोका प्रयाग किया है उनका एक सग्रह स्तवन-क्रमम् 'समन्तभद्रका स्वयम्भस्तोत्र' नामक निबन्ध (२१)में दिया गया है और उसके दनमें यह हृष्ट अप्रुद्ध की गई है कि उसमें अहन-स्वरूपपर अच्छाप्रकाश पड़ा है और वह नय-विवक्षाके माथ अथपर हृष्टि रखते हुए उन(विशेषणपदो)का पाठ करनेपर महज ही अवगत हो जाना है। यहापर उन सम्बाधन पदोका स्तोत्र क्रमसः ॥वा॒त्र सग्रह दिया जाना है जिनमें स्वामीजी अपने इष्ट अहन्तोत्तराको पुकारत थे आर जिन्हे स्वामीजीने अपने स्वयम्भू॒द्वागम, युत्त्वनुशासन और स्तुतिविद्या नामके चार उपलब्ध श्लोकोंमें प्रयुक्त किया है। इसमें भी अहन्त्यरूपपर अच्छाप्रकाश पड़ता है और वह नय विवक्षाके साथ अथपर हृष्टि रखते हुए पाठ रखनपर और भी मामने आजाना है। साथ ही, इसमें पाठकोत्तो समन्तभद्रकी चित्तवृत्ति और रचना-चातुरीका कितना ही नया एवं विशेष अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा। स्तुतिविद्याके अधिकाश सम्बोधनपद तो बड़े ही विचित्र, अनुठेगम्भीर तथा अथगौरवका लिये हुए जान पड़ते हैं और वे सब मस्कृतभाषापर समन्तभद्रके एकाधिपत्यके सूचक हैं। उनके अर्थका कितना ही आभास पाठकोत्तो स्तुतिविद्याके उम्म अनुबाद परसे हो सकेगा जो बीरसेवा-मन्दिरसे प्रकाशित हुया है। शेष मम्बोधनपदो का अथ सहज ही बोधगम्य है। एक स्तोत्रमें जो सम्बोधनपद एकसे अधिक बार प्रयुक्त हुए हैं उन्हें उस स्तोत्रमें प्रथम प्रयोगके स्थानपर ही पदाङ्कुके साथ ग्रहण

किया गया है और अन्यत्र प्रयोगकी सूचना ब्रेकटके भीतर पश्चाल्लोको देकर की गई है। स्तुतिविद्याके सम्बोधनपदोंको स्तवनक्रमसे (स्तवनका नम्बर पैरेश्वार्फ-के शुरूमें ही देते हुए) रखला गया है और उनके स्थानकी सूचना पश्चाल्लो-द्वारा पश्चासम्बन्धी सम्बोधनपदोंके अन्तमें तथा ब्रेकटके भीतर उन्हें देकर की गई है।

१. स्वयम्भूमें प्रयुक्त पद—नाथ १४ (२५, ५७, ७५, ८६, १२६), आर्य १५ (४८, ६८), प्रभो २० (६६), सुविष्णु ४१, अनष्ट ४६, जिन ५० (११२, ११४ १३७, १४१), शीतल ५०, मुनीन्द्र ५६ (८५), महामुने ७० और ७४ (६०, ६४), जिनवृष्ट ५५, अरजिन १०४, वरद १०५, कृतमद-निप्रह ११२, यते ११३, धीमत् ११७, भगवन् ११७, वीर १३६, मुनीश्वर १३८, मुमुक्षुकामद १४१, देव १४३।

२. देवागममें प्रयुक्त पद—नाथ ८, मुनीन्द्र २०।

३. युक्त्यनुशासनमें प्रयुक्त पद—जिन २ (४, ६, ३०, ३४, ५२, ६४) वीर ३३, जिननाग ४४, मुने ५८।

४. स्तुतिविद्यामें प्रयुक्त सम्बोधनपद—

(१) नतपीलासन, अगोक, सुमनः, कृषभ ५; आर्य (२६, ४७, ५४, ८८ ६२) ८; मृत १०, ईड्य, महोरुगुरवे १२; अतानिततोतोते, ततोततः १३; येयायायाययेयाय, नानानूनाननानन, प्रमम (६३), अभिराततीतिततीतितः १४; महिमाय, पश्चायासहितायते १५।

(२) सदक्षर, अजर (८३, ११२), अजित, प्रभो (२७) १६; सदक्षराज-राजित, प्रभोदय, तान्तमोह १७।

(३) वामेश (८६, ८८, ९८), एकार्च्च, संभव १६; जिन (२३, ६१, ६२), अविभ्रम २०।

(४) अतमः, अभिनन्दन (२२, २३, २४) २१; नन्दनन्तद्वर्धनन्त, इन (२४, २५, ७५, ८६, ८८, ९१, १०८, १११) २३; नन्दनस्वर २४।

(५) सुमते, दातः (६६) २५; देव (२८, ८३), अक्षयार्जव, वर्य (५४,

६८, ११०), अमानोरुग्नीरव २६।

(६) अपापापदमेयश्रीपादपद्म, पदप्रभ, मतिप्रद २७; विभो (८६, ८७), जैय (७५, ८५), ततामित २८।

(७) एकस्वभाव ३५; शशिप्रभ ३६।

(८) अज (४४, ४६, ८६) ३७; नायक, सप्तजर ३८; अव्याखे, पुष्पदन्त, स्ववत्पते ३९; और (६३) ४०।

(९) मूतनेत्र, पते ४१।

(१०) तीर्थदि ४३; अपराग (४७), सहितावार्य ४६; श्रेयन्, विदार्यसहित समुत्सन्नजव ४७।

(११) वामुपूज्य ४८।

(१२) अनेन: (१०८) ५२; नयमानक्षम, अमान (६३), आर्यातिनाशन उरो, अरिमाय ५३।

(१३) वर्णाभ, अतिनन्दा, वन्द्य, अनन्त, सदारव, वरद, (११०), अतिन-तार्याव, अतन्तसभारण्व ५४; नुशानृत (१०६), उन्नत, अनन्त ५५।

(१४) अबाघ, दमेनद्व, मत, धर्मप्रभ, गोष्ठन, ग्रनागः, धर्म, शर्मतमप्रद ५६; नतपाल, महाराज, गीत्यानुत, अक्षर (८४, ८६, ८९, ११२), मलपातन ४७; नाथ ६०; देवदेव ६२; स्थिर (८६), उदार ६३; इडित, भगो: ६४।

(१५) बलाद्य ६६; अधिपते ७०; बुधदेव ७१; सगतोहीन ७२; स्वसमान, भासमान, अनष्ट ७६।

(१६) अनिज ८१; नतयात, विदामीश, दावितयातन, रजसामन्त, असन्त-मस ८३; पारावाररवार, क्षमाक्ष, वामानाममन, ऋद्ध (१०८) ८४।

(१७) वीरावार, अर, वरर, वीर ८५; चाहृचानुत, अनशन (६१), उहनम्र, विजरामय ८६; यमराज, विन्द्रेन, रुजोनाशन, चाहृचामीश ८७; स्वयं, स्वयमाय, आवंस्वमायन, दमराज, ऋतवाद, नदेवातंजरामद ८८; रक्षार अवर, शूर ८९।

(२०) हानिहीन, धनन्त (१११), ज्ञानस्थानस्थ आनतनन्दन ६१; पावन
अवितर्गोत्तेजः, वर, नानाग्रत, अक्षते, नानाशर्चर्य, सुबीतागः, तुनिसुद्रत ६२।

(२१) नमे, धनामनमनः, नामनमनः ६३; न, दयाभ, कृतवागोच्च, गो-
वार्तंभयादंन, धनुकुत, नतामित ६५, स्वय, मेघ, श्रिया नुतयात्रित, दान्तेश,
शुद्धाऽमेय, स्वर्णीत ६६।

(२२) सद्वश, अमेय रुग्गो, यमेश, उद्यतसतानुत ६८।

(२३) ममतातीत, उत्तममतामृत, ततामितमते, तातमत, प्रतीतमृते, अमित
१००।

(२४) वामदेव, क्षमाजेय, श्रीमते, वद्धमानाय नमोन (१०४) १०३, श्रीम
१०४, सुरानत १०७, वर्द्धमान, श्रेय १०८, नानानन्तनुतान्त, तान्तितनिनुत,
तुन्नान्त, नूतीनेन, नितान्तनानितनुते, नूनीननितान्ततानितनुने, निनूत, नुतानन
१०६, वन्द'हप्रवलाजवजवभयप्रधवगिगोप्राभव, वर्द्धिष्ठो, विलसदयुणागंव,
जगन्निवर्गिहेतो, गिव, वन्दीभूनममनदेव, प्राङ्गकदक्षस्तव, एकवन्दा, अभव ११०;
नष्टाज्ञान, मलोन, ज्ञामनगुगो, नष्टग्नान, मुमान, पावन, भामन, नत्येकेन, रजोन,
सञ्जनपते अवन, सञ्जजन १११, रम्य अपारयुग, अरज, सुवर्वरचर्य, श्रीष्ठर
रथून, करतिद्वर, भासुर, मर्य, उत्तरदीवर, शरण्य, आधीर, मुषोर, विद्वर,
मुरा ११२, तेजःपते ११४।



नामाऽनुक्रमणी

अवसर्क ३२६, ४६४, ४६५, ४७३, ४७४, ४७५ ५२७, ५३०, ५५५, ५८२, ६४१, ६४२, ६४४,	अजितसेनाचार्य १६५ १६८, ३५७, अजितजय ५६६
अकलकश्मयत्रय ३२४, ३२६, ३२७, ३२८	अटक (पञ्जाब) १७३
अकलंकचरित ४४१, ५४५, ६५६	अनगारधर्ममूर्त ७१
प्रकलकदेव ६८ १६०, १७५, १८२, १८३, १८७, २०७, २२७ २५३, २५९, २६०, २७३, २७५, २७५, २७८, २७९, २८८, २९४ ३०८, ३०७, ३०८ ३०९, ३११, ३२१, ४७०, ४७७ ५०२, ५४१ ५४४, ५४५ ५५१, ५६५, ५८१, ५८१, ६१३, ६२५, ६२८, ६२९ ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५८, ६६३, ६६४, ६६६,	अनन्तबीर्य ४६७ ४८१, ५८२, ६५३, ६७७, अनुत्तरायपाददशाग ४६४ ६६७
अग्निरोग-नष्टवच्छेद-द्वात्रिशिका	अनुप्रेला (कार्तिकय) ४६२
अग्नेकालजयपताका १६६, २६६,	अनुयागहारसूत्र ७३४
अग्निनभूत ६८	अनकाळ (मासिक) ४५ ४६ ४७, १०१, १२१ २४५ २४३ ३४६, ३५२, ४४६, ५६६, ५८८, ५९२, ४७३, ४७४, ४७७, ४८२, ४८७, ५५८, ५७७, ५८७, ६५८
अग्निराज ४६४	अनसर्पिज ६८०, ६८१
अच्युतराय ६४३	अनश्चदेश द३
अजातशत्रु ४२	अनश्योग-नष्टवच्छेद-द्वात्रिशिका २८२
अजित (तीर्णकर) ६७	अपराजित द४
अजित (इहा) १६५	अमयचन्द्र २८१
अजितनाथ ७३	अभयचन्द्र (सिद्धान्तचक्रवर्ती) २८०

अभयचन्द्र (सूरि)	२८०	अष्टपाहड	६६३
अभयचन्द्र (संदान्तिक)	२८१	अष्टशनी १८३, २५६, २६०, २७३,	
अभयदेव	४४१	२७५, २९४, ३००, ३०७, ३६२,	
अभयदेवसूरि	५०४, ५१७, ५२६,	४७०, ५३०, ५६१, ६३८, ६३९,	
	५४५, ५८४	६४५, ६४६, ६५६, ६६६	
अभयसूरि	२८१	अष्टसहस्री १५३, १८७, १८८, १८९,	
अभिनव-धर्मसूरण	२८३	१९०, १९८, २०६, २५३, २५४,	
अभमचरित्र	५७२	२६०, २८५, २८६ २८७, २८८,	
अभरकोण	२८१	२९० २९१, २९२, २९३, ३०४,	
अमितगति	४८६	३०५, ३२४, ३२६, ३२७, ४७०,	
अमितगति (आचार्य) ३३, ३४, ३४७		६३७, ६३८, ६४६, ६६३	
अमृतचन्द्र	४०६, ४१४	अष्टसहस्री-तिष्ठण	५०६
अमृतचन्द्रसूरि	५०५, ५१३	अष्टसहस्री-विषमपद-तात्पर्यटीका १८२	
अमृतचन्द्राचार्य ६१, ६६०, ६६५,		असङ्ग	५४२
६६६,		आचाराङ्ग (सूत्र)	६६, ६०२,
अमोघवर्ष	३००	आचाराङ्ग-तियुक्ति	५१६
अम्बष्ट (वश)	६८०	आचार्य-भक्ति	६७
अध्यपार्य	२५३, २७१	आचार-वृत्ति	६७, ६८
अहंगलान्वय	६०३	आचारसार	६६
अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया	१५७	आत्मस्थापति (समयसार-टीका)	६६६
२२८		आत्मानन्दप्रकाश	५५१, ५५४
अर्ली हिस्टरी आफ डैक्कन	६८८	आत्मानुशासन	३००
अहंत्सूत्रवृत्ति	१०३	आत्माराम (उपाध्याय) १२८, १३४	
अहंदबली	१६१	आदिपम्प	४८६
अहंसुनि	५७४	आदिपुराण १६४, १६५, २४१, ४८६	
अलंकारचिन्तामणि	१५३, १६५	५६५, ५६५, ६३८, ६४०, ६४१,	
१६८, ३५७, ४६८ ..		६५६, ६६४,	
अदिनीत (गंगवंशी राजा)	५५६	आदिपुराणे (बहुत)	६६०

आनन्दपल्ली (आनन्दमठ)	२७०	आर्यमंगु	५७१, ५६३
आनन्दविक्रम	४०	आर्यमित्रनन्दि	४८५
आतपरीका १८६, २८७, २१०, २६१, २६३, ३२४, ३२५, ३२७, ६३७, ६४७ ६४८		आर्यरक्षित	५४६
आतमीमासा (देवागम) १५१, १८१, १८२, १८५, २०५, २५८, २६२, २७३, २८३, २८४, २८५ २८६, २९०, २९१, २९२, २९४, २९५, २९७, २९८, ३००, ३०४, ३०७, ३२६, ३२७, ३२८, ३३१, ३३२, ३३४, ३३५, ४२४, ४२५, ४३१, ४३४, ४३५, ४६३, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४२७ ५३०, ५६०, ६६१, ६४६,		आर्यवज्ज्ञ	५४६
आतमीमासालक्ष्मि (आष्टसहस्री) ६४८, ६८६		आहंत्रवचन	२८१
आर. एड एम.जी.नरसिंहाचार्य ६८६		आवश्यक-चूर्णि	५४७
आर. जी. भाण्डारकर ६८६		आवश्यक-टीका (हारिभद्रीया)	५४७
आराधनाकथाकोष १६६, २१२, २२२, २२८, २३१, २५४, ४८६, ४८७, ४७१		आवश्यक-नियुक्ति ७६, ५४६, ५५६, ५७७	
आर्यंखपुट्ट (ट)	५७१	आवश्यकसूत्र-टीका	२०२
आर्यजिननन्दिगणणी	४८५	आशाघर (पं०) ७१, ७२, १६८, २४८, २४९, २६३, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९४	
आर्यदेव २७५, ६६१, ६६२, ६६४		इडाचार्य	१०३
आर्यदेव(नागार्जुन-प्रधानकिष्ण्य) ३०६		इक्षकु	६८०
आर्यनागहस्ति	५६२	इडियन एण्टीबोरो	३०
आर्यमंगु ८७, ५६०, ५६२, ५६३, ६००, ६०१		इत्सङ्ग (चीनी यात्री) ५५१, ५५२	
		इन्द्रदिव्य (सूरि) ५७०, ५७१ ५७४, ५७५	
		इन्द्रनन्दि (नन्दी) ८०, ८१, ८६	
		इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार ८२, ८४, ८६, ८७, ८८, २६६, २७५, २७६, ५६८, ६००	
		इन्द्रनन्दी २७८, ३१७, ५६८, ६४४	
		इन्द्रदत्त	७५४
		इन्द्रपुर (बंगाल)	२३१
		इन्द्रघृति (गौतम) ६, १४, ६१, ६२, ८१, १६४, ३६२	

इन्द्रसेन	५७४	उरगपुर	१५३
हन्सिक पूर्णमंस ऐट् अवण्डेलगोल १६०, १७३, २७६, ५८३, ६८६		उरग्यूर (उरगपुर)	१५२, १५८
उग्र (बश)	६८०	ऊर्जयन्तगिरि	१०९
उग्रादिविगचार्य	२४१, ५१४	ऋषभ (तीर्थंकर)	७८
उच्चारणाचार्य	८८	ऋषभदेव	६७, ७३
उज्जय (यि नी ३८, १७४ ५७०, ५७१, ५७५, ५८३, ५८५		एकविश्वतिस्थानप्रकरण	५१४
उड्ड (उडीसा)	१७४, २४१	एकसंविसुमतिभट्टारक	६६१, ६६२
उत्तराध्ययन (सूत्र)	७६	एकान्तखण्डन	२६६ ३१३, ३१५,
उत्तराध्ययन-नियुक्ति	५४६	३२१, ५८२	
उदायी (राजा)	३८	एकीभाव (स्तोत्र)	३५८
उद्योनकर	३०१	ए० चक्रवर्णी (प्रो०)	२२६
उद्योननसूरि	५५३	एडवर्ड पी० राइस	६८६
उपसमग्रह-स्तोत्र	५४६, ५४७	ए.एन.उपाध्ये ४५, ४५, ३१५, ४६५ ५००, ६०१, ६५६	
उपालिमुत्त (मिथ्यमनिकायगत)	४२	एन्नल आफ दि भाण्डारकर ओ०	
उपासकाध्ययन (रत्नकरण)	४७१, ४८३.	रिसर्च इन्स्टट्यूट २६७, ५५८	
उमास्वाति १०२ १०५, १०८, १२१, १२५, १५६, २७१, २७५, २७६, २७७, २७८, २८३, २८८, २८९, २९१, २९४, २९५, ४६७, ५००, ५५६,		एपिएफिका कनाटिका १०७, १६६, १८६ ६५५, ६६१	
उमास्वाति (गृध्रपिच्छाचार्य)	३२३, ३२६	एलाचार्य	१०५, १५०
उमास्वाति (वाचक)	११७	ए. शान्तिराज	४५
उमास्वाति (वाचकमुख्य)	६८२	एस. बी. बेकेटेश्वर	४४
उमास्वामी	१०६, ६४२, ६६२	कटुसघ (काष्ठासघ)	३३
		कथाकोष (प्रभाचन्द्रकृत)	४६६
		कदम्ब (बश)	१५३, ६७०, ६७१
		कनकामर (मुनि)	५६८
		कमलशील	६५०, ६५२
		करकंडुचरित	५६८

नामाल्पुक्तमर्थी

५१६

करहाटक	१७४, २३६, २४१	कालवज्र (प्राम)	६७२
करहाड (कराड)	१७२	कालिकाचार्य	५४६
कर्णाटक-कविचरिते	१६२, १६३,	कालिदास (कवि)	१५२
२८१, ६८६		कावेरी (नदी)	१५२
कर्णाटक-शब्दानुशासन	१७४, २७५	काव्यानुशासन	३६०
५६३, ६८६		काशी	४८
करणमृतपुराण	५१५	काशीनाथ त्रिम्बकतेलंग	६६८, ६६९,
कर्मप्रकृतिप्राभूत	२६६, २७६, २८३,	काशीप्रसाद (के० पी०) जायसवाल	
२९३			५६६
कर्मप्राभूत-टीका	२६६, २७८	काशयप	३०८
कलापा भरमापा (पं०)	६५, २८८	कांची १५८, २२२, २२५, २२८,	
कल्कि	३०	२२९, २३०, २३१, २३४, २३७,	
कल्पसूत्र-स्थ विरावली	५६६ ५६८	५६३	
कल्याणाकारक (वंशान्वयन्त्र)	२६१, ५१४	कांचीपुर (कांजीवरम्)	१७३, २४१
कल्याणमन्दिर (मनोन्म)	३५८, ५१५,	काजीवरम् (कांची)	१५८
५१६, ५१७, ५२६, ५७०	५७१	किन्तूरान्वय	६०३
कल्याणविजय (मुनि)	४६, ४७, ४८,	कुण्डपुर	१
६०, ५६४, ५६५, ६८६		कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि)	८६, १०३, १२१,
कविपरमेश्वर	६३२	१६०, ४३६, ४६५, ४६६, ५०७,	
कसायपाहुड (कवयप्राभूत)	८६,	५६८, ५६९, ६००, ६०२	
८८, २६६, २७६, ४८७, ५८६,		कुन्दकुन्द स्वामी	६६३
५६०, ५६६, ६००		कुन्दकुन्दाचार्य	८६, ९६, ९६, ९६, १०२,
कंसाचार्य	८८	१०४, १५०, ३२६, ३३०, ४८०,	
काकूस्थवर्मा	१५६	५०४, ५५६, ५७६, ५८८, ६०२,	
काकुस्थान्वय	६७८	६०४, ६०५	
कातिकेय (मुनि)	४६३, ४६४	कुन्दकुन्दान्वय	६०३, ६०४
कातिकेयानुप्रेक्षा	४६३, ४६६	कुमारनन्दी	५००, ६२२
कालकूरि	५७०	कुमारसेन	५००

कुमारस्वामी	५००	कौण्डकुन्दपुर	८६, ६०३, ६०४
कुमारिल (मीमांसक विद्वान्) ३००,		कौण्डकुन्दपुरान्वय	६०५
३०२, ३२१, ६५६, ६६६		कौण्डन्य (गोप्र)	६२
कुमुदचन्द्र (आचार्य)	५१५, ५१६	कौशाम्बी	१७४
कुवलयमाला	५५३	क्रियाकलाप	२६३
कूणिक (अजातशत्रु)	३८, ३९	कौचराज	४६४
कृष्णदेव	६४३	क्षत्रियकुण्ड	१
कृष्णराजप्रभु	५०	क्षुलकबघ	८६
कृष्णराज (नरसिंहपुत्र)	६४२	क्षुप्ताचार्य	५७०
कृष्णराज तृतीय (मुम्मडिकृष्णराज ओडेयर)	५०	खिलोन्देउत्सव (तिब्बतका राजा)	६५२
कृष्णवर्मा	६६८	गदाकथाकोश	२५४, ४६६
के० बी० पाठक २१७, ३२४, ५६६, ६४६, ६४७, ६५८, ६५९, ६६७, ६६५, ६६६		गदाचिन्तामणि	१६६
के० भुजबली शास्त्री	४५	गदाप्रबन्धकथावली	५२०
केशवरर्णी	२८०	गर्दभिल (राजा)	३८
केशवसेन (सूरि)	५१५	गगदेव	८१
केशी	७६	गगवश	१५३, ६१०, ६१२
कैलाशचन्द्र शास्त्री	६५८	गधहस्ति महाभाष्य	२७१, २७२, २७४, २७६, २७७, २७८, २७९,
कोट्याचार्य	५४४		
कोण्डकुन्द	१०५	गिरिनगर (जूनागढ़)	१०६
कोण्डकुन्दपुर	६००	गुणचन्द्र	६०२
कोण्डकुन्दाचार्य	८६, १५०	गुणचन्द्राचार्य	६०२
कोण्ठन	६४२	गुणघर	८८, ५६६
कोशल (देश)	२२२	गुणघराचार्य	८७, ५८७, ५८८, ५९१, ५९८, ६००, ६०८
कोमुणिकर्मा	६६०, ६६४		
कोण्डकुन्दान्वय	६०	गुणभद्र	३००

नामांकुकमणी		७१६	
मुण्डरता	५१४	चन्द्रनन्दी	६२२
मुण्डवर्म	२७७	चन्द्रपुर	२३१
मुलुणवट्टिविका	५७५	चन्द्रप्रभ	६४४
मुवावली	६६, ५६६, ५६७, ५६८	चन्द्रप्रभवरित	२५३
मुधपिच्छाचार्य (उमात्वाति)	१०२,	चन्द्रप्रभसूरि	५१८
	१०५, १०७, १०८, १५०, १५६,	चन्द्रवरदाई	४१
	१६४, २६०, ६६२, ६७८	चन्द्रायपट्टण (तालुका)	१८६
गेहसोप्ये	१५०, ६४३	चरक	२१३
गोमा (कदन्ववशशास्त्रा)	६७०	चर्चासिमाधान	१६६
गोतम (गोत्र)	८१	चडप्रद्योत	३८
गोमटसगहसुत्त	६०७	चामराजनगर	५१
गोमटसार	२८०, ५८७, ५८८	चामुण्डराय २७६, ४६३, ४८३, ६४४	
गोमटसार कर्मकाण्ड	६२६	चारितपाहुड	६२, ६६०
गोबर्द्धन	८१	चारित्र-भक्ति	७२, ६६
गोशालक (मंसलोपुत्र)	४२	चारुकीर्ति	१६४
गौतम,	६२, ८२, ६४२	चाहमान चण्डमहामेन	३४
गौतम (गणघर)	६०४	चूणिसूत्र द८, ५८६, ५८०, ५८१	
गौतमस्वामी	८८	चेटक (राजा)	१
गौरीशकर हीराचन्द्रजी ओझा	४१	चेलना (रानी)	८
चण्डग्याकरण	४६६	छेदसूत्र	५४७
चतुरविजय (मुनि)	५४७, ५६५	जगन्नाथ	३७६
चतुर्मुख (कल्कि)	५६६	जटामिहनन्दी (आचार्य)	३६०
चतुर्विषतिसधान	३७६	जम्बूदीपप्रज्ञति	६२२
चन्द्रगुप्त (सम्राट्)	३८, ३६, ४०	जम्बूविजय (मुनि)	५५१, ५५४
	४२, १७३	जम्बुस्वामी	८१, ८७
चन्द्रगुप्त (मुनि)	१५६	जम्बूस्वामिचरित	५५
चन्द्रगुप्त (भद्रबाहुशिष्य)	६०४	जयकीर्ति	६४४
चन्द्रनगर	२३१	जयवन्द	५६६

६० जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश

जयचन्द्रराय	२६१	जिनसेन २०७, २५१, २५२, ३६१,
जयनन्दी	४८६, ४८८	६३१, ६३५, ५०४, ५६५, ५६७,
जयनन्दि-टिप्पणी	४८०	५८२, ५८५, ६६४
जयधवल	८, ८१, ८७, ८८	जिनसेनाचार्य २७, द८. १६४, १६५,
जयधवला ५६८, ५८६, ५८०, ५८१,		१६१, ११२, २४१, २५३, २६१
५१३, ६०१, ६३१, ६८७		५६७ ६५७
जयन्तभट्ट	५५३	जिनसेनाचार्य (पुस्तकरीय) २६८,
जयपाल	८२	२६५
जयबाहु	८२	जिनस्तुतिगतक (स्तुतिविद्या) २००
जयमेन (समयसार-टीकाकार)	८१,	२०३, ३४१
४६३		जिनेन्द्र कल्याणाम्युदय १५६, १६८,
जयमेनाचार्य ६४, ६१, २६६, ५०५		१६६ २७२ २७७
जवाहरलाल जास्त्री	२८३	जिनेन्द्रगुणमस्तुति ६३६, ६४६
जबूदीवयष्ट्युत्ती	५६५	जियालाल (ज्योतिषरत्न)
जाल चार्टेटियर ३६, ३७, ३८, ४८		५१
जिनकाल (महावीरनिवारण)	३५	जीतकल्पचूर्णा ५०२, ५१४
जिनचन्द्र	६४४	जीर्वामद्वि १६०, २६८, ३५१
जिनदासपाश्वनाथ फडकुले १५३ १६६		जीवरथान ८८
२७०		जीवाभिगम ६८२
जिनपालित	८५	जृमभक्त (ग्राम) ४, ५, ५७, ५८
जिनप्रभमूरि	५१५	जैनगजट (हिन्दी) ४५
जिनभद्रगणी	५४६	जैनगजट (अंग्रेजी) २६४
जिनभद्रक्षमाश्रमण ५३०, ५४४,		जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह ३७६
५४५, ५४६		जैनग्रन्थावली ११८, ११९, २६५
जिनविजय २०२, २०६, २६१,		२६७, ४६६, ५१४, ६४६
२६६, ५४५, ५४३, ५८२		जैनजगत ५५८, ६०१
जिनशतक २०१, २५६, ३४५, ३५६		जैनसहिताशास्त्र ५०
जिनशतकालकार २६३, ३४१		जैनसाहित्य और इतिहास २४७, २४८
		५३४, ३५४, ५८८, ५६४, ५६८

जैनसाहित्यनो सक्षित इतिहास ११८,	५८२	तत्त्वरत्नप्रदीपिका (तत्त्वार्थतात्पर्यवृत्ति)
जैनसाहित्यसंशोधक	२६६	१०६
जैनसिद्धान्तभवन (धारा) १५२, २७६,		तत्त्वसम्बन्ध ३०१, ३०४, ५४० ५५०
२६२, २६४, २६८, ३५६, ५६४		तत्त्वानुकासन २६५, २६६, २६७,
६४३		३१०
जैनसिद्धान्तभास्कर १००, १०७ १६०,		तत्त्वार्थभाष्य २७६, ४६३
३२४, ३२७, ५८८, ५६६, ६०६		तपागच्छ-पट्टावली ५६४, ५६५, ५७०
जैनहितीयी १०७, १५४, २६१, २६५,		५७१, ५८३, ६८६
२६६, ५८७, ६३७, ६६३		तपागच्छ-पट्टावलीसंक्षेपता ५७०
जैनाचार्योंका शासनभेद	५७६	त्रात्यानेमिनाषपागल ६४१, ६५६
जैनेन्द्रियाकरण २४५, २६८, २६६,		तित्त्योयालि पश्चनय ५३,
३१६ ३२०, ४६६, ५४६, ६६६		तित्त्योगालिप्रकीर्णक ५४७
जैसलमेर-भण्डार	५४५	तिलमकुड्लुकरसीपुर १६१ १७५
जोइन्टु (योगीन्टु)	४६५, ५६६	तिलोयपण्टी ३०, ६५, ८२, ८७
ज्ञात (कुल-वस्त्र)	६८०	१०१, ६८६, ५६२, ५६३, ५६४,
ज्ञातलठ (वन)	४	५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ६०६,
ज्ञानार्णव	१६४	६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५,
ज्ञानविन्दु ५२५, ५२६, ५३०, ५३१,		६२०, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५,
५३३, ५३४, ५४७, ६६६		६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०,
ज्ञानसूर्योदयनाटक ६४१, ६४४, ६४७		६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३६,
६५६, ६६३		
ज्ञानेश्वर	५१	तिलोकसार (तिलोकसार) ५९५
टी० ए० गोपीनाथराव	४७१	तुम्हाराचार्य २७५
टीडरमल	५०	त्रिपर्वत ४७३
ठळ (पञ्जाब)	१७२, २४१	त्रिलक्षणकदर्शन ५४०, ६४६, ६५०,
दक्ष (डाका)	१७३	६५२, ६५३, ६५४ ६५७
खात (नात) वस्त्र	२	त्रिलोकप्रकृति ३१, ५२, ५३, ५८६,

विसोकसार	२६, २७, २८, ३०, ३१, ४७, ४८, ५०, ५५, ५८६, ५९५, ६०७, ६१४	वामोदर (कवि)	२६३
विसोकसार	४०	वावस्योरे (तालुका)	१६६
विसोकसारटीका	२७	दिगम्बरमहात्मणुसब	६७२
विहंसा (कहावीरमाता)	१	दिव्याग ३०१, ३०२, ३०८, ६१२, ३१३, ५३६, ५४१ ५४२	५७४
विष्णुविकल्पपुरुष	२७६	दिवाकरयति	४२
विष्णुविष्णुलाकामध्यात्मुराण	४६३	दीर्घनिकाय	४२
विशिकाविज्ञतिकारिका	३०६	दीपवश	४२
वोस्सामियुवि	६७	दुर्विनीत राजा)	५५६
दक्षिणमधुरा	३३	दुलीचन्द (बाबा)	३५४
दयापाल	४६५	देवगिरि (तालुकाकरजघी)	६६८
दरबारीलाल (कोठिया) ३२३, ४३१,		देवनन्दी (पूज्यपाद) २४५, २५०, २६६ ३१६, ३२३, ४६२, ४६५, ५७६, ५८१	२४५, २५०,
४३२, ४६३		देवदिगणी	६५
दर्शन (वसण) पाहुड ६६०, ६६३		देवदर्मा (कृष्णदर्मा पुत्रका) ६७३, ३७४	
दर्शनविजय	५७०	देवसेनगरी	३४
दर्शनसार	३४, ८६ ५६०	देवसेनसूरि	५५०
दर्शनसुख मालविण्या	५४८	देवसेनाचार्य	८६
दर्शनपुर (मन्दसौर) १७४, २३१ २३३,		देवागम (आत्मीमासा १६८, २०१ १८८, १६३ २२६, २४५, २४७, २४८, २५०, २५१, २५५ २५८,	
दर्शनपुराकर	२४१	२५१, २७२, २७३, २७४, २७८, २८३, २८६, २८४, २८५, ३५८,	
दर्शनमति	६६६	३५८, ३६१, ४०६, ४१४ ४६२,	
दर्शनमृत्यादिशास्त्र	६४३	४६३, ५११, ५२८, ५६५, ५६८	
दर्शनविकल्पटीका (विजयोदया)	४८८	६२२, २५८, २६८, २६९, २७१	
दर्शनवृणि	५६६	२७२, २७३, २७४, २७५, २७६	
दर्शनमृतस्त्र	५४६	२७६, २७७, २७८, २७९, २८०	
दर्शनपाहुड	६२	२८०, २८१, २८२, २८३, २८४	
दामकीर्तमीजक	६७२	२८५, २८६, २८७, २८८, २८९	

नामानुक्रमणी

७२३

देवागमस्तोत्र	६४६	धर्मसेन	८१
देवीगणा	१६०, ६०२, ६०४	धर्मवित्य	३८
दीर्घली जिनदाम शास्त्री	१५१	धर्मोत्तर (बोद्धाचार्य)	५३८, ५५२
द्रमिल (द्राविड़)	८५	धबल (सिद्धान्त)	८, २७, ५३, ६३
द्रमिलसच	१६१, ६५५	धबला (टीका)	८१, ८७, ८८, ८९८
द्रविडदेश	१५८	५८६, ६०६, ६११, ६१३, ६१४,	
द्रविडसच	३३ ५६०, ६५६	६२१, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८,	
द्रव्यसंग्रह	२५६, २८१, ६४०	६३२, ६३३, ६३४, ६३५	
द्वात्रिशद् द्वात्रिशिका	५१५, ५१७	धारा (नवरी)	३४
५१८, ५२२, ५२३, ५२६, ५७३		धृतिवेण	८१
द्वात्रिशिका	५२६ ५२७ ५३४, ५६२,	धौलपुर	३४, १७४
५६३		धूबुर्षेन	८२
द्वात्रिशिकापचक	५२२	नक्षत्राचार्य	८२
द्वात्रिशिका स्तुति	५७२	नगरताल्पुका	१०७, २२६, २७४,
द्वादशार नयचक	५५०	२७५ ६१२	-
द्विलधान	३७६	नन्दराजा	३८
द्वैषावक	२८८, २८९	नन्दवक्ष	३९
घनपाल	३३	नन्दिगण	१६०
घनजय (कवि)	३१४, ६४४	नन्दिमित्र	८१
घनजय नाममाला	४६६, ५०१	नन्दियड (तट)	३३
घरसेन	८३, ८८, ५६६	नन्दिसच	३४, ५४
घरसेन भट्टारक	८३, ८५	नन्दिसच-भट्टावली	१०८
घरसेनाचार्य	८२, ८४	नन्दीबृत्ति	५३०, ५३१, ५४५
घरसेनाचार्य (बोद्धविद्वान्)	२६८ ३००	नन्दीसूत्र	५३१
३०१, ३०६, ३१२, ३१५ ३२०, ५३८		नन्दीसूत्र भट्टावली	५६८
५३६, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५,		नन्दीबृहन (नरवाहन)	३८
६५६, ६६६,		नयचक्र	५१३ ५५१, ५५४, ५३८
घरसेनाचार्य (पालाचार्य)	२८३, ५४५	नयनन्दी	२२७

नरवर (सेनापति)	६७२	निर्वाणभक्ति	६७
नरसिंह (राजा)	६४२	निकीचबूर्णि	५६६
नरसिंह	३५५, ३५६	निष्वयद्वात्रिशिका ५३२, ५३३	५३४,
नरसिंहवर्मन	२२६	५३५, ५३६, ५३७	
नरसिंहवर्मन (द्वितीय)	२२६	नीतिवाक्यामृत	५८७
नरसिंह 'महाकवि	३५४	नीतिसार	३१७
नरसिंहाचार एमो ए०	१७३	नीतिसारपुराण	५१४
नुरेन्द्रसेनाचार्य १६१, २६१, ४६३		नृपाल (गुरु)	६४३
नर्मदाशकर मेहताशकर	३०८	नेमिचन्द्र	६४४
नंजनगूडताल्लुके	६६०	नेमिचन्द्र (वसुनन्दिगुरु)	२२७
नोइल्ल	३८	नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती	२६
नागचन्द्र	१५०	नेमिदत्त २३४ २३८, २३९, २४४,	
नागराज	१६३, १६५	२३४, ६५६	
नागराज (कवि)	३६२	नेमिदत्त-कथाकोश	४६८, ६३८
नागरीप्रचारिणीपत्रिका	४१	नेमिसागर (वणी)	२२२, २२४
नागसेन ८१, २६५, ३१०		न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रयटीका)	
नागहस्ति ८७, ५६०, ५६६, ६००,		६६, ७०, ३२४, ३२५, ३२७,	
६०१		३२८, ५५३, ६५८	
नागाचार्य	८१	न्यायकुमुदचन्द्रोदय	६५३
नागाञ्जुन ३०४, ३०६ ३०८		न्यायदोषिका	१६८, २८३
नाघराम प्रेमी ४५, ४७, १००, ११२,		न्यायप्रवेश ३०१, ३०७, ३०८, ५३८	
२३३, २४५, २६७ ३५४, ५६८,		न्यायबिन्दु ३०१, ५३८, ५३९, ५५२	
६३७, ६४०		न्यायमजरी	५५३
नालन्दाविष्वविद्यालय	६५२	न्यायवार्तिक	३०१
नाहू	३८	न्यायवार्तिकटीका	३०१
निगठनातपुत	४२, ४३	न्यायविनिष्वच्य	६२८
नियमसार ६१, २४६, २६६, ५५६,		न्यायविनिष्वच्यविवरण ३१७, ३१८,	
५६८, ६०१, ६०७, ६०८		५६५, ५४१	

न्यायविनिवेद्यालंकार	६४६, ६५०	पल्लालाल (साहित्याचार्य)	३५७
न्यायावतार	२४६, ३१४, ५०४, ५१४, ५१५, ५१७, ५१८, ५२३, ५२६, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५३३, ५३४, ५३५, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३ ५४२, ५४४, ५४५, ५६३, ५६६, ५६८, ५८५, ६१७	पम्प-रामायण	१७४
पट्टावली	३५, ८२, १६, १०३, १०५, ६८९	परमागमसार	६०४
पट्टावलीसमुच्चय	५७०, ५७१, ५८३	परमात्मप्रकाश	४६६, ४६८
पट्टावलीसारोदार	५७१, ५८२	परमेष्ठवरवर्णन्	२२६
पट्टुवस्ति भडार (मूढविद्रा)	२६८	परिशिकृपद्य	३८, ५४७
पष्टुवण्णाणा	६८१	परीक्षामुक्त	३११
पतञ्जलि (ऋषि)	३१३	पल्लव (वस)	१५३
पत्र परीक्षा	१८६, ६३७, ६४८	पवयणसार (प्रवचनसार)	२७५
पध्नवरित	४८१, ५७४	पवसुह(परमेष्ठि)भृत्य	६७
पध्नवरित-ठिप्पण	४८८	पञ्चवस्तु	५१३, ५६८
पध्नपत्ति (कुन्तकुन्त्याचार्य)	८८, १०३, १५०, १५६ ६०४, ६२२, ६४४	पञ्चिद्वानिका	५४७
पथप्रभ (भलघारिदेव)	६१, २४६, २६६, ५६८, ६०१	पञ्चमेलठर	६२
पथानमन	६४३	पाइयलस्थीनाममाला	३३, ३४
पथावती	२२४	पाइयसद्महम्मणवकोश	५८७, ५८८
पथावती देवी	६५०	पाटिक (ग्राम)	५६३
पल्लालाल (वाक्तीवाल)	२४७, ३५५	पाटलिपुत्र (पटनालगर)	१८२, १७३, २४१
		पाठकबी (के. बी. पाठक)	३१६,
		३२०	
		पाण्डाराष्ट्र	५८३
		पाण्यनीय व्याकरण	३२०
		पाण्डुस्वामी	८२
		पादलिताचार्य	५४६, ५७४
		पात्रकेसरी ११४, ३००, ३०२, ३०७, ३२१, ३२२, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४४, ६४५,	

६४६, ६४८, ६४९, ६५०, ६५२	पुण्याक्षरक चम्पू	१६३
६५४, ६५५, ६५६, ६५७,	पुरातत-जैनवाक्य-सूची	६२६
६५७	पुराणमार	४८६
पालकेसरी स्वामी ४१४ ५३८, ५४०,	पुरुषार्थिद्वयपुराय ४०६, ४१४, ५१६	
५४३, ५५६, ६४७, ६५१ ६५७	पुण्यदल्ल(शाचार्य) २६६, २७५, ६२४	
पालकेसरीमित्रा व ६३७, ६४०, ६४६,	पुण्यदत्त कवि	४८८
६५७	पुण्यदत्तपुराण	५५, ५६
पालक	पुण्यमित्र	३८
पालमुर	पूजयणाद (देवनन्दी) २२०, २८४,	
पालवर्णनाथ ३१ ७३, ७४, ७६, ७८	२६६ ३१३ ३१४ ३१५, ३१६,	
पालवर्णनाथ-गेह (मन्दिर)	३१६, ३२०, ३२१, ३२६, ३२७,	
पालवर्णनाथवरित १६२, १६३, १६६,	३२८, ३२९, ३३०, ३३६ ३३८,	
२४५, २४८, २५२, ४६२, ४६३,	३३६, ४०६, ४३६, ४६५, ४७४,	
४६५ ४६७, ५०५, ५६१, ५८२	४७५, ४८६, ५४६, ५५४, ५५५,	
पालवर्णनाथतीर्थकर	५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०,	
पालवर्णनाथ द्वाविशिका (कल्याणमन्दिर-	५२८, ६४४, ६८६, ६९७	
स्तोत्र) ५१६, ५१५	पूज्यबादाकार्य २, ६६, ७२, ८२,	
पालवर्णन स्वामी	६६, ११०, २६८, २८६, ३२१	
पिटर्सन साहब	पूज्यीराजरास	४१
फौ० एल० र्मैथ ५०४, ५१७, ५५२	पेन्ड्रोटोसपाहृ (कवायप्राभुत) ८६,	
पुण्ह (पुण्ड्रवर्णनगर)	८७, ५६१	
पुण्ड्रनगर (बगालका उत्तरदेश) १७४,	पेन्नोण्डे	२७७
२३७	प्रकरणपचाशती	१०७
पुण्ड्रनगर (पुण्ड्रवर्णन)	प्रक्रियासग्रह	२८०, १८२
पुण्ड्रेश्	प्रज्ञापनासूत्र ७८, १३८, ६८२, ६८७	
पुण्यदाक	प्रकाशकीर्ति	५६८
पुण्यविजय (लंड० गुप्ति) ५४४,	प्रदूसनकुमार	६३०
५४६, ५६५, ५७४	प्रदूसनसूरि	५७२

नाम	उक्तपात्री	उमेर	
प्रभावकोश (चारुकिशालिप्रबन्ध)	५१६,	३०८	
५२१	प्रभावपाद	३०८	
प्रदत्तनित्यामणि	५१५	६६	
प्रभावन्द ६१ ६६, ६७ १५०, २३४, २४७ २४६, २५१ २५४, ३००, ३०६ ३१२, ३२१, ४३७, ५८७, ६४४, ६४८	५६०	प्रभावपृष्ठवली	५४
प्रभावन्दाचार्य ७३ २०२, २४८, २४६ ३५८, ३६०, ४६६, ४७१, ४७२ ४७५, ४७६, ५५२, ५५३	५६०	प्रभाव अयाकरण	२६७
प्रभावन्द (भट्टारक)	२४८	प्रियकारिणी (महावीर गाता)	१
प्रभावन्दसूरि	५१५	प्रेक्षीकी (१० नाथुराम)	२४८, २५०
प्रभावकवरित २३८, २३९ ५१५, ५१७, ५१८, ५२०, ५२१, ५२२, ५२६ ५२७	२५४, २५७, ६०१, ६०४, ६०५, ६०६ ६०७, ६४१, ६४५		
प्रभावाकलिका	२६६	प्रोटूची ५४१, ५४२	
प्रभाव-पदार्थ	२६८	प्रोक्तेसरसाहब (हीरालाल) ४३३, ४३४, ४३५, ४६२ ४६४, ४६६, ४६८, ४७२, ४७३, ४७४ ४८२,	
प्रभावपरीक्षा १८६, ६४७, ६४८ ६५०	प्रोत्तुल ८१		
प्रभावविनिश्चय	२६८, ३०४	फाहियाल १७१	
प्रभावविहेतना	३०८	फूलबन्द शास्त्री १४०, ५८८, ६०९	
प्रभावसुन्दर्य ३०१, ३०२, ३०८, ५३८	वामस्वामित्यविचय ८६		
प्रभालक (प्रभालकर्ण)	५८४	वामवई गजेटियर १६२	
प्रभेषकमलमार्तण्ड २४७, २४८, २५४, ३१०, ३११, ३१२, ३२४, ६४८	वासवन्दि ६२१		
प्रभवनसार ६०, ३३०, ५०४, ५३८	वलमिकि ३८		
प्रभवनस (रोडारकी दृति	५४८	वलाकपिच्छ (गण्ड) १६७	
		वलसमीपुर ३५	
		वाल्याम्भुत्येत्ता ६२, ४४६	
		वालचन्द २८१ २८८	
		वालचन्दल्येत्त ६१, ६२२	
		वालचन्दमुनि १०८, १११	
		विज्ञानी ६४२	

भी० भट्टाचार्य	६५२	भद्रबाहुमुतेकेवली	७६, १३, १५६,
भुद्वदेव	१०	५४६, ५४७, ६०२	
भुद्वनिवारणि	३२, ४७, ४१, ४२	भद्रबाहुसहिता	२४६, ५४७
भुद्वित्त्वा	८१	भद्रबाहुस्तामी	८०, ६११
भुद्विसागराचार्य	५८५	भ्रोच	८५
भूहस्तवनमस्कार	६४०	भृंगहरि २६६, ३००, ३०२, ३०६,	
भूहत्यदर्शनसमुच्चय	५१४	३११, ३१२, ३१३, ५५१, ५५२,	
भृहतस्वर्यमूस्तोत्र	२६०	५५६	
बेचरतास ५०१, ५०३, ५०४, ५१५,		भाइलका	३८
५१६, ५१७ ५२४, ५७५, ५८२		भानुमिथ	३८
बेल्सूरताल्लुके	१८६, २४३, ६५५	भारतचम्पू	४८९
बेल्सूरलज्जनसंघ	६४२	भारतीयविद्वा ५२५, ५४८, ५६४,	
बोधपाहुड ६२, ६०२, ६०६		५७६	
बूहुदेव	२३४, ६४०	भावत्रिभगी	६०४
भगवती आराधना २७५ ४८४, ४८५		भावपाहुड	६३, ४६६, ६६०
४८७, ४८४, ४९५, ४९६, ६२२		भावप्रकाश	२१३
भगवती आराधनाठीका (सस्कृत) ४६०		भावविजयगणी	७६
प्राकृत ४१०		भावसग्रह	२८१
भगवती सूत्र	४२	भावांशदीपिका	४८६, ४८७
भट्टाचार्य (कुमारिल) २६६, ३००		भीमलिंग (शिवालय)	२२२, २२५
भद्रबाहु ८१, १८६, ६०२, ६०३,		मुजगमसुधाकर	१५०
६४२, ६४४		मूष्ठरज्जनशतक	३४०
भद्रबाहु (द्वितीय) ६३, ४७२		मूत्रबली	८५, ८६, २७५, ५५६,
भद्रबाहु (नियुक्तिकार) ५४६, ५४७,		मोज (राजा)	३३
५४५, ५६५,		मोज (वस्त्र)	६८०
भद्रबाहु (भष्टगमहा निमित ज्ञाता		मोजदेव	२४८
५४६		मक्षलिपुत गोक्षाल	४३
भद्रबाहुपरित्र	२७५	भगव	३८

	नामाङ्कुमणी	उर्द्ध
अचिन्मतिकाय (बौद्धग्रन्थ)	४१	२८, ३१, ६०, ६३, ६७, ७३,
भस्तुवक हस्ती (प्राम) १७४, २१२,	२२२, २३८	८१, ६४२
महुरा	१५८	महावीर-द्वारिषिका
मध्यमा (नगरा)	५६, ६०, ६१	५१८
मन्दप्रबोधिका	२८०	महावीर-पट्टपरम्परा
मन्वसीर	५६६	५७०
मर्करा	६०४	महासेन (उत्तान)
मलयगिरि (टीकाकारण) ७८, २०२,	६८३, ६८४	५६
मलयगिरि (स्वेच्छा) ५०५, ५०६, ५४९,	५३१	महिमा (नगरी)
५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५६६	५८४,	५२
मल्लिमूष्ठण (भट्टारक)	२२८	महिमानगढ (प्राम जिला सतारा) ८२
मल्लिमूष्ठणप्रशस्ति १५४, १६६, २२४,	२३६, ५४०, ६४६, ६६०, ६६२	महेन्द्रकुमार (न्यायाचार्य) ३२४, ३२५,
मल्लिमूष्ठणसूरि	२८२	३२६-३२८, ५५३
महाकाली (स्वेच्छा) ५०५, ५०६, ५४९,	८१	महेन्द्रवर्मन्
५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५६६	८४	२२६
महाकाली-पाहुड	८४	मगराजकवि
महाकमप्रकृति प्राभृत	८५, ८६	१६७
महाकाल-प्रासाद	५७१	माघनन्दी २८१, २८५, ६२२, ६४४
महाकाल-मन्दिर	५७०	माणिकचन्द (सेठ)
महापुराण	६३२	२७१
महाबृष्ट	८६	माणिक्यनन्दी
महायानहोक्तग	६५२	६४४
महावक	४२	माधुरानन्द
महावार (मगराजा) १, ५, ७, ११,	१४, १५, १६, २३, २४, २६,	माधवचन्द्र-त्रैविष्णुदेव ५०, ५५
		मानध्यस (गोप्र) ६७१
		मायिदाबोलु २२६
		मालव (मालवा) २४१
		मालव (देश) १७२
		मिहिरकुल (राजा) ५६६
		मीमांसालोकवार्तिक ३००
		मुज (राजा) ३२, ३३
		मुनिचन्द्र २८०
		मूलसूष ६०, १०४, १५६
		मूलसूष (नन्दिसूष) ६०४

मूलाचार	६७, ७१, ७३, ७६, ७८,	मुक्त्यनुशासन	१८२ १८४, १८८,
	७९, १८, १९, ४१६		१६०, २०१, २६२, २६७,
मूलाराजना-वर्षंस्त्र	४८६, ४८७, ४८८,		२६४, २६५, २६७, २६८,
	४८८, ४९४		३०१, ३०४, ३३१, ३३२,
मूलेश्वरमा	१५६		३३४, ३३६, ३५६, ३६१, ३८१,
मूलेश्वरवर्षा (कदम्बराजा)	६७१		३६०, ४०६, ४१६, ४२१, ४२२,
मेघचन्द्र	६४४		४२३, ४२७, ४२८, ४६७,
मेहतु गाचार्य	२७, ३६, ५१५		४७८, ५६१, ५६४, ५६५
मैत्रेय	५४२	मुक्त्यनुशासनटोका	२६४, ६३७, ६४७
मोक्षपाहुड	६३, ४३६, ६६०	मुक्त्यनुशासनविष्टिका (मुक्तिषष्टिका)	
मोक्षपाहुड	६६३		३०४
मोहनलाल, दलीचन्द देशाई	५८२	मुग्धप्रधानप्रबन्ध	५७०
मोयंकण	३८	मोगदेव	२८८
मौलिक	६८०	मोगसार	४८६, ४८८
यतिवृषभ	१०१, ५६०, ५६१, ५६२,	मोगाचार्य-भूमिशास्त्र	५४८
	५६३, ५६५, ५६७, ५६८, ६००,	मोगाचार्य-भूमिशास्त्र और प्रक-	
	६०६, ६१५, ६२८	रणार्थवाचा (ग्रन्थ)	५४१
यतिवृषभाचार्य	६५, ८८, ५८७,	मोगि(अनगार)-भक्ति	६६
	६१५, ६३५	रगनगर	६४३
यक्षस्तिलक	४८३	रघुवंश	१५२
यशोदा	५७६	रत्नकरण्ड	१६३
यक्षोदयरचरित	१६४, २७५, ४७१	रत्नकरण्डक	२११, ३३६, ३३७,
यक्षोदय	८२		३३८, ४०८, ४१६, ४३३, ४३४
यक्षोदय	८२		४६७, ४७५, ४८०, ४८१, ४८२,
यक्षोदयित्य (उपाध्याय)	५०६, ५२६,		५५८
	५३५	रत्नकरण्डउपासकाव्ययन	२६४
यापनीयत्वं	६७४	रत्नकरण्डयावकाचार (समीक्षी-	
मुक्तिषष्टिका कारिका	३०४	षम्भास्त्र) १५०, २४३, २४५, २४६,	

नामांकुलसंख्या

पृष्ठा	
१८६	रामानुजाचार्य
६५५	रामनुजाचार्य-मन्दिर
५५३	राहुल साकृत्यायन
४६४	रोहेडक (स्थानविशेष)
५७४	लक्षणसेन
३११, ३१२	लक्ष्मीचर
५८२	लक्ष्मीभद्र
२७७	लक्ष्मीसेन (आचार्य)
३१५	लक्ष्मीसेन मठ
६२७	लघीयस्त्रय २८०, ६१३, ६२५, ६२७
१८२, २४६, २४७,	लघु समन्तभद्र १८२, २४६, २४७,
२८५, २६०, २६३	२८५, २६०, २६३
३०३, ३०६, ३२०	लंकावतारसूत्र
१७४	लानुश
३५५	लालाराम (प०)
६४	लिगपाहुड
१७३, २२४ ५६३,	लेविस राइस १७३, २२४ ५६३,
६८६, ६८०, ६८२	६८६, ६८०, ६८२
२६८	लोकनाथ (शास्त्री)
१५	लोकमान्य तिलक
५६०, ५६३	लोकविनिहचम
५६०, ५६३	लोकविमाण (प्राकृत)
५६४, ५६५, ५६७, ५६८, ६०१,	५६४, ५६५, ५६७, ५६८, ६०१,
६०५, ६०८	६०५, ६०८
५६४, ५६५,	लोकविमाण (सस्कृत) ५६४, ५६५,
६०७ ६०८, ६२०	६०७ ६०८, ६२०
८७	लोहज्ञ (लोहार्य)
१०३	राजेन्द्रमीलि
२७५	राघवन्तसूत्र
३२६	रामग्रसाद (शास्त्री)
३१०	रामसेन (आचार्य) २६५, २६७, ३१०
१६२, १७६	रामस्वामी आयगर

लोहाचार्य	८१, ८२, ८६, ८८	वादन्याय	५४२
बक्षशीव	१०५, १५०, ६५६	वादिचन्द्र (भट्टारक)	६४६
बख्तनन्दी	५६० ६५६	वादिचन्द्रसूरि	६३८, ६४३
बट्टेकेर (आचार्य-स्वामी)	६७, ६८, ७६, ८८, ९६, १०१	वादिवेसूरि	५६३, ५७२
बहुकेरि	१००	वादिराज १६४, १६२, १६३, १६८, ३१, ४६२-४६५, ४६७, ४७०,	
बहुमारण (भट्टारक)	६२, ६३, ८७	४७१, ५०५, ५६१, ५८२, ६४४	
बगंणा (आगमविद्योष)	७६	वादिगजसूरि २४५, २४८-२५३, २५४, २७४, ६४६, ६५०	
बनवासी (कदम्ब-बंधा-शास्त्र)	६७०	वादीभसिह १६६, ४६६	
बरगाव	३३	वायुमूर्ति ६२	
बरदत्त (आचार्य) ६६१, ६६२, ६६४		वाराणसी (काशी) १७४, १७५, २२८ २३०, २३१, २३६, २३७, २३९	
बरामधरित	१६५, ३६०	२४१	
बराहमिहर	५४६, ५४७	वासुपूज्य (कुरु) ६४४	
बर्द्धमान (जन-देव-स्वामी)	२, ३८, १६४, २२७, ६४४	विक्रमाकाल ४०, ५४	
बर्द्धमानसूरि	१६५	विक्रम-प्रबन्ध ३९	
बसन्तकीर्ति	६४४	विक्रमराज (जा) ३५, ३६, ४७, ५०, ५२, ५५	
बसुनन्दि-बृत्ति	२६२, २६३, ४६३	विक्रमराय ३३	
बसुनन्दी (सैद्धान्तिक-आचार्य)	६७, ६६, १५२, २०३ २२६ २५१, २५८, २५९, २६०, २६३, २७३, २७४, ३५५, ३५६, ६४४	विक्रम (शकाब्द) ५१, ५६	
बसुबन्धु (आचार्य)	३०३, ३०५, ३०६	विक्रम-सवत् २६, ३२ ३३, ३४, ३५ ३६, ३७, ४१, ५४	
बाक्यपदीय	३११, ३१२, ३१३, ५५१	विक्रमादित्य (गदंभिल्लपुत्र) ३८	
बागबंसज्जह-पुराण	६३२	विक्रमादित्यराजा ५७० ५७१	
बागभट	३६०	विक्रान्तकौरव (नाटक) १५६, १६६, २२५, २२६, २५३, २७२, २७४, २७५, २८८	
बाचस्पतिविष	३०१		

विचारणेणी (स्वविरावली) ३७, ३९ ५४	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२ २६७, २७३, २७४, २७६, २७१,
विजयधीकृष्णराय	६४३
विजयसिंहसूरि	५५२
विजयसेन	८१
विजयाचार्य	८१, ४१०
विजयानन्दसूरीष्वरजन्मशताब्दि- स्मारक ग्रंथ	५४७
विजयोदया (भगवतीग्रामाचना टीका) ४८७, ४८८, ६२२	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२ २६७, २७३, २७४, २७६, २७१, ३०२, ४११, ४२१, ४२४, ४२७, ४२९, ६८६
विदिशा वैदिश (दशार्थदेशकी राजधानी)	१७३
विदेह (वश)	६८०
विदेह (देश)	१
विदेहसेन	८१
विद्यानगरी	६४३
विद्यानन्द २०७, २२७, २८७, २८८ २६०, २६५, ३००, ३०६, ३११ ३१२, ३१६, ३२१, ३२४, ३२८, ४६४, ४६५, ४७० ४७३, ४७४, ४७५, ४८०, ४८३, ५२७, ५६५, ६२४, ६४२, ६४५, ६४७, ६४८, ६५२, ६५८, ६६७, ६६३, ६६४	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२ २६७, २७३, २७४, २७६, २७१, ३०२, ४११, ४२१, ४२४, ४२७, ४२९, ६८६
विद्यानन्द-महोदय	१८६, ६४८
विद्यानन्दस्तोत्र	६३६
विद्यानन्दस्वामी १०७, ३२१, ६४१, ६४४	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२ २६७, २७३, २७४, २७६, २७१, ३०२, ४११, ४२१, ४२४, ४२७, ४२९, ६८६
विद्यानन्दाचार्य १८२, १८८, १८८,	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२ २६७, २७३, २७४, २७६, २७१, ३०२, ४११, ४२१, ४२४, ४२७, ४२९, ६८६
विद्युष	८१
विद्युगोप (राजा)	२२६
विद्युयशेषर्मा (मालवाखिपति)	५८६

बिहार	६	शक-सवत् २८, २६, ३२, ३६, ३८	
विसेंट ए स्मिथ	१५७, २२८, २२९	४८, ४६	
बीरकवि	५५	शाकारि	५५
बीरजिनस्तोत्र (युक्तयनुशासन) ३५६,	४२१, ४२२	शाकटायन (जैन)	२६६, ३२०
बीरनन्दी (आचार्य) ६६, १६१	२६१ ६४४	शाकटायनव्याकरण	२६०
बीर-निराणी-सवत् २६, ३२, ३५,	३६ ४४, ४६, ४७, ४८	शाकसवत्सर	५४
बीरमेन (आचार्य) २७, ५३, ८७	५१३ ५६८, ५६०, ५९२ ६२१,	शाकयुग	६
बीरसेन स्वामी ६०६, ६११ ६१२,	६२८ ६३१, ६३५	शान्तरक्षित (बोद्धविद्वान्)	५४०
बीरिका (कथादास-माता)	३३	५५३, ६५०, ६५२	५
बुंडुनाल वश	६८०	शान्तिराज (शास्त्री)	१६३, २२२
बृत्ति(चूर्णि) सूत्र	६६०	शान्तिवर्मा (कदम्बराजा)	६७१
बृहद्वादिप्रवन्ध ७२६, ५७०, ५७१	५७०	शान्तिवर्मा (समन्तभद्र)	१५४, १५६
बैष्णा (नदी)	८३	शान्त्याचार्य	२६६
बैष्णातट	८३	शान्तिवाहन (राजा)	४७ ५१, ५२,
बैदना (आगम-स्तुति-विशेष)	८६	५५	५५३
बैदिशा (भिन्नसा)	१७३, २८१	शास्त्रवार्तासमुच्चय	५५३
बैभार (पर्वत)	८	शिमोगा (नगर)	२२२
बैशाली	१	शिवकुमार (कुन्दकुन्दाचार्यशिष्य)	२३०
ब्यास्यप्रज्ञाति	१३६	शिवकोटि (राजा)	२२२, २२३, २२५
शब्दाल	२८, ५३, ५४	२२६ २२७, २२८ २२९, २३०,	२३६, ४६६
शकराज(जा) २७, २८, ३०-३२, ३६,	४७, ५४	शिवमाटि (तत्त्वार्थसूत्र-टोकाकार)	
		२०६ २२६ ५८२ ६६२, ६६१,	
		६६४	
		शिवमाटि (रत्नमालाकार)	४३१
		शिवजीलाल	४८६, ४८७
		शिवदेव (लिङ्गद्वि)	२३०
		शिवमूर्ति	५४६

नामाङ्कुकमणी	ज्ञेय		
शिवमार (गमराजा)	२३० श्रीतन्दी	२२७	
शिवमृगेशवर्मा (कदम्बराजा)	२३० श्रीपाल	६४०, ६४४	
शिवधी (आंध्र)	२३० श्रीपालचरित्र	२२८	
शिवस्कन्दवर्मा (पञ्चवराजा)	२२६ २३० श्रीपुर	६२२	
शिवस्कन्दवर्मा (कदम्बराजा)	२३० श्रीपुर-पाश्वनाथ-स्तोत्र	६३७	
शिवस्कन्दवात्कर्णि (आंध्र)	२३० श्रीपुरान्वय	६०३	
शिवायन	२२३, २३८, २३९ श्रीविजय (प्रपराजितसूरि)	४४७	
शिवार्य (शिवकोटि)	४८५, ४९५ श्रीविजयगुरु	६२२	
शीलपाहुड	६४ श्रीपुरुष	६२२	
शुभकीर्ति	६४४ श्रीवद्वंद्वेव	६६३, ६६४	
शुभचन्द्र	४७१, ४६३, ४६६ श्रीविजय शिवमृगेशवर्मा (कदम्बराजा)	६७२, ६७३	
शुभचन्द्राचाय	१०७, १६३, १६४, १८५, १६३ श्रुतभक्ति	६६	
शुभराष्ट्रेल्गोल	५१, ८६, १०५, १५१, १५६, १६६, १६७, २२४ २२५, २३६, २८१, ३१६, ६३८ ६४६, ६८२, ६६३ श्रुतमूलि	२८१	
शुभराष्ट्रेल्गोल-शालासेत्त	४७२, ५५६, ६०४ श्रुतसागर ११६, २८८, २८९, ६६३	६६३	
श्रीकठ (शिवकाटि पुत्र)	२२३ श्रुतसागरसूरि	६४, १०८	
श्रीकृष्णवर्मा	६७३, ६७४ श्रुतसागरी (टीका)	२८८	
श्रीचन्द्र	४८६, ४८८ श्रुतावतार	८०	
श्रीचन्द्र-टिप्पणि	४६० श्रेणिक (राजा विम्बसार)	६, ३८,	
श्रीचर्न्द्र सूरि	५०२ ६३, २२७	६०४	
श्रीधर	२५६ इलोकवार्तिक १०७, १८६, १८८,	१८८	
श्रीधर-श्रुतावतार	५१८ २००, २७६, २८०, २८०, २८१	२८१	
श्रीनन्दिगणो (मुनि)	६२२ ३०६, ३१२, ३२२, ४७४, ६३८	६४८	
		६४३, ६४४, ६४७, ६५०, ६५८	
		६६०, ६६२, ६६३, ६६६, ६६६	
		इलोकवार्तिकालकार	६४८
		श्वेताम्बरपट्टाकली ४८२, ५६३, ५७४,	५८२

ज्येष्ठाम्बर महाश्रमणसंघ	६७२	१४६, १५०, १५७-१६०, १६१,
अट्टलगढ़ागम ८६, १३५, २५०, २६६	५५६	१६४, १६७-१६९ १७४ १७८,
अट्टदर्शनसुच्चय	५१४, ५५३	१८१-१८३, १८७, १८३, १८५,
बट्टप्राभूतटीका	१६६	२०१-२०६, २१४, २१५, २१८,
सकलचन्द	६२२	२१६, २२१-२२५, २२७, २३१,
सतीशचन्द्र (डाक्टर)	२४६, ३०४, ३०८, ३११	२३३, २३५-२३६, २४१, २४३- २४७, २५०, २५२, २५५, २५८,
सतीशचन्द्र विद्याभूषण	६१६	२६५-२६७, २७०, २७१,
सत्यवाक्याधिप	६४७	२७३-२७६, २७८-२८०, २८४,
सत्यशासनपरीक्षा	१८६	२८६, २८८, २९१-३००, ३०२- ३०४, ३०७-३१०, ३१३,
सत्साधुस्मरणमंगलपाठ	१६५, २४२, २४३, ४६६, ५६५	३१५-३२०, ३२३, ३२६,
सदासुख (प०)	४८६, ४८७	३२७, ३३०, ३३१, ३३४,
सन्मति	२, ३, ४३, ५१३	३३५, ३४६, ३५५, ३५६,
सन्मतितकं (टीका)	५१६, ५५०, ५५१	३६१-३६३, ३७६-३८१, ३८३,
सन्मतितकं प्रकरण	५०१, ५२५, ५२६ ५६४	३८५, ३८७, ३८८, ४०६, ४०८,
सन्मति-प्रस्तावना	५४४	४११, ४१४, ४१६, ४२४, ४२८,
सन्मतिसागर	४६५	४३१, ४३५, ४६२-४६६, ४७१,
सन्मतिसूक्त	४६७, ५०१, ५१५, ५१७, ५२५-५२६, ५३०, ५३२,	४७६, ४८२, ५११, ५१६, ५२७,
	५३३, ५३५, ५३७, ५४३,	५३०, ५३३, ५३८, ५५६, ५५८,
	५५४, ५५५, ५५६, ५६०,	५६४, ५६७, ५६८, ५८१, ६४२,
	५६५, ५६६, ५६८, ५६६, ५७३,	६५५, ६८६, ६८०-६८७
	५७५, ५७७, ५७८, ५८१, ६१७	समन्तभद्र (नन्दिगण-देवीगण) १६०
समन्तभद्र (स्वामी-प्राचार्य)	२३,	समन्तभद्र (विषमपद-तात्पर्यबृत्ति- कर्ता) २४६
		समन्तभद्र-मारती ३४१, ३६०, ३६२
		समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र १६५, २६०,
		६४६

समन्तभद्र-महाभाष्य	२६३	सगाहणी (संग्रहणी)	५६९, ५६३
समन्तभद्र-स्तोत्र	३४८	सगिराज (राजा)	६४३
समन्तमध्यानव्य	२७७	सब्दय (मुनि)	३
समेवसार १०, २६६, ४८०, ५०५, ५७६, ६६०		सस्कृत भाराष्ट्रा	४८६
समराहचक्रहा	५३	सापात्यपू	१०४
समरादित्य	५७२	सागारघर्मायुत	१६८, ४६३
समाधित्र ६४, २१५, २१६, २२०, ४३७, ४६२, ४६६		सागारघर्मायुतिका	२४६
समाधिशतक	३४०	सामग्रामसुत्स (मजिममनिकाय)	४२, ४३
समीचीनघर्मशास्त्र (खुकरण) २६४ ३५६ ४१८, ४३३ ४३४, ४७६		सामन्तभद्र	६८६
समुद्रगुप्त	२२६	सामन्तभद्रमहाभाष्य	२८१ २८२
सम्यक्त्वप्रकाश ६३८, ६४१, ६४६, ६५७, ६५८-६६१, ६६४, ६६६, ६६३, ६६४		सारसवह	३२६
सर डब्ल्यू एलियर	६७०	सासुवक्षणादेव (राजा)	६४३
सरस्वतीगच्छ	१०४	सात्प्रभलिताराय (राजा)	६४३
सर्वंगुप्तगणी	४८५	साहस्रुग (राष्ट्रकूट राजा) वन्तिदुर्ग) " "	३००
सर्वदशेनसप्रह	३००	साहित्यसशोधक	२०२
सर्वेनन्दी (आचार्य) ५६३, ५६४, ५६८, ६०७, ६०८ ६०९		सिद्धचक्र (लघु)	६४०
सर्वार्थसिद्धि ६६, ११०, १११ १२५, २४६, २८८, २८६, २१६, ३२३ ३२५, ३२७ ३३०-३३९ ४७३ ४७४, ४७५, ५५५, ५५८, ६२०		सिद्धचक्र (वृहत्)	६४०
" ६२८, ६६०, ६८६		सिद्धमत्ति	६५, ४०६
सर्वार्थसिद्धि-टीका	२८४	सिद्धम्य (विद्वान्)	१०६
		सिद्धपि (न्यायावतार-टीकाकार)	५१७,
		५३६, ५५८	
		सिद्धयेन ११६, १२७, १३१, १४७, २६६, ३१४-३१७, ५१३, ५१४, ५१७, ५२७, ५२६, ५३१, ५३४, ५३७, ५४३-५४५, ५४८, ५५४ ५५५, ५६०-५६३, ५६५-५७०	
		५७३, ६६७	

सिद्धसेनमही	१२७-१२८, १४१, १४४, ५८१	३२७, ३२८, ३३०, ३३१, ३०१- ३०४, ५१५-५१७, ५१८, ५२०,	
सिद्धसेन दिवाकर	२३८, ५१५, ५१७ ५२५, ५२१, ५४२, ५४६, ५४८, ५६४ ५७०, ५७१, ५७२, ५७४, ५७५	५२५, ५२६, ५२८-५३१, ५३३, ५४१ ५४५, ५४८ ५५०, ५५१, ५५४, ५५७, ५६०, ५६३-५६५, ५७१, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२,	
सिद्धसेनाकार्य	५२०, ५३१, ५३२, ५३८, ५४३, ५४४, ५५१, ५५६, ५६६, ५६७, ५७५, ५७७, ५८२	६८१, ६८६	
सिद्धहेमशब्दानुशासन	२०२	सुतपाहुड	६२
सिद्धान्तकीर्ति	६४४	सुदर्शनचरित्र (विज्ञाननिष्ठुन)	६५७
सिद्धान्तकास्त्र	२७५	सुधमंस्तवामी	८७
सिद्धान्तसारसप्तह	१६१, ४६३	सुन्दरसूरि	५७१
सिद्धार्थ (राजा)	१, २	सुभद्रा	८२
सिद्धापदेव	८१	सुधापितरलमन्दोह	३३
सिद्धप्रिय (स्तोत्र)	३५८	सुषमति (सम्मति देव)	५०५
सिद्धविनिश्चय	५०२	सूत्रपाहुड	६६०
सिद्धविनिश्चय-टीका	३१७, ५८१	सेनगण (सघ)	५६६
सिद्धव्येयसमुदय (सक्षस्तव)	५१४	सेनगणकी पट्टावली १६०, २२५, ५६६, ५७५	
सिन्धु (देव)	१७२, २४१	सोमदेवसूरि	४८३
सिन्हनिंद्यन्दी)५६४, ६४४, ६६०-६६४		सोमिल यं	५६
सिंहवर्मन् (बौद्ध)	२२६	सौदन्ति	२८१
सिंहवर्मी	५६३	सौराष्ट्र (देव)	३५, १०६
सिंहविष्णु	२२६	सौर्यपुर (सूरत)	४६
सिंहास्त्र	५६३, ५६५ ६०८	स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्यम	
सीमधरस्तवामी	८६, ६५४, ६५५	१५६, १५८, १६२, १७६	
सुखलाल (देवो विद्वान्)	११३, ११६, ११८, १२७, १३०, ३२४, ३२५,	स्तुतिविद्या (जिनशतक) १५२, १६२, २६३, २६४, ३४०, ३४५, ३४६, ३५५, ३५६, ३५८, ४०४, ५६५	

नामांकुशणी	पृष्ठा
स्वानाम (सूत्र)	१३४
स्वादावर्जनी	२८२
स्वादादलाकर	२६६, ५७२
स्ववन्मूस्तुति (प्रथमा द्वाचिका)	६१७
स्ववन्मूस्तोत्र (उच्चतमदास्तोत्र)	१५३, ११९, २०२, २०३, २०५, २१२, २१७ २२० २४१, २४२, २६२, ३३१, ३३२, ३३५ ३४५, ३५८, ३६०, ३६१, ३७६, ४२२, ४७८, ५१६, ५२७, ५६०, ५६२ ५६३-५६५, ५४०
स्वामिकातिकेष	४६, ७६, ४८२, ४१४ ४१७
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा	६२१, ६२२
स्वामिकुमार	४४२, ४९६, ५००
स्वामिभासेन	६७०
स्वामीसमन्तभद्र (इतिहास)५५८, ६०३	
हनुमच्चरित	१६५
हरिवद्य	६५०
हरिमद (स्वेऽपाचार्यं)	११६, १२७, ५३०
हरिवद्युरि	१६६, २६६, २६८, ३१०, ५१३, ५१४, ५४५, ५५१, ५५३, ५६६, ५७२, ५७३, ५७५, ५८४
हरिवद्यर्थ	२७, ३०, ३१, १११, २६४, ३६१, ५०४, ५६७, ५८१, ५८२, ६२१
हरिवेण-कवकोष	४४७
हर्मनजकोषी	५३८, ५३९
हस्तिमत्त्व (कवि)	२५३, २७२, २७४, २७६
हारितीपुत्र	६७१
हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास	३०८
हिस्टरी आफ कनडीज सिटेकर	१६२, १७१ १७७, ६६०
हिस्टरी आफ मिडियावल स्कूल	
आफ हिंदियन लाइक	२८५, ३०४, ३०६ ३०८, ६५२, ६६६,
हीरालाल (प्रोफेसर)	२५०, ४३१
हुएलसाङ्ग (चीनी याची)	१७१, ५४६
हुमच (याम)	६६१
हेगडेवन कोट	२२२
हेतुबक्षडमरु	३०८
हेमचन्द्र (स्वेऽपाचार्यं)	३८, ३९, ५०, ४२, ११८, २०२, २५६, २७६, २८२, ५७२
होम्यसल-राजपुर	६४४

लेखकको कुछ अन्य विशिष्ट कृतियाँ

- १ प्रथ-परीक्षा (प्रथम भाग) — उमास्वामिकावकाचार, कुम्हकुम्हवावकाचार और जिनसेन-विवरणीचारकी परीक्षाएँ।
- २ " (द्वितीय भाग) — भद्रकाहु-सहिताकी परीक्षा।
- ३ " (तृतीय भाग) — सोमसेन-विवरणीचार घर्मपरीक्षा (द्वे०) पूज्यपाद-ठपालकाचार, घकलक-प्रतिष्ठापाठकी परीक्षाएँ।
- ४ " (चतुर्थ भाग) — सूर्यप्रकाश-परीक्षा।
- ५ जिनपूजाविकार-भीमासा-मूजाश्रिकार-विषयक विवेचनात्मक निबन्ध।
- ६ उपासनात्मक — उपासना-विषयक शिदान्तोका प्रतिफादक प्रबन्ध।
- ७ विवाह-समुद्रेश्य — विवाहका सप्रमाण मार्यिक और तात्त्विक विवेचन।
- ८ विवाहस्त्रे-प्रकाश — विवाहके विद्वान् लेत्रका सप्रमाण निकलण।
- ९ जैनाचार्योंका शास्त्रन-भेद — जैनाचार्योंके मत-भेदोंका सप्रमाण दिग्दर्शन।
- १० स्वर्वभूस्तोत्र — तूतन पद्मतिसे, लिखित विशिष्ट हिन्दी अनुवाद।
- ११ शुक्लचनुशासन — नई हीलीमे निमित्त सर्व प्रथम हिन्दी टीका।
- १२ समीक्षीन-घर्मशास्त्र — गम्भीर विवेचनादिके साथ निमित्त हिन्दी भाष्य विस्तृत प्रस्तावना-सहित।
- १३ प्रभाचन्द्रका तत्त्वार्थसूत्र — तुलनात्मक सुवोध हिन्दी व्याख्यादिक।
- १४ पुरातन जैनवाक्य सूची — ६४ प्राकृतग्रन्थोंकी विशाल पद्धानुक्रमणी।
- १५ सत्पाद्मस्मरण-मंगलपाठ — २१ आचार्योंके १३७ पुष्पस्मरणसानुवाद।
- १६ अनेकान्तरसंखारी — दुर्गम अनेकान्तवादकी सुगम कुंजी।
- १७ इम दुखी क्यों? — दुखके कारणोंका सम्युक्तिक प्रकल्पण।
- १८ समन्तभद्रविचारदीपिका — समन्तभद्रके कुछ विशिष्ट मन्तव्योंपर प्रकाश।
- १९ महावीरके सर्वदिव तीर्थ — महावीरके सर्वद्वितीय तीर्थका निरूपण।
- २० सेवाधर्म — सीक्षेवाकी घर्मस्पर्मे घपूर्वं व्याख्या।
- २१ परिप्रहका प्रायशिच्छन — परिप्रहको पाप सिद्ध कर उसका प्रायशिच्छत विवान।
- २२ सिद्धिसोपान — बाऽपूज्यपादकी सिद्ध भक्तिका विकसित हिन्दी पद्धानुवाद।
- २३ मेरी द्रुक्ष्यपूजा — जैनोंमें प्रचलित द्रुक्ष्यपूजा पर नया प्रकाश पद्धमय।
- २४ बाहुबलि-जिनपूजा — गोमटेश्वर बाहुबलीके चरितसे परिपूर्ण पद्धरचना।
- २५ महावीर-जिनपूजा — महावीर-जीवन-वाणी-सारदीपिका घपूर्वं पूजा।
- २६ बीर-पुष्पाङ्गालि — 'मेरी भावना' आदि अनेक काव्यकृतियोंका संग्रह।

